
Printed by R. D. Desai at his New Bharat Printing Press, 6 Kelewadi, Bombay 4,
and Published by Pandit Nathuram Premi, Secretary,
Manikchand Dīgambara Jaina Granthamālā,
Hirabag, Girgaum, Bombay 4.

माणिकचन्द्रदिगम्बरजैनग्रन्थमालाया एकचत्वारिंशत्तमो ग्रन्थः

महाकविपुष्पदन्तविरचितं
त्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकारं नाम
अपभ्रंशभाषानिबद्धं

महापुराणम्

तस्यायं
उत्तरपुराणप्रथमार्धभूतः
द्वितीयः खण्डः

पुण्यपत्तनस्थवाडियाकॉलेजाख्यविद्यामन्दिरनियुक्तेन
संस्कृतप्राकृतादिभाषाध्यापकेन
वैद्योपाह्वपरशुरामशर्मणा
संपादितः

प्रकाशिका

माणिकचन्द्रदिगम्बरजैनग्रन्थमालासमितिः

विक्रमाब्दाः १९९६]

[ख्रिस्ताब्दाः १९४०

मूल्यं दश रूपिकाः

TABLE OF CONTENTS

PREFACE	vii
INTRODUCTION	ix-xxi
1. Critical Apparatus	ix
2. Summary of Contents	x
3. The Appendices	xxi
TEXT WITH CRITICAL APPARATUS & FOOT-NOTES	... १-५२५
३८ अजियणिन्वाणगमणं अट्टतीसमो संधि	३
३९ सयरणिन्वाणगमणं एकूणचालीसमो संधि	२०
४० संभवणिन्वाणगमणं चालीसमो संधि	३२
४१ अहिणंदणणिन्वाणगमणं एकूचालीसमो संधि	४५
४२ सुमह्णिन्वाणगमणं दुचालीसमो संधि	५८
४३ पउमप्पह्णिन्वाणगमणं तियालीसमो संधि	६८
४४ सुपासणिन्वाणगमणं चउयालीसमो संधि	७८
४५ पउमणाहवइजयतसंभवो पंचचालीसमो संधि	८५
४६ चंदप्पह्णिन्वाणगमणं छायालीसमो संधि	९६
४७ सुविहि (पुप्फयंत) णिन्वाणगमणं सत्तचालीसमो संधि	१०५
४८ सीयलणाह्णिन्वाणगमणं अट्टयालीसमो संधि	११६
४९ सेयसणिन्वाणगमणं एकूणपण्णासमो संधि	१३०
५० बलएववासुदेवउप्पत्ती पण्णासमो संधि	१३९
५१ सिंघमारणं कोडिसिल्लुच्चायण एकवण्णासमो संधि	१४७
५२ विजयतिविट्ठहयगीवकहतरं दुवण्णासमो संधि	१५८
५३ वासुपुज्जणिन्वाणगमणं तिवण्णासमो संधि	१८१
५४ अचलदुविट्ठतारयकहंतरं चउवण्णासमो संधि	१९०
५५ विमलणाह्णिन्वाणगमणं पचवण्णासमो संधि	२०२
५६ धम्मसयंभुमहुकहतरं छप्पण्णासमो संधि	२०९
५७ संजयंतमेरुमंदरकहंतरं सत्तवण्णासमो संधि	२१७
५८ अणतसुप्पहमहसूयणकहंतरं अट्टवण्णासमो संधि	२३६
५९ धम्मसुदंसणाइकहंतरं एकूणसट्ठिमो संधि	२४९
६० सतिणाहभवावलिवण्णं सट्ठिमो संधि	२६५
६१ वजाउहचक्कवट्ठिवण्णं एकसट्ठिमो संधि	२८४
६२ मेहरहतित्थयरगोत्तणिबंधणं दुसट्ठिमो संधि	२९९
६३ संतिणाह्णिन्वाणगमणं तिसट्ठिमो संधि	३१२
६४ कुशुणिन्वाणगमणं चउसट्ठिमो संधि	३१९
६५ अराणिन्वाणगमणं परसुरामविहवो पंचसट्ठिमो संधि	३२६
६६ सुभउमचाक्किहंतरं णंदिसेणपुंडरीयणिसुभकहतरं छसट्ठिमो संधि	३४१

६७	मल्लिगाहणिव्वाणगमण पउमचाक्किणंदिमित्तदत्तयत्रलिपुराणं सत्तसट्ठिमो संधि	३४८
६८	मुणिसुव्वयणिव्वाणं हरिसेणकहतर अट्टसट्ठिमो संधि	३६०
६९	रामलक्खणुप्पत्ती जागणिवारणं एक्कणहत्तरिमो संधि	३६८
७०	सीयाविवाहकल्लणं सत्तरिमो संधि	३९०
७१	णारयआगमण रावणमणखोहणं एक्कहत्तरिमो संधि... ..	४०३
७२	सीयाहरणं दुसत्तरिमो संधि	४१७
७३	सुग्गीवहणुमंतागमण सीयादंसणं तिसत्तरिमो संधि	४२६
७४	हणुमंतदूयगमणं चउहत्तरिमो संधि	४४६
७५	वाल्लिणहणण रामलक्खणविल्लासाहणं पंचहत्तरिमो संधि	४५७
७६	गंदणवणमोडणं लंकाडाहं छहत्तरिमो संधि	४६५
७७	राह्वरामवलसंणहणं सत्तहत्तरिमो संधि	४७३
७८	रावणणहणणं विहीसणपट्टवंधो अट्टहत्तरिमो संधि	४८३
७९	रामलक्खणगुणक्कित्तण हरिसेणचक्कवट्टिकहतरं एक्कणासीमो संधि	५०४
८०	णमिणिव्वाणं जयसेणचक्कहरकहंतर असीतिमो संधि	५१३

NOTES	527-559
APPENDIX : I दिगम्बरमतेन तीर्थेकरमूर्तिविज्ञानम्	560
APPENDIX : II तीर्थेकरपित्रादिवर्णनपट्टिका	561-563
APPENDIX : III गणघरसंख्या	564-565
APPENDIX : IV चक्रवर्तिपित्रादिवर्णनपट्टिका	566-567
APPENDIX : V बलदेववासुदेवप्रतिवासुदेवाः	568-569
ADDENDA ET CORRIGENDA	570

PREFACE

THE first Volume of the Mahāpurāṇa of Puspādanta containing the first thirtyseven samdhis out of a total of one hundred and two was issued in 1937 as No 37 of the Manikchand Dīgambara Jaina Granthamālā, Bombay, under the kind patronage of the Trustees of that Series. I am now issuing the second Volume of the work containing the next forty-three samdhis (xxxviii-lxxx) in the same Series as No 41 and under the patronage of the same Trustees as also of the University of Bombay. I hope to issue the third and the last Volume of the work within a year from now.

It is my pleasant duty to thank all those who have assisted me in the production of this second Volume. In the first place I should like to thank most heartily the Managing Trustee of the Manikchand Dīgambara Jaina Granthamālā, Mr. Thakordas Bhagwandas Javeri, who, in spite of low funds of the Mālā, agreed to finance the publication. To Pandit Nathuram Premi and Professor Hiralal Jain of King Edward College, Amraoti, the Secretaries of the Mālā, I owe a special debt of gratitude. The funds of the Mālā, after the publication of the first Volume of the work, were completely exhausted, and I feared that I would be forced to abandon the work unfinished, but these learned scholars moved heaven and earth to find out the required amount for publication. I am to thank Professor Hiralal Jain specially for his having secured for my use the Ms of the Uttarapurāṇa designated A in the Critical Apparatus and also of the Tīppaṇa of Prabhācandra from Master Motilal Sanghī Jain, Sanmati Pustakalaya, Jaipur, who very kindly placed them at my disposal as long as I wanted them for collation work. My thanks go to Master Motilal for this kindness. Mr R. G Marathe, M A, formerly my pupil and now Professor of Ardha-Māgadhī at the Willingdon College, Sangli, helped me for the collation of this Volume also. My thanks go to him for the help he rendered me. Nor should I forget to mention thankfully the work of Mr R. D Desai of the New Bharat Printing Press, Bombay, and his willing staff of Proof-readers and Pressmen who are responsible for the excellent get-up and faultless execution of this Volume. I must particularly mention here that the brief Corrīgenda at the end of the Volume is not at all due to their negligence but to oversight on my part.

Lastly, the Editor and the Publishers acknowledge their indebtedness to the University of Bombay for the substantial financial help (Rs 650/-) it has granted towards the cost of publication of this Volume.

INTRODUCTION

1. Critical Apparatus

THE Text of Mahāpurāṇa or Tisatthimahāpurisagunālamkāra of Puspadanta in this Volume is based upon three Mss designated K, A and P which are fully collated. Occasional help for the purpose of settling the text was also derived from the Tippana of Prabhācandra. I give below the full description of this material —

(1) K. This Ms. is fully described in my Introduction to Vol I on pages xi and xii. The Uttarapurāṇa portion begins on leaf No 289 of this Ms. As this Ms was found to contain the older of the two recensions of the Ādipurāṇa with corrections to accord with the other recension, I have relied upon it for the constitution of the text in this Volume. It is to be regretted that no Ms corresponding to Ms G of the Ādipurāṇa Mss could be discovered for this Volume. I may say here that the No of the Uttarapurāṇa Mss known to me is much smaller than those of the Ādipurāṇa.

(2) A. This Ms was obtained for me by Professor Hiralal Jain of the King Edward College, Amraoti, from Master Motilal Sanghi Jan, Sanmati Pustakālaya, Jaipur. It consists of 423 leaves measuring 13 inches by 5 inches with 11 lines to a page and about 40 letters to a line. This Ms presents in its original form a recension as in P, but seems to have been corrected to another recension no longer available to me with the result that the variants recorded are those of the corrected recension. The Ms further seems to have been made up of (a) leaves of the original Ms of which a few were lost, and (b) of leaves newly added to make up the lost portion and written in a different hand. This hypothesis of mine is supported by reference to Folio No 383-384 which leaves half the page blank in order that the matter should run on with the first syllable on Folio No 385 of the original part. The pages so substituted have nine lines to a page and about 38 letters to a line. That this Ms. presents a recension different from those of K and P is clear from the fact that it contains Praśasti Stanzas 46, 47 and 48 (See Introduction to Vol I, page xxvii) which are not common to any other Ms of the Uttarapurāṇa. The Ms begins ॐ नमो वीतरागाय । बंभहो बंभालयसामियहो and ends इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुण्यतविरइए महाभव्वभरहाणुमण्णिए महाकव्वे दुउत्तरसयमो परिच्छेओ समत्तो ॥ संघि ॥ १०२ ॥ इति उत्तरपुराण समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ कल्याणंमस्तु ॥ संवत् १६१५ वर्षे माघदि ६ सुक्रवासरे उत्तरपुराणं समाप्त ॥ बाईहटोपठनार्थं ज्ञानावर्णीकर्मस्वयार्थं ग्रथसंख्या ॥ १२००० ॥

This last page however is not the original page of the Ms but is newly written. According to this colophon the Ms is dated Friday, the 6th day of the month of Māgha (Feb-March) of the Samvat year 1615, corresponding to 1558 A. D.

(3) P. This is Ms No 1106 of 1884-87 of the Deccan College Collection, now deposited in the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. It has 681 leaves measuring 11 inches by 4½ inches with 8 lines to a page and 33 letters to a line. It is dated the full-moon day of the month of Bhādrapada (Aug-Sept) of the samvat year 1630 corresponding to 1573 A. D. The last page of the Ms is damaged and hence it was rewritten on the 6th day of the bright half of Āsādha (July) of the samvat year 1934 corresponding to 1877 A. D. It has a brief marginal gloss. It begins; ॐ नमो वीतरागाय ॥

वंभहो वंभालयसामियहो... The original page ends · इय महापुराणे.....दुदत्तरसदसो परिन्हेओ समत्तो. In second hand we have further · सवत् १६३० वर्षे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमातिथी क (विवासरे उत्त) राभाद्रपदानवत्रे नेमिनाथचैत्यालये श्रीमूलसधे बलात्कार...छे श्रीकुंदकुंदान्वये..... The replaced page ends बलदेवदास टौंग्याकाकारज मीती असाडमुदी ६ समन १९३४ का साल्म श्रीवीथामंडीका मदर पंचाइतीमंदरने चडायो ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥

This Baladevadāsa had before him the damaged page of the Ms in two parts, the first part of which is still preserved alongwith the Ms at the Institute. The year 1630 put on the original page and the Pattāvāli portion on the original page seems to have been written in a different hand.

In addition to these three Mss fully collated, I have made full use of the Tīppaṇa of Prabhācandra, a Ms of which was procured for my use by Professor Hiralal Jain from Master Motilal Sanghi Jain of Jaipur. This Ms of the Tīppaṇa has 57 leaves measuring 12 inches by 5 inches with 13 lines to a page and 31 letters to a line. It begins : ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ वंभहो परमात्मन, and ends · श्रीचिक्रमादित्यसंवत्सरे वर्षाणामर्गात्यधिक-सहस्रे महापुराणविषमपदविवरणं सागरसेनसैद्धान्तान् परिजाय मूलटिप्पणका चालोक्य कृतमिदं समुच्चयटिप्पणं ॥ अज्ञपातभीतेन श्रीमद्वलात्कारगणश्रीसंघाचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना निजदोर्देहाभिभूतरिपुराज्यविज-यिनः श्रीभोजदेवस्य ॥१०२॥ इतिउत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचद्राचार्यविरचितं समाप्तं ॥ छ ॥ अथ संवत्सरे-स्मिन् श्री नृपविक्रमादित्यगताद्दः संवत् १५७५ वर्षे भाद्रवा सुदि । बुद्धदिने । कुरुजांगलदेसे । सुलितान सिकंदरपुत्रु सुलितानब्राह्मिमुराज्यप्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वये पुष्करगणे । महारकश्रीगुणमद्रसूरिदेवा : । तदाम्नाये जैसवालु चौ. टोडरमल्ल । इदं उत्तरपुराणटीका लिखापितं । सुभ भवतु । मांगल्यं ददाति लेखकपाठकयोः ॥ छ ॥

The colophon of this Ms raises some interesting problems which have been fully discussed in my Introduction to Vol I, page xv, and hence it is not necessary to restate and reexamine them here I need only say that I have made full use of this T as also of the marginal gloss in K and P in constituting my text and in preparing my Foot-Notes.

There is one more Ms of the Uttarapurāna known to me. It is deposited in the Balātkāra Gapa Jan Mandir at Karanja, Berar, and bears No 7029 in the Catalogue of Sanskrit & Prakrit Mss in the C P. and Berar, by the late Rai Bahadur Hiralal. This Ms is dated Thursday the 8th day of the dark half of Mārgaśīrsa of the samvat year 1606, i e., 1549 A. D. I have personally examined this Ms at Karanja during my visits to that place in 1927 & 1929, have had some trial collations, was promised the loan of it by the trustees of the temple, but could not get it when I actually required it owing to some strange attitude which the trustees then took From my trial collations however, it appears that this Ms agrees very closely with P which is fully collated for this edition

I have constituted my text in this Volume on the material described above. In doing so I have mostly relied upon the text as preserved in K which was found to represent the earliest of the three recensions of the Uttarapurāna.

2. Summary of Contents

This second Volume of the Mahāpurāna contains samdhis XXXVIII-LXXX of the great epic, and describes the lives of twenty Tirthāṅkaras beginning with Ajta the

second and ending with Nami the twenty-first, eight each of the nine Baladevas, Vāsudevas and Prati-Vāsudevas, and ten out of twelve Cakravartins from Sagara to Jayasena. In narrating these lives the poet has followed the information handed down by tradition and seems to have been greatly influenced by Gunabhadra's Uttarapurāna in Sanskrit. It appears that the details of the lives of these Great Men were codified by old monks, but individual poets handling the theme were free to use their poetic genius in detailed description. Vimalasūri in his Paumacariya, for instance, says.—

नामावलियनिबद्धं आयरियपरंपरागयं सन्वं ।

वोच्छामि पउमचरियं अहाणुपुण्वि समासेण ॥ १-८.

Although most of the information seems to have been codified and tabulated and handed down by tradition of each of the two schools of the Jainas, there is considerable uniformity in the subject matter. I have myself prepared some Tables and given them in the form of Appendices to this Volume. I now proceed to give the summary of contents by samdhis where such summary cannot be given in a tabular form.

XXXVIII. The Poet at the beginning offers salutations to the five Paramesthis and assures the reader to continue his work by narrating the life of Ajīta the second prophet of the Jainas. But before he proceeds he says that for some reason he was uneasy at heart and so stopped his literary activity for some time. One day the goddess of Learning appeared before him in dream and asked him to offer his salutations to the Arhats. The poet woke up but saw nobody before him. At this juncture Bharata, his patron, came to his house and asked him whether he (Bharata) offended him any way as a result of which he did not continue his work. Bharata reminded the Poet further that the life was fickle and that he should make full use of the gift of his poetic powers. The Poet then said to his patron that he was uneasy at heart because he found the world to be full of wicked people, and that, for that reason, he was not inclined to continue his composition, but that he would resume it at his request which he could not refuse. The Poet then resumes the work and narrates the life of Ajīta. For details see Notes and the Tables in Appendices I, II, and III.

XXXIX. There lived a king named Jayasena at Prthvipura, the capital of Vatsāvati in the eastern Videha. He had two sons, Ratisena and Dhrtisena by name, possessing great beauty. Of these Ratisena died early. His father, overcome by grief, and disgusted with the worldly life, gave his kingdom to his son, Dhrtisena, and alongwith his minister Mahāruta, became a monk. Both Jayasena and Mahāruta practised penance, and after death became gods named Mahābala and Maniketu. These two gods made an agreement between themselves that whoever would be born on the earth earlier should be taught by the other the highest Dharma. Of these Mahābala was born first on the earth as king Sagara of Sāketa, and in course of time became a Cakravartin. Once a monk named Caturmukha attained Kevalajñāna, on which occasion gods arrived on the earth. Sagara went there to pay his respects to the monk. Maniketu saw king Sagara there and was reminded of his promise to god Mahābala. Maniketu thereupon took the opportunity to tell Sagara how fickle the earthly prosperity was, but Sagara paid no heed to him. Once again Maniketu came to Sagara's palace to enlighten him, but this time also he failed. Now just about this time, sixty thousand sons of Sagara approached their father and asked him to give some work of command as they were tired of being idle.

Sagara at first told them that there was nothing that was left for them to do as his cakra had already achieved everything for them. His sons however insisted and then Sagara asked them to go to Mandara mountain and make some arrangement for the protection of the temples of the twenty-four Jinas built by Bharata the first Cakravartin. The sixty thousand sons of Sagara then started on their mission, dug up a huge ditch round Mandara and filled it with waters of the Ganges which flowed into the Nāgaloka. This time Maṅketu thought of enlightening Sagara by a new method. He became a big snake, looked at the sons of Sagara with anger, and burned them to ashes. Only two, Bhīma and Bhagīrathī, escaped alive. Sagara was informed of this disaster, was advised by a Brahmin on the fickleness of samsāra. Following his advice, Sagara placed his son Bhagīrathī on the throne, and with his son Bhīma, became a monk. Maṅketu was delighted to see this and showed to Sagara how he wrought about by his magic the death of his sons. All the sons were then brought to life, but they also followed their father by becoming monks. Bhagīrathī also, in due course, became a monk and attained emancipation.

XL, XLI, XLII, XLIII, and XLIV. For the lives of Sambhava, Abhinandana, Sumati, Padmaprabha and Supārśva, see the Tables

XLV. This samdhī describes the six previous births of Candraprabha the eighth Tirthamkara. In the earliest of these births, the soul of Candraprabha was born Śrīśarman or Śrīvarman, son of king Śrīsenā and queen Śrīkāntā of Śrīpura in the Sugandha country of Western Videha. Leading a pious life he was next born as a god named Śrīdhara. In the next life he was born as a son named Ajitasena to king Ajitamjaya and queen Ajitasenā of Ayodhyā in the Alakā country. This Ajitasena became a cakravartin, led a pious life, and was next born as the lord of the Acyuta heaven. After this he was born as Padmanābha or Padmaprabha, son of Kanakaprabha and Kanakamālā of the town Vastusaṃcaya in the Mangalāvātī region. In his next birth he was born as Ahamundra in the Vaijayanta heaven.

XLVI. For the life of Candraprabha as a Tirthamkara see the Tables.

XLVII. For the life of Suvīdhi or Puspadanta see the Tables.

XLVIII. Śītala the tenth Tirthamkara was in his previous life king Prthvīpāla of Susīmā. His wife, Vasantalaksmī by name, died in the prime of youth, and the king, reflecting on her death, renounced the worldly life. In his next birth he was born as a god in the Āruṇa heaven. In his next birth he was born as a son named Śītala to king Dṛḍharatha and queen Sunandā of the town of Rājabhadrā or Bhadrīlapura. On seeing a bee dead in the lotus flower, he formed a disgust for the worldly life, renounced it, and going through the usual course of a Tirthamkara, attained emancipation. After his nirvāṇa Jainism fell on bad days for want of persons preaching and practising it. There was at this time a king called Megharatha at Bhadrīlapura. He wanted to spend his wealth in making gifts to suitable persons and asked the advice of his minister what type of gift was the best gift. His minister mentioned Śāstradāna to be the best form. The king however, did not like this advice, and asked a Brahmin named Muṇḍaśālāyana who told the king that he should make the gifts to Brahmins of girls, elephants, cows etc. The king followed his advice which only went to enrich the Brahmins but did the king no good.

II. For the life of Śreyāmsa see the Tables

L, LI and LII These three samdhis describe the narrative of the first set of Baladevas, Vāsudevas and Prati-Vāsudevas During the regime of Śreyāmsa there lived at Rājagrha a king named Viśvabhūti and queen Jainī. The king had a younger brother named Viśākhabhūti and his queen was called Laksmanā Jainī gave birth to a son called Viśvanandi and Laksmanā to Viśākhanandi One day Viśvabhūti saw an autumnal cloud disappearing in the sky From this the king realised impermanence of samsāra, and giving his kingdom to his younger brother Viśākhabhūti, renounced the worldly life. When Viśākhabhūti became king, Viśvanandi became the Yuvarāja.

Now Viśvanandi once went to his pleasure garden called Nandana, and while he enjoyed life there in the company of women, Viśākhanandi saw him A desire to possess that very garden arose in his mind He went to his father and pressed him to give it to him. The king agreed to do this, called Viśvanandi and asked him to take charge of his father's kingdom, and told him further that he (Viśākhabhūti) would go to the frontier to overcome the rebelling tribes Viśvanandi did not like the idea that his uncle should go to fight, but told him that he would rather himself go for that purpose Viśākhabhūti agreed and Viśvanandi went away During his absence Viśākhabhūti gave the Nandana garden to his son Viśākhanandi When Viśvanandi returned, he found that his garden was taken possession of by Viśākhanandi Viśvanandi got angry with his uncle and cousin He wanted to attack his cousin who climbed up the tree. Viśvanandi uprooted the tree with Viśākhanandi on, and wanted to smash them both. Viśākhanandi however escaped but climbed a stone pillar which Viśvanandi smashed into pieces Viśākhanandi then ran away for life At this time Viśvanandi was filled with pity that he attacked his cousin, and made up his mind to be a Jain monk Viśākhabhūti also made up his mind to follow Viśvanandi, placed Viśākhanandi on the throne, went to the forest and practised penance. After his death he was born in the Mahāśukra heaven.

Now Viśākhanandi was overcome by a powerful enemy, and ran away from his capital. He went to Mathurā and became the minister of the king Once his cousin, the monk Viśvanandi, was going along the road on his begging tour when he was hit by a young cow that had recently delivered a calf, and Viśvanandi fell on the ground Viśākhanandi saw this from the terrace of the house of his courtesan, and insulted him. Unable to bear the insult Viśvanandi formed a hankering that he should in his next life have a revenge on Viśākhanandi After his death Viśvanandi was born in the Mahāśukra heaven where his uncle Viśākhabhūti was born Viśākhanandi also was later overcome with disgust for his conduct, practised penance, and after death was born in the same heaven

Now there lived in Alakā a king named Mayūragrīva and queen Nilāñjanaprabhā Viśākhanandi in his next life became their son and was named Aśvagrīva, a Prati-Vāsudeva. He defeated his enemies and became the lord of the three continents of the earth, i. e., an Ardha-cakravartin

There lived in Podanapura a king named Prajāpati He had two queens, Jayāvati and Mrgāvati Jayāvati gave birth to a son called Vijaya, who was Viśākhabhūti in his previous birth This Vijaya is the first Baladeva of the Jain Mythology and had a white complexion Mrgāvati gave birth to a son called Triprstha, who in his previous birth was Viśvanandi This Triprstha is the first Vāsudeva and had a dark complexion. These two step-brothers were greatly attached to each other.

LI. Once a report was brought to king Prajāpati that a terrific lion had been working a havoc on the subjects. His subjects requested him to remove this scourge. Thereupon the king himself prepared to go to kill the lion when his son Vijaya requested his father to allow him to go on that mission. The king allowed Vijaya to go, his younger brother Triprstha followed him. Both of them approached the cave of the lion, which, on being roused by the din and cry of warriors, came out, and was about to attack Vijaya, when Triprstha with his arms caught both the claws of the lion and struck it on the face. The lion fell dead.

One day the door-keeper approached the king and told him that there was at the door a Vidyādhara who wanted to see him. He was admitted to the king's presence. The Vidyādhara told king Prajāpati that he was Indra by name and had come there as a messenger of king Jvalanajati. He came there to invite the king and his two sons to the region of the Vidyādhara in order that Triprstha should lift up the huge slab of stone known as the Kotiśilā, to kill Aśvagrīva and marry his daughter Svayamprabhā, and thereafter to rule over the three continents of the earth and to make Jvalanajati the lord of both the sides of the Vaitādhya mountain. King Prajāpati accepted the invitation and went to the region of the Vidyādhara. King Jvalanajati received them well and introduced them to his son Arkakīrti. In the course of their talk it was arranged that Triprstha should first lift up the Kotiśilā which would convince them that he was capable of killing Aśvagrīva. Thereupon they all went to the forest where the Kotiśilā stood and asked Triprstha to lift it up. He did so with ease. Jvalanajati and others praised Triprstha for his great strength. Thereafter they all returned to Podanapura and celebrated the marriage of Triprstha with Svayamprabhā. The news of this marriage reached the ears of Aśvagrīva who resented the action of Jvalanajati in marrying his daughter outside his clan, i. e., in giving her to Triprstha, a human being, in stead of to Aśvagrīva, a Vidyādhara. Aśvagrīva thereupon marched against Jvalanajati and king Prajāpati even against the advice of his ministers.

LII. Spies brought the news of the arrival of the army Aśvagrīva to the gates of Podanapura. Thereupon king Prajāpati consulted with Jvalanajati as to how they should meet the situation when Vijaya told them that he was sure in his mind that Triprstha would kill Aśvagrīva. King Jvalanajati then taught Triprstha several magic lores, after which order was given to the army to march against Aśvagrīva. Before however the fight began Aśvagrīva sent a messenger to Triprstha to see if Triprstha was prepared to make peace with Aśvagrīva by handing over Svayamprabhā. Triprstha rejected the proposal. The fight began. The goddesses gave to Triprstha a bow called Śāringa, a conch called pāñcajanya, Kaustubha gem, a gadā called kaumudī, and to Vijaya a plough, a pestle and a gadā. The armies met and there was a terrible fight between them. In the course of the fight, Aśvagrīva threw his discus at Triprstha, but instead of doing any harm to him, it remained on his arm. He then used this very discus against Aśvagrīva who was killed. Immediately on his death Triprstha became the Ardha-cakravartin. Jvalanajati thereafter returned to his capital Rathanūpura, and enjoying the sovereignty of both the sides of the Vaitādhya mountain for a considerable time, became a monk. King Prajāpati also did the same.

Now Triprstha remained ever unsatiated with pleasures, died and went to the seventh hell. After his death Vijaya handed over his kingdom to Śrīvijaya, practised penance and attained emancipation. Svayamprabhā also did the same.

LIII. For the life of Vāsupūjya see the Tables

LIV. This samdhū gives the narrative of the second set of Baladevas and Vāsudevas. There lived in Vindhya-pura a king named Vindhyaśakti King Susena of Kanakapura was his contemporary Both of them were great friends Now king Susena had at his court a beautiful courtesan named Guṇamañjarī King Vindhyaśakti hearing about the beauty of Guṇamañjarī sent a messenger to Susena and asked him to send the courtesan to him This request was, of course, rejected and the two friends met in a battle in which Susena was defeated On hearing the defeat of Susena, his friend, king Vāyuratha of Mahāpura, got disgusted with the worldly life and became a monk King Susena also became a monk, but formed a hankering to avenge his defeat in one of his next births Both Vāyuratha and Susena were born in the Prāṇata heaven. King Vindhyaśakti also was born in one of the heavens

In the next birth Vindhyaśakti was born as son to king Śrīdhara and queen Śrīmatī of Bhogavardhana, and was named Tāraka, who, in course of time became an Ardha-cakravartin Vāyuratha and Susena were born sons to king Brahmā and queens Subhadrā and Uvavādevī or Usādevī and were named Acala and Dviprsthā who were the Baladeva and Vāsudeva They had an excellent elephant Now Tāraka had a desire to have that elephant and sent a messenger to Acala to hand it over As Acala refused to do so, there was a fight between Tāraka and Dviprsthā in which Tāraka was killed Dviprsthā then became the Ardha-cakravartin After death both Tāraka and Dviprsthā went to hell, and Acala, seeing the death of his brother, became a monk and secured emancipation from samsāra

LV. For the life of Vimala the thirteenth Tīrthamkata see the Tables

LVI. There was a king called Nandimitra in Śrīpura in the western Videha. One day he reflected on the impermanence of the world, renounced the pleasures, became a monk, and after death was born in the Anuttaravimāna heaven.

There lived in Śrāvastī a king named Suketu There lived in the same town another king named Bali They once indulged in the play of dice in which Suketu lost everything Out of disgust he became a monk, but while practising penance he formed a hankering that he should take revenge on Bali in the next birth Suketu, after death, was born in the Lāntava heaven Bali also was born as a god in heaven.

In their subsequent births Bali was born as a son of king Samarakesarī and queen Sundarī of Ratnapura, and was called Madhu He was a Prati-Vāsudeva and an Ardha-cakravartin Nandimitra and Suketu were born as sons to king Rudra of Dvāravatī by his wives Subhadrā and Prthivī, and were named Dharma (Baladeva) and Svayambhū (Vāsudeva) One day Svayambhū, while seated on the terrace of his palace, saw an army encamped outside the city and asked his minister whose army it was His minister told him that a feudatory named Śaśisomya sent his tribute to king Madhu and that it consisted of elephants, horses etc, which was being taken to him Svayambhū would not allow that, defeated Śaśisomya and carried off the tribute. The news reached the ears of Madhu who thereupon marched against Svayambhū In the fight that followed Svayambhū killed Madhu, and became an Ardha-cakravartin After enjoying the kingdom Svayambhū died and went to hell Dharma became a monk and attained emancipation

LVII This samdhū narrates an episode of Samjayanta, Meru and Mandara, out of which the two latter were the Ganadharas of Vimala, the thirteenth Tīrthamkata.

There are two more persons connected with the story, viz., Śrībhūti the minister and Bhādrāmītra the merchant. Of these the name of Śrībhūti is confounded with Satyaghosa. The poet describes the seven previous births of the first three and only a few of the last two. A glance at the lists given in Notes on this Saṃdhi will facilitate the understanding of the reader.

In the city of Vitasoka there lived a king named Vaijayanta. His queen was called Sarvaśrī. She gave birth to two sons, Saṃjayanta and Jayanta. One day on hearing the discourse of a Jain monk they all renounced the world. In course of time Vaijayanta secured emancipation. Gods arrived on this occasion to show their reverence to Vaijayanta. Among them was the lord of snakes who was very beautiful. Jayanta formed a hankering to have a beautiful body like that of the lord of snakes in the next birth. He was then born in the nether world as lord of snakes.

One day, when Saṃjayanta was practising the pratimās, a Vidyādhara, Vidyuddanstra by name, saw him, picked him up and threw him into the waters of the confluence of five rivers, and told the people that the monk was a demon. The people thereupon beat him, but the monk remained undisturbed, and bearing the hardships, died and attained emancipation. On the occasion of his nīrvāṇa gods arrived including Jayanta who was then the lord of snakes. Finding the plight of his brother Saṃjayanta, the lord of snakes began to attack people. They however said that they beat the monk on the report of Vidyuddanstra. The lord of snakes then caught Vidyuddanstra, and while the former was about to throw the latter into the sea, god Ādityaprabha intervened and narrated the story of the former lives of them all.

There was a king named Simhasena in the city of Simhapura. His queen was named Rāmadattā. He had two ministers, Śrībhūti and Satyaghosa. There was a merchant named Bhādrāmītra, the son of Sudatta and Sumitrā of Padmasaṇḍapura. Now this Bhādrāmītra, while wandering, obtained precious gems in Ratnavīpa, which, during his halt at Simhapura, he deposited with Satyaghosa (There is later a confusion between Śrībhūti and Satyaghosa). After some time Bhādrāmītra asked for the return of his gems, but Satyaghosa denied all knowledge of gems even though he was questioned by the king. Bhādrāmītra then went mad and ascending a tree in the neighbourhood of the king's palace, used to decry the minister. Queen Rāmadattā got angry with the minister, but arranged to play a trick on him. She arranged a game of dice with Satyaghosa, in which he lost his signet ring and the sacred thread to the queen, who then sent the ring to the treasurer of the minister through her maid, and obtained from him the gems of Bhādrāmītra. In order to ascertain that Bhādrāmītra has told the truth, the king got a few gems of his mixed with those of Bhādrāmītra, to whom they were shown. Bhādrāmītra picked only his gems saying that others were not his. The king was then pleased with him, punished the minister, treating him as a thief would be treated. The minister bore ill-will towards the king for this. In his next birth he became an agandhana snake, stood at the treasury of the king and bit him.

In his next birth Bhādrāmītra became the son of Rāmadattā, and was named Simhacandra. He had a younger brother called Pūrṇacandra.

It is in this strain that the previous lives of all the three persons mentioned at the beginning of the saṃdhi are narrated.

LVIII. For the life of Ananta the fourteenth Tirthaṅkara, see Tables

During his regime were born the fourth set of Baladeva, Vāsudeva, and Prati-Vāsudeva. Their names were Suprabha, Purusottama and Madhusūdana.

There was a king named Mahābala in Nandapura. He became a monk and after death was born in Sahasrāra heaven. There lived at this time at Podanapura a king named Vasuseṇa. His queen Nandā was very beautiful. Once his friend Caṇḍaśāsana came to stay with him, saw Nandā, fell in love with her, and asked Vasuseṇa to give her to him. He refused to do so, but Caṇḍaśāsana carried her by force. Vasuseṇa thereafter became a monk, and after death was born in the same heaven where Mahābala was born.

Caṇḍaśāsana in his next birth became the son of king Vilāsa and queen Guṇavatī of Vārāṇasī. Mahābala and Vasuseṇa became sons of king Somaprabha by his queens Jayavatī and Sītā, and were named Suprabha and Purusottama. Madhusūdana made a demand of tribute from them, and as they refused to pay it, there was a fight between Madhusūdana and Purusottama in which Madhusūdana was killed. After him Purusottama became the Ardha-cakravartin.

LIX. For the life of Dharma the fifteenth Tīrthamkara see Tables.

During his regime there appeared the fifth set of Baladeva and Vāsudeva. There was a king called Naravrsabha in the city of Vītaśoka. He practised penance and was born in the Sahasrāra heaven. At this time there was at Rājagrha a king named Sumitra. He was defeated in battle by Rājasimha. Sumitra thereupon practised penance, formed a hankering to defeat Rājasimha in the next birth, and after death was born in the Māhendra heaven. Now Rājasimha in his next birth became king Madhukrīḍa of Hastināpura. King Naravrsabha and king Sumitra were born as sons to king Simhasena and queens Vijayā and Ambikā, were called Sudarśana and Purusasimha and were the fifth of the Baladevas and Vāsudevas. King Madhukrīḍa sent his messengers to Sudarśana and demanded tribute from him which he refused. They fought. Purusasimha killed Madhukrīḍa and became an Ardha-cakravartin.

In the same regime there lived a king named Sumitra at Sāketa. He had a queen called Bhadrā. She gave birth to a son, Maghavan by name, who, having conquered the six continents of the earth, became the third sovereign of the Jain Mythology. After having enjoyed the kingdom for a long time, he renounced the world and attained emancipation.

After some time in the same regime there came the fourth cakravartin, Sanat-kumāra by name. He was the son of king Anantavīrya and queen Mahādevī of Vinītapura. He was said to be extremely beautiful. Two gods sent by Indra came to see his beauty and said to the king that his beauty would have been everlasting if there had been no oldage and death. On hearing the mention of oldage and death Sanat-kumāra renounced the world and attained emancipation.

LX. A Brahmin named Amoghajihva once predicted that within a week lightning would fall on the head of king Śrīvijaya, the son of Triprstha Vāsudeva, and that he would receive a shower of gems on his head. When the Brahmin was asked how he could predict such a thing, he said he studied the science under a famous teacher. One day, when he asked his wife for his meals, she served him only cowries in a plate, as, owing to extreme poverty, she had nothing else in her house. His wife then rebuked him that he did not work and earn money. Just at this time a spark of fire fell on his

plate and his wife disbursed a pot of water over his head. It is from this incident that he predicted the fall of lightning on the head of king Śrīvijaya and a shower of gems over his head. The ministers thereupon advised the king to abdicate the throne for a while in order to escape the calamity and to place some one on the throne for the time being. The samdhī then narrates the enmity and fight between Śrīvijaya and Amitatejas, a Vidyādhara. A monk intervenes, preaches them the doctrines of Jainism as a result of which they both become monks.

LXI. In their next birth Śrīvijaya and Amitatejas were born in heaven as gods Mamcūla and Ravicūla. In their next birth they were born as sons of Stumitasāgara of the city of Prabhāvātī by his queens Vasundharā and Anumati, and were called Anantavīrya and Aparājita. They had two beautiful dancing girls in their court which were demanded by a Vidyādhara king named Damitārī.

LX-LXIII. These four samdhīs narrate the life of Śānti together with his previous births as also of Cakrāyudha, as detailed in LXIII 11 and explained in the Notes.

LXIV. For the life of Kunthu see the Tables

LXV. For the life of Ara see the Tables

During the regime of Ara, there appeared the eighth cakravartin, Subhauma² by name. There was a king named Sahasrabāhu. His queen Vicitrāmā gave birth to a son, Kṛtavīra by name. Vicitrāmā's sister Śrīmātī was married to king Śatabindu. A son was born to them and was named Jamadagni. Owing to the death of his mother in early childhood, Jamadagni became a tāpasa ascetic. Śatabindu and his minister Hariśarman also became ascetics under Jainism and Hinduism respectively. After death Śatabindu was born in the Saudharma heaven and Hariśarman was born in the Jyotiska heaven. They both wanted to test the piety of Jamadagni, assumed the form of a couple of sparrows, built their nest in the beard of Jamadagni, and talked something insulting to him. He then got angry with the birds and threatened to kill them. One of the birds thereupon said to the sage that he did not know that he could not obtain heaven as he did not beget a son. Jamadagni was then set to thinking, went to his maternal uncle, and sought a girl for marriage. Owing to his old age however, no girl was prepared to marry him. He thereupon cursed all the girls of the town to be dwarfish or hump-backed, which town thereafter became known as Kānyakubja (Modern Kanauj). He however found his uncle's daughter, all dusty, called her Reṇukā (Dusty), attracted her by showing her a plantain, made her sit on his lap, and married her, as, he said, she liked him. In course of time she gave birth to two sons, Indrarāma and Śvetarāma. Her brother gave to her a gift of a cow that would yield everything desired, as also a charm (mantra) of axe (Paraśu). Reṇukā and her husband Jamadagni thereafter lived happily.

One day king Sahasrabāhu with his son Kṛtavīra came to her hermitage. They were both treated to a royal feast by Reṇukā. The king and his son were struck with the excellence of the food and asked Reṇukā how she, the wife of an ascetic, could treat them so sumptuously. She said that her brother had given her a cow that yielded desired things. Kṛtavīra wanted that cow, and, in spite of Reṇukā's protests, carried her off.

² The story of Jamadagni, Paraśurāma and Subhauma here is a mixture of two stories on the side of the Hindu mythology, viz., the story of the carrying away of Vasiṣṭha's cow, Nandini, by Gādhī, and of Kṛtavīrya Sahasrārjuna and Paraśurāma.

In the fight that ensued between Krtavīra and Jamadagni, Sahasrabāhu killed Jamadagni. His sons Indrarāma and Śvetarāma were away, but when they returned and learnt from their mother that their father was killed by Sahasrabāhu and his son Krtavīra, and that their cow was carried off by them, they got angry. Reṇukā taught them the Paraśu-mantra. They then went to Sāketa, killed Sahasrabāhu and Krtavīra, and all other members of the Ksatriya race twentyone times. After the extermination of all living Ksatriyas they gave the earth to Brahmins who thereafter ruled over it. Vicitramati, the queen of Sahasrabāhu, was pregnant at this time, and bore in her womb the soul of a former king Bhūpala by name, who was destined to be a cakravartin. She ran for life into the forest, and was offered shelter by a sage named Śāndilya. There in his hermitage she gave birth to a son who was named Subhauma.

LXVI Subhauma passed his childhood in the hermitage of the sage Śāndilya in the forest, and grew to be a strong and powerful youth. One day he asked his mother how it was that he did not see his father and pressed her to tell him his whereabouts. Thereupon Vicitramati narrated to him how his father Sahasrabāhu was killed by Paraśurāma.

In the meanwhile an astrologer came to the house of Paraśurāma who asked the astrologer how he would meet his death. The astrologer told him that he at whose glance the plate filled with the teeth of his enemies (Sahasrabāhu and Kṛtavīra) would turn into a plate of rice, would be his killer. Thereupon Paraśurāma established a dānaśālā in the city where Brahmins were served meals free and were shown the plate of teeth. Subhauma was asked to visit the dānaśālā to see if he was the person at whose hands Paraśurāma was to meet his death. Subhauma thereupon went to the dānaśālā, saw the plate when it turned into a plate of cooked rice. Immediately the keepers attacked young Subhauma who was unarmed. But the plate itself turned into a discus with which he killed them and also Paraśurāma. He thereafter became a cakravartin.

King Subhauma was once served a cincā fruit by his cook. He got angry with the cook and killed him for this offence. The cook was born as a Jyotiska god and assuming the form of a merchant offered the king some nice fruits. The king liked them very much and pressed the merchant to have more of them. The merchant said that gods gave him the fruits which were exhausted. As the king persisted in his demand, the merchant told him that the king would obtain them if he would accompany him to an island. The king agreed, went with the merchant who placed him on a rock and killed him. Subhauma after death went to hell.

In the regime of Ara, there appeared the sixth set of Baladeva etc, whose names were Nandiseṇa, Pundarīka and Niśumbha. For details see Tables.

LXVII For the life of Malli, see Tables.

During his regime there appeared the ninth cakravartin, Padma by name. For details of his life see Tables.

It is in the regime of Malli that there appeared the seventh set of Baladeva etc, whose names were Nandimitra, Datta and Bali. For details see Tables.

LXVIII. For the life of Suvrata see Tables.

LXIX-LXXIX. These eleven sandhis narrate the story of the eighth set Baladevas etc, and are popularly known as the Rāmāyaṇa, Paumacariya, or Padmapurāṇa. The story of the Rāmāyaṇa is so well-known that it need not be reproduced here fully. But there are some factors in the Jain version which have to be brought to the notice of the general reader. Rāma and Laksmāna in their previous births were sons respectively of king Prajāpati and his minister, and were named Candracūla and Vijaya. In youth they were intimate friends and carried off Kuberadattā, the wife of a merchant named Śrīdatta. The king got a report about this affair, got angry with them, and ordered his minister to take them to the forest and kill them. The minister took them to the forest, but instead of killing them showed them to a Jain monk, Mahābala by name, who told the minister that these youths were destined to be Baladeva and Vāsudeva in their third birth. They then became monks and practised penance. Candracūla once saw Suprabha Baladeva and Puruṣottama Vāsudeva on their way, and formed a hankering that he should have a similar fortune in his next birth. Both the young monks after death were born as gods named Maṇicūla and Suvarṇacūla. In their next birth they were born as sons to king Daśaratha by his queens Subalā and Kaikeyī, Suvarṇacūla (Vijaya in his former birth) becoming Subalā's son named Rāma, and Maṇicūla (Candracūla in his former birth) becoming Kaikeyī's son named Laksmāṇa.

According to the Jain version Sītā is the daughter of Rāvāna, a Vidyādhara, and Mandodarī. As it was predicted that Sītā would bring calamity on her father, she was put into a box and left buried in a field. She was discovered by a farmer while ploughing his fields, was brought to king Janaka, who adopted her as his daughter. He gave her in marriage to Rāma.

Once Nārada came to Rāvāna and told him that Rāma married the beautiful Sītā who was really fit for him. This created a desire in the mind of Rāvāna to have Sītā. Rāvāna then sent Candramukhī (better known as Sūrpaṇakhā) to Sītā to ascertain her mind, but she failed in her mission.

Rāvāna thereupon went in his celestial car to the forest where Rāma and Sītā were then enjoying pleasures, asked Mārīca to assume the form of a golden deer and to tempt the mind of Sītā to have it. While Rāma was away in search of the golden deer, Rāvāna carried off Sītā to Laṅkā.

Rāma made a careful search for Sītā but did not get any trace of hers. Daśaratha at this juncture dreamt a dream which indicated that Sītā was carried off by Rāvāna. While Rāma was thinking how he should proceed to search Sītā, Sugrīva and Hanūmat came to Rāma to seek his aid for Sugrīva to get his place in the kingdom of his brother Vāli. In the course of their conversation Hanūmat promised to Rāma that he would obtain the news of Sītā. Hanūmat then went to Laṅkā. Assuming the form of a bee he entered the palace of Rāvāna, searched it and at last found Sītā in the garden being coaxed by Rāvāna to yield to his desires. Rāvāna, however, did not succeed in his attempt to win her. She did not look at him. Mandodarī came there and recognised Sītā to be her daughter and comforted her. After her departure Hanūmat saw Sītā, convinced her that he was the messenger of Rāma, and conveyed to her his message. Hanūmat then returned to Rāma and told him that he saw Sītā in the garden of Rāvāna. Before Rāma undertook marching against Rāvāna he sent Hanūmat as a messenger to ascertain if Rāvāna would return Sītā peacefully, but Rāvāna insulted Hanūmat.

In the meanwhile Lakṣmaṇa fought with Vāli, killed him, and gave his kingdom to Sūgrīva. Rāma and Lakṣmaṇa practised fasts to acquire the magic lores which would enable them to fight successfully with Rāvaṇa. Vibhīṣaṇa, his brother, did not like Rāvaṇa's behaviour, left him, and came over to Rāma. Then there was a fight between Rāma and Rāvaṇa in which Lakṣmaṇa killed Rāvaṇa. After his death Rāma placed Vibhīṣaṇa on the throne of Lankā. Lakṣmaṇa thereafter became the Ardha-cakravartin. After enjoying the kingdom he died and went to hell. Rāma, grieved over the death of his brother's death, renounced the world, became a monk, and attained emancipation.

LXXX. For the life of Nami refer to Tables

For details of Jayasena the tenth Cakravartin see Tables

3 The Appendices

The monotony with which the traditional details of the lives of Sixty-three Great Men of Jain Mythology are given and a hint by Vimalasūri in his Paumacariya quoted on page xi above suggested to me the idea of tabulating the information under suitable heads. I have therefore appended to this Volume Five Tables. Appendix I gives the iconographical information about the images of the Tirthamkaras according to the school of the Dīgambaras. I have taken this Appendix from Mr. G. H. Khare's *Mūrtivijñāna*, a very valuable book in Marathi on Iconography. I have made slight modifications in Mr. Khare's Table so that the information in my Table should agree with the same as supplied in the works of Puspadanta and Guṇabhadra. Appendix II gives details about the Tirthamkaras such as their previous lives, place of birth, parents etc. Appendix III supplies the number of Gaṇadharas of different Tirthamkaras. Appendix IV supplies some information about the Twelve Cakravartins or sovereign rulers of the Jain Mythology. Appendix V gives information about the eight out of nine sets of Baladevas, Vāsudevas and Prati-Vāsudevas. The sources of my information are of course the *Ādipurāna* of Jinasena, the *Uttarapurāna* Guṇabhadra and the *Mahāpurāna* of Puspadanta, which works, I hope, represent one of the best, if not the best, of the Dīgambara tradition. At one or two places I used Svetāmbara sources as my texts failed to give, or I failed to trace therein the material. I shall be greatly obliged to scholars if they bring to my notice inaccuracies or deficiencies in them which I shall most thankfully consider.

Nowrosjee Wadia College, Poona }
August 1940 }

P. L. Vaidya

तिसद्विमहापुरिसगुणालंकारु

णाम

महापुराणु

वीउ खंडु



XXXVIII

ब्रंभहु ब्रंभालयसामियहु ईसहु ईसरवंदहु ॥
अजियहु जियकामहु कामयहु पणवित्रि परमजिणिंदहु ॥ भुवकं ॥

1

सुहयरुओहं	सुहयरुमेहं ।	
वीरमघोरं	वयविहिघोरं ।	
उवसमणिलयं	पसमियणिलयं ।	5
कंदरवालं	कंदरणीलं ।	
मंदरसित्तं	मंदरसित्तं ।	
रामारमणे	रामारमणे ।	
विणयजणाणं	विणयजणाणं ।	
जेण कयं तं	जे ण कयंतं ।	10
आलयंते	आलयंते ।	
भमइ जसोहो	भवइ जसोहो ।	

1 १ A भवइ. २ A भमइ.

1 1 a ब्रंभहु परमात्मनः; ब्रंभालयं मोक्षः. 2 a कामयहु वाञ्छितप्रदस्य. 3 a सुहयरुओहं सुष्ठु हतो रुजा रोगाणामोघो येन तम्; b सुहयरुमेह शुभतरुमेघम्. 4 a अघोर सौम्यम्; b वयविहिघोरं व्रतविधिः घोरो दुर्धरो यस्य. 5 a उवसमणिलयं उपगमस्थानम्, b पसमियणिलयं मोक्षप्रापकत्वेन प्रशमितो नृणा मनुष्याणां लघो विनाशो येन. 6 a कंदरवालं कन्दो मेघः तस्यैव स्वः शब्दो विद्यते यस्य b कंदरणीलं कन्दरे नीड गृहं यस्य. 7 a मंदरसित्तं मेरौ स्थापितम्. 8 a रामारमणे स्त्रीक्रीडायाम्; b रामारमणे रा द्रव्य मारः कामः तौ रामारौ तयोर्मथन यत्र स्त्रीक्रीडने. 9 a विणयजणाण विनयाजात विनयज तच्च तत् ज्ञानं च तत्प्रसिद्ध श्रुतज्ञानादिरूपं तदपि कृतं विनतजनानाम्. 10 a जेण कय त येन जिननायेन कृत तं वन्दे, b जेण कयत येनेत्यादि, येन पुरुषा मुक्तिप्रापकोपायानुष्ठानेनास्थितत्वात् कृतान्त यममालोकन्ते. 11 b-12 a आलयंते भमइ जसोहो येषां पुरुषाणामालोकान्ते यशओघश्च भ्रमति, किंविशिष्टो यशसामोघः. 12 b भवइ जसोहो भानां नक्षत्राणां पतिश्चन्द्रो भपतिस्तस्माज्जाना भपतिजाः किरणाः तद्वच्छोभा यस्य यशओघस्य.

णाहो ताणं	जो भत्ताणं ।	
जो भयवंतो	जो भयवंतो ।	
जमकरणवहं	जमकरणवहं ।	15
अण्णाणमहं	सण्णाणवहं ।	
णिद्दारहियं	णिद्दारहियं ।	
अवसावसणं	आसावसणं ।	
आसासमणं	आसासमणं ।	
वररमणीसं	वररमणीसं ।	20
णीसंसाळं	णीसंसाळं ।	
परसमयंतं	परसमयंतं ।	
अहिवंदिययं	सुहमिंदिययं ।	
जेणं ण क्हियं	तेलोक्हियं ।	
णिरुवमदेहं	तं वंदे हं ।	25

ग्रत्ता—पुणु पणविवि पंच वि परमगुरु णियजसु तिजगि पयासंवि ॥
 ग्रणदुरियपडलणिण्णासयरु अजियहु चरिउ समासंवि ॥ १ ॥

2

मणि जाणण किं पि अमणोज्जे कइययदियहइं केण वि कज्जे ।
 णिव्विण्णउ थिउ जाम महाकइ ता सिविणंतारि पत्त सरासइ ।
 भणइ भडारी सुहयरुओहं पणमैह अरुहं सुहयैरुमेहं ।

३ A णिद्दारहियं. ४ P जेण णं. ५ AP पयासमि. ६ AP समासमि.

2 १ A कइययदियहै, P कइययइ दियहै. २ K णिव्विणोउ थिउ but gloss निर्विण्णः;
 P णिव्विणु उड्डिउ. ३ A पणमहु; P पणवह. ४ A सुहयरुमेहं but gloss in K शुभतरुमेघम्.

13 a णा हो ताणं तेषां पुरुषाणा भक्ताना नाथ.. 14 a जो भयवतो यो ज्ञानवान्; b जो भयवंतो य. सप्तभयविनाशक.. 15 a जमकरणवह जमकरणस्य रोगादेर्वधकं विनाशकम्, b जमकरणवहं यमानां व्रतानां करणमनुष्ठान तस्य वहं पथानं धारकं वा. 16 a अण्णाणमहं अज्ञानमथकम्; b सण्णाणमहं शोभनज्ञानतेजसम्. 17 a णिद्दारहिय निद्रारहितम्; b णिद्दारहियं निर्दारमकलत्रं हित च, अथवा निर्दारा मुनयस्त्रैभ्यो हितम्.. 18 a अवसावसणं अपगतशापगद्दम्; b आसावसणं दिग्वासमम् 19 a आसासमणं इहपरलोकशोपशामकम्; b आसासमणं आसमन्तात्सा त्रैलोक्य-लक्ष्मीस्तयोपश्रुतः श्रमण.. 20 a वररमणीसं वररमणी मुक्तिवधूस्तस्या ईशः; b वररमणीसं वरं राति ददाति इति वररा वररा मनीषा बुद्धिस्ति. 21 a णीसंसाळं मनुष्यप्रशंसावन्तम्, b णीसंसाळं निर्गतसंसारम्. 22 a परसमयंतं परसमयत्यान्तो विनाशो यत्मात्, b परसमयंतं उक्तश्रोतणमेन कान्तं कमनीयं उक्तश्रोतणमतन्त्रं वा. 23 a अहिवंदिययं धरणेन्द्रस्तुतम्; b सुहमिंदिययं सुखं इन्द्रियजं येन कथितम्. 24 b तेलोक्हियं त्रैलोक्यहितम्. 26 पयासवि प्रकाशयामि. 27 समासवि संक्षेपेण कथयामि.

इय णिसुणेवि विउद्धउ कइवरु
दिसउ णिहालइ कि पि ण पेच्छइ
ताम पराइएण णयवंते
दसँदिसिपसरियजसतरुकेँदे
छणससिमंडलसंणिहवयणे

घत्ता—खलसंकुलि कालि कुसीलमइ विणउ करोप्पिणु संवरिय ॥

वच्चंति वि सुँणसुसुणवहि जेण सरासइ उद्धरिय ॥ २ ॥ 10

3

अइयणदेवियव्वतणुजाएँ
जिणवरसमयणिहेलणखंभे
मइ उवयारभाँवु णिव्वहणे
तेओहामियपवरकरहेँ
वोलाविउ कइ कव्वपिसल्लउ
किं दीसहि विच्छायउ दुम्मणु
कि किउ काइं वि मइ अवराहउ
भणु भणु भणियउं सयलु पडिच्छवि

घत्ता—अथिरेण असारें जीविण किं अण्णउ संमोहहि ॥

तुहँ सिद्धहि वाणीधेणुयहि णवरसखीरु ण दोहहि ॥ ३ ॥ 10

4

तं णिसुणेप्पिणु दरविहसंतं
कसणसरीरें सुँकुलुवें
कासवगोत्तें केसवपुत्तें
पुप्फयंतकइणा पडिउत्तउ
कलिमलमालेणु कालु विवरेरउ

जयदुँदुहिसरगहिरणिणाएँ ।
दुत्थियमित्तें ववगयडंभें ।
विउसविहुरसयभयंणिम्महणें ।
तेण विगव्वें भव्वें भरहेँ ।
कि तुहुँ सच्चउ वप्प गहिल्लउ । 5
गंथकराणि किं ण कराहि णियमणु ।
अवरु को वि किं विरसुम्माहउ ।
हउं कयंपंजलियरु ओहच्छवि ।

५ A विबुद्धउ. ६ AP विंभियमइ. ७ P दसदिस°. ८ AP °णहचदे. ९ P सवरिइ. १० A विसण्ण सुसुण्ण°. ११ P उद्धरिइ.

३ १ A अइयणदेविअव्व°, P इयणुदेवियव्व°. २ A ववगयडिंभें. ३ AP परउवयार°, ४A °भार°, P °हार°. ५ A °रय°. ६ AP पडिच्छमि. ७ A कयंपंजलि अरुहं अच्छमि. ८ PT ओहच्छमि. ९ AP तुहु

४ १ A सुद्धसुलुवें, P सुद्धकुलुवें. २ P कयकुल°. ३ A omits सरसइणिलएँ and reads उत्तमसत्ते in its place, P सरसय°. ४ P adds after this: उत्तमसत्तें जिणपयभत्ते.

2 4 a विउद्धउ जागरित.. 10 °सुसुण्ण व हि आकाशमार्गे.

3 3 b विउसविहुरसय विद्वजनकष्टगताने°, 8 b ओ ह च्छ विं एष तिष्ठामि.

4 4 b णि क्खुत्तउ निश्चितम्.

जो जो दीसइ सो सो दुज्जणु
राउ राउ णं संझहि केरउ
उव्वेउ जि वित्थरइ णिरारिउ

यत्ता—दोसेण होउ तं णँउ भणमि चोञ्जु अवरु मणि थक्कउ ॥

जगु एउ चडाविउं चाउं जिह तिह गुणेण सह वंकरुं ॥ ४ ॥ 10

5

जैइ वि तो वि जिणगुणगणु वण्णवि
चायभोयभोउग्गमसत्तिइ
राउ साल्वाहणु वि विसेसिउ
कालिदासु जै खंधे णीयउ
तुहुं कइकामधेणु कइवच्छलु
तुहुं कइसुरवरकीलागिरिवरु
मंदु मयालसु मयणुम्मत्तउ
केण वि कव्वपिसल्लउ मण्णउ
णिच्चमेव सव्भाउं पउंजिउ

यत्ता—धणु तणु समु मज्जु ण तं गहणु णेहु णिकारिमु इच्छंविं ॥ 10

देवीसुय सुहणिहि तेण हउं णिलइ तुहारइ अच्छंविं ॥ ५ ॥

6

महुसमयागमि जायहि ललियहि
काणणि चंचरीउ णणुरंइ
मज्जु कइत्तणु जिणपयभत्तिहि
विमलगुणाहरणंक्रियदेहउ
कमलगंधु धेण्णइ सारंगे
गमणलील जा कय सारंगे
सज्जेणदूसियदूसणवसणे

चोल्लइ कोइल अंवयकलियहि ।
कीरु कि ण हरिसेण विसट्टइ ।
पसरइ णउ णियजीवियवित्तिहि ।
एउं भरह णिसुणइ पइं जेहउ ।
णउ साल्लरे णीसारंगे । 5
सा कि णासिज्जइ सारंगे ।
सुर्कइकित्ति किं हम्मइ पिसुणे ।

५ A एतउ. ६ A णव.

5 १ P जय वि. २ A वणम्मि, P वण्णमि. ३ AP अवगण्णमि. ४ AP सालिवाहणु. ५ APT मण्णिउ. ६ A मंदु P थहु, T वंठ जड. ७ AP सव्भाव. ८ A तिणु. ९ AP इच्छमि. १० AP अच्छमि.

6 १ P एह. २ AP विण्णइ. ३ AP वड्ढियमज्जणदूसण°. ४ P सुकय°.

8 a णिरारिउ अतिगयेन.

5 7 b तिइइ तृणया. 8 b मण्णउ पूजितः; b अवगण्णिउ अवज्ञातः.

6 3 a जिणपयभत्तिहि जिनपादभक्त्यर्थम्. 5 a सारंगे भ्रमरेण; b साल्लरे मण्डूकेन; णीसारंगे निःसारणेण निःशरारेण.

कहमि कब्बु वम्महसंधारणु

अजियपुराणु भवणवतारणु ।

घत्ता—जिणगुणरयणावलिवेयडिउ सदसुवणंसमुज्जलु ॥

आहासइ गणहरु सेणियहु करहु कण्णि कहकोडलु ॥ ६ ॥ 10

7

सरपंकययरत्ताविदेहइ

जंबूदीवहु पुव्वविदेहइ ।

सीयहि दाहिणकूलि रवणणउ

वच्छउ णाम देसु वित्थिण्णउ ।

सहलारामहिं गामहिं घोसहि

दहियविरोलणमंथणिघोसहि ।

पविउलपक्केकलवकेयारहिं

कणिसु चुणंतहिं जंपिरकीरहिं ।

घणकणगुरुभरणवियहि धण्णहि

हंसहि णववंभहरणिसण्णहि । 5

चंपयदेवदारुसाहारहिं

कुसुमालीणभमरझंकारहिं ।

णच्चिरमुक्कमोरकेकारहिं

पवलवलालवसहडेकारहिं ।

महिसंमेसजुज्जुच्छवमिलियहिं

जो^{१०} सोहइ णंदंतहिं हलियहि ।

घत्ता—तहिं अत्थि सुसीमा णाम पुरि सररुहच्छणमहंसर ॥

णंदणवणंसंठियदेवसिरंमउडरयणकर सियघरं ॥ ७ ॥ 10

8

परिहाजलपरिघोलिररसणहिं

हिमपंडुरपायारणिवसणहिं ।

विविहदुवारंतरवरवयणहि

गेहगवक्खुग्घाडियणयणहिं ।

धूवधूमधम्मेल्लयकसणहिं

तोरणमोत्तियमालादसणहिं ।

लेवियचलचिधावलिवत्थहिं

ठाणमाणलक्खणहि पसत्थहिं ।

मंदिरकंचणकलसयथणियहि

कि वण्णिज्जइ सीमंतिणियहि । 5

जं वण्णहुं भेसइ वि ण सक्कइ

सुरवइ फणिवइ अवरु वि सक्कइ ।

अत्थि विमलवाहणु तहिं राणउ

जसुं विहवेण ण सक्कु समाणउ ।

५ AP °सुवण्णु. ६ AP कहकुंडल.

7 १ A उत्तर°; K उत्तर but corrects it to दाहिण°. २ A° पिक°. ३ AP° कलम्°. ४ AP अण्णहि, K धण्णहि and gloss धान्यैः. ५ A °देवदार° ६ AP कुसुमालीण°. ७ AP णच्चिरमोरमुक्क°. ८ P °केक्कारहि. ९ AP महिसहि मेसहिं जुज्जुवि मिलियहिं. १० P omits जो. ११ P adds णिरु after णंदंतहि. १२ P महासरि. १३ P °वणमडिय°. १४ AP °देवसिरि मउड°. १५ P सियघरि.

8 १ P धूप°. २ AP °धम्मेल्लहि कसणहि. ३ P रायमाण°. ४ A जसु विहवे सक्कु वि ण समाणउ.

9 वे य डिउ जडितम्.

7 1 a° वि देहइ °पक्षिशरीरे. 3 a घो स हि गोकुलैः; b° विरोलण° सन्धनकर्म. 5 b वं भहर° कसल°. 7 b वलाल° बलवन्तः.

8 6 a भेसइ बृहस्पतिः; b सक्कइ सत्कविः.

जसु सोहगं वम्महु भज्जइ
जसु वइवसुवसु दंडहु संकइ
पडिगयमडंथड भड भंजंतहु
जाणियसारासारविवेयउ

तेण अणंगत्तणु पडिवज्जइ ।
तेयहु तरणि तवंतु चवकइ ।
तासु णरिंदलच्छि भुंजंतहु । 10
एकहिं दिणि जायउ णिव्वेयउ ।

यत्ता—पुरु परियणु ह्य गय रह सधय अंतेउरु अवगण्णिवि ॥
सीर्हासणच्छत्तइं चामरइं गउ सयंलइं तणु मण्णिवि ॥ ८ ॥

9

गुरुचरणारविंदु सेवेप्पिणु
वीयरायवयणेण विणायउ
अप्पाणउं तिहि गुत्तिहिं भावइ
वेज्जावच्चु करइ मुणिणाहं
धम्म अहिंसालक्खणु अक्खइ
आगच्छंतुवसग्गु समिच्छइ
दंसमसय सुडसंत ण सार्डइ
दंसणसुद्धिविणउ आराहइ
विकहउ ण कहइ ण रुसइ ण हसइ
णाणु णिरंतरु तेणम्मसियउ
एम थोरु तवचरणु चरोप्पिणु

जायउ परमभिकखु तउ लेप्पिणु ।
पालइ पंचमहव्वयमायउ ।
णीरसु जेवइ णिसिहि ण सोवइ ।
वालहं बुहहं स्यहयदेहहं ।
मित्तु वि सत्तु वि समं जि णिरिक्खइ ।
लंविक्खरु उच्चुम्मउ अच्छइ ।
सप्प वि लग्ग देहि णउ फेडइ ।
सहइ परीसह इंदिय साहइ ।
भीसणि णिज्जाणि काणाणि णिरसइ ।
कम्म अहम्मकारि संपुसियउ । 10
तित्थयरत्तु णाउं वंथेप्पिणु ।

यत्ता—तेलोकवक्कसंखोहणइं सुहकम्माइं समज्जिवि ॥
मुउ मुणिवरु णिरसंणविहि करिवि चित्तु समात्ति णिउंजिवि ॥९॥

10

तेत्तीसंवुंहिआउपमाणइ
किं वण्णवि पुण्णेणुप्पणउ
णिप्पडियारउ णिरहंकारउ

पंचाणुत्तराविजयविमाणइ ।
हत्थमेत्तणु ससहरवण्णउ ।
भूसणहरु अहमिंदभडारउ ।

५ PT वइवसुपसु, ६ A चमकइ: P चमुकइ, ७ P °वडथड?, ८ A सिंहासण°, P सिंघासण°,
९ AP सयलु वि निणु.

9 १ P विण्णायउ, २ A गोवइ, ३ AP जेमइ, ४ AP विजावच्चु, ५ AP समु,
६ P उच्चुम्मउ, ६ AP आडइ, ७ A विकहउ कहइ ण हसइ ण रुसइ, ८ AP अणसण°.

10 १ A तेत्तीसवुंहि°, २ AP पंचाणुत्तरि, ३ AP वण्णमि, ४ A पुण्णेण पउण्णउ;
P पुण्णेणु पउण्णउ, ५ AP हत्थमेत्तु तणु, ६ AP अहमिंदु.

8 a मलइ पराजीयते, 9 a वइवसुवसु यमसंयं यष्टिश्च.

9 2 a विणायउ विज्ञाताः; b पंचमहव्वयमायउ पञ्चविंशतिर्भावनाः तत्स्यैर्यार्थं भावनीः
पञ्च पञ्च. 7 a सुडसंत लुट् दान्त, सा उइ स्फेद्यति निवारयति. 13 समत्ति समत्वे, स्वमात्रे आत्मनि वा.

णियवासहु वासंतरु ण सरइ
सीहासणि सुणिसण्णउ अच्छइ
लेइ मणेण भक्खुं छुहं णासहि
णिग्गयदइयधवणणिहदुक्खहिं
छम्मासाउसु वड्ढइ जइयहु
सो अहंममराहिउ आवेसइ
इम चित्तेवि भणिउ जक्खाहिउ
जंबूदीवभरहंउज्झाउरि

उत्तरवेउव्विउ वउ ण करइ ।
ओहिइ तिजगणाडि संपेच्छइ । 5
सो तेत्तीसहिं वरिससहासहिं ।
णीसंसेइ तेत्तियहि जि पक्खहि ।
सोहम्मिदं जाणिउ तइयहु ।
जियसत्तुहि घरि जिणवरु होसइ ।
धरणीगयणिहाणलक्खाहिउ । 10
धणय कणयमयणिलयंण लहु करि ।

घत्ता—ता णयरि कुबेरं णिम्मविय कंचणभवणविसेसहि ॥
सरिसरवरउव्वणजिणहरहिं पहं चंचरविण्णासहिं ॥ १० ॥

11

आर्यउ देविउ इंदाएसं
सिरिहिरिदिहिमइकंतीकित्तिउ
तणुसंसोहणगुणसंजोयहिं
गम्भि ण थंतंहु अमरवरिदुउ
सुहदंसाणि णियमणि संतुदुउ
पल्हत्थंतु णिहाणइं दिदुंउ ।
णरवइंप्रंगणि दविणुं ण माइउं
पवरिक्खाउवंससंभूयहु
विजयदेवि णं चंदहु रोहिणि
अहिणवसयदलकोमलगत्ती

पुरवरु माणवमाणिणिवेसं ।
विजयादेविहि सेव करंतिउ ।
थक्कउ णाणाविहिहिं विणोयहिं ।
वसुधाराहि वइसवणु वरिदुउ ।
जा छम्मासहिं ता परिउदुंउ । 5

सयलहं दीणाणाहहं ढोइउं ।
वम्महरूवपरजियरूवहु ।
जियसत्तुहि णरणाहहु गोहिणि ।
हंसवाणि पलंकि पसुत्ती । 10

घत्ता—परमेसरि णिसि पच्छिमपहरि एक्केक्कउ जि समिच्छइ ॥
णिहालसवस मउलियणयण सोलह सिविर्णय पेच्छइ ॥ ११ ॥

७ P भिक्खु. ८ A तेतीसहिं. ९ P °दयिधवण°. १० P adds वि after णीससेइ. ११ AP वड्ढइ.
१२ AP सो लहु अमराहिउ. १३ AP आएसइ. १४ A जंबूदीवे भरहे उज्झा°, P जंबूभरहदीउ
उज्झा°. १५ P °णिलयहु लहु. १६ P °जिणहरउववणेहिं. १७ A अइरमणीयपएसहिं.

11 १ P आइउ. २ P °संजोवहिं. ३ P णाणविहिहिं. ४ A गम्भेच्छतहु, P गम्भि ण
छंतउ. ५ A परिदुदुउ but connects it to परिदुदुउ, P परिदुदुउ, T परिउदुउ. ६ AP add
after this: घणु जिह पुणु वरिसंतु अणिदुउ. ७ AP °पगणि. ८ A सविणय, P सिविणइ.

10 4 a वासतरु स्थानान्तरम्, b उत्तरवेउ व्विउ वउ प्रतिशरीरं न करोति वपुः. 5 b
ओ हि इ अवधिज्ञानेन. 7 a णि ग य द इ य ध व ण णि ह दु क्ख हिं खत्वाधमनी खीलधमनी, यदा मनुष्याः
श्रास गृह्णन्ति तदा धमनीवत् दु.खमुत्पद्यमानम् (?). 10 b °णि हा ण ल क्खा हिउ °निधानस्वामी.

11 3 b थक्कउ स्थिताः. 4 a °वरिदुउ प्रधानः, b वरिदुउ वृष्टः. 5 b परिउदुउ
परितुष्टः. 11 समिच्छइ शुभं मन्यते.

मउल्लुगंडं	पमत्तं पयंडं ।	
गिरिदप्पमाणं	गयं गज्जमाणं ।	
धरिन्ती खणंतं	विसं ठेक्करंतं ।	
हयारिंदपक्खं	हरिं तिक्खणक्खं ।	
करिंदाहिसित्तं	सिरिं पोमवत्तं ।	5
सयामोयधामं	णवं पुष्फदामं ।	
सुहं सेयभाणुं	दिसुब्भासिभाणुं ।	
सिणिद्धं समाणं	दहे कीलमाणं ।	
रईलीलयाणं	जुयं मीणयाणं ।	
वरं वारिपुण्णं	सियंभोयडुण्णं ।	10
रमारामरम्मं	घडाणं च जुम्मं ।	
लयापत्तणीलं	विउद्धारणालं ।	
मरालालिरोलं	सरं सारसालं ।	
जलुल्लोलमालं	महामच्छवालं ।	
गहीरं रवालं	समुहं विसालं ।	15
पहारिद्धिरुढं	मइंदूढपीढं ।	
णहे धावमाणं	सुराणं विमाणं ।	
धरारंधणित्तं	पसत्थं पवित्तं ।	
जसेणुण्णयाणं	घरं पण्णयाणं ।	
गयासामऊहं	मणीणं समूहं ।	20
सिहालीचलंतं	हुयासं जलंतं ।	

घत्ता—इय सिविणयपंति मणोहरिय जोइवि सीलविसुद्धइ ॥

सुविहाणइ रायहु वज्जरिय सुत्तविउद्धइ मुद्धइ ॥ १२ ॥

12 १ P पोमवत्तं. २ AP विउद्धा°. ३ P °णेत्तं ४ A सिहालीपलित्तं; P सिहालीवलत्तं, but T सिहालीचलंतं. ५ P °विउद्धइ.

12 1 a मउल्लुगंडं मदार्द्रगण्डम्; b पयंडं प्रचण्डम्. 5 b पोमवत्तं कमलम्. 6 a सयामोयधामं सतः शोभनत्यामोदस्य स्थानम्. 7 a सुहं अनुपहतम्, सेयभाणुं चन्द्रम्. 11 a रमारामरम्मं रमां लक्ष्मीं, शोभा इत्यर्थः; तस्या आरामः वनं, समूह इत्यर्थः, तेन रम्यं मनोशम्. 13 a मरालालिरोलं हंसप्रमरक्रोलाहलम्. 16 b मइंदूढपीढं सिहासनमित्यर्थः. 18 a °णित्तं निर्गतम्. 20 a °मऊहं किरणम्. 21 a सिहालीचलंतं शिखाली ज्वालामसूहश्चलन्ती यत्र. 23 सुविहाणइ प्रभाते.

13

पहुणा विहसिवि गुणगणवंतहि
 होही तुह सुउ जियवम्मीसरु
 तासु विमलवाहणअहामिंदहु
 कुंजरवेसैं नैवरामाणाणि
 गम्भि परिट्टिउ जिणु जगमंगलु
 णच्चिउ णवरसालु तियसेसरु
 तासु घरंगणि वण्णविच्चित्तइं
 धणयाएसैं जक्खकुमारिहिं
 कामकोहमयमोहविहंजणि
 जलणिहिसमहं कालपरिवाडिहिं

सिविणयफलु विण्णासिउ कंतहि ।
 तिहुयणगुरु तिणाणजोईसरु ।
 आउ पउण्णउ वुहयणचंदहु ।
 झत्ति पइट्टुउ णं दिणयरु घणि ।
 उट्टिउ घरि सुरसंथुइकलयलु । 5
 अहिणंदिउ जियसत्तु णरेसरु ।
 रयणइं पुणु णवमास णिहित्तइं ।
 घोसियसुमहुरसाहुंकारिहिं ।
 णिव्वुइ रिसहजिणिदि णिरंजणि ।
 जा पण्णासलक्खुं गय कोडिहिं । 10

घत्ता—ता माहमाससियदसमिदिणि वीयउ सिवंपयगामिउ ॥
 तित्थंकरु णाणत्तयसाहिउ उप्पण्णउ जगसामिउ ॥ १३ ॥

14

उप्पण्णइ जिणि आऊरिय धरु
 कंहिं वि मइंदणिणाय सुभइरव
 आसणकंपैं विम्हांवियमइ
 दसणकमलसरणच्चियसुरवरि
 सयमहु मुणिमहसयणिव्वूढउ
 भंभाभूरिभेरिसंघायहिं
 जिणकमकमलजुयलसंगयमणु
 सोमभीमभूसाभाभासुर
 कोसलणयरि झड त्ति पराइय

कंहिं वि समुग्गय जयघंटारव ।
 कंहिं वि समुग्गय जयघंटारव ।
 कं पिउ अहिवइ महिवइ सुरवइ ।
 मयजलमिलियघुलियवहुमहयरि ।
 अइरावणि वारणि आरूढउ । 5
 वज्जंतहिं वाइत्तंणिणायहिं ।
 सवहु सवाहणु सधउ सपहरणु ।
 चलिय हरि सरसरसिर सुरासुर ।
 परियंचेवि तिवार घरु आइय ।

घत्ता—पणवेप्पिणु पियरइं आयरिण सहसा चित्ति वियंप्पिउ ॥ 10
 जिणमायहि मायइ सुरवरहिं मायावालु समप्पिउ ॥ १४ ॥

13 १ AP add after this. नेट्टहु मासहु पक्खि अचंदणि (P पक्खियचंदणि), मावसदिणि
 ससहरि थियरोहिणि. २ AP णिव°. ३ A °कुमारहिं ४ A °साहुकारहिं. ५ A °लक्ख. ६ A °मासि.
 ७ A सिवपुर°. ८ A तित्थंकर.

14 -१ AP कंहिं मि. २ A विंभाविय°. ३ P भंभाभेरिपडह°. ४ P वायत्त°. ५ P
 वियप्पियउ. ६ P समप्पियउ.

13 1 b विण्णासिउ विन्यसित कथितम्.

14 5 a मुणिमहसयणिव्वूढउ मुनेस्तीर्थंकरस्य पूजाभिषेकगतनिर्वाहकः. 8 b हरि इन्द्रः;
 सरसरसिर प्रेम्णा शब्दवन्तः. 9 b परियंचेवि प्रदक्षिणीकृत्य. 11 मायइ मायया.

15

जगगुरु लेवि देव गय तेत्तहि
 तहिं सीहांसणि णिहिउ भडारउ
 इंदजलणजमणेरियवरुणहं
 आवाहणु करेवि पोमाइवि
 अमरपंति अविउट्टं करोप्पिणु
 किसलयलुण्ण कलस उच्चाइवि
 देविंदहिं जिणिंदु अहिसिंचिउ
 देवंगइं वत्थइं परिहाविउ
 भूसिउ भूसणेहिं साणंदं

सुरगिरिपंडुसिलायलु जेत्तहि ।
 मयणवाणसंताणणिवारउ ।
 पवणधणयभवसासिखरकिरणहं ।
 जण्णभाउ सञ्जावेणं ठोइवि ।
 णीहे खीरेमयरहरि भरेप्पिणु । 5
 मंतु पणवसाहा संजोइवि ।
 कुवलयकमलकयंवहिं अंचिउ ।
 देउं दिव्वगंधेहि विलेविउ ।
 णामकरणु विरइउं देविंदं ।

घत्ता—जाएण जेण जसु वंधुयणु कीलासु वि अविंसंकिउ ॥

वहिरंतरंगवइरिहि णे जिउ अजिउ तेण सो कोक्किउ ॥ १५ ॥

10

16

णमो जिणा कयंतपासणासणा
 णमो कसायसोयरोयवज्जिया
 णमो अदीणकामवाणवारणा
 णमो विसालमोहजालछिदणा
 णमो णिहित्तसुण्णवाइवासणा
 णमो गयालसालसीलभूसणा
 णमो विमुक्कदिव्वघोसणीसणा
 णमो अणंतसंतसम्मभावणा

णमो विसुद्ध बुद्ध सिद्धसासणा ।
 णमो फणिंदं चंदविंदपुज्जिया ।
 णमो महाभवंबुरासितारणा ।
 णमो जियारिरायरायणंदणा ।
 णमो अणेयभेयभावभासणा । 5
 णमो पसण्ण दिण्णरोसँदूसणा ।
 णमो रिसी तवोविहीपयासणा ।
 णमोरँहंत मोक्खमग्गदावणा ।

घत्ता—इय वंदिवि अमराणंदियहि णंदणवणसुच्छायहि ॥

आणेप्पिणु उज्झहि परमजिणु इंदं अप्पिउ मायहि ॥ १६ ॥ 10

15 १ AP सिंहासणि. २ A °सताव°. ३ P अविउट्ट. ४ P खीर. ५ A देव.

16 १ AP विसुद्धबुद्धिसिद्धसासणा. २ AP फणिंदं चंदविंदपुज्जिया. ३ AP °दिण्णदोस°. ४ AP °संतसोमभावणा. ५ A णमो अरहंत.

15 ३ b भव शकर., खरकिरण सूर्यः. 4 a पोमाइवि प्रणस्य, b जण्णभाउ यज्ञभागः, पूजामागः. 5 a अविउट्ट अविच्छिन्ना. 6 b पणवसाहा ॐ स्वाहा. 10 जसु यस्य, कीलासु क्रीडाशालः.

16 3 a अदीण° प्रौढः. 4 b जियारिरायराय° जितगनुराजाधिराजः. 6 a गयालसाल° गतं आलमं आलं असत्यं यत्र, b दिण्ण° विदारितः. 7 a विमुक्कदिव्वघोसणीसणा विमुक्ता. उच्चैस्त्वारिना. दिव्वघोसा. सर्वभाषाप्रकाशका नित्त्वना. शब्दा येन.

17

कालें जंतें जायउ पोढउ
 का वि णारि आलिंगणु मग्गइ
 का वि कुमारि भणइ मइं परिणहि
 एकंसु देहि दिट्ठि सुहगारी
 इय णारीयणु हंतु रसिल्लउ
 रक्खहि देवदेव णियसंगें
 पिउणा सुरवइणा घरु गंपिणु
 कह व कह व मड्डइ इच्छाविउ
 सुसिरु तंति घणु पुक्खरु वज्जइ
 जहिं उव्वसिरंभहि णच्चिज्जइ

जयवइ णवजोव्वणि आरूढउ ।
 क वि कामाउर पायहि लग्गइ ।
 विरहु भडारा किं तुहुं ण मुणहि ।
 जा जीवमि ता दासि तुहारी ।
 कामासत्तउ कामगहिल्लउ । 5
 मारिज्जंतु वराउ अणंगें ।
 पत्थिउ जिणकुमारु पणवेप्पिणु ।
 कण्णासहसहि पँहु परिणाविउ ।
 जहि तुंबुरुणा सुसरउ गिज्जइ ।
 अणवमरसविसेसु संचिज्जइ । 10

घत्ता—जहि मंगलदव्वविहत्थियहिं उरघोलिरहारमणिहि ॥

आवंतिहिं जंतिहिं सुललियहिं छेउ णत्थि सुररमणिहि ॥ १७ ॥

18

जहिं उवमाणउ किं पि ण दिज्जइ
 सव्वतित्थपरिपुण्णहिं कलसहि
 खीरतुसारतारणित्तारहि
 कोमलकिसलयच्छाइयवत्तहिं
 मंगलघोसविलासाविसेसहि
 किउ रज्जाहिसेउ सूर्यसेवहु
 महि भुंजंतहु पीणियभव्वहुं
 एकहि दिणि णरणियरणिरंतरि
 वसुवइवसुमइकंताकंतें

तं उच्छउ मइं किं वण्णिज्जइ ।
 मुणिवयणहि णं वियलियकलुसहिं ।
 जित्तविलासिणिमोत्तियहारहिं ।
 विसहरसुरणरखयरुक्खित्तहिं ।
 तियसिंदहिं मिलेवि पुहईसहिं । 5
 वद्धु णिलाडि पट्टु तहु देवहु ।
 एकुणवीस लक्ख गय पुव्वहं ।
 अच्चंतें अत्थाणव्भंतरि ।
 रयणिहि गयणभाउ जोयंतें ।

घत्ता—ताँ तेण दीह ससहरधवल उक्क पडंती दिट्ठिय ॥ 10

णं णहसिरिकंठहु परियलिय चलमुत्ताहलकंठिय ॥ १८ ॥

17 १ A एक सुदिट्ठि देहि सुहगारी, P एक सदिट्ठि देहि सुहगारी. २ AP add after this: कुमरत्तें (P कुमरत्ति) पुणु काळ सुहासिउ, पुव्व अड्डदहलक्ख पणासिउ. ३ A मंडइ; P मडइ. ४ P सह. ५ AP अणुवम°, T अणुवम° but the meaning given is शान्तरसरहितः.

18 १ AP णं मुणि°. २ P जिणिवि विला°. ३ A कमलकिसलयच्छाइय°, P कमलहिं किसलयच्छाइय°. ४ A सुरसेवहु, P सियसेवहु. ५ A एकुणलक्खवीस गय, P तयपचास लक्ख गय. ६ P अच्छइ जा अत्थाण°. ७ A तो.

17 1 b जयवइ जगत्पतिः. 8 a मड्डइ इच्छा विउ हठादिच्छा कारितः. 10 b अणवमरस° नवमरसरहितम्, शान्तरसं विना. 12 छेउ छेदः त्रुटि.

18 6 a सूर्यसेवहु श्रीसेवितस्य. 9 a वसुवइ लक्ष्मीः, वसुमइ पृथ्वी. 10 उक्क उल्का,

19

पेच्छंतहु सा तहिं जि विलीणी
 गयणुस्मुक्क उक्क गय जेही
 लग्गामि णिरवज्जहि मुणिविज्जहि
 छणि छणि जडयणु कि हरिसिज्जइ
 जीय भणंतहं विहसइ त्सइ
 ण सहइ मरणह केरउ णाउं वि
 कालि महाकालिहिं घरु दुक्कइ
 जोइणीहिं को किरं रक्खिज्जइ
 खयकालहु रक्खंति ण किंकर
 खयकालहु रक्खंति ण केसव
 होइ विसूई संपे घेप्पई
 जलि जलयर थलि थलयर वइरिय
 तो वि जीउ जीवेवइ वंछइ

ईसमणीस समासमलीणी ।
 अथिर णरेसरसंपय तेही ।
 पभणइ सामि जामि पार्वज्जहि ।
 आउ वरिसवरिसेणं जि खिज्जइ ।
 मर पभणंतहं रंजइ रूसइ । 5
 पहरणु धरइ फुरइ णित्थाउ वि ।
 मज्जु मासु ढोयंतु ण थक्कइ ।
 पीडिवि मोडिवि काले खज्जइ ।
 मय मायंग तुरंगम रहवर ।
 चक्कवट्टि विजाहर वासव । 10
 दाढिविसाणिभृगाहिं दारिज्जइ
 णहि णहयर भक्खंति अवारिय ।
 लोहे मोहे मोहिउ अच्छइ ।

घत्ता—सुहुं वंछइ परं तं णउ लहइ मरणह त्सइ ण चुक्कइ ॥

इच्छाभयपरवसु एहु जणु जममुहकुहरहु दुक्कइ ॥ १९ ॥ 15

20

तांवाइय लोयंतिय सुरवर
 चंगउ चित्तंडिभु संथवियउ
 छंडेहि पणइणि कंचणगोरी

ते भणंति जय जगगुरु सुरवर ।
 णाणणिहेलणि पइं संथवियउ ।
 धरंहि भुवणसंवोहणगोरी ।

19 १ P पव्वज्जहि. २ AP वरिसु वरिसेण. ३ A मरणु भणंतहं, P मरु पभणंतहं. ४ A किर को रक्खिज्जइ, P किं किर. ५ A संपेसिज्जइ. ६ AP add after this दहि बुद्धइ जलणेण पलिप्पइ. ७ AP^o सिगाहिं. ८ AP add after this. विसविवक्खसत्थहिं मारिज्जइ. ९ A जीवेउ; P जीवेच्चउ. १० P तं पर णउ. ११ A इच्छाहय परवसु, P सिच्छाभयपरवसु.

20 १ AP तावाइय. २ चित्तंडंभु but gloss वालकः. ३ A छंडिवि; P छडुहि. ४ AP चपयं. ५ P वगहि.

19 1 b ईसमणीस स्वामिनो बुद्धिः, समासमलीणी सम्यगासमन्तादुपशमेन लीना. 2 a उं स्मुक्क उद्धता. 4 a छणि छणि आयुर्ग्रन्थिपर्वणि पर्वणि. 5 a जीय भणंतहं हरिसइ त्वं जीव इति वयित्ते हंपति, b रंजइ दुष्टं शब्द क्रोति. 6 b णित्थाउ निर्वल. 11 a विसूई विपूचिका.

20 1 a तावाइय तांव तावत्, तदा, आइय आगताः, b सुरवर हे सुराराध्य. 2 a संथवियउ प्रवोधितम्; b णिहेलणि ण्हे, संथवियउ धृतम्. 3 b गोरी सरस्वती, अन्यत्र दिव्यस्त्री.

गइ दुचरित्तकम्मसंताणइ
पभणिउ पुत्त चरसु संताणइ
तहिं अवसरि णहु छण्णु विमाणहिं
किउ दिक्खाहिसेउ तियसेसहिं
गय खग सुर णियंसिवियाजाणें
णार्वइ णविउ सहेउवणामें
णिच्च करंति पणयकलहं सइं
तंडगंधव्वगीयकलहंसइं
तहिं सत्तच्छयतलि सुणिसण्णउ

घत्ता—माहे मासे सियणवमिदिणे रोहिणिरिक्ख गयासें ॥

अवरणहइ केसलोउ करिवि लइय दिक्ख परमेसें ॥ २० ॥

अजियसेणु णिहियउ संताणइ ।
सयलमहीयलकयसंताणइ । 5
पत्तहिं गिग्वाणेहिं विमाणिहिं ।
अंचिउ पहु पसत्थतियसेसहि ।
फलतरुणाविपं पवरुज्जाणें ।
सो सोहंतु सुद्धपरिणामें ।
जहि सरि सरु मुयंति कलहंसइं । 10
ताहं चलणि रसियइं कलहंसइं ।
जिणु जिणंतु चत्तारि वि सण्णउ ।

21

जे धम्मेल्ल विमुक्क सुवत्ते
लेवि धित्त खीरणवणीरइ
विसयंपरीसहरिउहु ण संकिउ
णाणु चउत्थउ खाणि उप्पण्णउं
उज्झाणयरिहि वीयइ वासरि
कुसुमवरिसु सुरवडहणिणायइं
गेहणैहवंधणु विच्छिण्णउं
पूसहु सुक्कपक्खि संपत्तइ

ते सुरणाहे मणिमयंपत्ते ।
को णउ करइ भत्ति जइ णीरइ ।
नृवसहासु ते सहं दिक्खंकिउ ।
छट्टुववासें व्रंउ पडिवण्णउं ।
किउं पारणउं वंभरायहु घरि । 5
पंचच्छरियइं तहिं संजायइं ।
वारहवरिसइं तउ संचिण्णउं ।
एयारसि रोहिणिणक्खत्तइ ।

६ P धरसु. ७ A णर, P णिव. ८ A तावइ णमिउ. ९ AP सहेउअणामे, K सहेउपणामें but gloss and T सहेउवणामे सहेतुकनाम्नोद्यानम्. १० A णडगंधव्व°, P तडि गंधव्व°. ११ AP माहहो मासहो.

21 १ AP °वत्ते. २ AP विसहपरीसह°. ३ AP णिव°. ४ AP वउ. ५ A तीयइ. ६ AP °पडह°. ७ P गेहि गेह°.

4 a °कम्मसंताणइ क्रियाविस्तारे, b संताणइ अन्वये वंशे. 5 a संताणइ सत्पुरुषाजया, b °कयसंताणइ कृतसत्पुरुषलक्षणेन. 6 a विमाणहिं विगतसंख्यै. 7 a तियसेसहिं देवेन्द्रैः, b पसत्थतियसेसहिं प्रशस्तस्त्रीविशेषाभिः. 9 a सहेउवणामे सहेतुकनाम्नोद्यानेन. 10 a पणयकलहसइं प्रणयकलहकं झगडकं स्वय कुर्वन्ति, b सरि सरोवरे. 11 a गीयकलहंसइं गीताना मनोजताखंसकानि, b ताहंचलणि रसियइं कलहंसइं तेषा तद्गतगन्धर्वाणा पादेषु रसितानि शब्दितानि मनोजहसकानि नूपुराणि, हसशब्दोऽत्र नूपुरवाची. 13 गयासें विनष्टवाञ्छेन.

21 1 a सुवत्ते शोभनवक्त्रेण शोभनपात्रेण वा. 2 b णीरइ रजोरहिते. 5 a वीयइ वासरि द्वितीये पारणादिने इत्यर्थः.

भावाभावलोयविराडु
हय दुंदुहि णं गल्लिउ सग्गे

केवलणाणु तेण उप्पाइउ ।
आय देव दिसिविदिसंहं मग्गे । 10

वत्ता—वत्तारि सयाइं सरासणहं सद्धइं देहु जिणिंदहो ॥

अमरिंदे दूरासंकिणण मण्णिउ सरिसु गिरिंदहो ॥ २१ ॥

22

णवकणयवणु
संथुउ अणेण
जय भव भवंत
जय भूयणाह
जय गौरिरमण
जय तिउरडहण
जय मोक्खमग्ग
जय सोमसीस
जय णायहार-
सुतिलोयणास-
सुरयंतवित्त-
णीसरियविमल
जय वेयभासि

खमभावु पुणु ।
अमराहिवेण ।
जय दाणवंत ।
विरइयविवाह ।
जय सुविसगमण । 5
जय मयणमहण ।
णिग्गंथ णग्ग ।
जय तिहुवणीस ।
भूसियसरीर ।
हर हरविलास । 10
पम्भाररत्त ।
चउवयणकमल ।
पसुवहपयासि ।

८ AP भावाभावलोएं पविरायउ. ९ A °विदिसहं मग्गे, P °विदिसि णहग्गे.

22 १ P भूवणाह.

9 a भा वा भा वा लो य वि रा य उ विश्वस्थितसमस्तपदार्थदर्शनेन विराजितम्.

22 3 a भव हे शकरः भवत संसारस्य अन्त अन्तक मोक्षप्रदानात्प्रलयविधानाच्च, b दा ण वं त अभयदानदायक एकः, अन्यो दानवविनाशक. 4 a भूयणाह एकः सकलप्राणिस्वामी, अन्यः पिशाचनाय. b विरइयविवाह विरचिता विनष्टा वाधा येन, अन्यत्र कृतपाणिग्रहण. 5 a गौरिरमण सरस्वतीप्रिय, अन्यत्र गौर्या पार्वत्या रमण पते, b सुविसगमण शोभनस्य वृषस्य धर्मस्य गमनं प्रवर्तनं यस्मात्; अन्यत्र शोभनवर्लावर्देन गमनं यस्य. 6 a तिउरडहण जातिजरामरणलक्षणत्रिपुर-विध्वंसक, अन्यत्र त्रिपुरदानवविनाशक. 7 a मोक्खमग्ग मोक्षपथ, अन्यत्र मोक्षे वेध्ये मार्गो मार्गो यस्य. 8 a सोमसीस उपदान्तशिष्य, चन्द्रोपलक्षितमस्तकोऽन्यत्र. b तिहुवणीस त्रिभुवनस्वामिन्, अन्यत्र त्रिभुवनायात्रिपथगाया गङ्गाया स्वामिन्. 9 a णायहार सन्मार्गधारक सन्मार्ग एव हारो यस्येति चा, सपं एव हारोऽन्यत्र. 10 a सुतिलोयणासहर सुधु त्रिलोकविनाशहर; परमकारणिकत्वादजरामर-पदप्रापकत्वाच्च, अन्यत्र शोभनत्रिलोचनस्य धर, अथवा सुत्रिलोकस्य नासधरो धर्मधरो वा हर शिवश्च, b विलास विगतक्रीड, विनिष्टक्रीड. 11 सुरयंतवित्तपम्भाररत्त सुरतस्यान्तो विनाशो यस्मिन् वृत्ते चरिते तस्य व्रतस्य प्राग्भारे सघाते रत्तः, अन्यत्र सुरपर्यन्तं यद्दृत्तं चेष्टितं तस्य प्राग्भारे रत्तः. 13 a वेयभासि प्रथमानुयोगादिपरमार्गमच्चतुष्टयप्रकाशकः, वेदकर्ताऽन्यत्र; b पसुवहपयासि पशुनामपि सत्यप्रकाशकः, अन्यत्र पशुवधप्रकाशकः.

णिद्वंद्वुडंभ
कंपावियक
जय चक्रपाणि
बहुसोक्खहेउ

जय परमवंभ ।
कयधम्मचक्र ।
जय दिव्वणाणि ।
जय गरुलकेउ ।

15

घत्ता—तुह गन्भणिवासि हिरण्णमयविट्ठिइ सुट्टु पसिद्धउ ॥

तुहुं तेण हिरण्णगम्भे भणिउ अण्णहु एउं णिसिद्धउ ॥ २२ ॥

23

वंदिवि एम सुरिंदे सत्तिइ
माणखंभसरवरसरपरिहहिं
णिम्मियपायारेहि विचित्तिहिं
कप्पहुमचेईहरचिधहिं
णडसालाहिं णट्टतंडवियहिं
तोरणरयणालंकियदांमहिं
जं एहउं तहि मोक्खहु पंथिउ
पुव्वासासमुहुं आसीणउ

विरइउ समवसरणु जिणभत्तिइ ।
संकुसुमवेल्लिहिं मरगयफलिहहिं ।
थूहहिं सूरयंतमणिदित्तिहिं ।
धूवहडेहि सुधूवसुगंधहिं ।
थामि थामि मणिमयमंडवियहि । 5
कणयदंडवैरफणिपडिहारहिं ।
अजियणाहु सीहासणि संठिउ ।
किं वण्णामि तेल्लोकपहाणउ ।

घत्ता—चउतीसातिसयविसेसधरु जिणु हरिवीठि बइट्टउ ॥

उययदिसिहरि उययंतु रवि छुडु णं लोपं दिट्टउ ॥ २३ ॥ 10

24

सव्वभद्दु तं तहु सीहासणु
णवकंकेल्लिरुक्खु कोमलदलु
छत्तइं तिण्णि चंदसंकासइं

कुसुमवासु भसलावलिपोसणु ।
भामंडलु णं दिणयरमंडलु ।
चमरइं हिमगोखीराभासइं ।

२ A णिद्वंद्वुडंभ. ३ AP दिव्ववाणि. ४ AP °गन्धु. ५ A एउ ण सिद्धउ.

23 १ P सुकुसुम°. २ P सुयंधसुयधहिं. ३ A णट्टमंडवियहिं. ४ AP रयणतोरणालं°. ५ AP °दारहिं. ६ AP °दडधर°. ७ P ज एहउ तं सक्के पत्थिउ, जगकारुणे आवेप्पिणु थिउ. ८ P पुव्वासामुहुं तेण आसीणउ. ९ A णं तइलोएं दिट्टउ.

14 a णिद्वंद्वुडंभ निर्दग्धदग्ध, अन्यत्र निश्चितो दग्धदग्धो निकृष्टदग्धो यस्य, b परमवंभ परमात्म-स्वरूप., अन्यत्र परमब्रह्म आत्मा स्वरूपं यस्य, एकमूर्तिस्त्रयो भागा ब्रह्मा विष्णुर्महेश्वर इत्यभिधानात्. 15 b कयधम्मचक्र कृतधर्मचक्र, अन्यत्र कृत धर्मस्य धनुष चक्र मण्डल येन, संग्रामकाले कृतचक्राकार-त्वाप इत्यर्थः. 16 a चक्रपाणि चक्रं लाञ्छन पाणौ यस्य, अन्यत्र चक्रं प्रहरणं पाणौ यस्य. 17 a बहुसोक्खहेउ बहुभिरिन्द्रादिभिः. सौख्यार्थं सेव्यः; अन्यत्र वधूभिः सौख्यार्थं सेव्यः; b गरुलकेउ गरुडध्वजः. 18 °विट्ठिइ °वृष्ट्या.

23 3 b सूरयंतमणि° सूर्यकान्तमणिः. 4 b धूवहडेहिं धूपघटैः. 7 a पंथिउ पान्थः. 10 उययंतु उदयन.

वज्जइ दुंदुहि भुवणाणंदणु
णिग्गय दिव्वभास सच्चुण्णय
अक्खइ जिणु सत्त वि पायालइं
अक्खइ जिणु भावणसंपत्तिउ
अक्खइ जिणु अहमिंद वि सुरवर
अक्खइ जीवकम्मभेयंतरु
सीहसेणरायाइय गणहर

विरइयरिद्धिउ सइं सकंदणु ।
तं णिसुणांति अमर णर पण्णय । 5
णरयलक्खदुक्खग्गिाविसालइं ।
वेंतरजोइससग्गुप्पात्तिउ ।
वहुविह णर तिरिक्ख तस थावर ।
अक्खइ पेक्खइ तिजग्गु णिरंतरु ।
जाया णउं तासु सम्मयधर । 10

यत्ता—सहसाइं तिणिण पण्णासियइं सयइं सत्त भयवंतहं ॥
पुव्वंगधरहं तहिं मुणिवरहं जायइं संतहं दंतहं ॥ २४ ॥

25

उडुसयाइं इगिवीससहासइं
चउसयाइं णवसहसइं सिद्धइं
केवलणाणिहि वीससहासइं
ताइं जि पुणु चउसयहिं समेयइं
तवसमसहसइं पुणरवि उत्तइं
सग्गारोहणसुहयणिसेणिहि
तेत्तियइं जि पण्णासइ रहियइं
एवं गणंतगणंतहुं आयउ
अज्जहं लक्खइं तिणिण समासविं
तेत्तिय हउं सावय आहासविं
संखारहिय देव णिहेसविं

सिक्खुयरिसिहि विमुक्कधणासइं ।
णाणत्तयसंजुत्तहं दिद्धइं ।
जाइं अणंगसंगणिण्णासइं ।
विकिरियारिद्धिहरहं णेयइं ।
चउसयाइं पण्णासइ जुत्तइं । 5
संभूयइं मणपज्जवणाणिहिं ।
दिण्णुत्तरहं विवाइहि विहियेइं ।
एक्कु लक्खु भिक्खुहुं संजायउ ।
उप्परि सहसइं वीस णिवेसवि ।
पंचलक्ख अणुवइयहि घोसविं ।
देविहिं किहं परिमाणु गवेसवि । 10

यत्ता—इय एत्तियसंघे परियरिउ पुव्वहं विरइयपरहिय ॥
तेपण्णलक्खु महियलि भमिवि वारहवरिसहि विरहिय ॥ २५ ॥

24 १ P दिव्ववाणि. २ A सच्चुण्णय, P सच्चुण्णय, but K सच्चुण्णय and gloss सत्यो-
न्नता. ३ P °कम्महो यंतरु. ४ A तिजयव्भतरु. ५ AP णवइ, K णउवि and gloss नवतिः.
६ A सम्महधर.

25 १ AP °संजुत्तइ. २ P °उत्तइ. ३ AP सुहयणिसेणिहि, but T सुहय° सुखद°. ४ P
संभूयहिं. ५ P वहियइं. ६ AP एम. ७ AP समासमि. ८ AP णिवेसमि. ९ AP सावइ आहासमि.
१० AP घोसमि. ११ AP णिहेसमि. १२ AP कहि. १३ AP गवेसमि. १४ AP विहरइ परहिय.
१५ A तेवण्ण लक्ख, P सो एक्कु लक्खु.

24 4 b विरइयरिद्धिउ विरचित्तिरिन्द्र स्वयमेव शरीरेण. 5 a सच्चुण्णय सत्योन्नता.

25 1 a उडुसयाइं पद् शतानि. 5 a तवसम° द्वादश°. 6 a °सुहय° °सुखद°. 7 b
दिण्णुत्तरहं दत्तोत्तराणाम्. 9 a °अज्जहं आर्वाणाम्. 12 विरइयपरहिय कृतपरहितः.

सिहरिहि दरिसियदरिमयवेयहु
 मासमेत्तु थिउ पडिमाजोएं
 एक्कपिंड वाहत्तरिलक्खइं
 मासि चइत्ति पक्खि ससिजोण्हइ
 रोहिणिरिक्खि कम्मसंग्रारणु
 अंतिमझाणु झ त्ति विरपिणु
 भुवणत्तयसिहरहु सुहठाणहु
 कय णिव्वाणपुज्ज सुरसारहिं
 गउ सुरवइ जिणगुणरंजियमणु

पुणु अवसाणि गंपि संमेयहु ।
 जाणमि णाहु विमुक्कउ जोएं ।
 जीवेप्पिणु पुव्वहं कयसोक्खइं ।
 पंचमिदिवसि जाइ पुव्वण्हइ ।
 दंडकवाडुरुजगजगपूरणु । 5
 तिण्णि वि तणुबंधणइं मुएप्पिणु ।
 अजिउ भडारउ गउ णिव्वाणहु ।
 तणु संपूर्इउ अग्गिकुमारहि ।
 अवरु वि जहिं आयउ तहि गउ जणु ।

घत्ता—जिह रिसहें भरहहु वज्जरिउं तिह हउं तुह स्यमाणण ॥ 10
 आहासमि सयररायचरिउ कुंदपुप्फदत्ताणण ॥ २६ ॥

इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
 महाभव्वभरहाणुमणिए महाकव्वे अजियणिव्वाणगमणं णाम
 अद्वितीयसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ३८ ॥

॥ अजियचरियं समत्तं ॥

26 १ A दावियदरिसरिवेयहु, P दरिसियदरिसरिवेयहु. २ AP जाणिवि. ३ AP कय-
 संखहं ४ A दंडु कवाड पयरजयपूरणु, P दंडु कवाडु पयरु जयपूरणु. ५ A भुवणत्तय, P भुवणत्तइ.
 ६ AP संकारिउ. ७ APT सियमाणण. ८ AP omit अजियचरिय समत्त.

१८ 1 a दरि सिय द रि म य वे य हु दर्शितो दरीषु मृगाणा वेगो यस्मिन्मेरौ. 6 b ति णि णि चि
 त णु बंध ण इ औदारिकतैजसकर्मणानि. 8 a सुर सार हिं देवेन्द्रैः. 10 स्य मा ण ण हे श्रीमानन श्रेणिक.

गुणगणहर भासइ गणहर बहुरसभावाणिरंतरु ॥
मगहाहिव णिसुणि मंहाहिव सयरणरिंदकहंतरु ॥ ध्रुवकं ॥

1

इह जंबुदीवि खरयरकराहि	मंदरगिरिपुव्विल्लइ विदेहि ।
सीयहि दाहिणयलि संपिसण्णु	उद्दामगामसीमापउण्णु ।
णं धराणिइ दाविउ सुहपएसु	वच्छावइ णामे अत्थि वेसु । 5
मायंदणवदलुक्कंठियाउ	जहिं कलयलंति कलंयंठियाउ ।
कमलायर धरियसुपुंडरीय	णं णरवइ धरियसुपुंडरीय ।
उववणइ विविहवच्छंक्रियाइं	गोउलइं धवलवच्छंक्रियाइं ।
जहिं संबव दक्खोहल वहांति	घरि घरि करिसणियहं हल वहांति ।
जहिं णिच्चु जि सुट्ठु सुंहिक्खु खेउं	कामिणिउ देति कामुयहं खेउं । 10

घत्ता—विम्भिर्यसुरु तहिं पुहईपुरु पविमलमणिमयमहियंल ॥
सरयामलु चंदयरुज्जलु घरचूलाहयणहयंल ॥ १ ॥

2

तहि णिवसइ सिरिजयसेणु राउ	जिणसेणापणइणिजणियराउ ।
रइसेणु पुत्तु पररमणिअवरु	उप्पण्णु ताहं दिहिसेणु अवरु ।

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi:—

शशाधरविम्वात्कान्ति (न्ति ?) स्तेजस्तपनाद्गभीरतामुदधे ।
इति गुणसमुच्चयेन प्रायो भरत कृतो विधिना ॥ १ ॥

This stanza is also found at the beginning of Samdhi XVIII of this Work in certain Mss. of the Mahāpurāna. For details see Introduction to Vol I. pp. xvi-xxvii and also foot-note on page 295 of the same Vol. K does not give it there or here.

1 १ AP महाणिव. २ A उत्तरयलि, K उत्तरयलि but corrects it to दाहिणयलि.
३ A कलियंठियाउ. ४ AP दक्खारसु. ५ A करसणियहं. ६ AP सुत्थ. ७ AP सुमिक्खु. ८ AP विभियं. ९ AP °महियल. १० °चूडाहयं. ११ AP °णहयल.

1 2 महाहिव महाधिप. 3 a खरयरकराहि आदित्यकरामे, आदित्यतेजोयुक्ते इत्यर्थः.
4 a सीयहि सीतानद्या, b °पउण्णु पूर्ण. 6 b कलयठियाउ कोकिला. 7 a °पुंडरीय कमलम्;
b °पुंडरीय सत्रम्. 8 a °वच्छंक्रियाइं वृक्षलाञ्छितानि. 9 a दक्खाहल द्राक्षाफलानि. 10 a खेउं
क्षेमं कुशलम्; b खेउं आलिङ्गनम्. 11 पुहईपुरु पृथ्वीपुर नाम नगरम्.

2 २ a पररमणिअवरु पररमणीनां अंमती, अपुंश्चल इत्यर्थः, सुशील इति वा.

ते विणिण वि जण पञ्चक्खकाम
ते विणिण वि जण ससिसूरधाम
ते विणिण वि जण परहियविवेयं
गुरुदेवमित्तबंधवविणीउ
करपल्लवग्गताडियउराइं
अप्पउ ण मुणांति ण धेरु दुवारु

ते विणिण वि जण संपण्णकाम ।
ते विणिण वि जण जयलच्छिधाम ।
ते विणिण वि जण जणणहु विहेय । 5
रइसेणु णवर कालेण णीउ ।
पडियइं पियरइं सोयाउराइं ।
सिसुमोहणीउ मुणिहिं वि दुवारु ।

घत्ता—णिवडंतहं विहिं वि रडंतहं उवसमभाउप्पायणु ॥

कयसंतिहि दिण्णउं मंतिहि जिणवरवयंणु रसायणु ॥ २ ॥ 10

3

कुलकंचुईहिं संबोहियाइं
जणमयगलमूलालाणरञ्जु
जयसेणं णासियरइरुएण
णियदेविइ सहं रयंविहुणएहि
दुक्कियदुण्णयदुज्जसहरासु
परिसेसेप्पिणु णीसेसु संगु
वोलीणइ गुरुसेवाइ कालि
मणि तिहुयणलच्छीवइ सरेवि
मुणिवरहिं मयणघणमारुएहिं

कहं कह व ताइं उम्मोहियाइं ।
तक्खाणि दिहिसेणहु देवि रञ्जु ।
सामंतं समउं महारुएण ।
अण्णेहि मि वहुणरमिहुणएहि ।
वउं लइयउ पणवि वि जसहरासु । 5
तउ चिण्णउं तेहिं दुवालसंगु ।
पच्छा संपत्तइ मरणकालि ।
वरपरगणवरियइं पइसरेवि ।
दोहि मि जयसेणमहारुएहि ।

घत्ता—दुरियल्लइं तिणिण वि सल्लइं हिययहु कड्ढिवि घित्तइं ॥ 10

किउ अणसणु दूसहु भीसणु पंच वि करणइं जित्तइं ॥ ३ ॥

4

जयसेणु मरेवि महावलक्खु
वेउव्विउ जहिं णीरोउ काउ

संजायउ सुरवरु जसवलक्खु ।
बावीसजलहिंसमपरिमियाउ ।

2 १ A संपुण्णकाम. २ A °विहेय but gloss °विवेक.. ३ AP घर दुवारु. ४ AP कुलमंतिहिं. ५ A °वयणरसायणु.

3 १ P कह व कहव. २ A णं मयगलथूणा°, P णं मयगलाथूला°. ३ AP रइविहुणएहिं. ४ A दुक्कियदुण्णयदुज्जसहरासु, P दुक्कियदुण्णयदुज्जयहरासु. ५ AP वउ. ६ AP परपरगण°.

5 a पर हि य वि वे य परहितविवेकिनौ, b वि हे य विनययुक्तौ. 8 b सि सु मो हणी उ पुत्रस्नेह .

3 2 a जण मयगलमूलालाणरञ्जु जना एव मत्तगजास्तेषा मूलभूता आलानरञ्जु बन्धनदोर .
3 a णा सि यर इ रु ए ण नाशितरतिरोगेण, b म हा रु ए ण म हा रु त ना म्ना म न्त्रि णा सह. 6 a परि से से-
प्पि णु त्यक्त्वा. 8 a ति हु य ण ल च्छी व इ त्रिभुवनलक्ष्मीपतिर्जिन , स रे वि स्मृत्वा. 10 घि त्त इ क्षि त्तानि.

4 1 a महावलक्खु महावलनामा, b ज स व ल क्खु यशसा शुक्लः उज्वल .

इयरु वि सुहकम्मं तहिं जि धामि
तणु सुइवि महारुड पउरतेउ
ण मुयंति सयणं ससणेहवंधु
जो पावइ अग्गइ मणुयजस्सु
विणिण वि ते दिवि णिवसंति जांव
कोसलपुरि राउ समुद्विजउ
विजया णामं तहु अत्थि घरिणि
सो तियसु सग्गसिहराउ ल्हसिउ

सोलहमइ अञ्चुयकप्पणामि ।
संभूयउ सिरिमणिकेउ देउ ।
किउ दोहिं मि पडिवोहणणिवंधु । 5
तहु अमरु समासइ परमधम्मु ।
कालेण महावलु ढलिउ तांव ।
जसु घरि घोसिज्जइ णिच्चविजउ ।
परमेसरि णाइं अणंगधरणि ।
तहि केरइ गव्वणिवासि वसिउं । 10

घत्ता—हरिकंधरु बहुलकखणधरु छणससहरमंडलमुहु ॥

कणयच्छवि णावइ णवरवि जाणियउ जणणिइ तणुरुहु ॥ ४ ॥

5

संगामसमुदरउद्दमयरु
णं केसरि दरदीसंतदाहु
कालेण गलंतं जाउ पोहु
तणु तासु जोहकरभूसणाहं
मंदरभित्ति व उत्तुंगिमाइ
तहु णिवकुमारकीलाइ ललिय
तेत्तिय जि महामंडलवइत्तु
गय जइयहं तइयहं सुकियसारु
असि चम्मं छत्तु गहवंइ पुरोहु
वरजुवइ थवंइ वरंकुलिसदंडु
चोदंइ रयणं महियलु छखंडु
दुइ पोम संख दुइ अवरं दिव्वु

कोकिउ कुमारु ताएण सयरु ।
दुव्वारवेरिसंगामसोहु ।
पलयक्कु व तिव्वपर्यावरुहु ।
चउरद्धसयाइं सरासणाहं ।
छज्जइ गोरी सेविय रमाइ । 5
पुव्वहं अट्टारहलक्ख गलिय ।
पालंतहु पत्थिवपय पयत्तु ।
उप्पणउ चक्कु फुरंतधारु ।
करि हरि कागणि मणि सेण्णणाहु ।
परपहरणगणणिहल्लणचंडु । 10
महकालु कालु पिगलु पयंडु ।
माणव इय णव णिहि दंति सव्वु ।

4 १ AP धामि. २ A महारुइ. ३ A सयणि. ४ AP पवर धम्म.

5 १ A पयावरुहु. २ P उत्तुंगिमाइ. ३ P कुमारलीलाइ. ४ AP चम्म. ५ AP गिहवइ.
६ AP हरि करि. ७ K omits थवइ. ७ AP दढ°. ८ A णिद्वहणचंडु, P णिव्वहणचंडु. ९ A
चउदइ. १० AP पचंडु ११ A तह पोम सख णेसप्पु सव्वु. १२ P पवरभव्वु.

5 a ससणे हवंधु स्वस्नेहवन्धः, b णिवधु वाग्वन्ध. 6 b समासइ कथयति. 7 b ढलिउ च्युत.
10 a तियसु महावल्लेव.

5 1 a रउद्दमयरु रौद्रमकर, b सयरु सगर. 4 a जोहकरभूसणाहं चापानाम्.
5 a उत्तुंगिमाइ उन्नत्या b गोरी सरस्वती, रमाइ लक्ष्म्या. 7 b पयत्तु प्रवत्नेन. 9 b सेण्णणाहु
सेनापति. 10 a कुलिसदंडु वज्रम्. 12 a दुइ पोम पन्नो महापन्नश्च संख दुइ शंखो
महाशंखश्च.

घत्ता—महि हिंडिवि समरु संमोड्डिवि दुज्जण दुडु दुसाहिय ॥
जलथलवइ णहयर णरवइ देव वि तेण पसाहिय ॥ ५ ॥

6

वरवसुमइ असिणा वसि करेवि
आवेप्पिणु कउ उज्जहि णिवासु
जिंवं भरहहु तिवं सयरहु जि होइ
णामेण चउम्भुहु देउ संतु
आसीणु भडारउ णिलइ जेत्यु
किकरकरवालकरालधारु
गउ वंदणहत्तिइ सयरु राउ
अवलोइउ जिणपयणिहियचित्तु
भो देव महावल णिव्वियप्प
पुहईपुरि णरवैरसंथुपहिं
चिरु चिण्णउ तउ जइणिदमग्गि

णीसेसणरेसहं कप्पु लेवि ।
एत्तिय संपय भुवणयलि कासु ।
तं वण्णहुं ण वि सकंति जोइ ।
उप्पण्णउं तहु केवलु अणंतु ।
संजायउ देवागमणु तेत्थु । 5
अण्णहि दिणि सुंदरु सपरिवारु ।
अवयरिउ तहि जि मणिकेउ देउ ।
वोल्लाविउ तियसें परममित्तु ।
ओलक्खहि किं मइं णाहिं वप्प ।
होइवि जयसेणमहारुपहि । 10
जाया विण्णि वि सोलहमि सग्गि ।

घत्ता—तुहुं सुहमइ ह्यउ णरवइ हउं ओहँच्छवि सुरवरु ॥
जं जंणिउ आसि वियप्पिउं तं हियउल्लइ संभरु ॥ ६ ॥

7

जे गय ते मय मउलवियणयण
संदण ण सुणंति विइण्णु णेहु
रायहं हियवइ धम्मु जि ण थाइ
अंतरि छत्तइं छत्तहर देतु
अंगइं लच्छिहि दोसंकियाइं
रायउलइं पहु पइं जेरिसाइं
णिवडंति णरइ घोरंधयारि
कि रक्खइ तेरउ विजयचक्कु

जे हरिवर ते चल वंकवयण ।
किकर णियकज्जहि देति देहु ।
चामरपवणं उड्ढेवि जाइ ।
तं तइ वि वप्प पेक्खइ कयंतु ।
भुजंतइं केव ण संकियाइं । 5
पंचिदियसुहविसरसवसाइं ।
ण विरप्पइ कि तुहुं भोयभारि ।
सिरि पडइ भयंकरु कालचक्कु ।

१३ AP सुमंडिवि. १४ P दुज्जस.

6 १ AP जिम. २ AP तिम. ३ P वंदणभत्तिइ. ४ AP सयरराउ. ५ P अवलोयउ.
६ AP णरवइ. ७ AP सो अच्छमि.

7 १ P मउलेवि णयण. २ P वियण्णु. ३ A के णउ सकियाइ, P केम ण संकियाइ.

13 समो ड्डिवि उद्धृत्य.

6 1 b कप्पु कर' दण्डो वा. 8 b तियसें मणिकेतुना. 13 सभरु सस्सर.

7 1 a मउलवियणयण सुकुलितनेत्रा. 2 a विइण्णु वितीर्णो दत्त. 5 a अगइं
राज्याङ्गानि सप्त, गीतनृत्यादीनि वा. 7 b विरप्पहि विरज्यसे.

तहु वयणहु तेण ण दिण्णु कण्णु
पुणुं अण्णहि वासरि रयणकेउ
मुणिवरु होइवि कयधम्मसवाणि
तं पेच्छिवि पुरु जंपइ असेसु

गउ सुरवरु सुरहरु मणि विसण्णु ।
णियरुवोहामियमयरकेउ । 10
आइउ थिउ सयरजिणिंदभवणि ।
एहउं ण रूवु पावइ सुरेसु ।

यत्ता—जणणेत्तइं जहि जि णिहित्तइं तहिं जि णिरारिउ लग्गइं ॥
बुहयंदहु तासु मुणिंदहु को वण्णइ तणुअंगइं ॥ ७ ॥

8

तं वंदिवि चिंतइ सयर पंव
एहउ सुरूवु णउ वम्महासु
मुणि कि तुह किर वेरंगु थियउ
तं सुणिवि भणइ मायारिसिदु
भरियउ पुणु रिउत्त होइ राय
तणु धणु परियणु सिविणयसमाणु
किज्जइ तरुणत्तणि तवपवित्ति
जर पसरइ विहडइ देहवंधु
पव्वभट्टेदु गयरमणराउ
डहु थेरु सो वि किं णिव्वियारि
जीविज्जइ जहिं सो णिययदेसु

किं एहा होंति ण होंति देव ।
पुणु चवइ णिवइ दरवियंसियासु ।
भणु किं जोव्वणु वणजोग्गु कियउ ।
झिज्जंतु ण पेक्खहि पुण्णिमिंदु ।
सासय किं चिंतहि अब्भच्छाय । 5
तसथावरजीवहुं अभयदाणु ।
बुहत्तणि पुणु परियलइ सत्ति ।
लोयणजुयलुल्लउ होइ अंधु ।
तरुणिहि कोक्किज्जइ हसिवि ताउ ।
दइवेण जि पंडउ वंभयारि । 10
तं भोयणु जं मुणिभुत्तसेसु ।

यत्ता—कि भव्वे पंडियगव्वे लोउ असेसु णडिज्जइ ॥

विउसत्तणु तं सुकइत्तणु जेण ण णरइ पडिज्जइ ॥ ८ ॥

9

सो सूरउ जो इंदियइं जिणइ
सो इहु वंधु जो धम्मु कहइ
ते कर जे पडिलिहणउं धरंति

सा सुद्धवुद्धि जा तच्चु मुणइ ।
तं तणुवलु जं वयभारु वहइ ।
ते कम जे मउयउं संचरंति ।

४ P omits पुणु. ५ AP आइवि. ६ P एहउ णरु ण अच्चुयसुरेसु.

8 १ A सरुउ, P सरुव. २ AP दरविहसियासु. ३ A मुणि; P मुणे. ४ P वइरगु.
५ A वणजोगु, P वणिजोगु. ६ AP सुहु पहुत्तणु.

9 १ A सो सुद्धवुद्धि जो. २ AP पडिलेहउ धरंति.

10 b °ओहामिय° तिरस्कृत. 11 b सयरजिणिंदभवणि सगरचैत्यालये. 13 णिरारिउ
अतिगयेन. 14 बुहयंदहु बुधचन्द्रस्य.

8 2 b दरवियसियासु इंपद्विकसितास्य.. 3 a मणि चित्ते. 4 b झिज्जंतु क्षीयमाण. 5 a
भरियउ पुणु रिउत्त होइ यो भृतः स रिक्तो भवति. 7 a तवपवित्ति तपःप्रवृत्ति.. 10 a डहु
दग्धः; थेरु वृद्धः; b पंडउ नपुंसकः. 13 णरइ नरके.

9 1 a तच्चु तत्त्वम्. 2 b वयभारु व्रतभार.. 3 a पडिलिहणउं मयूरपिच्छम्.

तं सिरु जं जिणपयजुयलि णवइ
 ते चक्खु ण जे तियमइ गियंति
 सा जीह ण जा रसलोल लुलइ
 सुंकारु देतु णिंदइ दुगंधु
 तं अंगु ण जं कुसयणहु तसइ
 ते चारु केस संजमधरेहि
 सँकयत्थइं जइकररुहइं ताइं
 उज्झउ कामाउरु सीलरहिउ

घत्ता—उज्जयमणु जं गुणभायणु तं माणुसु सुकुलीणउ ॥

तं जोव्वणु हउं मण्णविं घणु जं तवचरणे खीणउ ॥ ९ ॥

तं तौहु णं जं विप्पियेइं चवइ ।
 ते सवण ण जे रइसुइ सुणंति । 5
 तं हियउ ण जं परमत्थि चलइ ।
 तं णकुं ण जं इच्छइ सुयंधुं ।
 सो मित्तु समउं जो रणिण वसइ ।
 उप्पाडिय जे मुणिवरकरेहि ।
 लग्गाइं विलासिणिथणि ण जाइं । 10
 तं जीविउ जं चारित्तसहिउ ।

10

आवेहि जाहुं लइ तुहुं वि दिक्ख
 इय कहइ जइ वि सो देवसाहु
 लइ अँजि वि ण लहइ काललद्धि
 गउ चक्खवट्टि सणिहेलणासु
 अत्थाणि परिट्टिउ छुडु जि जाम
 आयाइं भणंतइं जीयं देव
 दे देहि तुरिउ आएसु कि पि
 मंदर महिहर जेवँडु जं पि
 तं णिसुणिवि सक्कसमाणएण
 आएसहु कारण किं पि णत्थि
 अणुहुंजहु महु रिद्धिहि फलाइं

घत्ता—किं वग्गह पेसणु मग्गह मंडलाइं धणरिद्धइं ॥

महु एक्कें मुक्कें चक्कें सुडु दुसज्झइं सिद्धइं ॥ १० ॥

सिक्खहि गयमयरय मोक्खसिक्ख ।
 पडिबुद्धउ तो वि ण पुहविणाहु ।
 जाणिवि देवे^३ कय गमणासिद्धि ।
 णं इंदिंदिरु कमलिणिवणासु ।
 सहसाइं सट्टि तणुरुहं ताम । 5
 पायडहुं तुहारी पायसेव ।
 णोसरहुं महारिउ रणि पयं पि ।
 लीलाइ समाणहुं कज्जु तं पि ।
 विहसेप्पिणु बुत्तउं राणएण ।
 आरुहिवि तुरंगम मत्तहत्थि । 10
 मा जंपह वयणइं चप्फलाइं ।

३ A जं ण. ४ AP विप्पियउ. ५ AP णकु. ६ A सुगधु. ७ P सकइत्थइं. ८ AP जण°. ९ A उज्जयमणु. १० AP मण्णमि.

10 १ A पुहवणाहु. २ AP अज वि. ३ P कय देवे जाणसिद्धि. ४ AP जीव. ५ AP जेवडु. ६ P तं सुणिवि. ७ P उत्तउ. ८ P लग्गाह.

5 a तियमइ स्त्री, b रइसुइ रतिशास्त्रं कामशास्त्रम्. 7 a णंकु नासिका. 8 a कुसयणहु भूमि-
 शयनात्. 10 a जइकररुहइ यतीना नखानि. 11 उज्जयमणु सरलचित्त.

10 4 a सणिहेलणासु स्वगृहे, b इंदिंदिरु भ्रमरः. 6 b पायडहु प्रकटीकुर्मः. 7 b
 णोसरहुं न अपसरामः पश्चात्पादं न दत्तः. 11 b चप्फलाइ चपलानि निप्फलानि. 12 वग्गह
 उच्छंखलचेष्टा कुस्त.

11

अह जइ सुर्यत्तु दक्खेविउं अज्जु
देवेण जाइं चक्केसरेण
लंविघंटाचामरधयाहं
वरसिहरहं चउवीसहं वि ताहं
जिहं णासइ खलमाणवहं मग्गु
ता णिग्गय तणय पसाउ भणिवि
धरधरणक्खम उद्धुद्धसोंड
धाइय जुवाण मुहमुकराव

तो करह महारउ धम्मकज्जु ।
कारावियाइं भरहेसरेण ।
केलासु गंपि कंचणमयाहं ।
परिरक्ख पउंजह जिणहराहं ।
तिह विरयह तरुसिलसलिलदुग्गु । 5
जैमदंडचंड भुयदंड धुणिवि ।
णं मयगल मयंजलगिल्लगंड ।
णं पलयजलय गज्जणसहांव ।

यत्ता—पविदंडे खणरुइचंडे फाडिउ खणि खोणीयलु ॥

णरसारहिं रायकुमारहि देवहुं दाविउं भुयवलु ॥ ११ ॥

10

12

णियच्चिरपवाहपिहुपहु मुयंति
परिभमियवारिविचम भंमंति
परिमलमिलियालिहिं गुमुगुमंति
सविसइं विसिविवरइं पइसरंति
गिरिकंदर दरि सर सरि भरंति
उत्तुंगतरंगाहि णहि मिलंति
कच्छवमच्छोह समुच्छलंति
पविउलजलवलयहि चलवलंति
वलइयउ ताइ कइलासु केव

करिकरडगलियमयंमलु धुयंति ।
कमलोयरमयरंदइं वंमंति ।
वणयवजालोलिहि सिमिसिमंति ।
फणिफुकारिहि दरोसरंति ।
दिसं णहयलु थंलु जलु जलु करंति । 5
विर्यडयरसिलायल पक्खलंति ।
हंसावलि कलरव कलयलंति ।
कहिय गंगाणइ खंलखलंति ।
वेसाइ पमत्तु भुयंगु जैव ।

यत्ता—धवलंगइ वेढिउ गंगइ पुणु वि मज्झु सो भावइ ॥

10

सुरमणहरु मंदिरमहिहरु तारापंतिइ णावइ ॥ १२ ॥

11 १ A सयत्त. २ AP दक्खवहु. ३ A वर रक्ख. ४ A जिम. ५ A जयदंड°. ६ A वर-
धरणुक्खम उद्धायसोंड. ७ A जलमयगिल्ल°. ८ A राय. ९ A सहाय. १० A परियद्धिउ गंगाजलु,
P परियद्धिउ गगाजलु.

12 १ A चिर पवाहपिहमहु. २ A °मयजल चुवंति, P °मयजलु धुयति. ३ P मुयति.
४ AP वणदव°. ५ A विसिविवरइ. ६ A दिसि. ७ P जलु थंलु. ८ A वियलयलसिलायलि.
९ P खलहलंति. १० A मज्झि. ११ P भाइ.

11 1 a सुयत्तु पुत्रत्वम्. 4 b परिरक्ख पउंजह रथा कुस्त. 5 b °दुग्गु अगम्यस्थानम्.
8 b °जलय° मेघा.. 9 खणरुइचंडे विद्युद्धत्प्रचण्डेन.

12 1 a पिहुपहु पृथुमार्गम्; b °मयमलु मद एव मलः. 3 b वणयवजालोलिहिं
वनदावज्जालापंक्तिभि. 4 a विसिविवरइं सर्पाणा विवराणि विलानि, b दरोसरंति ईषदपसरन्ति.
9 b भुयंगु विट. 10 भावइ प्रतिभासते.

13

फणिभवणि विलगउ दंडरयणु
भयथरंहरंत कुंडलिय णाय
झलझलिय जलहि ढलढलिय धरणि
पडिवोहर्णकारणु मुणितं तेण
फणिमणिपहपिहियदिणाहिवेण
तिहुयणजणमरणुप्पायणेहिं
जोइवि कुमार कय भूइरासि
तहिं कासु वि ण हवइ पलयकालु
अमुयाइं वि मुयाइं व दिट्ठु बंधु
उव्वरिय कह व ते विहिवसेण

तहु सहें कंपिउ सयलु भुवणु ।
वाणि वणयरेहिं पविमुक्क णाय ।
विमिहउं सुरिट्ठु कंपविउ तराणि ।
मणिकेउणा हिं पवरामरेण ।
होइवि मायाणायाहिवेण । 5
गुंजारुणदारुणलोयणेहि ।
णं पुंजिय सजसविभूइरासि ।
दरिसाविउ देवें इंदजालु ।
गय भीम भूइराहि पुंरु सचिधु ।
घरु पत्ता मुक्का पोरिसेण । 10

घत्ता—घरु गंपिणु पिउ पणवेप्पिणु आसणेसु आसीणा ॥
सविसाएं विण्णि वि ताएं दिट्ठु सुट्ठु विहाणा ॥ १३ ॥

14

कक्केयणकिरणुव्भासणाहं
विहि ऊणी सट्ठि दुसंठिएण
मणिमयकुंडलचेंचइयगंडु
दुइ आया इयर ण पइसरंति
पुव्वं चिय सुरसंकेइएण
तं णिसुणिवि मंति वुत्तु तेण
अत्थमंइ ण कि रवि उययभाउ
ण वि णासइ कि तडि मेहसोह

जोयवि सहसहं सुण्णासणाहं ।
सुयदंसणसोक्खुक्कंठिएण ।
राएण पैलोइउं मंतितांडु ।
भणु कारणु तणुरुह कि करंति ।
संवोहणवुद्धिविराइएण । 5
हे म्हाइ महिलहिययथेण ।
उल्हाइ ण किं पज्जलिउ दीउ ।
फुट्ठंति ण कि जलवुव्वुओह ।

13 १ A थरहरंति. २ A झलझलिय. ३ A ढलढलिय. ४ AP विभिउ. ५ AP कंपियउ. ६ A पडिवोहणु. ७ AP वि. ८ P फणमणि°. ९ A °भूय.° १० P सजसविहूइ°. ११ A कासु ण हूयउ. १२ AP अमुया वि. १३ AP पुरि. १४ A उव्वरिय ते ण कह विहिवसेण.

14 १ A जोइवि सहास सुण्णा°, P अवलोइवि सुयसुण्णा°. २ A °सुक्खुक्कंठिएण, P °मोहुक्कंठिएण. ३ A पलोयउ, P पलोविउ. ४ A ते महिवइ महिलहियय°, P हे महिवइ महिलहिआय-थेण. ५ A अत्थवइ. ६ P उयणभाउ. ७ A जलपुव्वओह but gloss जलवुव्वुद.

13 2 a कुंडलिय कुण्डलाकारा जाताः, b णाय नादाः शब्दा. 3 a ढलढलिय कम्पिता. 5 b °णायाहिवेण सर्पाणामधिपेन. 7 a भूइरासि भस्मराशि, b सजसविभूइरासि स्वकीयस्य मणिकेतोर्यगसो विभूतिराशि. 9 b सचिधु सध्वज.. 12 विहाणा म्लानवदनौ.

14 1 a कक्केयण° कर्केतनरत्नम् 2 a दुसंठिएण व्याकुलचित्तेन. 3 a °चेंचइय° अलंकृतौ. 7 a उययभाउ उदयभाक्; b उल्हाइ विध्याति. 8 a मेहसोह मेघगोभाभूता, b °वुव्वु-ओह °बुद्धुदौघः.

थिरु होइ ण संझारायरंगु
विहडइ ण काइं सुरचावदंडु
कालेण गिलिये देविद देव

गउ आवइ णउ सरिसरतरंगु ।
कि खयहु ण वच्चइ मणुयपिंडु । 10
पच्छण्णपउत्तिहि कहिउ एम्व ।

यत्ता—ता रायहु वाडियसोयहु वाहजलदइं णेत्तइं ॥

अलपत्तइं ओसासित्तइं णं गलंति सयवत्तइं ॥ १४ ॥

15

तावेक्कु परायउ दंडपाणि
जिणवरु व णिवारियमव्वविहंरु
सोत्तरियफुरियजण्णोववीउ
सो मंतिहि गहियखणेहि महिउ
ता भासइ लद्धावसरु विण्णु
संसारु असारु णिरायराय
जिह तरुवेळ्ळिहि परगम्मु होइ
जीहोवत्थहि जगमारणेहिं
संसारिय सयल सणेहु लंति
मोहं वद्धा भंवि संसरंति

कासायचीरंधरु महुरवाणि ।
कुंडलियणीलममरउलचिहुरु ।
रूवेण गुणेण वि अहुतीउ ।
कुलवंभणु भणिवि नृवस्सु कहिउ ।
को पुत्तु एत्थु किर कवणु वणु । 5
कि सासय मण्णहि अम्मछाय ।
तिह णरु णारिहि अप्पउं ण वेइ ।
डिंभहिं डंभुंभवकारणेहिं ।
केसा इव वंघणजोग्ग हंति ।
पुणु पुणु हंवंति पुणु पुणु मंरंति । 10

यत्ता—महु वित्तइं पुत्तकलत्तइं एम भंणंतु जि णिज्जइ ॥

सुंहुं माणइ धम्मु ण याणइ जगु खयरक्खे खज्जइ ॥ १५ ॥

16

दारिवि धरणीयलु दिढमुएहिं
अहिभवणि विलग्गउ दंडरयणु

आणिय मंदाइणि तुह सुएहिं ।
णिग्गउ फणि गरलुप्पेच्छणयणु ।

८ A गलिय. ९ A पच्छण्णयउत्तिहिं.

15 १ A °चीर धर. २ AP°विहुर. ३ A अहुईउ, P अहुईउ. ४ AP णिवत्त. ५ A डिंमुंभव°. ६ A मोहं वद्धा. ७ P जगि. ८ P संसरंति. ९ A मरंति P भवंति. १० A हंवंति. ११ A रणंतु. १२ P सुकु माणइ.

16 १ P गरलु दुपेच्छणयणु.

11 b पच्छण्णपउत्ति हिं प्रच्छन्नोक्तिभिः. 12 वाहजलदइं वाष्पजलेन आर्द्राणि. 13 ओ सा सित्तइं हिमविन्दुभिर्गमिपिञ्चितानि.

15 2 a °विहुर कथा.. 3 a सोत्तरिय° उत्तरीयवस्त्रेण सह, जण्णो ववीउ यज्ञोपवीतम्; b अहुतीउ अद्वितीय.. 4 a गहियखणे हिं तपोनिमित्तं गृहीतनियमै. 6 a णिरायराय नृराजराज. 7 a परगम्मु होइ परव्याप्ति भूयते b अप्पउं णवेइ आत्मान न जानाति. 11 णिज्जइ नीयते. 12 खयरक्खे यमराक्षसेन.

16 1 a दारिवि विदार्य. 2 b गरलुप्पेच्छणयणु गरलवरिपूर्णनयनः.

आरूसेप्पिणुं आसीविसेण
ता चवइ सयरु गयदुरियकलिलु
किं एण पणासइ ईद्वसोउ
जहि कहिं मि ण पेच्छमि सुहिविओउ
जहिं सयलकाल अयरामरत्तु
तं सिउ साहंवि गिण्हंवि चरित्तु
लइ वसुह ण इच्छिय तेण केम
ता थविवि भईरहि पुहइरज्जि
दढधम्महु पायंतिइ समग्गु

जोइय णिवं णंदण वइवसेण ।
णहाइज्जइ दिज्जइ काइं सलिलु ।
वरं पंचमुट्ठि सिरि देमि लोउ । 5
ण हु होइ कयाइ अणिद्वजोउ ।
जहि थक्कइ अप्पउ णाणमेत्तु ।
पुणु भीमकुमारु णिवेण वुत्तु ।
गुणवंतं परगेहिणिय जेम ।
अप्पणु लग्गउ परलोयकज्जि । 10
आराहिउ भावें मोक्खमग्गु ।

घत्ता—सहुं भीमें णिज्जियकामें चारित्तेण विहूसिउ ॥

चक्केसरु हुउ जोईसरु मणिकेउं वि सुरु तोसिउ ॥ १६ ॥

17

गउ तेत्तहि जेत्तहि पडिय पुत्त
अवहरिवि विउन्वियगरल भप्पु
उट्ठिय ते सायरि सायरेण
वसु वसुमइ सीहासणु मुपवि
णियजीवियचायपरिग्गहेण
ता तेहि विमुक्कउ णिहिलु गंधु
जाया जइ णियजणणाणुयारि
दोर्वासपयडपासुलियगत्त
उत्ताणखप्परोयरकराल
जणदिद्वपुट्ठिगंयवंसपव्व
कडयडियजाणुकोप्परपपस
कंकालरूव जगभीमवेस

मायाविसमुच्छारयंवलित्त ।
जीवाविय कउ णिम्मलु वियण्णु ।
भासियसुरेण महुरक्खरेण ।
गउ तुम्हं पिउ पावज्ज लेवि ।
तुम्हं विणडिय गंगागहेण । 5
गउ जेण महाजणु सो जि पंथु ।
णारंजण थिरमंण णिवियारि ।
सकवालमूलसुणिलीणणेत्त ।
दीहरणह भासुररोमंवाल ।
विच्छिण्णगाव तवतावतिव्व । 10
उववासखीण चम्मट्ठिसेस ।
णिज्जणंणिवासि सुद्वसुक्कलेस ।

२ P रूसेप्पिणु आसीविसविसेण. ३ AP तुह. ४ A दुद्वसोउ. ५ P वरि. ६ AP सव्वकाल.
७ AP अयरामरत्तु. ८ AP साहमि. ९ AP गेण्हमि. १० AP मणिकेउ वि सतोसिउ.

17 १ AP जेत्तहि तेत्तहि. २ A ०रसपलित्त, P ०रयपलित्त. ३ A ०गरलु दप्पु, P ०गरलु
सप्पु. ४ AP सिंहासणु ५ A ०जीवियराय०. ६ AP मायागहेण. ७ P थिर मणि. ८ AP दोपासु-
पयडपसुलिय०. ९ A उत्ताणुयखप्परो०. १० AP ०रोमजाल ११ P गयवभपव्व १२ AP विच्छिण्ण-
गव्व. १३ AP णिज्जणे णिवासि.

3 b व इ व सेण यमेन. 6 a सु हि वि ओ उ सुहृदा वियोगः. 8 a सा ह वि साधयामि.

17 1 b ०मुच्छारयं मूर्च्छावेगः. 2 a भप्पु भस्म. 3 a सा य रि सगरपुत्रा.. 4 b पा व ज्ज
ले वि दीक्षा गृहीत्वा. 5 a ०चायं त्याग, b गगा ग हेण गङ्गानयनग्रहेण. 8 a दोवासपयडं द्वयो-
पार्श्वयो. प्रकटानि ०पासु लियं पार्श्वस्थि. 10 b वि च्छिण्ण गा व नष्टगर्वाः.

घत्ता—दिहिपरियर पसमियमयजर जमसंजमधरणुच्छव ॥
वहुखमदम कुंचियकरकम णावइ थलगय कच्छव ॥ १७ ॥

18

सुरधणुवलप	विजुज्जलए ।	
गज्जंतघणे	हयविरहियणे ।	
सरिवहसरिसे	धारावरिसे ।	
संविहियथले	पवहंतजले ।	
मृगरवसुहले	वणविडवितले ।	5
णिवसंति इसी	विलुलंति विसी ।	
गलकंदलए	पुणु कंदलए ।	
ओसापसरे	पत्ते सिसिरे ।	
दरिसियगयणे	वाहिरसयणे ।	
णिकंपमणा	धीरा समणा ।	10
तमच्छइयदिसं	गमयंति णिसं ।	
हिमणिग्गमणे	गिम्हाँगमणे ।	
गिरिसिहरगया	सज्जाणरया ।	
संतावणिहिं	रविकिरणसिहिं ।	
विसहंति जई	सुविसुद्धमई ।	15
णिजियविसयं	इय एरिसयं ।	
पालेवि समं	पुत्तेहिं समं ।	
विद्धत्थरंयं	णिव्याणरंयं ।	
जणतोसयरो	पत्तो सयरो ।	
णिट्टुवियरिउं	णिसुणेवि पिउं ।	20
अयमेय वयं	गयमयणमयं ।	
णियपुत्तयहो	वरयत्तयहो ।	
जयलच्छिसहि	दाऊण महिं ।	
आंसमि गुणिहे	गुत्तरंमुणिहे ।	

१४ AP पिहुखमदम.

18 १ AP विजुज्जलिए, २ AP संपिहिय°, K संविहिय but gloss संपिहित°. ३ AP मिगरव°. ४ AP दरसिय°. ५ AP गिभागमणे, ६ A °रहं. ७ A °गहं. ८ AP अपमेयवयं. ९ A वरदत्तयहो; P वरपत्तयहो. १० AP गोत्तयसु णेहं.

18 3 a स गिवहसरिसे नदीप्रवाहसहजे. 7 b कदलए मस्तकप्रदेशे. 8 a ओसापसरे तुयाप्सरे. 13 a सज्जाणरया ध्यानरता.. 21 a अयमेय वयं एतदेव व्रतम्. 22 b वरयत्तयहो वरदत्तय.

घत्ता—अरितरुसिहि राउ भइरहि हिंसारंभु मुएप्पिणु ॥ 25
सरहंगहि ताडि थिउ गंगहि जिणंपावज्ज लएप्पिणु ॥ १८ ॥

19

ताराहारावलिपविमलेहिं	सतुसारखीरसायरजलेहिं ।	
कलहोयकलसकविलियकरेहिं	तहु पयजुयलउ सिंचिउ सुरेहिं ।	
तप्पायधोयसलिलेण सित्त	तहि हूई सुरवरसरि पवित्त ।	
हिमवंतपोमसरवरपसूय	अज्जु वि जणु मण्णइ तित्थभूय ।	
मंदारजाइसिदूरएहिं	अरविंदकुंदकणियारएहिं ।	5
सुपउरमयरंदायंबएहिं	अंचिवि णवकुसुमकरंबएहिं ।	
आमोयमिलियचलंमहुलिहेहिं	गंधेहिं दिण्णणासासुहेहिं ।	
थोत्तेहिं जईसरु धरियजोउ	वंदेवि देव गय सगगलोउ ।	
उप्पाइवि केवलु तिजगचक्खु	संपत्तु भईरहि परममोक्खु ।	
घत्ता—सो मुणिवरु अजरामरु हूयउ खाणि असरीरिउ ॥		10
भरहत्थहि णिवसत्थहि पुप्फदंतु जयकारिउ ॥ १९ ॥		

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
महाभव्वभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे सयरणिव्वाणगमणं णाम
एकूणचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ३९ ॥

॥ सयरचरियं समत्तं ॥

११ AP जिणपव्वज्ज.

19 १ A °महुवरेहि, P °महुयरेहिं. २ A असरीरउ. ३ AP omit सयरचरियं समत्तं..

26 सरहग हि सरथाज्जाया चक्रवाकसहिताया'.

19 1 b सतुसार° सकर्पूर°. 3 a तप्पाय° तस्य पादाभ्याम्. 6 a °आयम्वएहि आताम्रैः.
7 a °महुलिहेहिं भ्रमरै. 11 भरहत्थहिं भरतक्षेत्रवासिभिः.

पणवेष्पिणु संभवु सासयसंभवु संभवणासणु मुणिपवरु ॥
पुणु तहु कैरी कह रंजियबुहसह कहंवि सरासइ देउ वरु ॥ ध्रुवकं ॥

1

सदयं परिरक्खियमयं
चूरियअलियलयंसयं
दूसियपरहणहरणयं
विणिवारियपरदारयं
रयणीभोयणविरमणं
कयणिहिसंगपमाणयं
णाणेणं अपमाणयं
पविहियभव्वसुरायमं
जं तवतावेणुग्गयं
अणुहुत्तं संसारयं

अदयं विद्धंसियमयं ।
लुंचियअलिअलयं सयं ।
पुसियवंभहरिहरणयं ।
परदारिसियपरदारयं ।
धीरं अविवेविरमणं ।
बहुणयणिहियपमाणयं ।
सवराणं पि पमाणयं ।
णिदियसोडसुरायमं ।
जेण वीयराउग्गयं ।
णो वद्धं हरिसा रयं ।

5

10

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi —

विनयाङ्कुरसातवाहनादौ नृपचक्रे दिवि (व) मीयुषि क्रमेण ।
भरत तव योग्यसज्जनानामुपकारो भवति प्रसक्त एव ॥ १ ॥

This stanza is also found at the beginning of Samdhi XXXIII of this Work in certain Mss. See foot-note on page 530 of Vol I. K does not give it there or here.

1 १ AP °बुत्सुह. २ P वीर. ३ AP add after this : देवं जं सुपमाणयं, T seems to omit it. ४ P सवरे दरिसियमायमं. ५ P adds after this : सवरेवि परमायमं, T seems to omit it. ६ P सुरामयं.

1 3 a सदयं परिरक्खियमयं सदयं यथा भवत्येवं परिरक्षितमृगम् b अदयं विद्धंसियमयं अदयं यथा भवत्येव विध्वत्समदम्. 4 a चूरियअलियलयंसयं चूर्णिता अलीकलताया अंशा येन; b लुंचियअलिअलयंसयं लुञ्जिता अलिसमाना अलका केशा येन, स्वयं आत्मना. 5 b पुसियनिराङ्कनानि. 6 b परदारिसियपरदारयं परेपा दर्शितं मोक्षद्वारं येन. 7 a रयणी भोयणविरमणं रात्रिभोजनविरमणं यस्माद्भव्यानाम्, b अविवेविरमणं अविवेपिरपरीषहादिभ्यो निश्चल मनो यस्य. 8 a कयेंत्यादि कृतग्रहिणा सङ्गत्य परिग्रह्य प्रमाण येन, b बहु इत्यादि बहुभिर्न्यायैर्युक्ताभिर्निहिते स्थापिते प्रमाणे येन. 9 b णाणेण अपमाणयं ज्ञानेन कृत्वा अप्रमाणक सर्वव्यापकम्. 9 a सवरेत्यादि स्वपरेषामपि प्रकृत्यल्लभ्यप्रापकम्. 10 a पविहियेत्यादि प्रविहितं कृतं भव्यसुराणामागमनं येन; b सुरायमं मद्यप्रदंमकं शास्त्रम्. 11 a तवेत्यादि तपसस्ताप. शरीरकेशस्तेन उग्रम्, b वीयराउग्गयं वीतरागत्वेनोद्भूतं उत्तमम्. 12 a अणुहुत्तं संसारयं अनुभुक्तं संसुखं सार अनन्तं सुखं येन, b हरिसारयं हर्षात्प्रापम्.

दूरुज्जियसंसारयं	ण हि संसासंसारयं ।	
देवासुरकंपावणं	जं देवं कं पावणं ।	
जयपायडियसयारयं	सिद्धिपुरंधिसयारयं ।	15
कंतं तीइ अयारयं	पढमद्वाणि अयारयं ।	
वीए सरहंकारयं	अरुहं णिरहंकारयं ।	
उयरलीणसयलक्खरं	मंतेसं परमक्खरं ।	
भुवणकुमुयवणसंभवं	तं वंदे हं संभवं ।	
ओसारियअसिआउसं	णविऊणं असिआउसं ।	20
भणिमो संभवसंकहं	जोणीमुहदुहसंकहं ।	

घत्ता—तियसिंदफणिंदहि खयरणरिंदहि जं थुव्वइ कयपंजलिहि ॥
तं जिणगुणकित्तणु महुं सुकइत्तणु अमिउं पियह कण्णंजलिहिं ॥ १ ॥

2

दिणयरपईवए	इह पढमदीवए ।	
मेरुपुव्विल्लए	पसुंकणधणिल्लए ।	
तहि विदेहे वरे	सीयसरिउत्तरे ।	
पविमलदियंतरे	कच्छदेसंतरे ।	
रायहंसुज्जलं	सच्छविच्छुल्लु जलं ।	5
फुल्लपंकयवणं	पवणहल्लिरवणं ।	
णवकुसुमपरिमलं	सरंससुमहुरफलं ।	
रुणुरुणियमहुयरं	रइरमियणहयरं ।	

७ A पढमद्वाणअयारयं. ८ A सुमहियसरहंकारयं. ९ AP add after this पाइय (A झाइय)
णिरहंकारयं, पावियसाहुकारय. १० AT ओहामिय°, P ऊसारिय°. ११ A भरिऊणं.

2 १ P वसुकण°. २ P विदेहे पुरे. ३ A विच्छुल्लजल. ४ AP सरसमहुर फल.

13 b ण हि स सा सं सा रयं हि स्फुटं स्तुतिनिन्दोपरतम्. 14 b ज मि त्या दि य देव क ब्रह्माणं तथा पावन
पवित्र च. 15 a ज य इ त्या दि जगत प्रकटित सन् गोभन आचारोऽनुष्ठानं स्वकीयो वाचारोऽनुष्ठान येन,
b °स यारय सर्वदानुरक्तम्. 16 a क त इ त्या दि कान्त नाथम्, ती इ तस्या सिद्धिपुरध्या., अ यारयं
चारेण उपचारेण दूतेन वा रहितम्, b प ढ मे त्या दि प्रथमस्थाने अकार, तत सुमहितं छुपूजितम् 18 a
सरह का रयं रेफहकारम्, अरुहं इत्यर्थ, b णि र ह का र यं अहंकारान्नि.क्रान्तम्. 18 a उ य रे त्या दि उदरे
मध्ये लीनानि प्रविष्टानि सकलान्यकारादीनि सकारपर्यन्तान्यक्षराणि यस्यार्हमित्यस्य, b मनेस मन्त्रोत्पत्ति-
स्थान मन्त्रप्रधान वा, परमक्खर पर परमात्मानं अक्खर विनागहीनम्. 19 a भु व णे त्या दि भानि
नक्षत्राणि तानि पातीति भपश्चद्र, भुवनमेव कुमुदवनं तस्य समीचीनो भपश्चन्द्र. 20 b ओ सा रि य-
अ सि आ उ सं स्फेटितं लक्ष्म्या आयुरवस्थानं येन, b अ सि आ उ स पञ्चपरमेष्ठिनम्. 21 b जो णी त्या दि
योनिमुखदु खं जन्मदु खं तस्य शङ्का भय तस्या घातकम्.

2 1 a दि ण य र प ई व ए सूर्यप्रदीपे. 4 b °देसतरे देशविशेषे.

तुंगपायारयं	गोउरदुवारयं ।	
विरइयमहुच्छत्रं	तुरंयहिलिहिलिरवं ।	10
रसियनृवधारणं	णीलदलतोरणं ।	
चिंधमालाउलं	विविहजणसंकुलं ।	
हेममयमंदिरं	खेमणामं पुरं ।	
तहिं सुहडसाहणो	पहु विमलवाहणो ।	
वसइ सिरिसेविओ	पणइणीणं पिओ ।	15
चाहरज्जे कए	दीहकाले गए ।	
तिविहणिव्वेइणा	तेण वरराइणा ।	
थोरदीहरभुए	विर्मलकित्तीसुए ।	
सधरधरणी पया	विणिहियां संपया ।	
जिणमसंसयपहं	पणविवि सयंपहं ।	20
जायओ जइवरो	णिम्मम णिरंवरो ।	
संहिवि तवतावणं	धरिवि सुहभावणं ।	
जिणगुणणिवंधणं	भुवणयलखोहणं ।	
चिणिवि सुहंसंपयं	धुणिवि भवभवरयं ।	
उवसमविहसणं	करिवि संणासणं ।	25
अवियलियसंजमो	मरिवि मुणिपुंगमो ।	
पढमगइवेयए	पढमयणिकेयए ।	
विस्सुयसुदंसणे	दुक्खविद्धंसणे ।	
अहममरवइ हुओ	भविययणसंधुओ ।	

घत्ता—तेवीस अणूणइं जलहिसमाणइं आउ णिवद्धउं सुरवरहु ॥ 30
विहिं रंयणिहिं जुत्तउ अद्दु णिरुत्तउ तणुपरिमाणु वि भणिउं तहु ॥ २ ॥

3

तेवीसवरिससहसहिं असइ
वण्णं भावेण वि सुक्किलउ
णउ गेयवज्जसरकलयलउ

तेत्तियहिं जि पक्खिहिं ऊससइ ।
विलुलंतहारमणिमेहलउ ।
णउ णारि ण हियवइ कलमलउ ।

५ P तुरिय^०. ६ AP णिव्वाण. ७ A विवलवाहणो. ८ A विवलकित्ती^०. ९ APT विणिहया.
१० असइ तव^०. ११ AP सुहसचयं. १२ A भवभवरयं. १३ AP अविहलिय^०. १४ A पढमणिके-
यए P पढमइ णिकेयए. १५ A विहरयणिहिं.

3 १ A तेवीससहसवरिसहिं, P तेवीससहसवरिसेहि. २ A सुक्किलउ.

17 a ति वि ह णि व्वे इ णा संसारशरीरभोगवर्गयेण. 19 b वि णि हि या समर्पिता. 24 a चि णि वि
अर्जयित्वा. 26 a अ विय लिय^० अत्रय. 28 a विस्सुयसुदंसणे विश्रुते विख्याते सुदर्शने विमाने.

3 1 a असइ अश्रोति. 3 a ^०वज्जसर^० वाद्यस्वरः, b कलमलउ व्याकुलत्वम्.

पाविट्ट दुट्ट जहि णत्थि जणु
 णाणं जाणइ सुरणरणियइ
 तं तेत्तिउ वैट्टइ णिट्ठियउं
 ता एत्तहि उववणि रमित्तसुरि
 इक्खाउवंसु सुविसुद्धमइ
 धणुगुणसंधियपंचमसरहु
 एक्कहि दिणि णिसि पच्छिमपहरि
 वत्ता—सा सालंकारी सेण भडारी पइवय सोलह सुंदरइ ॥

महिमंडलसामिणि मंथरगामिणि अवलोयइ सिविणंतरइ ॥ ३ ॥

4

करिणं वसहं केसरिणं
 झसजुय कुंभजुयं च वरं
 हरिवीढं देविदघरं
 विष्फुलिगपिगालियणहं
 इय जोइवि पीणत्थणिया
 सिंसुमयणयणा पत्तलिया
 अहिणववेळ्ळि व कोमलिया
 करि धरिवि सविलासिणियं
 पत्ता कंता रायंहरं
 अवलोइवि पइमुहकमलं
 णियवुद्धीइ परिग्गहियं
 जस्स वसा तेलोक्कसिरी
 अमरउलं चियं मिच्चउलं
 सो भदे तुह दिणवरो

लच्छिं दामं चंदमिणं ।
 सरवरममलिणमयरहरं ।
 फणिभवणं फुडमणिणियरं ।
 सिहिणं जलियं दीहंसिहं ।
 पविउद्धा सीमंतिणिया ।
 णीलुप्पलदलसामलिया ।
 गहियाहरणा संचलिया ।
 कलहंसी विव हंसिणियं ।
 सिहरोलं वियसलिलहरं ।
 पुच्छइ सत्था सिविणहलं ।
 तेण वि तिस्सा तं कहियं ।
 मज्जणवीढं मेरुगिरी ।
 जस्स घरं तिजगं विउलं ।
 होही तणओ तित्थंर्रो ।

३ AP वट्टइ. ४ A रमित्तसरि. ५ A इक्खागुवस. ६ A हयसयददु. ७ A ससेण. ८ A सुहसुत्ती, P सुहे सुत्ती.

4 १ AP झसजुयल कुंभजुयं पवर. २ A दीयसिह. ३ P विउद्धा. ४ P मयसिसु°. ५ P रयणहर. ६ A विय; P पिय°. ७ P तित्थहरो.

5 a °णियइ °कर्मविपाकः, b णियइ निरीक्षते. 6 a णि ट्ठियउ निर्गतम्, b णि ट्ठियउ निश्चयेन स्थितम्. 8 b ददु ददरथ. 9 b सुसेण सुपेणानाम्नी, सेण सरहो स्मरस्य सेना सैन्यम्. 11 सेण सुपेणा.

4 1 b इण सूर्यम्. 2 b °मयरहर समुद्रम्. 3 a देविं दघर सुरविमानम्. 6 a सिंसुमय° शिशुमृगः. 9 a रायहरं राजमन्दिरम्, b °सलिलहर मेघम्. 11 a परिग्गहिय परिजातम्. 13 a मिच्चउलं भृत्यकुलम्.

वत्ता—तं णिसुणिवि सुंदरि सरमहिहरदरि रोमंचिय पुलएण किह ॥ 15
महुसमयहु वत्तइ पोसियसोत्तइ पणइणि पियमाहविय जिहं ॥ ४ ॥

5

वज्जिणा धम्मकज्जं तओ पीणियं
पत्थ सावत्थिरायस्स गेहे जिणो
जाहि ताणं तुमं होहि तोसायरो
तामयासाहिवाणाइ मावड्डणं
सव्वहेमालयं सूरयंतप्पहं
आगया गम्भसंसोहणत्थं इरी
जाम छम्मास ता संपयालिंगणे
फग्गुणे मासए सुक्कपक्खंतरे
सिधुरायारधारी सुहेणुणओ
णारिदेहे थिओ सुद्धधाउत्तए
धम्मचंदस्स सच्चंदिमाणंदिया
णिच्च माणिक्करासी पुणो वत्तिया
दीहरद्धीसमाणं खणेणं खणं
जित्तसच्चसुए कम्मणिम्मुकुए
कत्तिए पुण्णिमासीइ भे पंचमे
तइउ तइया तिणाणी समुप्पणओ
आइया भावणा जोइसा चिंतरा
अंकुसो भामिओ देहभाधारिणा
णच्चमाणा परे गायमाणा परे

चित्तियं चिंताणिज्जं मणे भावियं ।
जक्ख होही सुसेणासईणंदणो ।
वासवित्ताइरिद्धीपवित्तीयरो ।
दव्वणाहेण वेउव्वियं पट्टणं ।
सव्वकालंचिवं सव्वसोक्खावहं ।
कंतिं कित्ती दिही लच्छि बुद्धी हिरी ।
भम्मबुद्धी कया राइणो पंगणे ।
पंचमे रिक्खए अट्टमीवासरे ।
पुज्जगेवज्जदेवो समोइण्णओ ।
वारिविंदु व्व राईविणीपत्तए । 10
देवदेवण मायापिऊ वंदिया ।
दोससंखेहि पक्खेहिं णिव्वत्तिया ।
कोडिलक्खा गया तीस जइया घणं ।
पत्तिए वीर्यत्तित्थंकरे दुक्कए ।
सोमंजोए दुजोयावलीणिग्गमे । 15
इंदुं इंदो रवी कंपिओ पण्णओ ।
सायरा भासुरा कप्पवासी सुरा ।
चोइओ वारणो झत्ति जंभारिणो ।
धावमाणा परे खेलमाणो परे ।

८ P जह.

5 १ A मणे जाणियं. P कज्जयं जाणियं. २ AP मावड्डणं. ३ A सूरयंत पहं. ४ A सोहणत्थे इरी and gloss इरी त्वरिता, T इरी, PK सिरी. ५ P कित्ति कंती. ६ P पुव्वगेवज्ज°. ७ AP पत्तए. ८ A वीइ तित्थकरे. ९ A सोम्मजोए. १० A इदु इदो रई किं पि उप्पण्णओ, P सहसु लक्खणहं वनुअहियसंपुण्णओ. ११ A देहभावारिणो, P देहसाधारिणा. १२ A जंभारिणो. १३ AP खेलमाणा.

15 सरमहिहरदरि स्मग्गर्वतदरी. 16 पणइणि सस्नेहा, पियमाहविय प्रिया माधवीलता यस्याः सा कोकिला.

5 1 a पीणियं पीनं महत् कृतम्. 3 b वासवित्ताइ° गृहद्रव्यादि. 4 a अमयासाहिवाणाइ इन्द्राजया मावड्डणं लक्ष्मीप्रवर्तनम्. 5 a सूरयंतप्पहं सूर्यकान्तप्रभम्. 6 a इरी त्वरिता. 10 a सुद्धधाउत्तए अट्टपिनवातपित्तलेप्पमाण, b राईविणी° पञ्चिनी. 11 a धम्मचंदस्स धर्मोद्योतकस्य त्रिनस्य, सच्चंदिमा° शोभनदीप्तिः, b दोससंखेहिं अष्टादशभिः. 13 a दीहरद्धीसमाणं दीर्घसागरोपमानम्. 14 b पत्तिए प्रवृत्ते. 15 a भे पंचमे मृगशिरोनक्षत्रे.

सदृर्हासा परे गज्जमाणा परे सीहसर्द्दा परे संखसद्दा परे । 20
छाइयासारसा सारसा सासुरा चित्तचारेहि पत्तेहि पत्ता सुरा ।
घत्ता—पुरु परियंचेप्पिणु घरु जाणप्पिणु जणणिहि देप्पिणु सिसु अवरु ॥
पियरइं पुज्जेप्पिणु कर मउलेप्पिणु लइउ सुरिदें तित्थयरु ॥ ५ ॥

6

जिणरूवरिद्धि पेच्छंतियइ सुरवरपंतिइ गच्छंतियइ ।
तक्खणि तारायणु लंघियउ सुरसिहरिसिहरु आसंघियउ ।
पविलोइय पंडुर पंडुसिलं सा खंडससंकसमाण किलं ।
ता तहिं सईइ सइं धारियउ करिकंधराउ उत्तारियउ ।
हरिआसणि पहु वइसारियउ इंदेण मंतु उच्चारियउ । 5
दिण्णउं दब्भासणु णिहयमलु दसदिसु परिघित्तु संकुसुमजलु ।
दसदिसु सुंधूवु उच्चाइयउ दसदिसु चरुभाउ णिवेइयउ ।
दसदिसु थियं सुरवर कलसकर दसदिसु वित्थरिय मुइंगसर ।
खीरोयखीरधाराधरहिं सिचिउ जिणिंदु सयलामरहि ।
हारावलितडिफुरिपहि किह गज्जंतिहि मेहहि मेरु जिह । 10
घत्ता—मंगलु गायंतिहि पुरउ णडंतिहि दावियवहुरसंभावहि ॥
णाणाविहभासहि थोत्तसहासहिं जगगुरु संथुउ देवहि ॥ ६ ॥

7

हरिणा परमेद्धि पसाहियउ सुइथुइगिराहि आराहियउ ।
सिहिणा तहु दीवउ वोहियउ जउं जंपइ हउं पइं साहियउ ।
रिछाहिउ रिंछहु ओयरिउ विणपण णपण जि संचरिउ ।
जडवइंणा जडमणु परिहरिउ परमप्पउ णियहियवइ धरिउ ।
वापण भडारउ विज्जियउ रयणेसें रयणाहि पुज्जियउ । 5

१४ A सदृहासा. १५ P सखसद्दा परे पडहसद्दा परे. १६ A चित्तधारेहि, P चित्तयारेहि.

6 १ AP पंडुसिला. २ AP किला. ३ P सुकुसुम°. ४ A दसदिस सुधूसु, P दसदिसु सुधूसुचा°. ५ AP सुरवर थिय. ६ A °भावहिं. P °भावेहिं. ७ A णाणाविहभासहिं, P णाणाविहभासेहिं.

7 १ P सदृथुइ°. २ AP जडवयणा.

21 a सारसा उक्कष्टलक्ष्मीकाः; सासुरा ससुरा. सुरसहिता, b चित्तचारेहि नानाप्रकारवृत्तिभिः; पत्तेहिं वाहनै. 22 परियंचेप्पिणु प्रदक्षिणीकृत्य.

6 2 b आसघियउ आश्रितम्. 3 b खंडससकसमाण अर्धचन्द्रसदृशी. 4 a सईइ शक्या. 7 a उच्चाइयउ उच्चित्तः, b चरुभाउ चरुभाग. 12 णाणा विहभासहिं विचित्रभाषायुक्तै.

7 2 b जउं यमः. 3 a रिंछाहिउ नैर्ऋतः. 4 a जडवइणा वरुणेन. 5 b रयणेसे धनदेन.

ईसाणें ईसु भणिवि णविउ
सूरेण वि मोहंधारहरु
धरणिदे धरणिसमुद्धरणु
इय बहुगिन्वाणहिं वंदियउ

सुसुहासूयं सुहाहि णहविउ ।
सूरु जि णिज्जाइउ परमपरु ।
पत्थिउ महं देव तुहुं जि सरणु ।
ध्रुवु संभवु संभवु सहियउ ।

घत्ता—पुणु पुणु पणवेप्पिणु घरु आणेप्पिणु दिणु सुसेणासुंदरिहि ॥ 10
गुरुचरणइं अंचिवि सुक्किउ संचिवि गउ सुरवइ सुरवरपुरिहि ॥ ७ ॥

8

कणयच्छवि सुहु सलक्खणउ
अंगउ लायणमहिहियउ
जसु आयत्तउ सयमेव विहि
जसु अंगि दुहु लोहिउं गणमि
जसु गुणपरिमाणु णेय लहंवि
अच्छरणररामाणंदणहु
कीलंतहु अमरवरेहिं सहं
घरघडियारयदंडेण हय
पइरत्तउ पेच्छिवि तरुणियणु
उवणेप्पिणु नृवंइकुमारिगणु
घत्ता—तूरहि वज्जंतहि गलगज्जंतहिं तियसेहि कि ण विसंइ महि ॥
जिणणाहु णहवंतिहिं वारि वहंतिहि कि जाणहुं सोसिउ उवहि ॥ ८ ॥

जहिं दीसइ तहिं जि सुहावणउ ।
चउचावसयाइं पवहियउ ।
सो किं वणिज्जइ रुवणिहि ।
सो खमवंतउ किं किर भणमि ।
सो सूहउ हउं किरं किं कहंवि । 5
तेहु तेत्थु सुसेणाणंदणहु ।
भुंजंतहु रायकुमारसुहुं ।
पुव्वहं पण्णारहलक्ख गय ।
आहंडलु आयउ तहि वि पुणु ।
पारंभिउ रायहु परिणयणु । 10

9

भालयलइ पट्टुं चडावियउ
चित्तंतहु तासु णयाणयइं
पुव्वहं परमाउहि संवलिय
तइयहं तहि दिर्यहि सुसोहणइ
अवल्लोइवि गयणि विलीणु घणु
वेरगु पहयउं जिणवरहु

रायासणि राउ चडावियउ ।
पालंतहु गाम्मणयरसयइं ।
चालीस चयारि लक्ख गलिय ।
अच्छंतहु सुहुं सणिहेलणइ ।
थिउ महिगयणयणु विसण्णमणु । 5
हरि सजव वि णंति ण सिवपुरहु ।

३ A सुसुहासूयं P सुसुहासूयं. ४ A ध्रुव सभव संभव P धुउ संभव संभव. ५ A आवेप्पिणु.

8 १ AP महहियउ. २ A कि किर. ३ A रामावंदणहु. ४ A ता तेत्थु. ५ AP पेक्खिवि.
६ T उवणेप्पिणु. ७ AP णिवइ°. ८ AP णाहु. ९ P विसइ.

9 १ P पट्ट. २ A णयणामसयइं. ३ A दिवसि. ४ AP सह. ५ A पहयउं.

6 b सुसुहासूयं चन्द्रेण, सुहाहि अमृतेन.

8 3 a आयत्तउ अधीन. 4 a लोहिउं लोहितम्. 9 a पइरत्तउ स्वामिनि रक्तम्.
10 उवणेप्पिणु दत्ता. 11 विसइ उल्लसिता. 12 उवहि समुद्र..

9 2 a णयाणयइं न्यायान्यायम्, 6 b हरि सजव अश्वा. सवेगा.

गय मत्ता महुं वि जणंति मउ
चामरवापं नृवु मोडियउ
सिरि धरियइं वारिणिवारणइं
तहिं अवसरि लोयंतिय अइय
जं इंदियसोकखु समुज्जियउं
घत्ता—जो पइं संबोहइ सो संबोहइ सूरहु दीवउ मूढमइ ॥

पइं मुइवि गुणुभव सामिय संभव को परियाणइ परमगइ ॥ ९ ॥

पहु रह रहंति मुणिधम्ममउ ।
भणु कवणु ण कालें तोडियउ ।
पुणु होंति ण मारिणिवारणइं ।
ते विण्णवंति भत्तिइ लइय । 10
तं चारु चारु पइं बुज्जियउं ।

10

आणंदु ण हियवइ माइयउ
पुणु परिवृद्धहिं देवावलिहिं
थिरदीहरहत्थगलत्थियहि
सण्हैविउ णविउ पोमाइयउ
दुम्मोउं मुण्णिणु रज्जंगहु
परमेसरु पणइणिपाणपिउ
बहुखगमाणियफलसाउयउं
परिसेसेप्पिणु सिरिरमणिउरु
उप्पाडिउ केसकलाउ किह
सकुसुमु सभसलु सु करिवि करि
किउ रोसपसायहं णिक्खवणु
उववासु करेप्पिणु सावसरि
सावत्थिहि चरियामग्गु किउ

पुणु तेत्थु पुरंदरु आइयउ ।
आहूयं दुद्धसलिलावलिहि ।
चामीयरघडपहत्थियहिं ।
वत्थालंकारविराइयउ ।
सिद्धत्थयसिवियारुहु पहु । 5
णैरखयरहिं तियसहिं वहिवि णिउ
णंदणवणु गांपि सहेउयउं ।
पणवेप्पिणु देवें सिद्धगुरु ।
भवकुरुहंमूलपव्भारु जिह । 10
सइरमणें धित्तउ मयरहरि ।
रीयहं सहसें सहं णिक्खवणु ।
वीयइ दिणि दिणयरकरपंसरि ।
देविंददत्तणिवभवणि थिउ ।

६ AP णिवु. ७ AP गुणणव.

10 १ AP परितुद्धिहिं. २ A आहूउ. ३ A सो णविवउ. ४ A दुम्मोह. ५ P रज्जु गहु. ६ P णरखेयरतियसहिं. ७ P adds after this: आगहणमासि सियकुहुयदिणि, सिलउवरि णिहिउ उइयइणि. ८ A रमणियरु. ९ A मूल पव्भारु. १० A रोसकसायहं. ११ AP रायहंससहसे. १२ A °कयपसरि. १३ P देवेदुदत्त°.

7 b पहु मार्गम्, रहति रुन्धन्ति आच्छादयन्तीत्यर्थः, मुणिधम्ममउ उत्तमक्षमादिरूप. 8 a मोडियउ भ्रमपृष्ठीकृतः. 9 a वारिणिवारणइ छत्राणि. 10 a अइय आगता.. 12 संबोहइ प्रज्वालयति.

10 2 a परिवृद्धहिं वर्धिताभि, b आहूय आनीय. 4 a पोमाइयउ प्रशंसित. 5 a दुम्मोउ दु खेन मोचनीयः. 7 a °साउयउ स्वादु, b सहेउयउ सहेतुकसन्नम्. 8 a परिसेसेप्पिणु त्यक्त्वा, उरु चित्तम् 9 b भवकुरुहमूलपव्भारु ससार एव कुरुहो वृक्षस्तस्य मूलाना समूहः. 10 b सइरमणें इन्द्रेण. 11 a रोसपसायह रोपतोपाणाम्. 12 a सावसरि निजप्रस्तावे पारणवेलायाम्. 13 b देविंददत्तणिव° इन्द्रदत्तम्°.

घत्ता—सुररवु मंदाणिलु घणर्वरिसियजलु सुरहिउ मणिकोडिहिं सहिउ ॥
दायारउ पुज्जिउ दुंदुहि वज्जिउं दाणपुण्णुं देवहिं महिउं ॥ १० ॥ 15

11

दंतेण ण संकडु चिंतविउं	जं अण्णहु कासु वि णिम्मविउ ।
जं संजमजोगउ वुज्जियउं	दहिसप्पिखीरतेल्लुज्जियउं ।
तं भुंजइ सउवीरोयणउं	पडिसेहियदप्पुंक्कोयणउं ।
गहणंति कहिं वि अहणिसु गमइ	जंपइ ण किं पि सं संसमइ ।
विहरइ मणपज्जवणाणधरु	विसमं जिणकप्पं जिणपवरु । 5
तउ एंव करंतहु झीणाइं	चउदहवरिसइं वोलीणाइं ।
कत्तियसियपक्खि चउत्थिदिणि	अवरणिह जम्मरिक्खि वियाणि ।
छट्टेणुववासं णिड्डियहु	सुविसालसालतलि संठियहु ।
गइ पढमि वीइ सुक्कुग्गामणि	चउकम्मकुलक्खयसंकमणि ।
उप्पण्णउं केवलु केवलिहि	गयणोवडंतकुसुमंजलिहि । 10
घत्ता—तहु जाएं णाणं णेयपमाणं जे केण वि णं वि चिंतविय ॥	
ते विवरि अहीसर महिहि महीसर सग्गि सुरिंद वि कंपविय ॥११॥	

12

खगामिणा	ससामिणा ।
समेयया	अमेयया ।
अमाहरा	रमाहरा ।
मलासयं	णियासयं ।
कुणंतया	थुणंतया । 5

१४ A °वरसिय.° १५ AP गज्जिउ. १६ A दाणवंतु.

11 १ A चिंतियउ. 2 A दुक्खुक्कोहणउं. 3 A स सम्ममइ. ४ A ण वि चिंतिय; P ण वि चित्तविया. ५ A वि कपिय, P वि कंपविया.

14 सुरहिउ सुरभिवान .

11 2 b उज्जियउ त्यक्तम्. 3 a सउवीरोयणउ काञ्जिकोदनम्, b पडिसेहियदप्पुक्कोयणउं प्रतिपंधिनदपोत्कोचनकम्. 4 a गहणंति वनान्ते, b संससमइ आत्मान सम्यक् शमयति. 7 b वियाणि वने. 9 a सुक्कुग्गामणि शुक्लध्याने उद्गते सति 12 विवरि पाताले.

12 1 a-b खगेत्यादि आकाशगामिना स्वस्वामिना समेता सुरासुराः (12 b) प्राप्ताः इति संयन्ध. 2 b अमेयया प्रचुग. 3 a अमाहरा अलक्ष्मीविनाशका, b रमाहरा लक्ष्मीधारका; 4 a मलेत्यादि मलासयं मलक्षेपकम् b णियासयं निजचित्तम्. 5 a कुणंतया कुर्वन्तः; b थुणंतया स्तुवन्तः.

मुणीसरं	सरो सरं ।	
ण संधण	ण विंधण ।	
ण जम्मि सा	मलीमसा ।	
रइच्छिहा	कया विहा ।	
महाजसं	तमेरिसं ।	10
महाइया	पराइया ।	
समासुरा	सुरासुरा ।	
सिमुग्गया	समुग्गया ।	
रसुद्धुरा	इमी गिरा ।	
सुसाइया	अणाइया ।	15
सुवत्तया	अवत्तया ।	
रसंकिया	रसुज्झिया ।	
सरूवया	अरूवया ।	
सुंगंधया	अगंधया ।	
सकारणा	अकारणा ।	20
ससंभवा	असंभवा ।	
ससंगया	असंगया ।	
रयासवं	पुणो णवं ।	
दयाणिही	तवोविही ।	
अहंगया	अहंगया ।	25
ण ते णया	वरायया ।	
सरायया	समायया ।	

12 १ P रईच्छिहा. 2 P adds after this: सतच्चया, अतच्चया. ३ AP सगंधया. ४ P द्यामही.

6 *b* सर इत्यादि स्मर. काम शर बाणम्. 8 *a* ण जम्मीत्यादि यस्मिन् मुनीश्वरे सा प्रसिद्धा; *b* मलीमसा मलिना. 9 *a* रइच्छिहा रतिस्पृहा, *b* कया विहा द्विधा खण्डिता पुनर्न संजाता यस्मिन्नित्यर्थ. 10 *b* तमेरिस तं ईदृश मुनीश्वरम्. 11 *a* महाइया महादृतास्ते सुरासुराः. 12 *a* समासुरा समं युगपत् आसमन्तात् शोभनं सन्तीति. 13 *a* सिमुग्गया सिं तेषा सुरासुराणा उद्रता नि सृता, *b* समुग्गया सम्यगुच्चैर्दशदिक्षु गता. 14 *a* रसुद्धुरा रसाढ्या. 15 *a* सुसाइया हे शोभनश्चासौ सादिश्च सर्वस्वरूपेण, *b* अणाइया जीवद्रव्यापेक्षया हि अनादिभूत. 16 *a-b* सुवत्तया अवत्तया इत्यादय सुव्यक्ता अव्यक्तादिधर्मा शरीरापेक्षया ज्ञानापेक्षया च योजनीया. 21 *a* ससंभवा सह सभवेन सुखसद्भावेन वर्तमाना, *b* असंभवा ससाररहिता. 22 *a* ससंगया सह समीचीनेन गतेन ज्ञानेन संयुक्ता, *b* असंगया सङ्गरहिता यदि वा असंगया असप्राप्ता. 23 *a-b* रयासवं पुणो नव कर्माश्रवं पुनरपि नवम्. 25 *a* अहंगया अभंगक भंगरहित देव, *b* अहंगया अग्रं पापं गता. 26 *a* ण ते णया न ते तव नताः *b* वरायया वराका. 27 *a* सरायया सरागाः नृपतिसहिता वा, *b* समायया वञ्चनायुक्ता परवञ्चकाः.

खयं गया	महादिया ।	
सइंदिया	अणिंदिया ।	
णिविदियाँ	णिवंदियाँ ।	30
पसाहिओ	पवोहिओ ।	
कुक्कम्मरं	सुयंतरं ।	
कहंति जे	कुवुद्धि ते ।	
णगेषु या	पुरीसुं या ।	
पढंत्तुं मा	ण ताण मा ।	35
सुसासिया	णिरंसया ।	
सुणीरण	तुहारण ।	
अदुण्णण	बुहा मण ।	
कउज्जमा	महाखमा ।	
चरंति जे	लहंति ते ।	40
महुंणइं	परंगइं ।	
सुहं गया	हयावया ।	
णिरामया	सरामया ।	
णिरंजणा	णमो जिणा ।	

घत्ता—कयंमाणवखंभहिं सारसरंभहिं वेल्लीदुमंमणिवेइयहिं ॥ 45
 वरधूलीसालहिं णच्चणसालहिं गोउरधूहहिं चेइयहिं ॥ १२ ॥

13

जहिं समवसरणु सुराणिम्मविउं

गुरु कंडीरवविद्धरं ठविउं ।

५ AP णिवदिया. ६ A omits this foot. ७ P कुक्कम्मदं. ८ AP णएसु वा. ९ P पुरेसु वा.
 १० A पढंत्तुं मा. ११ A सुसया. १२ APT महुण्णइं. १३ A माणवहरखंभहिं; K omits कयं.
 १४ P वल्ली.

13 १ A विद्धर.

28 a-b ख व गया अयं गतास्ते महाद्विजा लिङ्गिनो वा. 29 a सइंदिया द्रव्येन्द्रियसहित, b अणिंदिया भावेन्द्रियरहित, अथवा अणिंदिया अर्निदित. 30 a णिविंदिया मनुष्यवन्दित अथवा णिविमित्यादि नृप राजानं विप्रा द्विजाः. 32 a कुक्कम्मर कुक्कर्मदम्; b सुयंतरं श्रुतान्तरम्. 35 b ण ताण मा न तेया ल्ळमीर्दिजानाम्. 36 a सुसासया सुपु शाश्वता मोक्षलक्ष्मीरित्यर्थः, अथवा सुसासया शोभनलक्ष्म्या आश्रय, b णिरसया निष्कल. 37 a सुणीरण सुपु निर्मले, b तुहारण त्वदीये. 38 a अदुण्णण दुर्नयंहिते, b बुहा मण मते मार्गे बुधाः. 41 b महुंणइं स्वर्गादिलक्ष्मीम्; b परंगइं मुक्ति वा. 42 b सुहंगया हे देव शुभशरीर, b हयावया हतापदा येन. 43 a णिरामया रामाग्रित, b सरामया सरस्य कामत्यामयो रोग इति सुरासुराणां निर्गता गी.

जहिं सुविहावलउं विलंबिकरु
जहिं गहाणिवडिउं पस्यपयरुं
जहिं छत्तइं तिण्णिण समुब्भियइं
जक्खिदमउंडसिहरुद्धरिउ
जहिं वंति गंति गच्चंति सुंर
तहिं संणिसण्णु सो परममुणि
श्रुणि साहइ जणजम्मंतरइं
श्रुणि साहइ मणुयदेवसुहइं
श्रुणि साहइ जीवरासिकुलइं

अलिचुंविण्यफुल्लुं असोयतरु ।
आहंडलडिंडिमु मुयइ सरु ।
विविहइं चिंधइं चमरइं सियइं ।
जहि धम्मचकु आराफुरिउ । 5
विंभयरसपरवस थक्क णरं ।
मुणिवयणाविण्णिंगउ दिव्वज्जुणि ।
श्रुणि साहइ भूर्भुवणंतरइं ।
श्रुणि साहइ णरतिरियदुहइं ।
श्रुणि साहइ वंधमोक्खफलइं । 10

घत्ता—श्रुणि सुणिवि पवुद्धहं जाइविसुद्धहं णिग्गंथहं मउलियकरहं ॥

जायउ गयगामिहि संभवसामिहि पंचुत्तरु सउ गणहरहं ॥ १३ ॥

14

तहिं चारुसेणु पहिलउ भंणिवि
दोसहसइं अवरु दिवहु सउ
सयतिउ सलक्खु सिक्खुयंमइहिं
परमोहिणाणधारिहि मियइं
पण्णारहसहसइं केवलिहि
सहसाइं रिसिंदहं वसुसयइं
सउ सहु सहासइं तवसमइं
सउ सयहं समउ सयवीसइइ
जायइं वम्मीसरदारहं
लक्खाइं तिण्णिण रइवज्जियहं
सावियहं लक्ख पंच जि भंणमि

पुणु गणमुणि मेळिवि मुणि गणंविं ।
पुव्वंगधरहं थिउ जिणिवि मउ ।
एक्कूणतीससहसइं जइहिं ।
छहसयइं रंधसहसंकियइं ।
एक्कूणवीस पसामियकलिहिं । 5
वेउव्वणरिद्धिहि कयवयइं ।
मणपज्जवधरिहिं धरियसमइं ।
जइवाइहिं संखं करविं मइइं ।
दुइलक्खइं एंव भडारहं ।
दहगुणिय तिण्णिण सहसज्जियहं । 10
सावयहं तिण्णिण ते हउं मुंणमि ।

घत्ता—अहाणिसु कयसेवहं चउविहदेवहं देविहि संख ण दीसइ ॥

संखेज्जतिरिक्खहं इच्छियसोक्खहं धम्मु अधम्मं वि भासइ ॥१४॥

२ AP फुल्ल. ३ A णिवडिय. ४ AP °पवर. ५ A °मउल°. ६ AP सुरा. ७ A विंभिय. ८ AP णरा. ९ P °विण्णिगय. १० P भुवणु अणंतरइं. ११ A णरयतिरिय°.

14 १ P भणमि. २ A गणिवि. २ A सिक्खुव°, P सिक्खय°, ३ AP सहु. ४ P सयवीमइहु. ५ AP करमि सख. ६ P मइहु. ७ A जाया. ८ A °दारयह. ९ A भडारयह. १० AP मुणमि. ११ AP भणमि. १२ AP अहम्मु वि हासइ.

13 2 a सु विहावलउ शोभनं भावलयम्, विलंबिकरु प्रसृतकिरणम्. } a पस्यपयरु पुष्पप्रकरः. 6 a वंति वादयन्ति.

14 4 a मियइ मितानि, b रधसहसकियइ नवसहसयुक्तानि. 8 a सयवीसइइ शतानां विंशत्या.

15

महि विहरिवि भवियतिमिरु लुहिवि
 तहिं दोणिण पक्ख तणुचाउ किउ
 दिक्खहि लग्गिवि पुव्वहं तणउं
 वच्चाउहिं पुव्वहं थिँत्ताइं
 मासम्मि पहिल्लइ पक्खि सिइ
 णियजम्मरिक्खि संभाइयउ
 छेइल्लउ सुक्कज्जाणु धरिवि
 पुग्गलपरिणामहु णवणवहु
 ठिउ अट्टमपुह्वइहि अट्टगुणु
 सुरमुक्ककुसुमरयमहमहिउ
 वउ वीयरायरायहु ललिउ
 लोपहिं पविच्च पावरहिय

संमेयहु सिंहरु समारुहिवि ।
 रिसिसहसें सहं पडिमाइ थिउ ।
 चोदहवरिसूणउं लक्खु गउ ।
 लक्खाइं सट्ठि अणुहुत्ताइं ।
 छट्ठइ दिणि मज्झणहइ ल्हसिइ । 5
 अवि घाइचउक्कु वि घाइयउ ।
 किरियाविच्छित्ति झ च्छि करिवि ।
 गउ मुक्कउ संभवु संभवहु ।
 महं पसियउ णिक्कलु णाणतणु ।
 दीवेहि गंधध्रुवहि महिउ । 10
 अग्गिंदमउडमणिसिहिजलिउ ।
 अरुहंगभूइ सीसें गहिय ।

श्रुता—जिणणिव्वाणुच्छवि सच्छरु सविहवि सुरवइ भरहु पणाच्चिउ ॥
 गउ णियंघररंगहु सिंगारंगहु पुष्पदंतणियराच्चिउ ॥ १५ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरइय
 महाभव्वभरहाणुमणिणए महाकव्वे संभवणिव्वाणगमणं णाम
 चालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४० ॥

॥ संभवेचरियं समत्तं ॥

15 १ A सिहरि. २ P रिसिसहसें पडिमाजोएं ठिउ. ३ A चउदह^०; P वारह^०. ४ AP विन्नाइं. ५ AP अणुहुत्ताइ. ६ P इय घाइ^०. ७ A परिमाणहु. ८ AP पुह्विहि. ९ P णियघरि गहु वज्जिग्गंगहु. १० AP omit संभवचरियं समत्तं.

15 1 a लुहिवि स्फोटयित्वा विनाशय. 2 a तणुचाउ कायोत्सर्ग.. 4 b अणुहुत्ताइं अनुभूतानि. 5 a मासम्मि पहिल्लइ चैत्रे. 6 a संभाइयउ संभावित.. 9 b पसियउ प्रसीदतु. 11 a वउ वपुः घर्गरम्. 12 b अरुहंगभूइ अर्हत शरीरभस्म. 13 सच्छरु साप्सरा.; सविहवि स्वविभावः.

अहिणंदणु इंदाणंदयरु णिंदिदियइं णिवारउ ॥
वंदारयवंदहिं वंदियउ वंदिवि संतु भडारउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

असोक्खकंतारयं	हयभवोहकंतारयं ।	
ण जं च कंतारयं	ण्हवणयम्मि कं तारयं ।	
ज्जणस्स सं गंगयं	कुणइ जस्स संगं गयं ।	5
विइण्णमलभंगयं	हुणइ वहुमाणं गयं ।	
सुवण्णरुहरंगयं	जसपउण्णभूरंगयं ।	
विहंसियणिरंगयं	जणियभावणारंगयं ।	
रयं परमघोरयं	असमसंपयावारयं ।	
सुजायमसरीरिणं	णिहण्णिऊणमसरीरिणं ।	10
जमीसममरच्चियं	गुण्णिसेणियाहिं चियं ।	
भहं तमहिणंदणं	पणविऊण धीणंदणं ।	

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi:—

वरमकरोदपारतरविवरमहिकिरणेन्दुमण्डलं
यदपि च जलधिवलयमधिलंघ्य विधेस्तदनन्तर दिशः ।
विगलितजलपयोदपटलद्युति कथमिदमन्यथा यशः
प्रसरदमादमल्लकदनाभारत भुवि भरत सांप्रतम् ॥ १ ॥

A reads °किरणद्धिमण्डलं in the first line; P reads विधिसूदनन्तर दिशः. P repeats the stanza at the beginning of XLVII. A gives it only here. K does not give it here or there.

1 १ AP °विदहिं. २ AP add जं before जणस्स. ३ AP हणइ. ४ A °मसिरीरणं. ५ P गुण्णिसेणि°.

१ 1 णिं दिं दियइं निन्द्यानि इन्द्रियाणि. 2 वंदारयवंदहिं देववृन्दैः. 3 a असोक्खकंतारय असौख्यजलतारकम्, b हयभवोहकंतारय हतजन्मौघाद्यटवीकम्. 4 a कतारयं स्त्रीरतम्; b कं जलम्; तारयं पाण्डुरम्. 5 a स शम्, गंगयं गङ्गाजात जलम्, b संगं गयं स्वाङ्गं स्वशरीरं प्राप्तम्. 6 a विइण्णमलभंगयं वितीर्णो दत्तः मलाना भङ्गो येन सः तम्; b हुणइ भस्मीकरोति, गयं रोगम्. 7 a सुवण्णरुहरंगयं सुवर्णवट्टुचिराङ्गम्, b जसपउण्णभूरंगयं यशःपूर्णाभूमण्डलम्. 8 a °णिरंगयं मदनम्, b °भावणारंगयं °बोडशभावनासु रागम्. 9 a रयं आत्मरतम्; परं परमात्मानम्, अघोरयं अरौद्रम्; b असमसंपयावारयं क्रोधसंपदो निवारकम्. 10 a सुजायं सुजातम्, असरीरिणं सिद्धम्; b असरीरिणं अश्रीं दारिद्र्यं सा एव ऋणम्. 11 a जं+ईसं+अमरच्चियं अमरैः पूजितम्; b गुण्णिसेणियाहिं चियं गुणपक्तिभिः प्रवृद्धम्. 12 b धीणंदणं बुद्धिविवर्धकम्.

भणामि तव्ववसियं	किर कहं तिणा ववसियं ।	
वणे चडुलवाणरे	सुहयमाणिणीवाणरे ।	
मुएउ मा णा सणं	सुणउ पावणिण्णासणं ।	15
इमं सुकियवासणं	लहउ सम्मईसासणं ।	

यत्ता--जिव सुयकेवालि जिव तियसवइ जिवं पुणु थुणउ फणीसरु ॥
हउं णरु जीहासहसेण विणु किं वण्णावि परमेसरु ॥ १ ॥

2

सालतालतालीदुमोहए	मेरुसिहरिपुंवे विदेहए ।	
संचरंति करिमयरसंतई	वहइ गहिर सीया महाणई ।	
तीई तीरि दाहिणइ पविउले	चूयचारफलघुलियसुंविउले ।	
वारिवाहधाराहि सित्तए	मुग्गमासजववीहिछेत्तए ।	
छेत्तवालिणीसहसंगए	दिण्णकण्णसंठियकुरंगए ।	5
वेकरंतवहुदुद्धगोहणे	वच्छमहिसवसहिंदसोहणे ।	
सव्वधण्णछण्णे अणूसरे	सरतरंतकिणरवहूसरे ।	
कंजपुंजरुंजंतमहुलिहे	कयलिललियलवलीलयागिहे ।	
णिसुयमहुरपियमाहवीसरे	पहियहिययगयविसमंसरसरे ।	
उच्छुवीलणुल्लियरसजले	मंगलावईभूमिमंडले ।	10
कोट्टवडुलडालदुग्गमं	रुद्धकुद्धलुद्धारिसंगमं ।	
खोल्लखाइयावृढकोमलं	पंचवैण्णकेलिल्लिचंचलं ।	
मणिगणंसुमालाविरोहियं	कूर्वदीहियावाविसोहियं ।	
कणयघडियघरपंतिपिगलं	णिच्चमेव संगीयमंगलं ।	
अमियरायरिद्धीपवडुणं	रयणसंचयं णाम पट्टणं ।	15

६ A चट्टुलवाणरे, P चवलवाणरे. ७ A जिण पुणु.

2 १ A पुव्वविदेहए. २ A संचरंत°. ३ A ताइ. ४ P पविउले. ५ A मुग्गमाह°. ६ P छत्तए. ७ A वेकरंतवहुदुद्ध°, P बुक्करंत°. ८ A पुंजरयरत्त°. ९ P विसमसरिसरे. १० A उच्छुपीलणु°; P उच्छुपीलणु°. ११ A कोट्टवडुलडालदुग्गमं, P कोट्टवडुलडालसंगमं. १२ P कुद्धलुद्धमुद्धारिदुग्गमं. १३ A पचवण्णककेल्लि°. १४ P दीविया°. १५ A पवडुण.

13 a तव्ववसियं तस्य चरितम्, b तिणा तेन. 14 b सुहयमाणिणीवाणरे सुभगमानिनीनां कामवाणे पीडाजनके. 15 a मुएउ मा णा सणं ना पुरुष मा स्वनं शब्दं मुञ्चंतु, मौनेन शृणोत्वित्थं कयान्तरमित्यर्थ. 16 a सुकियवासणं सुकृतवर्षणम्.

2 2 a सतई संततिः. 3 b सुविउले °पक्षिसमूहे. 4 b छेत्तए °क्षेत्रे. 7 b अणूसरे धारभूमिरहिते. 9 b विसमसरसरे °कामवाणे. 12 a खाइया° खातिका परिखा, b केलिल्लि° ध्वजाः पताकाः. 15 a अमियरायरिद्धी° प्रचुरराजलक्ष्मीः.

तत्थ वसइ राया महावलो
जस्स लच्छिकंता उरत्थले
दीहकालमवियरुंमणोरहं
किं कुंणामि णिच्चं परासुहं
माणसं दमेणं णियंतियं

भुयवलि व्व धीरो महावलो ।
रमइ कित्तिरमणी महीयले ।
भुंजिऊण रज्जं रमासुहं ।
हो^० मुयामि इणमो परासुहं ।
एम तेण सहसा विचिंतियं ।

20

घत्ता—धणवालहु बालहु णियसुयहु विरइवि पट्टणिवंधणु ॥

सो पासि विमलवाहणजिणहु जायउ राउ तवोहणु ॥ २ ॥

3

सो णिगंथु गंथु ण समीहइ
ण पसंसाइ करइ पहंसियं मुहुं
दूसंतउ परु पिसुणु ण दूसइ
लाहालाहइ जीवियमरणइ
जिणिवि कुहेउवाय णयचंडहं
एयारह अंगइ अवगाहिवि
वंधिवि कयसोलहकारणहलु
णिहणयालि अणसणु अब्भसियउं
कामकोहधरणीरुह खंडिवि
णाणसासु वट्टारिउ चंगउं

सणियउं चियरइ पावहु वीहइ ।
णउ केण वि णिदिउ मण्णइ दुहुं ।
हिंसंतउ मणावि णउ हिसइ ।
समु जि समणु संठिउ समचरणइ ।
तिण्णिण तिउत्तरसंय पासंडहं । 5
दंसणु सुद्धि बुद्धि आराहिवि ।
सिरिअरहंतणाउं गोत्तुज्जलु ।
देहखेतु रिसिहल्लिपं किसियउं ।
पासहि दिहिवइ दढयर मंडिवि ।
सासु मुयंतं मुक्कु णियंगउं । 10

घत्ता—सुहझाणं मुउं सो परमरिसि णिम्लु णिरुवमरूयउ ॥

अहमिदु अणुत्तरि धवलतणु विजयविर्माणइ हूयउ ॥ ३ ॥

4

जलहिसममिए
कालि णिग्गए

तीसतियहिए ।
सुरहं मग्गए ।

१६ AP °मविलय°. १७ A °मणोहर. १८ A °रमाहर. १९ P कुणोमि. २० हो ण जामि.

3 १ P ण गंथु. २ AP पहंसियसुहु. ३ A परपिसुणु ण दूसइ, P परि पिसुणु ण दोसइ.
४ AP तिण्णिण तिसट्टिसयइं. ५ AP दंसण°. ६ A रिसिहलि संकिसियउ. ७ A मुयउ. ८ AP
°रूवउ. ९ A अणुत्तर. १० P °विमाणे.

4 १ A समणिए, P समसिए. A २ सुरहर गए.

18 a °अ वियल° निर्विघ्नम्. 19 a परासुह परप्राणघातकम्; b परासुहं अतीवाशुभम्.

3 1 b सणियउ शनै. 3 b मणावि मनागपि. 5 a कुहेउवाय कुहेतुवादा. 8 a
णिहणयालि मरणकाले, b °हल्लिपं कर्षकेण. 10 a णाणसासु ज्ञानमेव धान्यम्.

4 1 b °तियहिए त्र्यधिके. 2 b सुरहं मग्गए देवाना रीत्या.

तम्मि सुंदरे	हं पुरंदरे ।	
थिइ सुहासए	आउसेसए ।	
धरियँजीवए	पढमदीवए ।	5
वइरिखंडणा	भरहमंडणा ।	
अत्थि सुहयरी	कोसलाँउरी ।	
रिसहकुलरुहो	पुण्णससिमुहो ।	
तहिं महीसरो	णाम संवरो ।	10
तस्स इत्थिया	साहियत्थिया ।	
चारुहारिया	सुइँसरीरिया ।	
भवणलच्छिया	मउँलियच्छिया ।	
णिसिविरामए	चरँमजामए ।	
पेच्छए हियं	सिविणमालियं ।	
गलियमयजलं	अंमरमयगलं ।	15
कुंदंपंडुरं	गोवइं वरं ।	
णहरदारुणं	दुरयवइरिणं ।	
वहुविलासिणी	णलिणँवासिणी ।	
भमररामयं	कुसुमदामयं ।	
णयणपरिणयं	सिसिरकिरणयं ।	20
णिहयँतिमिरयं	तरँणमिहिरयं ।	
रमणरसणयं	मीणामिहुणयं ।	
सजलकमलयं	कलसजुवलयं ।	
रमियँरोयरं	पंकयायरं ।	
मयरभीयरं	खीरसायरं ।	25
लच्छिसासणं	हरिवरासणं ।	
हरिणिहेलणं	फणिणिकेयणं ।	
सुमणिसंगहं	अवि य हुयवहं ।	

यत्ता—इय दंसणणिउँरुंवउ सइइ सुँहसुत्ताइ णिरिक्खिउ ॥

सुविहाणइ संवरँणरवइहि जं जिह तं तिह अक्खिउ ॥ ४ ॥ 30

३ A थिव ४ P reads this line as : पढमदीवए धरियजीवए. ५ AP कोसलापुरी. ६ P चरीरिया. ७ A मीलियच्छिया. ८ A चरिम°. ९ P reads this line as : गोवइं वर कुदंपंडुर. १० A कमलवासिणि. ११ A णिहिय°. १२ A तरणि°. १३ P रमियखेयर. १४ A णिउरंवउ. १५ AP सुँहं सुत्ताइ. १६ A संवरणिवइहि.

4 a सुहासए शुभाश्रये. 17 b दुरयवइरिणं गजशत्रुं सिंहम्. 20 a °परिणयं °मनोज्ञम्. 24 a °नेयर °चक्रवाकम्. 29 दंसणणिउँरुंवउ त्वमसमूहः.

5

तं णिसुणिवि जसधवलियमहियलु
जो तिहुवणमंगलु तिहुयणवैइ
सो तुह होसइ सुउ मँइ णायउं
तहि अवसरि दिवि सक्के बुँकिउं
सिरिअरहंतु देउ अँवलोयउ
मा होज्जउ तहु कि पि दुगुंछिउ
ता साँकेयणयरु वित्थारिउ
फुरियपसंडिपिंडुं पविरइयउ
कडयमउंडेमंडियवरगत्तउ

कहइ कंतु कंतहु सिविणयफँलु ।
जं झायंति जोई गयमलमइ ।
णच्चहि सुंदरि चंगउं जायउं ।
संवरमहिवइ भुंजउ सुक्किउ ।
सिद्धत्थइ सिद्धत्थु जणेव्वउ । 5
अहु णिहिणाह करहि हियइच्छिउं ।
अहिणवु धणएं सब्बु सवारिउं ।
जहिं दीसइ तहिं तहिं अइसइयउ ।
उयरसुद्धिपारंभणित्तउ ।

घत्ता—सोहम्मसुरिदें पेसियउ सब्बउ पुण्णपसत्थउ ॥

10

घरु रायहु आयउ देवयउ मंगलद्वविहत्थउ ॥ ५ ॥

6

छम्मासइ वसुहार वरिद्धी
ता वइसाहँहु पंडरपक्खइ
विजयणाहु तिहुयणविक्खायउ
मयणविलासविसेसुप्पत्तिहि
पुणु सो णिहिवइ णिवँहि पसाहिइ
धरणीयलँगयणिहिथाकरिसइं
जँसससहरकरधवलियदिग्गइ
जइयहुं सायरसरिसहुं झीणइं
तइयहुं माहमासवारसियहि
वारँहमम्मि जोइ कोमलतणु
णाणत्तयजाणियजगरूयउ

थियं जिणंजणणि जाम संतुद्धी ।
छट्ठीवासरि सत्तमरिक्खइ ।
करिरूवँ सिविणंतारि आयउ ।
उयरि परिट्ठिउ संवरपत्तिहि ।
प्रंगंणि छडरंगावलिसोहिइ । 5
णँव वि मास माणिक्कइं वरिसइ ।
संभविं संभवपासविणिग्गइ ।
दहलक्खइं कोडिहिं वोलीणइं ।
पालेयंसुकरावलिसुसियहि ।
वारहअणुवेक्खाभावियमणु । 10
देउ चउत्थउ जिणु संभूयउ ।

5 १ P °हलु. २ A तिभवणवइ. ३ A जोगि. ४ A मयणायउ. ४ AP बुज्झिउ. ५ A सवरणरवइ भुंजइ. ६ A अविलेवउ, P अवलोइउ. ७ A सक्केयणयरु. ८ AP समादिउ. ९ A °पिंड. १० A °मउलमंडिय°.

6 १ A णियजणणि. २ P वयसाहहु. ३ AP पडुर°. ४ A पवरपसाहिइ. ५ AP पंगणि. ६ P धरणीयले. ७ P णवमामइ. ८ A ज ससहरकरधवलियदिग्गइ; P °धवलिए दिग्गए. ९ A सभमि. १० AP संभवपासहु णिग्गइ. ११ A पालेयसकरावलि°, P पालेयसुकलावलि°. १२ AP वारहयम्मि.

5 4 a बुक्किउ कथितम्, 6 b अहु णि हि णा ह हे कुवेर. 8 a °पसंडि° सुवर्णम्.

6 2 b सत्तमरिक्खइ पुनर्वसौ. 4 b °पत्तिहि पल्या.. 7 a °दिग्गइ °दिग्गजे. 9 b पालेयंसु° हिमांशुश्चन्द्र, °सुसियहि उज्ज्वले.

घत्ता—जिणजम्मंणु आसणथरहरणि जाणिवि कुंजरु सज्जिउ ॥

महि आयउ ससुरु सुराहिवइ सुरकरचमराहि विज्जिउ ॥ ६ ॥

7

पुंरि परियंचिवि पइसिवि णिवघरि
सयणुकिरणकविलियपविउलणहु
वहुभवकयवयणियंमियणियमइ
कमलकुलिसकलसंकियकम जुउ
णंद वद्ध जय देव भणेप्पिणु
अंकि चडाविउ चंपयगोरउ
जायउ जंतहु गुरु रहसुव्भइ
पडिवाहणहयवाहणसेणिहि
वारणु चरणचारु संजोईउ
जिणदेहच्छविइ अहिहवियउ
ससिरवितारापंतिउ लंघिवि

कित्तिमु सिसु दिण्णउ जणणिहि करि ।
पोमरायपहणिहतंविणणहु ।
विसमविसयविसहरणहयरवइ ।
विरइयरइसंवरु संवरसुउ ।
सुरणाहं मुणिणाहु लपप्पिणु । 5
गोरो सो तेण जि अवियारउ ।
अमराविमाणहं घणवाहि संकहु ।
इंदं कह व मंदसंदाणिहि ।
मंदरु मंदरुइल्लु पलोइउ ।
गुरुयणतेणं कवणु ण खवियउ । 10
तं तहु तणउ सिहरु आसंघिवि ।

घत्ता—तहि पंडुसिलायलु ससिधवल्लु तित्थु पसण्णु णिहालिउ ॥

अहिमंतिवि पाणिउं सयमहिण सीहवीदु पक्खालिउ ॥ ७ ॥

8

कयविहिपरियम्मं छिण्णंदुक्कम्मजम्मं
घिवइ दसादिसासुं सेयभिंणारणीरं
वहुदसणविसाले कक्खणक्खत्तमाले
पविहरमर्मराणीसेवियं देववंदं
जलियकविलवालं भासुरालं करालं
पयपहयउरव्भं भाविणीभावियासं

संइं सिरिअरहंतं तम्मि आरोहिउं तं ।
कुणइ सुरवरिंदो सिद्धमंताहियारं ॥ १ ॥
चलियचमरलीले संठियं पीलुवाले ।
जिणण्हवणविसेसे वाहरामोमरिंदं ॥ २ ॥
दिसि पसरियजालं धूमचिंघेण णीलं । 5
जिणण्हवणविसेसे वाहरामो हुयासं ॥ ३ ॥

१३ AP °जम्मणि.

7 १ A पुरु. २ A सयणुकिरण°. ३ P °पविमल°. ४ A बहुतव°. ५ AP °णिवसियणियमइ
६ A कमलकलसकुलिसकिय°. ७ AP गोरउ तेण जि सो अवियारउ. ८ A संजोयउ, P संचोइउ.
९ A पसत्थु. १० P सीहपीदु.

8 १ A °कुक्कम्म°. २ A सयसिरि°. ३ AP °अरिहतं. ४ A आराहिऊण. ५ P खिवइ. ६ A
°ममराणीसंजुयं देवदेवं, P °ममरेहिं सेवियं देवविंदं. ७ P अग्गिवाल पहलं. ८ P °णिद्धणीलालिसेलं.

7 2 a सयणुकिरण° स्वतनुप्रभा, b °पह णिह° प्रभासद्वानि. 3 b °णहयरवइ गरुडः
6 b गोरो (गोरउ) ज्ञाननिगतः. 9 b मंदरुइल्लु मन्दकान्तिः. 13 सयमहिण इन्द्रेण.

8 3 a कक्ख° वरत्रा; b पीलुवाले ऐरावते. 4 a अमराणी इन्द्राणी अप्सरसो वा; b अम-
रिंदं इन्द्रम्. 6 a °उरव्भं मेपम्: भाविणी भावियास भाविन्या निजभार्याया. सामान्यस्त्रीणां वा
भावितं सानुरागमवलोक्तिं आस्य येन.

जलयपडलकालं णिद्धणीलं व सेलं
करवलइयदंडं छाहिसंसत्तसंतं
भसलगरलमालाकालरोमं तुरंतं
जुवइजणियकामं साहिरामं करामो
करिमयरणिविद्धं हारणीहारतेयं
वरुणममरसारं माणसे संभरामो
तरुपहरणपाणिं वाइसंदिण्णरायं
चडुलगमणसीलं लंघियायासपारं
विमलमणिवियाणं मंदरद्वीसमाणं
धणयमधणदुक्खातंकपंकावहारं
सगणंगुणगणालं भालभीमच्छिवत्तं
फणिवलयकरंगुग्गिण्णसूलं दुरिक्खं
अमयमयसरीरं कूरकंठीरवत्थं
जणणयणसुहंकं संकमुच्छिण्णसंकं
मणिफुरियफणालं दित्तदिच्चक्कवालं
महिविवरणवासं रम्मपोम्मावईसं

महिसमुहसमीरुद्धीणजीमूयमालं ।
जिणण्हवणविसेसे वाहरामो कयंतं ॥ ४ ॥
अरुणणयणछोहं रिंछमावाहयंतं ।
जिणण्हवणविसेसे णेरियं वाहरामो ॥५॥ 10
धुवंधवलधओहं कामिणीए समेयं ।
जिणण्हवणविसेसे सायरं वाहरामो ॥ ६ ॥
सुरहिपरिमलंगं मणिणीजायरायं ।
जिणण्हवणविसेसे वाहरामो समीरं ॥ ७ ॥
कयमयरविमाणं देहभाभासमाणं । 15
जिणण्हवणविसेसे वाहरामो कुवेरं ॥ ८ ॥
वरविसयसहंदुक्खित्तपायं महंतं ।
जिणण्हवणविसेसे वाहरामो तियक्खं ॥ ९ ॥
णवकुवलयमालोमालियं कौतहत्थं ।
जिणण्हवणविसेसे वाहरामो ससंकं ॥१०॥20
अहिणवरविवणं कुम्मपिठीणिसंणं ।
जिणण्हवणविसेसे वाहरामो फणीसं ॥ ११ ॥

घत्ता—णियवाहणपहरणपियरमणिचिंधावलिहिं विराइय ॥

इदं सैहं इंदावाहणए लोयवाल संपाइय ॥ ८ ॥

9

एवं पत्ते पंकयणेत्ते विस्से देवे णविऊणं

दुहणासणयं सुहसासणयं दम्भासणयं ठविऊणं ।

९ A °वडइय°. १० A छाहिससत्तगतं, P छाहिसंसत्तवत्तं. ११ P कसणभसलमालाकार°. १२ P साहिरामो. १२ A °मयरणिविद्ध. १४ AP धुयधवल°. १५ AP वायसं. १६ P कामिणीजाय°. १७ A °वित्ताणं. १८ AP कणयमयविमाण. १९ P °तंकसकावहार. २० A सगुणगुण°. २१ AP °भीमच्छिवंतं. २२ A वरविसविसहत्थं खित्त°, P वरसियवसहपुट्टे खित्त°. २३ A °करगुग्गिण्ण°. २४ A °मालियाकुतहत्थं. २५ A सुक्कमुच्छिण्ण°; P सक्कमुच्छिण्ण°. २६ AP कुम्मपिठी°. २७ A °रवण. २८ A फणिदं. २९ A सह देवाणंदएण. ३० AP संपाइय.

9 १ P दुहणासणयं.

7 a जलय° मेघा, b °जीमूय° मेघा.. 8 a छाहि° यमस्य भार्या तस्यां संसत्तं आसक्त संतं स्वान्त करण वित्तं यस्य. 9 b °छोह विक्षेपम्. 10 a साहिरामं सानुरागम्. 11 a करिमयर° गजाकारशुण्डाग्रयुक्त मकरम्. 13 a वाहसंदिण्णरायं वातप्रमी मृगी तस्या सदत्तरागम्. 16 a धणयं धनदम्. 17 b वसहदु स्कन्धकुटीति प्रसिद्धम्. 18 b तियक्ख न्यक्ष शिवम्. 20 A सुहकं अमृत-जलम्; संक सचिहम्, b ससक चन्द्रम्. 24 इंदावाहणए इन्द्रस्य आह्वानेन.

9 1 विस्से सर्वान्, 2 सुहसासणयं सुखाना शासनम्.

सरगंभीरं पणवुच्चारं साहाकारं काऊणं
 अग्रं पत्तं गंधं धूवं चरुवं दीवं दाऊणं ।
 दुण्णयंतावं मिच्छागावं दुक्कियभावं महिऊणं 5
 पव्वयसरिसे पयणियहरिसे कंचणकलसे गहिऊणं ।
 आसासंते रवियरवंते गयणयलंते चरिऊणं
 भंगरउद्दे खीरसमुद्दे खिप्पं खीरं भरिऊणं ।
 कीलालोलं गेयरवालं सुरवरमालं रइऊणं
 ते जलवाहे जियजलवाहे हत्थाहत्थं लइऊणं । 10
 सोहम्मणेणं ईसाणेणं तियसयणेणं सण्हविओ
 दाउं वासं कुसुमं भूसं तेहिं जिणिंदो पुणु णविओ ।
 सिंगुत्तुंगं वसियकुरंगं मेरुं मोत्तुं वारिदरिं
 णरंसोक्खयरिं कोसलणयरिं आगंतूणं पुरिसहरिं ।
 णयणिरयाणं गुरुपियराणं दाउं णहयलदिण्णपया 15
 हरिसविसट्टं रइउं णट्टं देवा सगं झ त्ति गया ।
 घत्ता—सज्जणहं णेहु दिहि दुत्थियहं तरुणिहि पेम्मपहावउ ॥
 गाहें वड्ढंते वड्ढियउ पिसुणहं मणि संतावउ ॥ ९ ॥

10

जोव्वणभावें देहि ^१ चडंते	घडियामाणें कालें जंते ।
देहपमाणु पत्तु रणचंडहं	सइइं तिणिण सयइं धणुदंडहं ।
सिसुकीलाइ रमियगंधव्वहं	दोणिण दहद्धलक्ख गय पुव्वहं ।
फणि सुरणरमणणयणाणंदणु	जणणें हैकारिउ अहिणंदणु ।
भणिउ देव किं देवि सकित्तणु	भुवणत्तयसामिहि सामित्तणु । 5
लइ लइ रज्जु अज्जु जापसंवि	हउं परलोयकज्जु थैहेसविं ।
तहिं अवसरि आयउ सकंदणु	पुरि घरि गयणि ण माइउ सुरयणु ।
वाइउ सुसिरु तंति यणु पुक्खरु	गायउ किं पि गेउं महुवरक्खरु ।

२ A दुण्णयभावं. ३ P गहिऊण. ४ P हत्थाहत्थे गहिऊणं. ५ A तियसवरेणं. ६ P सण्हविउ. ७ P णविउं. ८ A धीरदरिं. ९ P सोक्खयरो. १० P णयरो. ११ A णरणियराणं. १२ P रइयं णट्ट. १३ P णेहपहावउ.

10 १ A देह चडंते. २ AP घडियामालें. ३ A कोक्काविउ. ४ P साहेसमि. ५ A वायउ सुसरु. ६ A गेय.

5 महिऊणं मानयित्वा. 7 आसासते उच्च्यसमध्ये, रवियरवंते सूर्यकिरणवति. 9 सुरवरमालं सुरवरश्रेणिम्. 10 जलवाहे कलशान्; जियजलवाहे जितमेघान्. 11 तियसयणेण त्रिदशजनेन. 13 वारिदरिं निवारितशत्रुं जलयुक्तगुम्फ वा. 15 णयणिरयाणं न्यायरतानाम्.

10 3 b दो णिण दहद्धलक्ख सार्धद्वादशलक्षणि. 8 a पुक्खरुं मृदङ्गमुखम्.

पुरउ णडंतें अमरणिहाणं
सायरसरिसरजलसंघायं
हार तार जोयणवित्थिणी

वइयालियदिण्णासीवापं ।
पुणु ण्हाणिउं कुमारु सुररापं । 10
णं णहि गंगाणइ अवइण्णी ।

घत्ता—जलधार पडइ सिरि दुद्धरिय देउ ताँइ ण वि हम्मइ ॥

भाँवइ महुं णहुंतु वि घडसैयहि विंदुएण णउ तिममइ ॥ १० ॥

11

मउडपट्टधरु वीर्यविणिट्टिउ
विणिह्यैराउ ताउ रिसि जायउ
अच्छइ जाम सपुत्तु सपरियणु
गय छत्तीस लक्ख लक्खद्धं
भुयणभाणु णहि णयणइं होयइ
पेच्छइ सत्तभूमिघरसिहरइं
पेच्छइ धयमालउ उल्ललियउ
पेच्छइ चंदसाल मुहसालउ
पेच्छइ दाणसाल णडसालउ
पेच्छइ हट्टमग्ग चउदारइं
इय पेच्छंतहु तक्खणि णट्टउ

पिउसंताणि णिओइ अँहिट्टिउ ।
पँहु वि महि भुंजंतु सजायउ ।
रक्खइ पोसइ माभीसइ जणु ।
सहुं पुव्वहं सिरिसोक्खसमिद्धं ।
ता गंधच्चणयरु अवलोयइ । 5
पेच्छइ जालगवक्खइं पवरइं ।
पेच्छइ पुत्तलियउ चित्तलियउ ।
पेच्छइ लेहसाल गयसालउ ।
मणुयारोगसाल असिसालउ ।
पेच्छइ पहु आरामविहारइं । 10
तहिं तं पुरु पुणु तेण ण दिट्टुउ ।

घत्ता—णासंतें णयरें साहियउ णासु अत्थि नृवरिद्धिहि ॥

किं णरु रइपरवसु परिभमइ उज्जमु करइ ण सिद्धिहि ॥ ११ ॥

12

ता लोयंतिपहिं संबोहिउ
उट्टिउ सयलदेवडिंडिमसरु

आएणिंदें ण्हाविउ पसाहिउ ।
चडिउ विचित्तहि सिवियहि जिणवरु ।

७ AP ण्हाविउ. ८ A हारसुतारतोयविच्छिणी, P हारसुतारजोयविच्छिणी. ९ A सिरिसिहरि, PT दुद्धरिस. १० AP तहिं ण वि हम्मइ. ११ A णावइ but records a p भावइ. १२ AP घडसएण. १३ A ज विंदुएण, P त विंदुएण.

11 १ A धीरविणिट्टिउ, P पीढि णिविट्टुउ. २ AP पहिट्टिउ. ३ P विणियराउ. ४ P एहु वि महि भुंजतु. ५ A णयरि. ६ A धयमालाउल्ल°. ७ P हट्टमग्गि. ८ AP णिवरिद्धिहि. ९ A °परवसु मूढमइ उज्जमु.

12 १ A आइवि इदें, T आयंदेण आगतेनेन्द्रेण.

9 a °णि हा एं सघातेन, b वइयालिय° वैतालिका वन्दिन. 11 a हार धारा. 12 दुद्धरिय अतिशयेन महनी. 13 ति म्म इ आर्दीक्रियते.

11 1 a वी य वि णि ट्टिउ भार्यास्वीकृतः (द्वितीया=भार्या); अथवा वीता विद्येपेण गता स्त्री तथा अंविनष्टः सहित इत्यर्थः. 2 b सजायउ जायासहित. 9 b मणुयारोगसाल वेद्यगाला.

12 1 b आ ए णिंदें आगतेनेन्द्रेण, पसाहिउ शृङ्गारितः.

णरखेयरसुरेहिं पणवेप्पिणु
णिहियउ पुरवाहिरि णंदणवणि
अवरण्हइ णियसंभवरिकखइ
मण्णेप्पिणु घरु गिरिवरकंदर
भावु करेवि अहप्पयरासिहि
दावियणिंठे छुववासं
मुक्कउ जीयधणासाकेयइ
पंथु पलोयइ जंतु ण खंडइ
लहुयउं गरुयउं गेहु ण चितइ

वाहुदंडखंधेहिं वहेप्पिणु ।
मग्गसिरइ सिइ वारहमइ दिणि ।
अप्पुणु अप्पउ भूसिउ दिक्खइ । 5
दढमुट्ठिहिं उप्पाडिय कंदर ।
ते सक्केण वित्त पयरासिहि ।
जइ हूयउ सहं णिवहं सहासं ।
वीयइ दिणि पइहु साकेयइ ।
भे भे भवइ व घरि घरि हिंडइ । 10
प्रंगणु प्राविवि पुणु वि णियत्तइ ।

घत्ता—जहिं रंजु कियउ तहिं तेण पुणु दरिसिउ भिक्खविहाणउं ॥
भयलज्जामाणमयवज्जियउं जिणवउं पेम्मसमाणउं ॥ १२ ॥

13

सयमहदत्तें पहु पाराविउ
पंचविहु वि जयजयपभणंतिहिं
अक्खयदाणु भणेप्पिणु णिग्गउ
जो ण समिच्छइ विप्परियावहु
जेण मूलु रइवालहु छिण्णउं
जेण सहियवउं णाणं भिण्णउं
णीसंगेण णिरुचु विहारिउ
पूसहु मासहु पक्खि पहालइ
उडुवरि सत्तमि जेणुप्पाइउं

तहु देवहि दाणुच्छवु दाविउ ।
आयासहु कुसुमाइं धिर्वतिहिं ।
गउ वणु चरणविसेसहु लगगउ ।
पहि चरंतु ण करइ इरियावहु ।
दाणु जेण अभयावहु दिण्णउं । 5
अट्टारहवरिसइं तवु चिण्णउं ।
पुणुं वि जेण तं छडु संवारिउं ।
चउदहमइ दिणि सिणतरुंमूलइ ।
केवलणाणु तिलोउ वि जोइउ ।

घत्ता—सो मोहमहामहिरुहजलणु जिणवरु जिर्यपंचिंदिउ ॥ 10
निव्वाणहि समउं पराइएण वाणवलेण पवंदिउ ॥ १३ ॥

२ A मग्गसिरासिइ. P माहमासि सिइ. ३ A भे भे विरइ व, but records a p' भवइ इति पाठ. ४ AP पंगणु पाइवि. ५ A रज्जि.

13 १ P णीसंगणु. २ P पुणिवि. ३ A संचारिउ P समारिउ. ३ AP पउसहु. ४ AT पहिल्लइ. ५ AP सिणितरु. ६ A पंचेदियउ. ७ AT वालवलेण, P वणवलेण. ८ A पवंदियउ.

५ a स भ व रि क्ख इ जन्मनक्षत्रे पुनर्वसौ. 6 b क दर केशाः. 7 a अ ह प्प य रा सि हि अधो मध्ये पयोरात्रोः ननुदस्य अथवा अथप्रकर संवान अत्राति विष्वंसयत्येवंगीलस्य भगवत. 9 a °आ सा के य इ आगारज्ज्वा.

13 1 a सयमहदत्तें इन्द्रदत्तेन; पाराविउ पाणं काण्ठि. ४ a विप्परियावहु विप्र-
कृषां वेदानां मार्ग; b इरियावहु ईर्यावधः. 5 a रइवालहु कामस्य. 6 a सहियवउं स्वहृदयं
स्वचित्तम्. 8 a पहालइ प्रभाले शुद्धे. 11 वा ण वलेण वाणा गीर्वाणा वलं सैन्य यस्य, तेन इन्द्रेण.

14

थुणइ सुरिंदु सरइ गुण समणें
तुहुं जि अणंगु अणंगहु वंछहि
तुहुं सरूवु कि तुह आहरणें
तुहुं अकामु कि तुह णारियणें
सुद्धिवंतु तुहुं कि तुह ण्हाणें
तुज्जु ण वइरु ण भउ णउ पहरणु
तुहुं जि सोम्मं सोम्में किं किज्जइ
गुणणिहि तुहुं तुह किं किर थोत्तें
हरिकरिगिरिजलणिहिहि समाणउ

तुहुं जि देउ किं देवागमणें ।
अणुदिणु णिकलगइ पर वंछहि ।
तुहुं सुयंधु कि तुह सवलहणें ।
तुहुं अणिहु कि तुह वरसयणें ।
दिव्वासहु किं तुह परिहाणें । 5
तुज्जु ण रइ णउ कीलाविहरणु ।
तुह छविहउ रवि काइं भणिज्जइ ।
तो वि थुणइ जणवउ सहियत्तें ।
पइं किं भणइ वराउ अयाणउ ।

घत्ता—ससिसूरहं सरिसउ पइं परम भत्तिइ कइयणु अक्खइ ॥ 10
गयणयलहु अवरु वि तुह गुणहं पारु को वि किं पेक्खइ ॥ १४ ॥

15

इंदणरिंदचंदसूराउल्लु
बहुपालिद्धय अट्ट महाधय
धम्मचक्कु अगगइ अवइण्णउं
पुण्णमणोरह जे ते णं रह
जसु तवेण कंपइ भूमंडल्लु
छत्तइं दुरियायवविणिवारइं
जासु मोक्खुं सोक्खु जि जायउं फल्लु
अवरु वि अरुहहु उत्तमसत्तहु
आयासहु णिवडइ कुसुमावलि

समवसरणु जिणरायहु राउल्लु ।
पसुकोट्टइ दक्खालिय हय गय ।
प्रंगणुं सुरणैररमणिहिं छण्णउं ।
मउलियकर थिय संमुह णव गह ।
अवसें तासु होइ भामंडल्लु । 5
चमरइं भव्वीणत्तणतारइं ।
सो असोउ कि वण्णमि चर्लदल्लु ।
आसणु सासणु तिजगपहुत्तहु ।
सरु भीयउ भासइ ण सरावलि ।

14 १ P वि. २ AP तुहुं अणगु जो अगु ण इच्छहि. ३ A सरूउ, P सरूउ. ४ AP अणिहु. ५ A सोमु सोमिं किं. ६ A भणिमि. ७ A गुणहं सामि पारु को लक्खइ; P गुणहं सामिय पारु कु लक्खइ.

15 १ AP रावल्लु. २ AP पगणु. ३ P सुरवररमणिहिं. ४ A ते णयरहं. ५ AP दुरियावय°. ६ A भवरीणत्तणु, P भव्वीणत्तणु. ७ AP मोक्खसोक्खु. ८ AP वरदल्लु. ९ A कुसुमाउलि.

14 1 a सरइ गुण समणें स्मरति गुणान् स्वमनसा. 3 b सवलहणे समालम्भनेन विलेपनेन. 4 b अणिहु अनिद्र.. 5 b दिव्वासहु दिगम्बरस्य. 7 a सोम्मं चन्द्रेण, b छविहउ कान्त्या हत. तिरस्कृतः

15 2 a °पालिद्धय क्षुद्रध्वजा. 6 a दुरियायव° दुरितातप; b °सीणत्तण° श्रान्तत्वम्. 9 b सरु स्मर.

रुंजउं अलि तइ सिंथ ण मेरी
दुंदुहि खणु वज्जंति ण थक्कइ
दिक्खं घोसं भुवणु वि सुज्जइ

घत्ता—सिरिवज्जणाहु णिवु धुरि करिवि सीलविमलजलवाहहं ॥

तिहि सहियउ सउ संतासयहं संजायउ गणणाहहं ॥ १५ ॥

णिच्छउ सामिय आण तुहारी । 10
लोउ धम्मु णिसुणहुं णं कोक्कइ ।
अप्पउं परु परलोउ वि बुज्जइ ।

16

अट्टाइज्जसहस णिरणंगहं
पण्णासइ संजुत्तहं भिक्खुहुं
अट्टाणउवि सयाइं तिणाणिहि
एक्कुणवीससहसइं विक्किरियहं
सावयगुणठाणेहि सहासहिं
एक्कारहसहसाइं विवाइहिं
तवसंजमवयतणुरुहमाइहि
भोयभूमिसमसहसइं चेर्यहि
अज्जियसंख एम जाणिज्जइ
पंचलक्ख सावियहं णिरुत्तउ

घत्ता—विहरंतहु महि परमेसरहु धम्मु कहंतहु भव्वहं ॥

अट्टारहवरिसइं ऊणयरु एक्कु लक्खु गउ पुव्वहं ॥ १६ ॥

रिसिसीहहं सिक्खियपुव्वंगहं ।
तीससहसदोलक्खइं सिक्खुहुं ।
सोलह सहसइं केवलणाणिहिं ।
संख भणमि मणपज्जवरिसियहं ।
उहसपहिं अणु वि पण्णासहिं । 5
रिसिहिं तिण्णि लक्खइं सज्जाइहिं ।
संजमघरिहिं सुद्धकुलजाइहिं ।
लक्ख तिण्णि रिदुसयइं वि वेयहि ।
लक्खत्तउ सावयहं गणिज्जइ ।
देवहिं देविहिं माणु ण उत्तउ । 10

17

इय पुव्वहं पण्णास जि लक्खइं
गयइं ण कि पि वि धांइ णियाणइ
हरिणहअविहयकरिकुंभत्थलि
लंविक्करु सहं मुणिसंदोहं

गणहरमुणिवरसाहियसंखइं ।
मांससेसि थिय आउपमाणइ ।
तहिं संमेयगिरिदवणत्थालि ।
दुण्णि पक्ख थिय जोयणिरोहं ।

१० AP रुंजइ. ११ A धरिवि धुरि.

16 १ A रिसिसीसहं. २ P सयइं तिणाणिहिं. ३ AP एयारह. ४ A omits this foot. ५ A omits this foot. ६ A विरयहिं. ७ P लक्खतइउ. ८ AP add after this : मिद्धिउ तिरिक्खविट्ठु सखेजउ, एत्तियजणहं करिवि साहिजउं. ९ AP कहतहं. १० A वरिसहं.

17 १ AP ठाइ. २ A माससेस थिय. ३ A हरिणहअविरुय, P हरिणहयारि हय.

10 a सिं थ प्रत्यञ्चा. 14 सतासयहं उपग्रान्तचित्तानाम्.

16 1 a णिरणंगहं नि कामानाम्, अथवा निरणं अप्रच्छादनमद्दे येषाम्. 8 a भो य भूमि-समं त्रिगत्; b रिदुं पद्; वेयहि जानीहि.

17 2 a णियाणइ अवसाने. 3 a °अविहय° °अहत°.

वइसाहहु मासहु सियछट्टिहि

खंतिवयंसियाइ संमाणु

णाहु चारुचारित्तु विवज्जइ

किरियाभट्टु उँहु संचलियउ

जीवपक्खिखवंदिग्गहपंजरु

अग्गिकुमारहिं अग्गि विइण्णउ

चउदहभूयगामरइ छंडिय

गउ गउ गउ जि पडीवउं णायउ

घत्ता—जणु आवइ जाइ ण थाइ खणु अत्थवणुग्गमु दावइ ॥

महुं हियवइ भरहाणंदर्यरपुप्फयंतससु भावइ ॥ १७ ॥

सत्तमभवि हियचंदाइट्टिहि । 5

एक्कल्लउ समाहिघरु आणुउ ।

णग्गउ थिउं णिल्लंज्ज ण लज्जइ ।

सिद्धिविलासिणीहि जिणुं मिलियउ ।

इंदे पुज्जिउ मुक्ककलेवरु ।

सर्वइ चवइ णहिं जंतु सउण्णउ । 10

अहिणंदणेण मोक्खपुरि मंडिय ।

मज्झु वि होज्जउ तंहिं जि णिकेयउ ।

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए

महाभव्वभरहाणुमणिणए महाकव्वे अहिणंदणणिव्वाणगमणं

णाम एकचालीसमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ४१ ॥

॥ अहिणंदणचरियं समत्तं ॥

४ A सत्तमभवियहिं चंदा°. ५ AP णिल्लु. ६ A उवसचलियउ. ७ P जणु. ८ AP सकु, but T सवइ स्वर्गपति.. ९ A त जि णिकेयउ, P वहिं जि णिकेयउ. १० P °णदयरु. ११ AP omit the line.

5 b सत्तम भवि हियचंदाइट्टिहि सप्तमे भवे विहिताया चन्द्रेणाकृष्टौ आगमने, चन्द्रयुक्ते सप्तमनक्षत्रे इत्यर्थः. 8 a किरियाभट्टु अपरिस्पन्द. 10 b सवइ स्व.पतिः, इन्द्र इत्यर्थः. 12 a पडीवउं प्रतीपम्,

पंचमगङ्गामणु पद्म पंचगुरुहं पहिलारउ ॥
पंचमैतित्थयरु पणावि वि पंचेसुवियारउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

णिज्जियसँवणं	संतं सँवणं ।	
णिज्जियरुवं	णिरुवमरुवं ।	
णिज्जियगंधं	सुरँहियगंधं ।	5
णिज्जियसरसं	वज्जियसरसं ।	
णिज्जियकोहं	वरवक्कोहं ।	
णिज्जियमाणं	सुहरिसमाणं ।	
णिज्जियमायं	चत्तपमायं ।	
णिज्जियलोहं	गयसल्लोहं ।	10
मुणियपयत्थं	भासातत्थं ।	
कयसुत्तत्थं	जं दिव्वत्थं ।	
पालियमहिमं	धँल्लियमहिमं ।	
महिलाकुमइं	मोत्तुं कुमइं ।	
इच्छियसुमइं	णमिउं सुमइं ।	15
तस्स पवित्तं	वोच्छं वित्तं ।	

A has, at the beginning of this Samdhi, the following stanza:—

सोऽयं श्रीभरतः कलङ्करहितः कान्तः सुवृत्तः शुचिः
सज्ज्योतिर्मणिराकरो प्लुत इवानर्थो गुणैर्भासते ।
वंशो येन पवित्रतामिह महामन्त्राह्वयः प्राप्तवान् (प्रापितः ?)
श्रीमद्ब्रह्मभराज-व कटके यश्चाभवन्नायक. ॥ १ ॥

No other known MS of the work gives it.

1 १ AP पंचसु तित्थयरु. २ P ०समणं. 3 P ०समणं. ४ A ०सुरहिसुयंधं; T सुरहिसुगंधं.
५ A ०सुवतत्थ. ६ T लंधियमहिमं.

1 2 पंचेसु^० कामः. 3 a णि ज्जियसवणं निर्जितं श्रवणेन्द्रिय यस्य, b सवणं महामुनिम्.
1 a णि ज्जियरुवं निर्जितं रूपग्राहीन्द्रियं चक्षुर्येन. 5 a ०गंधं ०घ्राणेन्द्रियम्; b सुरहियगंधं सुरभिः
शरीरगन्धो यस्य. 6 a ०सरसं ०कामसुखम्, b सरसं विशिष्टाहार सरागवचनं च. 7 b वरवक्कोहं
उत्तमवाक्यौघम्. 8 b सुहरिसमाणं गोभनेन हरिणा इन्द्रेण समानं पूजन यस्य. 10 b ०सल्लोहं माया-
मिथ्यानिदानशल्यसवातम्. 11 b भासातत्थं निर्वाधवचनम्. 12 a कयसुत्तत्थं अनुष्ठितागमार्थम्;
b दिव्वत्थं दिग्वात्सम्. 13 b धँल्लियमहिमं त्यक्ता मही लक्ष्मीश्च येन. 14 a महिलाकुमइं महिला
भार्या कु पृथ्वी ताभ्यां निवृत्ता मतिर्यस्य, b कुमइं कुबुद्धिम्. 15 a इच्छियसुमइं वाञ्छितसुमतिम्.
16 b वित्तं चेष्टित चरितम्.

घत्ता—जिह तें लईउ वउ जिह हुयउ अणुत्तरि सुरवरु ॥
जिह जायउ सुमइ तिह कहमि समासइ वइयरु ॥ १ ॥

2

जलवरिससीयए दीवए वीयए
भमियमत्तंडए तमपडलखंडए
तरुणणरमिहुणपरिवद्धियसणेहए
णडियवरहिणणडे सरिवरुत्तरतडे
दुक्खणिग्गमणरइरमणवणासिरिसही
तम्मि गच्छंतसामंतभडसुहयरी
घुसिणरससिंचिए हसियगयणंगणे
अमलिणा सणंलिणा जत्थ जलवाविया
मंदिरे मंदिरे सईरगइ गोमिणी
महुसमयसंगमो उववणे उववणे
वूढसिंगारए जोव्वणे णवणवे
जत्थ सब्बो जणो जित्तिगिब्बाणओ
किंकरा बंधुणो दाणसंमाणिया
मंतियं चितियं चारु कज्जं पुणो

कुंभयण्णेहिं णिक्खित्तमाहिवीयए ।
फुल्लतरुसंडए धौदईसंडए ।
पुव्वंसुरासिहंरिणो हरिदिसिविदेहए ।
पोमरयरासिपिंजरियकुंजरघडे ।
जत्थ तत्थ त्थि पिहु पुक्खलावइ मही ।
सेयसउह्वावली पुंडरिगिणि पुरी ।
मोत्तियकणांचिए प्रंगणे प्रंगणे ।
कुररकारंडकलहंसससेविया ।
हम्मई महलो णच्चए कामिणी ।
रमइ वईसवणओ आवणे आवणे । 10
वसइ वरसरसई माणवे माणवे ।
तत्थ पहु अत्थि णामेण रइसेणओ ।
रायलच्छी चिरं तेण संमाणिया ।
मोक्खसोक्खंकरो णत्थि रज्जे गुणो ।

घत्ता—उवसमवाणिणं सिंचेप्पिणु किज्जइ सीयलु ॥
भोयत्तणेण पुणु पज्जलइ भीसु कामाणलु ॥ २ ॥

3

गच्छामु इच्छामु
इय भणिवि समु चिणिवि
मोहाणु मेलेवि

गुरुपाय पेच्छामु ।
जिणु थुणिवि मणु जिणिवि ।
अइरहहु मंहि देवि ।

७ A लयउ वउ, P लइउ वउ.

2 १ AP कुंभयण्णेहिए खित्त°. २ A धायई°. ३ AP °णरमिहुणए वद्धिय°. ४ A हरि-
दिस°. ५ AP °सिहरिए. ६ A सउहाउली. ७ AP पुंडरिंकिणि. ८ AP पंगणे पंगणे. ९ A
समलिणा. १० AP कलहंसजुयसेविया. ११ A सइ रमइ but gloss स्वेच्छाचारिणी, १२ AP
वइसवणु पुणु. १३ AP °पाणिण. १४ AP भोयत्तणेण.

3 १ P एच्छामु. २ P मही देवि.

2 1 b कुंभयण्णे हिं घट्टे कुंभगणनामिवा. 3 b हरिदि सि पूर्वदिशि. 4 a °वरहिणणडे
मयूरनटे. 9 a सइरगइ स्वेच्छाचारिणी. 15 उवसमवाणिण उपगमजलेन. 16 भोयत्तणेण
भोगा एव तृण तेन.

3 3 b अइरहहु मंहि देवि अतिरथस्य भूमिं दत्त्वा.

वल्लहहु णंदणहु	तं अरुहणंदणहु ।	
प्रायंति व्रउ लइउ	हियवउ ण विमिहयउं ।	5
रामाहिरामेसु	इडेसु कामेसु ।	
दुव्वारधारणइं	सोलह वि कारणइं ।	
भावेण भावेवि	णीसट्टु वंवेसेवि ।	
जिणसुत्तु जिणवित्तु	जिणणाउं जिणगोत्तु ।	
गुरुपुण्णु अज्जेवि	मोहं विसज्जेवि ।	10
मउ करिवि संणासु	हुउ वइजयंतीसु ।	
णिवसेइ कंतम्मि	ते वंइजयंतम्मि ।	
कालेण दीहरहं	तेत्तीस सायरहं ।	
सरिसाउ माणियउं	णियंबंध णीणियउं ।	
पुणु तस्स सुहभाउ	छम्माससेसाउ ।	15
सक्केण जाणियउ	संवंधु भाणियउ ।	
धणयस्स णेहेण	हरिसुद्धदेहेण ।	
इह जंत्तुदीवम्मि	भो भरहखेत्तम्मि ।	
चिरु वसियसयरम्मि	साकेयणयरम्मि ।	
मेहरहु पुहईसु	पिय मंगला तासु	20
हीविही सुओ ताहं	जिणु जाहिं पियराहं ।	
पुरु कराहि सोवण्णु	ता झ त्ति बहुवण्णु ।	

घत्ता—वज्जहिं मरगयहिं वेरुलियहं गयणुन्मासणु ।

जक्खे णिम्मवियउं कोसलपुरु पावविणासणु ॥ ३ ॥

4

एत्थंतरए जणमणरामे	वासहरे णिसि पच्छिमजामे ।	
मउपल्लंके णिदायंती	हंसी विव कमले णिवसंती ।	
पेच्छइ देवी सिविणयपंती	तुहिणतारमुत्ताहलकंती ।	
गयणाहं गोमंडलणाहं	पिंगलचलणयणं मयणाहं ।	
पोमं पीणियपुहईणाहं	दामं रंजियभसलसणाहं ।	5

३ AP जित्तारिसंदणहु. ४ AP add after this' सुणिगोत्तणामासु रविकिरणधामासु. ५ AP प्रायंति तउ. ६ AP विमविउ. ७ AP उवसेवि. ८ AP सुउ. ९ AP तं. १० P णियबंधणियउ. ११ A होही. १२ A बहुपुण्णु. १३ AP णिम्मियउ.

4. १ A लच्छीवियसियकमलसणाहं; P पोमापीणियं.

१ a प्रायंति पादान्ते. 7 a दुव्वारं संसारः. 12 a कंतम्मि कमनीये. 14 b णी णियउं निर्जीणम्. 17 b हरिसुद्धदेहेण हर्षोद्बुधित्तगरीरेण. 23 वज्जहिं वज्जैहीरेः.

4. 5 a पोमं पद्मा लक्ष्मीः.

ताराणाहं वासरणाहं
 कलसजुयं मंगलकुलणाहं
 तुंगतरंगं तीरिणिणाहं
 गेहं सुवसियसुरवरणाहं
 रयणगणं विम्बियधणणाहं
 इय दैहुं पुच्छइ णियेणाहं
 भो सोलहपुरिल्लगयणाहो
 तं णिसुणिवि पभणइ णरणाहो
 सव्वण्हं सव्विदसमच्चो
 हूप हरिभणणे णिरुवज्जे
 आया देवी हिरि^{१४} सिरि कंती

झसजुयलं तडिजुयलगुणाहं ।
 कमलसरं कीलियकरिणाहं ।
 वइसणयं च ससावयणाहं ।
 अवरं पवरं थियफणिणाहं ।
 दीहसिहालं साहाणाहं । 10
 जाया अज्ज दिट्ठसिविणाहं ।
 ताणं कहसु फलं मह णाहो ।
 होही पुत्तो तुह जगणाहो ।
 देवो णं हु सो भणइ मच्चो ।
 सइसरीरपक्खालणकज्जे । 15
 लच्छी बुद्धी दिहि मैइ कित्ती ।

घत्ता—अणवइण्णिण अरुहे पहिलउ जि जाम छम्मसिउ ॥

ताम धणाहिवेण धणधारहिं नुव्वघरि वरिसिउं ॥ ४ ॥

5

णीलियदिसावणइ
 तहिं सुद्धवीयाइ
 गन्भम्मि अवयरिउ
 सो वइजयंतेंदु
 कयजयरवालाइ
 कैरधरियवीणाइ
 तं णयरु तं भवणु
 अंगंतरंगत्थु

मासम्मि सावणइ ।
 दूरं विणीयाइ ।
 जणणीइ उरि धरिउ ।
 पुण्णिमइ णं चंदु ।
 आवेवि लीलाइ । 5
 सहं तियससेणाइ ।
 सा जणणि सो जणणु ।
 वंदेवि मुणितित्थु ।

२ A णिजियधणणाहं, P विम्बियधणणाह. ३ P दिट्ठ. ४ A णिवणाह. ५ A °सिविणोह. ६ A जे सोलह°. P जो सोलह°. ६ AP °गयणाह. ७ AP णाह. ८ AP महिणाहो. ९ P जयणाहो. १० P सव्वण्हं सव्विद°. ११ A देवो णउ भणइ सो मच्चो, P देवो ण हि सो भणइ मच्चो. १२ AP हरिभवणे. १३ A णिरुवज्ज. १४ P सिरि हिरि. १५ P सह. १६ P छमासिउ. १७ AP णिववरि.

5 १ A जणणीउरे. २ P करि धरिय°. ३ AP मुणि तेत्थु.

6 b तडिजुयलगुणाह विद्युद्युगलसदृशं चञ्चलमित्यर्थ. 7 a मंगलकुलणाह मङ्गलसमूहप्रधानम्. 8 a तीरिणिणाहं समुद्रम्, b वइसणयं आसनम्; ससावयणाह सिंहयुक्तम्. 10 b साहाणाहं स्वाहानाथम् अग्निमित्यर्थः. 11 b दिट्ठसिविणा दृष्ट स्वप्नो यया सा. 12 a पुरिल्लगयणाहो पुरिल्लः प्रथमो गजनाथो येषाम्. 15 b °पक्खालणं शरीराभ्यन्तरशुद्धि 17 अणवइण्णिण अनवतीर्णे सति, पूर्वमेवेत्यर्थ.

5 2 b दूरं विणीयाइ अतिविनीतया. 8 b मुणितित्थु तीर्थप्राय मुनिम्.

गउ सयमहो तेत्थु	सविमाणु तं जेत्यु ।	
रयणप्पहाकिट्टि	पुणु विहिय वसुविट्टि ।	10
जक्खीकडक्खेण	तूसेवि जक्खेण ।	
ता जाव णवमास	संपुण्णविहलास ।	
केवलसिरीरिद्धि	अहिणंदणे सिद्धि ।	
हयदियहपाडीहिं	णवलक्खकोडीहिं ।	
जइया गया ताहं	सायरसमाणाहं ।	15
तइया महंतेण	पुण्णेण होंतेण ।	
चित्ताइ पिउजोइ	पविमलदिसाटोई ।	
तिण्णाणमयदिट्टि	पंचमउ परमेट्टि ।	
संभूउ सो जाम	संखुहिय सुर ताम ।	20

घत्ता—णाणावाहणहिं दिसि दिसि झुल्लंतवडायहिं ॥
आइउ अमरवइ सहं चउविहअमरणिकायहिं ॥ ५ ॥

6

पात्रिऊण पट्टणं	देवि तिप्पयाहिणं ।	
गंपि रायमंदिरं	णिम्मिऊण णिव्भरं ।	
बंधुचित्तविभमं	अण्णवालसंकमं ।	
वज्जपाणिणा पुणो	वंदिओ सयं जिणो ।	
अंकए णिवेसिओ	सूहवो सुहासिओ ।	5
कुंभकंठबंधुरो	चोइओ ससिंधुरो ।	
पत्तओमंरायलं	पंडुरं सिलायलं ।	
तम्मि देहमाणवो	तेण दिव्वमाणवो ।	
णाहंओ णिरूविओ	भत्तपहिं भाविओ ।	
पावतावहारिणा	दुद्धरासिवारिणा ।	10
देवपहिं ण्हाणिओ	पुष्पगंधमाणिओ ।	
आलयं पुणाणिओ	जेहिं सो वियाणिओ ।	

४ P हयदियहपाडीहिं. ५ AP पविमलदिसाहोइ; T दिसाभोइ दशदिशाटोपे. ६ P adds after this: एयादसिए पक्खि, सिए चंदे महारिक्खि. ७ A बहुविहअमरं.

6 १ A वज्जपाणिणो. २ AP °मरालयं but A corrects it to सुरालयं, gloss in K अमराचलं. ३ P सिलालय. ४ A माणवे. ५ A माणवे. ६ A णाहए. ७ A पुणो णिओ.

14 a हयदिहपाडीहिं गुणितदिवसपरिपाटीभिः. 17 b दिसाटोइ दशदिशाटोपे.

6 3 a अण्णवालं कृत्रिमवालः. 6 a °बंधुरो मनोज्ञः. 7 a अमरायलं अमराचलं मेरुम्. 8 a देहमाणवो शरीरश्रिया अभिनवः. 9 a णिरूविओ स्थापितः. 11 b °माणिओ पूजितः.

ते जयस्मि धण्णया	णाणिणो सउणिया ।	
मंडणेहिं राइओ	किंणरेहिं गाइओ ।	
जोइएहिं झाइओ	अत्थिणत्थिवाइओ ।	15
अप्पिओ विपंकए	माउंपाणिपंकए ।	
वज्जिणा जिणेसरो	जीयलोयणेसरो ।	
संसिऊण तं णिवं	कोसिओ गओ दिवं ।	

घत्ता—सुरसीमंतिणिहिं थणथण्णएण वड्डारिउ ॥

सुमइसमग्घंविउ पड्ड सुमइ भणिवि हक्कारिउ ॥ ६ ॥ 20

7

पुव्वाण गिव्वाणकीलाइ कयसोक्ख	कुमरत्तणेणेय वोलीण दहलक्ख ।
अइऊण ता णवर दणुयारिराएण	भंभंतगंभीरभेरीणिणाएण ।
सिंचेवि सुइंसलिलंधाराणिवाएहिं	संमहिंवि णवमालईपरियाएहिं ।
सवलहिवि कप्पूरचंदणपयारेहिं	भूसेवि केऊरहारेहिं दोरेहिं ।
कलरवतुलाकोडिकंचीकलावेहिं	णच्चेवि विब्भमहिं हावेहिं भावेहिं ।
बद्धो सिरे पट्टु देवाहिदेवस्स	णिच्चिंधकामावहो णिच्चिलेवस्स ।
अंधाइं बहिराइं धणविहवहीणाइं	संपीणयंतस्स काणीणदीणाइं ।
महि भुंजमाणस्स दिव्वाइं सोक्खाइं	गलियाइं पुव्वाइं णवलक्खसंखाइं ।
ता चितियं चितणिज्जं जिणिंदेण	रज्जेण मह होउ भववेल्लिकंदेण ।
तं चयमि तउ करमि संचरमि मग्गेण	विसहिंदच्चिणेण जडकसरदुग्गेण 10

घत्ता—गिरिकक्करि पड्डइ महुकारणि जिह हयकरहउ ॥

रज्जरसेण तिह भणु महियलि को किर ण णिहउ ॥ ७ ॥

८ A समुण्णया, P सउण्णया. ९ A विकंपए. १० समाउपाणिपंकए. ११ PT सुमइ समप्पियउ and gloss in T सुमति समर्पिता अतिशयवती येन. १२ P सुम्मइ.

7 १ P अविऊण. २ P सिंचेवि सो सलिल°. ३ A सम्मोवणिव°. ४ P °परियाएहि. ५ A डोरेहिं. ६ AP णिच्चंध°; T णिच्चंध सातत्यम्. ७ P णववीसलक्खाइं.

13 b सउण्णिया सपुण्णयाः. 15 b अत्थिणत्थिवाइओ स्यादस्ति स्यान्नास्तीति वादक. प्रतिपादकः. 16 a विपंकए निष्पापे. 17 b जीयलोयणेसरो जीवलोकस्य सूयं. 18 b कोसिओ देवेन्द्रः.

7 2a अइऊण आगत्य. 3 b संमहिंवि पूजयित्वा, b °परियाएहि पारियात्रपुण्यैः. 4 a सवलहिवि विलेप्य. 5 a °तुलाकोडि° नूपुरम्. 6 b णिच्चिंध° सातत्यम्, कामावहो कामविच्चंसकस्य. 10 b विसहिंदच्चिणेण वृषभनाथो धुर्यो गौश्रतेन आचरितेन. 11 महुकारणि मधुरनिमित्तम्, °करहउ उट्टः.

8

अणुभासियं तं जि लोयंति^१ विवुहेहिं
तिपुरिल्लकल्लाणविहि तेहि संविहिउ
मुक्काइं वत्थाइं भीमाइं सत्थाइं
लुंवेवि कुंतलकलावो वि कौतलइ
सो देवदेवेण धित्तो समुदम्मि
मणपज्जउप्पण्णणाणेण सुवसिल्लु
णीसंकु णिकंखु णिम्मुकुदुविहासु
वइसाहसियणवमि पुव्वण्हवेलाइ

आवेवि देवेहिं पज्जणपमुहेहिं ।
सिवियाइ णेऊण णंदणवणे णिहिउ ।
गहियाइं सत्थाइं णियधम्मसत्थाइं ।
सहुं छड्ढिओ जोग्गपत्तम्मि पविमलइ ।
दुद्धंभुकल्लोलमौलारउदम्मि । 5
छट्ठोववासत्थु णीसंगु णीसल्लु ।
सियलेसु णिहोसु णीरोसु णीहासु ।
आलिंगिओ सामिओ दिक्खवालाइ ।

घत्ता—अवरहिं दियहि पुणु संसारमहण्णवतारउ ॥

पुरवरु सउमणसु चरियाइ पइट्टु भडारउ ॥ ८ ॥

10

9

तत्थ सो पेमणामेण राएण संभाविओ
पंचचोज्जाइं जायाइं दाणिस्स तंस्सालए
वीसवासाइं घोरे गहीरे तवे संठिओ
तम्मि दिक्खवावणे वायहल्लंततालीदले
आइमे मासए चंदजोण्हंकिए पक्खए
इच्छियं णो सइत्तम्मि रायाणसंमाणसं
मेरुधीरेण हंतूण कम्मारिकूरं वलं
आसणाणं पयंपेण पायालए पण्णया
माणवा माणवाणं णिवासाउ संचल्लिया
आगओ वित्तसत्तु ससूरो सतारो ससी
तिण्णि वाणासणाणं सयाइं सरीरुण्णओ

भाववंतेण सत्तीइ भत्तीइ भुंजाविओ ।
लोयणाहो भंमंतो वसंतो गिरिंदालए ।
ता रओ दूसहो दुम्महो दुज्जओ णिट्ठिओ ।
णिच्चलं ज्ञायमाणेण ज्ञेयं^३ पियंगूतले ।
वोरसीए इणे पच्छिमत्ये मघारिक्खए । 5
तेण मोत्तूण भत्तं तिरत्तं च काऊण सं ।
सव्वदव्वावलोयं समुप्पाइयं केवलं ।
कंपिया देवलोयम्मि देवा वि णिहुण्णया ।
वाहणोहेहि खं ढंकियं मेइणी डोल्लिया ।
जोइओ दीहणीलालिमालाजडालो रिसी 10
अंगवण्णेण सोवण्णवण्णं समावण्णओ ।

घत्ता—सुरवइअहिवहिहिं महिर्वइहिं मि णियणियसत्तिइ ॥

पारद्धउ थुणहुं सुमईसरु परमइ भत्तिइ ॥ ९ ॥

8 १ P लोयंत^०. २ AP कुंतलइ. ३ P^० कल्लोलवेलारउदम्मि.

9 १ A हम्मालए. २ P समंतो. ३ A जायं. ४ A वारसीए दिणे; P गारसीए इणे. ५ P सइत्त. ६ A पकंपेण. ७ P हल्लिया. ८ AP महिवइहिं णविउ णियसत्तिइ.

8 1 b पज्जण^० इन्द्र. 2 a ति पुरिल्ल कल्ला ण विहि तृतीयोऽग्रकल्याणविधिः. 4 a कोतलइ पुष्पमालया सह. 7 a णि म्मुक्कदुविहासु निर्मुक्कदुष्टविभाषण, द्विविधाया इहपरलोकाना येन, b सि य ले सु शुद्धेऽयं. 8 b दिक्खवालाइ दीक्षा एव वाला तद्वगो तथा.

9 2 a दाणिस्स दानवत.. 3 b रओ रज कर्म. 5 b इणे आदित्ये, पच्छिमत्ये अस्ताचलं प्राप्ते. 6 a सइत्तम्मि स्वचित्ते, रायाणसंमाणस रानां समानमुखम्; b सं सम्यक्. 8 b णि हुण्णया दुर्नयहिता (निद्रोत्थिता ?). 10 a वित्तसत्तु वृत्रशत्रुन्द्रः.

10

जय देव णिष्पाव	णिक्कोव णित्ताव ।	
जय तुंग णिब्भंग	दिब्बंग णिब्बंग ।	
जय वाम णिव्वाम	णिक्काम णिद्धाम ।	
जय धरि संसार-	कंतारणित्थार ।	
जय संत विकंत	परमंत अरहंत ।	5
जय कंत कुकयंत	कुणयंत भयवंत ।	
जय संथ मयमंथ	णिग्गंथ सिवपंथ ।	
जय दित्त तमचत्त	अणिमित्तजगमित्त ।	
जय राय रिसिराय	णीराय णिम्माय ।	
जय णंद रुइरुंद-	मुहयंद बुहयंद ।	10
भुजगिंद भूमिंद	खयरिंद तियसिंद ।	
णित्तंद णिदंद	मुणिवंदसयवंद ।	
जयणाह णिण्णाह	णिव्वाह दुब्वाह ।	
समयार सिदूर-	मंदारकणियार-	
सुरधित्तसियरत्त-	सयवत्त सुविचित्त ।	15
कुसुमोहकयसोह	णिल्लोह णिमोह ।	
जय तिक्ख दुणिरिक्ख-	तवपक्खधुवसोक्ख-	
फलसाहि महुं देहि	सुसमाहि लहुं बोहि ।	
घत्ता—इय वंदिउ सुमइ जीहासयहिं सहसकखें ॥		
चउदारहिं सहिउ किउ समवसरणु ता जकखें ॥ १० ॥		

11

मइंदासणं लच्छित्तुंगत्तंवासं
सुरुम्मुक्कसेलिधंविट्ठी विसिद्धा

वरं आयवत्तत्तयं चंदभासं ।
पडंती सराणीसरोलि व्व दिट्ठा ।

10 १ A णित्ताव णिक्कोव. २ P वीर. ३ A तवत्त. ४ A सिरिराय. ५ P णीमाय. ६ P adds after this: अणवद्द. ७ A तववेक्ख.

11 १ A तुंगत्तु. २ A आयवत्त तयं. ३ A सेलधविट्ठी.

10 2 b णिब्बंग निर्दोष. 3 a वाम मनोज णिव्वा म स्त्रीरहितः. 5 a विकंत कर्मनिर्मूलने विक्रमोपेत; 6 परमत परो मन्त्र. 6 a कुकयत कुत्तिन कृतान्नो यस्य. 7 a सथ स्वस्थ. 10 b बुहयंदे त्या दि बुधचन्द्रादिभिर्मुनिपर्यन्तेर्वन्द्यः. 13 b णिव्वा ह वाधारहित. 14 a समयार उपशमाचारः. 15 a सियरत्त शुक्करक्त° 17 a-b दुणिरिक्ख दुर्धर तप. पन्ने मते यस्य

11 2 a °सेलिधं गिलीन्द्रपुण्यम्, b सराणीसरोलि व्व स्मरत्यय सरोलि वाणपक्तिरिव.

ण सा तस्य काही समारं वियारं
 तवेणुअवाए बुहाणंदिरीए
 णहे सुम्मए दुंदुही गज्जमाणो
 अभव्वो वि देवस्स पाए णवंतो
 चला चामराली मरालालिसेया
 असोयहुमो दिव्वपक्खिदरावो
 सुणिज्जंति दव्वत्थपज्जायभेया
 गणिज्जंति कम्माइं छज्जीवकाया

मणुम्मोहया ते हया जेण दूरं ।
 विहामंडलं कुंडलं णं सिरीए ।
 मुहालोयणेणय विद्धत्थमाणो । 5
 भिसं दीसए साणुकंपं चवंतो ।
 सुभासाविभासाहिं गिज्जंति गेया ।
 जगुम्मोहणो भारहीए पहावो ।
 सुणिज्जंति लोएहि पंचत्थिकाया ।
 पवडंति देहीण चित्ते विवेया । 10

वत्ता—पुच्छंतहु जणहु संदेहतिमिरु संणिरसइ ॥

जलि थलि णहि विवरि तं णत्थि जं ण जिणु सासइ ॥ ११ ॥

12

सउ सोलहउत्तरु गणहरहं
 दुण्णि सहस चत्तारि सय
 दोण्णि लक्ख चउपण्ण पुणु
 अवरु वि पण्णासइ सहिय
 ऐक्कारहसहसइं परहं
 देवधित्तकुसुमंजलिहि
 चउसयअट्टारहसहस
 दहसहास चउरो सयइं
 तेत्तिय पुणु पण्णासजुय
 लक्खइं गुत्तिसमय गणमि
 सरिसइं वंभीसुंदरिहिं
 णिच्चमेव मउलियकरहं
 पंचलक्ख घरचारिणिहि
 विहरंतहु तहु महिठाणाइं

पुव्ववियाणहं मुणिवरहं ।
 णिच्चपउंजियजीवदय ।
 सहस तिण्णि सय तहिं जि भणु ।
 एत्तिय सिक्खुव सवरहिय ।
 अत्थि तेत्थु अवहीहरहं । 5
 तेरहसहसइं केवलिहिं ।
 वेउव्वियहं सुज्जाणवस ।
 मणपज्जवहहं हयमयइं ।
 वाइ तासु णिप्पणसुय ।
 सहसइं अवरु तीस भणमि । 10
 तहु जायइं संजमधरिहिं ।
 तिण्णि लक्ख सावयणरहं ।
 णारिहि अणुवयधारिणिहिं ।
 वीसवारिसपरिहीणाइं ।

४ P मणुम्मोहयंता हया. ५ AP कुंडलं. ६ A संगंधो वि. ७ P मरालाणिसेया. ८ P सुहासाहिं भासाहि. ९ K दिव्वत्थ^० but gloss द्रव्यार्थ^०. १० AP भासइ.

12 १ AP सउ जि ससोलह. २ AP एयारह^०. ३ P चउरो य सइं. ४ A मणपज्जवयहं गय-मयइं; P मणपज्जवहु वि हयमयइं. ५ P सरसइं. ६ A omits तहु. ७ A परहीणाइं.

3 a समार स्मरप्रभवम्. 4 b विहामंडलं भामण्डलम्. 7 a मरालालिसेया हसश्रेणिरिवोज्ज्वला. 12 सासइं नास्ति कथयति.

12 10 a गुत्तिसमय त्रीणि. 14 a ठाणाइं प्रदेशान्.

पुव्वहं घडिमालाहयइं	एक्कवीसलंक्खइं गयइं ।	15
कायविसगें थिउ वियाडि	माससेसुं संमेयतडि ।	
मासि पहिल्लइ पक्खि सिइ	एयारसिदिणि दिण्णसिइ ।	
मग्गणक्खत्ते णिव्वुयउ	सहुं जोइहिं णिक्कलु हुयउ ।	
देविंदहिं जयकारियउ	पुंज्जिवि साहुक्कारियउ ।	
अट्टगुणालंकिउ सुमइ	देउ मज्जु अवियल सुमइ ।	20

घत्ता—भरहेण अण्णाहिं मि परमेसरु सो वण्णिज्जइ ॥

सइं अमराहिवेण गुणपुप्फयंतु जसु गिज्जइ ॥ १२ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
महाभध्वभरहाणुमण्णिए महाकव्वे सुमइणिव्वाणगमणं
णाम दुचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४२ ॥

॥ सुमइचरियं समत्तं ॥

८ P पुण्णाहं. ९ P एक्कपुव्वलक्खइ. १० A मासमेत्तु. ११ A एगारसि°. १२ AP महणक्खत्ते.
१३ A अग्गिदेहिं सक्कारियउ, P अग्गिदेहिं संकारियउ. १४ P देउ मज्जु विमलमइ. १५ A पुप्फयंत.
१६ A किज्जइ.

16 a वियडि विस्तीणें. 17 b दिण्णसिइ दत्तमोक्षलध्मीके. 22 गुणपुप्फयंतु गुणपुष्पाणा वृत्तं
क्रियते यत्र .

दृष्पिदृदृपाविदृजगजणियभात्रु दावियपहु ॥
कम्मदृगंठिणिदृवणखमु पणवेप्पिणु पउमप्पहु ॥ धुवकं ॥

1

णिरंतरु जो तवलच्छिणिकेउ	गइंदखगिदविसंक्रियकेउ ।
परज्जिउ जेण रणे झसकेउ	समुग्गंउ जो कुगईखयकेउ ।
णियायममग्गणिओइयसीसु	अपासु अवासु अणीसु रिसीसु । 5
वियद्वुविवाइविइणवियारु	रयासववारु विमुक्कवियारु ।
विवज्जिउ जेण वियालविहारु	सयौ गलकंदलु जस्स विहारु ।
कडीयलि मेहल णेय णिवद्ध	ण कामिणि जेण सणेहणिवद्ध ।
खमासरिसित्तसरोसहुयासु	सुझाणदवग्गिसिहोहहुयासु ।
भडारउ जोरुणपंकयभासु	अमिच्छअतुच्छपर्योपियभासु । 10
पमेह्लिउ जो विहिणा विविहेण	णमामि तमीसमहं तिविहेण ।
समिच्छियणिकखयसोक्खपयस्स	णइच्छियविप्पवियप्पपयस्स ।
दुगुंछियकण्हमयाइणयस्स	भणामि समायरियं इणयस्स ।
भविस्सजिणिद अणिंदसमीह	अहो सुणि सेणियराय णिसीह ।
जगुत्तमु गोत्तमु भासइ एवं	सुणंति महोरय दाणव देव । 15

वत्ता—धादइसंडइ दीवम्मि वरे जणगोहणसंकिण्णइ ॥

तहि पुव्वमेरुपुव्वइ दिसइ पुव्वविदेहि रवणणइ ॥ १ ॥

1 १ A समगउ. २ A णियागम°. ३ A सयामयकंदलु. ४ AP पयासियभासु. ५ A तिविहेण. ६ A ° अक्खयसोक्खपयामु. ७ A °पयानु. ८ P कण्हमयं अइणस्स. ९ P इणमस्स.

1 1 °भात्रु शुभपरिणाम 3 a °णि केउ निवास, b ° केउ व्वज. 4 b °खय केउ विना-
शार्थमुद्यतः. 5 a °णि ओ इय° नियोजिता., b अ पा सु वन्धनरहित. 6 a वियद्वु° विदग्धाः, °वि इ ण्ण-
वियारु दत्तो विचारो विकारो कर्मभक्तो येन, b रयासववारु कर्माश्रवप्रतिषेधकः. 7 a वियालविहारु
अकालविहरणम्, b विहारु हाग्गहितः. 8 b सणेहणिवद्ध निजस्नेहे न वृत्ता. 9 a °सरोसहुयासु
त्वगोपाग्निः, b °हुयासु हुतवाञ्छ. 10 a अरुणपंकयभासु रक्तोत्पलप्रभः, b अमिच्छेत्यादि अमि-
श्याना भव्यानां अतुच्छानां प्रचुगणा प्रजाना प्रिया भापा यस्य. 11 a विहिणा कर्मणा. 12 a णिक्वय-
सोक्खपयस्स शाश्वतसौख्यपदस्य, b णइच्छियेत्यादि नेष्ट ब्राह्मणकल्पितानेकपशुवधाना पदं यजादिकं
येन. 13 a दुगुंछिय कण्हमयाइणयस्य जुगुप्सितं निन्दितं कृणमृगाजिनकं येन, b इणयस्स
इदमस्य पद्मप्रभस्य. 14 a अणिदसमीह उत्तममभ्यक्वेष्ट.

2

सयामयणाहिसुगंधसमीरि
 सकच्छउ वच्छउ देसु विसालु
 समीवसमीवपरिद्वियगामु
 फलोणयच्छेत्तणियत्तणरिद्धु
 तहि पुरि अत्थि पसिद्ध सुसीम
 दुभूमितिभूमिसमुण्णयणीड
 सरोरुहकेसरलग्गदुरेह
 हरीमणिवद्धमणोहरमग्ग
 तहि अपरज्जिउ णाम णरिद्धु
 रईसु व भाविणिर्दुल्लहसंगु
 खलुज्जिउ तेल्लु व णेहलभोउ
 सविग्गहु सहुँ व लक्खणवंतु

सुसीयहि सीयँहि दाहिणतीरि ।
 मरालविहंगैविहिण्णमुणालु ।
 परीणपँवासिपऊरियकामु ।
 पिँथो जहि रोसणियत्तणणिद्धु ।
 दुवारविलंविमोत्तियदाम । 5
 महंतफुरंतसुवण्णकवाड ।
 जिणालयचूलियचुंविममेह ।
 णिभोयविसेसविसेसियसग्ग ।
 करिद्धु व दाणि कुलंवरँचंदु ।
 सरासणु जेम गुणेणं वियंगु । 10
 णहं व समेहु णिवेसियलोउ ।
 पउंजइ संधि वियाणइ मंतु ।

घत्ता—अण्णहि दिणि तेण णराहिवेण चित्तिउं होउ पहुच्चइ ॥
 जं पुरउं पमेल्लइ वल्लहउं अण्णु तं लहु मुच्चइ ॥ २ ॥

3

अरे जडजीव समांसमि तुज्जु
 गयालसु लालसु लोहरसेणं
 जणेण जणो पणविज्जइ तँव
 मयंग तुरंगम किकर कासु
 ण मित्तु कलत्तु ण पुत्तु ण वंधु
 विचिंतिवि एंव णिरुत्तु मणेण

ण कस्स विहं जगि कोँवि ण मज्जु ।
 णिरंतरयं णियकज्जवसेण ।
 सजीउ विँतासु णरक्खइ जँव ।
 फलक्खइ पक्खि व जंति दिसासु ।
 सरीरु वि एँउं विणासि दुगंधु । 5
 पकोक्किउ पुँत्तु सुमित्तु खणेण ।

2 १ A सुगधि°; P सुयध.° २ P तीरिणि. ३ A मरालमुहग्ग°. ४ A पहीण°. ५ A पवासियऊरिय°, P पवासियपूरिय°. ६ A पउजहि. ७ P कुलंवरइंदु. ८ P भाविणिदुण्णयसकु. ९ P गुणेण अवकु. १० A खलुज्जियतेल्लु व णेहलभोउ, P खलुज्जिय तेल्लु व्व णेहल भाउ. ११ P सद्दु सलक्खणवतु.

3 १ A पयासमि. २ P ण को वि. ३ P मोहरसेण. ४ A तासु वि. ५ A एम विणासि. ६ A मित्तु सुपुत्तु.

2 1 a मयणाहि° कस्तूरिकामृग b सुसीयहि सुगीतगुणयुक्ताया सुश्रीकाया वा. 4 b णिद्धु कुशलः. 7 a दुरेह भ्रमर. 8 b विसेसिय° अतिग्रथित. 9 b दाणि दानशील. 11 b समेहु समेघ सुबुद्धिश्च. 12 a लक्खणवतु व्याकरणमिव. 13 पहुच्चइ पूर्णम्.

3 1 a समासमि सक्षेपेण कथयामि. 4 b फलक्खइ फलक्षये. 6 a णिरुत्तु निश्चयेन.

सवित्ति धरित्ति णिवेइय तासु
गुरुं पिहियासवयं पणवेवि
दसेक्कसुयंगवयाइं धरेवि
सुपासुयभोयणुभक्खु गसेवि
छुहा भंय मेहुणु णिह सुएवि
सहेवि परीसह भीमुवसंग्ग
चएण्णिणु दुव्वहसीलवहाउ
तवेण करेवि कलेवरु खासु
विहंडिवि छंडिवि चंडु तिदंडु

धराभरधारणु कंधरु जासु ।
थिओ जिणदिक्खवयक्खमु होवि ।
पुरायरगामसयाइं चरेवि ।
अपंडयथीपसुवासि वसेवि । 10
सणाणजलेण कलंकु धुएवि ।
मुणित्तणवित्ति चिणेवि समग्गं ।
णिरिक्खवहूणिवभत्तकहाउ ।
णिवंधिवि गोत्तु जिणेसरणामु ।
मंथो पमुएवि चउव्विहपिहु । 15

वत्ता—अवराइउ रिसि उवरिल्लियहि णरवंदहि णिरवज्जहि ॥
पीडंकरंणामविमाणवरि सुरु जायउ गेवज्जहि ॥ ३ ॥

4

गिहीगुणठाणवएहिं विमीस
संसंतहु अंतरु तेत्तिय पक्ख
ण को वि महीयलि संणिहु जासु
छमासुं परिट्टिउ आउसु जांव
पुरीकउसंविवईसु मणीसु
सुसीम णियंविणि वल्लह तस्सं
भिसं भरहेसरवंसरुहस्स
अहो णिहिणाह विहंसियसोउ
तओ धणिणा पुरुपेसणरम्मु

तहिं तहु आउ महोवहि वीस ।
दुहत्थपमाणिय वौदि वलक्ख ।
दिणेहिं अहंसुरणाहहु तासु ।
इणं धणवाहि पजंपइ तांव । 5
धराधरंणो धरणीसु महीसु ।
अखंडसुहारुहसोम्ममुहस्स ।
करेहि दिहिं णिलयं व णिवस्स ।
पहोसइ णंदणु णंदियलोउ ।
विणिम्मिउं भम्मविणिम्मियहम्मु ।

वत्ता—अण्णाहि वासरि रायाणियइ णिसिविरामि उवलक्खिय ॥ 10
पासायतंलित्तलसुत्तियइ सिविणयमाल णिरिक्खिय ॥ ४ ॥

६ A धराभरधारण P धराभर धारणु. ७ A पिहियासव णं पणवेवि. ८ A सुफालय°. ९ A छुहामयमेहुणु.
१० A °वसग्गि. ११ A समग्गि. १२ AP मुओ. १३ A पीडंकरणां P पीयंकरमाण°. 4 १ A आव. २ A सुसंतहु. ३ P दिवद्वयहत्थय. ४ AP छमास. ५ A मुणीसु. ६ A
धणोदग्गो. ७ A तासु. ८ A °सुहायरमोम्ममुहासु. ९ A °तलि सुत्तियइ P ° तले सुत्तिह.

S b जिणदिक्खवयक्खनु जिनदीक्षाव्रतयो श्रम 9 a °वयाइ पदानि. 10 b °पडयंनपुंसकः.
13 a °सीलवहाउ श्रीलवधकारिका. विकथा., b णिरिक्ख° चोर °णिव° नृपकथा, °भत्त°
नोजनकथा 15 b °पिहु आहारः. 16 उवरिल्लियहि तृतीये त्रिके.

4 1 a गिहीगुणठाणवएहि गृहस्थगुणस्थानपरिदरेकादशभिः. 2 b वौदि शरीरम्, वलक्ख
शुद्धा. 4 b धणवाहि इन्द्र. 6 b °सुहारुह° चन्द्रः. 9 a पुरुपेसणरम्मु इन्द्रप्रेषणेन आवेगेन रम्यम्,
b भम्मं स्वर्गम्.

सुहाहिमसारयणीरयवणु
 गलंतमओलकवोलु करिदु
 खरेहि खुरेहिं धरगु दलंतु
 विसेसविसेसु विसाण धुणंतु
 गिरिदगुहाकुहरंतविणित्तु
 लयादललोलललावियजीहु
 णिसावइसेय दिसागयकंति
 अणयपसूयकरंवयगुंथु
 णिहित्ततमीतमु णिम्लु चंदु
 पमत्तं रमंतं द्रहंति तरंत
 महुप्पल कुंभलएसु णिसणण
 अलीरंवफुल्लियपोमरयालु
 णिमज्जणकीलंणलीण गइंदु
 पदंसियभीयरमीणरंडु
 सुहावहु सुदु परिद्विउ इदु
 णियच्छिउ अच्छरणाहविमाणु
 णियच्छिउ वोमदिसाणणभासि
 पवित्तुं पलित्तु घिणण व सित्तु
 णियच्छिउ चिच्चि णराच्चियदेहु

पईहरपाणि झलज्जलकणु ।
 णियच्छिउ जंगसु णाइं धरिदु ।
 वलाल गंविद वलेण खलंतु ।
 णियच्छिउ संमुहु एंतु डरंतु ।
 रुसारुणदारुणदूसहणेत्तु । 5
 णहालिफुरंतु णियच्छिउ सीहु ।
 णियच्छिय लच्छि सरोवरि णहंति ।
 णियच्छिउ दामयजुम्मु णहत्थु ।
 णियच्छिउ तिव्वु तवंतु दिणिंदु ।
 णियच्छिय मच्छ चलंत वलंत । 10
 णियच्छिय कुंभ वरंभपडणण ।
 विहंगसिलिवयचक्खियणालु ।
 णियच्छिउ तामरसार्यर हुंदु ।
 णियच्छिउ वारिरउदु समुहु ।
 णियच्छिउ विट्टरु सीहणिविदु । 15
 अहीसरमंदिह मेरुसमाणु ।
 पहाइ अणूण मणीण य रासि ।
 महंतु जलंतु णहंणि मिलंतु ।
 पहायइ गंपि णराहिवगेहु ।

घत्ता—णियदइयहु देविइ वज्जरिउं जं जिह दंसणु दिड्डं ॥ 20
 तुह होसइ तणुरुहु परमजिणु तेण ताहि फलु सिड्डं ॥ ५ ॥

5 १ A कवोलं २ P गइद. ३ AP विसेसु विसेसु. ४ AP रडतु. ५ AP गुंथु. ६ A reads this line after चक्खियणालु below. ७ A भमंतु. ८ AP दहति. ९ AP अलीरउ. १० A कीलणसील P कीलणणील. ११ P रसायर. १२ AP रवहु. १३ AP पणिद्वियदुहु. १४ AP अहीसरगेहु गिरिंदसमाणु. १५ A पलित्तु पवित्तु घिणण, P पदीवि पलित्तु घिणण. १६ A णहगामिल्लु.

5 1a सारयणीरय^० शरन्मेघ, b पईहरपाणि प्रदीर्घशुण्ड. 2 a ^०मओल^० मदप्रवाह. 3 b वलाल वलवान्. 4 a विसेसविसेसु वृषभेशाना प्रधान, विणोपोपलक्षितो वृषेशो वा, b डरंतु गर्जन्. 6 b णहालि^० नखश्रेणी. 7 a णिसावइसेय चन्द्रवत् श्वेता उज्ज्वला. 8 a पसूयकरवयगुंथु पुष्पसमूहैर्गुम्फितम्; b णहत्थु नभ स्थं खलमम्. 9 a ^०तमी^० रात्रि. 10 a द्रहति हृदमध्ये. 11 a कुंभलएसु कुम्भमालालु. 12 a ^०पोमरयालु पन्नपरागयुक्त. b विहगसिलिवय^० हंसशिथु. 13 b तामरसायर कमलाकर 16 a अच्छरणाह^० देवा. 19 a चिच्चि अग्नि.

6

पुरंदरणांरि हिरी धवलच्छि
 पसाहिउ सोहिउ सीमहि गव्भु
 हिमागमि संगमि माहि पवण्णि
 असेयहि छट्टिहि रत्तिविरामि
 इहाहिवरुवधरो वल्लिरेहि
 भुयंग णरामर मंदिह आय
 दहड्ड जि पक्ख सिणा दुहहार
 गए सुमईसि महँदिसमेहि
 समायड कत्तिइ कंदवियोड
 हुओ परमेसु सुहाइं जणंतु
 पुणाइउ जीय जिणिद भणंतु
 पुरं पणवेवि णिवासि त्रिसेवि
 जिणम्महि हत्थि परो सिंसु देवि
 पवज्जियढक्कुं कमकमियक्कुं
 गओ गहमंडलु लंघिवि तांव

सिरी दिहि कंति पराइय लच्छि ।
 रिदुत्तिउ बुडुउ हेमवरंभु ।
 णहे दहदिच्चलयम्मि पसण्णि ।
 ससंकदिवायरसंगि सँकामि ।
 थिओ मुणिणाहु समायरिदेहि । 5
 रिहुच्छिण उच्छवि सुँक्कियमाय ।
 धरंगणि पाडिय कच्चुरधार ।
 असीदहकोडिसहासपमेहिं ।
 अचंदिणितेरसि तद्धुयजोइ ।
 असंखसहांसु महामहवंतु । 10
 णहं तुरएहि गएहि पिहंतु ।
 सुहीहिययंतरि भत्ति करेवि ।
 जगत्तयणाहु णवेवि लएवि ।
 णिओइउ वारणु चल्लिउ सक्कु ।
 सिंला इणसिचणमेइणि जांव । 15

वत्ता—तहिं मेरुसिंगि सण्णिहिउ जिणु पाणिउ सुरयणु आणइ ॥
 कल्हारपिहियघडसहसकरु सइं पुलोमिपिउ ण्हाणइ ॥ ६ ॥

7

वियाणिवि ण्हाणिवि ण्हाणविहीइ
 पर्णाच्चिवि अग्गइ वालुं चलेहिं

पुणो अवयारु करेवि महीइ ।
 थुणेवि सुरेहि गुणौलकुलेहिं ।

6 A °णारिहि धी धवलच्छि. २ A उडुत्तिउ. ३ AP °सगमिकामि. ४ A सुँक्किय. ५ A महमद्विसमेहि. ६ A तद्धिय° ७ AT सुहासु. ८ APT जिणवहि. ९ A °ढक्क. १० A कमकमियंकु.

7 १ AP read *a* as *b* and *b* as *a*. २ AP वाहुवलेहि ३ AP गुणाण.

6 2 *b* सीमहि नुमीमाया *b* रिदुत्तिउ ऋतुत्रय षण्मासा. 3 *b* दहदिच्चलयम्मि दग्ग-
 दिगाचत्ते. 4 *b* ससंक चन्द्र, दिवायरसणि आदित्योदये. 5 *a* इहाहिव° गजरूपधर, वल्लिरेहि
 वल्लीशोभिने. 6 *b* रिहुच्छिण इच्छेण सह *b* सुक्कियमाय सुष्टु उत्तमा कृता माया विक्रियाविभूतियै-
 नंगमर्गः अथवा सुष्टु कृता खण्डिता माया र्थ. 7 *a* सिणा वनदेन, *b* कच्चुरधार सुवर्णधारा. 9 *a* कंद-
 वियो ऽ मेवापगने *b* तद्धुयजोइ त्वष्टृयोगे चित्रानक्षत्रे. 10 *b* असंखसहासु असख्यदेव महामह-
 वतु महामहा पद्मकन्थाणानि विद्वन्ने कार्यत्वेन यस्य स गक्र. 12 *b* सुहीहिययंतरि वन्धुजनहृदयमध्यं.
 13 *b* पणेनिनु मायाशिशु. 14 *a* कमकमियक्कु क्रमेण चरणेन आक्रमित अर्कः येन *b* णिओइउ
 भ्रंरत. 15 *b* इणसिचणमेइणि जिनाभिपेकभूनि. 17 पुलोमिपिउ पौलोमी शची तस्याः पति इन्द्र.

7 2 *a* चलेहि विद्युचपलं.

समप्विउ मायहि पंकयणेत्तु
 गयामयभोइ सवासपपसु
 ण वण्णहु सक्कंवि तासु कयाइं
 सरासणयाहं सर्रीरपमाणु
 समं णरडिंभयणेण रमेवि
 वयंकसमंकिउ सुण्णवउक्क
 तओ तहिं पत्तु सयं सयमण्णु
 दु एक्कु जि विदुंय पंच जि देहि

सुलक्खणवेज्जेणरजियगत्तु ।
 पवड्डिउ तायहरम्मि जिणेसु ।
 सयद्ध णिउत्तइं दोण्णि सयाइं । 5
 रुईइ विरेहइ णं णवभाणु ।
 इसीसमपुव्वहं लक्ख गमेवि ।
 इणं पि दिणेहि पमाणु पदुक्क ।
 कुमारु णिवेसिउ रज्जि पसण्णु ।
 पुणो वि सिसुत्तरसंख गणेहि । 10

घत्ता—इय पुव्वकालु पुहईसरहु गउ सुहं सिरि माणंतहु ।

विण्णवियउ ता किंकरंणरिण कर मउलिवि पणावेवि तहु ॥७॥

8

णराहिव दीहरपासणिरुद्धु
 समुण्णयकुंभु णहग्गविलग्गु
 तओ परिचित्तिउं दिव्वंणिवेण
 ण विंझसरीजलकील मणोज्ज
 ण कंदल मिट्ठु ण कोमलवेणु
 करेणुरई करताडणु णत्थि
 दढंकुसघट्टणु फासणिरोहु
 ण पक्कु इहिंदु मप इह उत्तु
 ण णिग्गइ जग्गइ किं पि ण मूदु
 अहं पि हु मोहिउ किं परु मोक्खु
 विणासिरु जाणिवि पेच्छमि लोउ
 असासउं रज्जु असुंदरु अंति

करीसरु वारिणिबंधणि बंधुं ।
 धराहिव जाणवि तुम्हहुं जोग्गु ।
 पमग्गियकेवलणाणसिवेण ।
 ण सल्लइपल्लवभोज्ज ण सेज्ज ।
 ण मग्गविलग्गिरवालकरेणु । 5
 सफासवसेण विडंबिउ हत्थि ।
 सहेइ वराउ वियंभियमोहु ।
 अहो जणु दुक्कियदेहणि खुत्तु ।
 सिरीमयणिहपरव्वसु मूदु ।
 दुमाणवु चम्मविणिम्मिउ हक्खु । 10
 विरप्पमि तो वि ण भुंजमि भोउ ।
 ण इच्छमि अच्छमि गंपि वणांति ।

घत्ता—तावायहिं लहुं लोयंतियहिं णाहहु वयणु समत्थियउ ।

अंवरु धावंतहिं दणुयरिहिं चित्तचीरु णावइ थियउ ॥ ८ ॥

४ AP °विंजण°. ५ A ण वण्णहं सक्कमि, P ण वण्णवि सक्कमि. ६ AP सरीरु पमाणु. ७ P पंच जि विंदुय. ८ P चयारि. ९ A °णरिणा.

8 १ AP वद्ध. २ A दिव्वु. ३ A पासणिरोहु. ४ AP वूदु. ५ A विरप्पवि. ६ AP समत्थियउ.

4 a अ म य भो इ अमृताशिनो देवा . 8 a व यं क स म कि उ व्रतानि पञ्च तैश्चिहितम्. 9 a स य म ण्णु इन्द्रः. 10 a दु ए कु जि विं दु य पंच एकविंशतिलक्षाः, b सि सु त्तर स ख गि शू त्तर स ख या रा ज्य कालः.

8 1 b वा रि णि बंध णि गर्तानिबन्धेन. 5 b °क रे णु हस्तिनी. 8 a इ हि दु गजेन्द्रः; b °दे ह णि कर्दमे; खु चु धितः 14 द णु य रि हिं दानवदेवैः.

गिरि व्व जलागमणं जलएहि
समच्चिउ लोयगुरू कुडएहिं
सुवण्णमयाइ णरच्छिपियाइ
वणंतरु चारु पडुल्लियचारु
खमाविउ लोउ सिरे कउ लोउ
करोप्पिणु छट्टु वि सुट्टु वरिट्टु
समट्टममासि जंगंतपयासि
दिणे असियम्मि सुतेरसियम्मि
विणिग्गउ हत्थु पडुइय चित्त
सुयाइं मुणेवि रयाइं धुणेवि
समं सकिवाहं सहासु णिवाहं

सुरेहिं पडु णहविओ कुलएहिं ।
थुओ दुवईवयणुकुडएहिं ।
महिदणियाइ गओ सिवियाइ ।
सकंकणु हारु पमेल्लिवि दोरु ।
भवणवपोउ विसुद्धतिजोउ । 5
पदिट्टसइट्टु समासियणिट्टु ।
घणागमणासि हिमालपवसि ।
दिणेसरि जाम दुयालसियम्मि ।
अलंकिय तदिणि संजमजुत्त ।
महव्वय लेवि थिओ रिसि होवि । 10
तवंकिउ ताहं ण मच्छरु जाहं ।

घत्ता—वारहविहतवणिव्वाहणहि धम्मजोयपरिरक्खहि ॥

पउमण्यहु वडुमाणणयरि देउ पडुउ भिक्खहि ॥ ९ ॥

णमोत्थु भणेवि गहीरखेण
तिणा तहु णिम्मल्लु भोयणु दिण्णु
णिहेल्लणि उग्गय अच्चुय पंच
गओ रिसि घोसिवि अक्खयदाणु
पमाय कसाय विसाय हरंतु
विह्वयतमोमयमंदकलंकि
सुचित्तहि चित्तइ चितविमुक्कु
परंदिसमासिइ वासरराइ

वरं णिउ सो ससियत्तणिवेण ।
मुणिंदणिहालणि संचिउ पुण्णु ।
अहासवदारइं संभिवि पंच ।
सुवंधु सुवेरि सुणिच्चसमाणु ।
छमास विहिंडिउं वित्तु चरंतु । 5
चइत्तल्लणम्मि पउण्णससंकि ।
दहं माणि पूरिउ वीयउ सुक्कु ।
उइण्णउं केवल्लणाणु विराइ ।

9 १ A सुवण्णमियाइ. २ AP जगत्तपयासि. ३ A संजमजुत्त. ४ A णिव्वाहणउ. ५ A धम्म
६ P जोइपरिक्खहि. ७ A पयडुउ.

10 १ A ससिदत्त°. २ A भोयणु णिम्मल्ल. ३ A णिग्गय. ४ AP सवंधु. ५ A सवेरि.
६ P सुभिच्च°. ७ A विहंडिउ. ८ P उण्णणउं.

9 1 b कुलए हि घट्टे. 2 a कुडए हि कुटजपुर्ण, b दुवईवयणुकुडएहिं द्विपदी-
छन्दोविशेष. तद्वचनेन उक्तैः. ३ a सुवण्ण मयाइ सुवर्णनिर्मितया. 5 a लोउ लोचः, b विसुद्धति-
जोउ विशुद्धवाक्यन.शरीरयोग. 6 b समासियणिट्टु समाश्रितचारित्र. 7 b हिमाल° शीतम्. 8 b
जामदुयाल° वामद्वयम्.

10 1 b ससियत्त° सोमदत्तः. 2 b °णिहालणि आलोकने. 3 b अहासव° पापाश्रव°. 4
b °उणम्मि पूर्णिमायाम्. 8 a परदिस पश्चिमदिशा b विराइ विगने वीतरागे.

णियासणचालणचालियसग्गु

समागड झंत्ति पवाहियपीलु

घत्ता—दह भावण वेंतर अट्टविह जोइस पंचविहाइय ॥

सोलहविह कप्पणिवासिसुर जिणु णवंति गुणराइय ॥ १० ॥

विमाणपऊरियवारियमग्गु ॥

विडोउ सभिच्चु सच्चिधु सलीलु । 10

11

णमो अरिहंत णमो अरिहंत
णमो दयवंत णमो दयवंत
णमो बुहराम णमोहविराम
णमो गिरिधीर णमो गयसीर
णमो णियमाल सुपंकयमाल
फलाइं गसंतु जलाइं रसंतु
ण जे तवसीह अहो मुणिसीह
तुमं सुमरंति भवेसु मरंति
पणासियसासयसंपयमूलु
कुसंगु कुलिंगु कुसामि कुदेउ
वियंभउ णाणविलोयणसत्ति

घत्ता—णिव्वाणभूमिवररमणिसिरिचूडामणि पइं वर्णाणि ॥

जहु कव्वपिसाणं विणडियउ अप्पउ हूँउं तणु मण्णामि ॥११॥

णमो विसयंत णमो विसयंत ।
णमोत्थु अमंत भयंत भवंत ।
णमो गुणथाम णमोमियथाम ।
णमो हयमार णमो धुवमार ।
कयंधिसुसील महाकरिलील । 5
दलाइं वसंतु वणम्मि वसंतु ।
परत्तसिरीह णिरीस णिरीह ।
ण ते सुहि होंति मृगेसु हि होंति ।
महं तुह धम्मसिरीपडिकूलु ।
कुपत्ति कुमित्तु म जम्मि विहोउ । 10
सुणिच्चल होउ तुहुप्परि भत्ति ।

12

थुणेप्पिणु एम गुणोहु जिणेसु
चउद्दिसु उब्भिय सोहिय खंभ

तओ तियसेहिं कओ तहु वासु ।
चउद्दिसु सारसरावसरंभ ।

१ P ताव.

11 १ AP अरहंत. २ A णमोत्थु भयत. ३ P कलंघि°. ४ A म्रिगेसु, P मगेसु. ५ A °सिरचूलामणि. ६ A मण्णामि. ७ A तणु हउ.

9 b °वारियमग्गु मेघमार्ग . 10 a पवाहिय° प्रेरित ; b विडोउ विडौजा. इन्द्रः.

11 1 a अरिहंत अर्हन्नाथ; अरिहत कर्मारिघातक, b विसयंत जेयवस्तुपर्यन्त, विसयत विषयविनाशक. 2 a दयवंत दयायुक्त, अदयवत अदया वान्ता छर्दिता येन, b अमंत अभ्रान्त; भयत भदन्त मुने, भवत भयविनाशक. 3 a बुहराम पण्डितमनोज; अहविराम प्राप्रान्तक, b गुणथाम गुणनिलय, अमियथाम अनन्तवीर्य. 4 a गिरिधीर गिरिवद्वैर्ययुक्त, गयसीर हल्लरहित; b हयमार निर्जितकाम, धुवमार ध्रुवलक्ष्मीदायक. 5 a णियमाल नियमसहित, सुपंकयमाल शोभनपङ्कजमालागोमित b कयंधिसुसील कृता अंध्रियु सुगीला यतय प्रणता येन. 13 तणु मण्णामि तृणवन्मन्ये.

12 1 b वासु समवसरणम्. 2 b सारसरावसरंभ सारसगन्दयुक्तानि सरोगतानि अम्भासि जलानि.

चउदिसु दारंइं गोजरयाइं
 चउदिसु पायववेळिहरांइं
 चउदिसु दीसंइं सम्मुहुं देउ
 चउदिसु भावलउन्भवु तेउ
 चउदिसु छत्तंइं पंहुरयाइं
 चउदिसु अट्टमहाधयपांति
 चउदिसु दुंदुहिसद घडंति
 असेसहं भासविसेसहं खाणि

चउदिसु चेइयमंदिरयाइं ।
 चउदिसु थूहंइं दिव्वंधराइं ।
 चउदिसु आसणु सीहसमेउ । 5
 चउदिसु पल्लवरत्तु असोउ ।
 चउदिसु सुभंइं चामरयाइं ।
 चउदिसु पुष्पचयाइं पडंति ।
 चउदिसु इंदत्तयाउ णडंति ।
 चउदिसु तस्स वियंभइ वाणि । 10

वत्ता—तच्चाइं सत्त दह धम्मविहि णव पयत्थ छहद्वंइं ॥

आहासइ परमप्पउ जणहु सव्वंइं भूयंइं भव्वंइं ॥ १२ ॥

13

खण्णु पुणेक्कु गणेसवराहं
 तिदिंदुय रंध रिऊदुयजुत्त
 सहास दसेव य ओहिजुयाहं
 सहासइं सोलह अट्टसयाइं
 महामणपज्जयणाणघराहं
 सहासहं उप्परि रंधसमाहं
 सहासइं वीस पयोणिहि लक्ख
 वयत्थघरत्थहं तासु तिलक्ख
 तिरिक्ख ससंखं सुरा त्वि असंख
 समासिवि धम्मु पंधंसियदुक्खु

दुसुण्णइं तिणिण दु पुव्वधराहं ।
 जिणिंदहु एत्तिय सिक्खंपउत्त ।
 दुवालस ते च्चिय सव्ववियाहं ।
 विउव्वणरिद्धिरिसिंदहं ताइं ।
 धुवं तिसयंकिउ सउ जि सयाहं । 5
 खजुम्मु सडंकु वि वाइवराहं ।
 वियाणहि संजमधारिणिसंख ।
 अणुव्वयणारिहिं पंच जि लक्ख ।
 पणासिवि राइरइंसुहकंख ।
 छमासविहीणउं पुव्वहं लक्खु । 10

वत्ता—संमेयहु सिहंरि समावहिवि मासमेत्तु थिउ जोएं ॥

जिणु अंतिमु ज्ञाणु पराइयउ सहं मुणिवरसंघाएं ॥ १३ ॥

12 १ P दाविय. २ A वेळिणणाइ. ३ A दिव्वयराइं. ४ P जक्खकरे. ५ AP इंदतियाउ.
 ६ A तानु. ७ A धम्मविह. ८ P छद्वंइं. ९ A सव्वभूइभूयइ भवइ.

13 १ A सिक्खय उत्त. २ AP अणुव्वयधारिहि. ३ A सुसंख. ४ A गयरइंसुह^०. P णारि-
 रंउह^०. ५ A पहतिय^०. ६ A सिहइ.

6 a भावलउन्भवु तेउ भामण्डलोद्धूत तेज.. 6 b इंदत्तयाउ देवाङ्गना.. 10 b वियंभइ
 विन्नुम्भे.

13 1 a स शून्यम्. 3 b सव्ववियाहं केवलिनाम्. 9 b राइरइंसुहकंख रात्रिरि-
 द्दुगंताम्.

14

महग्गमि फग्गुणपक्खि सुकिण्हि
 स णाणसरूवु तिदेहविमुक्कु
 ण कण्हँ ण पीउ ण लोहिउ सुक्कु
 ण पुंसुँ ण संदु ण भण्णइ इत्थि
 हुओ परमेसरु अट्टुगुणहु
 सिहिंदसिरोमणिमुक्कसिहीहिं
 णमंसिवि सिद्धणिसीहियथत्ति
 गओ पविहारि समीरवहेण

संचित्तचउत्थितिहीअवरण्हि ।
 जगग्गधरित्तिं जाइवि थक्कु ।
 ण लाहवु तासु ण चत्थि गुरुक्कु ।
 फुरंतसकेवलवोर्हंगभत्थि ।
 सरीरु सलक्खणु तक्खणि दहु । 5
 समच्चणवंदणहोमविहीहिं ।
 पपहिं णिओइउ कुंजरु झ त्ति ।
 सुरण्ण वि अण्णविमाणुमहेण ।

घत्ता—महुं तूसउ भेरहभव्वणामिउ पउमप्पहुं णिहयावइ ॥

तिजागिंदहु केरउ एम जसु पुप्फयंतु को पावइ ॥ १५ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
 महाभव्वभरहाणुमण्णिए महाकव्वे पउमप्पहणिव्वाणगमणं
 णाम तियालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४३ ॥

॥ पउमप्पहचरियं समत्तं ॥

14 १ A महुग्गमि. २ A सुचित्त. ३ AP जगग्गधरित्तिहि. ४ A किण्ह. ५ A ण पुंसउ
 सहु ण. ६ A त्रोधगभत्थि. ७ A समंचिवि. ८ AP भव्वभरह°. ९ A पउमप्पउ; P परमप्पहु
 १० AP omit the line.

14 1 a महग्गमि माघे गते; b स चित्त° चित्रासहिताया.. 2 a ति दे ह वि मुक्कु औदारिक
 तैजसकार्मणदेहत्रयविमुक्तः. 6 a सि हि द° अग्नि. 9 a प वि हा रि इन्द्रः; b सुरण्ण वि अन्येऽपि सुराः;
 अ ण्ण वि भा णु म हे ण चन्द्रादित्यतेजसा, अर्णवस्यापत्यं आर्णविश्वन्द्रः. 10 पुप्फयंतु चन्द्रसूर्यादिकः.

XLIV

अगहियअसिपासहु गयदप्पासहु पासाइयवम्महजयहु ॥
तोडियपसुपासहु णविवि सुपासहु पासियपासंडियणयहु ॥ ध्रुवकं ॥

1

णिरायसं महाजसं
अमोसयं णिरंजणं
पुंरं गुंरं णिरासवं
असंगयं णिरंवरं
अमंदिरं णयालयं
मुणीसरं णिरामयं
अलं कुलेण उत्तमं
जिणाहिवेसु सत्तमं
जयाहियं जईहियं

णिरंजसं समंजसं ।
सुवच्छलं णिरंजणं ।
तवोणिहं णिरासवं ।
मयप्पमाणियंवरं ।
वियक्खणं णयालयं ।
समोसहं णिरामयं ।
सणाणएण णित्तमं ।
णमंसिऊण सत्तमं ।
भणामि तस्स ईहियं ।

5

10

वत्ता—णररयणकरंडइ धाँदइसंडइ पुव्वविदेहि पुव्वगिरिहि ॥
हिमजललवसीयहि उत्तरि सीयहि कच्छउ देसु महासरिहि ॥ १ ॥

2

तेत्थुं सत्तभूयलसउहयलहि
पाणियपरियपविमलपरिहहि

चूलाकलसलिहियंवोमयलहि ।
कोट्टट्टालयणच्चियवरिहहि ।

1 १ P महायमं. २ A पर P पुर. ३ AP तवोणिहिं. ४ A णियालयं. ५ P reads a as b and b as a. ६ A धायइ°. A उत्तरसीयहि.

2 १ P तत्थ. २ A °णिहिय°. ३ P वरिहिहि.

1 1 गयदप्पासहु गते दर्पागे यस्य, पासाइय° पात्रायितो नियन्त्रित. अथवा प्रकर्षेणास्वा-
दितोऽनुभूतः. 2 पासिय° प्रश्रित. 3 णिरायसं निर्गतरागसुखम्, रागो दोषस्तस्य निष्क्रान्तं वा
b णिरंजम परमार्थभूतम् समजसं अकुटिलम्. 4 a अमोसयं अमृपावादिनम्; णिरंजणं अपापम्;
b पुंरं महान्तम्; गुंरं हितोपदेशदायकम्. 5 a णिरासव निराज्ञान् मुनीन्वातीति निरासयस्तम्; b णिरासव
कर्माश्रवणहितम्. 6 a असंगय अपरिग्रहम्, 6 b मयप्पमाणियंवरं मयो ज्ञान तेन प्रमाणित परिच्छिन्नं
अन्तरमाकाशं येन. 7 a णयालयं पर्वतालयम्, b णयालयं सत्तप्रकारं नवप्रकारैश्च नयैर्युक्तम्. 8 a
णिरामयं रोगहितम् b समोसहं उपवर्मापथम् णिरामयं रामाहितम्. 9 a अल अतीव,
b सणाणएण त्रेवलजानेन णित्तम अज्ञानतारहितम्. 10 a सत्तम सर्वेभ्योऽतिवयेन प्रशस्तम्, b सत्तमं
सत्तम जिनात्रिपेषु सुणर्वम्. 11 a जयाहियं जगत आसमन्तादधिकं हितं वा जईहियं यतीभिरीप्सितम्.

2 1 a °सउहयलहि °सीयनलायाम् b °वोमयलहि °वोमलनायाः. 2 °णच्चियवरिहहि
नर्त्तनमयूरायाम्.

णाणावणतरुकीलियखयरिहि
महि भुंजेवि सुइरु णिव्वेइउ
धणवइणामहु णामसमाणहु
अरहंतहु सिरिणंदणसामिहि
एयारह अंगइं अवगाहिवि
पावपडलपसरणु आउंचिवि
दीहु कालु तवु तिव्वु तवेप्पिणु
पाणिंदियसंजमु अविराहिवि
चउविहु पच्चक्खाणु लएप्पिणु

णांदिसेणु पंहु खेमाणयरिहि ।
लच्छिभारु णियतणयहु ढोइउ ।
णरवम्मीसहु विक्कुंसुमवाणहु । 5
पासि लइउ वउ सिवपयगामिहि ।
अप्पउं सीलगुणेहि पसाहिवि ।
तित्थयरत्तु पुण्णु संसंचिवि ।
हियवउ जिणकमकमलि थवेप्पिणु ।
आराहंणभयवइ आराहिवि । 10
णांदिसेणु मुणिणाहु मरेप्पिणु ।

वत्ता—मज्झिमगेवज्जहि संभवसेज्जहि चंदकुंदसंणिहंरुइरु ॥

भट्टामरमंदिरि णयणाणांदिरि संजायउ अहिमिंदु सुरु ॥ २ ॥

3

दुरयाणितणु लोयणइं अणिद्वइं
तेत्तिएहि सो वरिससहासहि
अक्खिउ भिक्खुवरेहि जियक्खहि
काले तं तहु आउ विणिट्ठिउ
उहुमासाउसु थक्कउ जइयहुं
जंबुदीवि बहुदीवणिवांसइ
सरयसलिलहरससहरसियगिहि
परमारिसरिसहणव्रजयउ
तासु अत्थि पृथं प्राणपियारी
ताहं विहि मि होसइ तित्थंकरु
ताहं विहि मि करि तुहु जं जोग्गउ
ता जक्खे तं तेम समारिउ

आउ वि सत्तावीससमुद्वइं ।
भुंजइ अणु णियमणाविण्णासहिं ।
णीससइ जि तेत्तियहि जि पक्खहि ।
काले तिहुयणि कि पि ण संठिउ ।
अक्खइ सुरवइ धणयहु तइयहुं । 5
भारहवरिसइ कासीदेसइ ।
वाणारसिपुरि सुरंपुरसांणहि ।
सुपइट्ठउ णामे महिरायउ ।
पुहइसेण णामेण भडारी ।
देवदेउ जिणु पावखयंकरु । 10
पट्टणु भवणु भोयसुहुं चंगउं ।
रयणविचित्तु णयरु वित्थारिउ ।

४ P णिव्वेइयउ. ५ AP विक्कमठाणहु. ६ P अरिहतहु. ७ A अउंचिवि. ८ A तित्थयरत्त पुणु, P तित्थयरत्तु गोत्तु. ९ P आराहणा. १० AP °सणिहु. ११ P अहिमिंदु.

3 AP अणिद्वइ. २ P तेत्तियहि जि सु. ३ A छम्मासाउसु. ४ AP °दीवणिवेसइ. ५ A सुरपुरि°, ६ A °सुरिसह णयजायउ. ७ AP पिय पाण°. ८ A भोयभवणु सुहुं.

5 a णा म स मा ण हु अन्वर्थनाम्न . 8 a आ उं चि वि सकोच्य, b सं स चि वि सम्यक्प्रकारेण सचित्य. 12 स भ व से ज्ज हि उत्पत्तिशिलासंपुटे.

3 1 a अ णि द्व इ निद्रारहितानि. 2 b अ णु स्तो क म्, णि य म ण वि ण्णा स हि संकल्पप्रवृत्ति-विशेषैः. 3 a जि य क्ख हि जितेन्द्रियैः. 5 a उहुमासो षण्मासा . 8 a परमारिसरिसहणवो परमर्षिवृषभान्वये.

यत्ता—तुंगियहि विरामइ पच्छिमजामइ बालमराललीलगइइ ॥
मणिमंचइ सुत्तिइ ढंकियणेत्तइ दीसइ सिविणावलि सइइ ॥३॥

4

दीसइ पीणपाणि सुरपूणउ
दीसइ भंगुरु णहरुक्केरउ
दीसइ दिग्गयवरसिंचिय चल
दीसइ जोउसु जोण्हावासउ
दीसइ पाठीणहं मिहुणुल्लउ
दीसइ वियसिउ वंभहरायरु
दीसइ पीदु सीहरुवालउ
दीसइ गेयमुहलु विसहरघरु
दीसइ जायवेउ जालाहरु

दीसइ सरु मुयंतु उच्छाणउ ।
कंठीरुवु करिकुंभविसारउ ।
दीसइ सुसुमणंमाल सपरिमल ।
दीसइ उग्गंमंतु णहि पूसउ ।
दीसइ ससलिलु कुडंजुयलुल्लउ । 5
दीसइ सरिवइ सरयरभीयरु ।
दीसइ घंटारुवु तियसालउ ।
दीसइ रयणरासि पसरियकरु ।
इय जोइवि जाइवि रायहु घरु ।

यत्ता—जं जिह मणलालिउं णिसिहि णिहालिउं तं तिह दइयहु भांसियउं ॥ 10
तेण वि तहि तुट्टे पत्थिवजेट्टे सिविणयफलु उवएसियउं ॥ ४ ॥

5

होही सुंदरि तुह सुउ तेहउ
जासु कित्ति लोयंतु पधावइ
चारहपक्ख जांव ससिवासहु
सोच्चठाण गहयण सुहदिट्ठिहि
वहंतेण विसाहारिक्खे
गयरुवे विम्हावियसिट्ठिहि
घरु आवेप्पिणु खणि सुत्तामं
गउ देवाहिउ देवावासहु

को वि ण दीसइ जंगि जं जेहउ ।
णाणु अलोयंतु वि दरिसावइ ।
भूरिचंदु णिवडिउ आयासहु ।
भइवयहु मासहु सियछट्ठिहि । 5
सुमुहुत्तेणुप्पाइयसोक्खे ।
हुउ गम्भावयारु परमेट्ठिहि ।
गुरु गुरयणु अंचिउ जसरामं ।
पय वंदवि भावे देवेसहु ।

4 १ AP सुरपूणउ, K सुरपूणउ and notes a p: पूर्णो वा पाठः. २ A सर. ३ P वियउदाहु सिविणयकंठीरउ. ४ AP सुमणसमाल. ५ A उग्गवंतु. ६ A जुयलुल्लउं. ७ A कुंभमिहुणुल्लउं. ८ P मीहत्तगल्लउ. ९ P मणलालउं. १० P भासिउं. ११ AP उवएसिउं.

5 १ A जं जंगि जेहउ, P जंगि जं जेहउ. २ AP विभाविय°. ३ A वदिवि, P वंदिय.

13 तुंगियहि रात्र्याः.

4 1 a सुरपूणउ सुरगजः; b उच्छाणउ उक्था वलीवर्दः. 3 a चल लक्ष्मी. 4 a जोउसु चन्द्र, b पूसउ सूर्य. 5 b कुडंजुयलुल्लउं कुम्भयुगलम्. 6 a वंभहरायरु कमलसरः; b सरिवइ मधुरः. 9 a जायवेउ जातवेदा. अग्निः. 10 मणलालिउं परिभावितम्. 11 °जेट्टे °प्रवानेन.

5 3 a ससिवासउ चन्द्रग्रहात्, आकाशादित्यर्थः; b भूरिचंदु सुवर्णम्. 6 a °सि ट्ठि हि जगतः. 7 a सुत्तामं इन्द्रेण; b जसरामं यशसा मनोहरेण धवलेन वा.

घत्ता—णरणाहहु केरइ हरिसजणेरइ णव मासइं तूसवियजणु ॥
जंबुण्णयधारहिं दुहमलहारहिं घरि बुद्धउ वइसर्वेणु घणु ॥५॥ 10

6

जयडिंडिमि दंडेणं समाहइ	णिव्वुइ पउमप्पहि पउमाहइ ।
सायरसमहं पमाणे लइयहं	णवसहासकोडिहिं गय जइयहं ।
कालपमाणे संखहि आयउ	तइयहुं तहिं वइसाहहु जायउ ।
पसवणु देवहु जाइ सुहासिइ	वारसिवासरि जेट्टाभूसिइ ।
सामरु सच्छरु सधउ सवारंणु	पुणु संप्राइउ सो हरिवाहणु । 5
अम्महि अवरु डिंभु संजोइवि	णिउ हरिणा जगगुरु उच्चाइवि ।
सिंचिउ सुरगिरिसिरि सुररायहि	सुहवियलियसिवणिवसंघायहिं ।
सुहतणुपासु सुपासु पकोक्किउ	सयमहु थोत्तु करंतउ संकिउ ।
पुज्जिवि वंदिवि णिउ सणिकेयहु	पहु करपंकइ णिहियउ तायहु ।
देउ पियंगुपसवसरिसप्पहु	दोधणुसयपमाणु माणावहु । 10

घत्ता—जे^१ णाहतणुत्तणु गय दिव्वत्तणु ते^२ तेत्तिय परिमाणु भणु ॥
जे तेणं समाणउं रूवपहाणउ अणणु ण दीसइ को वि जणु ॥६॥

7

खेलंतहु दरिसियासिसुलीलहु	पंचलक्ख पुव्वहं गय बालहुं ।
णाहु सुणासीरे खीरोहे	पुणु णहवियउ पुव्वुत्तपवाहे ।
रायलच्छिदेविइ अवरुंडिउ	थिउ णरवइ णयंसत्तिइ मंडिउ ।
तित्ति ण पूरइ भोयहं दिव्वहं	चउदहलक्ख जांव गय पुव्वहं ।

४ P वइसवणघणु.

6 १ P डंडेण. २ A चंदसुहासिइ. ३ A जेट्टपभूसिइ. ४ A सवाहणु. ५ AP सपाइउ. ६ P सणिकेवहु. ७ A जो णाह°. ८ A तो तेत्तिय°, P तेत्तिओ जि. ९ A जेणु समाणउ; P तं तेण समाणउ.

7 १ खेलतहु. २ P सुणासिरेहिं. ३ A णहवियउ. ४ A णिवसत्तिइ.

10 जंबुण्णय° जाम्बूनदं सुवर्णम्, घणु मेघः.

6 1 b पउमाहइ रक्तकमलामे. 3 b वइसाहहु विशाखानक्षत्रम्. 4 a पसवणु सभव. उत्पत्तिः; सुहासिइ सुधाश्रिते चन्द्रे. 7 b सिवणिव जलघटा.. 8 a सुहतणुपासु शोभने उभये तनु-पाश्वे यस्य. 10 a °पसव° पुष्पम्; b माणावहु मानापघाति. 11 °तणुत्तणु शरीरत्वम्, दिव्वतणु दिव्यस्वरूपम्.

7 2 a सुणासीरे इन्द्रेण. 3 a अवरुडिउ आलिङ्गित., b णयसत्तिइ नयशक्तिभ्याम्. 4 a तित्ति वृत्ति .

तावेक्कहिं दिणि उहुपल्लट्टउ
काले कालु वि जेण गिलिज्जइ
जांवि थांवि पावज्ज लएप्पिणु
एमं वुहाहिव तुज्जु जि छज्जइ

पेच्छिवि णाहु समग्गि पयट्टउ । 5
तेण किं ण माणुसु कवल्लिज्जइ ।
तां भणांति सुर रिसि पणवेप्पिणु ।
अण्णु ण एहंउ जग्गि पडिवज्जइ ।

यत्ता—जणु तिट्ठइ छित्तउ भमइ पमत्तउ पावइ जम्मि जम्मि मरणु ॥

पइं मुइवि भडारा तिहुयंणसारा एंव हणइ को जमकरणु ॥७॥ 10

8

पुणु पाईणंवरिहि संपत्तउ
विहिउ तेणं लहुं सिवियारोहणु
जेट्ठहु मासहु पक्खि वलक्खइ
खत्तियदहसपाहिं संजुत्तं
छट्ठुवासु करिवि कयकिरियहु
तेत्थु महिंदत्तणरराएं
तहु धरि तियंसणिघोसणिणायइं
णववरिसइं छउमत्थु हवेप्पिणु
पुणु सहेउवणि मूलि सरीसंहु
णाणावाहणवलइयपायउ

जिणु कल्लाणणहाणि अहिसित्तउ ।
दुक्खु सहेउयंकु णामे वणु ।
वारंसिदिवसि ससंभवरिक्खइ ।
लइय दिक्ख भुवणुत्तमसत्ते ।
सोमखेउपुरवरु गउ चरियहु । 5
पाराविउ णवेवि अणुराएं ।
पंचच्छेरियाइं संजायइं ।
अच्छिउ जिणु जिणकप्पु चरेप्पिणु ।
पंचमु हुयउ णाणु तिजगीसहु ।
देवलोउ णीसेसु वि आयउ । 10

यत्ता—उट्ठंतपडंतहिं पुरउ णडंतहिं णविउ णाहु पंजंलियरहि ॥

दहविहअट्ठविहहिं पुणु पंचविहहिं सोल्लहविहहिं वि सुरवरहि ॥८॥

9

पइं थुणांति रिसि अमर सविसहर
एक्खु जि फलु जइ भक्ति समुज्जल

माणुस अम्हारिस वि णिरक्खर ।
लइं पुणु हियवइ सा णउ णिम्मल ।

५ P ताम भणहि सुर. ६ A एहु. ७ A तेहउ. ८ AP जम्मजरामरणु. ९ P सुरवरसारा.

8 १ T records a *p*: दाणवारिउवह इति पाठेऽपि इन्द्रः. १ A तेहिं. २ P वारिसिदिवसि.
३ A संभवारिक्खइ, P सुसंभवारिक्खइ. ४ A गिग्घोसणिणाएं. ५ A पंचच्छरियइं ता संजायइं. ६ AP
छम्मत्थु. ७ A वहेप्पिणु. ८ P adds after this: फग्गुणि किण्हि पक्खि छट्ठियदिणि, मे विसाहिं
पच्छिमसमुहइ दिणि. ९ AP सिरिसहु. १० P अंजलिकरेहिं. ११ A ०विहहिं सुरवरहिं, P ०विहहिं
वि सुरवेहिं.

9 १ A सथुणाति. २ AP जइ.

५ A उहुपल्लट्टउ नक्षत्रपतनम्; ६ समग्गि स्वमारो रत्नत्रये. 8 a छज्जइ शोभते. 9 तिट्ठइ वृष्ण्या.
10 जमकरणु यमभृत्या रोगाश्च.

8 1 a पाईणवरिहि प्राचीनवर्हिरिन्द्रः. 3 b संभवारिक्खइ जन्मनक्षत्रे विगाखायाम्.

9 2 b सा भक्तिः.

तौ अचछउ पढंतु थुइलक्खइं
कैहउ सक्कु फणिराउ सरासइ
जइ तो किं वायइ वण्णइ जइ
देव तुहारी हयदुहवेळ्ळिहि
अट्टु वि पाडिहेर थिय जांवहिं
भासइ धम्मु भडारउ जेहउ
पालइ को वि कहिं मि जइ सूरउ

पावउ मुहवायामें दुक्खइं ।
तुह गुणरासिहि छेउ ण दीसइ ।
जलहिमाणि किं आणिज्जइ घडु । 5
भत्ति मूलु आसिद्धि सुहेळ्ळिहि ।
समवसराणि आसीणउ तांवहि ।
भासहुं सक्कइ को वि ण तेहउ ।
णासइ णिट्ठहि जणु विवरेरउ ।

घत्ता—पाणिव्ह पमेळ्ळह अलिउं म बोळ्ळह दव्वु परायउ मा हरह ॥ 10
परदार म माणह धणु परिमाणह रयणिहि भोयणु परिहरह ॥९॥

10

पंव भणिवि संबोहिय मणहर
विण्णि सहस भासिय तीसुत्तर
विण्णि लक्ख चालीससहासइं
अवर वि वीस जि सिक्खुय साहिय
णव जि सहासइं ओहिविवोहं
सय्येइं तिण्णि सहसइं पण्णारह
सोत्तसमाणसहासपमाणं
वसुसहसइं रिदुसयइं विवाइहिं
लक्खइं तिण्णि तीससहसालइं
सागारहं वि लक्खु गुणगुत्तिहि

पंचणवइ संजाया गणहर ।
अंगसपुव्वधारि तहु मुणिवर ।
चउसहसइं णवसयइं विमीसइं ।
जे णीरंजणेण णिव्वाहिय ।
सहसेयारह पंचमवोहं । 5
विक्किरियालहं रिसिहि सुहीरंहं ।
पण्णासुत्तरु सउ मणजाणहं ।
सुद्धसुरूवदेसकुलजाइहिं ।
विरयंहं णारिहिं लुंचियवालइं ।
वयंगुणियाइं ताइं तप्पत्तिहिं । 10

घत्ता—तियसेहिं असंखहिं संखतिरिक्खहिं सहुं दुच्चरियइं खंडिवि ॥
णववरिसविहीणउ जयविजयाणउ पुव्वलक्ख महि हिंडिवि^{१०} ॥१०॥

३ A तो. ४ AP कहइ. ५ AP जलहिमाणु. ६ A आसुद्धि. ७ A कहिं मि को वि. ८ AP पाणिवहु. ९ P परदार. १० P परियाणह.

10 १ A दोण्णि. २ A अंगसुपुव्वधारि, P अंगपुव्वधारिय. ३ A ओहिविमोहं. ४ P सयाइं. ५ P सुधीरह. ६ P समारण°. ७ A विरइयणारिहिं. ८ P लुंचियकुलहिं. ९ A वयगण्णियाइं. १० P मडिवि.

3 b मुहवायामें मुखकष्टेन. 6 b आसिद्धि सिद्धिपर्यन्तम्; सुहेळ्ळिहि सुखपरपरायाम्. 8 b भासहुं भाषितुम्. 9 b णिट्ठहि विवरेरउ अनुष्ठानात् विपरीतश्चारित्रज्ञान्यः.

10 4 b णीरजणेण भगवता तीर्थकरेण; णिव्वाहिय ससारनिस्तारिताः. 6 b सुहीरंहं सुधीराणाम्. 7 a सोत्तसमाणसहस नव सहस्राणि. 8 a वसु^० अष्ट^०; रिदुसयइं षट्शतानि. 9 b लुंचियवालइं लुञ्चितकेशानि.

11

महियमहिउ महमहियाणंगउ
 संमेयहु जाइवि गिरिधीरउ
 फग्गुणमासि कालंपक्खंतरि
 सूरुग्गामि बुहदेवहं देवें
 णिट्ठिउ अट्टमवसुह पदुक्कउ
 चंदणकहमेण पच्चालिय
 दिर्णणी मउडाणलजालोलिय
 वंदिवि भर्प्य पावणिण्णासउ
 णायारुढउ कहइ णयंगहं

सहुं सीसेहिं समाहिवसंगउ ।
 तीस दिर्यह थिउ मुक्कसररउ ।
 साणुराहि सुहसत्तमिवासरि ।
 णिक्किरियत्तु पत्तु विणु खेवें ।
 गउ सुपासु पासेहिं विमुक्कउ । 5
 पर्ल्लोमीसें माल्लहिं मालिय ।
 चिच्चिक्कुमारें तणु पच्चालिय ।
 णायणाहु गउ णायावासउ ।
 पवणवरुणवइसवणपयंगहं ।

घत्ता—जहि भरहजिणेसहु णाणु सुपासहु पसरइ देवहु केवलिहि ॥ 10
 तहिं वाइ ण वायउ ण तमु ण तेयउ पुष्पदंतकिरणावलिहि ॥११॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरइय
 महाभव्वभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे सुपासणिञ्जाणगमणं
 णाम चउयालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४४ ॥

॥ सुपासवरियं समत्तं ॥

11 १ AP दिवह. २ P कालि पक्खंतरि. ३ A अट्टमिवसुह. ४ AP पोलोमीसें. ५ A माल्लमालिय. ६ P मगिमउडाणलेण जालोलिय. ७ P चच्चिक्कुमारिहिं. ८ A भव्व. ९ AP पुष्पयंत°. १० A सुपासणिञ्जाण°. ११ AP omit this line.

11 a महियमहिउ वृजितं. पूजितं. महमहियाणंगउ तेजसा मथितः कामो येन. 3 a साणुराहि अनुगमानक्षत्रसहिते. 4 b णिक्किरियत्तु व्युपगन्तक्रियानिर्वर्ति चतुर्थव्यानम्; विणु खेवें श्रीमम्. 5 a णिट्ठिउ मुक्तः. 6 a पच्चालिय प्रलितः. 8 b णायणाहु स्वर्गपतिः. 9 a णायारुढउ गजारुढो देवेन्द्रः, णयंगहं नताङ्गानां विनीतानाम्.

णित्तेइयअरिवंदहु
पणविवि कुवलयचंदहु

वयणचंदजियचंदहु ॥
चंदप्पहहु जिणंदहु ॥ धुवकं ॥

1

णियंगरस्सीहिं तमं विणीयं
कयं कयत्थं किर जेण णिच्चं
अतुच्छलच्छीहलकप्पभूयं
दयावरं पालियसव्वभूयं
ण जं पियालीविरहे विसण्णं
विसुद्धभावं विगयप्पमायं
णिहीसरं जं महियंतरायं
पबुद्धदुक्कमविवायवीलं

सुयंगउत्तीहिं जयं विणीयं ।
णमंति जं देववई वि णिच्चं ।
उदारचित्तं गुणपत्तभूयं । 5
गिराहिं संबोहियरक्खभूयं ।
मुंणिं महंतं विमलं विसण्णं ।
परं परेसं परिङ्गीणमायं ।
परज्जियाणंतदुरंतरायं ।
विइण्णदुव्वाइविवायवीलं । 10

A has, at the beginning of this samdhi, the following stanza.—

वापीकूपतडागजैनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्कारितं
भव्यश्रीभरतेन सुन्दरधिया जैनं सुराणां (पुराणं) महत् ।
तत्कृत्वा प्लवमुत्तमं रविकृतिः (?) संसारवार्धेः सुखं
कोन्यत् (?) सप्तहसो (?) स्ति कस्य हृदयं तं वन्दितुं नेहते ॥ १ ॥

This stanza is not found in any other known MS. of the work.

1 १ A अरिवंदहु, P अरिविंदहु. २ A दयावरं. ३ A संबोहियसव्वभूयं; T records a *p* सव्वभूयमिति पाठे सर्वभूकं सर्वभूमिकम्. ४ P सुणीमहंतं. ५ AP परिखीण°. ६ A दुव्वायविवाय°.

1 1 *a* °अरिवंदहु °शत्रुवृन्दस्य. 3 *a* णियंगरस्सीहिं निजशरीररश्मिभिः, विणीय विना-
शितम्, *b* सुयंगउत्तीहिं शोभनद्वादशाङ्गयुक्तिभिः, *b* जयं विणीय जगद्धिनीत विनयप्रधान कृत कृतार्थं
च कृतम्. 4 *a* किर निश्चयेन, *b* देववई देवपतयः. 5 *a* कप्पभूय कल्पवृक्षं सजातम्, *b* गुणपत्त-
भूयं गुणानामेव पात्र भाजनम्. 6 *a* पालियसव्वभूय रक्षितसर्वजीवम्, *b* संबोहियरक्खभूयं संबो-
धितराक्षसभूतम्. 7 *a* पियालीविरहे प्रियसखीवल्लभभार्यावियोगे, ण विसण्ण न विपादः कृतः 7 *b*
विसण्णं विनष्टाहारमैथुनपरिग्रहसन्नम्. 8 *a* विगयप्पमाय विगतपञ्चदशप्रमादम्; *b* पर उक्कष्टम्, परस
जगत्त्वामिनम्, परिङ्गीणमाय मायारहितम्. 9 *a* णिहीसर समवसरणे ये निधयस्तेपामीश्वरम्, महियत-
रायं मथितान्तरायकर्माणम्, *b* परज्जियेत्यादि दु.खे नान्तो यस्यासौ दुरन्त पराजितोऽनन्तो दुरन्तो रागो
येन. 10 *a* °विवायवील कर्मविपाकपीडम्. *b* विइण्णदुव्वाइविवायवील विशेषेण दत्ता दुष्टवादिना
वादे व्रीडा पीडा वा येन.

सुसञ्चतञ्चंगवियारणासं
सदित्तियाभक्खरमावहारं
पुरंदरालोयणजोगगत्तं
णिवारियप्पव्वहसेलपायं
खणिंदेविंदमुणिंदधेयं
भणामि तस्सेव पुणो पुराणं
घत्ता—अमलइ अत्थरसालइ
अट्टमु जिणवरु पुज्जमि

अणंगसिंगारवियारणासं ।
भवोहसंभूइभयावहारं ।
समुज्झियाहम्मदुपंकगत्तं ।
फणिंदचूडामणिर्घट्टुपायं ।
णमामि चंदप्पहणामधेहं ।

15

त्रयणणवुप्पलमालइ ॥
पउरु पुण्णु आवज्जमि ॥ १ ॥

2

मणुत्तरोइह्लि
दीवे पसिद्धमि
जलभरियकंदरहु
सुरलोयसोहमि
धणकणसमिद्धमि
छक्खंडधराणिवइ
उद्धयरिउरेणु
सिरिकंत तहु धरिणि
सुयरहिउ णरणाहु
किं करमि काहिं चरमि
को देइ मह पुत्तु
ता भणइ सुपुरोहु
तो कुणसु सुहहेउ
धम्माणुरापण

भूमाइ सुसहिह्लि ।
पुक्खरवरद्धमि ।
पुव्विल्लमंदरहु ।
पच्छिमविदेहमि ।
देसे सुगंधमि ।
सिरिपुरवरे णिवइ ।
णामेण सिरिसेणु ।
करिवरहु णं करिणि ।
चित्तवइ थिरवाहु ।
को देउ संभरमि ।
गुणरयणसंजुत्तु ।
जइ महसि सुयलाहु ।
जिणणाहअहिसेउ ।
तं सुणिवि राएण ।

5

10

७ AT °माविहारं ८ A °सभूइयभावहारं. ९ A पुरंदरालोयणजोगगत्तं, P पुरंदरालोयणजोगगत्तं.
१० A °विट्टुपाय. ११ AP पवरं.

2 १ AP मणुत्तरोइह्लि.

11 a सुसञ्चतञ्चंगवियारणासं सुसत्यतत्त्वस्वरूपविचारणेनोपलक्षितं आत्यं यस्य, b अणंगसिंगारवियारणासं कामशृङ्गारविनाशकम्. 12 a सदित्तियाभक्खरमावहारं त्वदीप्त्या भास्करप्रभापरागम्. b भवोहसंभूइभयावहारं संसारौवज्जन्मभयविनाशकम्. 13 a गत्तं °शरीरम्; b समुज्झियाहम्मदुपंकगत्तं समुज्झिताधर्मदुपङ्कगता येन. 14 a णिवारियप्पव्वहसेलपायं निषिद्ध आत्मवधाय परंतात्मातो येन. 15 a °वेधं °स्मरणीयम्, b °णामवेधं °नामानम्. 16 b गणेशगीयं गणधरकथितम्; पुरा पृथे णं एतन्. 17 अत्थरसालइ अर्थवत्या रसवत्त्वा च.

2 1 a मणुत्तरोइह्लि मानुषोत्तरादर्वाक. 12 b महसि वाञ्छसि.

जरमरणभयहरहं	पडिमाउ जिणवरहं ।	15
रयणेहिं रइयाउ	कलहोयमइयाउ ।	
मंतेहिं थवियाउ	खीरेहिं ण्हवियाउ ।	
संसुहं सुयंतीइ	महिरायपत्तीइ ।	
सिविणम्मि सुहईइ	छेयम्मि राईइ ।	
करि सीहु सिरि चंडुं	दिट्ठो विहांरंडुं ।	20
घत्ता—वरपुत्तासइ लइयहु	अक्खिउ जाइवि दइयहु ॥	
तेण वि तहु परियाणितं	दंसणंफलु वक्खाणितं ॥ २ ॥	

3

सज्जणगणमणपयणियपणउ	तुह सुंदरि होसइ पियतणउ ।	
कइवयदियहहि वेल्लि व लल्लिउ	लायणवहलजलविच्छुल्लिउ ।	
वउ देविहि गम्भालंकरिउं	ओलक्खवि देहंविंधु तुरिउं ।	
कंचुइहिं णरिंदहु वज्जरिउ	तहु हियवउं हरिसं विप्फुरिउं ।	
संतोसें देविहि पांसि गउ	णं वणगणियारिहि मत्तगउ ।	5
पेच्छिवि कसणाणणु थणजुयलु	पेच्छिवि मुहमंडलु दरधवल्लु ।	
सालसुयंगउ गयगईपसरु	पेच्छिवि पिय संभासिवि सुसरु ।	
णरवइ णियंमंदिरि गंपि थिउ	णवमासहिं जणियउ प्राणप्रिउ ।	
सुंउ दुल्लहु वल्लहु सज्जणहं	कुलमंडणु खंडणु दुज्जणहं ।	
णच्चिजइ गिज्जइ महुरंसरु	धंहु वज्जइ दिज्जइ धणणियरु ।	10
काणीणहुं दीणहुं दुत्थियहं	णिहविणहु किविणहु पंथियेहं ।	
घत्ता—तूररवें दिस हम्मइ	कण्णि वि पडिउं ण सुम्मइ ॥	
णारीणच्चणपेल्लिय	वसुमइ णावइ हल्लिय ॥ ३ ॥	

२ AP सुसुहं सुवंतीइ. ३ A सुसईइ. ४ P पच्छम्मि. ५ A चडु and gloss सूर्य. ६ A विहोरुडु and gloss चन्द्र. ७ A सिविणयफल.

3 १ A सज्जणगुणगणपयणियपणउ; P सज्जणजणमणपयणित पणउ. २ AP होसइ सुदरि. ३ A लल्लिय. ४ A विच्छुल्लिय. ५ P देहि विंधु. ६ A पासु. ७ A वरधवल्लु; P छुहधवल्लु. ८ A गइगय-पसरु, P गउ गयपसरु. ९ A ससरु. १० A मंदिरु. ११ AP पाणपिउ. १२ AP सो दुल्लहु. १३ P महुरयरु. १४ AP पडु. १५ P पत्थियह. P adds after this सिरिसम्मणिरुविउ णामु तसु, सुहलक्खणु जणवइ लद्धजसु. १६ A तूररवहं. १७ P वडिउ. १८ K णच्चणपडिपेल्लिय.

19 सुहईइ सुभगया. 20 b वि हा रुडु प्रभात्रहुल'.

3 1 a षणपयणियं चित्ते जनित. 3 a वउ वपु शरीरम्. 5 b वणगणियारिहि वन-करेण्वाः. 7 a सालसुयंगउ आलस्ययुक्त शरीरम्, b सुसरु सुस्वरम्. 10 b घडु वज्जइ दानसमये निविभृता घटाः संघट्टात् शब्दं कुर्वन्ति, अथवा, मध्यस्थितं धन खडखडति. 12 दिस हम्मइ दिशा ताडयते.

4

विष्णाणें सण्णाणें घडियउ
 ससिवयणहं सयणहं आवडिउ
 जणणीजणणंइं जोयंति सुहं
 ता इहउं दिहउं णउ रहिउं
 अरहंतहु संतहु आगमणु
 मयभावु गावु खणि परियलिउ
 समसरणु समवसरणंतु गउ
 जिणु वंदिवि णिंदिवि अप्पणउं
 सिरिसेणें सेण पमेल्लविय
 महियांसि णिवासि सिरिप्पहहु
 तवु गहियउं महियउं दुच्चरिउ
 एत्तहि णंदणु णंदणु जणहु
 आसादि रुदि णंदीसरइ
 उववासिउ तोसिउ सुयसुइहिं

यत्ता—अहरउहहि चत्तउ
 थिउ अत्थाणि णराहिउ

हियजणमणि णवजोव्वणि चडियउ ।
 सौ इंदु व चंदु व णहि वडिउ ।
 अच्छंति तेण सहं जांव सुहं ।
 सुइसीलें वणवालें कहिउं ।
 कयतावहु पावहु णिग्गमणु । 5
 लहुं णरवइ सुरवइ जिह चलिउ ।
 पहु विविहधउं जियमयरधउ ।
 तें पिसुणिउं णिसुणिउं तिहुयणउं ।
 सिरिसम्मइ सिरिसम्मइ थविय ।
 णियरुइगइछाइयरविरहहु । 10
 चेड्डिउं चिरु णिरु णिम्मच्छरउ ।
 पउणंतु अंतु दुक्कियरिणहु ।
 छणंससिहरि मणंहरि वासरइ ।
 सहं सदिहिहिं ससुहिहिं सुहमइहिं ।

धम्मझाणसंजुत्तउ ॥ 15
 णं णहयलि ताराहिउ ॥ ४ ॥

5

जांवच्छइ पेच्छइ जलियंदिस
 विहिविरलिय वियलिय उक्क किह

ता कामिणिचूडामणि सरिस ।
 सुहरुहसररुहमयरंदु जिह ।

4 १ P सो इंदु चंदु णं वडिउ. २ P °जणणु वि. ३ K विवहधउ. ४ A सेणय मेल्लविय.
 ५ A सिरिसम्मइ सिरिवम्मइ. ६ P reads a as b and b as a. P महिउं. ८ उव्वेडिउ चिरु
 णिम्मच्छरिउ. ९ AP छणंससरि. १० A मणहरवासरइ. ११ A सुसुहि हि सुहमइहि; P मंतिहिं
 सुहमइहि. १२ P अत्थाणेण.

5 १ A जामच्छइ. P जावच्छइ. २ A जडिय. ३ P °वियलिय विरलिय.

4 1 a सण्णाणे सम्यग्ज्ञानेन. 4 b सुइसीले सुविशीलनाम्ना. 7 a समसरणु उपशम-
 स्यान्म. 9 b सिरिसम्मइ श्रीमुखे, सिरिसम्मइ थविय श्रीशर्मपुत्रस्य समर्पिता. 10 a महियासि
 मथिता आगा वाञ्छा यत्र. 12 a णं दणु पुत्र; णं दणु वृद्धिकारी, b पउणतु प्रकुर्वाणः, 14 a सुय-
 सुइहिं श्रुत्वा श्रवणेन, b सदिहिहिं सधृतिभिः ससुहिहिं सुहृद्भिः सहितैः; सुहमइहिं शुभमतिभिः.
 16 अत्थाणि सभायाम्.

5 2 a विहिविरलिय विधौ आकारो विरलिता विक्षिप्ता, वियलिय विगलिता विनष्टा;
 उक्क उक्का; b सुहरुहसररुहमयरंदु सुधारुहश्चन्द्र. स एव सरोवरं कमलं तस्य मकरन्दः.

तं पेच्छिवि परिहँच्छिवि सयलु
णियतणयहु पणयहु लच्छिसहि
पिउगुरुहि पुरँहि थिरु लइउ वरुँ
सहरिहि सिरिसिहँरिहि हरिवि रइ
सवियप्पि कप्पि सोहम्मवारे
सिरिवहि सिरिवँहि विलुलियचमरु
एसँज्जु पुज्जु तहु अद्दुगुणु
विहवदहँ अदहँ सहस दुइ
णीसासु मासु पूरिवि मुयइ

घत्ता—तहु तहिं पंकणेत्तहु
आउ पईहु वि पयँलिउ

संचियमलु चंचलु भुवणयलु ।
अहिअल्लिय घल्लिय दिण्ण महि ।
सिरु मुंडिउं दंडिउं तेण वउ । 5
कयकलुसणास संणासगइ ।
एक्कोर्वहिसुहणिहिआउधरि ।
सिरिहरु मणहँरुं जायउ अमरु ।
सुहवत्त सत्तकरमवियतणु ।
वट्टंति जंति जइ भुत्ति तइ । 10
भावइ सेवइ काँपं जुयइ ।

कीलंतहुँ कीलंतहु ॥
कालें को वँ ण कवल्लिउ ॥ ५ ॥

6

अवर वि णररविपहवत्ति जहि
मोरयभीमोरयसंगरहु
पुव्वासइ वासइ भारहइ
णंदंतपँगांवगांवगहिरि
संपयहि पयहि णिञ्चु जि पियहि
णिव्वट्टिउ लोट्टिउ कूरमइ
तहु मंदिरिँ णंदिरि णिम्मलिणि
मुक्कमलकमलदलयणजुय

बहुजीवइ वीयँइ दीवि तहिं ।
इसुकारहु सारहु गिरिवरहु ।
सियमाणुमाणुकरभारहइ ।
इलतिलइ अलयइ विसयवरि ।
णिदुँगेज्जहि उज्जहि णयरियहि । 5
अजियंजउ दुज्जउ मणुयमइ ।
सुंदरि इंदिदिरि णं णलिणि ।
सुहँजलरहल्लि णववेल्लिभुय ।

४ P परियच्छिवि. ५ A पुरहि, P गुरुहि. ६ A वउ; P तउ. ७ AP सुरसिहरिहे. ८ A जुमोवहिँ. ९ A सुरगिहि. १० A सिरिहरु. ११ A एसज पुज. १२ A कायवि जुवइ. १३ P सहँ अच्छर. १४ A पयडिउ. १५ A कालें को वि ण कवल्लिउ P कालें को णउ कउल्लिउ.

6 १ A अवर वि णर रवि पवहंति जहिँ, P अमर वि णरवर विहरति जहिँ. २ A दीवइ.त्रीइ. ३ A सुइकारहु. ४ AP °पगामगाम°. ५ A गिरु-गिज्जहि but णिदुगेज्जहि in margin. ६ AP अजयंजउ. ७ A णंदिरि मंदिरि. ८ A सुक्क°. ९ A सुयजलहराणि णिववेल्लिभुय, P सुहजलवहुल्लि.

4 b अ हि अ ल्लि य अहिता आत्मन इति घ ल्लि य त्यक्ता. 6 a स हरि हि सिंहयुक्ते, सि रि सि हरि हि श्रीशिखरे. 9 a एसज्जु ऐश्वर्यम्, b सुहवत्त सुखपात्रम्, °म वियं मापिता. 10 a विहवदहँ विभवैराद्राणाम्; अ दह अन्दानाम्. 13 a पईहु प्रदीर्घम्.

6 1 a णररविपहवत्ति नरा एव सूर्या तेषा प्रभाप्रवर्तन यत्र, b बहुजीवइ बहुजीवयुक्ते. 2 a मोरय भीमोरयसंगरहु मयूराणा भीष्मसर्पाणा च संग्रामो यत्र. 3 a पुव्वासइ पूर्वदिशायाम्, वासइ क्षेत्रे, b सियमाणुमाणुकरभारहइ चन्द्रादित्यकिरणसमूहहते. 4 a °पगांव° प्रकामम्, प्रचुराः, गांव ग्रामा; b इलतिलइ भूतिलकभूते, अलयइ अलकानाम्नि. 5 b णिदुगेज्जहि नृणां दुर्भाषायाम्. 8 b °रहल्लिँ लहरी, कल्लोलमाला.

तृयंसिरमणि गुणमणिणिवहखणि
सुपसुत्त पुत्तसंणिहियमइ
वत्ता—सीहु हत्थि ससि दिणयरु
सिरि वसहिंदु पमत्तउ

सरसेणाजियसेणा रमणि ।
सा सिविणयं सुविणिय णियइ सइ ।
पुण्णकलसु पंकयसरु ॥
संखुं दाहिणावत्तउ ॥ ६ ॥

7

दिट्ठउ सिट्ठउ सुहिमाणियइ
फलु विलसिउं भासिउं तेण तहि
तहि गम्भि अम्भि णं चंदमउ
उपण्णउ धण्णउ पुण्णणिहि
जं जाणिउं भाणिउं जेण जहिं
णयरिद्धिइ बुद्धिइ लक्खियउं
मायइ पियवायइ गुणसहिउं
सवियक्कउ थक्कउ तरुणिरुं
ता रायं तापं तालघणु
दुहहरु सिरिहरु जिणु सेवियउ

णियकंतहु कंतहु राणियइ ।
दिसवल्लेण विमलइ थियइ णहि ।
थियुं सिरिहरु सिरिहरु सच्चमउ ।
तरु धराणिहि अराणिहि णाइं सिहि ।
वहुंतं संतं तेण तहिं । 5
णिहिलत्थु वि सत्थु वि सिक्खियउं ।
णियणामु सधामु तासु णिहिउं ।
णवजोव्वाणि णं वणि महुसमउ ।
गंपिणु गयसोउ असोयवणु ।
भवंपासु सुदूरु विहावियउ । 10

वत्ता—चित्तइ महिपरमेसरु
कण्णहु णियउइ घुलियइं

एवंहिं धम्महु अवसरु ॥
मरणु कहंति व पलियइं ॥ ७ ॥

8

सो अजियसेणु वेणुं व धरहि
रिसिसिक्खहि दिक्खहि लग्गु किह

अहिथविउ ण्हविउ ढोइयकरहि ।
पिउ ह्यकालि केवलि हुयउ जिह ।

१० AP तियसिर^२. ११ A सविणय सिविणय; P सुविणय सिविणय. १२ AP संखु वि दाहिणवत्तउ.

7 १ सुहमाणियइ. २ A दिसिवल्लेण विमलि थियम्मि णहि; P दिसिवल्लेण विमलि थियम्मि णहि. ३ AP omit थियउ. ४ A उपण्णउ धण्णउ सच्चणिहि; P उपण्णहु धण्णहु पुण्णणिहि. ५ A तरुणियउ. ६ AP वणि णं. ७ A तालहिं तालघणु. ८ AP भवयारु. ९ A सदूरु.

8 १ A वेणु व धरहु. २ A °करहु.

9 b अजियसेणा अजितसेनानाम्नी. 10 a पुत्तसंणिहियमइ पुत्रे स्थापिता मतिर्यया, b सि विण य स्वमान्, सुविणिय निद्रायुक्ता, गियइ पद्यति.

7 a चंदमउ चन्द्रमा.. 4 b अरणिहि मन्यनकाष्ठात्. 7 b णियणामु निजनाम अजितसेन इति. 8 b महुसमउ वसन्त. 10 b विहावियउ निकटमानीतः. 12 पलियइं पलितानि.

8 1 b अहिथविउ अमित्यापित..

एत्तहि जयजत्तहि जोत्तियहु
तसियक्कु चक्कु तहु हुयउ घरि
जणजोणिहि खोणिहि साहियइं
णवणिहि मणदिहिउप्पायणइं
चउदह दहंगभोएण सहं
कयदमु अरिदमु णामे समणु
जो मण्णइ वण्णइ जिणचरिउं
घरु पत्तु पत्तु ते जोइयउ
णवपुण्णइं णवणवभावणइ
गुणवंतहं संतहं महरिसिहिं
महिंवट्टयणिकंटयवइहि

घत्ता—चक्कवट्टिसिरिल्लइ
दिट्टउ जिणु तरुणीलइ

णिक्खत्तियखत्तियसोत्तियहु ।
रुइपुंजु कंजु ण कंजैसरि ।
चंडेइं छक्खंडेइं साहियइं । 5
रयणइं चेयणइं अचेयणइं ।
घरु एंति देंति चिंतविउं लहु ।
मासोववासि धर्णरासितणु ।
जे सुत्तु सुजुत्तु समुद्धरिउ । 10
अणवज्जु भोज्जु संपाइयउ ।
ते बद्धइं णिद्धइं करुपणइ ।
आदंसियसंसियसुहदिसिहिं ।
पंचभुय तहु हुय णरवइहि ।

एवं तासु गयकालइ ॥
मणहरणामवणालइ ॥ ८ ॥

9

सुहावहं
रविप्पहं
थिरं थियं
णिवाइणा
महाणिणा
मुएवि सं
कयं तवं
णिरासयं
अदोसयं

गईवहं ।
गुणप्पहं ।
सुयं सुयं ।
सराइणा ।
पुणो तिणा । 5
रईविसं ।
गयासवं ।
अहिसयं ।
अमोसयं ।

३ P रजसरि. ४ P भोएहिं ६ A गुणरासितणु. ७ P सजुत्तु. ८ AP संपाइयउ. ९ P णवपुण्णय.
१० P कयविणइ. ११ A महिवट्टयणिकंटयवइहो, P महिवट्टयणिकंटियमहिहि. १२ A णरवइहो.
१३ P तरुलीलइ.

9 १ A omits अहिसयं.

3 a जयजत्तहि विजययात्रायाम्. 4 b कंजसरि कमलसरसि. 7 a दहगभोएण सरत्ता निधयो
देव्यः पुरं शय्यासने चम् । भोजनं भाजनं नाद्यं भोगस्तस्य दशाङ्गकः. 8 b धणरासि तणु धनराशिः
तृणवद् यस्य. 10 a पत्तु पात्रम्, 13 a वट्टय भागः.

9 1 a सुहावहं सुखप्रापकम्; b गईवहं चतुर्गतिविनाशकम्. २ a रविप्पहं आदित्यतुल्य-
तेजसम्; b गुणप्पहं गुणानां मार्गभूतम्. 3 b सुयं सुयं श्रुत श्रुतमाकर्णितम्. 4 a णिवाइणा नृप-
भास्करेण, निश्चितवादिना वा, b सराइणा धर्मानुरागयुक्तेन. 5 a महाणिणा चक्रवर्तिना. 6 a मुएवि
मुक्त्वा, सं श सुखम्, b रईविस रतिविषम्.

अरोसयं	अतोसयं ।	10
विहट्टियं	पलोट्टियं ।	
चैलं खलं	मणोमलं ।	
मँओ मुणी	हुँओ गुणी ।	
अणप्पए	सुकप्पए ।	
वुहत्थुए	सँ अच्चुए ।	15
विहंकरे	सुहंकरे ।	
समाणए	विमाणए ।	
घत्ता—आउमाणु ह्यणिद्दं	तहु चावीससमुद्दं ॥	
तेत्तियवाससहासहिं	भुंजइ मणविण्णासहिं ॥ ९ ॥	

10

ससेइ सो पमत्तए	दुवीसपक्खमेत्तइ ।	
सहंतकंठरेहओ	तिहत्थमेत्तदेहओ ।	
अमस्सरुमकेसओ	ससंकसुकुल्लेसओ ।	
अमोहयोहसंणिही	पँह तमप्पभावही ।	
किरीडँकोडिमंडिओ	अपाढओ वि पंडिओ ।	5
अधूविओ सुगंधओ	अण्हँयओ सिणिद्धओ ।	
सहावजायभूसणो	कणंतिकिंकिणीसणो ।	
विचित्तचारुचेलओ	ललंतफुल्लमालओ ।	
जहिं जहि विजोइओ	तहिं तहि विराइओ ।	
गुणेहिं सो अदुज्जसो	अणालसो अतामसो ।	10
मणेण चितियं जहिं	खणेण गच्छए तहि ।	
कवाडवेइअंतरे	असंखदीवसायरे ।	
कुलायलावलीवणे	रमेइ गंधमायणे ।	
जलंतरणपावए	दुइज्जयम्मि दीवए ।	

२ A सतोसयं. ३ A वल. ४ A मुओ. ५ P हओ. ६ AP सुअच्चुए.

10 १ AP पमेत्तए. २ AP अमसु°. ३ P पहुत्तमप्पहा°. ४ A किरीडिकोडि°. ५ AP अण्हाणिओ. ६ AP कणंत°.

11 a विहट्टियं अतीव घर्षितम्, b पलोट्टियं उन्मूलितम्. 14 a अणप्पए अनल्पके. 16 a विहंकरे विशिष्टप्रभाजनके. 17 a समाणए पूजासहिते.

10 1 a पमत्तए प्रकृष्टमात्रासंयुक्ते काले. 2 a सहंतकंठरेहओ गोममाना कण्ठरेखा यस्य. 3 a अमन्सरुमकेसओ म्मश्रुनेमकेन्द्ररहितः. 4 b तमप्पहावही तम.प्रभापर्यन्तमवधिज्ञानं यस्य. 5 b अपाढओ वि अपाठितोऽपि. 10 a अदुज्जसो दुर्यगोरहितः. 13 a कुलायलावलीवणे कुलपर्वतपत्तिवने. 14 a रणपावए रत्नामौ.

तहिं पि सीयतीरिणी	णिदाहडौहहारिणी ।	15
गइंदघट्टचंदणे	तडम्मि तीइ दाहिणे ।	
विलासवाससंतई	धरिति मंगलावई ।	
पुरं तहिं घरुच्चयं	विहाइ वत्थुसंचयं ।	
घत्ता—सूहउ कामसमाणउ	कणयप्पहु तहि राणउ ॥	
कणयमाल तहु गेहिणि	णं जँलहिहि जलवाहिणि ॥ १० ॥	

11

तओ सो सुवत्तो	जिणिंदस्स भत्तो ।	
चुओ देवणाहो	हुओ पोमणाहो ।	
सुओ तीई दिव्वो	अगव्वो सुभव्वो ।	
सरूवेण मारो	वलेणं समीरो ।	
पयावेण सूरु	धणेणं कुवेरो ।	5
गईए विसिदो	जुईए णिसिंदो ।	
मईए महल्लो	गुणीणं पहिल्लो ।	
रमाए सुरिदो	खमाए मुणिंदो ।	
पिऊ तुट्टुचित्तो	स पुत्तेण जुत्तो ।	
गओ रिद्धंरुक्खं	सरुद्धंक्खदक्खं ।	10
णहालग्गतालं	फलालं लयालं ।	
भमंतालिसांमं	मणोहारिणामं ।	
वणं तं पइट्ठो	सयासिद्धिणिट्ठो ।	
तहिं तेण दिट्ठो	मुणीणं वरिट्ठो ।	

घत्ता—तहु धुवसिर्वंपुरगामिहि	णरवइ सिरिहरसामिहि ॥	15
जम्मंभेवणसमभग्गउ	दिदु कमकमलँहिं लग्गउ ॥ ११ ॥	

७ AP °डाहधारिणी. ८ P गयंद°. ९ A जलणिहि.

11 १ P पउमणाहो. २ A तेए दिव्वो. ३ AP सरूवेण. ४ P रूईणं सुचदो. ५ A रिद्धि-रुक्ख. ६ A सुरो दक्खदक्ख. ७ P भमतालिमालं, P adds after this मरालीमराल, सुच्छइसामं. ८ T सिद्धणिट्ठो उच्चतमानुष्ठानः. ९ P °पुरिगामिहि. १० P जम्ममरणसम°. ११ A °कमलहो लग्गउ.

11 1 a सुवत्तो शोभनवदन.. 6 a वि सिं दो वृषभेन्द्र.; b णि सिं दो चन्द्र. 8 a रमाए ऐश्वर्येण. 9 a पिऊ पिता कनकप्रभः. 10 b सरुद्धंक्ख दक्ख रुद्राक्षेण द्राक्षालतया च सहितम्. 11 b लयालं लतायुक्तम्. 13 b सिद्धणिट्ठो श्रेष्ठमनुष्ठान यस्य. 15 सिरिहरसामिहि श्रीधरमुनेः. 16 जम्म-भ व ण स म भ ग उ संसारभ्रमणश्रमेण भग्नः.

12

णिवर्दारणि मारणि साइणिय
 लहु ढोयवि जोयवि सुयमइउ
 पडिवणुणउं सुणुणउं तेण वणु
 सोमप्पह सुप्पह तासु पुर्ये
 गिरवणु सुवणु ताहं तणउ
 ससिअक्कचक्कचंचलपयहिं
 सइं सासणि आसणि थियउ जहिं
 विण्णवि वि णंवि वि ओलगियउ
 गिगंथहु पंथहु खैणु ण चुउ
 घत्ता—सयलहं जीवहं मित्तउ
 णियदेहे वि णिरीहउ

णियतणयहु पणयहु मेइणिय ।
 कणयप्पहु दप्पहु पावइउ ।
 चलसंदणु णंदणु गउ भवणु ।
 किं अक्खमि पेक्खमि णाइं सूर्ये ।
 लद्धुण्णइ भण्णइ किं मणुँउ । 5
 दियहेहिं रहेहिं व संगयहिं ।
 पहसियमुहु तणुरुहु र्थविउ तहिं ।
 व्रँउ सिरियरु सिरिहरु मगियउ ।
 सो पोमँप्पहु रिसिणाहु हुउ ।
 हेमधूलिसमचित्तउ ॥ 10
 वणि णिवसइ मुणिसीहउ ॥ १२ ॥

13

एयारह मणहरकहियाइं
 मयदवणे तवणे तवियाइं
 उद्धोमकामविदावणउ
 तहु लीणउं झीणउ रयपसरु
 णामल्लउं भल्लउं जाणियउ
 आराहिवि साहिवि संतमइ
 अववग्गहु सग्गहु मज्झि जइ
 उच्छण्णच्छिण्णामिच्छत्तगंहि
 तिगुणियदहतजलहिआउहरि

अविहंगइं अंगइं गहियाइं ।
 तुंगइं अटुंगइं खवियाइं ।
 सुहँसीलहं सोलहहं भावणउं ।
 लइ लद्धउं वद्धउं तित्थयरु ।
 परिच्छेयहु छेयहु आणियउ । 5
 जीविउं संप्राविउं दिव्वगइ ।
 णिद्वान्णठाणसंवद्धरइ ।
 संपुण्णपुण्णफलभुत्तिवहि ।
 तइसंखपक्खणीसासयरि ।

12 १ P णिवमारणि. २ P मारणि. ३ A सइरिणिय. ४ AP पिय. ५ AP सिय. ६ A णाहतणउ. ७ P मणउ. ८ A थियउ; P णिहिउ. ९ A णविउ. १० AP वउ सिरिहरु. ११ P खणिण कउ. १२ A पोमणाहु; P पउमणाहु.

13 १ AT मणहरणहियाइं. २ P omits this foot. ३ A सील्लउ. ४ AP add after this : भावेण्णिणु सिवपहदावणउ. ५ P झीणउ लीणउ. ६ P रइपसरु. ७ AP संप्राविउ. ८ AP उच्छिण्ण. ९ A णिहे but gloss ग्रहे.

12 1 a साइ णिय शाकिनी; b पणयहु प्रणतस्य. 2 a सुयमइउ शुचिमतिः. b दप्पहु दर्पवातकः. 5 a गिरवणु नृणां रम्यः. 8 b सिरियरु श्रिया. कर्ता, सिरिहरु श्रीधरनामा जिनः.

13 1 a मणहरकहियाइं अमनस्कैः केवलमि प्रतिपादितानि. 2 a तवणे आदित्येन तपसा च. 5 b परिच्छेयहु परिच्छेदं आयुः छेदमानीतम्; छेयहु उत्तमस्य.

तेत्तीसवाससहसंतरिउ
करमेत्तु गत्तु विच्छुरियंदिसु

घत्ता—तर्हि सियंगु सुच्छायउ
जं पेक्खिवि पंहहीणी

आहारु चारु जर्हि अवयरिउ । 10
जर्हि णिहिल्लु धवल्लु जणु णं सुंजसु ।

वइजयंति सो जायउ ॥
भरह पुप्फदंताणी ॥ १३ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
महाभव्वभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे पउमणाहवइजयंतसंभवो
णाम पंचचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४५ ॥

१० AP वित्थरियदिसु. ११ A णंदजसु. १२ A पहहाणी. १३ P पंचालीसमो.

13 पहहीणी प्रभाहीना जाता, मलिना वभूव निजभर्तृकान्तिविच्छेदात्, भरह स्मरत; पुप्फदंताणी पुष्पदन्तभार्या.

तद्दु देवद्दु तेत्तीसंबुणिहिपरिमियाड पुणु णिट्टिड ॥
काले कलियेड तं तेत्तिड वि छम्मासंतु परिट्टिड ॥ ध्रुवकं ॥

1

तद्दुद्दुं सहसंच्छि सहासवाद्दु
भो जक्ख जक्ख सयदलदलक्ख
इह जंबुदीवि भरहंतरालि
धरसेणु महासेणक्खु णिवइ
सोहग्गे तिहुयणाहिययलीण
सियसरलतरलणयणाहिं कुरंगि
तद्दु पणइणि णं ससहरद्दु कंति
अद्दुमड दयासरिमहिहरिद्दु
सयणासणु भूसणु असणु वसणु

अक्खइ जक्खहु सोहम्मणाद्दु ।
परिपालियवसुहणिहाणलक्ख ।
चंदउरि पउरि धणकणजणालि । 5
जं लंघिवि उवरि ण रवि वि तवइ ।
गमणेण हंसि घोसेण वीण ।
लक्खण णामे लक्खणहरंगि ।
णं मुणिवरणाहद्दु लग्ग खंति ।
एयद्दु घरि होसइ जिणवरिंदु । 10
करि पुरवरु सुंदरं दलहि वसणु ।

घत्ता—ता भूरिचंदमड चंदउरु चंदमुहिण तं विरइयड ॥
धणदेवीभत्तारेण खणि मोत्तियरयणाहि खइयड ॥ १ ॥

2

समविडलवाहियालीणिवेसु
वियसियवणपरिमलमहमहंतु
जिणवरघरघंटाटणटणंतु
माणिककरावलजलजलंतु
ससिमणिणिज्जरजलझलझलंतु
करिचरणसंखलाखलखलंतु

अवितुद्दुहद्दुटिंटांपपसु ।
चलचंचरीयकुलगुमुगुमंतु ।
कामिणिकरकंकणखणखणंतु ।
सिहरग्गधयावलिललललंतु ।
मग्गावलग्गहारिहिलिहिलंतु । 5
रंविंयंतहुयासणधगधगंतु ।

1 १ AP कवल्लिड, २ A सहसत्ति but gloss सहस्रपाक इन्द्र, ३ A धणकयजणालि,
४ A वरसेणु, ५ AP सुदरु दलियवसणु, ६ P भूरिचदसुहचंदड, ७ A चदमुहेणं विरयड.

2 १ P समु जेत्यु वाहिं, २ टिंटापवेसु, ३ P चरणह संखला, ४ AP रविअतं.

1 2 कलियड कवल्लिनम्, 3 a सहसच्छि सहस्राक्षः, 4 a सयदलदलक्ख कमलपत्रवनेत्रे
यस्य, 5 b पउरि प्रचुरे महति, 6 a धरसेणु धृता सेना येन, 8 b लक्खण लक्षणा, 11 b दलहि
वसणु व्यसनं कष्टं नाशय, 12 भूरिचंदमड सुवर्गमयम्, 13 धणदेवीभत्तारेण कुवेरेण.

2 1 a समविडलवाहियालीणिवेसु समविस्तीर्णवाह्यालीप्रवेश; b टिंटापपसु द्यूतस्या-
नम्, 5 a ससिमणिं चन्द्रकान्तमणि, b हरिं अश्वाः, 6 b रविंयंतहुयासणं सूर्यकान्तोद्भूतः अग्निः.

बहुमंदिरमंडियैजिगिजिगंतु
गंभीरतूररवरसमसंतु
कालायरुधूवियणायरंगु

सद्वलदलतोरणचलचलंतु ।
तरुगयवसंतु णिच्चु जि वसंतु ।
णाणारंगावलिलिहियरंगु ।

वत्ता—सा सुंदरि पियमणहारिणिय सुरहियगंधं मालइ ॥ 10
सुहं सुत्त विरामि विहावरिहि सिविणयमाल णिहालइ ॥ २ ॥

3

गलियदाणचलजललवलोलिरभिगयं

पेच्छइ विसालच्छि पमत्तमयंगयं ।

इट्टुगिट्ठितणुफंसणकंटइयंगयं

वसहममलथलकमलपसाहियसिगयं ।

तिक्खणक्खणिहारियमारियकुंजरं

रत्तलित्तमुत्ताहल्लमंडियकेसरं ।

सीहयं मुहावालुयणिग्गयदाढयं

गोमिणि च दिसकुंजरसिचणरूढयं ।

इट्टुगंधसेलिधकरंवर्यकोसयं

दामजमलमलिमालासहपरिपोसयं ।

पुण्णयं विहं जामिणिकामिणिदप्पणं

उग्गयं इणं पीणियपंकइणीवणं ।

मीणमिहुणमणिहणजलकीलणलंपडं

चारुहारिकल्लाणधरं घडसंपुडं ।

हंसचंचुपुडखुडियभिसं भिसिणीहरं

सेयसलिलवेलागहिरं रयणायरं ।

कुलिसणहरकेसरिकिसोरधरियासणं

अवि य पायसासणजसस्स णं सासणं ।

५ A^०मंडण^०, ६ A समसमतु. ७ A सुरहिगंध णं मालइ, P सुरहियगंध स मालइ. ८ A सुहसुत्ति;
P सुहं सुत्त.

3 १ P^०विहारिय^०. २ P^०मुत्ताहल्लमालामंडिय^०. ३ AP मुहावालुय^०. ४ AP^०करविय^०.
५ AT घडसंघडं. ६ A^०फुडखुडिय^०.

7 a बहुमं दिर^० स्त्रीणा शयनावासः, b सद्वलदल^० सार्द्रपत्राणि. 8 a^० रसमसतु शब्दायमानम्,
b तरुगयवसंतु बहुजनाधिष्ठितम्, णिच्चु जि वसतु नित्यमेव वृक्षस्थितो वसन्त. 9 b^० रगु
प्राङ्गणप्रदेशः.

3 1^०भिगयं भ्रमरम्. 2^०मयगयं मतङ्गजम्. 3 इट्टुगिट्ठि^० वल्लभा गौ. 7 मुहावालुय^०
दीर्घम्. 8 गोमिणि लक्ष्मीम्. 9 इट्टेत्यादि इष्ट. उक्ततो गन्धो येषा तानि सेलिवपुष्पाणि तेषां करवयं
संघातः तस्य कोसयं स्थानम्. 10 अलिमालासह^० भ्रमरश्रेणिसभा. 12 इणं सूर्यम्. 13^०अणिहणं
प्रचुरम्. 14 घडसपुडं घट्युगलम्.

इंदधामंमहिबंदवइस्स णिहेलणं

रयणपुंजमरुणंसुसिहातमहालणं ।

20

झत्ति दित्तजांलासयछित्तणहंगणं

हुयवहं च सँइ पेच्छइ जालियकाणणं ।

घत्ता—इय पेक्खवि रायहु राणियइ संतोसें आहासिउ ॥

तेण वि तहु मंगलदंसणहु फलु पणइणिहि पयासिउ ॥ ३ ॥

4

सुओ देवि होही तुहं तित्थणाहो
दिही आगया देवया पंकयच्छी
णिहीसेण गेहम्मि छम्मासकालं
चइत्तस्स पक्खंतरे चंदिमिले^३
रिसी पोमणाहो च्चुओ सोहमिदो
सुंपासाहिवे णिव्वुए संगएहिं
णहाजक्खणिक्खित्तमाणिक्खएहिं
तओ पूसमासे पडंतम्मि सीए
पहूओ पहू पुण्णपाहोहमेहो
सपायालमगं सतारकसकं

असामणसंपत्तिविच्चीसणाहो ।
हिरी कंति कित्ति सिरी बुद्धि लच्छी ।
णिहित्तं सुवण्णं सुवण्णं पहालं ।
सुहोहायरे वासरे पंचमिले ।
थिओ गव्भवासे पुलोमारिवंदो । 5
समुद्दाणहो रंधकोडीसएहि ।
पउण्णेहिं मासेहि रामंकएहिं ।
सुहे सक्कजोयम्मि एयारसीए ।
जगाँणं गुरु लक्खणुप्पत्तिगेहो ।
खणे कंपियं झत्ति तेलोक्कचकं । 10

घत्ता—परतेउ ण कत्थइ विप्फुरइ अंधारउ णउ रेहइ ॥

जम्मणु उगमणु वि भुवणयलि जिणदिणणाहहं सोहइ ॥ ४ ॥

5

सहसा जायउ सुरलोयंखोहु
उच्छाहँ रक्खस किलिकिलंति

वीणारवु चल्लिउ किणरोहु ।
वहंतइं भूयइं णहि मिलंति ।

७ A इंदधामं वरउरवइणिहेलणं. ८ A °तमहारणं. ९ P °दित्तिजालं. १० A हुयवहस्स ज सा पेच्छइ, P हुयवहं च सा पेच्छइ. ११ पणइणिहो.

4 १ P असावण्णं. २ A णिहित्तं. ३ A चंदमिले, ४ A पुणोमारिवदो. ५ A सुपसाहिए. ६ P पुण्णयंभोहमेहो. ७ P जयाणं. ८ P सपायालमगं सतार ससकं.

5 १ सुरलोइ खोहु. २ A वगंतइ.

19 अ हिबंदवइस्स अहिवृन्दपने नागराजस्य. 20 °तमहालणं अन्वकारप्रक्षालनम्, 21 °छित्तं स्रष्टम्, 22 सइ सती.

4 1 b असामणसंपत्तिविच्चीसणाहो अद्वितीयल्लमीप्रवृत्तिसहित. 3 a णिहीसेण कुवेण, b सुवण्णं शोभनवर्णम्. 4 b सुहोहायरे हे सुभोगाकरे इति सन्नोधनम्. 6 a संगएहिं सम्य-गतीति. 7 b गमकएहिं गमाद्धित्तैनेवमिर्वलमर्दः. S b सक्कजोयम्मि इन्द्रयोगे ज्येष्ठायाम्. 9 a पुण्णपाहोहं पुण्यमेव पाथो जलं तस्य ओषः.

किंपुरिस के वि किं किं भणंति
 रयवंत महोरय फुफ्फुयंति
 अणिवद्धु पिसायउ लइ चवंति
 ससहररवितेपं महि ण्हवंति
 दुग्गह गहचरियइं णिक्खवंति
 णक्खत्तइं णवणक्खत्तमहिउ
 दाविय णियपंति पइण्णएहिं
 णहवडणविवरमुहणिगंमेहिं
 संगलियइं मिलियइं सुरउलाइं

सहिद्विदेव पुच्छिवि मुणंति ।
 गंधव्व गेयसरु सँइं मुयंति ।
 दसदिसइं जक्ख रयणइं धिवंति । 5
 तारउ तारत्तणु पक्खवंति ।
 जय णंद वँडु सामिय चवंति ।
 वंदहुं चलियाइं वियाररहिउ ।
 सासेहि वं चासपइण्णएहिं ।
 दिसिविदिसामग्गसमागमेहिं । 10
 भावणभाभरियइं जलथलाइं ।

घत्ता—अइरावयकुंभविइण्णकरु पत्तउ जियपरसेणहु ॥

पुरुहूयउ पुरपासहिं भमिवि धरि पइडु महसेणहु ॥ ५ ॥

6

तथो तेण छम्मेण णिच्छम्मयाए
 तडालगतारावलीमेहँलालं
 रमंतच्छराणेउरारावरम्मं
 फणिंदाणियापायरायावलित्तं
 लयामंडवासीणविज्जाहरिंदं
 दरीचंदणामोयलग्गाहिकण्णं
 गुहार्किणरीकिणरालत्तगेयं
 णिथो सुंदरं मंदरं देवदेवो
 पविच्छिण्णकुंभेहि कुंभीसगामी
 गुणुप्पण्णणेहेहि णिण्णट्टणेहो
 जिणिंदो जियारी जयंभोयमित्तो

परं डिंभयं दिण्णयं अम्मयाए ।
 ससिगप्पहापिगदिच्चक्ककूलं ।
 दिसादीसमाणुद्धजेणिंदहम्मं ।
 अदिद्वेकलंबंतंकिक्खिलित्तं ।
 तुरंगासणोसत्तकीलापुलिंदं । 5
 मँथोमत्तमायंगदंतग्गभिण्णं ।
 सपायंतणिकिक्खत्तचंदक्कतेयं ।
 तहि तेहि सो णाणणिकंपभावो ।
 तिलोयंतवासीहिं तेलोकसामी ।
 अक्कवारखीरेहि खीराहदेहो । 10
 फणिंदेहिं इंदेहिं चंदेहि सित्तो ।

३ P पुफ्फुयंति. ४ P सयं. ५ A °तेय महि, P तेयइ महि. ६ P ताराउ. ७ AP वद्ध. ८ A व वास-
 पइण्णएहिं, P व वण्णपयण्णएहिं, ९ A °णिग्गएहिं. १० A सचलियइं. ११ P °भाभारिय जल°.

6 १ P अवयाए. २ A °मेहलील, P °मेहजालं. ३ AP दिच्चक्कवाल. ४ AP °ककेहिं°. ५ A °णासत°. ६ A °लगाहिकिण्ण. ७ P मयमत्त°.

5 4 a रयवत्त सवेगा.. 6 b तारत्तणु दीप्तत्वम्. 7 a दुग्गह दुष्टाभिप्राया ग्रहा. 9 a
 पइण्णएहिं प्रकीर्णकैः, b सासेहिं धान्यैः, चासपइण्णएहिं क्षेत्रहलरेखाभा श्रेणिवद्धा तद्वत्प्रकीर्णैः.
 13 पुरुहूयउ इन्द्रः

6 1 a णिच्छम्मयाए निष्कपटाया. 2 a °मेहलालं °मेखलायुक्तम्. 3 b °जेणिंदहम्मं
 जिनालयम्. 4 a फणिंदाणिया° पद्मावती, b °किंकिक्खिलित्तं अशोकपत्रम्. 6 a °लगाहिकण्ण° लया
 अहिकन्या नागकन्या यस्मिन्. 7 b सपायतं स्वपादान्ते. 9 a कुंभीसं गजेन्द्र.. 10 b अक्कवारं समुद्र.

घत्ता—तं दुद्धु पडंतउ जिणतणुहि कंतिई पयडु ण होंतउ ॥
णं अमिउं ससंकहु वियलियउं दिट्टु महिहि धावंतउं ॥ ६ ॥

7

दिव्वं गंधं पुष्फं धूवं	वासं भूसं चरुयं दीवं ।	
दाउं सव्वं सव्वाणिट्ठं	काउं पुज्जं सत्थे दिट्ठं ।	
णाणत्तयघणपुष्फसमुद्धं	तं गाहिऊणं भयवं भद्दं ।	
तं पेच्छंता तं पणवंता	तं गायंता तं णच्चंता ।	
चंदुरं मणितोरणदारं	आया देवा रायागारं ।	5
उर्वसमवेल्लीवासारत्तं	जणणीहत्ये दाऊणं तं ।	
सोहम्मीसाणा देवेसा	पत्ता सग्गं णाणावेसा ।	
वाणासणदिव्वदुसयंतुंगो	सेयंगो णं सेयपयंगो ।	
उप्पाइयखाइयसम्मत्तो	इक्खाऊ कासवणिवगोत्तो ।	
दो लक्खा पुव्वाणं छिण्णा	पण्णासंहुसहासाउण्णा ।	10
एस तस्स तरुणत्तणकालो	पच्छा हूँओ मेइणिवालो ।	
तत्थ वि जायं देवागमणं	पारारवारवारिघडण्हवणं ।	
वइसवणाणियवसुंसंदोहे	भोए भुजंतस्स संसोहे ।	
छड्ड लक्ख पुव्वाणं झीणा	अरिहसंखपुव्वंगविलीणा ।	
घत्ता—अण्णहि दिणि दप्पणयलि वयणु जोयंतें तें दिट्ठउं ॥		15
जेणेत्यं दद्धसंसारसुहि हियउल्लउं उव्विट्ठउं ॥ ७ ॥		

8

धावेप्पिणु पंजलिहत्यण्हिं
पंचमगइसंमुहुं मउच्चुणीहिं

दूराउ पणांमियमत्थण्हिं ।
पडिसारिउ आहंडलमुणीहिं ।

८ P कंति. ९ P वियलित्तं.

7 १ AP चन्वं. २ A इट्ठं सिट्ठ, P णिट्ठं सिट्ठं. ३ A सव्वं भद्दं. ३ A °तोरणवार. ४ P तव-
सम°. ५ P सउनुगो. ६ AP पण्णासद्दसहासा. ७ AP हूयड. ८ P पारावारि वारि. ९ P °संदोहं.
१० P ससोहं. ११ A जेणित्यु दद्धु ससारसुहि.

8 १ A पणाविय°. २ A पडिवारिउ.

7 2 a सव्वाणिट्ठ सर्वेषामिष्टम्. 3 a णा ण त्तयघ णपुष्फसमुद्धं जानत्रयमेव घनपुष्पं जलं
तस्य समुद्रम्. 6 a °वा सार त्तं वर्षाऋतु.. 8 b सेयपयंगो चन्द्रः 13 b ससो हे शोभनायुक्ते. 14 b
अरिहसखं चतुर्विंशति.. 10 उ व्विट्ठउं उद्विम वैराग्यं प्राप्तम्.

8 2 a मउच्चुणी हिं मृदुध्वनिभिः, b पडिसारिउ प्रोत्साहितः.

मुहपयलमाणधारासिवेहिं
 कलाणाहरणविहूसियंगु
 वरचंदु सणंदणु णिहिउ रज्जि
 सिवकंखइ पडु सिवियहि चंडिणु
 दयविच्छिणीगरुईणिसीहि
 अणुराहाणक्खत्तावयारि
 णिल्लूरिवि मंदिरमोहंवासु
 णिक्खंतु लेवि छट्टोववासु
 तंहु को वि ण मित्तु ण को वि वेसु
 दंडग्गविलंबियचेलमयरि

अहिसिंचिउ विहु अज्जुणणिवेहिं ।
 पैरदिण्णदाणु णं वरमयंगु ।
 तहिं कालइ सुरहयविविहवज्जि । 5
 सँवत्तुवणंतरि समवइणु ।
 पूसम्मि कसणप्यारसीहि ।
 णिण्णेहत्तणु जुंजिउ सरारि ।
 लुंचिवि धल्लिउ सिरकेसंवासु ।
 सुंहुं पावइयउ रायहं सहासु । 10
 मज्झत्थु महत्थु विसुद्धलेसु ।
 अवरहि दिणि पइसइ णलिणणयरि ।

घत्ता—णंउ करयलि पत्तलि पत्तु ण वि णउ पइ णेउरघोसणु ॥

णंउ भूरिभूइ भूरकुंडियउ णउ मंसिरेहाभूसणु ॥ ८ ॥

9

हुंकारु ण मुयइ ण देहि भणइ
 परमेसरु पंचायारसारु
 जा छुहु जि भवणप्रंगणु पइहु
 कैर मउलिवि करेवि उरुत्तरीउ
 काएं वयणं सुद्धं मणेण
 दुंदुहिसरु सुरसर पुप्फविट्ठि
 तहिं चोज्जइ पंच समुग्गयाइं
 थिउ तिण्णि मास छम्मत्थु तांव

णउ सण्णइ णउ गंधवु झुणइ ।
 दक्खवइ वीर भिक्खावयारु ।
 ता सोमयत्तरापण दिहु ।
 संचिउ पुण्णं कुंरपवरवीउ ।
 आहारदाणु तहु दिण्णु तेण । 5
 घणु वरिसिउ हूई रयणविट्ठि ।
 पालंतु संतु संतइ वयाइं ।
 णायावणिरुहतलु पत्तु जांव ।

३ P परिदिण्ण°. ४ P चडतु. ५ A सपत्तु. ६ P समयवतु. ७ P मोहपासु. ८ AP सिरि केसपासु.
 ९ A सहं. १० P तहु मित्तु अमित्तु ण को वि देसु. ११ P ण वि. १२ AP णउ कुंडियउ. १३ A ससिरेहा.

9 १ A reads a as b and b as a. २ AP ° पंगणु. ३ A सोमदत्त°. ४ A करु
 मउलि करेविणु रतरिउ, P कर मउलिकरेविणु उत्तरीउ. ५ A सिंचिउ. ६ AP पुण्णकुरु.
 ७ AP वरिसिवि.

3 a ° धारा सि वे हिं धाराजलै, b अज्जु ण णि वे हिं शुभ्रकलशै. 6 b सँवत्तु वणं तरि सर्वर्तुकवने. 7 a
 द य वि च्छि णी ग रु ई णि सी हि उदकमार्गेणानीता गुर्वी निशा यस्यामेकादश्याम्, तदा काले हि समुद्रमध्यं
 प्रविश्य गच्छत्यादित्यः, तेन रात्रिर्दीर्घा, अथवा दयाविस्तीर्णा गुर्वी सर्वप्राण्यभयदानदायिका दीक्षादिनत्वात्.
 9 a णि ल्लूरि वि विध्वस्य. 14 भूरि भूइ प्रचुरमस, भुरकु डि यउ भूरकुटिला, म सि रे हा° इमश्रुराजिः.

9 4 a ऊरुत्तरीउ गरिष्ठोत्तरीयम्. 6 a सुरसर देवसाधुकारः अहो साधुदानं इत्येवरूपः.
 8 b णा या व णि रु ह त लु नागकेशरवृक्षतलम्.

फग्गुणि दिग्णि सत्तमि किण्हवक्खि
छट्टेणुववासं केवलक्खु

अवरण्हइ तहिं णिक्खवणरिक्खि ।
उप्पाइउं णाणु विवज्जियक्खु । 10

घत्ता — कल्लाणि चउत्थइ जइवइहि सुरयणु दिसहिं ण माइउ ॥

अहिरामे अहिणवभत्तिवसु अहिहुं अहीसरु आइउ ॥ ९ ॥

10

लोयालोयविलोयणणाणं सिरिणाहं
ससहरकंतं पयडियदंतं कंकालं
कडिहि रवाला किकिणिमाला झणंझणिया
मइरावाणं मिट्ठं खाणं मृगंमासं
पेयावासो रक्खसभीसो णियठाणं
एसो वेसो देवे जाणं धम्माणं हाणी
जे सरगायणवायणणच्चणलद्धरसा
कट्ठा दुट्ठा णिट्ठाणट्ठा णायचुया
संसरमाणो भवमभग्गो भुत्तदुहो
पइं ण मुणंतो पइं ण थुणंतो कयमाओ
छिदणं भिदणं कप्पणं पउलणं घयतलणं
परघरवासं परकयणासं कंखंतो
परलच्छीओ धवलच्छीओ सलहंतो
कउलवियके जोज्जिचके रइधरणी

थुणइ मियंको अक्को सक्को मुणिणाहं ।
हत्थे^१ सूलं खंडकवालं करवालं ।
पासे रामा मुद्धा सामा घणथणिया ।
दाढाचंडं कुद्धं तोंडं जणतासं ।
चित्तविचित्तं रम्मं चम्मं परिहाणं । 5
उज्जियसुत्तो हिंसाजुत्तो रयखाणी ।
वामच्छीणं रत्ता मत्ता कामवसा ।
मइमिच्छेणं मइतुच्छेणं ते वि थुया ।
भो चंदप्पह दरिसियसुप्पंह तुह विमुहो ।
आसो मेसो महिसो हंसो हं जाओ । 10
पत्तो तिरिए पुणरवि णरए णिइलणं ।
णीरसपिंडं तिलखलंखंडं भक्खंतो ।
अलहंतो णियहंतो दीणो हं होंतो ।
लोयणगामिय हा मइं रमिया परघरिणी ।

घत्ता—मइं^{१०} विप्पे होइवि आसि भवि पसु मारिवि पल्लु भुत्तउं ॥ 15

गंडयहु हंडु हरिणयहु अइणु देव पवित्तु पवुत्तउं ॥ १० ॥

८ A उप्पावउं P उप्पणउ. ९ A अहहु.

10 १ A हत्थे सडं फूलकवंडं करवालं. २ A झणिञ्जणिया. ३ A मुद्धा. ४ P मइरापाणं.
५ AP मिगमास ६ AP omit हाणी. ७ AP रयखाणं. ८ AP सुरगायण°. ९ AP तुद्धा. १० A
णिद्दाणट्ठा. ११ AP भवमय°. १२ A °सुहपव; P °सुहपह. १३ AP हसो महिसो. १४ P कयपरगासं.
१५ A °खडखंड. १६ A रइधरिणी. १७ A विप्पहु होइवि. १८ AP हडु हरिणहु अयणु.

9 b णिक्खवणरिक्खि अनुराधानक्षत्रे. 10 b विवज्जियक्खु अतीन्द्रियज्ञानम्. 12 अहिहु अमिभु
भुव लक्ष्मीकृत्य.

10 3 a रवाला शब्दायमाना. 4 a मइरावाणं मदिरापानम्. 5 a पेयावासो श्मशानम्.
6 b रयखाणी गजसां पापाना खनि. 8 b मइमिच्छेणं बुद्धिमिथ्यात्वेन. 11 b तिरिए तिर्यग्योनौ.
13 a सलहंतो इच्छन्. 14 a कउलवियके चार्वाकाणां वितर्के भेदे, रइधरणी रतीनां भूमिप्राया;
b लोयणगामिय अवलोकिता. 16 हडु अस्थि अइणु अजिनं मृगचर्म.

11

णिद्धम्महं मांसाहारियाहं
 तुहं देव ण होसि सुसामि जाहं
 महालइ गाइ वि जासु वज्झ
 पंवहि सुदयाँवर तुहं जि सरणु
 बलदेवहं अगइ देहि तिण्णि
 जे परमविराय वसंति रण्णि
 णँहु सहसइं पुणु चउरो सयाइं
 अट्टँसहसइं सावहिलोयणाहं
 ते चोईस विक्किरियागुणीहि
 घत्ता—पिंडीदुमु चमरइं दिव्वञ्जुणि कुसुमवरिसु सियच्छत्तइं ॥
 भामंडलु दुंदुहि सुरवरहिं जिणचिधाइं णिउत्तइं ॥ ११ ॥

रसलोलहं णियपरवैरियाहं ।
 अजिणु वि अजिणहं चुक्कइ ण ताहं ।
 हो हो किं वेणं तेण मज्झ ।
 तुह पायमूलि महुं होउ गरणु ।
 तहु गणहर सुँयहर सहस दोण्णि । 5
 ते तहु मुणिसिक्खुव लक्ख दोण्णि ।
 सिक्खंति सत्यु गुरुसम्मर्याइं ।
 अट्टारहसहस णिरंजणाहं ।
 वसुसहसइं मणपज्जवमुणीहिं ।

10

12

भयसहसइं छंसय विवाइयाहं
 भणु अँसीयसहासइं तिण्णि लक्ख
 सावयहं लक्ख गुत्तीसमाण
 देवहं देविहिं १ णउ छेउ अत्थि
 चउवीसहं पुव्वंगहं विहीणु
 वसुमइ विहरिवि तेणेक्कु पुव्वु
 संमेयहु सिहरु समारुहेवि
 णामइं गोत्तइं वेयणिययाइं
 कम्मइयतेयअँउयारियाइं

छलहेउजाँइकुलघाइयाहं ।
 संजमधारिणिहिं वहांति दिक्ख ।
 ते अँणुवयणारिहिं वयपमाण ।
 तेलोक्कसूरु केवलगभत्थि ।
 अण्णु वि मासहि तिहिं मुणहि झीणु ।
 संबोहिवि मणुयसमूहु भव्वु ।
 थिउ जोउ मासु पेरंतु लेवि ।
 आउट्टिदिसरिसइं लहु कयाइं ।
 तिण्णि वि अंगइं ओसारियाइं ।

घत्ता—सियपक्खहु फग्गुणसत्तमिहि परमविस्सुद्धिइ रिद्धउ ॥

10

जेट्टहि णिट्ठियंमलु वहरिसिहिं सहं चंदप्पहु सिद्धउ ॥ १२ ॥

11 १ P मसाहारि°. २ P परवेरियाह. ३ AP सुदयावर. ४ A omits portion from सुयधर down to मुणि in 6 b, K writes it in marg. ५ A दहसहसइ. ६ A adds after this, चउसहस ताह पुव्वधराह. ७ A दोसहसइ. ८ P जाणिय दहसहस. ९ P ते चउदस. १० A रिद्धसयइं सुविक्किरिया°.

12 १ A तासु, K तासु but collects it to छंसय. २ P जाउ. ३ A चर्रासीसहसइ. ४ P तेहिं अणुवय°. ५ AP देविउ. ६ AP चउवीसइ पुव्वंगहं. ७ P°अउदारियाइ. ८ A विसिद्धिइ. ९ A णिट्ठिवि.

11 2 b अजिणुवि चर्मापि, अजिणह जिनरहितानाम्. 3 a महालइ यज्ञकाले. 10 पिंडीदुमु अशोकवृक्षः.

12 1 b कुलघाइयाह केवलज्ञानिनाम्. 3 b ते लक्षा. 4 a छेउ सख्या. 6 b मुणहि जानीहि. 7 b पेरंतु पर्यन्त 8 b आउट्टिदिसरिसइ आयु स्थितिसदृशानि, यावदायुस्तावत्परिमाणानि. 9 a °अउयारियाइं °औदारिकाणि.

णाहस्स णिव्वाणि	पंचमइ कल्लाणि ।	
तूराइं वज्जंति	मंगलइं गिज्जंति ।	
थोत्ताइं किज्जंति	दाणाइं दिज्जंति ।	
दीणाइं सं जंति	दुरियाइं खिज्जंति ।	
चंदणइं सीयलइं	सुरहियइं परिमलइं ।	5
जिणतणुहि घिप्पंति	घुसिणेण सिप्पंति ।	
अग्गिद पणमंति	मउंडोह दिप्पंति ।	
दीवोह दिज्जंति ।		
धूवोहधूमेण	णाणाविहोएणं ।	
महुयररविल्लाइं	पंजलिहिं फुल्लाइं ।	
घल्लंति देविंद	वण्णंति णाइंद ।	10
जीहासहासेहि	विब्भमविलासेहिं ।	
देवीउ णच्चंति	सिद्धं समच्चंति ।	
णंविज्जण तं तित्थु	सो सयल्लु सुरसत्थु ।	
जिहं गुणकहाकारि	पत्तो पुलोमारि ।	
सग्गं सलीलेण	करिणः मयालेण ।	15
संसिकंतिदंतेण	धीरं रसंतेण ।	

घत्ता—इयं भरहखेत्तणंरयदियहु जगचंदुज्जयचंदहु ॥

किं पुष्पचंतु हउं जड करमि चंदप्पहहु जिणिंदहु ॥ १३ ॥

इय महापुराणे तिसाट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरइए
महाभव्वभरहाणुमणिणए महाकव्वे चंदप्पहणिव्वाणगमणं
णाम छायालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४६ ॥

॥ चंदर्पहचरियं समत्तं ॥

13 १ A णाणस्स णिव्वाण. २ AP सज्जंति. ३ A वंदणइं. ४ A सुरहीअइंधणइ, P सुर-
हियइ इंधणइ. ५ A खोणियहि घिप्पति. ६ AP लिप्पति. ७ A मुणि हुववह देंति; P मणिहुयवहं देंति.
८ AP omit दीवोह दिज्जंति. ९ A धूमोहणीलाउ. १० AP णिग्गति जालाउ. ११ AP add
after this: णिरसियअणगाइ, डज्जति अंगाइं. १२ AP णमिज्जण तं तेत्थु. १३ AP जिण°. १४ A
ससिकनदतेण. १५ A वीर. १६ A इह. १७ AP भरहखेत्ति णर°. १८ किम. १९ AP omit
this line.

13 4 a सं जंति शं सुखं यान्ति. S b णा णा वि हो ए ण नानाविशिष्टभोगेन. 9 a महुयर-
रविल्लाइं भ्रमरशब्दयुक्तानि. 10 a ससिकंतिदंतेण चन्द्रकान्तिवद्दन्तेन. 17 जगचंदुज्जयचंदहु
जगदेव चंदुजयं कुमुदं तस्य चन्द्र. 18 किं त्तोत्रम्, अथवा जड. पुष्पदन्तकवि. किं करोमि.

सुविहिं सुविहिपयासणं सयमहवंदियसासणं ॥
भुवणणलिणवणदिणयरं वंदे^२ णवमं जिणवरं ॥ धुवकं ॥

1

णहाँखित्तारं	सवण्णेण तारं ।	
सुहामोयसासं	सया जस्स सासं ।	
पदिट्ठं दिसासुं	रिसि रक्खियासुं ।	5
अरीणं अगम्मं	पमोच्चूण गं मं ।	
हयं जेण कम्मं	जगे जस्स कम्मं ।	
गयासाविहाणं	णिहाणं विहाणं ।	
सुरिंदिधिरो	सभत्ताण धीरो ।	
पयोहीगहीरो	अकंतंगहीरो ।	10
दिहीगाइगोवो	अमोहो विगोवो ।	
सकारुणभावो	जणुग्घुड्ढभावो ।	
कुसिद्धंतवारो	सुदिट्ठंतवारो ।	
ण जो मोहभंतो	ण जम्मोहवंतो ।	
णमामो अणंतं	रईमोयणं तं ।	15

P. gives, at the beginning of this Samdhi, the stanza वरमकरोदपार^० for which see note on page 45. A and K do not give it.

1 १ PT सुविहियसासणं. २ P वंदिवि. ३ A णहुक्खित्तार. ४ A अगोवो. ५ P सुसिद्धत-पारो.

1 1 b ^०सा स णं समवसरणादिदिव्यञ्चनिः, द्वादशाङ्गश्रुत च. 3 a ण हा खि त्त तार नखैराक्षिता-स्तिरस्कृतास्तारा येन; अथवा नभसः आकाशादे क्षित्तानि पादसमीपे आनीतानि तारानक्षत्राणि येन, b सवण्णेण तार स्ववर्णेन पाण्डुरम्. 4 a सुहामोयसासं शुभामोदनिश्वासम्, b सास शोभनमास्य मुखम्. 5 b रि सिं परमर्द्धिसपन्नम्, रक्खिया सुं प्राणिनां रक्षितप्राणम्. 6 a अरीण क्रोधादिअत्रूणाम्, अगम्मं अविषयम्, b पमोच्चूण गं मं त्यक्त्वा गा भूमिं मं लक्ष्मी च. 7 b जगे जस्स कम्मं जगति यस्य धर्मोपदेशनव्यापारः. 8 a गयासाविहाण फलेच्छारहितम्, b णिहाण विहाणं धर्मोपदेशविधानम्. 9 b सभत्ताण धीरो स्वस्य भक्ताना धीरो बुद्धिदः. 10 b अकंतंगहीरो कान्तात्यक्तगरीरो हीरो महादेवः. 11 a दिही त्यादि धृतिरेव गौस्तस्या गोपो रक्षको विणुः, b विगोवो विशिष्टा गौर्वाणी ता पातीति विगोपः, अथवा विगता पराङ्मुखा गोपा राजानो वादिनो वा यस्य. 12 b ^०उग्घुड्ढभावो ^०कथितपदार्थः. 13 b सुदिट्ठंतवारो सुण्डु दृष्टो अनन्ताना स्वरूपाणा पारो येन. 14 a मोहभतो लक्ष्मीसघातभ्रान्तः; b जम्मोहवंतो जन्मौघवान्. 15 a अणंतं अविनश्वरम्. b रईमोयणं रति-मोचनम्; तं प्रसिद्धम्.

जिणं पुष्पयंतं ण हत्थेण छित्तं सया जस्स सीलं पयासेइ संतो महीदिणमारो	जिणा पुष्पयं तं । दयाधम्मछित्तं । बुहाणं सुसीलं । खणेणं इसंतो । कओ जेण मारो ।	20
घत्ता—तद्दु वरचरियविसेसयं मेल्लह मोहविडवणं	आयण्णह महिमासयं ॥ अथिरं घर घरिणी धणं ॥ १ ॥	

2

दीवि खरंसुदीवि कुसुमियतरु पुव्वविदेहि तासु मंथरगइ णवलवंगपल्लवसुरहियजलं खयरीसिहिणघुसिणरसपीयल तडवरविडविपंडियणाणाहल देहणिलोलमाणसूरउल जिणपडिमा इव सार्वयसंगिणि उत्तरि तीरिं ताहि हयखलवइ पुरि णहसिरि व भमालाकंतिहि राउ महापउमउ पउमाणणु	पुक्खराद्धि पुव्वामरमहिहरु । णीरगहिर सीयं सीयाणइ । मज्जमाणगज्जिरंवरमयंगल । गुरुतरंगघोलिरमहुलिहचल । कीलियमहिसेवंदहयणाहल । पक्खित्तुंडपविहंडियसयदल । किं वण्णिज्जइ दिव्वतरंगिणि । अत्थि भूमि णामे पुक्खलवइ । पंडु पुंडरिक्किणि घरपंतिहि । पउमविलोयणु पउममाणणु ।	5 10
घत्ता—करतरवारिवियारिया णिवडिय सूर वणंगया	जेण रिऊ संघारिया ॥ णासिवि भीरु वणं गया ॥ २ ॥	

६ A छिणं. ७ A छिणं. ८ A घरणी.

2 १ AP सीयल. २ A °जले P °जलु. ३ P °गज्जि°. ४ A °मयगले, P °मयगलु.
५ A °पलिय°. ६ AP महिसविंद°. ७ A देहिणीलोल°. ८ P °सिगिणि. ९ A उत्तरतीरे. १० A
पुंडरिगिणि.

16 b जिणा येन पुष्पय कुसुमं पानीय वा, त प्रसिद्धम्. 17 a छित्तं स्पृष्टम्; b दयाधम्म छित्तं
दयाधर्मकलितम्. 18 b बुहाणमित्यादि बुधानां सुशीलं शोभनं व्रतरक्षणं प्रकाशयति. 19 a संतो
वियमानः; b इसंतो व्राणविनाशकः. 20 a महीदिणमारो पृथ्वीवर्तिप्राणिदत्तमारणः, b मारो
कामः. 21 b महिमासयं महिम्नां माहात्म्यानां जनानि यत्र.

2 1 a खरसुदीवि सूर्यदीप्ते, b पुव्वामरमहिहरु पूर्वमेरु. 2 a सीय शीतला. 4 a
एवसंनिहिणं विद्याधरोस्तनौ. 5 b णाहल मिह्लाः. 6 a देहणिं उपलेपः कर्दमः. 7 a सार्वयसंगिणि
श्रावयुक्ता श्रापदयुक्ता च. 9 a भमालां नक्षत्रमालां. 12 वणंगया वणित्तगरीराः.

3

परियाणिय णिव अत्थाणत्थहु
आवेप्पिणु अक्खिउ वणवालें
तं णिसुणिवि सो रइयरहंतहु
वंदिउ वंदणिज्जु जो वंदहुं
जिह जिह तेणें देउ णिज्जाइउ
भिच्चलोउ दूसणु परलोयहु
णारि मारि भीसण तें दिट्ठी
पुत्तहु बालकमलदलणेत्तहु
मुक्कउं घरु बहुदुक्खहं भंडउं

एक्कहिं दिणि तहु अत्थाणत्थहु ।
नृव वणु भूसिउं तिहुवणवालें ।
वंदणहत्तिइ गउ अरहंतहु ।
इंदचंदणाइंदणरिंदहुं ।
तिह तिह सो णिव्वेउ पराइउ । 5
भोउ गणिउ सरिसउ फणिभोयहु ।
हियवइ विसयविरत्ति पइट्ठी ।
देवि धरत्ति झत्ति धणयत्तहु ।
लइयउं वउं संसारतरंडउं ।

घत्ता—सुयरंतो जिणपुंगमं
पालइ मुक्कणियंगउ

इसि प्राणिंदियसंजमं ॥
सुयएयारहअंगउ ॥ ३ ॥

10

4

णारीचितणु णं करइ दंसणु
गंधु मल्लु सरु राउप्पायणु
तं परिहरइ वच्छुं जहिं रोसहु
भाविवि भावणाउ णयजुत्तिउ
कम्म अहम्मु णियोणु णिसिद्धउं
मुउ संणासणेण जोईसरु
अट्ठाइज्जहत्थतणु सुंदरु
मुयइ सासु सुहणिहिं दहंमासहिं
ओहिणामणणेण परिक्खइ
कालें कालाणणु संपाविइ

णउ संभासणु णउ करफंसणु ।
णउ अइमत्तपाणेरसभोयणु ।
होइ सूइ माणाइयदोसहु ।
दंसणसुद्धिविणयसंपत्तिउ ।
तित्थयरत्तगोत्तु तें वद्धउं । 5
जायउ प्राणयकप्पि सुरेसरु ।
वीससमुइमाणंजीवियधरु ।
भुंजइ वीसहि वरिससहासहिं ।
धूमप्पह महि जांव णिरिक्खइ ।
थिइ छम्माससेसि तहु जीविइ । 10

3 १ AP णिव. २ AP तं णिसुणेवि रइय°. ३ A वंदणमत्तिइ. ४ P देउ तेण. ५ P धरत्ति उत्ति. ६ AP वउ. ७ A सुमरतो जिणपुंगव, P सुमरतहो जिणपुंगमं. ८ AP पाणिंदिय°.

4 १ P करइ ण. २ A °पाणु रस°. ३ P वासु. ४ A णियाणि. ५ AP पाणयकप्पि. ६ A अद्धाहियतिहत्थ°, P आहुइ जि हत्थ°. ७ P °माणु. ८ P सुहीणिहिं. ९ A दसमासहिं. १० P ओहि-
णाणमाणेण. ११ AP सपाविइ.

3 1 a अत्था णत्थहु अर्थानर्थयो, b अत्था णत्थहु आस्थानस्थितस्य. 3 a रइयरहंतहु रत्तिकरः कामः तस्य विनाशकस्य, अथवा, रचितो रहस. अन्तरायस्य अन्तो विनाशो येन. 4 a वंदहुं वृन्दानाम्. 6 b फणि भो यहु सर्पफणावत्. 9 b °तरडउ °तारकम्.

4 2 a राउप्पायणु रागोत्पादकम्. 3 b सूइ प्रसृतिरुत्तिः. 5 a णियाणु निदानशत्यम्. 7 a अट्ठाइज्ज° सार्धत्रय°.

यत्ता—दिण्णविवक्खासंकयं मुहसोहाजियपंकयं ॥
सुहलियसुहमाणियसिवं भणइ कुलिसि दविणाहिवं ॥ ४ ॥

5

जंतुदीवि रविदीवयदरिसइ
मंडुधरियपरमहिवइवंदिहि
कासवगोत्तहु गुत्तससंकहु
मुत्ताहलमंडियसुग्गीवहु
वासवकुलिसु व मज्जे खामहि
विद्धंसियदुद्धरमणसियसरु
जाहि ताहं तुहुं दुज्जण जूरहि
करि चंगउं पुरुं घरु सुहदंसणु
णिम्मिउ णर्यरु काइं वण्णिज्जइ
भाणुविंनु तहिं परु कि सीसइ

यत्ता—पयगयरंगविहंतियं
ढंकइ जत्थ बहुलिया

भरहें भुत्तइ भारहवरिसइ ।
णरभरियहि णयरिहि काकंदिहि ।
वइरिरणंगणि वज्जियसंकहु ।
इक्खाउहु रायहु सुग्गीवहु ।
जसरामहि देविहि जयरामहि । 5
होसइ देउ णवमतित्थंकरु ।
चित्तिर्य सयल मणोरह पूरहि ।
ता जक्खेण दुक्खविद्धंसणु ।
जहिं मणिकिरणविरोहें भिज्जइ ।
तेपं रथणि ण वासरु दीसइ । 10

पोमरायमणिपंतियं ॥
किं सा चंदगाहिलिया ॥ ५ ॥

6

कज्जलु णयणि दंति हरिणीलहु
दंतपंति ससियंतकरोहें
भणइ धरिणि सहियउ सरलच्छउ
जोयवि धरि मोत्तियरंगावलि
णीलउं णेतु ण णिहिउं णियच्छइ
कक्केयणकुड्डयलइ पेच्छिवि

आरूसइ किरणावलि कालहु ।
दप्पणयलि ण णियंति समोहें ।
एवहि दसण ण धोयवि णिच्छउ ।
अवर ण वंधंइ गलि हारावलि ।
मरगयदित्ति मयच्छि दुगुंछइ । 5
भुंज भुंज णियभासइ पुच्छिवि ।

5 १ P मंड°. २ A णवमु. ३ P दूरहि. ४ P तहु धरि धणय मणोरह. ५ A पुरवरु. ६ P काद णयरु. ७ A माणिक्ककिरणविहि. ८ AP °विहत्तियं.

6 १ A ससियंत°; P ससिकंत°. २ P वद्धइ. ३ A णीलणेतु ण.

11 दिण्णविवक्खासकयदत्ताविवक्खागङ्गा यस्य कुवेरस्य. 12 मुहलियं सुफलितम्. 12 कुलिसि इन्द्रः.

5 2 a मंडुधरियं वलात्कारेण हयात् वृता. 1 a °सुग्गीवहु शोभनत्रीवस्य. 5 b जसरामहि यत्रसा मनोहरायाम्. यत्रो वा गमं रमणीयं यस्या. 6 a °मणसियसरु °कामवाण. 7 a जूरहि विध्वंसय. 9 b भिज्जइ तिरक्कियते. 11 पयगयरंगविहंतियं चरणगतारागविवातिनीम्. 12 ढंकइ आच्छादयति.

6 2 b समोहें स्वभ्रान्त्या. 6 a कक्केयणकुड्डयलइ कर्केतनं नाम नीलरत्नं तन्मय्यां भित्तौ; 6 णियभासइ शिशुभाषया.

दिण्णउ मुहविवाहरतंबइ
अण्णु वि रंगंतउ सुत्तुट्टिउ
मणिमहियलगयतणु पंडिभुल्लउ
जं घरासिहराहयणहभायउ
णिच्चु जि अमुणियसंज्ञारायउ

घत्ता--तहि रयणंसुकरालइ
अम्माएवि महासइ

सिसुणा कूरकवल्लु पंडिविंबइ ।
थणइ थण्णरसगहणुकंठिउ ।
दोमायउं चितइ डिंभुल्लउ ।
कणयघडिउ पुरु पीयल्लायउ । 10
सुराहिसुसीयल्लंदाहिणवायउ ।

सोवंती सयणालइ ॥
पेच्छइ सिविणयसंतइ ॥ ६ ॥

7

णायं णाईल्लं णायारि
णाणाफुल्लं मालाजंमलं
जाययजुम्मं सिरिणिवजुम्मं
पालंतुंगयवेलावारं
पीढं चामीयरसेहीरं
दीहमऊहं रयणसमूहं

घत्ता--इय वरिसिविणयमालियं
पइणो तीए सिद्धियं

णारायणियं णरमणहारिं ।
णिसियरयं णेसरयं विमलं ।
पोमसरं पोमासियपोमं ।
पारं पंडुरपाणियफारं ।
णाइहरं णाइंदागारं । 5
णिद्धं णिद्धमं हुयवाहं ।

जयरामाइ णिहालियं ॥
तेण वि फलमुवदिद्धियं ॥ ७ ॥

8

दयाभावजुत्तो
हले होहि दीसो
परस्सोवयारी

तुमं चारुपुत्तो ।
अणीसो मुणीसो ।
जिणो णिज्जियारी ।

४ P परिबिंबइ. ५ A मणिमहियतणु णिरु पडिभुल्लउ, P मणिमहियतणु परिबिंबुल्लउ. ६ AP सुसी-
यल्ल. ७ AP रम्माए वि.

7 १ P णायल्लं. २ A ०जुवल्ल. ३ AT जलयरजुम्म. ४ AP पालंतुंगयवेलावार (P धार).
५ P णायहरं. ६ A adds after this ऊइयपंचवीयं एवह. ७ A adds after this: जालामाल-
जडियदिसोहं. ८ A वरि. ९ A सिद्धिय. १० A ०दिद्धिय.

8 १ AP तुह.

7 ७ प डि विंब इ प्रतिविम्बमुखे. 8 a सुत्तु ट्टिउ सुतोस्थितः, ७ थणइ शब्द करोति रोदिति. 9 ७
दो मा यउ द्वैमातृकम्.

7 1 a णाय गजम्; णा इल्ल वृषभम्; णा यारिं सिंहम्; ७ णारायणिय लक्ष्मीम्. ३ ७
णेसरयं सूर्यम्. ३ a जा ययजुम्मं यादो जल तस्मिन् जाताना मत्स्यानां युग्मम्; सि रि णि व जुम्म श्रीयुक्त
कुम्भद्वयम्; ७ पो मा सिय पो सं लक्ष्म्या अधिष्ठित कमल यत्र. 4 a पालतुंगयवेलावार पाल्या उद्गतो
वेलावारो वेलासमूहो यस्य समुद्रस्य, ७ पारं समुद्रम्. 5 ७ णा इ हर नाकिगृहं सुरविमानम्.

तथो तस्मि काले	महातूररोले ।	
तिलोयस्स पुजा	सई का वि लजा ।	5
मई कंति बुद्धी	सिरी संति सिद्धी ।	
ससिंगारभारा	पघोलंतहारा ।	
गुणुत्तालभावा	सकंचीकलावा ।	
तुलाकोडिपाया	विइणंगराया ।	
दिही दीहरच्छी	परा का वि लच्छी ।	10
पवण्णा णिवासं	जिणंवाह पासं ।	
कया गम्भसुद्धी	इमीहिं महिद्धी ।	
धणेसो पहिद्धो	हिरण्णं पबुद्धो ।	
रिऊमासमेरं	धेरंड समेरं ।	
अमंदो णिवंदो	बुओ प्राणइंदो ।	15
घत्ता—फगुणमासे पत्तए	पक्खे ससियरदित्तए ॥	
णवमीदियहि पवित्तए	देवं मूलणक्खत्तए ॥ ८ ॥	

9

जिणो णारिदेहे थिओ दिव्वणाणो	सुरिंदाण वंदेहिं वंदिज्जमाणो ।	
णिहीकुंभहत्था पणञ्चंति जक्खा	वरिद्धा सुवण्णं दहट्टेव पक्खा ।	
पमोत्तूण संसारवित्थारदुग्गं	पवण्णाम्मि चंदप्पहे मोक्खमग्गं ।	
समुद्दाण कोडीण सीरीसमाणं	सुसुण्णं गयं पत्तियं कालमाणं ।	
तथो मग्गसीसे णिसीसंसुसेए	पहिल्ले दिणे जायओ जायसेए ।	5
जिणिंदस्स जम्मे जियाराइवग्गो	ससक्को अलेसो वि सोहम्मसग्गो ।	
ण सामाइ खे खीणपावो महप्पो	विमाणेहिं जाणेहिं ईसाणकप्पो ।	
सणाईकुमारो स माहिदणामो	विलंबंतसोहंतमंदारदामो ।	
समं वंभणाहेण वंभुत्तरेसो	णहुद्धीणगिन्वाणसोहाविसेसो ।	
चलो चलिओ लंतवो लच्छियामो	असट्टेण काविट्टवो तुट्टिकामो ।	10

२ A तूराले. ३ A सुई कावि, P सयं कावि. ४ P जिणंवाय. ५ P सुवण्णेण बुद्धो. ६ A रसतो समेरं. ७ P णिमदो. ८ AP पाणइंदो. ९ A देड.

9 १ AP सुवण्णं. २ A सुसेओ. ३ A जायमेओ. ४ AP संमाइ. ५ P सणाईकुमारो. ६ AP विलोलंतसोहंत°.

8 4 b महानूररोले महानूर्यस्वने. 5 b लजा हिरि. 9 a तुलाकोडि° पादाङ्गुटम्. 14 a रिऊमासमेरं पण्मात्ताववि, पण्मात्तपर्यन्तमित्तरथं b समेरं उग्रमभावम्.

9 2 b वरिद्धा वृष्टाः, दहट्टेव पक्खा अष्टादशपञ्चान् नव मासान्. 4 a सीरीसमाणं बलभद्रतुल्यानां नवानाम्. 5 a णिसीसंसुसेए चन्द्रकिरणध्वजे, b जायसेए जातश्रेयसि. 7 a सामाइ अवकाशं प्राप्नोति. 10 b असट्टेण अकपटेन.

ससुक्रो महासुक्रदेवगंगामी
समुद्गाइओ आणओ प्राणइंदो
ससी वासरीसो रहुव्वद्धकेऊ
दियंतं गयाणंदभेरीणिणाया
णिवो वंदिओ तेहि काकंदिवीलो
असामण्णलायण्णभारम्मयाए
तिर्णाणी तिसुद्धो सुलेसासहावो

घत्ता—पंडुसिलोवरि ण्हाणियं
णविऊणं अरहंतयं

सयारो सहारो सहस्सारसामी ।
जगुद्धारणो आरणो अच्चुइंदो ।
बुहो अंगिरारो सणी राहु केऊ ।
पुरि प्राइया सामराणं णिहाया ।
करे ढोइओ कित्तिमो को वि वालो । 15
जणेऊण भंति^{१३} मणे अम्मयाए ।
णिओ मंदरं देवदेवेहि देवो ।

पूयाविहिसंमाणियं ॥
पुण्णदंतभयवंतयं ॥ ९ ॥

10

ते सुरवर लंघिवि गयणंतरु
जणणिहि करयलि णिहियउ जइवइ
काले जंते वड्डिउ सायरु
वड्डिउ सुकइहि कव्वालाउ व
वड्डिउ उवसमवेलिहि कंदु व
वड्डिउ धम्मदिवाडहु तेउ व
कुंदुज्जलतणु अइसयभूयउ
सिसुलीलाइ पओसियदिव्वहं
पच्छइ पत्तु पायसासणु सइं
जं चितंतउ सुरगुरु गुप्पइ
लक्खणलक्खियेवरतणुलट्टिहि

घत्ता—माणंतहु सिरियंगंइं

पुव्वहुं पुणु सविलासइं

ते लेप्पिणु पडिआया तं पुरु ।
गउ आणंदु पणच्चिवि सुरवइ ।
वड्डिउ णं सियंपक्खइ सायरु ।
वड्डिउ सुमुणिहि णाणसहाउ व ।
वड्डिउ अमयकलिहि णर्वयंदु व । 5
वड्डिउ भवमयरहरहु सेउ व ।
वाणासणसउ तुंगु पहूयउ ।
गय पण्णाससहस तहु पुव्वहं ।
उच्छउ किं सीसइ मणुएं मइं ।
तहिं महुं मइ णउ किं पि विसप्पइ । 10
पट्टवंधु जाइउ परमेट्टिहि ।

अट्टवीसपुण्णवंगइं ॥

पण्णासेव सहींसइं ॥ १० ॥

७ AP °देवक्र°. ८ AP पाणइंदो. ९ P वासरेसो. १० AP पाइया. ११ AP काकिंदिवालो. १२ P असावाण°. १३ A भती. १४ A तिणाणी तिलेसो तिसुद्धो सुहावो. १५ AP णमिऊणं. १६ AP पुण्णयंत°.

10 १ P जयवइ. २ AP सियवक्खइ. ३ A अमयकलिहि. ४ P णवचंदु व. ५ A धम्म दयादहभेउ व, P धम्मदिवायरतेउ व. ६ P अइसभूयउ. ७ P °परतणु°. ८ AP जायउ. ९ A सिरि- अंगयं. १० A °पुव्वगयं. ११ A सहसइं.

11 b स यारो शतारेन्द्र.. 13 b अ गिरा बृहस्पतिः, अरो मङ्गल.. 14 b सामराणं णिहाया दिक्पालानां समूहा .

10 3 a सा यरु लक्ष्म्याः कारकः आकरो वा. 6 a °दिवाडहु दिवा अट्टतीति दिवाटः सूर्यः सस्य. 8 a पओ सि य दि व्व हं प्रतोपितदेवानाम्. 10 b विसप्पइ प्रवर्तते.

11

तेत्यु तासु बोलीणइं जइयहुं
 तं जोइवि जिणणाहु वियक्कइ
 जणणमरणंपरिवट्टणलक्खणु
 जं जं काइं वि णयणाहिं दीसइ
 अथिरु सञ्चु भणु काहिं रइ कीरइ
 वइसाणरु इंधणतणपवणं
 भोएं इंदियतित्ति ण पूरइ
 इय चिंतंतु णाहु संभाविउ
 चारु चारु पइं जिणवर जाणिउं
 वत्ता—ता धयवीईराइयं
 पुंडरीयमालाधरं

उक्क पडंती दिट्ठी तइयहुं ।
 कालहु कलिहि ण कोइ वि चुक्कइ ।
 एउ तिजगु परिणवइ पंडिक्खणु ।
 उक्का इव तं तं खणि णासइ ।
 तो वि चित्तु विसयासइ हीरइ । 5
 ण समइ कंहु णक्खकंहुयणं ।
 वड्डइ दुट्टु तिट्टु मइ जूरइ ।
 अमरमुणीसरेहि वोळ्ळाविउ ।
 सासयवित्तिहिं हियवउ आणिउं ।
 विउलपत्तपच्छाइयं ॥
 सोहइ गयणंगणसरं ॥ ११ ॥

12

सुरवरकरयलपहयइं तूरइं
 णविउ ण्हविउ भावें तित्यंकरु
 दिव्वदुगुल्लयाइं परिहेप्पिणु
 सुमइहि रज्जु समप्पिवि राणउ
 गउ णडंतणाणाखयरामर
 तहिं मायसिरि मासि सिसिरहु भरि
 कुडिलकेस णिक्कुडिल्ले लुंचिवि
 जाइवि अमर पवरमयरालइ
 छट्टुववासु पयासु करेप्पिणु
 वत्ता—विन्थारियतवसिहिसिहं
 उल्लियरइसंकप्पयं

खीरमहण्णवि भरियइं खीरइं ।
 घणवाहें घणेण णं महिहरु ।
 परमसिद्धसंतइहि णवेप्पिणु ।
 सूरप्पहसिवियहि आसीणउ ।
 वियसियपुष्पइ पुष्पवणंतरि । 5
 सियेपाडिवइ वरुणादिसि दिणयरि ।
 वल्लिय ते तियसिंदे अंचिवि ।
 जयकारिउ विज्जाहरमालइ ।
 थिउ नृवसहसें सहुं तउ लेप्पिणु ।
 ससरीरे वि हु णिप्पेहं ॥ 10
 पडिवणं जिणकप्पयं ॥ १२ ॥

11 १ A कालहु कलि ण वि को चुक्कइ. २ A °मरणु परि°. ३ A परिक्खणु. ४ A कायमि णयणहं. ५ A °कंडमणं. ६ A बोलाविउ.

12 १ A महण्णव°. २ APT °दुगुल्लयाइं. ३ A मायसिरिमासि. P मागसिरि मासि. ४ A पडिवण, P पडिवाए. ५ P णिक्कुडिल्ले. ६ AP णिवसहसे.

11 2 b कालहु कलि हि यमेन सह युद्धात्. ३ b पडिक्खणु प्रतिक्षणम्. 7 तिट्टु नृणा, जूरइ जीयंते हीयंते. 10 धयवीईराइय ध्वजवीचीराजितम्, °पत्त वाहनानि. 11 पुंडरीयं छत्रम्.

12 2 b घणवाहें इन्द्रेण. 3 a °दुगुल्लयाइं वल्लणि, b °संतइहि श्रेण्याः. 4 a सुमइहि सुमतिनाम्. पुत्रस्य. 6 b वरुणादिनि पश्चिमदिशायाम्. 7 a णिक्कुडिल्ले निक्कपटेन. 10 णिप्पिहं नित्तरम्. 11 जिणकप्पयं जिनाचरणम्.

13

अवरहिं वासरि संतकसायउ
सइल्लणयरु मुणिमिक्खहि दुक्कउ
तहु तहि उप्पणउं अच्चेरउ
चउवरिसइं गलियइं छम्मत्थहु
कत्तियमासि विसुद्धहि वीयहि
लोयालोयपलोयणदीवउ
केवलणाणु सो जि लइ भण्णइ
जं बुद्धे सुण्णउं जि पयासिउं
जं कउले अंवरु आहासिउं
जं केविले णिक्किरिउं णिउत्तउं
जं सुरगुरुणा णत्थि पउत्तउं
तं खं देवे सुसिरु विसिद्धउ

वत्ता—एयाणेयविवाइणा
जेउं कुसुमपिसक्कयं

हासकासजंसससिसुच्छायउ ।
पुप्फमित्तरायहु घरि थक्कउ ।
पंचपयारु मणोरैहगारउ ।
णायरुक्खतलि मुणियपयत्थहु ।
दिवसक्खइ गिन्वाणपगीयहि । 5
जायउ देवहु अप्पसहावउ ।
अण्णे जीवहु कहिं परमुण्णइ ।
जं विप्पेण वंभु णिदेसिउं ।
जं सइवेण सिवत्तु समासिउं ।
णिग्गुणु णिच्चविसुद्ध अक्कत्तउं । 10
जं अणंतु अच्छइ अविहत्तउं ।
अप्पाणाउ विहिण्णउं दिट्ठउ ।

पुप्फदंतजिणजोइणा ॥
पहि णिहियं तेलोक्कयं ॥ १३ ॥

14

इंदेण जलणेण
फणिणा कुवेरेण
दसदिसिहिं आपण
थोत्तं पढंतेण
तुहुं धोयरइरेणु
तुहुं वंधु हयदप्पु
जे दुट्ठ पाविट्ठु
उम्मग्गि वट्ठंति
अलियं पयंपंति
परवहु णिहालंति

वरुणेण पवणेण ।
चंदेण सूरेण ।
सुरवरणिहाएण ।
थुउ जिणवरो तेण ।
तुहुं कामदुहधेणु ।
तुहुं माय तुहुं वप्पु ।
णिक्किट्ठु जेड धिट्ठु ।
महु मज्जु घोट्ठंति ।
कामेण कंपंति ।
पारद्धि खेलंति । 10

13 १ P °ससिजस°. २ AP सयलणयरु. ३ P मणोहर°. ४ AP कवले. ५ A संखे.
६ P अक्कत्तउं. ७ A अप्पाणाउ विभिण्णउ, P अप्पसहावे जाए. ८ AP पुप्फयंत°. ९ P पहि णीय.

14 P adds after this: जमदिसिक्कुमारेण, णेरइयभावेण. २ P जण धेट्ठ. ३ P खेळति.

13 1 a सं त क सा य उ उपशान्तकषाय.. 2 a स इ ल ण य र षैलपुरम्. 4 b मु णि य प य त्थ हु
शातपदार्थस्य. 9 a क उ ले मीमासकेन, अंवरु स्वर्गः. 11 a सुरगुरुणा चार्वाकेण. 12 नु सिरु
अन्तःशुषिरम्.

लोहेणं भज्जंति
रोसेण व्हंति
जे मासु भक्खंति
मूढा ण वंदंति
संचरइ जणुं छम्मु
वहुजणणजलसेउ

परहणु ण वज्जंति ।
खग्गाइं कहुंति ।
ते पइं ण पेक्खंति ।
णिच्चं पि णिंदंति ।
पइं मुइवि कहिं धम्मु ।
पइं मुइवि को देउ ।

15

घत्ता—मिच्छापरिणामग्गहे
णिवंडंतं ण उवेक्खियं

लग्गं घणतमदुव्वहे ॥
जगडिंभं पइं राक्खियं ॥ १४ ॥

15

समवसरणि जिणु संठिउ जाव्हिं
पण्णारहसय वज्जियसंगहं
एक्कलक्खु सहुं पंचावण्णहिं
सिक्खुयाहिं णिम्महियरईसहं
सत्तसहस केवलणाणालहं
भयसहास वयसय मणपज्जय
वईतंडियपच्चुत्तरदाइहिं
सहुं असीइसहसइं णिरवज्जहं
दोणिण लक्ख पालियघरधम्महं
अमरच्छरउलाइं गयसंखइं
इय एत्तियलोएं संजुत्तहु
महि विहरंतहु धम्मु कंहंतहु
अह्वीसपुव्वंगविहीणउ

अट्ठीसी हुय गणहर ताव्हिं ।
परमरिसिहिं जाणियपुव्वंगहं ।
सहसहिं पंचसईसंपण्णहि ।
अट्ठसहस चउसय ओहीसहं ।
तेरहसहसइं विक्किरियालहं । 5
णाणधारि दोसासय दुज्जय ।
रिदुसहसइं रिदुसयइं विवाइहिं ।
लक्खइं तिण्णिण पउत्तइं अज्जहं ।
मणुयहं मणुइहिं पंच सुसोम्महं ।
तिरियइं पुणु कहियाइं ससंखइं । 10
भुवणत्तयराईवयमित्तहु ।
पुष्पदंतदेवहु अरहंतहु ।
पुव्वहं एक्कु लक्खु तहिं झीणउं ।

घत्ता—मासमेत्तु मुणिगणजुओ
लंवियपाणि मणोहरे

फणिदेवासुरणरथुओ ॥
थिउ संमेयमहीहरे ॥ १५ ॥ 15

४ P reads a as b and b as a. ५ A जणहम्मु. P जहिं छम्मु. ६ P °दुप्पहे. ७ A णिवंडंतउ.

15 १ P adds after this: एए सुणि सजाया तावहिं, इंदचंदविसहरमणहर. २ P अट्ठा-
सास जाया गणघर. ३ AP सिक्खुवाहं. ४ AP वयतंडिय. ५ A करतहु. ६ AP पुष्पयंत°. ७ A
तरो झंणउं, P परिखीणउं. ८ A मासमेत्त°.

14 16 a बहुजणण° संमार .

15 4 a णिम्महियरईसहं मथितकंदर्पाणाम्. 11 b °रा ईव यमि त्तहु राजीवं कमलं तस्य
मिक्खस्य मूर्त्तस्य.

16

आउसमाणइं णामइं गोत्तइं	करिवि वेयणीयाइं णिहित्तइं ।	
दंडकवाडरुजगजगपूरइं	विरइवि मुक्कइं तिणिण सरीरइं ।	
तेजइओरालियकम्मइयइं	जाइं विमुक्कइं पुणु वि ण लइयइं ।	
उव्वेह्लिवि कट्टिवि आउंचिवि	जीवपएस सयलघण संचिवि ।	
चउसमयंतयालु थिउ देहइ	भद्वए सुक्कट्टुमिदियहइ ।	5
अवरणहइ सहं मुणिहिं सहासं	सिद्धउ जिणु जणजयजयघोसं ।	
पुज्जिय तणु चउविहहिं सुरिदिहिं	वंदिउ इंदपडिंदणरिंदहिं ।	
गइ देवाहिदेवि अववग्गहु	गउ सुरयणु णीसेसु वि सग्गहु ।	
घत्ता—जिह भरहस्स समीरिओ	रिसहेणंगयवयरिओ ॥	
तिह मइं तुह कहिओ इमो	पुप्फदंतजिणपुंगमो ॥ १६ ॥	10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
महाभव्वभरहाणुमणिणए महाकव्वे पुप्फदंतणिव्वाणगमणो
णाम सत्तचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४७ ॥

॥ जिणंपुप्फयंतचरियं समत्तं ॥

16 १ P णामयं. २ A दंडकवालरुजगजग°, P दंडकवाडपयरजग°. ३ P तेजोरालियअर-
कम्म°. ४ A जोयविमुक्कइं, P जाएवि मुक्कइ. ५ AP सिहि दिण्ण सिहिंदहिं. ६ P भरहो. ७ A
पुप्फयंत°. ८ P सत्तचालीसमो. ९ AP omit the line.

16 2 a °रुजग° प्रतर°. 3 a तेजेत्याट्टि तैजसौदारिककर्मणशरीराणि. 4 a उव्वेह्लिवि
एकत्रीकृत्य, कट्टिवि कर्मभ्यः शरीराच्च निक्कास्य. 5 a चउसमयंतयालु चतुसमयैः दण्डकपाटप्रतर-
लोकपूरणाः कृताः, पश्चाच्चतुर्भिः संकोचिता, एवमद्यै समयाः. 9 अंगयवयरिओ अङ्गजः काम-
स्तस्य शत्रुः.

XLVIII

आउच्छणदच्छ संच्छणियच्छियधम्मपह ॥
मुणि सेणियराय सीयलणाहहु तणिय कह ॥ ध्रुवकं ॥

1

<p>जो परिपालियतिरयणो तिक्खं वारियदुव्वहं बुहतोसो परमागमो कणयकमलकोसाहओ जो पिहियासवदारओ णासियणिच्चायारओ अमुणियवणियायल्लओ जस्स पर्हासइ जइयणो जेव तेव उग्गयगयं तं वीहच्छं पूइयं तइ वि खलं खइ तावयं एत्थ सणेहं सीसया जं दहुं सक्काणणं वियंसइ ससहरराहयं जो वणवासि वसी यलं जस्स पसाया सीयलं</p>	<p>पयजुयपाडियसुरयणो । जस्स वय परदुव्वहं । जेण कओ परमागमो । 5 अविणस्सरसिरिसाहओ । णग्गो णिग्घरदारओ । पोसियपंचायारओ । जो दयाइ अल्लओ । वसहएहिं णिज्जइ यणो । 10 धरियं जीवेणंगयं । गंधमल्लविहिपूइयं । होइ ण हो चत्तावयं । जस्स कुणंति ण सीसया । महुसमयम्मि व काणणं । 15 कमलं पिव रविभाहयं । वयणं चंदणसीयलं । हवइ णविवि तं सीयलं ।</p>
--	---

वत्ता—गुणभद्दगुणीहि जो संथुउ गुणगरुयगइ ॥

दहमउ जिणणाहु हंउं वि थुणाविं सो दिव्वजइ ॥ १ ॥ 20

1 १ AP सच्छणियच्छिय° . A °पालिय° . २ A कणयकलस° . ३ P वणियापल्लओ . ४ A पयासइ, P व भासइ . ५ A णिज्जिययणो P णिज्जइअणो . ६ A जत्थ . ७ A विहसइ . ८ AP गुण-गव्वमइ . ९ P हंउं थुणामि सो .

1 1 आउच्छणदच्छ आप्रच्छनदध; सच्छ णियच्छिय° स्वनेत्रेण अवलोकित.. 3 a °तिरयणो गानदर्शनचरित्रलक्षणानि त्रीणि रत्नानि . 4 a तिक्खं अतीव तीव्रम्; वारियदुव्वहं निपिद्ध-दुग्धम्, b वय व्रतम् . 5 a परमागमो उत्कृष्टलक्ष्म्या आगमनहेतु . 6 a °कोसाहओ °कर्णिका-सद्वनशरीरः अविणस्सरसिरिसाहओ मोक्षलक्ष्मीसाधक S a °णिच्चायारओ °नीचाचार.. 9 a °वणिवायल्लओ लीकटाक्ष., b अल्लओ आर्द्रा . 10 b वसहेहिं णिज्जइयणो वृषभैर्यथा अनः एकट नीयनं तथा जीवेन शरीर नीयते इति प्रभाषते . 11 a उग्गयगयं उद्गतरोगमङ्गम् . 12 a वीहच्छ यीभत्तम् . 13 a खइ अग्नि विनश्वरम् . 14 b सीसया लक्ष्म्या 'स्वामिन', अथवा श्रिय सीदन्ति गच्छन्ति प्राप्नुयन्तीति श्रीसदा . 16 a ससहरराहयं जगधस्य गहा शोभा यस्मिस्तादृशम् . 17 a वसी यल वसी जितेन्द्रिय . अलं अतिगयेन

2

उचुंगकोलखंडियकसेरु
 तहु पुव्वविदेहइ वहइ विमल
 खरदंडसंडदलछइयणीर
 दरिसियपयंडसोंडाललील
 जुज्झंतचहुलकरिमयरणिलय
 जलपक्खालियतंडसाहिसाह
 दाहिणइ धण्णसंछण्णसीम
 जसससिधवलियदिच्चक्खवालु
 परिहातियतिवलिइ जणियसोह
 घणथणहल कौंतलभसलसाम
 पियविडविवेढणुव्भासकाम
 णं पवरअणंगहु तणिय वेळ्ळि
 सूहव सारंगसिलिंघयच्छि
 सा सुललियंगि पंचत्तु पत्त
 अवलोयवि चितइ सामिसालु
 मुय मेरी पिय पयडीकएहि
 तोडेण्णिणु णिब्भरु णेहवासु
 अप्पणिय एह मइं भणिय काइं
 संचियणियकम्मवसंगयाइं
 एक्कं मइं जाएवउं णियाणि
 जं अच्छिवि पुणु वि विणौसभाउ

पुक्खरवरदीवइ पुव्वमेरु ।
 णइ कीलमाणकारंडजुयल ।
 डिंडीरपिंडपंहुरियतीर ।
 लोलंतथूलकल्लोलमाल ।
 परिभमियगहीरावत्तवलथ । 5
 णामेण सीय सीयल सगाह ।
 उवयंठि ताहि संठिय सुसीम ।
 तहि णयरिहि णरवइ पुहइपालु ।
 दावियरोमावलिअंकुरोहं ।
 कयपत्तावलि अहिजणियराम । 10
 कोमलिय सरस संदिण्णकाम ।
 णं तासु जि केरी हत्थभल्लि ।
 तहु वल्लह देवि वसंतलच्छि ।
 णीसासविवज्जिय पिहियणेत्त ।
 णिप्फल्लु मोहंधहुं मोहजालु । 15
 हसइ व दसणेहि णिसिक्किएहिं ।
 अकहंति दुक्क परजम्मवासु ।
 इह परियणसयणइं जाइं जाइं ।
 जाहिति एंव सव्वाइं ताइं ।
 तो वरमइ जुंजमि अरुहणाणि । 20
 तं मुच्चइ एंव भणेवि राउ ।

घत्ता—करु देति विहेय कुंभिणि व्व तोसियजणहु ॥

कुंभिणि ढोएवि चंदणणामहु णंदणहु ॥ २ ॥

2 १ A उचुंग°; P उचुंगु. २ P °तडि साहिसाह. ३ A °सच्छण्ण°. ४ A विरइयणायर-
 णरमणणिरोहु. ५ A °अंकुरोहु. ६ P °कुंतल°. ७ P कयवत्तावलि. ८ A वेढणव्भास°; P °वेहुणु°.

2 1 a °कोल° सकरः, °कसेरु °कन्द. 2 b °कारडजुयल °हसयुगुला. 3 a खरदडसंड°
 कमलवनम्. 4 a °सोंडाल° हस्ती. 6 a °तडसाहि साह °तीरस्थितवृक्षशाखा. 7 b उवयंठि उपकण्ठे
 समीपे. 9 a परिहातियतिवलिइ परिखात्रयवत् वलिरेखात्रयेण. 10 a °भसलसाम भ्रमरमनोहरा.
 11 a पियेत्यादि प्रियविटवेप्रनस्य उद्दास उत्कृष्टशोभा तस्यां काम इच्छा यस्याः. 13 a सारंगसिलिं-
 घयच्छि शिशुहरिणाक्षी. 16 a पयडीकएहिं प्रकटीकृतैर्दन्तैः, b णिसिक्किएहिं निःक्रीडितैः क्रीडा-
 रहितैर्दन्तैः. 22 विहेय वज्रवर्तिनी, कुभिणि हस्तिनी. 23 कुंभिणि पृथ्वी.

3

मुणिवरु जायउ संसारकूलि
सीउद्धरोमु गयसीहरोलि
गुल्लु सप्पि दुद्धु तेरंगु तेल्लु
पाल्लइ पारत्तिउ मेरुधीरु
उवयरणगहणि णिक्खेवणेसु
जोयइ तसथावर मग्गचरणि
तं जंपइ जेण ण पावबंधु
तवु करिवि तिव्वु णिम्मुककांसु
आराहण भयवइ संभरोवि
माणिककडयचंचइयवाहु
वावीससमुहपमाणियाउ

आणंदमहामुणिपायमूलि ।
णिवसइ गिरिवरकुहरंतरालि ।
वियडीउ ण भुंजइ जइ वैसिल्लु ।
णवकोडिविसुद्धउ वंभचेरु ।
परिहरइ दोसु रिसि भोयणेसु । 5
उच्चारखेलपस्सावकरणि ।
संजमभारालंकरियखंधु ।
वंधेप्पिणु तं तित्थयरणांसु ।
सो अवसणु कयणिरसणु मरोवि ।
संजायउ आराणि अमरणाहु । 10
तिरयणिसैरीरु वण्णेण सेउ ।

ग्रन्था—तहु पक्ख दुवीस अवहियं³ सासहु परिगणिय ॥
तइवरिससहास आहारंतरु मुणिभणिय ॥ ३ ॥

4

णिरुवमसुहसंपावणखणेण
सो कहि वि ण मेल्लइ सुकलेस
परियाणइ पेच्छइ तमपहंतु
उदुमांससेसि जीवियपमाणि
भो गुज्जय बुज्जहि भमियसरहि
मलययदुमसुरहिउ मलयदेसु

रमणीरमणु वि सारइ मणेण ।
जिणु पणवइ गेण्हइ चरणसेस ।
अट्टगुणसारु महिमा महंतु ।
आधोसइ सयमहु उडुविमाणि ।
किं वहुएं जंवूदीवभरहि । 5
जहिं णरहिं परिट्टिउ अमरवेसु ।

3 १ A सीहु व्व रोमगय^०. २ P गुडु. ३ A नेरंगु and gloss दधि, T नेरंगु दधि. ४ A रसल्ल. ५ A पारइ पारत्तउ. ६ A गहण^०. ७ P ^०पत्सवणकरणि. ८ A तित्थु णिम्मुक^०. ९ AP ^०काउं. १० AP ^०णाउ. ११ P ^०पमाणुआउ. १२ A ^०सरोर. १३ AP अविहिय.

4 १ A ^०रमण. २ AP उडुमास^०. ३ AP उडुविमाणि. ४ P जंवूदीवि भरहि. ५ AP मलयदुम^०.

3 1 a संसारकूलि संसारप्रतिकूले. 2 a सीउद्धरोमु शीतेनोर्ध्वरोमा. 3 a तेरंगु दधि, b विवडीउ विकृतय. मधुमांसमद्यनवतीतानि. 4 a पारत्तिउ परत्र प्रयोजनं यस्येति पारत्रिको मोक्षार्थी, b णवकोडिविसुद्धउ नवभेदम्. 10 a ^०चंचइयवाहु ^०अलंकृतवाहु. 11 b तिरयणिसरीरु त्रिहन्तरीरं. 12 अवहिय मर्यादा श्वासस्य.

4 1 a ^०सपावणखणेण ^०संपादनावसरे; b सारइ करोति. 3 a तमपहंतु पणनरकपर्यन्तम्. 4 b उडुविमाणि ऋतुविमाने. 5 गुज्जय गुह्यकः कुवेरः, भमियसरहि भ्रान्ताः शरभाः अष्टापदाः सरया वा यत्र.

रइकइयवकीलाकोच्छराउ
जहिं कामधेणुणिह गोहणाइं
जहिं णिच्चमेव मंगलणिणहु
रणरंगतुंगमायंगसिहु
मुहँयंदोहामियरुंदचंद
विसहरवंदारयवंदवंदु
जज्जाहि ताँव तुहुं करहि तँव

जहि कामिणीउ णं अच्छराउ ।
जहिं कप्परुक्खरिद्धइं वणाइं ।
तहिं पुरवरु णामें रायभहु ।
दढरहु णरिंदु जयजयसिरीहु । 10
महएवि तासु णामें सुणंद ।
एयहं णंदणु होसइ जिणिंदु ।
संभवइ णयँरु घरु दिव्वु जँव ।

घत्ता—ता वइसवणेण तं पट्टणु कंचणुं घडिउं ॥

मणिकिरणकरालु सगखंडु णावइ पडिउं ॥ ४ ॥

15

5

जहिं दीसइ तहिं सोवणभवनु
जहिं दीसइ तहिं हरिणीलणीलु
जहिं दीसइ तहिं मंडवुं विचित्तु
जहिं दीसइ तहिं मुत्तावलिल्लु
जहिं दीसइ तहिं कप्पूररेणु
जहिं दीसइ तहिं थियकामधेणु
जहिं दीसइ तहिं वीणारवालु
जहिं दीसइ तहिं चलचिंधचवलु
जहिं दीसइ तहिं विविहुच्छवोहु
जहिं दीसइ तहिं णच्चियमऊरु

जहिं दीसइ तहिं वर्णसुरहिपवणु ।
जहिं दीसइ तहिं वररमणिलीलुं ।
जहिं दीसइ तहिं घुसिणावलित्तु ।
जहिं दीसइ तहिं णवतोरणिल्लु ।
जहिं दीसइ तहिं गज्जियकरेणु । 5
जहिं दीसइ तहिं वज्जंतवेणु ।
जहिं दीसइ तहिं अलिउलवमालु ।
जहिं दीसइ तहिं ससियंतधवलु ।
जहिं दीसइ तहिं कयरच्छसोहु ।
जहिं दीसइ तहिं सिरिविहवफारु । 10

घत्ता—जहिं दीसइ तेत्थु पुरवरु जणमणु रावइ ॥

पिययमहि सरीरु जिह तिह चंगउं भावइ ॥ ५ ॥

६ A कप्परुक्खणिद्धइ. ७ A सुहइंदो°. ८ P ताह. ९ A णवरु. १० AP कंचणघडिउं.

5 १ AP णव°. २ P adds after this: जहिं दीसइ तहिं खेयरह कीलु, जहिं दीसइ तहिं सुरवरहिं मेलु. ३ A मडव. ४ P चलचिंधु चवलु. ५ AP सिरिविहवफारु.

7 a °को च्छराउ दक्षाः. 10 b जयजयसिरीहु जगजयश्रीवाञ्छक. 11 a °ओ हा मियं तिरस्कृतः. 14 कंचणु काञ्चनमयम्.

5 7 a °वमालु °कोलाहलः. 8 b ससियंतधवलु चन्द्रकान्तैः धवलम्. 9 a विविहुच्छवोहु विविधोत्सवसमूहः. 10 a सिरिविहवफारु श्रीविभवविस्तारः. 11 रावइ रञ्जयति.

6

तहि विजयणंदिरे
णयंगि सियणेत्तिया
णिण्ण उओयरी
गयं गलियमयजलं
विसं रसियपेसलं
करालणहभइरवं
कुसेसयणिवासिणिं
पसूयसयमालियं
विहं विहियजामिणि
झसाण जुयलं चलं
सरोरुहसरोवरं
मइंदपंवरुढयं
पुरंदरणिहेलणं
महारयणरासियं

णिवणिहेलणे सुंदरे ।
रयणमंचण सुत्तिया ।
सिविणण इमे सुंदरी ।
भमियभिगकोलाहलं ।
खरखुरग्गखयभूयलं ।
कयरवं च कंठीरवं ।
सिरिमुविंदसीमंतिणि ।
भमरपंतियाकालियं ।
खरयरं खचूडामणि ।
कुडजुयं ससंकामलं ।
मयरमंदिरं गज्जिरं ।
रयणचित्तियं पीढयं ।
भवणमुज्जलं भावणं ।
सिहिणमुखसिहुव्भासियं ।

5

10

यत्ता—इय पेच्छिवि ताए रायहु गंपि समांसियउं ॥
सिविणियंफलु तेण कंतहि कंतं भासियउं ॥ ६ ॥

15

7

जस्स छत्तत्तयं
वहइ दासित्तणं
मणिमयरकुंडलो
धिविवि णवकुवलयं
सो तुहं तणुरुहो

जस्स लोयत्तयं ।
कुणइ गुणकित्तणं ।
जस्स आहंडलो ।
णवइ कमकमलयं ।
चंडि होही सुहो ।

5

6 १ AP विजयमंदिरं. २ A छउओयरी, P तुच्छओयरी. ३ AP इमं. ४ P ०णिवासिणी. ५ A मिरि उविंद. ६ P ०सीमंतिणी. ६ AP भवरं. ७ A मयदसुरं, P मइदसिरं. ८ AP रयणणिम्मियं. ९ P समांसियं. १० AP सिविणयं.

6 2 a णयंगि नताङ्गी. 3 a णिण्ण पय्यन्ति छउओयरी क्षामोदरी. 5 a रसियपेसलं चन्देन मनोहरम्. 6 b कंठीरवं सिंहम्. 7 a कुसेसयं कमलम्. b उविंदसीमंतिणि उपेन्द्रो विष्णुस्तस्य भार्या. 9 a विहियजामिणि कृतगत्रिं निशाकर्मित्यर्थ. 10 b कुडजुयं कुम्भयुगुलम्. 11 b मयरमंदिरं समुद्रम्. 12 a मइंदपवरं मृगेन्द्रप्रधानः सिंहः. 14 b उरुसिहुव्भासियं प्रचुर-स्वाद्योद्गमितम्.

देवदेवो जिणो	खंतिपोमिणिइणो ।	
बुद्धि कंती सिरी	लाच्छि किंती हैरी ।	
गम्भसुद्धीयरी	अमरवरसुंदरी ।	
मत्तगयगामिणी	राइणो सीमिणी ।	
ताहिं संसेविया	तित्थणाहंबिया ।	10
दुक्खपक्खक्खया	हेमबुद्धी कया ।	
वित्तएणं सयं	जाव छम्मासयं ।	
आइमासंतरे	किण्हपक्खंतरे ।	
अट्टमीवासरे	रविकिरणभासुरे ।	
रिक्खए रूढए	उत्तरासाढए ।	15
माउयासंगओ	गम्भवासं गओ ।	
तत्थ जंभारिणा	वेरिसंघारिणा ।	
मण्णिऊणं पईं	पुँज्जियं दंपईं ।	
सोत्तकोडीसमे	वारिहीणं गमे ।	
णाणविद्धंसयं	पल्लचोत्थंसयं ।	20
संजंमे संमए	णट्टए धम्मए ।	
पुप्फदंतंतरे	माहमासे वरे ।	
छीणंमालंछणे	वारसिल्ले दिणे ।	
णंदेवेसुओ	विस्सजोए हुओ ।	
तांव संतोसिओ	आगओ कोसिओ ।	25
अग्गि वाऊ सँही	दंडधारोवँही ।	
रिंछवाहो परो	वारुणासामरो ।	
पोमसंखाहिवो	सूलपाणी भवो ।	
चमर वइरोयणो	भाणु मयलंछणो ।	
सयल देवा खणे	तूसमाणा मणे ।	30
आगँया तं पुरं	राइणो मंदिरं ।	

घत्ता—उच्चुंगु सुवंसु कणयच्छवि गहमालियउ ॥

जिणमेरु सुरेहिं मेरुगिरिहि संचालियउ ॥ ७ ॥

7 १ A किति. २ A कंति. ३ AP हिरो. ४ P भामिणी. ५ A कण्हपक्खंतरे. ६ AP पई. ७ AP पुज्जिओ दपई. ८ A °विद्धंसिय. ९ A सयमे. १० A छीणमालंछणे but records a *p* in second hand. झीणमयल्लण इति वा पाठः. ११ सिही. १२ A विही. १३ A वारुणो सामरो. १४ A आगयं त पुरं.

7 6 a °इणो सूर्य. 12 a वित्तएण धनदेन. 13 a आइमासंतरे चंद्रमासे. 19 b वारिहीणंगमे वारिधीनां सागरोपमाणा गमने. 20 b पल्लचोत्थसय पल्यचतुर्थीमे सर्वथा धर्मोच्छेदे सति. 23 a छीणमालंछणे चन्द्रे क्षीणे सति, कृष्णपक्षे इत्यर्थः. 24 b विस्सजोए उत्तरापादनक्षत्रे. 25 b कोसिओ इन्द्रः. 26 a सही सभी. इन्द्रात् भीतः. 26 b अवही सावधानबुद्धिः.

8

तम्मि सेलसिंगए	पंडुपत्थरंगए ।	
वंदिओ जसंसिओ	वज्जिणा णिवेसिओ ।	
धम्मतित्थरायओ	दुक्खतोयपोयओ ।	
सीयलेण सीयलो	वारिणा गुणामलो ।	
सिचिओ महुच्छवे	देवदुंदुहीरवे ।	5
देहदित्तिपिगलं	सव्वलोयमंगलं ।	
णीयवालकंदलं	चारु सच्छविच्छुलं ।	
रायहंसमाणियं	जाइ ण्हाणवाणियं ।	
दिव्ववाससुंदरे	मंदरस्स कंदरे ।	
कक्करे विलंविं	चंचरीयचुंविं ।	10
किंणरोहिं वंदियं	दाणवाहिणंदियं ।	
संचुंयं लयाहरे	णायसुंदरीसिरे ।	
भग्गतोडमंडणं	पावपंकखंडणं ।	
इत्ति धावमाणयं	धोयंदत्तिदाणयं ।	
सित्तखेयरीवरं	अक्खंकीलियाहरं ।	15

घत्ता—जं एव वहतु भरइ सिहरिविवरंतरइ ॥

तं जिणंण्हाणं वु हणउ भवियजम्मंतरइ ॥ ८ ॥

9

तं सइ हेट्टासुहुं जइ वि जाइ	उद्धु तो वि भव्वांइ णेइ ।	
सक्केण करिवि अहिसेयभहु	आणित जिणपुंगमुं रायभहु ।	
णिहियउ महपत्रिहि पाणिपोमि	णं इंदिदिरु पप्फुल्लपोमि ।	
वंदिवि कुमार भावे तिणाणि	गउ सग्गावासहु कुलिसपाणि ।	
जायउ जुवाणु देवाहिदेउ	किं वण्णामि रूवें मयरकेउ ।	5
जसु एक्कु वि देहावयउ णत्थि	मेसहु उवमिजइ केव हत्थि ।	
किं जिणहु अण्णु उवमाणु को वि	कइयणु जंपइ धिट्ठिमइ तो वि ।	

8 १ A पत्थरंगए. २ P वंदिउं. ३ A भ^०विच्छलं. ४ A ण्हाणवाणियं, P ण्हाणवाणियं. ५ A सचुंयं. ६ A जक्खं, P जक्खं, T अक्खं. ७ A जिणवरण्हाणं वु.

9 १ AP भवियाइ २ P पुंगु. ३ A मसयहु.

8 1 b पडुपत्थरंगए पाण्डुरशिलाग्रे. 2 a जसंसिओ यशसा सित्तः. 3 b पोयओ प्रव-
रण. नौ. 7 a वालकंदलं अभिनवाद्गुम्. 8 b ण्हाणवाणियं स्नानोदकम्. 10 a कक्करे गिरिदन्ते,
गुह्यागम्. 12 a संचुंयं सुतम्. 1 b अक्खंकीलियाहर इन्द्रियक्रीडागृहम्.

9 2 b रायभहु राजभद्रनगरम्. 3 b इंदिदिरु भ्रमर 7 b धिट्ठिमइ घृष्टतया.

हेमच्छवि संगरभीसणाइं
पुव्वहं तरुणत्तं परिवडंति
करिवसहविमाणावाहणेण
अहिंसिचिवि देवहु पट्टु वट्टु
महि माणंतहु पुव्वहं गयाइं
तेणेक्कहिं दिणि कीलावणांति

तणुमाणेण णवइ सरासणाइं ।
जा पंचवीससहसाइं जंति ।
तांवावेप्पिणु हरिवाहणेण ।
णारीयणणेहे सो वि वट्टु ।
पण्णाससहासइं णिग्गयाइं ।
कीलत्ते णवकमलोयरंति ।

10

घत्ता—खरदंडकरंडि पिंडियतणु करलालियउ ।

णं सिरिताविच्छु मुउ छच्चरणु णिहालियउ ॥ ९ ॥

15

10

जं दिट्ठं मभो महुयरु सणालि
ता चिंतइ जिणु सिरिरसवसाहं
हो धिगिधिगत्यु धणु धरु कलत्तु
खणि णच्चइ खणि गायइ सरेहिं
खणि णिद्धणु खणि विहवत्ति थाइ
हउ सुकइ सुहडु हउं चाइ भोइ
हउं चंगउ पं व भेणंतु मरइ
जहि जहिं उप्पज्जइ तहि जि बंधु
सहुं जाइ ण परियणसयणसत्थु
भासंतइ संजयसम्मयाइं
अणुकूलिउ तेहि तिलोयणाहु
ते णहवणु करिवि पहु महिउ जेव

मयरंदालुद्धउ आरणालि ।

अलिविहि होसइ अम्हारिसाहं ।

जणु सयल मोहमइराइ मत्तु ।

खणि रोवइ उरु ताडइ करेहिं ।

उत्ताणणणु गव्वेण जाइ ।

हउं सूहउ हउं णिप्पण्णो जोइ ।

जोणीमुहेसु संसरइ सरइ ।

अण्णाणल्लणु णउ णियइ अंधु ।

संसारि णं कासु वि को वि पत्थु ।

ता पत्तइं सुरवरगुरुसयाइं ।

तांवाइउ सामरु अमरणाहु ।

हउं जडु कइ किं किर कहमि तेंव ।

5

10

घत्ता—णियगोत्तहियत्तु पुणु पुणु हियवइ भावियउ ॥

संताणि सडिभु णरणाहेण णिरुवियउ ॥ १० ॥

४ A °सहसाइ होंति. ५ A °विवाणावाहणेण. ६ A माणेतहु. ७ A हयाइं. ८ P ताणेक्कहिं.
९ A त सिरिं°.

10 १ A दिट्ठउ महुयरु मउ सणालि, P मुउ सुणालि. २ A उत्ताणणु जणु गव्वेण जाइ, P
खणि उत्ताणणणु गव्वेण. ३ AP णिप्पण्णु. ४ A भणति. ५ AP ण कोइ वि कासु एत्थु. ६ A
संजयसयमाइ, P संजयसगमाइं. ७ A किर कह कहमि.

10 a करिवसह° गजश्रेष्ठ., b आवेप्पिणु आगत्य, हरिवाहणेण इन्द्रेण. 12 a माणतहु
मुञ्जानस्य. 14 खरदंडकरंडि पद्मकोशे. 15 °ताविच्छु पुष्पविशेषः.

10 1 b आरणालि कमले. 2 b अलिविहि भ्रमरसदृशं विधानं मरणमित्यर्थः. 7 b सरइ
रतियुक्तः. 10 b सुरवरगुरु° लौकान्तिका देवाः.

11

सुंक्कंदि सिवियहि चडिवि चलिउ
 ओइण्णु सहेउयवणि महंतु
 माहम्मि मासि तिमिरेण कालि
 छड्ठेववासु सहुइ करेवि
 अवरहि दिणि णहयललग्गसिहर
 णउ एयहु हिउवउ सुण्णवडिउ
 णउ परिहइ चीवर रंगरिद्धु
 णउ सुलवालु कंकालधारि

सुरयणु जयजय पभणंतु मिलिउ ।
 चरियावरणइं कम्मइं खवंतु ।
 वारहमइ दिणि जायइ वियालि ।
 सहुं रायसहासें दिक्ख लेवि ।
 भिक्खाइ पइहु अरिहुणयरु । 5
 णउ भक्खइ पैलु णियपंतपडिउ ।
 वहु का वि भणइ णउ एहु बुद्धु ।
 णउ करि कवालु णउ देहि णारि ।

यत्ता—णउ धरइ पिणाउ णउ फणिकंकणु फुरियकरु ॥

हुंकार ण देइ णउ उच्चारइ गेयसरु ॥ ११ ॥

10

12

णउ णउइ ण दावइ ढक्कसहु
 सुरवहुरणण रइयाइं जाइं
 णउ कहइ वेउ पसुहणणडंभु
 वहु का वि भणइ णउ चक्कपाणि
 णारायणु एहु ण होइ माइ
 अरहंतु भडारउ दोसमुक्कु
 अन्भागयवित्तिवियाणएण
 तहु क्खिउ भोयणु पासुयविहीइ
 नृवसिरि कुमुमाइं णिवाइयाइं

वहु का वि भणइ णउ एहु रुहु ।
 वयणाइं णत्थि चत्तारि ताइं ।
 वहु का वि भणइ णउ एहु वंभु ।
 ण पउंजइ दाणवप्राणहाणि ।
 जाणमि विक्खायउ भुवणभाइ । 5
 वरप्रंगणि प्रंगणि जाव दुक्कु ।
 ता णविवि पुणव्वसुराणएण ।
 नृव संपीणिउ अक्खयणिहीइ ।
 सुरणियरहिं तूरइं वाइयाइं ।

यत्ता—संवच्छर तिणिण छम्मत्थु जे महि हिंडियउ ॥

विल्लहु तलि देउ धाउचउक्के छड्डियउ ॥ १२ ॥

10

11 १ AP सुक्कंदि. २ A ओयणु P अवइणु. ३ P वारहवइ. ४ A जायउ. ५ P सट्ट. ६ P पल्ल. ७ A णियमन्ति पडिउ. ८ A रिद्धु.

12 १ P णहु. २ AP प्राणहाणि. ३ AP जाणिवि. ४ AP गयहु धरप्रंगणि जाव दुक्कु. ५ AP पासुय. ६ AP णिव. ७ AP णिव. ८ A णियरे. ९ A वल्लिहि तलि.

11 1 a सुक्कंदि हि सुक्काङ्कनाम्ना सुक्कप्रभायां वा. 3 a तिमिरेण कालि अन्वकारेण कृणे, एणसंसे इत्यर्थ. 4 a सहुइ अश्रया. 6 b णियपत्तपडिउ निजगत्रे पत्तिनम्. 8 a सुलवालु खङ्गः. 9 पिणाउ विनाके भिचवन्तु.

12 2 a सुरवहुरणण निच्येत्तनाउक्केन. 7 a अन्भागयवित्तिवियाणएण अन्भागते वृत्ति नानार्तति तादयेन गत्ता. b पुणव्वसुराणएण पुनर्वसुराणा. 11 विल्लहु तलि वित्त्ववृत्तस्य तले,

13

तांवायउ सुरयणु करइ थोत्तु
जइ तुहुं गोवाँलु णियारिचंहु
जइ पइं कुडिलत्तणु मुक्कु ईस
जइ तुहुं संसारहु णिरु विरत्तु
जइ तुहुं मुक्कउ संगग्गहेण
जइ तैइं विद्धंसिउ सयलु कामु
जइ तुहुं सामिय संजमपयासि
तुह णाहासियइं ण जइ पडंति
जे पइं जि रउहइं कुसियाइं
जइ रयणइं तुह तिण्णि वि पियाइं

संभरइ विरुद्धउ जिणचरित्तु ।
तो काइं णत्थि करि तुज्झ दंहु ।
तो काइं तुहारा कुडिल केस ।
तो किं तेरउ इहु अहरु रत्तु । 5
तो कि तुह तिजगपरिग्गहेण ।
तो किं तुहुं पुणु संपण्णकामु ।
तो कि कमुं कमलहु उवरि देसि ।
तो किं एयइं चमरइं पडंति ।
तो आसणि किं सीहइं थियाइं । 10
तो तुहुं किर णिरलंकारु काइं ।

घत्ता—थेणत्तु णिसिद्धु जइ तुहुं तो कंकेलितरु ॥

अच्छरकरत्तोह हरइ काइं कयदलपसरु ॥ १३ ॥

14

तुहुं माणुसु भुवणि पसिद्धु जइ वि
जइ कासु वि पइं णउ दंहु कहिउ
जइ रूसहि तुहुं सरमग्गणाहं
जइ वारिउ पइं परि घाउ एंतु
जइ पइं छड्डिय मंडलहु तत्ति
कहिं एक्कदेसरुहु तुह महेस
ण वियाणवि तेरउ दिव्वचारु
इय वंदिवि वेण्णि वि संणिविट्ठ

माणवियपयइ तुह णत्थि तइ वि ।
तो किं छत्तत्तइ फुरइ अहिउ ।
तो कि ण देव कुसुमच्चणाहं ।
तो कि हम्मइ दुंदुहि रसंतु ।
तो किं पुणु भामडलपवित्ति । 5
कहिं बहुजणभासइ मिलिय भास ।
सोहम्माहिचइ सर्णकुमारु ।
देवेण सिट्ठि णीसेस दिट्ठ ।

घत्ता—एयासी तासु जाया जाणियधम्मविहि ॥

गणहर गणणाह गुरुयण गुरुमाणिक्कणिहि ॥ १४ ॥

10

13 १ P has before it. उप्पायउ केवलु जयपयक्खि, पूसहु चउदसि पढमिल्लपक्खि. २ A गोवाल. ३ AP तेरउ अहरग्गु रत्तु. ४ AP पइ. ५ A तो पुणु किं तुह. ६ AP सपुण्णकामु. ७ A कम. ८ A जइ, P ज. ९ AP तो तुह.

14 १ A माणसु. २ AP देतु. ३ A हम्मइ कि. ४ A एक्कदेस तुहु तुहु महेस, P एक्कदेस तुहुं तुहु महेस. ५ A किं बहुजणभासइ, P किं बहुजणभासहि. ६ AI' सणकुमार.

13 6 a सगग्गहेण परिग्रहस्वीकारेण. 7 b सपण्णकामु वाञ्छिततातृत्वम्. 8 b कसु पदम्. 9 a णाहासियइं हे नाथ, आश्रितानि. 13 कयदलपसरु कृतपत्रप्रसर, पक्षे, चौग अपि दलं सग्रामं कुर्वन्ति.

14 1 b माणवियपयइ नरप्रकृतिः अन्नपानास्वादनादिका. 2 b अहिउ अधिकम्. 3 a सरमग्गणाहं सरवाणानाम्. 5 a मंडलहु देशस्य. 7 a दिव्वचारु दिव्यम्बरूपम्. 8 b सिट्ठि जगत्स्थिति..

15

महरिसिहिं महाचरणायराहं
 एकूणसट्टिसहसइं सयाइं
 भयसहसइं दोसय सावहीहि
 वारहसहसइं वेउव्वियाहं
 पंचेव ताइं णयसयजुयाइं
 सयसत्तपमाणुज्जोइयाहं
 इय एकू लक्खु जायउ जईहिं
 साययहं लक्ख दो सुहमईहिं
 त्तिहिं देवहं वुज्झिय केण संख
 भाभासुरु भव्वंभोयभाणु
 सो पुव्वसहासइं पंचवीस
 संमेयसेलि हल्लंततालि
 सतवप्पहावपरिवियलियासु

चउदहसय पुव्वंगोहराहं ।
 दुइ सिक्खहुं सिक्खोवहि रयाइं ।
 पुणु सत्तसहासइं केवलीहिं ।
 इच्छियइं सरूवइं होंति जाहं ।
 मणपज्जयवंतं संथुयाइं । 5
 तहु पंचसहासइं वाइयाहं ।
 लक्खाइं तिण्णि वरसंजईहिं ।
 चत्तारि लक्ख जहिं सावईहिं ।
 संखेज्ज तिरिय हयसंककंख ।
 सहं पत्तिणहिं महि विहरमाणु । 10
 अतिवरिसइं उम्मोहेवि सीस ।
 सहं भिक्खुसहासें हरिणवालि ।
 थिउ देहविसग्गें एकू मासु ।

यत्ता—आसोइ पवण्णि पुव्वासाढसिर्यट्टमिहि ॥

अवरण्हइ सिद्धु थिउ मेइणियहि अट्टमिहि ॥ १५ ॥

15

16

वज्जट्टितुलाघणघडियगेहु
 अवरेक्कहिं फुल्लइं घल्लियाइं
 अवरेक्कहिं किउ जयणंदयोसु
 अवरेक्कहिं थुउ संसारहारि
 अवरेक्कहिं पणामिउ मोक्खगामि
 अण्णहिं अण्णणणइं साहियाइं

सिहिदेवहि दहूउ देवदेहु ।
 अण्णहिं कव्वइं उव्वेल्लियाइं ।
 अण्णहिं णच्चिउं मणणयणतोसु ।
 अण्णहिं हयं झल्लरि पडह भेरि ।
 अण्णहि वंदिय जिणंसिद्धभूमि । 5
 वाहणइं मेहवहि वाहियाइं ।

15 १ AP पुव्वंगयगहं. २ A सिक्खावइ थियाइं P सिक्खावहि रियाइं. ३ A वारहसयाइं.
 ४ A पंचेव ताइं णवमंजुयाइं, P सत्तेव ताइं वयसंजुयाइं. ५ A read- a as b and b as a.
 ६ A उम्मोहिय वि सीस. ७ A भिक्खसहासे. ८ A सियल्लट्टिमिहि. ९ A मेइणियह.

16 १ AP जयणंदियोसु. २ A झल्लरि हय पडह. ३ AP कय बहुविहविहूह. ४ AP
 जिणदेहभूह.

15 2 b सिक्खावहि रयाइं जिन्नापये रतानि. 11 b अतिवरिसइ त्रिवर्षहीनानि; उम्मो-
 हेवि सीस जिप्पानसंज्ञान् ट्त्वा. 12 b हरिणवालि मृगपालके. 13 a °परिवियलियासु नष्टाशः.
 14 आसोइ आश्विनमाने.

16 1 b सिहिदेवहि अग्निदेवः. 2 b उव्वेल्लियाइं उचरितानि. 6 b मेहवहि गगने.

गय गियणिलयहु सुर विहवफार जिणगुणकहरंजियहिययसार ।
गयणयलि चरंति चवंति एंव जगि कम्मवंधु को महई एंव ।

घत्ता—णिक्किरिउ करिवि मणवयणंगइं परिहरिवि ॥

थिउ सीयलसामि मोक्खमहापुरि पइसरिवि ॥ १६ ॥

10

17

पसियउ परमेसरु परमंसमणु
पुणु अक्खइ गणहरु सेणियासु
गयलेसि परिट्ठिइ णाणसेसि
तित्थंति तासु विच्छिण्णधम्मु
विणु वत्तारयसोयारएहिं
पुरगामणयरसोहाणिवेसि
पडिवक्खलक्खसंजणियतासु
काले जंते कुलगयणचंदु
णीहारसरिसजसविमलकंति
अत्थाणमज्झि उवविट्ठ राय

अम्हहं वि तहिं जि संभवउ गमणु ।
सम्मत्तरयणरुइसेणियासु ।
णिब्बाणु पराइउ सीयलेसि ।
पसरिउ जणवइ रयमइलु कम्मु ।
भव्वेहिं भवण्णवतारएहिं । 5
मलययसुरहिइ तहिं मलयदेसि ।
भइलपुरि सिरिभहावयासु ।
घणरहु णामे जायउ णरिंदु ।
तहु सच्चकित्ति णामेण मंति ।
एक्कहिं दिणि दाणालाव जाय । 10

घत्ता—आहासइ रुहु भूरिसम्मु जिणधम्मचुउ ॥

सालायणमुंहु णामे अण्णु वि जांसु सुउ ॥ १७ ॥

18

गोदाणभूमिदानंतराइं
सोवण्णइं रयणइं अंवराइं
हयं गय रहवर पीणत्थणीउ
वरदब्भपवित्तंक्रियकराहं
सो कणयविमाणहिं विण्णुलोउ
तं णिसुणवि पभणइ सच्चकित्ति

कच्चोलइं थालइं मणहराइं ।
फलछेत्तइं धवलहरइं पुराइं ।
कण्णा कलवीणालांविणीउ ।
जो देइ णरेसुं दिएसराहं ।
संप्रावइ माणइ दिव्वु भोउ । 5
कहिं कामुउ कहिं परलोयवित्ति ।

५ AP चडति. ६ A मुयइ.

17 १ A परमसरणु. २ A अम्हइ. ३ AP भवंतर°. ४ AP तासु.

18 १ P गय हय. २ A °लावणीउ. ३ AP णरेसु. ४ AP संपावइ.

7 b °र जि य हि य य सार रञ्जित हृदयसारं मनो येषा ते. 8 b महइ मञ्जाति.

17 1 a पसियउ प्रतीदतु. 2 b °रुइसेणियासु °दीप्तिपक्तेः. 5 a घत्तारयसोयारएहिं वक्कश्रोतुभ्याम्. 6 b मलययसुरहिइ मलयजं चन्दन तेन सुरभिते. 7 a °संजणियतासु संजनितत्रासः.

10 b दाणालाव दानालाप, दानकथा. 11 रुहु रौद्रध्यानी.

18 1 b कच्चोलइं पानपात्राणि. 4 a °दब्भपवित्तं °दर्भमुद्रिका. 5 a विण्णुलोउ विण्णुलोकम्.

कहिं णिवहु कहि अंवयफलाइं
कहिं खीर महुर कहिं राइयाड
मग्गइ मंचड वरभूमि हेमु
मुइ डिंभइ उयर हणंतु रडइ

कहिं खरयरसिल कहिं सयदलाइं ।
वंभणमईउ कुविवेइयाड ।
मग्गइ कुमारि भुंजइ सकामु ।
अण्णाणिड भवसंसारि पडइ । 10

घत्ता—भक्खइ मृर्गमासु सुज्जइ पिंपलफंसणिण ॥

णिड णरयहु लोड णिग्घणवंभणसासणिण ॥ १८ ॥

19

अण्णाणिणि पसु पुण्णेण रहिय
जा गाइ चरंति अमेज्जु खाइ
पाणिड तणुसंगं होइ मुत्तु
कयप्रणिवग्गणिप्राणियाइ
जइ देइ देउ तो होउ चाइ
दिज्जइ सुपत्तु जाणिवि सणाणु
भाविज्जइ जीवदयालु भाउ
णियमिज्जइ कुवहि चरंतु चित्तु

वंधणताडणदुक्खेण गहिय ।
सा कि संफासं सुद्धि देइ ।
सोत्तिय तं बुच्चइ किह पवित्तु ।
किं एर्यइ भुत्तकहाणियाए ।
कुच्छियदानं सग्गहु ण जाइ । 5
सुय भेसहु अभयाहारदाणु ।
पुज्जिज्जइ सामिड वीयराउ ।
वज्जिज्जइ परंधणु परकलत्तु ।

घत्ता—जक्षु दिण्णइ दाणि होइ महंतु अणंतु फलु ॥

तं उत्तमु पत्तु पणवंतहं परियलइ मलु ॥ १९ ॥

10

20

जे वज्जियपुत्तकलत्तणेह
अपरिग्गह जे गिरिगहणणिलय
जे णिवडिय भव्वुद्धरणलील
जे अरिवंधवहं मि समसहाव
दिज्जइ जोग्गड आहारु ताहं
सन्थेण णाणु अण्णेण भोउं

दुद्धरमलपडलविलित्तदेह ।
भयलोहमोहमयमाणविलय ।
उवसग्गपरीसहसहणसील ।
णिग्गंथ णिरंजण मुक्कगांव ।
मज्ज्जणिण पइट्टुहं मुणिवराहं । 5
फलु दाणसूरु नुंव लहइ लोउ ।

५ AP मग्गइ वर मंचड भूमि हेमु. ६ AP मिगमासु. ७ AP पिप्पल°.

19 १ A अण्णाणि. २ A होइ. ३ AP कयपाणिवग्गणिप्राणियाइ. ४ A एणइ. ५ A सुगाणु. ६ A पण्हणु. ७ A पणवंतहु.

20 १ AP गलियगाव. २ P पवणु, P adds after this वलत्तुलिड णाइ नेलोकभवणु.
३ AP णिव.

7 b चरयर सिल कठिनत्रिला. S a गइया राजिका आसुरी मोहरी).

19 1 a अण्णाणिणि अजा गो.. 2 a अमेज्जु विष्ठा. 3 a मुत्तु मूत्रम्. 6 a सणाणु सगानि. पात्र ज्ञात्वा; b सुय श्रुतं बालदानम्. S a कुवहि कुमागं.

20 2 a गिरिगहणणिलय गिरिगहनवासिनः 3 a णिवडियं संसारे पतिता..

अभयोसहेहिं परियलइ रोड
ता सालायणमुंडेण उत्तु
विणु आगमेण किं तुहुं पमाणु
पडिउत्तरु दिण्णउं सावएण
अम्हारउं सासणु णत्थि वण्ण
णरणाहु पयंपइ तुह सुईउ

घत्ता—ता कुणयरएण विण्णे जिणमउ णिरसियउं ॥

सइं विरइवि कव्वु आणिवि रायहु दरिसियउं ॥ २० ॥

21

रइयाइं ललियाइं कव्वाइं भणिऊण
तव्वासराओ तहिं दुट्टहिययाइं
गुरुंदेवपडिकूलणुप्पणगावाइं
कयपियरमिसगसियपैसुपोसिगासाइं
गोदाणभूदाणदढवद्धतिट्टाइं
गुणवंतणिंदिरइं णियकुलमयंधाइं
मयहहुचंडिरइं पाणियसउच्चाइं
धरियक्खसुत्ताइं मृगंचम्मभूसाइं
धणधरणिघरपणइणीमोहमूढाइं
दुंग्घोदुट्टुप्पोसपोसणपयट्टाइं
आसवमयावेसपसरियविडंवाइं

घत्ता—गयसीयलदेवि भरहि जाय परपत्तविहि ॥

संपीणइ विण्णु पुण्फदंत पणवंत सिहि ॥ २१ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुण्फयंतविरइए

महाभव्वभरहाणुमणिए महाकव्वे सीयलणाहणिच्चाणगमणं

णाम अट्टयालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४८ ॥

॥ सीयलणाहचरियं समत्तं ॥

ण कया वि णिहालइ दुक्खजोर्ड ।
दावहि तेरउं सिद्धंतसुत्तु ।
माणवु पायडमाणवसमाणु ।
इह सीयलपरमेसें गएण । 10
जं रुच्चइ तं तुहुं चवहि विण्ण ।
दावहि दियवरदावियगईउ ।

देहीणं संदेहवुद्धीउ जणिऊण ।
णिद्धम्ममग्गाम्मि कम्मेण णिहियाइं ।
वहुंतसुविचित्तमिच्छत्तभावाइं ।
पयलंतमहुसोमवाणाहिलासाइं ।
उड्डियंकरग्गाइं किविणाउं दिट्टाइं । 5
दुग्गंधरसभरियणवदेहरंधाइं ।
हिंसाइ घडियाइं पव्वभट्टसच्चाइं ।
पालासदंडाइं कासायवासाइं ।
छक्कम्मगंभीरजरकूवळूढाइं ।
सुयसत्थवित्थारविलसियमरट्टाइं । 10
जीवंति दीणाइं वंभणकुट्टुवाइं ।

४ P adds पंचेल्लिउ पावइ सरसु भोउ. ५ AP पजपइ.

21 १ A देहेण. २ A देवगुरुकूलणुप्पणगावाइ, P देवगुरुपडिकूलणुप्पणगावाइ. ३ A °अयमासगासाइं. ४ A पयडंत°. ५ P °सोमपाणा°. ६ A उट्टिय°. ७ AP षिट्टाइं. ८ A मयहुड-चंडिरइं; P मयहहुचंडिरइं. ९ A मयचम्म°, P मिगचम्म°. १० A दुग्घुदुट्टुप्पोस°. ११ AP आसव-मयावेस°. १२ A अट्टयालीसमो. १३ AP omit the line.

21 1 a °पे सि° मासवल्लूरिका. 9 b छक्कम्म° पठनपाठनयजनयाजनदानप्रतिग्रहरूपाणि पट्ट-कर्माणि; °जरकूव° पुराणकूप. 10 a दुग्घोदुट्टु° मधु, दुट्टुप्पोस° मासम्. 11 a आसवेत्यादि ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थो यतिश्चेत्येवरूप आवेशो ब्राह्मण इत्येवरूपो मदोपेतो वर्णाना गुरुरित्यभिनिवेशस्तेन प्रसृतो विडम्बो लोकवञ्चकत्व येषाम्. 12 परपत्त° अन्यस्य पात्रम्.

दहमउ गुरु मइं तुह कहिउ देउ मोक्खमाणससरहंसु ॥
अवरु वि सुणि सेणिय भणामि एयारहमउ जिणु सेयंसु ॥ ध्रुवकं ॥

1

जासु ण मुक्का मारें मग्गण	जो जाणइ जीवहं गुण मग्गण ।
जेण ण खंडणु किउ चारित्तहु	तवपभारें णिच्चारित्तहु ।
जो ण वडिउ संसारसमुद्दइ	मुद्दिउ जेण तिलोउ समुद्दइ । 5
अकयइ णिच्चइ पडिमारुवइ	जासु ण रमइ दिट्ठि त्रयैरुवइ ।
जो णाणें पेक्खइ णीसेसु वि	पयजुयलइ णिवडइ जसु सेसुं वि ।
जो सुक्कियमहिर्यम्महु विसहरु	जो पंचिदियविसहरविसहरु ।
जेण राउ मेल्लविय भुयंगय	जासु ण पत्तावलि वि भुयंगय ।
भालि ण दिज्जइ जसु तिलउल्लउ	जो अप्पणु तिहुयाणि तिलउल्लउ । 10
जो परिहइ ण कयाइ वि कंकणु	णउ फंसइ सच्चित्तउं कं कणु ।
णिच्चेलक्कु जेण पडिवण्णउं	जइ वि चीरु चंगउं पडिवण्णउं ।
तो वि ण परिहइ जो णिण्णेहल्लु	जो ढोयइ णरि णिरु णिण्णे हल्लु ।
तहु देवहु संचियसेयंसहु	पयजुयलउ वंदिवि सेयंसहु ।

वत्ता—पुणु अक्खमि तहु तणिय कह किच्चि चियंभउ महुं जगगेहि ॥ 15
पुक्खरवरदीवंतरइ सुरादिसि मेरुहि पुच्चविदेहि ॥ १ ॥

A has, at the beginning of this Samdhi, the following stanza —

सया सन्तो वेसो भूसणं सुद्धसीलं
सुसंतुष्टं चित्तं सव्वर्जावेसु मेत्ती ।
सुहे दिव्वा वाणी चारुचारित्तभारो
अहो खण्डत्सेसो केण पुण्णेण जाधो ॥ १ ॥

This stanza is found in P at the beginning of Samdhi L. K does not give it anywhere.

1 १ AP सुणु. २ APT नियरुवइ. ३ P adds after this. दूरविमुक्कउ वंधविसेसु वि, सममणु बहुयणसु णीसेसु वि. ४ A महिजम्महु. ५ AP सच्चित्तउं. ६ AP तो णवि. ७ A जइ णिण्णेहल्लु.

1 3 a मग्गण वाणा.; b गुण गुणस्थानानि. मग्गण चतुर्दश मार्गणा.. 4 a णिच्चारित्तहु नित्यमारिक्तस्य, अथवा अराणा भावो अरित्वम्, न्यग्भूतं नात्रभूतमारित्व यस्य. 5 b समुद्दइ स्वमुद्रया. 6 a नियरुवइ चेतनाचैनस्वरूपे स्त्रीरूपे. 8 a सुक्कियमहियम्महु विसहरु सुकृतमेव महिजन्मा वृधस्तस्य विसहरु मेव. b पंचिदियविसहरविसहरु पञ्चेन्द्रियाण्येव विषयग. सर्पास्तेषा विषहरो विपरारक. 9 a भुयंगय विट. 10 b अप्पणु स्वयमेव. 11 b कं कणु कं पार्तायम्, कणु वीजम्. 12 b पडिवण्णउं पटीसमानवर्णम्. 13 a णिण्णेहल्लु स्तेह्रहित.. b णिण्णे निम्नोन्नते, हल्लु स्वर्गादि-पठम्. 14 a संचियनेयंसहु उमाजितपुण्यविशेषस्य.

2

सालतमालतालतरुसंकडि
 कच्छउ देसु देसंसिरिसंकुलु
 कलववडियकलेविं कयकलयलु
 तहि खेमउरु काइं वणिज्जइ
 सरु वायरणि णवर संधिज्जइ
 णहवणु ण वणु जेतु भडभंडणि
 अत्थसमप्पणि जहिं पयविग्गहु
 जहिं णिण्णांसिय परमंडलवइ
 जहि चोरारिमारिदालिइइं
 तहिं राणउ णलिणालयमाणु

सीयतरंगिणिपवरुत्तरताडि ।
 वियसियकमलकोसरयपरिमलु ।
 दुमफुल्लासियफुल्लंधुयचलु ।
 जहि पिययमु पणं कलहिज्जइ ।
 तणु विरहेण ण वाहिइ झिज्जइ । 5
 केसगहणु विवाहरचुंवणि ।
 जइयणि णउ सावज्जपरिग्गहु ।
 पासवद्ध णं घरमंडलवइ ।
 पासंडाइं वि णत्थि रउइइं ।
 णलिणप्पहु णामे णलिणाणणु । 10

घत्ता—भयभीयइं महिणिवाडियइं जीर्यं देव सविणउ जंपंति ॥
 जासु पयावे तावियइं परणरणाहसयइं कंपंति ॥ २ ॥

3

कलयलंतचलकलकोइलगणि
 पेच्छिवि जिणु अणंतु वणवालें
 तहु तहिं तवसिहिहुयवस्मीसरु
 परमप्पउ पसण्णं परमेसरु
 तं णिसुणेवि तेण तित्थंकरु
 वुज्झिवि धम्मु अहिंसालक्खणु

तावण्णहिं दिणि सहसंबयवणि ।
 विण्णत्तउ सिरंगयभुयडालें ।
 गुणदेवहं भवदेवहं ईसरु ।
 आयउ देउं धम्मचक्केसरु ।
 जाइवि वंदिउ दुरियखयंकरु । 5
 चिंतिवि वंधमोक्खविहिलक्खणु ।

2 १ A देससरिसंकुलु. २ A °कलेवि°, P °कलंवि°. ३ P ण पर. ४ A जइयणि तउ सावज्जपरिग्गहु, P णउ परअत्थहरणि कयविग्गहु. ५ P णित्तासिय. ६ A जीव.

3 १ A तावण्णयदिणि. २ A सिरि गय°. ३ AP पसण्णु. ४ AP देव.

2 3 a कलववडियकलविं कलमः शालिविगेपः तत्र पतितेन कलविं ग्रामचटकेन, b °फुल्लधुय° भ्रमरः 5 a सरु स्वर वाणश्च; वायरणि व्याकरणे वाग्रणे वाक्कलहे च. 6 a णहवणु नखव्रण, भडभडणि संग्रामे. 7 a अत्थेत्यादि अर्थाना पदवाक्याना समर्पणे प्रतिपादने पदाना विग्रह. समासो भवति न पुनः प्रजानामर्थसमर्पणे द्रव्यदाने विग्रहः अकटको भवति. 8 b घरमंडलवइ गृहवद्धा महाश्वानः. 10 a णलिणालयमाणु नलिनालया लक्ष्मीस्तस्या भोक्ता. 12 परणरणाहसयइं अत्रु-राजाना गतानि.

3 2 a अणतु अनन्तनामा; b सिरिगयभुयडाले मस्तके कृतवाहुना. 3 b गुणदेवहं गणधरदेवानाम्, भवदेवहं भवेन जन्मना देवानामिन्द्रादीनाम्.

देवि सुपुत्तु महिहिं परिरक्खणु
चरणमूलि जइवरहु अणंतहु

सइं रिसि हूयउ राउ वियक्खणु ।
चरइ मग्गि दुग्गामि अरहंतहु ।

यत्ता—णीलकिण्हलेसउ मुंयइ काउलेस दूरें वज्जंतु ॥

सुक्कलेस मुणिवरु धरइ भीमें तवतावेँ खिज्जंतु ॥ ३ ॥

10

4

मंदरधीरु वीरु दिहिपरियरु
ण भणइ ण सुणइ णिप्रिहं णीरउ
कोहु लोहु माणुं वि मुसुमूरइ
चक्खुसोत्तरसफासणत्राणइं
विहुणिवि धिवइ णिई सहुं पणपं
ण सरइ पुव्वकालरइकीलणु
णहखंडणु सरुवपरिपुंछणु
हरणु भमणु भूमंगु ससंसणु
साहिलासु सवियारउ दंसणु
णक्खळोडि तणुमोडि ण इच्छइ

इत्थिअत्थनुवयेणकहंतरु ।
एयारहवरंगसिरिधारउ ।
मायाभावु होंतु संचूरइ ।
जिणइ हणइ दुक्कियसंताणइं ।
अप्पउं भूसइ रिसि रिसिविणपं । 5
ण करइ दंतपंतिपक्खालणु ।
करयलवट्टि सरीरणियच्छणु ।
पाणिणैहु परगुणविद्धंसणु ।
णियडणिसर्णणहरिणसंफंसणु ।
परमसाहु लिहियंउ इव अच्छइ । 10

यत्ता—यंधिवि तित्थयरत्तु तहिं दंसणसुद्धिइ तोडिवि भंति ॥

अच्चइ पुप्फुत्तराणिलइ जायउ सुरवरु ससहरकंति ॥ ४ ॥

5

आउ दुवीससमुद्धपमाणइं
तहु छम्मासु परिट्टिउ जइयहुं
जंबुदीवि भरहि सीहउरइ
आइदेवकुलसंतईजायउ
णंददेवि तासु धरस्सामिणि

कालें गिलियइं दुक्कपमाणइं ।
अक्खइ जक्खहु सुरवइ तइयहुं ।
धणकणजणगोहणगुणपउरइ ।
विट्ठु णाम राणउ विक्खायउ ।
कामसुंहकरि णं सुरकामिणि । 5

५ AP सुयउ.

4 १ A इत्थिअत्तिगिवं and gloss अत्ति भोज्य; P इत्थिअत्थणिव. २ AP णिप्पिहु.
३ AP मोहु. ४ P गिहे. ५ A पुव्वकालि. ६ P परिपेच्छणु. A पाणिणिट्ट. ८ A °णिसण्हं हरि-
णहं फंसणु; P °णिसण्हं णवि संफंसणु. ९ P लिहिउ इव.

5 १ AP °ममाणइं. २ A कालि. ३ AP °मए जायउ.

7 a देवि दत्वा. 9 काउलेन कापोती लेट्या.

4 1 b इत्थि अत्राकथा; अत्थं जिहेन्द्रियविषयोऽर्थ, भोजनकयेत्यर्थ.. 2 a णि प्रि ह निःस्पृहः.
7 a णइयंउणु कग्गपादनखाना खण्डनम्. सरुवपरिपुंछणु शरीरमार्जनम्; b करयलवट्टि बाहु-
च्छेटिका. 10 a णक्खळोडि नग्गच्छेटिका अङ्गुलिविकारः.

तणुरुहु तेओहामियदिणयरु
ताहं तुरिउं तुहुं करि भल्लारउं
धणपं पुरुं पविणिम्मिउं तेहउं

एयहं दोहं वि होसइ जिणवरु ।
रयणफुरंतु णयरु चउदारउं ।
मणुयहिं वण्णहुं जाइ ण जेहउं ।

घत्ता—ता णज्जइ दिणु णिच्च जहिं जा सरवरि कमलइं वियसंति ॥

वरमणिकिरणहिं तौतडिय उग्गय रवियर णउ दीसंति ॥ ५ ॥ 10

6

तहि सयणालइ १सिरिअइसइयइ
पुण्णचंदसोहियमुहयंदइ
अविरेयगलियेदाणधारालउ
वालहिसण्हाककुखुरमणहरु
कुडिलणहरु भइरवरुंजणरवु
कण्णतालहयमहुलिहविंदहिं
मालाजुयलु भिगंपियकेसरु
कलसजुंयलु णवकमलु सकोमलु
सरु सररासि चारुसीहांसणु
माणिकोहु मोहंमालालउ

पच्छिमरयणिहि णिहंधइयइ ।
सिविणपंति अवलोइय णंदइ ।
भमियसिलिमुहोलिसोडालउ ।

सउरहेउ रुइरंजियससरु ।

गिरिगुहणीहरंतु कंठीरवु । 5

सिरि सरि सिंचिज्जंति करिंदहि ।

मा णिसिमंडणु भासुरु णेसरु ।

मीणमिहुंणु जलकीलाचंचलु ।

देवालउ फणिभवणु फणीसणु ।

सिहि णहयलि जलंतु चलजालउ । 10

घत्ता—एवं णिहालिवि चंदमुहि चंदकंति सुहदंसणपंति ॥

जाइवि भासइ भूवइहि सुंदरि सुविहाणइ विहसंति ॥ ६ ॥

7

महिवइ मेहघोसु णिच्चप्फलु
जसु आणइ हरि अच्छइ गच्छइ

कहइ महासइहि सिविणयफलु ।
जो सयरायरु लोउ णियच्छइ ।

४ A पुरु विणिम्मिउ. ५ A सरवरकमलइं.

6 १ A णिरु अइसइयइ. २ AP णिहंधइ. ३ A सिविणयतइ, T तइ पक्ति.. ४ AP अविरल°. ५ A भइरवभजणरउ. ६ A °वंदहिं. ७ A भिगु पिय°. ८ A °मडलु. ९ AP कलस-जमलु. १० A मीणजुयलु. ११ A सिंहासणु. १२ A मोहु मालालउ.

5 6 a तेओ हा मिय दि ण य रु तेजसा तिरस्कृतसूर्यः. 8 a प वि णि म्मि उं प्रविनिर्मितम्, 9 णज्जइ जायते. 10 तौ त डि य मिश्रा .

6 1 a सिरि अइसइयइ ओभातिगययुक्ते; b णिहंधइयइ निद्रान्वया. 3 a अ वि र य° निरन्तरम्, b °सि लि मु हो लि° अरमपक्ति.. 4 a वा ल हि पुच्छम्, स ण्हा सात्ता गलकम्बलः, ककु ककु-दम्. b स उ र हे उ नौरभेयो वृषभ . 7 मा ल्धमी., णि सि म ट णु चन्द्रः. 9 a सर रा सि समुद्रः. 10 a मो ह मा ला ल उ मयूखमालायुक्त..

7 1 a णि च्च प्फ लु निश्चपलः. 2 b स य रा य र्. स च रा च र म्.

देवि सुपुत्तु महिहि परिरक्खणु
चरणमूलि जइवरहु अणंतहु

सइं रिसि ह्यउ राउ वियक्खणु ।
चरइ मग्गि दुग्गामि अरहंतहु ।

यत्ता—गीलकिण्हेलेसउ मुंयइ काउलेस दूरं वज्जंतु ॥

सुकलेस मुणिवरु धरइ भीमें तवतावेँ खिज्जंतु ॥ ३ ॥

10

4

मंदरधीरु वीरु दिहिपरियरु
ण भणइ ण सुणइ णिप्रिहं णीरउ
कोहु लोहु माणुं वि मुसुमूरइ
चक्खुसोत्तरसफासणघाणइं
विहुणिवि धिवइ णिहं सहं पणपं
ण सरइ पुञ्जकालरइकीलणु
णहखंडणु सरुवपरिपुंछणु
हसणु भसणु भूभंगु ससंसणु
साहिलासु सवियारउ दंसणु
णक्खळोडि तणुमोडि ण इच्छइ

इत्थिअत्थनृवयेणकहंतरु ।
एयारहवरंगसिरिधारउ ।
मायाभावु हंतु संचूरइ ।
जिणइ हणइ दुक्कियसंताणइं ।
अप्पउं भूसइ रिसि रिसिविणपं । 5
ण करइ दंतपंतिपक्खालणु ।
करयलवट्टि सरोरणियच्छणु ।
पाणिणंहु परगुणविद्धंसणु ।
णियडणिसण्णहरिणसंफंसणु ।
परमसाहु लिहियंउ इव अच्छइ । 10

यत्ता—यंधिवि तित्थयरत्तु तहिं दंसणसुद्धिइ तोडिवि भंति ॥

अच्चइ पुप्फुत्तरणिलइ जायउ सुरवरु ससहरकंति ॥ ४ ॥

5

आउ दुवीससमुहंपमाणइं
तहु छम्मासु परिट्टिउ जइयहुं
जंबुदीवि भरहि सीहउरइ
आइदेवकुलसंतईजायउ
णंददेवि तासु घरसामिणि

कालेँ गिलियइं दुक्कपमाणइं ।
अक्खइ जक्खहु सुरवइ तइयहुं ।
धणकणजणगोहणगुणपउरइ ।
विट्ठु णाम राणउ विक्खायउ ।
कामसुंहरि णं सुरकामिणि । 5

५ AP सुयउ.

4 १ A इत्थिअत्तिणिवं and gloss अत्ति भोज्य, P इत्थिअत्थणिव. २ AP णिप्पिहु.
३ AP मोहु. ४ P णिहे. ५ A पुञ्जकालि. ६ P परिपेच्छणु. A पाणिणिह. ८ A ०णिसण्णहं हरि-
णह फनणु P ०णिसण्णह णवि सफंसणु. ९ P लिहिउ इव.

5 १ AP ०समाणइं. २ A कालि. ३ AP ०संतए जायउ.

7 a देवि दत्त्वा. 9 काउलेस कापोती लेख्या.

4 1 b इत्थि स्त्रीकथा, अत्थं जिहेन्द्रियविषयोऽर्थं, भोजनकथेत्यर्थः. 2 a णिप्रिह नि.स्पृहः.
7 a णहखंडणु करपादनखाना खण्डनम्, सरुवपरिपुंछणु शरीरमार्जनम्, b करयलवट्टि बाहु-
च्छोटिका. 10 a णक्खळोडि नक्खच्छोटिका अङ्गुलिविकारः.

तणुरुहु तेओहामियदिणयरु
ताहं तुरिउं तुहुं करि भल्लारउं
धणणं पुरुं पविणिम्मिउं तेहउं

एयहं दोहं वि होसइ जिणवरु ।
रयणफुरंतु णयरु चउदारउं ।
मणुयहिं वण्णहुं जाइ ण जेहउं ।

घत्ता—ता णज्जइ दिणु णिच्च जहिं जा सरंवरि कमलइं वियसंति ॥

वरमणिकिरणहि तोंतडिय उग्गय रवियर णउ दीसंति ॥ ५ ॥ 10

6

तहि सयणालइ^१ सिरिअइसइयइ
पुण्णचंदसोहियमुहयंदइ
अविररयगलियदाणधारालउ
वालहिसण्हाककुखुरमणहरु
कुडिलणहरु भइरवरुंजेणरवु
कण्णतालहयमहुलिहविदहि
मालाजुयलु भिगपियकेसरु
कलसजुंयलु णवकमलु सकोमलु
सरु सररासि चारुसीहीसणु
माणिकोहु मोह^{१०}मालालउ

पच्छिमरयणिहि णिदंधइयइ ।
सिविणपंति अवलोइय णंदइ ।
भमियसिलिम्मुहोलिसोंडालउ ।
सउरहेउ रुइरंजियससहरु ।

गिरिगुहणीहरंतु कंठीरवु । 5
सिरि सरि सिचिजंति करिदहि ।
मा णिसिमंडणु भासुरु णेसरु ।
मीणमिहुंणु जलकीलाचंचलु ।
देवालउ फणिभवणु फणीसणु ।
सिहि णहयलि जलंतु चलजालउ । 10

घत्ता—एवं णिहालिवि चंदमुहि चंदकंति सुहदंसणपंति ॥

जाइवि भासइ भूवइहि सुंदरि सुविहाणइ विहसंति ॥ ६ ॥

7

महिवइ मेहघोसु णिच्चप्फलु
जसु आणइ हरि अच्छइ गच्छइ

कहइ महासइहि सिविणयफलु ।
जो सयरायरु लोउ णियच्छइ ।

४ A पुरु विणिग्गिम्मिउ. ५ A सरवरकमलइं.

6 १ A णिरु अइसइयइ. २ AP णिदंधइ. ३ A सिविणयतइ, T तइ पक्ति.. ४ AP अविरर^०. ५ A भइरवरुभजणरउ. ६ A ^०वदहिं. ७ A भिगु पिय^०. ८ A ^०मडलु. ९ AP कलसजमलु. १० A मीणजुयलु. ११ A सिहासणु. १२ A मोहु मालालउ.

5 6 a तेओहामियदिणयरु तेजसा तिरस्कृतसूर्यः. 8 a पविणिग्गिम्मिउं प्रविनिर्मितम्. 9 णज्जइ ज्ञायते. 10 तोंतडिय मिश्रा..

6 1 a सिरिअइसइयइ ओभातिशययुक्ते; b णिदंधइयइ निद्रान्धया. 3 a अविरर^० निरन्तरम्, b ^०सिलिम्मुहोलि^० भ्रमरपक्ति.. 4 a वालहिं पुच्छम्, सण्हा सान्ना गलकम्बलः; ककु ककुदम्. b सउरहेउ सौग्मेयो वृषभ. 7 माल्मीः, णिसिमंडणु चन्द्रः. 9 a सररासि समुद्रः. 10 a मोहमालालउ मयूखमालायुक्त.

7 1 a णिच्चप्फलु निश्चपल.. 2 b सयरायरु सचराचरम्.

जो परु अप्पउं परहु पयासइ
सासयसोक्खसरोरुहछप्पउ
तेरइ गम्भइ अम्भउ होसइ
डुट्टु कुवेरु देवु णवणिहिहरु
कंतिकित्तिसिरिहिरिदिहिवुद्धिउ
आयउ जायउ जणउच्छाहउ
वित्तसुरासुरपंकयविट्ठिहि
सवणि सुरिक्खइ पच्छिमरत्तिहि
जक्खणिहित्तइ दुक्खणिवारइ

जासु दोसु तिलमेत्तु ण दीसइ ।
सो अरहंतु संतु परमप्पउ ।
ता रोमंचिय णच्चिय सा सइ । 5
जा छम्मास तावं चामीयरु ।
देविउ देविहि कियैतणुसुद्धिउ ।
सग्गउ संबुउ अच्चुयणाहउ ।
जेट्टहु मासहु किण्हहि छट्ठिहि ।
थिउ उयरंतरि पत्थिवपत्तिहि । 10
पुणु णवमांस सित्तु वसुहारइ ।

घत्ता—छावट्ठिलक्खसल्लवीसहिं वि वरिससहासहिं रिद्धउ ॥
सायरसउ छट्ठिवि कोट्ठि गय थक्कउ पुणु पल्लद्धउ ॥ ७ ॥

8

जइयहुं वट्टइ णिवुइ सीयलि
तइयहुं तिहि णाणहि संजुत्तउ
फग्गुणि पयारहमे वासारि
विण्हजोइ उप्पणणउ जोइउ
आवेप्पिणु भत्तिइ तरणीलहु
सिहरकुहरथियखगरामालहु
णिहियउ पावपडलणिण्णासणि
उत्त मंत विहि सयल करेप्पिणु

णट्टउ अरुहधम्मु धरणीयलि ।
पुव्वजम्मि भावियरयणत्तउ ।
णिच्चमेव खिज्जंतइ ससहरि ।
मायइ तारहिं णयणाहि जोइउ ।
मेहलविरइयैतारामालहु । 5
अमरवरेसें णिउ सुरसेलहु ।
पंहुंसिलायलि पंचासासणि ।
खीरंभोणिहिखीरु लपप्पिणु ।

घत्ता—सायकुंभमयकुंभकर एंति गयणि णच्चंति णवंति ॥

खीरवारिधारासयहिं देवदेउ भावेण ण्हवंति ॥ ८ ॥

10

7 १ A कुवेरदेउ, २ A जाम, ३ AP क्रय°, ४ AP जणि उच्छाहउ, ५ A कण्हयछट्ठिहि,
६ A सवणसुक्खइ, ७ AP णवमानु, ८ A सिद्धउ P सिद्धउ, ९ A पुण्णद्धउ,

8 १ A फग्गुणपयारहमइ, २ AP विण्हजोइ, T विण्हजोए ज्येष्ठानक्षत्रे, ३ AP °वलडय°,
४ A पावपडल, ५ A पडसिलायलि, ६ A मंगलु सासणि.

4 a °छप्पउ भ्रमर 5 a अम्भउ अर्भकः, 11 b सित्तु सिक्त वर्णं कृतम्, 12 छावट्ठि° पट्पट्ठि.
13 पल्लद्धउ पल्यायंम्.

8 3 b खिज्जंतइ सनहरि कृष्णपक्षे इत्यर्थः, 4 a विण्हजोइ श्रवणनक्षत्रे b तारहिं उव्वलैः,
5 a तरणीलहु वृक्षे नीलस्य, 6 a खगरामालहु विद्याधरोत्तस्य, 7 पंचासासणि सिंहासने, 8 a
उत्तमंत मन्त्रा उक्ता, 9 कायकुंभ सुवर्णम्.

9

सुरपेल्लिउ णं डोल्लइ मंदरु
अलिङ्गंकारइं सरलइं सदलइं
कमलि कमलि आसीणइं हंसइं
जे कलसर ते किरं वम्महसर
वम्महसरवरोहिं जणु दारिउ
जिणु सिमु मयणहु अज्जु वि संकइ
करइ कामु घणुगुणटंकारउ
वहुएं सेयंसेण णिउत्तउ
आणिवि णयरु समण्णिउ मायहि
पणवेण्णिणु दुक्कियघणपवणहु
काले जंतं वत्थुपमाणउ

कलसहं सहसइं लेइ पुसंदरु ।
कलसि कलसि सांणिहियइं कमलइं ।
हंसइं कयकलसराणिग्घोसइं ।
वम्महारि विह्वियणरामर ।
जणवण हियवइ जिणु धारिउ । 5
तेण जि रइ थणजुयलु ण ढंकइ ।
पसरइ अच्छरउलहं वियारउ ।
सयमहेण सेयंसु पउत्तउ ।
तणयालोयणवियसियञ्जयहि ।
गयउ पुलोमपिसुणु णियभवणहु । 10
वड्डिउ पुरि तड्डलोक्कहु राणउ ।

घत्ता—हेमच्छविहि भडारहु जं दिट्टउ तं^१ णेय रहंति ॥

तासु असीइसरासणइं गणहर तणुपरिमाणु कंहंति ॥ ९ ॥

10

एकवीसलक्खइं वालत्ते
पुणु पुज्जिउ पोलोमीकंतं
रज्जु करंतहु कामरसइहं
एहउ अवसरु जायउ जइयहुं
दिट्टउ तंविणपल्लवु चूयउ
सो णं जालहि जलइ गिरारिउ
पुणु कोइलु कलसइं गज्जइ
रुणुरुणंतु अण्णाणु ण चेयइ
ता परमेसरु मणि मीमंसइ
काले कट्टइयउं अंकुरियउं

घल्लियाइं वरिसहं खेलंतं ।
किउ रज्जाहिसेउ गुणवतं ।
दोचालीसलक्ख गलियइहं ।
णाहं कीलावणि तहि तइयहुं । 5
मयणहुयासहु वीयउ ह्यउ ।
विणहीयणु तं ताविउ मारिउ ।
णं वसंतपहु पडहउ वज्जइ ।
महुयरु महु पिण्वि णं गायइ ।
अम्हारउं वणु अण्णु जि दीसइ ।
पल्लवियउं कुसुमोलिहिं भरियउं । 10

9 १ P डोलइ. २ A किल ते, P तं किल. ३ A °णिह्विय°. ४ P पुलोमविसुणु. ५ AP वत्थुवमाणउ, T वत्थुअम्मोणउ. ६ P त ते अरहते. ७ P असीसरासणइ. ८ P कइते.

10 १ AP पणवतं. २ AP णाहं कीलते वणि तइयहु. ३ AP पिण्वि. ४ P कट्टइयउं कुरियउं.

9 4 a कलसर मधुरस्वना, b वम्महारि मर्मवेधकाः. 6 a सिमु वाल, वालत्वादित्यर्थः, b ढंकइ आच्छादयति. 8 a बहुएसेयसेण णिउत्तउ बहुभिः श्रेयोभिर्नियुक्तः. 10 पुलोमपिसुणु पुलोमशत्रु इन्द्रः. 11 वत्थुपमाणउ उपमानरहित. (व्यस्तोपमान).

10 3 a कामरसइहं कामरसाद्राणाम्, b गलियइहं गलितानि अद्दानाम्. 5 चूयउ आम्रवृक्षः. 8 b महु मकरन्दो मद्य च. 9 a मीमंसइ मीमासते परिभावयति.

फलितं फलावलीहिं णं पणवइ
परिणमंतु जगु णिविसु ण थक्कइ

एही सयलहु लोयहु परिणइ ।
परिणामहु जहु जीउ ण चुक्कइ ।

घत्ता—जगु परिणामें दूसियउ णिणपरिणाम सिद्ध परमेद्वी ॥

हो^० हो अथिरेणेण महं णिच्चल तेत्थु णिरंभिवि दिट्ठी ॥ १० ॥

11

ता संपत्त तेत्थु सुरवरगुरु
सो आहंडलु तं सुरमंडलु
आयउं पुणु वि ण्हवणु किउं देवहु
विमलें सिवियाजाणें णिग्गउ
फग्गुणि कसणि एयारसिदियहइ
सवणरिक्खि उवसमियकसायउ
उववासहुवेण रिसि जायउ
णंदणरिदें एंतु पडिच्छिउ
दुइ वरिसइं विहरेप्पिणु महियलि
माहहु मासहु णिच्चंदइ दिणि
अवरणहइ तिरत्तसंजुत्तहु

तेहि तुरिउ पडिवोहिउ जगगुरु ।
तं अच्छरउलु मणिमयकुंडलु ।
णिट्ठियचरियावरणविलेवहु ।
णाहु मणोहरु णंदणवणु गउ ।
दियहाहिवि अवरसासंगइ । 5
भूवइ मुक्कभूइभूभायउ ।
सिद्धत्थउ पुरु भिक्खहि आयउ ।
सुद्धपिडु तहु तेण पयच्छिउ ।
पुव्विल्लइ वणि तुंबुरुतरुतलि ।
छेइल्लइ सवणइ मयलंछणि । 10
अवलियपत्तलपविउलणेत्तहु ।

घत्ता—संभूयउं केवलु तहु विमलु णाणु तेण तेलोक्कु वि दिट्ठु ॥

पत्तउ सामरु अमरवइ जिणु थुणंतु महु भावइ धिट्ठु ॥ ११ ॥

12

तुहं जि देउ तुह णवइ पुरंदरु
तुहं तवंगु तुह वीहइ दिणयरु

तुहं थिरु तुह पीडुल्लउ मंदरु ।
कंतिवंतु तुहं तुह ससि किंकरु ।

५ A परिणवतु. ६ AP परमेद्विहि. ७ A होही. ८ A णिच्चल तेसु णिरंभिवि दिट्ठिहि, P णिच्चलत्तेसु णिरंभिवि दिट्ठिहि.

11 १ A °वरणु. २ AP विमलि. ३ A भूयइं. ४ A omits तेण. ५ A यिट्ठु.

12 १ P मदिरु. २ A तवंगु, P तवंगु.

12 णि विनु निमेषमपि. 13 णिणपरिणाम सांसारिकपरिणामरहिता.

11 3 b णिट्ठियचरियावरणविलेवहु क्षिप्तचारित्रावरणावलेपस्य. 4 a विमलें विमल-
प्रमत्ता. 6 b मुक्कभूइभूभायउ त्यक्कविभूति त्यक्कभूभागश्च. 7 a °दुवेण द्वयेन. 9 b तुंबुरुतरुतलि
तिन्दुमीवृक्षतरे. 10 a णिच्चंदइ कृणो. b छेइल्लइ अमावास्यायाम्. 11 a तिरत्तसंजुत्तहु तिरात्र-
सुवासयुक्तम्. 13 धिट्ठु वृष्ट.

तुहुं गहीरु वरुणेणाणंदिउ
तुहुं रयतरुसिहि सिहिणा सेविउ
तुह पायगाहिं वाउ विलग्गउ
तुहुं जमपासवसेण ण बद्धउ
तुहुं जि कालु कालहु कालुत्तरु
सव्वु वि जाणसि पेच्छसि जेण जि

तुहुं अणिहणणिहि धणपं वंदिउ ।
तुहुं जि मंति^३ मंतीसहिं भाविउ ।
तो वि ण तुहुं पहु वाएं भग्गउ । 5
जमु तुह सेवाविहिपडिवद्धउ ।
तुहुं विवाइ वाइहिं दिण्णुत्तरु ।
तुहुं जि सव्वु सव्वाहिउ तेण जि ।

घत्ता—अट्टपाडिहेरयसहिउ अट्टमहाधयपंतिसमेउ ॥

समवसरणि थिउ परमजिणु कहइ समत्थंपयत्थहं भेउ ॥ १२ ॥ 10

13

कुंथुपमुह पयणावियसुरवर
रिसिहिं विणासियघोराणंगहं
अडदालइं जि सहासइं भिक्खुहुं
छहसहास अवहीपरियाणहं
ते च्चिय पंचसयाहिय संतहं
एयारहसहास वैइकिरियहं
पयडियदुम्महवम्महमारिहिं
एक्कु लक्खु वीसेव सहासइं
चउलक्खइं देसव्वयधारिहिं
अमर असंख तिरिक्ख णिरिक्खिय
एक्कवीस तहिं वरिसहुं लक्खइं
सुरवइरइयइ जणसुहसूइइ

तासु सट्टिसत्तारह गणहर ।
तेरहसयइं धरियपुव्वंगहं ।
दुसईए संजुत्तइं सिक्खुहुं ।
तेत्तिय भणु मणपज्जवणाणहं । 5
केर्वलचक्खुणिहालणवंतहं ।
पंच वि वाइहिं बहुणयभरियहं ।
संजमचाँरिणीहिं वरणारिहिं ।
दो लक्खइं सावयहं पयासइ ।
माणवमाणिणीहिं मणहारिहिं ।
सहुं संखाइ जिणिं दें आक्खिय । 10
विहि वरिसहिं विरहियइं ससोक्खइं ।
महि विहरिवि अरहंतविहइइ ।

घत्ता—गिरिसंमेयहु मेहलहि लंबियकरयलु एक्कु जि मासु ।

जिह सो तिह तणु परिहरिवि भवरु वि संठिउ मुणिहिं सहासु ॥१३॥

14

जीवेण्णिणु कयतिहुयणहरिसहं
पहु सावणपुण्णिवहि जणिट्टहि

जिणु चउरासीलक्खइं वरिसहं ।
चंदि परिट्टिइ गंपि धणिट्टहि ।

३ AP मंतु. ४ AP पहु वुहु. ५ A समत्थु.

13 १ AP अडदालसहासइं भिक्खुयाह. २ A दुइसइंसेजुत्तइं. ३ AP परिमाणहं. ४ A केव-
लिचक्खु°. ५ A वेकिरियहं, P विकिरियहं. ६ A धम्महं वम्मह°. ७ AP सजमधारिणीहिं. ८ A समक्खइं.

12 3 b अणिहणणिहि अविनश्वरानन्तजानाद्याश्रयः. 4 a रयतरुसिहि पापवृक्षेभ्य. अग्नि ;
b मंति वृहस्पतिः. 8 b सव्वाहिउ सर्वाधिकः.

13 6 a वइकिरियहं विक्रियर्दीनाम्. 7 a दुम्मह° दुर्मथः.

14 2 a पुण्णिवहि पूर्णिमायाम्.

णिव्वुउ कम्मपडलपरिमुक्कउ
 देहपुज्ज कियं दससयणेत्तं
 कलु विरसंतिहिं भंभाभेरिहिं
 उव्वंसिरंभतिलोत्तिमणारिहिं
 तुंवुरुणारयञ्जुणिझंकारहिं
 णाणाविहपुप्फाइं व धित्तइं
 दिण्णइं दीवध्व अपमाणइं
 दीवुं धूमु जो गयणि व लग्गउ
 जिणतणुसेवइ पंकु पणासइ
 णविवि णिंसिद्धि भत्तिअणुराएं

अट्टमु धराणिवीडु खाणि दुक्कउ ।
 करपंजलिघल्लियसयवत्तं ।
 णच्चंतिहि गोरिहि गंधारिहि । 5
 सुरकामिणिहिं विइण्णवियारहिं ।
 तंहिं पणवंतंहिं जलणकुमारहिं ।
 सीयलचंदणजलेण व सित्तइं ।
 णीलीकयअमरंगणजार्णहिं ।
 णाइं हुयासकलंकु विणिग्गउ । 10
 सच्चउं भासइ माय सरासइ ।
 जंतं जंपिउ सुरसंघाएं ।

घत्ता—भरहि पणट्टउ उद्धरिउ विणिवारिपिणु कुसमयकम्मु ॥
 सेयंसं बहुसेययर कुंदपुप्फदंतं जिणधम्मु ॥ १४ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरइए
 महाभव्वभरहाणुमणिणए महाकव्वे सेयंसणिव्वाणगमणं
 णाम एक्कणपण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४९ ॥

॥ सेयंसंजिणचरियं समत्तं ॥

14 १ A णिव्वुइ°. २ P किय. ३ A उव्वसरभ°. ४ AP सिहि संघुक्किय. ५ AP omit
 this line and the following. ६ AP add after this' धित्तइं चदणवंदणकट्टं, जलि-
 वइ णाट्टहु अगइं दिट्टं. ७ AP णीलु धूमु गयणगणि लग्गउ. ८ AP जिणु तणु°. ९ A णिसिहि.
 १० AP omit this line

1 b विट्ठियसयवत्तं °अतकमलेन. 5 b गोरिहि शासनदेव्या. 6 b विइण्णवियारहिं दत्तविकारं.
 13 कुसमयकम्मु कुमतानुक्रमम्. 14 बहुसेययर बहुश्रेयस्करः.

तहि सेयंसहु तित्थि दढभुयचलदप्पिट्ठहं ॥
णिसुणाहि सेणियराय रणु हयकंठतिविट्ठहं ॥ ध्रुवकं ॥

1

इह जंवूदीवि वरभरहखेत्ति
मयमत्तमहिसजुञ्झवियमहि
गोउलपयधाराधायपहिइ
पिच्चंतधण्णसंछण्णसीमि
जववालिणिरवमोहियकुरंगि
सरिसरवरजलकल्लोलमालि
वसुमइमहिलासोहाणिवेसि
रायणिहणयरि पट्टु विस्सभूइ

चवलालिचंदणामोयवंति ।
गज्जंतगामगोवालसहि ।
मंथोणयमंथियथद्धदहिइ । 5
णिरु णियेडणियडसंकिण्णगामि ।
णवगंधसालिणिवडियविहंगि ।
सयदलणिलीणभसलउलणीलि ।
कयुदुग्गहणिग्गहि मगहदेसि ।
तट्टु लहुयउ भाइ विसाहभूइ । 10

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi:—

भास्वानेककलावतोऽस्य च भवेद्यन्नाम तन्मङ्गलं
सर्वस्यापि गुरुर्बुध कविरयं चक्रे अय च क्रमः ।
राहुः केतुरयं द्विषामिति दधत्साम्यं ग्रहाणा प्रभुः
सप्रत्योदयमातनोति भरत सर्वस्य तेजोधिकः ॥ १ ॥

K does not give it anywhere In addition, P has also सया सन्तो वेसो भूसण सुद्धसील etc, which in A is found at the beginning of IL for which see page 130. In addition, P has जग रम्म हम्मं दीवओ चन्दविम्भ for which see page 165 of Vol. I. In addition, P has the following stanza.—

दीनानाथधन सदावहुजन प्रोत्फुल्लवल्लीवन
मान्याखेटपुर पुरदरपुरीलीलाहर सुन्दरम् ।
धारानाथनरेन्द्रकोपगिखिना दग्धं विदग्धप्रियं
क्वेदानी वसति करिष्यति पुनः श्रीपुण्डन्तः कवि ॥ १ ॥

A gives this stanza at the beginning of LII K does not give it anywhere.

1 १ AP दिढभुय° . २ AP चललवलि° . ३ AP °जुञ्झणविमहि . ४ AP मयाणामंधिइ थट्टुदहिइ . ५ A णियलणियल° . ६ A भसलोलिणीलि .

1 2 हयकंठ° अश्वग्रीव . 3 b चवलालि° चपला अलयो येपु ताट्टणाश्वन्दनवृक्षाः . 4 a जुञ्ज वियमहि युद्धं कारितो मद्दो समूहो यस्मिन् . 7 a जववालिणि° हालिनी .

पढमहु जइणी मृगणैयण भज्ज
पइरमियइ जइणिइ विस्सणंदि
सुय जाया वेण्णि वि णवजुवाण
ता राएं ससियैरधवलदेहु

वीयहु लक्खण णामे मणोज्जं ।
जणियउ लक्खणइ विसाहणंदि ।
अच्छंति जाम सुहुं भुंजमाण ।
गयणयलि पलोइउ सरयमेहु ।

यत्ता—णं खलमित्तसणेहुं सो सहसत्ति विलीणउ ॥

15

इहु संसारु भणंतु चित्तिं चवक्किउ राणउ ॥ १ ॥

2

जंपइ पहु जिणगुण संभरंतु
जिहं णट्टउ पवणें एहु मेहु
होसंति सिद्धिल्लं संधिप्पएस
होसंति णयण सुहिरुवभंत
होसंति सुणिव्वसाय पाय
तुहुं करहि रज्जु मइं दिण्णु भाय
ता थिउ संताणि विसाहभूइ
महि विहवसारु जरतणु गणेवि
सहुं भव्वणरिंदहं तिहिं सएहिं
एत्तहि विसाहभूइ सुराउ

सत्तंगरज्जसिरि परिहरंतु ।
णासेसइ तिह कालेण देहु ।
होसंति हंसहिमवण्ण केस ।
होसंति हत्थ णित्थामवंत ।
सुहकुहरहु णिग्गेसइ ण वाय । 5
रक्खेज्जसु णियकुलकित्तिञ्जाय ।
णिग्गिंवि गउ काणणु विस्सभूइ ।
जोईसरु सिरिहरु गुरु थुणेवि ।
थिउ अण्णउ महिवि महव्वएहिं ।
सो विस्सणंदि जुवराउ जाउ । 10

यत्ता—णंदणवणि कीलंतु हणइ मुणालें धरिणिउ ॥

पसरियदीहकरग्गु मत्तउ णं करि करिणिउ ॥ २ ॥

3

काहिं वि मयरंढें करइ तिलउ
क वि सिचियं जलगांइसएण

काहिं वि वेल्लीहरि देइ णिलउ ।
क वि जोयैइ णवजोव्वणमएण ।

७ AP मिगणयण. ८ P भजा. ९ P मणोज्जा. १० A संचियववलदेहु. ११ A पलोयउ. १२ P
मिणेहु. १३ A चित्त चमक्किउ.

2 १ AP जिम. २ P पमणें. ३ A सिधिलि. ४ A णिग्गेसइ. ५ A णिग्गवि. ६ A ठिउ.

७ A रजेहि विसाहभूइ सगउ P एत्तहि विसाहभूइ सुराउ. ८ P हण्णइ. ९ AP करि णं.

3 १ A काहि मि. २ AP सिचइ. ३ AP जोइय.

11 a पढमहु जइणी प्रथमत्य विश्वभूतेर्भार्या जैनी. 16 च वक्किउ ससाराद्धीत .

2 3 a संविप्पएस संधिप्रदेसाः; b हसहिमवण्ण श्वेताः. 4 a सुहिरुवभत सुहदां स्वरु-
पावचोक्ते भ्रान्त्युत्पादकानि b णित्थामवत निर्वला 5 a सुणिव्वसाय निरुद्यसौ, b वाय वाणी.
S a जरतणु जीर्णतृणम्. 9 b अण्णउ महिवि महव्वएहिं महात्रनैरात्मानं मानयित्वा.

3 1 a मयरंढें मकरन्देन. b वेल्ली हरि ल्लाग्हे.

काहि वि कामु व कुसुमोहु धिवइ
 काहि वि करंलीलाकमलु हरइ
 छाइयससिसूरमऊहमालि
 दीसइ काइ वि कररुह फुरंतु
 पारोहइ क वि दोलायमाण
 क वि बंधिवि मोत्तियदामएण
 साहाररसिल्लउं कणयवत्तु

घत्ता — णं वणि णालिणि दुरेहु अच्छइ णिच्चं पइट्टउ ॥

इय सो तेत्थु रवंतु लक्खणजाएं दिट्टउ ॥ ३ ॥

क वि पणयकुविय अणुणंतु णवह ।
 क वि लेविं सरोवरणीरि तरइ ।
 काहि वि ल्हिक्कइ णीलइ तमालि । 5
 काइ वि करि धरियउ दर हसंतु ।
 अवलोइय वडजक्खणिसमाण ।
 हय कुवलएण कयकामएण ।
 काहि वि तरुपल्लवु दिण्णु रत्तु ।

10

4

तओ तं णियच्छेवि रायंगएणं
 घरं गंपि सो गोमिणीमाणणेणं
 सया चायसंतोसियाणेयवंदी
 वैणं देहि तं मज्झ रायाहिराया
 ण देमि त्ति मा जंप णिच्चिण्णकण्णं
 णरिद्रेण उत्तं वैणं देमि णूणं
 दुमंते रमंतो मयच्छीण मारो
 खणेणेय पत्तो सामित्तो णवंतो
 महं भाउणा णेहवासेण दिण्णं
 कुलीणा तुमं चय मण्णंति सामिं
 अहं जामि पच्चंतवासाइं घेत्तुं
 तओ जंपियं तेण तं मज्झ पुज्जो
 थिराणं कराणं पयासेमि सत्ति

घत्ता—एवं भणेवि कुमारु अप्पउं विणपं भूसिवि ॥

गउ पच्चंतनृवाहं उवरि जांव आरूसिवि ॥ ४ ॥

15

४ A करि लीला°. ५ AP लेइ. ६ A णालिणदुरेहु. ७ P णिच्चु.

4 १ A माणिणीमाणणेण. २ A वणे देहि. ३ A वरं देवि णूणं. ४ AP सिंहासणे. ५ A रिउ पुत्त. ६ AP °णिवाहं.

3 a कामुव मदन इव. 5 a छाइय° आच्छादितः. 7 a पारोहइ वयवृक्षादौ. 8 b कयकामएण कृतस्नेहेन. 9 a साहाररसिल्लउकणयवत्तु आम्रमज्जरीयुक्तकर्णाभरणम्. 11 लक्खणजाएं लक्ष्मणा-पुत्रेण विशाखनन्दिना.

4 1 a रायंगएणं राजपुत्रेण; b वणुस्ताहिलासं वनाभिलापम्. 2 b पिऊ पिता. 3 a चाय° त्यागः. 5 a णिच्चिण्णकण्णं कर्णस्फोटनम्. 8 b पिउव्वेण पितृव्येन. 9 a णेहवासेण स्नेहवशेन.

5

ता पहुणा पणयविमहणासु
 पइसरहुं ण देतुं कयंतलीलु
 संगाममहोवहिभीममयरु
 दद्दाहरद्दु रत्तंतणेत्तु
 अईसंधिवि महुं वणु लइउं जेंव
 वीसासिवि कि हम्मइ पसुत्तु
 लक्खणहि सूणु भयभावणडिउ
 महिवलयविसइणतडयंडंतु
 विवरंतसप्पचोभिललंतु
 उत्तंगु अहंगु सुदुण्णिणरिक्खु
 अच्छोडड किंर महिवीदि जांव
 भइ पवणगमणु मग्गाणुलग्गु

दिण्णउं णंदणवणु णंदणासु ।
 तेंमारिउ सुहिउज्जाणवालु ।
 आयण्णिवि पडियाइयउ इयरु ।
 भासइ आरूसिवि जइणिपुत्तु ।
 थिरु एंवहिं भायर थाहि तेंव । 5
 कि पित्तिण्ण ववसिउं अजुत्तु ।
 तं पेच्छिवि दुट्ठु कविट्ठि चडिउ ।
 भजंतहि मूलहिं कडयडंतु ।
 उट्ठंतहि पक्खिखहिं चलवलंतु ।
 उम्मूलिउ रिउणा समउं रुक्खु । 10
 णासंतु दिट्ठु पडिवक्खु तांव ।
 धरणासइ चलपसरियकरग्गु ।

यत्ता—पुणरवि दुग्गु भणेवि आसंधिवि थिउ वइरिउ ॥
 तेण मुट्ठिघाएण खंभु सिलामउ चूरिउ ॥ ५ ॥

6

पुणु दलिइ खंभि परिगलियमाणु
 णीसासवेयवहियकिलेसु
 अवलोइवि भाइ पलायमाणु
 पभणइ मा णासहि आउ आउ
 जुवरायहु कहइ विसाहभूइ
 इहु जाउ जाउ किं आयएण
 सिलफोडणभुयमाहप्पदप्प
 जइणिंददिक्ख महुं सरणु अज्जु

वणु मेल्लिवि हरिणु व धावमाणु ।
 णीसत्थहत्थ णिम्मुककेसु ।
 करुणारसि थक्कउ सुहडमाणु ।
 तहि अवसरि पत्तउ तहिं जि राउ ।
 लइ लइ सुंदर तेरी विहइ । 5
 कि कुच्छियपुत्तं जायएण ।
 अइसंधिओ सि महुं खमहि वप्प ।
 परिपालहि तुहुं अप्पणउ रज्जु ।

5 १ AP देति. २ A ता मारिउ. ३ AP दद्दाहरोद्दु. ४ A अहिसधिवि. ५ A तडयलंतु
 ६ A °चोमल°. ७ A उत्तंग.

6 १ A वणु. २ AP णीसासु. ३ AP °हत्थु. ४ A रसथक्कउ.

5 1 a पणयविमहणासु स्नेहभञ्जकस्य. 2 a पइसरहुं प्रवेशं कर्तम्, कयतलीलु कृतान्त-
 सदृश. 3 b पडियाइयउ प्रत्यागतः. 4 a दद्दाहरद्दु दष्टोष्ठार्थः; b जइणिपुत्तु जैनीपुत्रो विश्वनन्दी.
 7 कविट्ठि कपित्यवृत्ते. 9 a °चोमल° वल्लगुण्डिका. 12 धरणासइ धारणाशया.

6 1 a परिगलियमाणु नष्टगर्वः. 2 a णीसासवेय° निश्वासवेगः; b णीसत्थहत्थ
 नि गन्धस्त.. 8 a जइणिंददिक्ख जैनदीक्षा.

घत्ता—वधववैरकरीहि णिविण्णउ नृवरिद्धिहि ॥

पुत्त पडिच्छहि पट्टु हँउं लग्गामि तवसिद्धिहि ॥ ६ ॥ 10

7

खग्गे मेहे किं णिज्जलेण
मेहे कामे किं णिद्वेण
कव्वे णडेण किं णीरसेण
दव्वे भव्वे किं णिव्वेण
तोणे कणिसे किं णिक्खणेण
हउं णिग्गुणु अवरु वि मज्झु तणउ
वियासियपकयसंणिहँमुहेण
हो जोव्वणेण हो उव्वणेण
हो पट्टणेण सुहवट्टणेण
सँहुं सयणहि जहि संभवइ वइरु
महु जणणे दिण्णी तुज्झु पुहइ
मइं पुणु जाएवउं कहिं वि तेत्थु

तरुणा सरेण किं णिप्फलेण ।
मुणिणा कुलेण कि णित्तवेण ।
रज्जे भोज्जे किं परवसेण ।
धम्मं राएं किं णिद्वेण ।
चावें पुरिसं किं णिग्गुणेण । 5
कवडेण जेहि तुह भग्गु पणउ ।
पडिजंपिउं जइणीतणुरुहेण ।
हो परियणेण हो हो धणेण ।
हो सीमंतिणित्थेणघट्टणेण ।
पित्तिय तहिं ण वसमि हउं वि सुइरु 10
जो रुच्चइ सो तुहुं करहि नृवइ ।
णिवसंति दियंवर विंझि जेतथु ।

घत्ता—तं णिसुणिवि राएण जइ वि चित्ति अवहेरिउ ॥

तो वि परायइ कज्जि पुत्तु रज्जि वइसारिउ ॥ ७ ॥

8

वइसणइ वइट्टु विसाहणंदि
संभूइ सूरि पणविवि पवित्तु
चिरु कालु चरोप्पिणु चारु चरणु

सविसाहभूइ गउ विस्सणंदि ।
दोहि वि पडिवण्णउं रिसिचरित्तु ।
किउ पित्तिएण संणासमरणु ।

५ P °वइरकरीहे णिविण्णउ. ६ AP णिवरिद्धिहि. ७ K हहउ.

7 १ A पेभ्भे; P पेमे. २ P omits कि. ३ A कवडेण जेण. ४ A °संमुहमुहेण. ५ P थण-
धट्टणेण. ६ A महु सयणहिं जं संभवइ वइरु. ७ AP णिवइ.

8 १ A वइसणे, P वइसेणइ. २ A पणवेवि चित्तु.

9 वं ध व व हर क री हि वान्धववैरजनिकया.

7 2 a मेहे मेघेन, णि द्वेण जलशुक्रयो. क्षरणरहितेन, b णि त्त वेण तपोरहितेन. 4 a णि व्व-
एण व्ययरहितेन व्रतरहितेन च. 5 a णि क्खणेण वान्धरहितेन धान्यरहितेन च. 9 a सुहवट्टणेण सुरमि-
चूणेन. 10 b पित्तिय हे पितृव्य. 12 b विंझि विन्ध्यवने. 13 अवहेरिउ अनादतः.

8 1 a वइसणइ राज्ये.

उष्पण्णु महासुक्काहिहाणि
सहभूयभूरिभूसाविहाणि
परमंडलवइवाहिणिहि छइउ
लक्खणणंदेणु हयसिरिविलासु
अणवरयवुद्धिसंधियमणेण

मणिमयविमाणि धयधुव्वमाणि ।
सोलहसमुद्दजीवियपमाणि । 5
एत्ताहि वि रायगिहणयरु लइउ ।
थिउ महुरहि जाइवि कयणिवासु ।
जीवइ कासु वि मंतित्तणेण ।

यत्ता—एत्थु ण किज्जइ दण्णु लच्छि ण कासु वि सासय ॥
जे गय गयखंधेहि ते पुणु पायहि गर्य ॥ ८ ॥

10

9

मुणि विस्सणंदि ता तहिं जि कालि
कयपक्खमासदीहोववासु
तं पुरवरु सो चरियहि पइट्ठु
णिट्ठाणिट्ठिउ जइवरवरिट्ठु
वेसासउहयलि परिट्ठिएण
उवहसिउ साहु पत्थिवचरेण
चिरु एंवहिं गाइविहट्ठियंगु
णिग्गुण णिग्घिण दुज्जण सगाव

मज्झणहवेलि खरकिरणजालि ।
कंकालसेसु गयरुहिरमासु ।
अहिणवपसूयगिट्ठिइ णिहट्ठु ।
णिवडंतु तेण पिसुणेण दिट्ठु ।
वहुजम्मणमरणुक्कंठिएण । 5
पइं रुक्खं खंभ भग्गा करेण ।
पडिओ सि विहंडियमाणसिंणु ।
खद्धो सि मज्झ पावेण पाव ।

यत्ता—तं णिसुणिवि सवणेण वद्धउं रोसणियाणउं ॥

आगामिणि भवि तुज्जु हसियहु करमि समाणउं ॥ ९ ॥

10

10

कयपक्खखाणपयासणेण
जहिं तायभाउ जायउ अदीणु

तांवहिं वि मरिवि संणासणेण ।
एहु वि दूसहतवचरणखीणु ।

३ A णदण. ४ P सासया. ५ AP ते पुणुरवि. ६ P गया.

9 १ AP णिहिट्ठु. २ रक खम. ३ AP समणेण.

4 b धयधुव्वमाणि ध्वजै. कस्यमाने. 5 a सहभूय^२ सहोत्पन्नानि. 6 a परम डलवइवा हि णि हि
यसुत्तनया. 8 मति त्तणे ण मन्वित्त्वेन.

9 3 b णि ट्ठि इ वेत्ता, णि ट्ठु निधृष्टः पातितः. 4 a णिंट्ठा णि ट्ठिउ तपश्चरणेन क्षीणः; b
पिसुणेण दृष्टेन विशाखनन्दिना. 5 a वेसासउहयलि वेण्यासौधतले. 6 a पत्थिवचरेण पार्थिव-
चरेण भूतकाले राजा इदानीं तु मन्त्रिणा. 7 b विहंडियमाण सिंणु विखण्डितगर्वशिखर.. 9 सवणेण
सुनिना. 10 समाणउं सदृशं फलम्.

10 2 a तायभाउ तातभ्राता पितृव्यः; अदीणु उदार..

तहिं देहमइ कप्पि मणोहिरामि	दहछहजलणिहिवद्धाउधामि ।
उप्पण्णउ सल्लहियंतरंगु	कस्मेण ण किज्जइ कासु भंगु ।
ते विण्णि वि सुरवर वद्धणेह	ते विण्णि वि लायण्णवुमेह ।
ते विण्णि वि णिच्चु जि सह वसंति	ते विण्णि वि तारतुसारकंति ।
ते विण्णि वि णं तिब्बंसुजोय	ते विण्णि वि कयकीलाविणोय ।
ते विण्णि वि दिवि अच्छंति जांव	एत्तहि वि अवरु संभवइ तांव ।
णिब्बेएं लइउ विसाहणंदि	जिणतवतावे तावेवि वौदि ।
माणिकमऊहोहामियक्कि	संभूयउ सो वि महंतसुक्कि ।
घत्ता—एयहं दोहं वि ताहं देवहं वियलियहरिसइं ॥	
थक्कउ आउपमाणु जइयहुं कइवयवरिसइं ॥ १० ॥	

11

तइयहुं वेयह्जारुठियाहि	विज्जाहरउत्तरसेठियाहि ।
अलयाणयरिहि पहु मोरगीउ	थिरथोरवाहु सहूलगीउ ।
देव वि रणरंगि तसंति जासु	णीलंजणपह महएवि तासु ।
जो चिरु विसाहणंदि त्ति भणिउ	सो ताइ पुत्तु हरिगीउ जणिउ ।
जाएण तेण णवजोव्वणेण	करलालियसिरिरामाथणेण ।
पडिवक्खलक्खवलदुम्महेण ।	
अहिवलयणिलयकंपावणेण	चंदक्कविचभीसावणेण ।
खयरिद्विदकंदावणेण	भूगोयरपुरसंतावणेण ।
सरणागयजणपविपंजरेण	करिणा इव दाणोल्लियकरेण ।
काणीणदीणकुलदिहिकरेण	सुहवत्तणजियमणसियसरेण ।
घत्ता—आसग्गीवे तेण रिउ हय हरिणा इव करि ॥	
असिधारइ तासिवि गहिय तिखंड वसुंधरि ॥ ११ ॥	

12

उग्गयपयावरवियरकरालु	वसुमइ भुंजंतु पईहु कालु ।
विद्धंसियवरसुहडावलेवु	परिवद्धिउ सो पडिवासुएवु ।

- 10 १ AP दहमि कप्पि सुमणो°. २ A सल्लहयतरंगु. ३ AP एत्तह वि.
 11 १ P वेजाहर°. २ AP add after this. पलयाणलजालादुस्सहेण. ३ A करिणा विय.
 12 १ AP जा वद्धिउ.

3 b दहछहजलणिहि° षोडशसागरोपमाणि. 4 a सल्लहियंतरंगु सगल्यहृदय, b कस्मेण कर्मो-
 दयेण. 7 a तिब्बसुजोय सूर्याचन्द्रमसाविव. 10 b महंतसुक्कि महाशुक्के.

11 2 a मोरगीउ मयूस्रीवनामा. 4 b हरिगीउ अश्वप्रीव. S a °कंदावणेण °क्रन्दन-
 कारिणा. 9 b दाणोल्लियकरेण मदार्द्रशुण्डादण्डेन, दानार्द्रकरेण च. 11 हरिणा सिहेन.

12 1 b पईहुकालु दीर्घ कालम्. 2 a सुहडावलेवु सुभयानां गर्वः, b पडिवासुएवु
 प्रतिवासुदेवः.

तित्थयरपवित्थियतित्थणिरहि
 वहुरमणिरमणसंपण्णविसइ
 पोयणपुरु सुरपुरसोहहारि
 भुवणेक्कीसीहु सव्वोवयारि
 तहु पढमदेवि जयवइ पसण्ण
 अण्णेक्क चारु वित्थिण्णरमण
 दोहिं वि दीविय महि तिमिरजूर
 णिवडवि अणुहुंजियसुहसयाउ
 पित्थियभत्तिज्जय वद्धपणय
 जइवइहि जाउ हिंसियसरीरु
 णारित्तणगुणग्रडियहि सइहि
 जयवंतु एक्कु तहिं विजउ गणिउं

ता पविउलजंवूदीवभरहि ।
 परिपालियधम्मि सुरम्मि विसइ ।
 तहिं वसइ णराहिउ दंडधारि । 5
 णामेण पयावइ णिज्जियारि ।
 णं विवरविणिग्गय णायकण्ण ।
 मृगणयण मृगावइ मंदगमण ।
 णिसि सिविणइ दिट्ठा चंदसूर ।
 ते दो वि देव देवासयाउ । 10
 संजाया सुंदर ताहं तणय ।
 वल्लहहु वालु णं छुद्धहीरु ।
 हुउ कणहु जि कणहु मृगावइहि ।
 वीयउ पुणु विट्ठु तिविट्ठु भणिउ ।

घत्ता—वेण्णि वि सह खेलंति भुयवलदूसियंदिग्गय ॥
 भरहदियंतपयासि पुष्कयंत णं उग्गय ॥ १२ ॥

15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्कयंतविरइए
 महाभव्वभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे वलएववासुदेवउप्पत्ती
 णाम पण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५० ॥

३ AP मिगणयण मिगा°, ४ A हिमसय°, ५ AP वलएउ. ६ A छुद्धहीरु; P छुद्धु हीरु. ७ AP
 मिगावइहि. ८ P विजउ. ९ A भणिउ. १० A गणिउ. ११ P °भूसिय°. १२ AP पुष्कयंत.

३ a °णिरहि निपापे. 7 b णायकण्ण नागकन्या. 9 a तिमिरजूर तिमिरनाशकौ. 10 b देवा-
 याउ देवविमानात्. 11 a पित्थियभत्तिज्जय पितृव्यभ्रातृव्यौ. 12 a जइवइहि जयावत्याम्, b छुद्ध-
 हीरु वाल्वन्द्रः. 13 b कणहु कृष्णवर्णः; कणहु वासुदेवः. 14 a विजउ विजयनामा बलभद्रः; b विट्ठु
 तिविट्ठु विष्णु त्रिपृष्ठवासुदेवः.

माणुसई गिलंतु भुयवलविक्रमसारें ॥
पंचाणणु भीसु मारिउ रायकुमारें ॥ ध्रुवकं ॥

1

पायणिवायपणावियमहियल
पंकयकुलिसकलसलक्खणधर
पोरिसपवररयणरयणायर
जायासीधणुतणु गुणमणिणिहि
धवल कसण सविणयपीणियजण
कायकंतिधवलियकालियणह
तेहिं बिहिहिं सो सहइ महीसिरु
जांवच्छइ हरिवीढि णिसणणउ
सो पभणइ चंगउ पालियपय
सेहीरउ रंजंतुं पढुक्कइ
कंदमाणु खयभयवेविरमणु
तं णिसुणिवि पडिलवइ पयावइ

पविमलकमलालंकियउरयल ।
रायहंससेवियं णं सुरसर ।
सम वड्ढिय ते विणिण वि भायर । 5
असिजालीकरालखलकुलसिहि ।
णावइ सरयसमय सावणघण ।
णं गंगाणइ जउंणा जलवह ।
विहिं पक्खहिं णं पुणिमवासरु ।
देसमहंतउ ता अवइणणउ । 10
भो णिवमउडकोडिलालियपय ।
माणुसु चित्तालिहिउ ण चुक्कइ ।
देवदेव खद्धउ सयलु वि जणु ।
भो भो मंति चारु तेरी मइ ।

घत्ता—जो ण करइ राउ पयहि रक्ख सो केहउ ॥

15

खणि णासिवि जाय संझाराणं जेहउ ॥ १ ॥

2

जो गोवालु गाई णउ पालइ
इट्टु महेली जो णउ रक्खइ
जो मालारु वेळि णउ पोसइ

सो जीवंतु दुद्धु ण णिहालइ ।
सुरयसोक्खु सो केहिं किर चक्खइ ।
सो सुफुल्लु फलु केव लहेसइ ।

A has, at the beginning of this Samdhi the stanza जगं रम्मं हम्म etc. for which see foot-note on page 139. P and K do not give this stanza here.

1 १ AP °पणामिय°. २ AP ण सेविय सरवर. ३ A असिधाराकराल°. ४ A जवणा.
५ AP विहिं मि. ६ A महीहर. ७ मुजतु. ८ P पढुक्कउ. ९ P चुक्कउ.

2 १ P गोवि. २ AP किर कहिं. ३ P मालायारु. ४ P सफुल्लु.

1 2 रायकुमारें राजकुमारेण लघुना. 3 a पायणिवाय° पादाघातः; b °कमलालंकिय° लक्ष्या अलंकृतम्. 4 a °कुलिस° वज्रम्; b सुरसर मानससरोवरम्. 5 a पोरिसपवररयण° पौरुष-मेव प्रधानरत्नम्. 8 a °धवलिय° धवलितं बलदेवेण; °कालिय° कालितं वासुदेवेन. 10 b देसमहं-तउ मन्त्री. 12 a सेहीरउ सिंहः. 13 a °वेविरमणु कम्पमानचित्तः. 14 a पयावइ प्रजापति राजा.

2 2 a महेली स्त्री, b सुरयसोक्खु सुरतसुखम्. 3 a मालारु मालाकारः.

जो कइ ण करइ मणहारिणि कह
जो जइ संजमजत्त ण याणइ
जो पहु पयहि पीड णउ फेडइ
जांवि रसंतु सीहु सइं मारविं
एवं भणेवि लेवि असि दारुणु
ता पंजलियरु विजउ पजंपइ
दे आपसु देव हउं गच्छमि
पेसिउ जणणं चलिउ हलहरु
णरकवालकंकालणिरंतरु

सो चिंतंतु करइ अण्णह वह ।
सो णग्गउ णग्गत्तणु माणइ । 5
सो अण्णणु अण्णणउं पांडइ ।
देसहु पडिय मारि णीसारविं ।
जावुट्टिउ णरिंदु कोवारुणु ।
पइं कुट्टेण ताय जंउं कंपइ ।
अल्लु मइंदहु पलउ णियच्छमि । 10
तें सहं चलिउ भाइ दामोयरु ।
पत्ता केसरिगिरिकुहरंतरु ।

घत्ता—भडरोलहु सीहु कुंदच्छवि उद्धाइ ॥

भाइहि आवंतु ण कयंतजसु जोईउ ॥ २ ॥

3

तिक्खणक्खणिक्खवियमयगलो
रत्तसित्तकेसरसडालओ
महिसमणुयपलकवलभोयणो
कुडिल्लुलियलंगूलचिंधओ
कंठरावणिहलियेदिकरी
वहुवलक्खमियवीरविक्रमं
तांवि तेण लहुएण भाइणा
विसतमालकालिंदिकंतिणां
मयवइस्स धरियं वला वलं
उच्छलंतदंतावलीसियं

पयविलग्गमुत्ताहलुज्जलो ।
सिसुमियंकदाढाकरालओ ।
सिहिफुलिंगापिंगलविलोयणो ।
णासगहियपडिसुहडगंधओ ।
एरिसो सरोसेण केसरी । 5
जांव देइ किर सीरिणो कमं ।
लोयजीवदाणेकदाइणा ।
करजुवं पि वामेण पाणिणा ।
वंलिविरोहिणो कस्स मंगलं ।
दाहिणेण हत्थेण णिइयं । 10

५ A अण्णह P अण्णावह. ६ A संजमु जुत्ति. P सजमजत्ति. ७ A फेडइ. ८ A सो वि रसंतु.
९ A पयंपइ. १० AP जसु. ११ A कयंतजसु P कयंतु जसु. १२ P जोविउ.

3 १ AP बहुवलक्खमियं. २ AP add after this वाहुदंडवल्लुलिय (A तुडिय) दंतिणा,
करहंमुपविण्डयमुवलंयं, वामेण चल (A वल) चरणजुयलंयं, सुहडसंगरुद्धमाणिणा. ३ AP कर-
जुयं. ४ A मइवइस्स. ५ AP वलविरोहिणो.

4 a कइ कवि. 5 a सजमजत्त संयमयात्रा. 6 a पयहि प्रजायाः. 7 a जांवि यामि गच्छामि.
8 b को वारुणु कोपारुण. 9 b जउं यम. 10 b पलउ प्रलयम्. 13 भडरोलहु बोधाना कोलाहलेन.
14 कयंतजसु इतान्तस्य यमस्य यत्र.

3 1 a णिक्ख वियमयगलो °क्षपितगज, b पयविलग्ग° पादल्लानि. 2 a °सडालओ
सदायुक्त. b सिनुमियंक° वाल्चन्द्र. 5 a °दिकरी °दिनागजः. 6 b सीरिणो कमं वलभद्रस्य उपरि
पदम्. 7 a लहुएण भाइणा त्रिपृष्टेन. 8 a °कालिंदि° यमुना. 9 a मयवइस्स मृगपतेः सिंहस्य,
वला वलात्.

ताडिओ मुहे पाडिओ हरी
माहवेण कयणिवविदोहँओ

संसिओ महीसेहिं सो हरी ।
दडूदेहिदेहंघिवो हँओ ।

घत्ता - जो पयसंताउ पलयसिहि व्व पलित्तउ ॥

सो णिहँउ मयारि लोहियसलिलें सित्तउ ॥ ३ ॥

4

करतलप्पचूरियदुग्घोदुइ
सुरसीमंतिणिकामुक्कोयणु
आया ते तं पुणरवि पोयणु
पयहिं पडंतैवऊहिय ताएं
पुणु आउच्छिउ दाणववइरिउं
तं णिसुणेवि तेण अवगणिणउं
गरुयउ सगुणपसंसइ लज्जइ
एवं ताहं बहुसंपयसारा
तावेक्कहि दिणि परमणहारउ
कहइ णरिंदहु विणु आयासें
कंठयकडयमउडकुंडलघरु
वारवार महं वयणु णिरिक्खइ

णियवळु कसिवि सीहकसवदुइ ।
लहिवि विजयलच्छिहि अवलोयणु ।
णं ससहर दिणयर गयणंगणु ।
दोण्णि मेह णं संझाराएं ।
किह केसरिकिसोरु पइं मारिउ । 5
णाविउं सीसु ण अप्पउ वण्णिउ ।
ऊणउ गुणथुइमइरइ मज्जइ ।
जंति दियह सुमणोरहगारा ।
कंचणवेत्तपाणि पडिहारउ ।
आयउ एक्कु पुरिसु आयासें । 10
ण वियाणमि कि सुरु किं णहयरु ।
तुह कर्मकमलालोयणु कंखइ ।

घत्ता—जइ अवसरु अत्थि ताँ सो पइसारिज्जइ ॥

जं भासइ किं पि तं णरेस णिसुणिज्जइ ॥ ४ ॥

5

महिणाहेण उत्तु पइसारहि
ता कणइहँ आणिवि दाविउ
तहु पणवंतहु णियडउ आसणु

पुरिसु संसामिकजरहसारहि ।
खयरु णवंतु अउव्वु विहाविउ ।
दरिसिउं मणिगणकिरणुभासणु ।

६ AP विदोहओ. ७ A हुओ. ८ AP णिहय.

4 १ A °दुग्घोदुइ. २ A सजयलच्छिहि. ३ A पडत विजोहिय, P पडंत विगुहिय, T अव-
गुहिय आलिङ्गितौ. ४ AP °वेरिउ. ५ A °पससण लज्जइ. ६ A कर्मकमला°. ७ P तो.

5 १ AP सुसामि°.

11 b हरी त्रिष्टो वासुदेव.. 12 a माहवेण त्रिष्टेन b दडूदेहिदेहंघिवो दग्धदेहिना देह एव
वृक्षः. 13 पयसताउ प्रजाना सतापः, पलित्तउ प्रदीप्तः.

4 1 a °तलप्प° प्रहार., °दुग्घोदुइ °चूर्णितदुष्टगजे b सीहकसवदुइ सिंह एव कपपट-
स्तस्मिन्. 4 a अवऊहिय अवगूढौ आलिङ्गितौ. 5 a आउच्छिउ पृष्टः. 10 a विणुआयासे खेदेन
विना; b आयासे आकारेण.

5 1 b °कजरहसारहि °कार्यगथनिर्वाहक.. 2 a कणइहँ प्रतीहाणेण; b अउव्वु अपूर्वः.

इडु भणिवि जाणितं मुहराणं
 कहिं होंतउ सुंदरणिक्केयउ
 अक्खइ विर्ययरु पालियखोणिहि
 णामिकुलणहयलवलयहु णेसरु
 रहणेउरपुरवरपरमेसरु
 वाउवेय पिययम लीलागइ
 धूय सयंपह किं वणिणज्जइ

पूयवयणहि संभासिउ राणं ।
 को तुहुं कहंसु कासु किं आयउ । 5
 रुपयगिरिवरदाहिणसेणिहि ।
 रिद्धिइ णं सयमेव सुरेसरु ।
 देव जल्लणजडि णाम खगेसरु ।
 अक्ककित्ति तणुरुहु णं रइवइ ।
 मुहससिजोण्हइ चंडु वि खिज्जइ । 10

घत्ता—थण्हारें भग्गु जाहि मज्जु किसु सोहइ ॥
 णहपंतिपहाइ तारापंति ण रेहइ ॥ ५ ॥

6

करकर्मयलइं कुमारिहि रत्तइं
 णाहिहि जइ गंभीरिम दीसइ
 भालवडु पडु व रइरायहु
 सुरणरविसहरहिययत्रियारा
 जाहि रुवसिरि णं पर पराइय
 ताणं धीय वीय णं चंदे
 दुम्मयमलकलंकपक्खालाणि
 भो संभिण्ण णिसुयजोइससुय
 भणु भणु भव्व मज्जु भवियव्वइं
 देहदित्तिणित्तेइयचंदइं
 ता संभिण्णे भणितं णिसामहि
 दाहिणभरहि सुरम्मइ मंडलि

ताहं कुमारसहासइं रत्तइं ।
 ते मुणिहिं वि गंभीरम्वं णासइ ।
 चिहुरकुडिलकोडिल्लु व आयहु ।
 णयण विसिह णं तासु जि केरा ।
 सा फुल्लंति वेल्लि जिह जोइय । 5
 वोल्लिउं सज्जणणयणाणंदे ।
 मंतिहिं अग्गइ मंतिणिहेलणि ।
 भणु भणु कासु धरिणि होसइ सुय ।
 पइं दिट्ठाइं अणेयइं दिव्वइं ।
 केवलणाणधरइं रिसिवंदइं । 10
 मइं चिरु पुच्छियं संजय सावहि ।
 धरसिहरालिगियरविमंडलि ।

घत्ता—पोयणपुरि राउ जसु जसु देवहिं गिज्जइ ॥
 पालियसम्मत्तु जो जिणणय पडिवज्जइ ॥ ६ ॥

२ AP पियवयणहि. ३ P कासु कहंसु कहि. ४ A वइयरु. ५ A जडणजडि. ६ AP थणभारे.

6 १ AP कर्मलयइं. २ AP तहि. ३ AP गंभीरिम. ४ A भालवडु पडु व, P भालवडु वडु व. ५ A णवर पराइय. ६ A णिसुणि जोइससुय P णिसुणि जोइयसुय. ७ A णित्तेयइं. ८ A धरियरिति. ९ AP पुच्छिउ.

१ सुंदरणिक्केयउ सौन्दर्यस्थानम्. ६ विवयरु खचर. ७ a णेसरु सुर्य. ९ a वाउवेय वायुवेगा. 12 णहपतिपहाइ नखपंक्तिप्रभया.

6 2 b गंभीरम्व गम्भीरत्वं धीगत्वम्. 3 a भालवडु ललाटपट्टः b आयहु एतस्य कामस्य. 4 b विसिह वाणा. 5 a णपरपराइय परेणं पराजिता. 8 a णिसुय जोइससुय हे अधीतज्योतिः-शाल. 11 b सावहि अवधिज्ञानवन्त. 14 जिणणय स्याद्वादः.

7

चिरु पुरएवहु दिग्गयगामिहि
भरहु जेण भुयदंडहिं भामिउ
पुरिसपरंपराहि तहु जायउ
जयवइ तासु देवि गरुयारी
अचल पवलभुयतोलियगुरुगिरि
विजय तिविहु णाम णिहुकर
एहु तुरंगगळु रिउँ तहु केरउ
एत्थुप्पणउ पुण्णविवाएं
भुयहि कोडिसिल संचालेवी
परियणसयणहं तुट्ठि जणेवी
उंहयसेट्ठिविजाहरराएं
एवं देव हियवइ संचारिउ

जो वाहुवलि पुत्तु जगसामिहि ।
जो जायउ पंचमगइगांमिउ ।
णाम पयावइ जो विक्खायउ ।
अवर मृगौवइ प्राणापियारी ।
ताहं विहिं वि जाया हलहर हरि । 5
समरभारैकिणकसणियकंधर ।
आसि विसाहणंहि विवरेरउ ।
मारेवउ मृगवइयहि जाएं ।
वसुह तिखंड तेण पालेवी ।
अण्णु तुहारी सुय परिणेवी । 10
पइं होएव्वउं तासु पसाएं ।
संभिण्णे संवंधु वियारिउ ।

घत्ता—ता महुं णाहेण वंधुसिणेहुं गवेसिउ ॥

हउं णामे इंदु तुम्हहं दूयउ पेसिउ ॥ ७ ॥

8

अवरु वि पहु तेरउं पहुठाणउं
रिसहहु कच्छमहाकच्छाहिव
तिह सिहिजडि रविकित्ति तुहारा
तं णिसुणिवि णरवइ रोमंचिउ
सीरिं पुण्णं सव्व पोमाइय
पुणु सो दूयउ पहुणा पुज्जिउ

अम्हारउं पाइक्काणिवाणउं ।
जिह भरहहु णाविविणामि खगाहिव ।
जिव सुहि जिव पुणु पेसणगारा ।
आणंदे परिचारु पणाच्चिउ ।
हरिणा णियभुयदंडं पलोइय । 5
तेण वि तक्खणेण गैउं सज्जिउ ।

7 १ AP °सामिउ. २ A जइवय. ३ AP मिगावइ पाण°. ४ A णिहुकर°. ५ A °भार-
कसणंकियकंधर. ६ A तुरगकंडु. ७ A omits रिउ. ८ AP मिगवइयहि. ९ AP उभय°. १० AP
°सणेहु.

8 १ AP णमि°. २ A पुण्णसत्ति, P पुण्ण सत्त. ३ A गउ, P गसु.

7 1 a पुरुएवहु श्रीऋषभस्य. 2 a भा मिउ भ्रामित.. 7 a तुरगगळु अश्वग्रीव., b वि-
वरेरउ प्रतिकूल.. 13 ग वे सि उ अवलोकित .

8 1 a पहुठाणउं प्रभुस्थानम्; b °णि वाणउ निर्माणम्. 3 b सु हि सुहद , प्रणयप्रसाधकाः
स्नेहकरा इत्यर्थः. 5 सी रि बलभद्रेण, पो मा इ य प्रशसितानि. 6 b ग उ गम गमनम्.

भूगोयरहुं गयणु कहिं गोयरु
संताणागयपणयपयासउ

इय चितिवि णरणाहि सायरु ।
तासु जि हन्थि दिण्णु संदेसउ ।

घत्ता—खग सुर सिज्जंति कामधेणु घरि दुब्भइ ॥

जं दूरु दुसज्जु तं जगि पुण्णं लब्भइ ॥ ८ ॥

10

9

इंदूयवयणइं आयणिवि
सहुं तणएं तणयाइ पसण्णइ
उद्धचलंतचमरविन्थारं
ओसारियरवियरसंताणाहिं
महुरसवसरुणुसंठियमहुयरि
मंदमंदमायंदावलिघणि
जायवेयजडि एक्कहिं वासरि
जिणपयपंकयपणवियसीसहु
आयउ इडु सुडु उक्कंठिउ
पहु मंडलियणिसेविउ चलिउ
अवरुप्परहुं वे वि गय संमुह
मिलिय वे वि दीहरपसरियकर

बंधुसणेहु सहियवइ मणिणिवि ।
अहिणवमुग्गमणोहरवण्णइ ।
विहवगहीरं सहुं परिवारं ।
आवेप्पिणु विमाणजंपाणहि ।
कीरकुररसिहिपियमाहविसरि । ७
पोयणपुरवाहिरणंदणवणि ।
थिउ विज्जापहावविरइयघरि ।
इंदुं जाइवि कहिउं महीसहु ।
तं णिसुंणिवि सहुं सुयहिं ण संठिउ ।
इयरेण वि खगदप्पु पमेळ्ळिउ । 10
णाइ तरंगिणिणाह सुहारुह ।
वेण्णि वि सज्जण णं दिसकुंजर ।

घत्ता—णियजणणविइण्णु परियाणिवि भूमंगउं ॥

रायहु रविकित्ति णविउ पणाविवि अंगउं ॥ ९ ॥

10

हरिवलेहिं ससुरउ जयकारिउ
भुयभूसणकरमंजरिपिंणिउं
हरिसंसुयजलेहिं संसित्तउ

तेण सिणेहसाहि वड्डारिउ ।
सालउ गाढुगाडु आलिंणिउ ।
सयल णिसण्ण सुमंतु पउत्तउ ।

४ P खग सुर.

9 १ A °भगमणोहर°. २ A °रुणुसंठियमहुवरि, P °रुणुसंठिय°. ३ A णिसुणि सहुं.

10 १ AP सण्णइ°. २ A °पिंणउ. ३ AP गाडु गाडु.

7 b सा यर सादरम्. 10 हुसज्जु हु साव्यम्.

9 1 a इंदूयं इन्द्रनाम्नो दूतस्य, b स हियवइ स्वचित्ते. 4 a °रवियरसंताणहि सर्व-
किरणसमूहं. 5 a महुरसवसुं मकरन्दास्वादनवगेन; b °पियमाहविं कोकिला. 7 a जायवेय-
जडि ज्वलनजटी. 8 b इंदे इन्द्रनाम्ना दूतेन. 10 b इयरेण ज्वलनजटिना. 11 b सुहारुह चन्द्रः.
13 णियजणणविइण्णु पितृवृत्तम्, भूमंगउं भ्रमङ्ग.

10 1 b सिणेहसाहि स्नेहवृद्धः. 2 b सालउ श्यालः अर्ककीर्तिः. 3 a हरिसंसुयं हर्षा-
शुज्जैः.

दिणयरु तवइ खवइ जिणु कम्मइं
सायरु गिलइ सयलसरिसोत्तइं
भंजणसत्ति महंत समीरहु
एत्थु ण कि पि वप्प कोऊहल्लु
एवं सीहु को करहिं णिपीलइ
तां जाणहुं होसइ पुण्णाहिउ
आसग्गीवजीवउड्ढावणु

वम्महु सल्लइ वाणहि वम्मइं ।
ससहरु पीणइ जणवयणेत्तइं । 5
बल्लु अइअतुल्लु तिविड्डकुमारहु ।
णहं चवेडचप्पियकुंजरकुल्लु ।
कोडिसिलायल्लु जइ संचालइ ।
हरि हरिवंदियर्णाणिहिं साहिउ ।
धुवुं माणेसइ तरुणिहि जोव्वणु । 10

घत्ता—महियर खयरिंद एहु मंतु विरएप्पिणु ॥

जहिं तं सिलरण्णु तहिं गय कण्हु लएप्पिणु ॥ १० ॥

11

णिद्ध अद्धजोयणचित्थिण्णी
जिणपयसेवा इव फल्लभाइणि
पुण्ण पवित्त पावखयगारी
कहिं वि दंतिदंतग्गहि खंडिय
कहिं वि पलिप्पइ जालावल्लणं
कहिं वि जक्खिपयघुसिणं लिप्पइ
कहिं वि णीलगलणियरहिं णीलिय
कहिं वि फुरइ घणातिमिरविमुक्कहि
कहिं वि भमियमृगंणाहिमओहें
कहिं वि वियंभिय सुइसुहगारव
सा परियंचेप्पिणु अंचेप्पिणु

णाणावणतरुवरसंछण्णी ।
वहुमुणिलक्खमोक्खसुहदाइणि ।
दीसइ सिल णं सिद्धिभडारी ।
सीहणहरचुयमोत्तियमंडिय ।
किडिदाढाणिहसणरुहजल्लणं । 5
चंदकंतजलधारइ धुप्पइ ।
वर्णयवधूमंधारं मइलिय ।
सप्पफडाकडप्पमाणिक्कहि ।
सुररहिय सेविय भमरसमूहें ।
किणरगेयवेणुवीर्णारव । 10
सिद्धसेस राएहि लएप्पिणु ।

घत्ता—पुणु भणिउ अणंतु पेक्खहुं सिल उण्णावहि ॥

हयकंठकयंतु होसि ण होसि व दावहि ॥ ११ ॥

४ A तहो चवेड°. ५ AP तो. ६ AP °णाणहिं. ७ AP धुयु. ८ P सिलरम्म.

11 १ AP अद्धजोयण° २ A फल्लभाविणि; P फल्लभाविणि. ३ AP °जल्लणं. ४ A लिप्पइ.
५ A णीलमणिणियरहिं. ६ P वणदव°. ७ AP मृगणाहि°. ८ AP सुरहियसेविय. ९ A °गारउ.
१० A °वीणारउ. ११ A उच्चावहि, P ओच्चावहि. १२ A दावइ.

5 a °सरि सोत्तइ नदीप्रवाहा. 7 b णहचवेड° नखचपेटाप्रहारः. 9 b हरिवदियणाणिहिं इन्द्र-
वन्दितज्ञानिभि, साहिउ साधिकः लोकोत्तरः. 10 a आसग्गीवजीवउड्ढावणु अश्वग्रीवजीवविध्वंसकः.
12 सिलरण्णु शिलावनम्.

11 1 a णिद्ध कान्तिमती. 2 a फल्लभाइणि फल्लभागिनी. 3 a पलिप्पइ ज्वलति,
जालावल्लणे ज्वालाज्वलनेन. 6 a °पयघुसिणं पादकुङ्कुमेन, b धुप्पइ धान्यते. 7 a °णीलगल्लं
मयूर. 12 अणंतु त्रिपृष्ठः, उण्णावहि उच्चालय.

12

ता सिल उच्चायंतहु कण्णहु
 पवरकरिकरायारहिं वाहहिं
 उरयलि णिवडियाइं सारंगइं
 पंतिणिवद्धइं कसिणइं अरुणइं
 दिद्धइं णायउलाइं चलंतइं
 गेरुयवाण्डिं वियलिउं रत्तउं
 हंसपंति णहमंडलि धावइ
 भमरामेलउ णीलउ लोलइ
 दलियइं मलियइं वेल्लीभवणइं
 णद्धइं कीलासुरणिउरंवइं

दुज्जणदेहवियारणतण्हहु ।
 पाहाणुद्वियभूसणरेहहि ।
 दसदिसि वहिवि गयाइं विहंगइं ।
 णं रिउकामिणिकंठाहरणइं ।
 णं अरिअंतइं लंवललंतइं । 5
 रूहिर णाइ वइरिहि णिगंतउं ।
 पडिमडडिमाला इव भौवइ ।
 रोसहुयासधूमु णं घोळइ ।
 णावइ खलयणपट्टणभवणइं ।
 णिग्गयाइं णं सत्तुकुडुवइं । 10

यत्ता—उंहुंडकरेहिं सिल कण्णे उच्चाइय ॥

पडिसत्तुधरित्ति हरिवि णाइं दक्खालिय ॥ १२ ॥

13

उच्चाइय सिल सोहइ तहु करि
 जं चालिय सिल सिरिरमणीसैं
 संथुउ अवरु पयावइ राणं
 संथुउ लंगलहररविकित्तिहिं
 एंवहिं तुहुं जि देव महिराणउ
 तुहुं पुरुसोत्तमु तुहुं धरणीहरु
 तुहुं इक्खाउवंसवरधयवहु
 साहु साहु तुह सोहइ विक्रमु
 एम भणंतहं घोसगहीरइं
 परिमलवहलइं वण्णविचित्तइं

अट्टमभूमि व भुवणत्तयसिरि ।
 तं सो संथुउ जलणजडीसैं ।
 संथुउ बहुमहिवइसंघाणं ।
 संथुउ सुरणरविसहरपत्तिहिं ।
 तुज्जु पुरिसु जणि णत्थि समाणउ । 5
 णिवडंतहं वंधुहुं लग्गणतरु ।
 तुह पडिमल्लु णत्थि तिहुवणि भहु ।
 अण्णहु प्हउ कासु परक्कमु ।
 कउ कलयलु दिण्णइं जयतूरइं ।
 अमरहि पंजलिकुसुमइं घित्तइं । 10

12 १ AP कसिणइं, २ AP °वाणिरु, ३ AP रुहिरु, ४ णावइ, ५ AP उडुड°,
 ६ AP कण्हेणुच्चालिय.

13 १ AP °विसहरपत्तिहि, २ A इक्खाकवंस°, P इक्खाववस°, ३ A परिक्रमु.

12 2 b पाहाणुद्विय° पाप्राणे लिखिताः. 5 b अरिअंतइं ऋवृणामन्त्राणि. 6 a गेरुय-
 वाणिउ गौरिकमित्रं जलम्. 7 b पडिमडडिमाला प्रतिभटानामस्त्रां माला. 10 a कीलासुरणिउरंवइं
 श्रीटारनाना देवानां समूहाः.

13 ± a लंगलहर° वलभद्र, b °विसहरपत्तिहि नागपत्नीभिः. 6 a धरणीहरु धरणी-
 घने राजा. 7 a °धयवहु °ध्वजपट्.

चंडहि भुयदंडहिं पडिपेल्लिय
मालालंकिइ मजडि पसत्थइ

पुणु सिल माहवेण तहिं घल्लिय ।
कालभविचि णाइ रिउमत्थइ ।

घत्ता—खगमहिवइणाह वणु मेल्लिवि पडिआइय ॥
हरिवलसंजुत्त पोयणणयरु पराइय ॥ १३ ॥

14

अहिवांदिय दहिअक्खयसेसहं
मंदिरि मंदिरि मंगलकलयल्लु
मंदिरि मंदिरि छडरंगावलि
मंदिरि मंदिरि कलस सउप्पल
ता तहिं जंपइ पुरणारीयणु
का वि भणइ इहु राउ पयावइ
का वि भणइ इहुँ सो संकरिसणु
का वि भणइ इहुँ सो णारायणु
जेण सिलायल्लु णहि संचालिउ
दीसइ रूवें वम्महु जेहउ

पुरि पइसंतहं ताहं णरेसहं ।
णधइ कामिणि घुम्मइ मइल्लु ।
वज्झइ तोरणु चित्तधयावलि ।
णिहिय वयणविलुलियपल्लवदल ।
सुहयालोयणपयडियघणथणु । 5
एहु खगाहिउ रहणेउरवइ ।
हलहरु हलि अकरंतु वि करिसणु ।
जेण सयंपहाहि हित्तउं मणु ।
जेण जसेण गोत्तु उज्जालिउ ।
पइ पुण्णाहिं जइ लब्भइ एहउ । 10

घत्ता—तं पुरु पइसिवि विरइयपणयपसायहिं ॥
वट्टारिउ णेहु खगवइमहिवइरायहिं ॥ १४ ॥

15

विहि वि विवाहु तेहिं पारद्धउ
खंभि खंभि पज्जालियपईवहिं
पवणुद्धयचिंधपम्भारहिं

कउ मंडउ रयणंसुसिणिद्धउ ।
लंवियमोत्तियदामकलावहिं ।
मरगयमालातोरणदारहिं ।

४ A °कियमउडपसत्थइ.

14 १ A पुरपयसतहं, P पुरि पयसंतह. २ A मदल. ३ AP एहु. ४ AP अकरतउ करि-
सणु. ५ P सयपयाहि.

15 १ A रयणंसुसिमिद्धउ, P रयणसुसिमिद्धउ.

11 b माहवेण त्रिपुष्टेन. 12 भविचि भवितव्यम्.

14 1 a अहिवांदिय अभिवन्दिता. 4 a सउप्पल कमल्लयुक्ताः. 5 b °पयडिय° प्रकटितौ.
7 a सकरिसणु सीरपाणिः बलभद्र, b हलि हे सखि अकरतुविकरिसणु क्षेत्रकर्षणमकुर्वाणो-
ऽपि. 8 b हित्तउ हतम्. 10 b पइ पतिर्भर्ता. 11 पणयपसायहिं प्रणयप्रसादार्दानमानादिभिः.

15 1 a रयणसुसिणिद्धउ रत्नकिरणै स्निग्ध. 2 b °कलावहि कलापै समूहैः.

वज्जंतहि पडुपडहहि संखहि
 कामिणिकरयलग्रहियसेसहि
 वियसिंधसैयदलसरलदलच्छे
 पैरिणिय सुंदरेण सा सुंदरि
 राउ मऊरगीवणिवतणुरुहु
 अद्धचक्कि चक्किकियकरयलु
 भणित तेण महिकामिणिमाणुणु
 देव तुरंगगीव बुहणिरंसिउं
 पइं णहयरणरणाहु पमाइवि
 सामणुणु वियलियगुणणियरहु

णाणावाइत्तेहिं असंखहि ।
 दियवरदेवदिण्णआसीसहिं । 5
 णियसुहिवच्छलेण सिरिवच्छे ।
 गउ चरु जहिं णिवसइ जगकेसरि ।
 खयरमउडचुंवियपयसररुहु ।
 दढभुयजुयअंदोलियपरवलु ।
 भुयणवणंतवासिपंचाणुणु । 10
 णिसुणि णिसुणि सिहिजडिणा विलसिउं ।
 पोयणपुरवइपुत्तहु जाइवि ।
 कण्णारयणु दिण्णु भूमियरहु ।

यत्ता—अह सो सामणु भणहुं णं जाइ खगाहिव ॥

जे मारिउ सीहु चालिय सिल वसिकय णिव ॥ १५ ॥

16

तं णिसुणिवि णरणाहु विरुद्धउ
 धगधगधगधगंतु चंचलसिहु
 रत्तणेत्तरुइरावियदसदिसु
 णं जेउं तिहुयणगिलणकयायरु
 चवइ सरोसु भिउडिभडभीसणु
 अज्जु जलणजडि मारिवि संगरि
 सहुं जांवापं देवि दिसावलि
 तहि अवसरि पालियनंवसासणु

णं केसरि गयगंधविलुद्धउ ।
 घयधाराहिं सित्तु णं हुयवहु ।
 पुष्पयंतु णं फणि आसीविसु ।
 परसिरिहर असिवरपसरियकरु । 5
 करतलप्पताडियरयणांसणु ।
 धिवमि कयंतवय्येणविवरंतरि ।
 भुक्खइ भग्गउ धवुं पावउ कलि ।
 रायसहासहिं मग्गिउ पेसणु ।

२ AP परणिय. ३ A °माणण. ४ A °पंचाणण. ५ P तुहुं णिरसिउ. ६ AP पोयणपुरिवइ. ७ P omits ण.

16 १ AP रत्तणेत्त. २ AP जमु. ३ A °सिरहर°. ४ AP भिउडिभय°. ५ P मयणा-
 मणु. ६ AP कयतदंतविवरतरि. ७ AP जामाए. ८ A धव, P धउ. ९ AP णिवसासणु.

5 b दियवरदेव जैनब्राह्मणा. 6 b °सुहिवच्छलेण सुहद्वत्सलेन सिरिवच्छे श्रीविष्णुना त्रिपृष्ठेन.
 7 b चरु दूत. जगकेसरि अश्वग्रीवः. 10 a °माणणु भोक्ता; b भुवणवणंतवासिपंचाणणु भुवन-
 नेव वने तन्मध्ये सिंहः. 11 a बुहणिरसिउं बुधैर्निन्दितम्. 13 b भूमियरहु भूमिचरस्य मनुष्यस्य.
 14 मणहुं ण जाइ कथितु न शक्यते; खगाहिव हे अश्वग्रीव.

16 1 a विरुद्धउ कुपितः. 2 a °चंचलसिहु चपलशिख. 4 a जउयमः. 5 b °रयणा-
 सणु मिहामनम. 7 जावाए जामात्रा; b धवु तृप्तिम्, कलि यमः.

ते णउ पेसँइ सइं संचल्लिउ
जो मयवइजीविउं उद्दालइ
सो सामण्णु ण होइ निरुत्तउं

पहु हरिमस्समंतिं वोळ्ळिउ ।
कोडिसिलायलु जो संचालइ । 10
तुम्हहं अप्पणु जाहं ण जुत्तउं ।

घत्ता—हयकंठं उचु विउस ण किं पि विवाणं ॥

किं सूरहु को वि वड्ढिमु दीसइ तेणं ॥ १६ ॥

17

मज्जु वि पांसिउं को जगि सूरउ
रयणमाल वद्धी मंडलगलि
जेण कण्ण दिण्णी भूगमणहं
सो पइसरउ सरणु देविंदहु
सो हउं कड्ढिवि^३ अज्जु जि फाडमि
सवणायणियपावरसहें
सीहु सीहु सोँडे सोसिज्जइ
तरुणीमग्गणचाडुयवतें
मणिकुंडलमंडियगंडयलइं
एवं चवेवि धीरु हुंकारिवि
संदाणियविमाणेपरिवाडिहिं
ओरुंजंतिहिं आहवभेरिहिं
णं सायरु मज्जायविमुक्कउ

को महिवइ वरवीरवियारउ ।
हउं अचगण्णिउ जाइवि महियलि ।
सो पइसरउ सरणु सिहिपवणहं ।
सो पइसरउ सरणु धराणिदहु ।
वइवसपुरवरपथें धाडमि । 5
सिल चालिज्जइ किं ण वलहें ।
एयहि साहसेहिं लज्जिज्जइ ।
किं वेहाविउ सो वरइत्तें ।
दोहं वि तोडमि राणि सिरकमलइं ।
णिग्गउ मंतिमंतु अवहेरिवि । 10
परिवारिउ चिज्जाहरकोडिहिं ।
जुयखँइ णाइ रसंतिहि मारिहि ।
महिहरमेहल रुंभिवि थक्कउ ।

घत्ता—इह दाहिणभरहि वणि जलंततणुसारइ ॥

आवासिउं सेण्णु पुप्फदंतकरवारइ ॥ १७ ॥

15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे तिविट्ठिसिंघमारणकोडिसिलुच्चायणं
णाम एकवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५१ ॥

१० AP पेसिय. ११ P हरिमंसुसुमतिहिं वोळिउ; P हरिमस्ससुमतिहिं वोळिउ.

17 १ AP पासि. २ P को वि जगि. ३ A कड्ढमि. ४ AP ०विवाणं. ५ A जुगखइ.
६ A जलतणकणसारइ, P जलवणकणसारइ. ७ AP कोडिसिलासंचालणं तिविट्ठिविवाहकह्हाण णाम.

9 b हरिमस्समंतिं हरिश्मश्रुमन्त्रिणा. 10 a मयवइजीविउं सिंहस्य जीवितम्. 11 b अप्पणु स्वय-
मेव. 12 विउस हे विद्वन्.

17 2 a मंडलगलि शुन कण्ठे. 5 b वइवसपुरवरपथे यमपुरमाणं. 6 a सवणा च-
ण्णियपावरसहें कर्णयोराकर्णितपावरशब्देन (वलीवर्देन). 7 a सीहु सीहु सोँडे सोसिज्जइ सिंहो मयं
च अष्टापदेन मयपेन च शोष्यते. 8 a ०मग्गणचाडुयवते ०यान्नाचाटुकारेण. १० वेहाविउ गर्जितः,
वरइत्तें वरेण. 11 a ओरुजतिहि अवक्खन्दि. समन्ताच्छन्द कुर्वन्दि.. 14 ०तणुसारइ तृणसमूहे.
15 पुप्फदंतकरवारइ सूर्यचन्द्रकिरणरोधके, वने इत्यर्थ .

दलियारिंदकरि रूसिवि हरि खगकुलभवणपईवहु ॥
चिरभववइरवसु आलद्धमिसु भिडिउ गंपि हयगीवहु ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—खुहियखगिंदविंदकिंकररवगज्जियगंधसिधुरो ॥
जाव तिखंडखोणिपरमेसरु चलिउ तुरयकंधरो ॥ छ ॥

तावेत्तहि पोयणणामणयारि	भूगोयरवइघरैवसियखयारि ।	5
पणवियसिरेण मडलियकरेण	सिहिजडिहि सिद्धु जाइवि चरेण ।	
भो खगवइ गिरु अण्णायवट्टि	तुज्जुप्परि आर्यउ चक्कवट्टि ।	
आरुट्टउ कण्णकारणेण	जं एव समासिउ चारणेण ।	
तं सुणिवि पयावइ तेण भणिउ	अम्हहिं सुहुं सुत्तउ सीहु व्रणिउ ।	
सो उट्टिउ एवहिं वलमहंतु	धणु लंगूलउ सरणहरवंतु ।	10
असिजीहापल्लवलललंतु	मंतिज्जइ एवहिं सो जि मंतु ।	
उवसमइ जेण सो कूरचित्तु	ता सस्सुएण सहसत्ति उत्तु ।	
तइ जलइ जलणु जइ णत्थि वारि	जइ णत्थि संति तो पडइ मारि ।	
भो आणइ मरणु पहाणवइरु	भो एत्थु ण णिज्जइ कालु सुइरु ।	
पहु लहु दीसइ जुंजेवि सामु	ता विहसिवि भासइ पढमरामु ।	15

घत्ता—सज्जणु उवसमइ खलु किं खमइ बोळंतहुं सुइमिट्टुं ॥

घिउ हुंयवहमिलिउं जललवजलिउं वप्प किं ण पइं दिट्टुं ॥ १ ॥

A gives, at the beginning of this Samdhi, the stanza दीनानाथधनं etc. for which see page 139 P gives it at L. K does not give it anywhere.

1 १ AP° वंद°. २ AP° सधुरो. ३ AP° घरि वसिय°. ४ A सो खगवइ. ५ A अण्णाय-
वत्ति. ६ A आवइ. ७ A तं णिसुणि. ८ A सुहि. ९ A धुणिउ, P वणिउ. १० A सुम्मएण.
११ AP धुउ. १२ A पढमु रामु. १३ A बोळंतहो. १४ A हुववहमिलिउ, P हुयवहि मिलिउ.

1 1 अरिंदकरि अरोन्द्रा एव करिण °पईवहु °प्रदीपत्य अश्वग्रीवस्य. 4 तुरयकंधरो
अश्वग्रीवः. 6 b सिद्धु कथितम्. 8 b चारणेण दूतेन. 9 a तेण ज्वलनजटिना. 10 b सरणहरवंतु
शरा एव नन्वा. नैः हीर्जन. 12 b सस्सुएण सुश्रतमन्त्रिणा. 13 a तइ तदा. 14 a आणइ ददाति,
पहाणवइरु प्रधानं. सह वैरम्. 17 जललवजलिउं धृतमग्निना उत्कालितं पश्चात्तन्मध्ये शीतलजललवा
अपि प्रज्वलन्ति.

2

दुवई—मित्त तिविट्टि रुट्टि गिरिधीर वि एंति ण वइरिणो रणं ॥

किं विसहंति दंति हरिणाहिवखरकररुहवियारणं ॥ छ ॥

जइयहुं अहिवलयविलंघमाण	वणि उच्चाइय सिल इलसमाण ।
मइं जाणितं तइयहुं कैहि वि कालि	देवहुं पेक्खंतहं भडवमालि ।
तोडेसइ हयकंधरहु सीसु	रत्तच्छिवत्तुं भूभंगभीसु । 5
को हालाहलु जीहाइ कलइ	को करयलेण हरिकुलिसु दलइ ।
को गयणि जंतु अहिमयरु खलइ	को णियवलेण धरणियलु तुलइ ।
को कालु कयंतहु माणु मलइ	को जलणि णिहित्तु वि णाहि जलइ ।
को फणिवइफणमणिणियरु हरइ	को पडिय विज्जु सीसेण धरइ ।
को भंडइ सहं महं भायरेण	तां जंपित्तं मंति सायरेण । 10
भो सीराउह तुहिणयरकंति	जं पइं जाणितं तिह तं ण भंति ।
लइ तो वि देव किज्जइ परिक्ख	उवइसहु कुमारहु मंतसिक्ख ।
वीयक्खराइं मणि संभरंतु	आसीणु सत्तरत्ते तुरंतु ।
जइ साहइ विज्जादेवयाउ	तो करइ परहं मरणावयाउ ।
विज्जासाहणविहिभयभिण्णु	ता ससुरएण उवएसु दिण्णु । 15
थिउ द्वाणारूढउ हलि उविंदु	सत्तमदिणि कंपाविउ फणिट्टु ।

यत्ता—विज्जाजोइणित्त वरदाइणित्त हरिरांमहु पणवंतित्त ॥

रिउजमइइयउ खणि आइयउ देहु णियमु पभणंतित्त ॥ २ ॥

3

दुवई—गारुडविज्ज पुज्जं संसाहिय हरिणा भुवणखोहिणी ॥

अवर महंतसत्तुसंचूरणि पवर वि णाम रोहिणी ॥ छ ॥

2 १ A °विलवमाणे. २ A °समाणे. ३ AP तहि. ४ AP रत्तच्छिवंतु ५ A °कुडिसु. ६ A °फणिवइफणिमणु. ७ AP तो. ८ A मते सायरेण. ९ AP सत्तरत्तित्त. १० A हरिरायहो. ११ P दूइओ.

3 १ A पुज्ज. २ A सयल महंत सत्त°; P सयलमहतु सत्तु°. ३ AP अवर वि.

2 1 ए तिण नागच्छन्ति. 2 °कररुह° नखा. 3 b इलसमाण पृथ्वीसहिता 4 b °वमालि कोलाहले. 5 b रत्तच्छिवत्तु रक्ताक्षवक्त्रम्, शत्रुमस्तकम्. 6 a कलइ सृष्टाति, b हरिकुलिसु इन्द्र-वज्रम्. 7 a अहिमयरु सूर्य. 9 b विज्जु विद्युत्. 11 a सीराउह हलायुध बलभद्र. 12 b उवइसहु उपदिशत. 13 a वीयक्खराइ मन्त्राराधना, b सत्तरत्ते सप्त दिनानि. 14 b मरणावयाउ मरणरूपा आपदः. 16 a हलि उविंदु बलभद्रनारायणौ. 18 णियमु आदेशम्.

3 2 अवर अपरा, पवर प्रवरा.

खर्गधंभणी	वलणिसुंभंणी	
गयणचारिणी	तिमिरकारिणी ।	
सीहवाहिणी	वद्दरिमोहणी ।	5
वेयगामिणी	दिव्वकामिणी ।	
विवरवासिणी	णायवासिणी ।	
जलणवरिसिणि	सलिलसोसिणी ।	
धरणिदौरणी	कुडिलमारणी ।	
बंधमोयणी	विविहरूविणी ।	10
मुक्ककौतला	लोहसंखला ।	
छइयदसदिसी	कालरक्खसी ।	
वयणपेसला	विजयमंगला ।	
रिक्खमालिणी	तिक्खसूलिणी ।	
चंदमउलिणी	सिद्धवालिणी ।	15
पिंगलोयणा	धुणियफणिफणा ।	
थेरि थुरुहुरी	घोरंघोसिरी ।	
भीरुभेसिरी	पलयदंसिरी ।	
इय सणामहं	दिण्णकामहं ।	

घत्ता—पंच समागयइं विज्जहं सयइं दक्खवंति सवसित्तणु ॥ 20
तोसियवासवहं वलकेसवहं धरि करंति दासित्तणु ॥ ३ ॥

4

दुवई—विज्जागमणमुणिइ हरिपोरिसि पसरियसिरिविलासए ॥
णिहय पयाणभेरि जगभइरव वियलिइ सयणसंसए ॥ छ ॥

विज्जाहरमहिहरणाह वे वि	जडणजडि पयावइ धुरि करेवि ।
चलियइं सेणणइं रिउरणमणाइं	वलएववासुएवहं तणाइं ।
णहु कंपइ कंपंतहि धएहिं	महि हल्लइ गच्छंतहिं गएहिं ।

४ AP °धंभिणी. ५ AP °णिसुंभिणी. ६ AP °सोसिणी. ७ P °दारिणी. ८ AP विविहकुतला.
९ AP °घोसिणी. १० A विज्जहं सयइ.

4 १ P °गमणु मुणिइ. २ A सइणसंसए. ३ A जडणजडि.

6 a वेयगामिणी वेयगामिनी. 7 b णायवासिणी नागपाशिनी. 13 a °पेसला मनोहरा. 14 a रिक्खमालिणी नक्षत्रमाला. 15 a चंदमउलिणी चन्द्राच्छादिनी. 19 b दिण्णकामहं वाञ्छित-प्रदानाम् 20 सवसित्तणु स्ववशित्वम्.

4 1 °मुणिइ ज्ञाने; हरिपोरिसि हरिपोरुपे. 2 वियलिइ विगलिते स्फेट्तिने.

रह चिक्रवंत चल चिक्ररंति
जाएं हरिखुरधूलीरण
भडरोलें सुत्तुड्डिउ कयंतु
जोइय जणेण परवीरजूर
णं अट्टहास बहलंधयार
गच्छंतवारणारूढदेह
झल्लरिमुइंगकाहलरवेण
कुसुमियपियालककोलएलि

पडिवक्खमरणु णं वज्जरंति ।
धूसरिउ सूरु दूरंगएण ।
छत्तहि संलण्णउं दहदियंतु ।
सोमुग्गदेह णं चंद सूर ।
णं उवसमरस सिगारंभार । 10
हलहर हरि णं सियअसियमेह ।
दियहेहि गंपि सर्वरुच्छवेण ।
तहि थक्क संदणावत्तसेलि ।

घत्ता—पवणचलंतियहिं धयपंतियहि णहु णं उप्परि घुलियउं ॥

णच्चियनृवणडिहि पिहुपडकुडिहि खोणीयलु चित्तलियउं ॥ ४ ॥ 15

5

दुवई—चिंचिणिचारचूयचवचंपयचंदणवद्धकुंजरे ॥

थिइ पडिवलि तुरंगहिलिहिलिरवे सयडावत्तगिरिवरे ॥ छ ॥

जोएवि सिविरु णवघणसरेहि
अरिपुरवरघरसंदिण्णडाहु
आढत्तउ जिणु वम्महसरेहि
आढत्तउ खज्जोएहिं भाणु
आढत्तउ केसरि जंबुएहि
आढत्तउ गयवरु गइहेहि
आढत्तउ रइवइ कइयवेहि
भो देवदेव संधियसरेहि

विण्णविउ णवेप्पिणु चरणेरहिं ॥
विज्जाहरभूयरभूमिणाहु ।
आढत्तउ आहंडलु णरेहिं । 5
आढत्तउ तरुणियरं किसाणु ।
आढत्तउ जैउं जीवियचुएहि ।
आढत्तउ मंतुग्गमु गहेहि ।
आढत्तउ मोक्खु वि जडतवेहि ।
आढत्तउ तुहुं णियकिंकरेहिं । 10

४ P धर. ५ A सिगारहार. ६ P समरु°. ७ AP णिवणडि°.

5 १ A °चारचूयधव°; P °चारचूयधय. २ A पडिवलतुरंग°. ३ AP जमु. ४ A पत्तगमु.
५ AP कइवएहिं. ६ P जडभवेहिं.

6 a चिक्रवंत चीत्कार कुर्वाणा. 7 a हरिखुर° अश्वखुरा. 9 b सोमुग्गदेह सौम्यदेह उग्रदेहश्च.
11 b सियअसियमेह शुक्लशरन्मेषः कृष्णमेघश्च. 12 b सवरुच्छवेण सन्नामोत्साहेन. 13 b सदणा-
वत्तसेलि स्यन्दनावर्तपर्वते. 15 नृवणडिहि नृपनटीभिः, पिहुपडकुडिहिं विस्तृतपटकुटीभिः.

5 २ थिइ पडिवलि स्थिते शत्रुसैन्ये, सयडावत्त° शकटावर्ते पर्वते. 3 a णवघणसरेहि
नवमेघगभीरध्वनिभिः. 4 a °डाहु अग्निः. 6 b किसाणु अग्निः. 7 b जीवियचुएहि मृतकैः.
8 b मनुग्गमु मन्त्रोच्चारः. 9 a कइयवेहिं कपटैः.

रहणेउरवइ णरवइ सवंधु
अण्णेक्कु पयावइ पोयणेसु
अण्णेक्कु मुसलि तहिं कसणवासु
कि अक्खमि पहुसामत्थु तासु

सहुं णंदणेण चंदाहिचिंधु ।
आरुहु सुहु खयकालवेसु ।
अण्णु वि जो दिद्वउ पीयवासु ।
देव वि संकाइ णवंति जासु ।

घत्ता — णिसुणिवि तुह चलणु खलयणमलणु देवयाउ साहेप्पिणु ॥ 15
वलइयधणुवल्य णं खयजलय थिय महिहरि आवेप्पिणु ॥ ५ ॥

6

दुवई—चवइ खगिदचंदु करवालविहंडियतुरयकरिसिरे ॥

रत्ततरंतमत्तरयणीयरि णिहणविं रिउं रणाइरे ॥ छ ॥

ता कहइ मंति णामे विहाउ
जइ आणालंधणु कयउ तेहिं
एहउ आयारु णराहिवाहं
सो दूयउ जो भासापवीणु
सो दूयउ जो अहिमाणि दाणि
सो दूयउ जो गंभीरु धीरु
सो दूयउ जो परचित्तलक्खु
सो दूयउ जो बुद्धियविसेसु
सो दूयउ जो कयसंधिणामु
सो दूयउ जो णिदिद्वमंतु
सो दूयउ जो उवइद्वइद्व
सो दूयउ जो रिउहियसूलु
णिवसंतगरुयखंधाररोलु
पणवेवि तेण पालियविसिद्वु

जगडिंभहु एवहि तुहुं जि ताउ ।
सुय दिण्ण पडिच्छिय पत्थिवेहि ।
पेसिज्जउ दूयउ को वि ताहं । 5
सो दूयउ जो पंडिउ अदीणु ।
सो दूयउ जो मियमहुरवाणि ।
सो दूयउ जो णयवंतु सूरुं ।
सो दूयउ जो पोसियसपक्खु ।
सो दूयउ जो सुविसिद्वेसु । 10
सो दूयउ जो वज्जरियसामु ।
सो दूयउ जो कुलजाइवंतु ।
सो दूयउ जो संगामि चहुं ।
सो दूयउ पेसिउ रयणचूलु ।
तं गच्छिवि गिरिगहणंतरालु । 15
अत्थाणि णिविद्वु तिविद्वु दिद्वु ।

घत्ता — दूएं वज्जरिउं पहु विष्फुरिउ दिव्वपुरिसंणुणजाणउ ॥

गुणिगहणुज्जि तुहुं अणुहुंजि सुहुं पेक्खु णवेप्पिणु राणउ ॥ ६ ॥

७ A चदाहचिंधु, T चंदाहविधु चन्द्रनागविवाः. ८ A आरुहु.

६ १ A खगिदचंदु. २ A णिहणिवि. ३ A मियमहुरवाणि. ४ A अभिमाणि दाणि. ५ A सारु. ६ A सुविसुद्वेसु. ७ P उवइद्वइद्व. ८ P संगामि चहु. ९ A ते वि. १० A ०पुरिसु. ११ AP गुणिगहणुज्जि.

11 b णंदणेण अर्कक्रीतिना, चं दा हि चिंधु चन्द्रवदुज्वलसर्पध्वजः. 12 a आरुहु रुष्टः; सुहु अति-
शयेन. 14 a मुसलि विजयो ब्रह्मत्र, कसणवासु नीलाम्बरः. 15 चलणु गमनम्.

6 1 खगिदचंदु खगोन्द्राणा मध्ये चन्द्रः. 2 ०रयणीयरि राक्षसे, रणाइरे रणाजिरे रणरक्षे.
3 a विहाउ विधाता, b ताउ पिता. 5 b पेसिज्जइ प्रेयताम्. 9 a परचित्तलक्खु परमनोज्ञायकः.
10 b सुविसिद्वेसु समीचीनवपः. 11 a कयसंधिणामु कृतसंधानः. 14 b रयणचूलु रत्नचूडनामा.
17 दिव्वपुरिसणुणं देवपौरयवलात्रलम्. 18 गुणिगहणुज्जि गुणिग्रहणे ऊर्जस्वी.

7

दुवई—जा मंगिय णिवेण खगसुंदरि सा तुह होइ सामिणी ॥ ;

देवि णमंसणिज्ज सा कामहि किं कामंध कामिणी ॥ छ ॥

मा रसउ काउ चप्पिवि कवालु
मा सरसयणीयलि सुयउ ताउ
मा उट्टुउ रहचूरणाणिहाउ
दीसउ मा सयणहं मरणहेउ
मा रहिरु कालवेयालु पियउ
मा करउ मृगावइ पुत्तदुक्खु
पहुदोहवहलधूमोहमलिणिं
रायहु दोयहि सां तुहं कुमारि

भक्खंतु म गिद्ध भडंतजालु ।
मा पोयणपुरवरु खयहु जाउ ।
भजंतु म चामरछत्तकेउ । 5
रसवससमुद्धकंकालसेउ ।
मा सूरकित्ति जमकरण णियउ ।
मा छिज्जउ हलहरकप्परुक्खु ।
जलणजडि पडउ मा पलयजलणि ।
मा हकारहि णियगोत्तमारि । 10

घत्ता—जाणियणयणिवहु कयवइरिवहु मंतवलु वि जो बुज्झइ ॥

जेण तिखंडधर जिय ससुरणर तेण समउं को जुज्झइ ॥ ७ ॥

8

दुवई—म करि कुमार किं पि रोसुंभडवयणे वलिसमप्पणं ॥

करगयकणयवलयपविलोयणि हो कि णियहि दप्पणं ॥ छ ॥

तं सुणिवि भणिउं विट्ठरसवेण
अण्णाणु हीणु मज्जायचत्तु
भरहहु लग्गिवि रिद्धीसमिद्धु
सो घइं पुणुं जायउ विहिवसेण
संताणागय महं तणिय धरणि
दण्णिट्ठु दुट्ठु नृवणायभट्टु

भो चारु चारु भासिउं णिवेण ।
मग्गंतु ण लज्जइ परकलत्तु ।
रायत्तणु कुलि अम्हहं पसिद्धु । 5
विणडिउ परणारीरइरसेण ।
कि णक्खत्तं जइ तवइ तरणि ।
मरु मारिवि धिवमि तुरंगकंठु ।

7 १ A मंगिय खगेण णिवसुंदरि. २ AP मरणभेउ. ३ A सगरसमुद्. ४ AP मिगावइ.
५ A छिज्जइ. ६ AP हलहर. ७ AP तुहं सा. ८ A धरा.

8 १ A रोसुंभडवयणावलिसमप्पणं; P रोसु भडवयणि. २ P कणगवलय°. ३ A विट्ठरसवेण.
४ A रयणत्तयकुलि. ५ AP पइ, but K घइं and gloss पादपूरणार्थे. ६ AP जायउ पुणु.
७ AP णिवणाय°.

7 1 म गिय याचिता, णिवेण अश्वग्रीवेण. 2 कामहि वाञ्छसि. 3 a रसउ काउ काकः
शब्दं करोतु, b भडतजालु योधानामन्त्रजालानि. 5 a °णिहाउ शब्द. 6 b ककालमेउ अस्त्रा सेतुः
7 b जमकरण यमकिंकराः, णयउ नयन्तु. 9 a पहुदोह° राजद्रोहः.

8 2 णियहि पश्यसि. 3 a विट्ठरसवेण विट्ठरश्रवसा विण्णुना. 4 a मज्जायचत्तु त्यक्त-
मर्यादः. 5 a भरहहुलग्गिवि चक्रिण भरतमारभ्य. 6 a घइ पादपूरणे.

तं णिसुणिवि दूयं वुत्तु एंव पाउसि कालंविणि रसइ जेव ।
किं वरिसइ भुवणु भरंति तेंव वोळंतु ण संकहि वण्ण केव । 10

घत्ता—अग्गइ घणर्थणिहि सीमंतिणिहिं णु वोळंतहुं चंगउं ॥

अच्छउ असि अवरु पडुकरपहरु तुह ण सहइ ललियंगउं ॥ ८ ॥

9

दुवई—भासइ विस्सेणु भो जाहि म जंपहि चप्फलं जणे ॥

तुह पइणो महं पि दीसेसइ वाहुवलं रणंगणे ॥ छ ॥

तं णिसुणिवि दूयउ गउ तुरंतु	कोवग्गिजालमालाफुरंतु ।
हयगीवहु कहइ अहीणमाणु	परमेसर रिउ पोरिसणिहाणु ।
अहिणवविसट्टकंदोदुणेत्तु	ण समप्पइ तं परिणिउं कलत्तु । 5
संधाणु ण इच्छइ गरुडकेउ	दीसइ भीसणु णं धूमकेउ ।
जिह सकइ तिह विजावलेहि	भिडु मुसलहिं सूलहि सव्वलेहिं ।
ता पभणइ पडु पीडियकिवाणु	एवहिं हउं सोहमि जुज्झमाणु ।
किकर णिहणंतहं णत्थि छाय	मा को वि भणेसइ हय वराय ।
अविहेयविहंडणि कवणु दोसु	उग्घोसहु लहुं रणरहसघोसु । 10
दुद्धमदणुं दप्पविमहणेण	एत्तहि वि मृगौवइणंदणेण ।
अवलोयहुं अवलोयणिय विज्ज	पेसिय खंगपुंगव वंदणिज्ज ।
भडथडगयग्रडरहंसंपउणु	आइय जोइवि पडिवक्खसेणु ।

घत्ता—कण्हहु देवयहिं पुण्णागयहिं गुणपणामसंपणुणंउं ॥

संत्ति अमोहमुहि तूसवियसुहि धणु सारंगु विइणुणउं ॥ ९ ॥ 15

८ A °यणिहे. ९ A सीमतिणिहे. १० AP सहेइ.

9 १ AP वीससेणु हो. २ P °दणुदणु°. ३ AP मिगावइ°. ४ P खगपुंगम. ५ AP °रह-
दणपउणु. ६ AP °सपुणुणउ. ७ AP सत्तियमोहमुहि.

9 b पाउसि वर्षाकाले कालंविणि मेघमाला. 11 अग्ग इ घ ण थ णि हिं स्त्रीणामग्गे.

9 1 विस्सेणु विग्गस्सेनो विण्णुः, चप्फलं चापल्यम्. 2 पइणो स्वामिन. 4 a अहीण-
माणु मानाधिक. 5 a अहिणवविसट्टकदोदुणेत्तु अभिनवविकसितपद्मनेत्र. 7 b सव्वलेहिं लोह-
मयी धार्मा. 9 a छा य शोभा. 10 a अविहेयविहंडणि अविनीताना हनने. 11 a °दणु° दानवः.
12 a अवलोयहुं विलोकितुम्. 14 देवयहिं देवीभिः गुणपणामसंपणुणंउं प्रत्यञ्चानमनयुक्तं धनुः.
15 सारंगु बलवत्.

10

दुवई—आणिवि सुरवरेहिं चिरु रक्खिउ मंगलञ्जुणिणिणाइओ ॥

जलयरु पंचयण्णु कोत्थुहमणि असि हरिणो णिवेइओ ॥ छ ॥

अण्णु वि गय हय गय दिण्ण तासु

वलएवहु लंगलु मुसलु चारु

दसैदिसवहधाइयकिरणजाल

कंचणकवयंकिउ धवलदेहु

गुण्णविउ सरासणु धरिउ केव

सेयइं चिंधइं उप्परि चलंति

छत्तइं णं जयजसससिपयाइं

धरियइं पाइक्कहिं पंडुराइं

दीहरदाढावियडाणणेहिं

पक्खरिय सत्ति हिलिहिलिहिलंत

हणु हणु भणंत मच्छरविमीस

रणतूरसहासइं ताडियाइं

कोमुइ णामें दामोयरासु ।

गय चंदिमं णामें हत्थियारु ।

दिण्णी उरि घोळइ रयणमाल । 5

णं संझाराणं सरयमेहु ।

मुट्ठिहि माइउं सुकलत्तु जैव ।

णं कित्तिवेल्लिपल्लव ललंति ।

णं गोमिणिपोमिणिपंकयाइं ।

विणिवारियदिवसाहिवकराइं । 10

रहवरु कट्ठिउ पंचाणणेहिं ।

कैयसारिसेज्ज गय गुल्लुगुलंत ।

संणद्ध सुहड पणावियहलीस ।

कुलगिरिवरसिहरइं पाडियाइं ।

घत्ता—गेज्जावलिमुहलि रंजियंभसलि अरि करिदपसरियकरि ॥ 15

अविरयगलियमइ हरि मत्तगइ चडिउ सीहु णं महिहरि ॥ १० ॥

11

दुवई—थक्को धयवडम्मि पक्खुग्गयपवणुडुवियपाडिणिवो ॥

चलचंचेलेचुंचुंवियचंदक्कधरो खगाहिवो ॥ छ ॥

संणद्धु पयावइ दीहवाहु

उच्चारिवि जिणवरणाममंतु

हुयवहजडि हुयवहफुरणातिव्वु

असितडिहरु णं खयसलिलवाहु ।

संणाहु लइउ मणि जिगिजिगंतु ।

तहु तणुरुहु भुयवलगाहियगञ्जु । 5

10 १ A हयरह दिण्ण. २ AP चदियणामें. ३ A दहदिहहवधाहिय°, P दहदिसिवहधाइय.
४ P गुण्णमिउ. ५ AP कय सज्ज सारि. ६ P वाडियाइं. ७ A रंजियभसलि. ८ AP अविरल°.

11 १ AP °चंचेलेचुंचुंविय°. २ A °चंदक्कधरो. ३ A उच्चाइवि.

10 2 जलयरुपचयण्णु शंखः पाञ्चजन्य, णिवेइउ दत्त. 3 a गय गदा. 4 b हत्थियारु आयुधानि. 5 a °वह° मार्गः. 9 a जयजसससिपयाइं जय एव यश. तदेव शर्मा तस्य स्थानानि. 11 b पंचाणणे हिं सिंहैः. 12 a सत्ति सप्तयोऽश्वा. 15 a गेज्जावलिमुहलि ग्रैवेयकावलीभिः मुखरे. 16 हरि कृष्णः.

11 2 °चंचेले° वक्त्रम्, चुंचुवियचंदक्कधरो° स्पृष्टचन्द्रसूर्यविमानः खगाहिवो गरुट्. 5 b तहु तणुरुहु अर्ककीर्तिः.

पहरणइं लेंतु रणदारुणाइं

संचोइउ कुंजरु गजमाणु

णिच्चिच्चुं चें रोमंचएण

भहु को वि ण खग्गहु देइ हत्थु

भहु को वि ण लावइ घुसिणु अंगि

घत्ता—हरिसं को वि णरु थिरथोरकरु धर्णुहरु जं जं णावइ ॥

पीडिउं कडयडंइ मोडिवि पडइ तं तं थावहुं णावइ ॥ ११ ॥

दिव्वइं वायव्वे वारुणाइं ।

णउ गेण्हइ दिण्णउं देहताणु ।

कंपाविय रिउ कंपियधएण ।

परपहरणहरंणि सया समत्थु ।

रावेसइ तणु रिउरुहिरु अंगि । 10

12

दुवइं—विहसिवि सुहइ भणइ लइ गच्छमि दारियकरिवरिंदहो ॥

काइं सरासणेण किं खग्गे महुं रणवाणि मइंदहो ॥ छ ॥

भहु को वि भणइ जइ जाइ जीउ

भहु को वि भणइ रिउं एंतु चंडु

भहु को वि भणइ पविलंविंयंति

भहु को वि भणइ हलि देइ ण्हाणु

भहु को वि भणइ कि करहि हासु

भहु को वि भणइ जइ मुंहु पडइ

भहु पियहि सरंसु वज्जरइ कामि

भहु को वि भणइ असिधेणुयाहिं

भहु को वि भणइ हलि छिण्णु जइ वि

भहु को वि सरासणदोसु हरइ

भहु को वि वद्धतोणीरजुयलु

भहु को वि भणइ कलहंसवाणि

घत्ता—परवल अब्भिवि रिउसिरु खुडिवि जइ ण देमि रायहु सिरि ॥ 15

तो दुक्कियहरणु जिणतवचरणु चरविं घोरु पइसिवि गिरि ॥ १२ ॥

तो जाउ थाउ लुहु पहुपयाउ ।

मइं अज्जु करेवउ खंडखंडु ।

मइं हिंदोलेवउं दंतिदंति । 5

सुइदेहें दिज्जइ प्राणदाणु ।

णिग्गविं सिरिण रिणु पत्थिवासु ।

तो महुं रंडुं जि रिउं हणवि णडइ ।

हउं रणादिकिखउ सरु मोक्खगामि ।

जसदुद्ध लेमि णरसंथुयाहिं । 10

महुं पाउ पडइ रिउंसउंहुं तइ वि ।

सरपत्तइं उज्जुय करिवि धरइ ।

णं गरुडसमुद्धुयपक्खपडलु ।

महुं तुहुं जि सक्खि सोहग्गखाणि ।

४ AP वायव्वह. ५ A णिच्चिच्चुं चें रोमं, P णिच्चिच्चें सररोमं, T णिच्चिच्च निरन्तरम्. ६ AP °हरणु सया. ७ AP लावेसइ. ८ P धणहरु. ९ A कडयलइ. १० P थामहु.

12 १ A करेवउ. २ P हिंदोलिखउ. ३ AP सुइदेहइं. ४ AP पाणदाणु. ५ AP तुंडु. ६ A सरिसु. ७ AP रिउसमुहुं. ८ AP गरुडु

8 a णि चि च्चुं चें निरन्तरेण उच्चेन च. 10 b गवेसइ रङ्गियति. 11 णावइ नामयति. 12 थावहु णावइ वल न धरति.

12 2 मइंदहो सिहत्थ. 3 b पहुपयाउ प्रभुप्रताप. 5 a पविलंविंयंति प्रविलम्बितानि अन्त्राणि यस्य तस्मिन्, b दतिदति गजदन्ते. 6 सुइदेहें शुचिदेहेन. 7 b णिग्गविं स्फेय्यामि; रिणु ऋणम्. 8 b रंडु कयन्वः, णडइ नृत्यति. 11 b रिउसउंहुं रिपुसंमुखम्. 13 b °समुद्धुयं कम्पितम्. 14 b सक्खि साधिणी.

13

दुवई—लुहि लोयणाइं मुद्धि मा रोवहि हलि भत्तारवच्छले ॥

बंधविं तुह हयारिकरिमोत्तियकंठिय कंठकंदले ॥ छु ॥

पंडिविद्धुविद्धुणिव्वाहणाहं

संणज्झंतहं विहि साहणाहं ।

वहु कासु वि देइ ण दहियतिलउ

अहिलसइ वइरिरुहिरेण तिलउ ।

वहु कासु वि धिवइ ण अक्खयाउ

खलवइ करिमोत्तियअक्खयाउ । 5

वहु कासु वि करइ ण धूवधूसु

मग्गइ पडिसुहडमसाणधूसु ।

वहु कासु वि णप्पइ कुसुममाल

इच्छइ लैलंति पिसुणंतमाल ।

वहु कासु वि ण थवइ हत्थि हत्थु

तुह लग्गउ गयंघडणारिहत्थु ।

वहु कां वि ण झुणइ सुमंगलाइं

आवेक्खइ अरिसिरमंगलाइं ।

वहु कासु वि णउ दावइ पईवु

भो कंत तुहुं जि कुलहरपईवु । 10

वहु कासु वि पारंभइ ण णट्टु

संचितइ सत्तुकबंधणट्टु ।

वहु का वि ण जोयइ कि सिरीइ

पिययमु जोएवउ जयसिरीइ ।

घत्ता—वहु पभणइ भणमि हउं पइं गणमि तो तुहुं महुं थण पेल्हहि ॥

भग्गइ णिययवलि जइ भडतुमुलि खग्गु लेवि रिउ पेल्हहि ॥ १३ ॥

14

दुवई—वालालुंचि करिवि जुज्जेज्जसु विसरिसवीरगोंदले ॥

अरिकरिदंतमुसलि पउ देप्पिणु देज्जसु कुंभमंडले ॥ छु ॥

कुंजरघडघल्लियमुहवडाइं

वंसग्गविलंविधयवडाइं ।

कुंकुमचंदणचच्चियभुयाइं

परिहियमणिकंचणकंचुयाइं ॥

करलुहियगाहियवहुपहरणाइं

णियसामिकेज्जि णिच्छयमणाइं । 5

काणीणदीणढोइयधणाइं

मडकलयलवहिरियतिहुवणाइं ।

विलुलंतचित्तणेत्तंचलाइं

अहिणांदियकलसजलुप्पलाइं ।

चलचरणचारवालियधराइं

डोलावियगिरिविवरंतराइं ।

13 १ P पडिविद्धु. २ AP कखइ but K खलवइ and gloss अभिलपति. ३ A ललत.

४ A गयघडि. ५ AP कासु वि ण कुणइ मगलाइ.

14 १ A ०कज्जणिच्छय०.

13 1 लु हि लो य णा इ प्रसार्जय लोचने, मा रो व हि रोदन मा कुरु. 5 b ख ल व इ अभिलपति.

7 a णप्पइ न अर्पयति. 9 a झुणइ गान करोति, b अरिसिरमगलाइं अरिशिर.कपालानि.

13 पेल्हहि पीडय. 14 पेल्हहि पीडयसि.

14 1 वालालुचि केसाकेशियुद्धम्, विसरिस० असदृशा, ०गोदले सग्रामे.

ढलहँलियधुलियवरविसहराईं
झलझलियवँलियसायरजलाईं
पयहयरयछइयणहंतराईं
करिवाहणाईं सर्पसाहणाईं
आयईं अणणणहु संमुहाईं

भयँतसिररसियघणवणयराईं ।
जलजलियकालकोवाणलाईं । 10
अणलक्खियहिमयरदिणयराईं ।
हरिहरिगीवाहिवसाहणाईं ।
असिँदाढालइं णं जँवमुहाईं ।

घत्ता—संचोइयगयईं वाहियहयईं रणरसहारिसविसट्टइं ॥

दूरुज्झियभयईं उब्भियधयईं वे वि वलइं अब्भिट्टइं ॥ १४ ॥ 15

15

दुवईं—वेणिण वि दुद्धराईं दुणिरिक्खइं कयणियपहुपणामईं ॥

कण्णाहरणकरणरणलंगइं जयसिरिगहणकामईं ॥ छ ॥

णरचरणचारचारियगयाईं
अब्भिट्टिय सुहड गय कायराईं
वावल्लभल्लससल्लियाईं
लुलियंतकौंतंभिण्णोयराईं
चल्लमुक्कचक्रदारियउराईं
णिवडंतछत्तधयचामराईं
कयखगाविमाणसंगट्टणाईं
विजाहरविजाव्वारणाईं
जंपाणकवाडविहट्टणाईं

हरिखरखुरवडणुग्गयरायाईं ।
खपूरियदिसगयणंतराईं ।
सोणियजलधारारेल्लियाईं । 5
करवालखलणखणखणसर्राईं ।
लउडडीहयचूरियरहधुराईं ।
नृवकडयमउडमणिपिंजराईं ।
किकिणिमालादलवट्टणाईं ।
सरपूरियमारियवारणाईं । 10
मंडलियमाणणिल्लोट्टणाईं ।

घत्ता—दिण्णालिंणणइं कयतणुवणइं दंतपंतिदट्टोदुइं ॥

लुंचियकौंतलंइं विणिण वि वलइं जिह मिहुणइं तिह दिट्टइं ॥ १५ ॥

२ AP हलहलिय° . ३ AP भयरसियतसिय° . ४ AP °चलिय° . ५ P सुपसाहणाइ . ६ P आयहिं .
७ AP °दाढा इव . ८ AP जममुहाइं .

15 AP °रणि लगइ . २ P °खुरखणु° . ३ A °भल्लसरसल्लियाइं ; P °भल्लरससल्लियाइं .
४ A °कंतभिण्णो° . ५ A वरमुक्क° . ६ P लउडडियहयचूरिरह° . ७ AP णिव° . ८ A विजाकारणइं .
९ AP °कुंत° .

9 a °विसहराईं °सर्पाणि . 11 a °छइय° आच्छादितम् . 12 b हरि° कृष्ण , हरिगीव° अश्वप्रीवः .
13 b जँवमुहाइ यममुखानि . 14 अब्भिट्टइ विकसितानि . 15 उब्भियधयइं ऊर्ध्वीकृतध्वजानि ;
अब्भिट्टइं सवट्टं प्रातानि .

15 3 b °खुरवडण° खुराघात . 4 a गयकायराइं गताः कातरा भीरवः . 6 a लुलियंत°
भिन्नानि अन्त्राणि . 7 b लउडडीहय यष्टिहता . 8 b नृवकडय नृपकटकं हस्तभूषणम् . 9 b °दलवट्ट-
णाइ चूर्णकरणानि .

16

दुवई—तो^१ हरिगीवरायसेणावइ धूमसिहो पधाइओ ॥

सिरिहरिमस्सुवीरसहिउ हरिसेण जगे ण माइओ ॥ छ ॥

तेण घाइयं महिणिवाइयं ।

विलुलियंतयं पडियदंतयं ।

पहरजजरं लगभयजरं ।

5

दारिओयरं छिण्णगलछिरं ।

रत्ततंवरं चम्मलंवरं ।

विहिविणिदिरं कलुणकंदिर ।

घित्तचामरं तुट्टपक्खरं ।

फुट्टमहलं मुक्ककोतलं ।

10

विहुरवेभलं णिग्गयं बलं ।

बद्धमच्छरं तोसियच्छरं ।

कडुयजंपिरं धीरकंपिरं ।

रुंडणच्चिरं कुंतखच्चिरं ।

भडवियारणं कुंभिदारणं ।

15

भिडियवारणं सिरणिलूरणं ।

सुहडकलयलं गहियहुलहुलं ।

चम्मभिंदिरं गत्तछिंदिरं ।

कवयसंजुयं णियवि संजुयं ।

सुरपसंसिरं धुणियं गयसिरं ।

20

भग्गरहंवरं पडियहयवरं ।

खग्गखणखणं दारुणं रणं ।

पक्खिसंकुलं रक्खसाउलं ।

दंतिदंतयं छिण्णछत्तयं ।

घत्ता—माहवबलवइणा कयरणरइणा णिययसेणु साहारिउं ।

25

कुलु विहिविणडियउं दिसिविहडियउं पुत्तेण व उद्धारिउं ॥ १६ ॥

16 १ A ता हयगीव^०, P तो हयगीव^०. २ A धूमसिहोवधाइओ. ३ AP ^०मस्सुवीरस-सहिउ. ४ A हरिसें जगे ण माइओ. ५ P वम्मलविर. ६ P भिग्गयं. AK write in margin the portion beginning with बद्धमच्छर down to छिण्णछत्तय. ७ P धीर कपिर. ८ P कुंतयच्चिरं. ९ A धुणिवि गयसिर. १० AP ^०रहभरं. ११ A भग्गखणखणं, P खग्गखणखणं. १२ P षणं. १३ P दंतिदंतयं. १४ A छिण्णछिण्णय; P adds विहुरविभलं, भग्गयं च(व ?)लं.

16 2 सि रि हरि मस्सु^० श्रीहरिम्मश्रुनामा वीर. 3 a तेण धूमशिखसेनापतिना. 8 a वि हि-वि णि दि रं विधेनिन्दाकरणशीलम्. 11 a वि हुर वे भ लं दु खविह्वलम्, b णि ग यं त्रासितम्. 17 b ग हि य-हु ल हु लं गृहीतहस्तशूलम्. 19 b णि य वि ट्टा. 26 सा हरि उ धीरितम्. 27 दि सि वि ह डि य उं दिशासु विघटितम्.

17

दुवई—भीमपरक्कमेण भीमेण वि णासियभीमवईरिणा ॥

पचारिय भिडंत भड वेण्णि वि सुरवहुहिययहारिणां ॥ छ ॥

हरिमस्सं काइं पइं मंतु दिट्ठु
हक्कारिउ कि णियप्राणणासु
कुद्धइ तिविट्ठि भुवणेक्कसीहि
ता धूमसिहं भासिउ सरोसु
पंहिलउं पहुणा भुत्ती मणेण
सिहिजडिणा सामिविरोहणेण
दरिसावमि तुह जमरायथात्ति
ता वे वि लग्ग ते सेण्णणाह
वेण्णि वि चालियदिच्चक्कवाल
वेण्णि वि उग्गामियचावदंड
वाणेहि वाण णहयलि खलंति
पुणु भीमं मुक्कउ अद्धयंदु
रिउदेहमेहि सो पइसरंतु

किं मगिउ परतूर्यरणु इट्ठु ।
एवहि पइसेसहु सरणु कासु ।
तडितरलदीहकरवालजीहि । 5
घरदासि हंरंतहुं कवणु दोसु ।
पच्छइ तुम्हहुं दिण्णी अणेण ।
किं एएं जडसंवोहणेण ।
लइ पहरु पहरु जइ अत्थि सत्ति ।
वेण्णि वि सुरकारिकरसरिसवाह । 10
वेण्णि वि जयकारियसामिसाल ।
वेण्णि वि आमेल्लियकुलिसकंड ।
तंण्हसणरुह हुयवह जलंति ।
धूमसिहहु णं अट्टमउ चंदु ।
दिट्ठुउ सुहिणयणहु तमु करंतु । 15

घत्ता—मारिवि धूमसिहु खयकालणिहु खाणि हरिमस्सु णिहत्तंउ ॥

णवर करंतु कलि भड देंतु वलि असणिघोसु संपत्तउ ॥ १७ ॥

18

दुवई—सो जियसत्तु णाम धरणीसं जममुहकुहरि ढोइओ ॥

सरविसहरणिरुद्ध वरपरिमलु चंदणतरु व जोइओ ॥ छ ॥

तओ कंपणेसो

समुप्पणरोसो ।

महेणं महंतो

णहंतं पिहंतो ।

17 १ A °वइरिणो. २ A °हारिणो. ३ AP हरिमस्सु. ४ AP परतिय°. ५ AP पाण-
णासु. ६ A °तरड°. ७ A हणंतहं. ८ AP पहिली पहुणा. ९ A तं णिहसिवि णर हुववह. १० AP
णिहत्तउ.

18 १ AP °णिरुद्ध. २ A °परिमल.

17 1 a हक्कारिउ आकारितः. 8 b जडसंघो हणेण जडविवादेन. 9 a जमरायथात्ति
यमगृहम्. 13 b तंण्हसणरुह तेषा वाणाना परस्परवर्षणेनोत्पन्ना. 14 a अद्धयंदु अर्धचन्द्राकारो
वाण. 16 णिहत्तउ मारितः. 17 भड देंतु वलि भयान् वलि ददत्.

18 1 सो अशनिघोषः. 2 सरविसहरणिरुद्ध द्वारा वाणा एव विपधरास्तैर्वेष्टित. 3 a कंपणे सो
कम्पनो राजा. 4 b पिहंतो आच्छादयन्.

कराईह्वावो	महाभीमभावो ।	5
सदप्पं चवंतो	सरोहं सवंतो ।	
धए णिल्लुणंतो	गइंदे हणंतो ।	
हए कप्परंतो	णरे चप्परंतो ।	
जवेणं चरंतो	रणे वावरंतो ।	
परं णिक्खिवेणं	जएणं णिवेणं ।	10
खुरुप्पेणं मिण्णो	कयंतस्स दिण्णो ।	
जयस्सावलुद्धो	जमो णं विरुद्धो ।	
रउहारिमहो	पहू खेयरिंदो ।	
पियारत्तचित्तो	सयं झत्ति पत्तो ।	
मरुद्धयच्चिंधो	सतोणीरिखंधो ।	15
दिसालग्गकित्ती	तहिं अक्ककित्ती ।	
थिओ अंतराले	भडाणं वमाले ।	

धत्ता—तेणे ससामियहुं गयगामियहुं रूसिवि दिण्णउ उत्तरु ॥
देव पराइयहि कारणि तृयहि किं आढत्तउ संगरु ॥ १८ ॥

19

दुवई—लज्जिज्जइ रणेण णित्तेणं दुज्जसमलिणकारिणा ॥
ओसरु जाहि राय किं एणं पुरिसगुणोहहारिणा ॥ छ ॥

ता भणित्ता समरभरुधुरभुएण	णीलंजणपहदेवीसुएण ।	
रे अक्ककित्ति गुरुसिक्खवंतु	लज्जहि ण केंव विप्पित्तु चवंतु ।	
तुह ताएणं अवरु वि पइं सदप्प	जं आणालंघणु कयउं वप्प ।	5
तहु लग्गउ हउं णियपरिहवासु	सस तेरी पुणु मणु हरइ कासु ।	
ता रविकित्ति दीवियदियंतं	सुपिसक्क मुक्क धगधगधंगंत ।	
खगणाहहु खंडित्तु चावदंडु	गुणवंतु तो वि किउ खंडंखंडु ।	

३ AP कराइद्ध°. ४ AP सरोसं वहतो. ५ A omits this foot. ६ P जमो णाविरुद्धो.
७ P सतोणीरकधो. ८ AP तियहे.

19. १ AP °धुरभुएण. २ A °दियंति. ३ A °धगंति. ४ AP खडु खडु.

6 b सरोहं सवंतो वाणसमूहं वर्षेन्. 8 b चप्परंतो अभिभवन्. 12 a जयस्सावलुद्धो जयस्य लोमिष्ठः 17 b वमाले कोलाहले.

19. 1 णित्तेणं निस्तेजसा अन्यायेन. 5 a सदप्प हे सगर्व. 6 a णियपरिहवासु निज-पराभवस्य, b सस स्वसा. 7 a रविकीत्ति अर्ककीर्तिना.

अण्णेकु सरासणु झ त्ति लेवि	राएण तासु वाँणं हणेवि ।
चूडामणि पाडिउ विप्पुरंतु	णं णहँयलि णिवडिउ रवि तवंतु । 10
मौरुयचलंतचलमयरकेउ	तावंतरि थक्कउ कामदेउ ।
वंधंतु ठाँण संधंतु वाणु	तेणक्ककित्ति मौरिज्जमाणु ।
रक्खियउ पयावइराणएण	धणुवेयविवेयवियाणएण ।
केसरिणा णं तीसिउ कुरंगु	किँउँ पाराउड्डउ तँ अणंगु ।
ससिसेहरेण पडु पोयणेसु	मेहँ पच्छाइउ णं दिणेसु । 15
अंतरि पडिसिवि तिणयणु तिसूलि	सिहिजडिणा णिज्जिउ चंदमडलि ।

घत्ता—किँकरुँ हयगलहु पालियछलहु कोवँ कहिँ वि ण माइउ ॥
 णामँ नीलरहु णं कुरगहु अवरु खयरु उद्धाइउ ॥ १९ ॥

20

दुवई—पभणइ चावपाणि रे सिहिजडि जं पइं दुक्कयं कयं ॥
 तं हयगीवदेवपयपंकयदोहफलं समागयं ॥ छ ॥

हो कि वोळ्ळमि	मौरमि घळ्ळमि ।	
एव चवेप्पिणु	भुय विहुणेप्पिणु ।	
आउहु दावइ	धावइ पावइ ।	5
किँकरि किँकरि	कुँजरि कुँजरि ।	
खरखुरखयधरि	हरिवरि हरिवरि ।	
णयणाणंदणि	संदणि संदणि ।	
चप्पिवि लग्गइ	रंगइ णिग्गइ ।	
थामँ वग्गइ	भंडणु मग्गइ ।	10
पइसइ दूसइ	रंजइ रूसइ ।	
हिसइ तासइ	दीसइ णासइ ।	
दुक्कइ हक्कइ	कोक्कइ थक्कइ ।	
रिउं पच्चारइ	चूरइ जूरइ ।	
खलइ णिवारइ	दारइ मारइ ।	15

५ AP वाणेहिँ हणेवि. ६ A णहयलणिवडिउ. ७ A reads a as b and b as a. ८ AP कामएउ. ९ A वंधंतु तोणु. १० P पारिज्जमाणु. ११ AP णासिउ. १२ A थिउ पारद्विउ गरुउ अणगु. १३ A किँकर.

20. १ AP दुक्किय. २ AP मारिवि. ३ A भजइ.

11 b काम देउ प्रजापतिमहाराज. 14 b पाराउड्डउ पराइमुखः. 15 a ससि सेहरेण चन्द्रशेखरेण. 16 a तिणयणु चन्द्रशेखर. 17 किँकर भृत्यो नीलरथः, हयगलहु अश्वग्रीवस्य.

20. 2 °दोहफलं द्रोहफलम्. 10 a थामँ वलेण.

करिकरचंडिहिं	लालांपिंडिहिं ।	
दंतादंतिहिं	कौंताकौंतिहिं ।	
णैरकिलिविंडिहिं ^६ ।		
केसाकेसिहिं	पासापासिहिं ।	
उवलाउवलिहिं	मुसलामुसलिहिं ।	20
इय सो जुज्जिउ	भीमुहउज्जिउ ।	
दुंदुहिसदें	ता बलहदें ।	
अरि हक्कारिउ	दइवें पेरिउ ।	
सो वि पराइउ	चावविराइउ ।	
णं णवजलहरु	विद्धउ हलहरु ।	25
तेण उरत्थलि	उट्टियकलयलि ।	
कंपियणियवलि	हरिसियपरवलि ।	
बाहुसहाणं	जयवइजाणं ।	
सीरें ताडिउ	उद्धु जि फाडिउ ।	
णीलरहाहिवि	हइ कइ जयरवि ।	30

घत्ता—णाणाणहयरहिं संधियसरहिं सहयहिं सगयहिं सरहहिं ॥
वेदिउ जिब्बहरु दूसहपसर वलुं चित्तंगयपमुहहिं ॥ २० ॥

21

दुवई—मायासाहणाहं मयवंतहं माणियपहुपसायहं ॥
पक्कें हलहरेण राणि जित्तइं सत्तसयाइं रायहं ॥ छ ॥

सुयरिवि पहुदिण्णी तुप्पधार	केण वि विसहिय रिउखग्गधार ।	
सिरु ल्छिण्णउं णिग्गय रत्तधार	गय एंव वप्प धाराइ धार ।]	
केण वि सुयरिवि पहुअग्गविडु	इच्छिउ पडंतु णियमासपिडु ।	5
केण वि सुयरिवि पहुचीरु रम्मु	मण्णिउ लंवंतु सदेहवम्मु ।	

४ A णायभुवदडहिं. ५ A किलिवदिहि. ६ AP add after this दडादडिहिं. ७ A भीउहउ-
ज्जिउ. ८ A सयलहि. ९ A चलचित्तगय.

21 १ P °साहणेहिं. २ A सुमरिवि, P सुअरिवि. ३ A रूपधार. ४ A सुअरिउ, P सुअ-
रिवि. ५ AP °अग्गपिंडु. ६ A सुमरिवि, P सुअरिवि.

16 b लाला पिं डि हिं गजमुखाग्रकाष्ठै.. 18 a °कि लि विं डि हिं बाहुच्छोटिकाभि 19 b पा सा पा सि हिं
नागपाशादिभि . 21 b भी मु ह उ ज्जि उ भयमुखरहितो नीलरथ . 23 a अ रि नीलरथ.. 29 a सीरें
हलेन. 30 b ह इ हते सति. 32 जिब्ब ह र वलभद्र .

21 1 °सा ह णा ह सैन्यानाम्. 3 a प हु दि ण्णी प्रभुणा भोजनवेलाया दत्ता. 5 a प हु अ ग-
विं डु प्रभुणा दत्त प्रथमाहारपिण्ड .

केण वि सुयरिवि पडुदिणु गांउं
 केण वि सुयरिवि पडुचामराइं
 पडुसुकियभरहु वंकेवि वयणु
 केण वि सुयरिवि पडुछत्तछाहि
 केण वि सुंमरिवि पत्थिवपसाउ
 केण वि सुयरिवि पडुपालियाइं
 दुव्वारवइरिमग्गणविहत्तु
 कासु वि रणमंदिरसांमिणीइ

छंदिउं णियजीवियभूयगांउं ।
 सलहियइं पक्खिपक्खंताराइं ।
 केण वि पडिवणुणउं वाणसयणु ।
 आसंघिय घणसरपुंखछाहि । 10
 चक्खिउ अरिवीरपहारसाउ ।
 मयगलकुंभयलइं फालियाइं ।
 भल्लारउं धीरउं रायरत्तु ।
 हियवउं लइयउं सिर्वेकामिणीइ ।

वत्ता—कासु वि सिरकमलु ओट्टउंउदलु गिद्धु सचंचुइ चालइ ॥ 15
 परिनोसियजणहु महिवइरिणहु णं मोल्लवणु णिहालइ ॥ २१ ॥

22

दुंवई—ता सहस त्ति पत्तु हरिकंधरु पभणइ तसियवासवो ॥
 भो भो कहसु कहसु कहिं अच्छइ सो महु वइरि केसवो ॥ छ ॥

ता उत्तु कण्हेण भो मेइणीराय
 जाणिज्जए अज्ज दोण्हं पि रुसेवि
 कुट्टेण सिरिकुमुइणीपुण्णयंदेण
 संगामरामारइच्छाणिउत्तेण
 कण्णामुहालयसुहदिण्णराएण
 रत्तो सि कि मूढ गयणयरवालाहि
 णवकंदकालिदिमसलउलकालेण
 जम्मंतरावड्वइराणुयंघेण
 परद्विणपरधराणिपरधरिणिकंखाइ

सोहं रिउ केसवो एहि णिण्णाय ।
 को हणइ सिरु लुणइ रणरंगि पइसेवि ।
 अलयाउरीसेण खेयरणरिंदेण । 5
 तं सुणिवि पडिलविउं सिहिगीवपुत्तेण
 भग्गो सि किं मित्त वरइत्तवाएण ।
 ओसरसु मा पडसु खग्गगिजालाहि ।
 कोवारुणच्छेण भंगुरियभालेण ।
 पडिउत्तु पडिकण्हु चलगरुलविधेण ।
 णडिओ सि पाविट्टु किं चोरसिक्खाइ ।

७ A गाउ P गामु. ८ A उड्डिउ. ९ A °गाउ, P °गामु. १० A सुअरिउ P सुअरिवि. ११ A पालियाइ. १२ A °साभिणीहिं. १३ A कामिणीहिं. १४ A उदुलदलु.

22. १ AP पुण्णइंदेण. २ A कण्ठो महा°. ३ P गयणयलवालाहि. ४ AP °णुव्वेण.
 ५ A पडिलविउ.

7 a °गाउ ग्राम b °गाउं ग्राम समूहः. 8 b सलहियइं श्लाघितानि. 11 b °पहारसाउ प्रहार-
 न्वादः. 13 a °विहत्तु विभक्तः खण्डित, b रायरत्तु राजि रक्तमनुरक्तम्. 15 ओट्टउउदलु ओष्ठ-
 पुट्टलम्.

22. 1 हरिकंधरु अश्वग्रीवः. 3 b णिण्णाय परस्त्रीवाञ्छया अन्यायकारकः. 4 a रुसेवि
 गेयं कृत्वा. 5 a °पुण्णयंदेण पूर्णचन्द्रेण. 6 a °णिउत्तेण °नियुक्तेन. 8 a गयणयरवालाइ खेचर-
 कन्यायाम्. 9 a णवकदं श्रावणमंत्र. 10 b पडिकण्हु अश्वग्रीवः.

एवं पजंपंत कंपवियमहिवट्ट करिदंतपरिहट्टभुयदंडसुपवट्ट ।
 दाण्णिट्ट गिरु रुट्ट दट्टोड्ड भडजेड्ड ते वे वि अम्मिड्ड वईकुंठहयकंठ ।
 ते वे वि मणिमउडकुंडलसुसोहिल्ल ते वे वि कोदंडमंडलविलासिल्ल ।
 ते वे वि णं सीह लंबवियलंगूल ते वे वि णं लग्ग संजंतं सहूल । 15
 ते वे वि विसविसम ते वे वि तडितरल ते वे वि मरुचवल ते वे वि कुलधवल ।
 घत्ता—वेण्णि वि दाणणिहि सिरितोसविहि मयपरवस उज्झियभय ॥
 वेण्णि वि दीहंकर गंभीरसर राणि लग्गं णं दिग्गय ॥ २२ ॥

23

दुवई—वेण्णि वि अच्छरच्छिच्छिच्छोहणियच्छियवद्धमच्छरा ॥
 वेण्णि वि णं जलंतपलयाणल वेण्णि वि णं सणिच्छरा ॥ छ ॥

रिउणा ण णिट्टविउ	कण्हेण पट्टविउ ।	
जहिं सप्पु तहिं गरुलु	जहिं अग्गि तहिं सलिलु ।	
जहिं सिहरि तहि कुलिसु	जहिं तुरउ तहिं माहिसु ।	5
जहि विडवि तहि जलगु	जहिं मेहु तहिं पवणु ।	
जहि रत्ति तहि दियहु	जहि सीहु तहि सरहु ।	
जहिं कालुं सोंडालु	तहि कुडिल्लु दाढालु ।	
केसरि पवित्थरइ	णहरेहि उत्थरइ ।	
जहिं भीमु वेयालु	तहि मंतु असरालु ।	10
जुंजेवि कोवेण	गोविंददेवेण ।	
रिउणो णिहित्ताउ	विज्जाउ जित्ताउ ।	
जुज्जेवि भूवेहिं	पडिवक्खरूवेहिं ।	

घत्ता—वहुंरूविणिण सुरकामिणिण खगवइ भणिउ ण सकामि ॥
 हलहरसिरिहरहं पहरणकरहं माणु मलंतु चवक्कमि ॥ २३ ॥ 15

६ A कंपइय महिपट्ट. ७ A °पविहट्ट°. ८ P वइकुंत°. ९ A रूजतसहूल. १० A दीहरकर.
 ११ A लग्ग णं.

23 १ P °विच्छोहा णियच्छिय. २ A कुडिसु. ३ A कोलु. ४ AP कुडिल. ५ A मति.
 ६ A जुंजेवि, P ज जं वि. ७ P has पुणु before बहु°. ८ AP मलंति चम°.

12 b °परिहट्ट° परिघृष्टौ. 13 b वइकुंठहयकंठ कृष्णाश्वग्रीवौ. 16 a वि स वि स म विषवद्विपमौ.

23 1 अच्छरच्छिच्छिच्छोहणियच्छिय° देवाङ्गनालोचनचापत्यविलोकननिमित्तम्. 2 सणि-
 च्छरा शनैश्चरा.. 7 b सरहु अष्टापदः. 8 a कालुसोंडालु कृष्णगजः. 13 b पडिवक्खरूवेहि
 अश्वग्रीवरूपैः. 15 चवक्कमि विभेमि.

24

दुवई—जंपिउं ह्यगलेण कि केण वि तिहुयणि धीरु हीरण् ॥
महुं णियवाहुदंडथिरसहयैर पइं किर काइं कीरण् ॥ छ ॥

तेणेव भणेप्पिणु मुक्क सत्ति
गयणयलि एंति उरयलि धुलंति
विप्फुरिय धरिय दामोयरेण
चंद्रणचच्चियकुसुमंचियंगु
उग्गामिउ णाइं जगखइ खयक्कु
वोल्लियउ पयावइपुत्तु एम्ब
गोवालवाल अत्रिवियभाव
इय भणिवि तेण घल्लिउ रहंगु
तं देवि पयाहिण पहर्यतासु
गहगहियदिवायरलील वहइ
आयासहु णिवडिउ पुष्पवासु
संभरु तुहुं जिणवरणाहचरण
ता भणइ सुहइ रणरंगडुक्कु

मेहें चलविज्जु व धगधगंति ।
चल पलयकालजाल व जलंति ।
संकेयागय णारि व णरेण । 5
परिमलमिलंतगुमुगुमियाभिगु ।
पुणु पडिवक्खें करि लेवि चक्कु ।
एवहिं पइं णउ रक्खंति देव ।
दे देहि कण्ण मा मरहि पाव ।
तं पेक्खिक्खि केण ण दिण्णु भंगु । 10
चडियउ दाहिणकरि केसवासु ।
णं हरिसुहमहिरुहकुसुमु सहइ ।
रिउ कण्हि पवोल्लिउ सो सहासु ।
अहवा लँइ महुं पइसरहि सरणु ।
हउं मण्णमि एउं कुलालचक्कु । 15

घत्ता—पइं पुणु मणि गणिउं चंगउ भणिउं भिक्खागयहु ससंकहु ॥
तिव्वल्लुहामहणु गरुयउं गहणु तिलखलखंडु वि रंकहु ॥ २४ ॥

25

दुवई—अज्ज वि सिंसुमयच्छि महु अण्णिवि करि घणपणइसंधणं ॥
मा पावहि कुमार तरुणत्ताणि ताडणमरणबंधणं ॥ छ ॥
असहंतेणं रिउणा दिण्णं ससवणसूलं दुव्वयणं ।
काउं वयणं डसियाहरयं भूभंगुरतंविरणयणं ।

24 १ P °सहयैर अवरिं काइं. २ AP पडंति. ३ AP °जालेव पडंति. ४ A जुगखय-
खयंकु; P जुगखइ खयक्कु. ५ A जाव. ३ A पहरयासु, P पहपयासु. ७ A लहु.

25 १ AP °पणयसंधणं.

24 1 हीरण् हार्यते. 4 b जालव ज्वालैव. 7 a खयक्कु प्रलयसूर्यः. 8 a पयावइपुत्तु
त्रिपुट्टः. 10 a रहगु चक्रम्. 11 a पहर्यतासु प्रहतत्रासम्. 12 b °सुहमहिरुह° शुभवृक्षः. 13 b
सहासु सहास्यम्. 17 गहणु दुर्लभम्.

25 1 सिंसुमयच्छि बालमृगाक्षी स्वयंप्रभा; घणपणइसंधण निविडस्तेहसंधिम्. 3 ससवण-
सूलं स्वरुर्गसूलम्. 4 भूभंगुरतंविरणयणं भ्रूभङ्गयुक्तमाताम्रं नयनं यस्मिन् वदने.

हरिणा दित्तं घित्तं चक्रं सहसाराधाराजलियं 5
 ह्यगलगलकंदलयं दलियं वहलं कीलालं गलियं ।
 कुंडलकिरणं फुरियकवोलं कं कुंभिणिवलयइ पाडियं
 णं सरसं तामरसं सदलं कालमरालाहिवखुडियं ।
 कामिणिकारणि कलहसमत्तो परणरकरसरहयगतो
 आसग्गीवो वियलियजीवो सत्तमणरयं तं पत्तो ।
 णहयरविसहरमहिमणुणहि सामि भणेप्पिणु संगहिओ
 जयजयरवपूरिउ भुवणेहि हरि हलहरसहिओ महिओ ।
 हिंडिवि दाहिणभरहतिखंडे णरवइ सवसं को ण णिओ
 मागहदेवो वरतणुणामो अवि य पहासो तेण जिओ ।
 दिणयरकित्तिं हुयवहजडिणा हलिणा तस्स पयावइणा 15
 बद्धो पट्टो विउले भाले मंगलविलसियजणरइणा ।
 पउरपयावाकंपियभुवणो असिवरदूसियकूरमई
 णियकुलकुवलयकुवलयबंधू जाओ कण्हो चक्रवई ।
 उहसेढीणं रायं काउं जलणजडिं ससुरं खयरं
 आओ गुरुयणपणीं वियसीसो पुणरवि तं पोयणणयरं । 20

यत्ता—लइ दीसइ पवरु एउ वि अवरु णिच्छयणियमणित्तं ॥
 इह सुपुरिसचरिउं बहुगुणभरिउं जगि आढत्तु समत्तं ॥ २५ ॥

26

दुवई—मणहरभइलक्खणायारहं णहयललग्गकुंभहं ॥
 दोचालीसलक्ख मायंगहं अरिकरिवरणिसुंभहं ॥ छ ॥

तेत्तिय रह रणभरजोत्तियाउ	पायालहु कोडिउ तेत्तियाउ ।
जलथलगयणंतरजंगमाहं	णवकोडिउ जाइतुरंगमाहं ।
जंभारिपीलुलीलागईउ	महएविउ अट्ट महासईउ । 5

२ A घित्तं दित्तं चित्तं. ३ P कलहु. ४ A णरए त पत्तो. ५ AP पूरिय. ६ A पवर°. ७ A कुरगई, P कूरमई. ८ AP णियकुलणहयल°. ९ A राउं काउ. १० A °पणामिय°.

26 १ A णहयरलग्ग°. २ A णव भणियउ जाइ°.

6 ह्यगल° अश्वग्रीव., कीलालं रुधिरम्. 7 क मस्तकम्, कुंभिणिवलय भूमण्डले. 8 कालमराला-
 हिव° यम एव हंसाधिप., 9 सरहयगतो सह अरैर्वर्तते इति सर चक्र तेन हतगात्र. 15 दिणयर-
 कित्तिं अर्ककीर्तिना. 16 मंगलविलसियजणरइणा मङ्गले विलसिता जनाना रतिर्यत्र तेनार्ककीर्तिना.
 18 कुवलयवधू चन्द्रः. 19 उहसेढीण उभयश्रेण्योः.

26 3 ष पायालहु पदातेः. 4 ष जाइतुरंगमाहं जात्याश्वानाम्. 5 ण जंभारिपीलु° ऐरावणः.

णिरु पीणपीवरुण्णयथणीहिं
 सोलह सहास देसंतराहं
 सोलह सहास धरि पत्थिवाहं
 तेह णव सहास मेच्छाहिवाहं
 चउवीस सहस वरपट्टणाहं
 छत्तीस सहस साहिय पुराहं
 पच्चंतणिवासहं णिवइ णयइं
 गिरितरुजलवाहिणिसंगमाइं
 गामहं कोडिउ अडदाल जासु
 जा णाम सयंपह इट्टणारि

सोलह सहास सीमंतिणीहिं ।
 सोलह सहास णाडयवराहं ।
 सोलह सहास खेडाहिवाहं ।
 पण्णास सहस दोणामुहाहं ।
 सत्तेव सहस संवाहणाहं । 10
 वसुसमसहास जक्खामराहं ।
 पण्णास णिउत्तइं तिण्णि सयइं ।
 चउदह वणदुग्गइं दुग्गमाइं ।
 कि अक्खमि संपय वप्प तासु ।
 जा णहयरणाहहु हुइय मारि । 15

यत्ता--तहि परमेसरिहि रइरससरिहि हरिणा हरिसरवण्णा ॥

पहिलउ सिरिविजउ वीयउ विजउ तणय दोणि उप्पण्णा ॥ २६ ॥

27

दुवई—ता सिहिजडि सपुत्तु परिपुच्छिवि हरि हलहर पयावई ॥
 गउ रहणेउरम्मि ददं जिणगुणसुमरणसमियदुम्मई ॥ छ ॥

सो तहि ए एत्थु वसंति जांव
 सो पुच्छिउ हरिताएण कुसलु
 असहायसहेजउ सच्चसंधु
 तं सुणिवि तेण खयरेण उत्तु
 थिरु धरिवि पंचपरमेट्टिसेव
 एयइं वयणइं आयणियाइं
 ता एण सहहि संसं णियाइं
 सणएण पयावइपत्थिवेण
 अणुहुत्तउं इच्छिउं पुत्तसोक्खु
 लइ जामि रण्णुं पावज्ज लेमि
 हरिहलहरमउडणिरुद्धपाउ

वहुकालहि णहणरु दुक्कु तांव ।
 सुहुं अच्छइ जिणपयपोमभसलु ।
 खयराहिउ गुणि महु परमबंधु । 5
 मेल्लिवि खगणिवचक्केसरत्तु ।
 महिवइ ससुरउ पावइउ देव ।
 सज्जणचरियइं मणि मणियाइं ।
 इंदियसुहाइं अवगणियाइं ।
 आउच्छिय तणुरुह वे वि तेण । 10
 एंवहिं संसाहमि परममोक्खु ।
 वयसंजमंभारहु खंधु देमि ।
 पत्थिउ थिउ केव वि णाहि ताउ ।

३ P णडणयवराहं. ४ AP तहो. ५ A णिवइ णियइं. ६ A °संगमाहं. ७ A °दुग्गमाहं.

27 १ AP णहयर. २ A सुह अच्छइ. ३ A रण्णिं. ४ AP संजमुं.

12 a णयइं नत्तानि. 16 त हि तस्या स्वयंप्रभावाम्, हरि सरवण्णा हर्षमनोहरौ.

27 2 रहणेउरम्मि रथनूपुरचक्रवालम्, 3 a ए कृष्णहलिप्रजापतयः. b णहणरु खेचरः.

4 a हरिताएण प्रजापतिना. 5 a °सहेजउ °सहायः. 7 b पावइउ प्रव्रजितः. 9 a संसं णियाइ दशां प्रशंसां नीतानि. 10 a सणएण सन्यायेन.

णिम्मुक्कमाणमायामएहिं
परिसेसिवि मंदिरमोहवासु

णरणाहहं सहुं सत्तहिं सएहिं ।
वउ लइउं पासि पिहियासवासु । 15

घत्ता—थिउ परिहरिवि जणु पँयसेवि वणु णिच्चमेव णिच्चलमइ ॥
अट्ट वि णिद्धुणिवि कम्मइं जिणिवि गउ सिवपयहु पयावइ ॥२७॥

28

दुवई—एत्तहि णिसियविसमअसिधारातासियणरवरिदहो ॥
चउरासीदि लक्ख गय वरिसहं तहिं पुरवरि उविंदहो ॥ छ ॥

दीहासीचावपमाणगत्तु
णिद्धम्मचित्तु णिल्लुत्तणाणु
जिह सुत्तउ तँव जि कण्हलेसु
उप्पणउ तमतमपहि तमोहि
तेत्तीससमुद्दपमाणु आउ
जायउ णारउ णारयहं गम्मु
सँइं रुयइ सयंपह कंत कंत
उट्टुट्टि णिहालहि सुहिमुहाइं
वलएवहु धाहारुणएण
णिसुणेवि साहुवयणामयाइं
पियँविरहँ हुयवह पइसरंति

अण्णाहि दिणि भोयसुहँ अतित्तु ।
वहुंतमहंतैरउद्दणाणु ।
मुउ कणहु जमहु किर को ण वेसु । 5
पंचविहदीहदूसहदुहोहि ।
पंचसयसरासणतुंगकाउ ।
भणु कैवणु ण मारइ भीमकम्मु ।
अतुलवल देव हयगलकयंत ।
दीहइ णिहइ सुत्तो सि काइं । 10
लोय वि रुयंति कारुणएण ।
णिज्झाइवि जिणपयपंकयाइं ।
वारैवि सयंपह अणुमरंति ।

५ AP पइसरिवि वणु. ६ A णिद्धविवि.

28 १ AP चउरासी वि. २ AP वहुतरउद्दमहंतज्ञाणि. ३ P को ण दोसु. ४ A विहपंच-
दीह°. ५ AP केम ण मारइ. ६ A सकयइ. ७ P पियविरहँ.

15 a परिसे सि वि त्यक्त्वा. 16 प य मे वि प्रविश्य.

28 1 णि सि य° तीक्ष्णा. 2 उ विं द हो ऋणस्य. 3 b अ तित्तु न वृत्तः. 4 b वे सु द्वेयः.
6 b प च वि ह दु हो हँ परिणामदेहवेदनाचिक्रियाः परस्परोदीरितदुःखा . 9 b ह य ग ल क य त अश्वग्रीवस्य
कृतान्त. 11 a धा हा रु ण ए ण धाहारदितेन.

सिरिविजयहु वंधिवि रायपट्टु वणु रायसहासहि सहं पयट्टु ।
 गुरु करिवि महारिसि कणयकुंभु तउ चिण्णउ सीरिं रइणिसुंभु । 15

घत्ता—गउ मोकखहु विजउ जिणधम्मधउ तेएं भरहु भडारउ ॥
 सोसियमोहरसु भुवणंतजसु पुष्पयंतसरवारउ ॥ २८ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए
 महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे विजयतिविड्ढयगीवकहंतरं
 गाम दुवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५२ ॥

८ A सीरि. ९ AP रवणिसुसु. १० A जिणधम्मरओ.

15 h रइणिसुंभु रतिविनाशकं रागरहितमित्यर्थं. 16 तेएं भरहु तेजसा नक्षत्राच्छादकः. 17 पुष्प-
 यनसरवारउ पुष्पाण्येव कान्ता शरा यस्य तस्य कामस्य वारको निषेधकः.

पणत्रिवि देवहु णेयंतणित्तंजियदिट्ठिहि ॥
वासवपुज्जहु सिरिवासुपुज्जपरमेट्ठिहि ॥ ध्रुवकं ॥

1

जो कल्लाणसयालओ	मायाभावसयालओ ।	
हरिणवंदपहुआसणो	कुणयकुडंगहुयासणो ।	
कणयरकविलणिवारणो	अज्जुणवारिणिवारणो ।	5
दुविहकम्मकयणिज्जरो	सुहयावयवो णिज्जरो ।	
जो णिण्णासियभयजरो	दाणालो जिणकुंजरो ।	
जस्स अणंतं वीरियं	अवि णै हणइ णियवइरियं ।	
जो ण महइ दियवइरियं	मज्जे जेण ण ईरियं ।	
सुत्तं जस्स ण मंसए	पाए जस्स णमंसए ।	10
अरइयरइणिव्वाणओ	ईसकेऊ णिव्वाणओ ।	
वारहमो तित्थंकरो	पणयाणं तित्थंकरो ।	
जो जम्मंबुहिपोयओ	वसिकयहरिकरिपोयओ ।	
बुद्धियवत्थुवियप्पयं	तं णमित्तं परमप्पयं ।	
भणिमो तस्स महाकहं	चिण्णं तेण तवं कहं ।	15
कुलवलजाईसामयं	मोत्तुं जम्मं सामयं ।	
काउं देहं खामयं	जिह लद्धं मोक्खामयं ।	

अन्ता—तिह हउं भासमि सुणि सेणिय किं सिरिगावें ॥
जिणगुणचित्तइ चंडालु वि मुच्चइ पावें ॥ १ ॥

1 १ भवजरो. २ AP जस्साणंत. ३ A णिहणइ. ४ AP इसकेओ.

1 1 णेयत णित्तंजियदिट्ठिहि ज्ञेयान्ते प्रमेयपर्यन्ते नैकान्ते वा नियुक्ता दृष्टियेन तस्य. 3 a कल्लाणसयालओ पञ्चमहाकल्याणानामभ्युदयपरपराणा च सन् शोभन आलय आश्रय., कल्याणगताना वा आलय, b मायाभावसयालओ मायापरिणामाना सदा लयो विनाशो यत्र. 4 a हरिणवदपहुआसणो हरिणवृन्दाना प्रभवः सिंहा आसने यस्य, b कुणयकुडंगहुयासणो कुनया एव कुडंग लघु-झाटक (वृक्ष) समूहस्तस्य हुताशनोऽग्निः. 5 b अज्जुणवारिणिवारणो अर्जुनं श्वेत वारिनिवारणं च यस्य. 6 a दुविहकम्मं द्रव्यभावरूपं शुभाशुभरूपं वा द्विविधं कर्म, b सुहयावयवो सुभगनरोरावयवः, णिज्जरो जरारहितः. 7 b कुंजरो प्रधानः. 9 a दियवइरियं द्विजपतिर्ब्राह्मणस्तस्य ऋच वेदम्, b मज्जे मध्ये येन न ईरितं सूत्रम्. 10 a णमंसए मासेऽपि यस्य न सूत्रम्. 11 a अरइयरइणिव्वाणओ अर-चित्तरतिसुखं; b णिव्वाणओ वाणरहितः. 13 a पोयओ पोत प्रवहणं. तारक इत्यर्थः. 14 a बुद्धियवत्थुवियप्पयं ज्ञातपदार्थभेदम्. 16 a कुलवलजाईसामयं कुलवलजातिलक्ष्मीणां मदम्, b सामयं व्याधिसहितम्. 17 b मोक्खामयं मोक्षामृतम्. 18 सिरिगावे लक्ष्मीमदेन.

2

पुक्खरवरदीवद्धए
तडउग्गयसुरदारुणो
पुव्वविदेहे जणंरुई
तत्थं वारिमंथरगई
पायवसुराहिसमीरण
संतोसियणरवरमई
घरसिरकयणहसाइयं
धुयधयमालाराइयं
तेहिं राओ पउमुत्तरो
देवी तस्स मयच्छिया
दोण्हं जणियाणंगओ
तलतमालतालीघणे
सत्तुमित्तसमचित्तओ
धम्मसालिलसिंचियधरो
मुणिओ वत्थुविभेयओ
दाउं परिपालियखमं
सह णिवेहि साहियमणो
जाओ राओ मुणिवरो
चरइ तवं सो जेरिसं

मणुउत्तरगिरिरुद्धए ।
इंददिसासियमेरुणो ।
पीणियखगउलसंतई ।
सीया णाम महाणई ।
तीए दाहिणतीरण ।
वरदेसो वच्छावई ।
उच्छवपडहणिणाइयं ।
रयणउरं रयणाइयं ।
जो सीलेण जगुत्तरो ।
णामेणं धणलच्छिया ।
दीहो कालो णिग्गओ ।
आसीणो पुरउववणे ।
अरुहो तित्थपवत्तओ ।
महिओ तेण जुयंधरो ।
उप्पणणउ णिव्वेयओ ।
धणमित्तस्स कुलकमं ।
सममणियतणकंचणो ।
गिरिगहणे लंविक्करो ।
को किर वण्णइ तेरिसं ।

5

10

15

यत्ता—णिरु णिप्पिहमइ परमेसरु पंथहु लग्गउ ॥

जिह देहें" रिसि चित्तेण वि तिह सो णग्गउ ॥ २ ॥

20

3

माणसे असक्कयाइं
वुज्झिउं सुयंगयाइं
इंदियाइं पीडिउण

पंच पंच एक्कयाइं ।
ताविउं णियंगयाइं ।
डुक्कियाइं साडिउण ।

2 १ A जणरुई. २ A खगउडमनई. ३ AP नेत्थु. ४ P तहि मि राउ पउमुत्तरो.
५ A देहेण.

3 १ A ताविओ.

2 १ a तडउग्गयसुरदारुणो तटोत्पन्नदेवदारुवृक्षस्य b इंददिसासियमेरुणो पूर्वदिगा-
श्विनमंगे.. 3 a जणरुई लोकाना रुचिकारिका सीया नाम नदी. 7 a वरसिरकयणहसाइयं गृह-
शिरोभिः कृत नमस' आस्वादनं यत्र. 8 b रयणाइयं रत्नं आचितं जटिनम्. 15 a वत्थु विभेयओ
पदारुधमेद.. 16 a ० न्व मं क्षमां पृथ्वीम्. 20 णिप्पिहमइ नि स्पृहमति..

3 1 a असक्कयाइ अत्रिन्तितानि.

अज्जिऊण चारु चित्तु	तित्थणाहणामु गोत्तु ।	
भाविऊण संतणाणु	झाइऊण धम्मझाणु ।	5
उज्झिऊण खाणु पाणु	तेण मुक्कु झ त्ति पाणु ।	
णिग्गओ सररीयाउ	णं रईसररीयाउ ।	
जम्मसायरे पडंतु	दुक्खविच्चममे घडंतु ।	
चंदकंतकंतिसुक्कि	जायओ महंतसुक्कि ।	
सोलसण्णवप्पमाउ	पोमलेसु सुव्वभतेउ ।	10
हारदोरसोहमाणु	अट्टअट्टहत्थमाणु ।	
अट्टअट्टपक्खंसासु	पुण्णचंदसंणिहासु ।	
चोत्थभूयलंतलक्खु	सद्दजायकामसोक्खु ।	
घत्ता—सोलहसहसहं गय वरिसहं एकसु भुंजइ ॥		
जो सो भुरवरु बुहहियवउं कि णउ रंजइ ॥ ३ ॥		

4

लेसमासजीवियम्मि	दिव्वपुंगमे थियम्मि ।	
जक्खणाहु भासुरेण	वोह्लिओ सुरेसरेण ।	
जंबुदीवि भाणुभासि	भारहम्मि अंगदेसि ।	
दोक्खलक्खलोट्टणम्मि	चंपणामपट्टणम्मि ।	
अत्थि दव्वपुज्जराउ	सत्तुसीसदिण्णपाउ ।	5
तस्स पत्ति कामवित्ति	वल्लहा जयावइ त्ति ।	
ताहं होईदिंदियारि	अंगओ अहम्महारि ।	
जाहि देवँ सोक्खजुत्ति	ता धणाहिवेण झ त्ति ।	
णिम्मियं पुरं वरेहिं	मोत्तिएहिं कच्चुरेहिं ।	
कंजछण्णवाविथाहि	दीहियाहिं खाइयाहि ।	10
फुल्लगुंछवच्छएहि	कूवएहि कच्छएहि ।	
तीरिणीतलायएहि	चित्तदारभायएहि ।	

२ P °पक्खमासु.

4 १ जंबुदीवभाणुभासि. २ A होहि इंदियारि, P होहिदिंदियारि. ३ Δ देहि सोक्ख°. ४ AP फुल्लगोच्छ°.

4 a चित्तु आश्चर्यभूतम्. 5 a संतणाणु स्वान्ते ज्ञानम्. 7 b रईसररीयाउ रतिनदीवेगात्. 11 b अट्टअट्ट° चत्वार.. 12 a अट्टअट्ट पोडश. 13 a चोत्थ भूयलंतलक्खु पद्मप्रभापर्यन्तावधिज्ञानः; b सद्दजाय° शब्दोत्पन्नम्. 14 एकसु एकवारम्.

4 1 a लेसमास° प्रणमासाः. 4 a दोक्ख° दुःखम्. 5 a दव्वपुज्जराउ वसुपूज्यो राजा. 7 a होइदिदियारि होइदि भविष्यति इदियारि इन्द्रियाणा जेता, b अंगओ अङ्गजः पुत्र.. 9 b कच्चुरेहिं सुवर्णैः. 11 a °वच्छएहिं °वृक्षैः.

हृद्विट्टचच्चरेहि
दीहरत्थमगाएहिं
धूवगंधसुंदरेहिं

गामगोहदुच्चरेहिं ।
वोममगालगाएहिं ।
सत्तभूमिमंदिरेहिं ।

15

यत्ता—एहउ सोहइ जं पुरु तहि धरि सुहुं सुत्तइ ॥
सिबिणयसंतइ पविलोइय पंकयणेत्तइ ॥ ४ ॥

5

हृत्थि द्राणवारिवाहंरत्तमत्तछप्पओ
केसरी मयंधगंधकुंभिकुंभदारणो
हंसकामिणीहिं सेवियारविंदवासिरी
पारियायपोमपोंमलं परायसंभुयं
णासियंधवारओ वरो विहावरीवई
पेममैमला चला णिरंतरं वियारिणो
वारिवारपूरियं सरोस्सेहिं अंचियं
पंकयायरो चलंतलच्छिणेउरारवो
सीहंमंडियासणं रणंतकिकिणीसरं
पुंजओ मणीण दित्तिरंजियावणीयलो

गोवई विसाणघायभग्गसालिवप्पओ ।
णक्खजोण्हियामिलंतमोत्तियंसुवारणो ।
पुंडरीयवामणेहिं सिंचिया महासिरी ।
मत्तभिगसंगयं ललंतमालियाजुयं ।
कंजबंधवो सरम्मि दिण्णपोमिणीरई । 5
कीलमाणया महासरंतरे विसारिणो ।
कुंभजुम्मयं पवित्तचंदणेण चच्चियं ।
णीरघुम्मिरो तरंगभंगुरो महण्णवो ।
इंदमंदिरं वरं महाफणीसिणो धरं ।
धूमचत्तओ पलित्तओ सिहाचलोणलो । 10

यत्ता—सिबिणय जोइवि देविइ णियणाहहु भासिउं ॥
तेण वि तप्फलु णिच्चफ्लु तहि उवएसिउं ॥ ५ ॥

6

णाणचक्खुणा जो णिरिक्खए
पोसए पिए दुव्वसामिए

जो जयं असेसं पि रक्खए ।
सुंदरी हले मज्झखामिए ।

५ AP वोमघामलगाएहि. ६ A नुहि सुत्तइ.

5 १ A रत्तमत्त°. २ A हिंमाहिवो णिसावई. ३ A पिमविमला. ४ AP तारवारिपूरियं.
५ A सीहंमंडियं गणत°. ६ A तं फलु णिच्चफ्लु.

12 b °दारभायएहिं °दारभार्गः. 13 b गा म गो ह दु च्च रे हिं ग्राम्यपुत्र्यदुश्चरैः.

5 1 a °रत्तमत्तछप्पओ रक्ता मत्ताश्च पट्पटा भ्रमरा यस्मिन्, b °सालिवप्पओ °केदारखण्डः.
2 b णक्खेति नखकान्तिस्तथा सह मिलतां मौक्तिककिरणाना निवारकः. 3 b पुंडरीयवामणे हि पञ्चो-
पलक्षितकलशैः, पुण्डरीकवामनदिग्गजाभ्या वा. 4 a °पोंमलं मिश्रम्, परायसंभुयं परागस्य सम्यभू-
निम्. 6 a पेममैमला प्रेमविह्वलौ, b विसारिणो मत्त्याः. 7 a वारिवार° जलसमूहः. 10 b सिहा-
चलोणलो गिखामिश्चञ्चलोऽग्निः.

6 1 b जयं जगत्. 2 a पि ए हे प्रियेः दुव्वसामिए दूर्वावत् श्यामाङ्गः.

सो तुमस्मि होही जिणेसरो
सक्कपेसिया देविया सिरी
आगया घरं देहसोहणं
तिण्णि तिण्णि मासे धणी वसो
मेहजाललीलापयासए
छट्टए दिणे किण्हपक्खए
चरणकमलजुयणवियपण्णओ
पुणु पयत्थसममासमेरओ

भव्वजीवराईवणेसरो ।
कंति किन्ति बुद्धी सई हिरी ।
ताहिं तस्मि तिस्सा कयं घणं । 5
बुट्ठओ सुवण्णंभपाउसो ।
पावणस्मि आसाढमासए ।
तित्थणाहसंखस्मि रिक्खए ।
गब्भकंजकोसे णिसण्णओ ।
णिच्च सवइ कणयं कुवेरओ । 10

घत्ता—चउसंखाहिइ जलणिहिपण्णासइ ढलियइ ॥

पल्लहु तिज्जइ भायस्मि धम्मि परिगलियइ ॥ ६ ॥

7

गइ सेयंसइ
मासइ फग्गुणि
कंपियतिहुवाणि
दुरियविओयइ
उप्पण्णो इणु
हरिसोल्लियमणु
चंपापुरवेरं
णिज्जियसयदलि
बुद्धिणिसुंभयं
गहिऊणं पहुं
सक्केणं तउ
लग्गणमेरुणो
गंतुं गयंमलि

सिवसरहंसइ ।
पक्खइ तमघणि ।
चउदहमि दिणि ।
वारुणजोयइ ।
वारहमो जिणु ।
पत्तो सुरयणु ।
णविऊणं धैरं ।
जणणीकरयलि ।
मायाडिभयं ।
रइभिसिणीविहुं ।
कुं भैणिउं गउ ।
सिहरं मेरुणो ।
पहुंसिलायलि ।

5

10

घत्ता—णाहु थवेप्पिणु जियतारहारणीहारहिं ॥

पहविउ सुरिंदहि घडवियलियचंदिरधारहिं ॥ ७ ॥

15

6 १ A सुवण्णंभपाउसो. २ A कण्हपक्खए.

7 १ P सिवभर°. २ A पुरवगे. ३ A घरे. ४ A त भणिओ, P कु भणिओ. ५ A गय-
गले. ६ A has ता before णाहु.

3 b °रा ईवणेसरो °कमलानां सूयः. 5 b घण निविडम्. 6 a वसो भक्तिवशः इन्द्राधीनो वा, b सुव-
ण्णं भपाउसो सुवर्णजलप्रावृट्कालः. 8 b तित्थणाहसंखस्मि रिक्खए चतुर्विंशतितमे शतभिपानध्वे.
10 a पयत्थसममास° नव मासान्.

7 4 b वारुणजोयइ शतभिपानध्वे. 9 a बुद्धिणिसुंभय मतिव्यभिचारकम्. 11 b कुं
भणिउ कु इति गजप्रेरणसजा, तथा संज्ञया भणितो गज, प्रेरित इत्यर्थः.

8

पुञ्जिवि वंदिवि तिजगगुरुणिवराणियहि
तणयालोयणतुट्टियहि तुच्छोयरिहि
इंदं रंदाणंदवसु तिह णञ्चियउं
पणविवि परमं परमपरं णहि चलियधओ
अणहु पासि ण सत्यविही कत्थइ सुणइ
वरिसि विखुडवुद्धिसहिइ हयदुट्टमइ
कालं वंढंतहु गुणेहि जाणियमणुहि
कुंअरत्ते परमेसरहो कीलाणिरय

खेयर विसहर सुररमणिसंमाणियहि ।
आणिवि देउ समप्पियउ करि मायरिहि ।
जिह महिचलणे फणिल्लु विंभियकुंचियउं ।
सहुं परिवारे सग्गवई सुरलोउ गओ ।
सव्वउ कलउ सलक्खणउ अप्पणु मुणइ । ५
सावयसीलि परिट्टियउ गग्गट्टमइ ।
जायइ माणु सरासणइं सत्तरि तणुहि ।
अट्टारह संवच्छरहं तहु लक्ख गर्य ।

घत्ता—णवघुसिणल्लवि करणुज्झियणाणपहायरु ॥

णिव कुलमहिहरे उग्गउ णं वालादिवायरु ॥ ८ ॥

10

9

एकहिं दिणि णिव्वेयउ भासइ तउ करमि
लोयंतियसुरवंदिहिं लहु संवोहियउ
फुल्लियफलियमहीरुहरंजियसडयणहु
कयचउत्थु मज्झत्थु महत्थु महंतमइ
फेग्गुणि कसणि चउद्वसिदिणि विरएं लइउ
तेण समउं संसारहु णिव्विण्णइं वरंइं
तिकखु चारेत्तु चरंते पाउ गलत्थियउं
कामहु पंच वि चंडइं कंडइं खंडियइं

जेण पुणु वि संसारि असारि णं संसरमि ।
माणवदाणवदेवहि णहविवि पसाहियउ ।
सिवियाजाणारूढउ गउ मणहरवणहु ।
मणपज्जवपरियाणियमाणुसमणविगइ ।
सयभिसहइ सायण्हइ सो सइं पावइउ । ५
सयइं णिवहं पावइयइं छहछाहंत्तरइं ।
मोहसमुहु रउहु सुट्टुम्महु मंथियउ ।
इंदियदुट्टुकुडंवं मुणिणा दंडियइं ।

8 १ A सुररमणी° . °सुरवररमणी° . २ A छउओयरिहि; P तुच्छओयरिहि. ३ AP विंभय° .
४ A णहचलिय. ५ A वंढंत. ६ A कुमरत्ते; P कुवरत्ते. ७ AP °णिरया. ८ AP गया. ९ A णं उग्गउ.

9 १ A ण पइसरमि. २ A सिवियाजाणइ रूढउ. ३ P माणविगइ. ४ A फग्गुणकसणचउ-
द्वसिदिण° ४ AP सविसाहइ. ५ A चरइं. ६ A °छाहंतर°. ७ A सुसंमुहु. ८ P °कुटुंवंइं.

8 3 b विंभियकुचियउ भयेन (विस्मयेन ?) सकुचितम् . 5 b अप्पणुमुणइ स्वयमेव
जानाति. 6 a वरिसि गर्भाष्टमे वर्षे. 8 a कुअरत्ते कुमारत्वेन, कीलाणिरय क्रीडानिरताः. 9 करणु-
ज्झियणाणपहायरु इन्द्रियरहितावधिज्ञानप्रभावान्. 10 णिवहे श्रेणिक.

9 2 b पसाहियउ प्रसाधित पूजितः. 4 a °चउत्थु° एकोपवासः; b °माणुसमणविगइ
नरमनसो विविधाश्चेष्टाः. 5 a विरएं चिरत्या चारित्रेण गृहीतः, b सयभिसहइ शतभिषानक्षत्रे.
8 a कंडइं त्राणाः.

चंगुं सुत्तु धरेप्पिणु मणपुरवरु थविउं दिहिपायांरु रएप्पिणु रिउंवल्लु विद्विउं ।
 विसयकसायहं चोरहं कुहिणिउ दुसियउ रयणत्तयभाभारं लोउ पयासियउ । 10
 घत्ता— वीयइ वासरि पइसरिवि महाणयरंतरि ॥
 भिक्खहि कारणि परिभमइ जईसरु घरि घरि ॥ ९ ॥

10

आवंतु भडारउ भावियउ	सुंदरराणं पांरावियउ ।
तद्दु मंदिरि सहसा वित्थरिउं	पंचविहु वियंभिउं अचल्लरिउं ।
थिउ एक्कु वरिसु रिसि तिन्वतवि	णिळूरियभवसंभवविभवि ।
णिद्धाडियसाडियमोहरइ	ससहरि विसाहणक्खत्तगइ ।
माहम्मि सुद्धवीयाहि वलिउ	घणघाइचउक्कु विणिद्वलिउ । 5
उववासिणण वासरि गमिइ	दिणयरि वारुणदिसि संकमिइ ।
पुव्विल्लइ वणि चवचूयचलि	उप्पायउ णाणु कैयंवतलि ।
णियगोमिणिगारव संखरव	घंटारव हरिरव पडहरव ।
महिविवर गयण वण सग्ग घर	णहि धाईय आइय वहु अमर ।
विज्जाहर आँइय कुसुमकर	भूगोयर कंपाविय सधर । 10

घत्ता—तं परमण्णउं ललियक्खरलद्धविसेसहिं ॥

वंदइ सुरवइ णाणाविहथोत्तसहासहिं ॥ १० ॥

11

जीह समीहइ भोयणउं	दिट्ठि वि महिलालोयणउं ।
कण्णहि इच्छिउ गेयरसु	णासु गुणाहियगंधवसु ।
फासु वि मउसयणइं महइ	करणइं पंच जीउ वइइ ।
ताइं मणेण जि पट्टवइ	विसयहं उवरि परिद्ववइ ।
पसरियविविहसुहालसउ	मोहमइरमयपरवसउ । 5

९ P °पावार. १० रिउदड.

10 १ A परावियउ. २ P °विडवि. ३ A वासवदिसि. ४ P चवभूयचलि. ५ P कलवयलि.
 ६ AP आइय धाइय. ७ AP विज्जाहर वियसियकुसुमकर. ८ A लद्धहिं सेसहिं.

11 १ A अद्ववइ. २ A मेहमयरमय°; P मोहमइरामय°.

10 a कु हि णि उ मार्गाः.

10 2 b वियंभिउ विजृम्भितम्. 3 b णिळूरियेत्यादि निर्द्वरित. स्फेटिनः भवसभवविभवः
 संसारजन्मसपत्तिर्येन. 4 a °मो हरइ° मोहरजसि. 5 a णियगोमिणिगारव निजलक्ष्मीगुस्तवम्.

11 5 a महालसउ सुखासक्त. b मोहेत्यादि मोहमदिरामदाभ्या परवशः.

कुप्पइ तप्पइ णीससइ
णाणाजम्महिं आइयउ
कुलवलविहवगव्वगहिउ
उम्मग्गेण जि संचरइ
तुहुं तिहुयणअब्भुद्धरणु
तुहुं जिण गुणमाणिक्कणिहि
तुहुं जणमणवेर्यालहरु
जो पइं पणवइ सुद्धमई

णडइ रडइ गायइ हसइ ।
पेम्मपिसाएं छाइयउ ।
गुरुयणकहियसीलरहिउ ।
पइं ण भडारा संभरइ ।
तुहुं जि देव विउसहं सरणु । 10
तुहुं घोरपावकंतरसिहि ।
अच्चुयसुहहलतियसतरु ।
सो पावइं गिन्वाणगई ।

ग्रन्ता—वाइंसरिवइ रिदुसट्टिसमं जसु गणहर ॥

वारहसयमिय पुव्वंगधारि तहु मुणिवर ॥ ११ ॥

15

12

पंचतीस चउसहसइं दुइसय सिक्खुयहं
छहसहास सव्वणहुहुं दह वेउव्वियहं
सायरसहसइं दोसय वाइहिं णयधरहं
एक्कु लक्खु छहसहसइं संजमधारिणिहिं
दोणिण लक्खु गुणवंतहं संतहं सावयहं
जिणवरवयणाणिहालणणिहयभवावयहं
चउपण्णास जि लक्खइं वरिसविहीणाइं
हरिकयकणयकुसेसयउयरिविइण्णपउ

पंचसहस जलणिहिसय सावहिभिक्खुयहं ।
लेसासमइं सहासइं मणपज्जयवियहं ।
पंव होंति वाहत्तरिसहसइं जइवरहं ।
लक्ख चयारि समासिय घरवयचारिणिहिं ।
संखेज्जउ गणुं घोसिउ काणणसावयहं । 5
संख णत्थि तहिं आयहं देवहं देवियहं ।
वरिसहं विहरिवि महियलि भवसमरीणाइं ।
संवोहेप्पिणु भव्वइं चंपाणयरु गउ ।

ग्रन्ता—णिज्जियणियरिउ वरधम्मचक्कि मुणिराणउ ॥

पालियंकासणु अंतिर्मज्जाणम्मि णिलीणउ ॥ १२ ॥

10

13

भद्वयहु ससंयभिसहहि सेयचउट्टसिहि तिणिण वि अंगइं गलियइं तासु महारिसिहि ।
अवरण्हइ चउणवइहि रिसिहिं समेउ जिणु जायउ सिद्धु भडारउ ववगयजम्मरिणु ।

३ A पेमविसाएं. ४ A वेयण्णहरु. ५ P adds लहु after पावइ.

12 १ A गुण. २ A भवावहं. ३ P देवयहं. ४ AP °आणे.

13 १ A सविसाहहे कसण°, P सुविसाहहे कसण°, K records a *p* as in AP.

7 *b* छाइयउ आविश्रो व्वात्त. 10 *b* विउसहं विदुपाम्. 12 *a* °वेयाल° विकाल° तमः. 14 रिदु-
सट्टि पट्टपट्टिः.

12 1 *a* पंचतीस चउसहसइं एकोनचत्वारिंशत्सहस्राणि; *b* सावहि° अवधिजानवताम्.
3 *a* णयधरहं नयवारकाणां वादिनाम्. 5 *b* काणणसावयहं तिरश्चां व्रतसहितानाम्. 6 *a* °णिहय-
भवावयहं °दत्तसंसागपदाम्. 7 *b* भवसमरीणाइं संसारश्रमरहितानि.

13 2 *b* ववगयजम्मरिणु व्यपगतसंसारकृणः.

सक्कि अग्गिकुमारहि जयजयकारियउं
 आहंडलधणुमंडलमंडियघणघणइ
 पहु वाहत्तरि वच्छरलक्खइं अच्छियउ
 एम मरइ को पंडियपंडियवरमरणु
 हउं वि एउं संचितमि जइ णरभवु लहमि
 अप्पउ णामे चोप्पहु तं छिण्णउं करमि

अंगु अणंगीहूयहु तहु सक्कारियउ ।
 कहइ पुरंदरु देवहं जंतु णहंगणइ ।
 एवहि हूयउ णिक्कलु इह ण णियच्छियउ ५
 जेण ण पुणु वि पयइइ बहुभवसंभरणु ।
 तो खरतवमंथाणे कम्मदहिउं महमि ।
 वासुपुज्जपरमेट्ठिहि मग्गे संचरमि ।

घत्ता—भरहहु होंतउ जिणचरियइं तियसहं संधिवि ॥

गउ हरि सग्गहु णहि पुप्फदंत उल्लंघिवि ॥ १३ ॥

10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकच्चे वासुपुज्जणिव्वाणगमणं
 णाम तिवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५३ ॥

२ P महासिहि. ३ P ०मरणे. ४ P ०ससरणे. ५ A णाण. ६ A omit णहि.

३ b सक्कारियउ भस्मीकृतम्. ४ a ०घणघणइ ०प्रचुरमेघे. ७ b महमि मश्रामि. ९ मरहहु होंतउ
 भरतक्षेत्रात्, संधिवि कथयित्वा. १० हरि इन्द्रः, पुप्फदंत सूर्याचन्द्रमसौ.

सिखिवासुपुञ्जजिणतित्थि तहिं चिरपरिह्वआरुद्धु ॥
करि लुद्धउ णं हरि हरिवरहु तारउ भिडिउ दुविद्धु ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—इह दीवम्मि भरहि वरविंझपुरम्मि महारिमरणो ॥
णरवइ विंझसत्ति विंझो इव पालियमत्तवारणो ॥ छ ॥

मयणाहीमंडणु तणु मयलइ	जहिं कप्पररेणु णहु धवलइ ।	5
जहि कामिणि चामरु संचालइ	जहिं देवंगु वत्थु परिघोलइ ।	
जहि भूसणमणिकिरणावलियउं	दसदिसासु बहुवण्णउ घुलियउं ।	
तहिं अत्थाणि णिसण्णउ राणउ	इंदफणिंदखगिंदसमाणउ ।	
ता संपत्तउ चरु सुमहुरगिरु	सो पभणइ पयजुयपणमियसिरु ।	
भत्तवित्तगोमहिंसीपउरइ	एत्थु जि भरहखेत्ति कणयउरइ ।	10
तुहं सुहि गुणविसेसतोसियमइ	जाणहि किं ण सुसेणु महीवइ ।	
तासु वेस णामं गुणमंजरि	णं सरचूयकुसुममयमंजरि ।	
एवु ताहि मइ दिद्धुं जेहउं	उव्वसिरंभहं दुक्करु तेहउं ।	

यत्ता—णउ मयकलंकपडलें मलिणु ण धरइ खयवंकत्तणु ॥
मुहं मुद्धहि वंदं समु भणमि जइ तो कवणु कइत्तणु ॥ १ ॥ 15

2

दुवई—मत्तकरिंदमंदलीलागइ णरमणणालिणगोमिणी ॥
कि वण्णामि णरिद सा कामिणि कामिणियणसिरोमणी ॥ छ ॥

दिस विवाहररंणं रावइ	कररुहपंति पईवहिं दीवइ ।	
कुंचियकेसहं कंतिइ कालइ	माणिणि माणवमहुयरमालइ ।	
सुललियवाणि व सुकइहि केरी	जहिं दीसइ तहि सा भल्लारी ।	5
पडइ चारु पोसियपत्थावउ	गायइ सुंदरि कण्णसुहावउ ।	

1 १ AP मइलइ. AP ०खगिंदफणिंद०. ३ P तुहं ४ AP मुहं. ५ AP कमणु.

2 १ AP कामिगिजण०.

1 १ दुविद्धु द्विष्टस्य. १ a मयणाहीमंडणु कत्तरिका; मयलइ मलिनयति. 10 a पउरइ प्रचुरे. 12 a वेन वेइया b सरचूय० स्मर काम एव आम्रवृक्षः. 14 खयवंकत्तणु धयं वक्त्वं च.

2 3 a रावइ रजयति. 4 a कालइ कृष्णीकरोति. 5 b भल्लारी उत्तमा. 6 a पोसिय-पत्थावउ पोपिनप्रत्ताव. सुभाषितयुक्तिः.

णञ्चइ बहुरसभावाणित्तउं
तो संसारहु पैइं फलु लद्धउं
सासिजोण्हाहीणें कि गयणें
लवणजुत्तियिलेण व भोज्जे

सा जइ लहहि कह व मइं वुत्तउं ।
सयलु वि तिहुवणु तुज्जु जि सिद्धउं ।
णासाविरहिण कि वयणें ।
ताइ विवज्जिएण किं रज्जे । 10

घत्ता—तं णिसुणिवि रापं मंतिवरु देवि उवायणु पेसियउ ॥
घरु जाइवि तेण सुसेणपहु पियवायइ संभासियउ ॥ २ ॥

3

दुवई—जो तुहुं विझसत्ति सो दोहं मि भेउ ण लक्खिओ मए ॥
इहु कल्लोलणिवहु इहु जलणिहि केण विहत्तओ जए ॥ छ ॥
एहु जीउ विहिणा गंभीरइं
जं तहु केरउ तं तुम्हारउं
एत्थु ण किज्जेइ चित्तु अधीरउं
णिरुवयारु तं णासइ सुंदरि
ता पहुणा दूयउ णिब्भच्छिउ
धरि सीमंतिणीउ जो मग्गइ
दरिसियरइरसकरणाणिगण
तें वयणें पुरु गंपि तुरंतउ
हंसवंसवीणारवभासिणि

पर रइयइं भिण्णाइं सरीरइं ।
जं तेरउ तं तासु जि केरउं ।
णेहणिवंधणु वंधुहि सारउं । 5
देहि समित्तहु तुहुं गुणमंजरि ।
एहुउ वंधु वप्प कहिं अच्छिउ ।
अवसें सो धणपाणहु लग्गइ ।
जाहि ण दूर्य देमि पणयंगण ।
णियकुलसामिहि कहइ महंतउ । 10
देव ण देइ सुसेणु विलासिणि ।

घत्ता—आयण्णवि दूयहं जंपियइं णेहु चिराणउ भंजिवि ॥
अब्भिट्ठु सुसेणहु विझपुरणरवइ सीहु व रुंजिवि ॥ ३ ॥

4

दुवई—वेणिण वि चरणरेहिं संचालिय वेणिण वि ते महावला ॥
वरणारीकएण गणियारिरया इव भिडिय मयगला ॥ छ ॥
दोहुं वि साहणाइं आलग्गइं
खलियरहंगइं मलियतुरंगइं

चालियचक्कइं तोलियखग्गइं ।
दलियधुरग्गइं दूसियमग्गइं ।

२ AP फलु पइं. ३ AP पेसिउ. ४ AP सभासिउ.

3 १ A पररइय. २ AP कीरइ. ३ P वंधहे. ४ A घरसीमंतिणि. ५ AP देमि दूय.

4 १ A संचारिया.

11 दे वि उ वा यणु प्राभृतं दत्त्वा.

3 2 कल्लोलणिवहु तरङ्गसमूहः. 3 b पर केवलम्. 6 a णिरुवयारु त णासइ निरूप-
कारस्त स्नेहं नाशयति, b समित्तहु स्वमित्तस्य. 9 b पणयंगण पण्याङ्गना वेद्या. 13 विझपुरणरवइ
विन्ध्यशक्तिः.

4 2 गणियारिरया हस्तिनीरतौ. 1 a खलियरहंगइं खलीकृतचक्राणि.

मोडियदंडं लुयधयसंडं	खंडियमुंडं णञ्चियरुंडं ।	5
जूरियपत्तं चूरियछत्तं	दारियगत्तं णिग्गयरत्तं ।	
लूरियताणं हयजंपाणं	उड्डियप्राणं कयसिरदाणं ।	
हुंकारंतं हक्कारंतं	उरगयकोत्तं चललुलियंतं ।	
मग्गणभिण्णं तिलु तिलु छिण्णं	सेयवसिण्णं रत्तकिलिण्णं ।	
विरसु चवंतं वम्मु छिवंतं	संक मुयंतं संकु घिवंतं ।	10
हत्थिणिसुंभं फाडियकुंभं	जोहणिरुंभं जयजसुलंभं ।	

घत्ता—ता सरिवि सुसेणं सरिउवल सरहिं णिरंतरु भिण्णं ॥
जमदूयहं भूयहं भुक्खियहं णाइ दिसावलि दिण्णं ॥ ४ ॥

5

दुवइ—ताव सुसेणमुक्कवाणावलिविहडियणिविडगयघडं ॥
हरिसंचलणदलणणिदुरखुरफाडियधवलधयवडं ॥ छ ॥

छंडियकिवाणु	गलियाहिमाणु ।	
लवंतकेसु	जणजणियहासु ।	
पत्तावमाणु	दिसि धावमाणु ।	5
धयछत्तछण्णु	पेच्छवि ससेणु ।	
पडिभडकयंतु	धाइउ तुरंतु ।	
वलपवलसत्ति	भइ विंझसत्ति ।	
रिउ भणिउ तेण	रेरे णिहीण ।	
दे देहि णारि	मा गिलउ मारि ।	10
सहुं परियणेण	पइं रणि खणेण ।	
तं सुणावि सत्तु	इयरेण वुत्तु ।	
गुणणिहियवाणि	मइं जीवमाणि ।	
को रमइ तरुणि	कमि पडिय हरंणि ।	15
जो हरिहि हरइ	सो झ त्ति मरइ ।	
इय जंपमाण	वेण्णि वि समाण ।	
विंधंति वीर	पुलइयसरिीर ।	

२ AP जोहणिसुंभं. ३ AP जयजसलभइ, P adds aftr this. कित्तिवियंभइ. ४ AP °वल.

5 १ AP °वल्लण° २ AP °फालिय°. ३ A ससेणु. ४ AP वडिय. ५ P हरिणि.

6 a जूरियपत्तइ खेदितवाहनानि. 7 a लूरियताणं लूनगात्रत्राणानि. 9 b सेयवसिण्णं स्वेदेन प्रस्विन्नानि, °किलिण्णइ लिप्तानि. 11 a हत्थिणिसुंभं हस्तिविदारणानि. 12 सरिउवल स्वरिपु-संन्यानि.

5 1 °णि विड° संकीर्णम्. 3 a छंडियकिवाणु त्यक्तखड्ग.. 6 b ससेणु स्वसैन्यम्. 7 a पडिभडकयंतु प्रतिभयाना कृतान्तो यमः विन्ध्यशक्ति. 12 b इयरेण इतरेण सुपेणेन. 14 b कमि पडिय सिंहत्य रुमे पादे पतिता मृगीं को हरति.

फणिवहपरमाण	वाणेहि वौण ।	
णहि पडिखलंति	छत्तहि पडंति ।	
धय णिलुणंति ।	सारहि हणंति ।	20
हय कप्परंति	पुणु चप्परंति ।	
हणु हणु भणंति	अंगइं वणंति ।	
सहसा मिलंति	विहडेवि जंति ।	
पडिवलिवि पंति	थिर गिरि व थंति ।	
ता गयविलासु	विंझाहिवासु ।	25

घत्ता—संधाणु ण लक्खहं सकियउं चवलसरावलि देंतहु ॥
गउ णासवि तासु सुसेणु रणि णं वम्महु अरहंतहु ॥ ५ ॥

6

दुवई—वंधुविओयसोयमलिणाणण पइपरिहवविचेइया ॥

तेण णिवेण धरिय गुणमंजरि गुणमहुयरणिसेविया ॥ छ ॥

इहं वरभरहखेत्ति विक्खायउ	खत्तियधम्मधुरंधरु जायउ ।	
मित्तु सुसेणहु संतोसियमणु	राउ महापुरि माख्यसंदणु ।	
णिसुणेप्पिणु णियइड्डु पलाणउ	हिमहयकमलसरु व विहाणउ ।	5
घणरहणामहु वसुमइ देप्पिणु	कोहु लोहु मउ मोहु मुप्पिणु ।	
सुव्वयजिणहं पासि वउ लेप्पिणु	मुउ कालं सणासु करेप्पिणु ।	
प्राणयकप्पि सक्कुं सो ह्यउ	वीससमुइजीवि वररुवउ ।	
तासु जि गुरुहि पासि उवसंतं	दुद्धरु संजमभारु वहंतं ।	
वारहविहतवतावणझीणं	वद्धु णियाणु अणेण सुसेणं ।	10
मेरुतुंगमाणुण्णइ ढालिय	जेण मज्झु माणिणि उहालिय ।	
जइ तवतरुवरहल्लु पारसमि	तो तं पुरिमज्जमि मारेसमि ।	
एवं सरंतु सरंतु जि णिट्ठिउ	सकल्लसमइ संलेहणि संठिउ ।	
वरवंदारयवंदविणूयउ	तेत्थुं जि सग्गि सो वि संभूयउ ।	

घत्ता—रमणीयहि मंदरमेहलहि णीलिरुम्मिगिरिकंदरि ॥

गयणयलि सयंभूरमणजलि ते रमंति सरिसरवरि ॥ ६ ॥

६ AP °पमाणु. ७ AP वाणु. ८ P adds after this: रोसें जलंति. ९ A छति.

6 १ AP इय. २ AP पाणय°. ३ AP सग्गि. ४ AP पावेसमि. ५ A पुरिसु. ६ AP तेत्थु वि सो वि सग्गि संभूयउ.

21 b चप्परति अभिभवन्ति. 22 b वणति व्रणयन्ति.

6 1 °परिहवविचेइया °पराभवेन कम्पिता वेइया. 4 b माख्यसंदणु वायुग्ग. 11 a °माणुण्णइ मानोज्जतिः, ढालिय पात्तिता. 12 b पुरिमज्जमि आगामिनि जन्मनि. 13 a सरंतु सरन्, णिट्ठिउ मृतः. 14 a °विणूयउ स्तुत. 15 °रुम्मि° रुक्मि°.

7

दुवई—विणिण वि सह वसन्ति विहरन्ति वि विलुलियकुसुमसेहरा ॥
विणिण वि परममित्त ते सुरवर सुररमणीमणोहरा ॥ छ ॥

एत्तहि चिरु संसारु भमेप्पिणु
तेरहविहु चारित्तु चरेप्पिणु
अच्छरकरयललालियचामरु
देवहं ताहं विहिं मि दिवि जइयहुं
जंघुदीवि छुहंपंकियगोउरु
तहिं सिरिमाणउ राणउ सिरिहरु
विंझपुराहिउ सग्गहु आयउ
जयसिरिसीमंतिणिभत्तारउ
कोक्किउ सो णियताणं तारउ
तारयताराणाहें घित्तइं

विंझसत्ति जिणलिगु लएप्पिणु ।
णिरसणविहिमग्गेण मरेप्पिणु ।
जायउ दिव्वदेहु कप्पामरु । 5
संखसमाउसु संठिउ तइयहुं ।
भरहि भोयवड्डुणु णामें पुरु ।
सिरिमइदेविसिहिणसंगयकरु ।
एयहं विहिं मि पुत्तु संजायउ ।
जसससंककिरणवलितारउ । 10
वसिकयसव्वदेसकंतारउ ।
असिकरेण रिउतिमिरइं जित्तइं ।

वत्ता—मंडलियहं मयमाहप्पियहं सिरि पाडिवि समसुत्ती ॥
तिहि खंडहिं मंडिय मेइणिय चप्पिवि दासि व भुत्ती ॥ ७ ॥

8

दुवई—अप्पडिहयपयावकंपावियसयलदिसाविहायए ॥

सपवणतरणिवरुणवइसवणभयंकरि तम्मि जायए ॥ छ ॥

तावेत्तहि बहुसोक्खपवट्टणि
पढमजिणेत्तरवंसविहूसणु
रिउच्छवग्गसिप्पीरहुयासणु
मंदगमण वीणारववाणी
सिविणइ तांइ दिट्ठु संपयहरु
आसि वाउरहु जो सो आयइ

इह भारहि दारावइपट्टणि ।
खलखत्तियवलदप्पविणासणु ।
वंभणराहिउ वंभपयासणु । 5
तासु सुहइ सुहइणिसेणी ।
दससययरु अवरु वि सियदिणयरु ।
पाणइंदुसुउ जणियउ मायइ ।

7 १ AP ससारे. २ AP छुहपकय. ३ AP विह मि. ४ A सवसुत्ती.

8 १ P वंभु. २ AP दिट्ठु ताइ. ३ AP सपययरु.

7 १ b णिरसणविहिमग्गेण सन्यासमार्गेण. 7 a छुहपकिय^० सुधाधवलितम्. 8 b^०सिहिण^० स्तनौ. 10 b^०तारउ निर्मल. 12 a तारयताराणाहें तारक एव तारानाथश्चन्द्रः तेन;
b असिकरेण खड्गकिरणेन. 14 चप्पिवि बलाद्वशीकृत्य.

8 1 a अप्पडिहयपयाव^० अप्रतिहतप्रतापेन, ^०विहायए^०विभागे. 6 b सुहइ सुभद्रा;
सुहइणिसेणी सुभद्राणां मङ्गलाना नि.श्रेणी. 7 b दससययरु सहस्रकर. सूर्य, सियदिणयरु चन्द्रः
8 a आयइ अनया.

अणु सुसेणु सुणु सग्गचुउ
अचल दुविट्टु णाम ते सुंदर
धवलउ एक्कु एक्कु अलिकालउ
गरुउ एक्कु एक्कु सिरिमाणु
एक्कु चंडु णं एक्कु दिवायरु

वीर्यउ उववादेविइ दढभुउ ।
णं केलास णीलमणिमहिहर । 10
एक्कु सुसीलु एक्कु दुल्लीलउ ।
एक्कु सुभीमु एक्कु सोमाणु ।
हलहरु एक्कु एक्कु दामोयरु ।

घत्ता - ते वेणिण वि भायर भुवणरवि जोइवि रोसविमीसिउ ॥

महिणाहहु जाइवि तारयहु तहु चरोहिं आहासिउं ॥ ८ ॥ 15

9

दुवई— णं सियकसणपक्ख हलिसिरिधव वेणिण वि धवलसामला ॥

दारावइणरिदवरतणुरुह गिरिवरंधरणभुयवला ॥ छ ॥

वइवसभउंहाभंगुरभावइं
दोहिं मि गयउ रयणविण्फुरियउ
लंगलमुसलसंखकर दुद्धर
तहिं थरहरइ मरइ रिउ ण सरइ
अणु वि अत्थि वइरिजुरावणु
ताहं लील दीसइ विवरेरी
भग्गा सइं सुहडत्तणवाणं
संगरु करिवि हूरामि करिरयणइं
लुहउ वंभु हयपुत्तविओणं
मइं विरुद्धि जग्गि को वि ण जीवइ

दोहिं मि सिद्धइं दिव्वइं चावइं ।
विज्जादेविउ पेसणयरियउ ।
ते भिडंति जहिं केसरिकंधर । 5
करु असिवरहु कया वि ण पसरइ ।
गंधहत्थि णावइ अइरावणु ।
णउ गणांति ते आण तुहारी ।
तं आयण्णिवि जंपिउ राणं ।
गलियंसुयइं सुहइहि णयणइं । 10
उज्झउ सोसिउ दूसहसोणं ।
जउं वि मरणु समरंगणि पावइ ।

घत्ता—महुं कमकमलाइं ण संभरइ जो रायत्तणु मग्गइ ॥

सो ससयण परियणपरियरिउ जमपुरपंथं लग्गइ ॥ ९ ॥

10

दुवई— इय गज्जंतु राउ णिजमंतिहि वोळ्ळिउ हो ण जुज्जए ॥

कि कलहेण तां व पडिवक्खहं महिवइ दूउ दिज्जए ॥ छ ॥

४ A सुमेणसूणु. ५ AP वीर्यउ वायादेविइ. ६ K दुस्सीलउ but connects it to दुल्लीलउ.

9 १ P सिरिहर. २ P 'वरधण'. ३ A हरेवि, P हरेमि. ४ P जमु. ५ A सो सयणसपरि-
यण°, P सो सयणपरियण°

10 १ AP णियमतिहि.

9 1 °सिरिधव विणु 3 a वइवसभउहा° यमभ्र.. 4 a गयउ गदा, 6 पेसणयरि-
यउ आजाकरा. 6 a ण मरइ न पूरयति. 9 a सुहडत्तणवाए सुभटत्ववानेन. 11 a लुहउ अश्रुणि
मार्जयतु.

सो गंधपीलु	सुरदंतिसीलु ।	
सिद्धाईं जाईं	रयणाईं ताईं ।	
सो दिव्वु संखु	तं धणु असंखु ।	5
जइ तुज्जु दंति	पेसणु करंति ।	
तो ते जियंति	णं तो मरंति ।	
तो दिण्णु दूउ	कल्लाणभूउ ।	
दारावईसु	भीमारिभीसु ।	
जाएवि तेण	मउलियकरेण ।	10
कुलकुमुयचंडु	दिद्धउ उविंदु ।	
दूएण उत्तु	सुणुं मंतसुत्तु ।	
भुयवलविसालु	कुलसामिसालु ।	
सभरहि देउ	रायाहिराउ ।	
गिरितुंगमाणु	ताराहिहाणु ।	15
भडवरंवरिद्ध	तुहुं भो दुविद्ध ।	
मेल्लिर्वि दुआलि	मा करहि रालि ।	
पुहईपिण	सह सामिण ।	
खयरिद जासु	वच्चंति पासु ।	
इच्छंति सेव	असितसिय देव ।	20
तहु कवणु महु	मुइ रोससहु ।	
ढोइवि करिदु	पवणहि णरिंदु ।	

घत्ता—ता भणिउं दुविद्धे रद्धएण सामि महारउ हलहरु ॥

अण्णहु सामण्णहु माणुसहु हउं होसमि किं किंकरु ॥ १० ॥

11

दुवई—जो मईं भणइ भिच्चं परु दुम्मइ दूयय तासु सीसयं ॥

तोडमि रणि तड त्ति मणिकुंडलमंडियगंडएसयं ॥ छु ॥

कायकंतिओहामियससहरु

तहिं अवसरि भासइ जिव्वाहरु ।

पहरणरुक्खराइसंछण्णउं

णिक्कामिणिवडजक्खिरवण्णउं ।

लंबललंतच्चिधकोमलदलु

चलवामरहंसावलिअविरलु । 5

२ AP गंधिपीलु. ३ AP °लीलु. ४ A ता. ५ A सुणि. ६ AP मेल्लहि. ७ P राडि.

11 १ AP भिच्चु.

10 5 b असखु बहुलम्. 15 b नाराहि हाणु तारकाख्यः. 17 a दुआलि दुराग्रहमपन्याय-
मन्नाय वा, b रालि कलह. 20 b असितसिय खड्गवस्त्रा.. 21 b मुइ मुञ्च.

11 2 °गंडएसयं °गण्डदेवम् 3 b जिव्वाहरु बलभद्रः. 4 a °रुक्खराइ° वृक्षश्रेणी.

करिगिरिवरु लोहियजलाणिज्जरु
सुहडंतावलिविसहरचुंभलु
दूय राउ जइ मग्गइ कुंजरु
रुद्धुदुविदुसीहसरणक्खहं
इहु वारणु तहु जीवियवारणु

उग्गयचित्तछंतइदीवरु ।
गयणविलग्गकोतवंसत्थलु ।
तो पइसउ सो समरवणंतरु ।
तहिं णउ चुक्कइ लुक्कविक्खहं ।
भयगारउ वच्छयलवियारणु । 10

घत्ता—तं णिसुणिवि दूपं जंपियंउं महुं एहउ मणि भावइ ॥

हरि तारयसरहहु कमि पडिउ अचल चलंतु ण जीवइ ॥ ११ ॥

12

दुवई—जासु तसंति एंति पणवंति थुणांति वि देवदाणवा ॥

तासु ण गहणु किं पि तुम्हारिस विवल वरायमाणवा ॥ छु ॥

तां कण्हें जंपिउं पेसुण्णउं
तं णिसुणिवि दूयउ णिग्गउ गउ
दुहु दुविदु धिदु रणु कंखइ
सेव ण करइ ण सो पइं मण्णइ
भणइ ण भयवसेण वसि होसमि
दंतमुसलजुयलें पेलावमि
रायत्तणु महुं पुणु संकरिसणु
अण्णु राउ जइ होइ कुसुंभइ
अण्णु राउ अहरहु तंवोलें
हउं कि धेप्पमि अण्णे राणं

जाहि दूय मा जंपहि सुण्णउं ।
कहइ ससामिहिं णउ अप्पइ गउ ।
तंवच्छिहि करवालु णिरिक्खइ । 5
णियसंमुहं सिरिच्छिइ सण्णइ ।
चाउ दंति करि वरु दोएसमि ।
एम हत्थि हउं तहु रणि दावमि ।
अह व करइ पियवंभुं सुदरिसणु ।
अण्णु राउ संज्ञापारंभइ । 10
अण्णु राउ छिइमि करवालें ।
ता पडिजंपिउं तारयराणं ।

घत्ता—हरिकरिभडलोहियकयछडइ दूय ण वडिमें वोळ्ळमि ॥

रणरंगि दुविदुहु अट्टियइं पिदु करेप्पिणु घल्लमि ॥ १२ ॥

13

दुवई—एम भणंतु चलिउ हयगयरहणरभरणंमियधरयलो ॥

हयसंगामतूरवहिरियदिसवहलुच्छलियकलयलो ॥ छु ॥

२ A चित्तछत्तु, ३ AP लुक्कु, ४ P जंपिउ.

12 १ A तो, २ AP दूउ गउ णिग्गउ, ३ A छेंछइ, ४ AP पिउवमु, ५ AP छिण्णमि,
६ A तारायराण, ७ AP वडिमु.

13 १ AP ०णविय०.

6 b ०इ दी वरु नीलोत्पलम्, 7 a ०चुंभलु वीभत्सम्, 9 a ०सरणक्खइ वाणा एव नखास्तेपाम्,
b लुक्क विक्खहं उप्तविपक्षाणा वाणानाम्, 12 तारयसरहउ कमि ताक्क एव अष्टापदस्तस्य चरणे;
अचल हे अचल.

12 3 a पेसुण्णउं पैशुन्यम्, 5 b तवच्छि हि ताम्रनेत्रैः, 6 b छिंछइ पुश्चली, 7 b चाउ
दंति करि वरुदोएसमि हस्ते गृहीत्वा वरु चापं गजे द्वौकयिष्यामि, 9 a मकरिसणु वलभद्र एव.

हरिखुरखयधूलीरयछाइउ
थिउ दारावइणियडउ जावहि
सकरि सगरुडचिध रहसुव्भड
गयमलधवलकमलकज्जलणिह
खयरणरामरसेवियपयजुय
रयणमालकोत्थुहजलयरधर
भइसुभँइउवायाणंदण
जिह जिह तारएण अवलोइय
वलपव्भारै मेइणि हलइ

दसदिसु खंधावारु ण माइउ ।
णिग्गय सज्जणहरिवल तावहिं ।
सहरि गिरिद्धीर सुंमहाभड । 5
कायतेयणिज्जियखयसिहिसिह ।
दंतिदंतणिम्मूलणखमभुय ।
सीरसरासणसुरपहरणकर ।
दुद्धमदाणववंदंविमइण ।
तिह तिह मइ विंभयवहि ढोइय । 10
विसहरु तसँइ रसइ विसु मेलइ ।

यत्ता—करिकारणि तारयमाहवहं सेण्णइं संमुहुं दुक्कइं ॥
लग्गइं पक्कलपाइकमुहमुक्कहकललक्कइं ॥ १३ ॥

14

दुवई—दसदिसिवहपयासिजसलुद्धइं मुहमरुभमियभंमरयं ॥
धणुगुणमुक्कमंदसरजालइं कयसुरणियरडंमरयं ॥ छ ॥

जायघायलोहियभरियंगइं
भडताडियपाडियमायंगइं
वज्जमुट्टिफोडियसीसक्कइं
दंडलियवियलियपासुलियइं
पित्तसंभसोणियजलण्हायइं
मोडियकाडियैलकोप्परठाणइं
संघारियसामंतसहासइं
परिपोसियसिववायसणिद्धइं

आइरंगरंगंततुरंगइं ।
झसतिसूलकरवालपसंगइं ।
णीसारियमत्थयमत्थिकइं । 5
चलियइं उल्लियइं पडिवलियइं ।
असिणिहसणसिहिसिहवसु आयइं ।
विहडियदेहसंधिसंठाणइं ।
मयमंडलियमउडभाभासइं ।
सिरिमहिरामारमणपलुद्धइं । 10

यत्ता—अरिरुहिरतोयतण्हायतणु पक्खिखहिं पक्खझडप्पियउं ॥
उम्मुच्छिउ को वि महासुहइ लग्गउ वइरिहि त्रिप्पियउं ॥ १४ ॥

२ A समहाभड. ३ AP °सुमहावाया°, ४ AP °विद°, ५ AP रसइ तसइ.

14 १ AP °भमरइं. २ AP °डमरइं. ३ A °कडयल°, ४ A मुय°.

13 6 a गयमलधवलकमल° निर्मलध्वेतकमलसदण. b °ख वसि हि सि ह णि ह °प्रलयाग्नि-
ज्वालसदणः 8 a °जलयर° जख b सीर° हल. 10 b विं भयवहि आश्रयमार्गे. 11 a वल-
पव्भारै सैन्यसमूहेन. 13 पक्कलपाइक्कमुहमुक्क° प्रगतभमृत्यमुखमुक्त .

14 1 मुहमरुभमियभंमरयं मुखवातेन भ्रमिता. भ्रमण यस्मिन् कर्मणि यथा भवति तथा.
3 आइरगं मंत्रामरुद्धः. 6 a °पासुलियइ °पार्थास्तिकानि. 7 b असिणहसणि सि हिं °खज्ञाना
वर्षेण जनिनोऽग्निः. 9 b मय° मृता . 10 a °सिव वृगाला..

15

दुवई—परिफुडकरडगलियमयधारालालसभसलसद्वए ॥

को वि करिंददंतजुयसयणइ सुत्तउ मरणणिद्वए ॥ छ ॥

लद्धवीरभंडणमहाँमिसे
उच्छलंतवीसढवसौरसे
पहरभग्गयभीरुमाणुसे
पुव्ववइरसंवंधदारुणे
खयररायसंघायमारणे
कंतदंतगिरिभित्तिदारुणो
बंधुकणकहुयं सुविण्णियं
अज्जु बाल कि णेवँ जुज्जसे
धरणिणाहजयलच्छिधारिणा
दीण पंचभूयहं ण लज्जसे
रायवायगव्वेण वग्गसे
इय भणेवि मुक्का तिणा सरा
एतं तारणं वियारिया
णाइं णाय णाएहि कयफणा

घारचंचुभक्खियणरामिसे ।
कालदूयरक्खसमहाणसे ।
हम्ममाणभडभमियतामसे । 5
वणगलंतवणरुहवणारुणे ।
तारण हारि कोक्किओ रणे ।
जेम वप्प दिण्णो ण वारणो ।
जेम दूयपुरओ पयंपियं ।
संतमंतिमंतं ण वुज्जसे । 10
भणिउ महिवई दाणवारिणा ।
मम पुरो तुमं काइं गज्जसे ।
परहणाइं कि मुक्ख मग्गसे ।
पुंखलग्गहुंकारवरसरा ।
वइरिवाण वाणेहि वारिया । 15
लोहवंतं पिसुण व्व णिग्गुणा ।

घत्ता—पडिकण्हें कण्हहु पट्टुविउ अलयइउ उहामउ ॥

अइदीहरु कालउ पंचफहु भीयरु मारणकामउ ॥ १५ ॥

16

दुवई—सो गरुडेण हणेवि खणि घल्लिउ पडिवलजलणवारिणा ॥

मायातिमिरपडलु ताँ पेसिउ तहु हुंकरिवि वइरिणा ॥ छ ॥

तं पि विवक्खलक्खखयकालें
इय दिव्वाउहपंतिउ छिण्णउ
पुणु बहुरुविणिविज्जपहावें

हारिणा णासिउं रवियरजाले ।
वहुयउ लक्खकोडिसयगण्णउ ।
जुज्जिउ पडिहरि कुडिलसहावें । 5

15 १ AP पडिकरि°, K पडिकरि but corrects it to परिफुड° २ AP महारसे.
३ AP °रसावसे. ४ AP °माणसे. ५ A °दारणो. ६ A जेण. ७ AP तेम. ८ AP परहणाइं,
K परहणाइं but corrects it to परहणाइं. ९ A एति. १० P लोहवता.

16 १ A सो घल्लिउ. २ A तहि पेसिउ.

15 1 °परि फुड कर ड° व्यक्तं गण्डस्थलम्. 3 °भ डण म हा मि ने भण्डणनिमित्ते. 5 6 °ता म ने
रौद्रपरिणामे. 6 6 वण ग ल त वण रु ह व णा रु णे व्रणगलदृधिरजलरक्ते. 15 a एत आगच्छन्तः. 16 a
णाए हिं सैः. 17 अलयइउ जलसर्प.

सा वि पणहु जणदणपुण्णं सिरिमइतणएं अंजणवण्णं ।
 लेवि चकु करि भामिवि वुत्तउं देहि हत्थि मा मरहि णिरुत्तउं ।
 ता पडिलविय उवायापुत्तं किं ससहरु जिप्पइ णक्खत्तं ।
 जइ ण धरमि रहंगु सइं हत्थे तो पइसमि हुयवहु परमत्थे ।
 मरु को मरइ संढ तुह घाएं मुक्कु चकु तो तारयराएं । 10

घत्ता—रक्खंतहं णियवइणिब्भयहं पहरणेहि पहरंतहं ॥
 तं आयउ सयलहं पत्थिवहं ज्ञ त्ति धरंत धरंतहं ॥ १६ ॥

17

दुवई—देवासुरणरिंदफणिखेयरकिंणरदप्पहारयं ॥
 भुयणुंज्जोयकारि माणिकमऊहविराइयारयं ॥ छ ॥

भाणुविंवु णं किरणहिं जडियउं वासुएवकरणियडइ पडियउं ।
 धरिवि तेण करि जंपिउं एहउं एवहिं तुज्जु सरणु कहि केहउं ।
 करहि केर वलएवहु केरी अणुहुंजहि संपय गरुयारी । 5
 ता पडिसत्तु चवइ विहसेप्पिणु मंडाखंडु भिक्खं पावेप्पिणु ।
 जिह णच्चइ संतोसं देसिउ तिह तुहुं एण रहंगे हरिसिउ ।
 रासहु होइवि हत्थिहि लग्गइ वायसु होइवि गरुडहु विग्गहि ।
 पत्थरु होइवि मेरु व मण्णहि अप्पउ वारु वारु किं वण्णहि ।
 रे गोवालवाल णउ लज्जहि महुं अग्गइ भडवाएं भज्जहि । 10

घत्ता—लइ रक्खउ तेरउ सीरहरु एवहिं मारमि लग्गउ ॥
 किं चुक्कइ काणणि केसरिहि दिट्ठिपंथि णिव्वडिउ मउं ॥ १७ ॥

18

दुवई—एव भणेवि धीरु विसविसमविसण्णवणिसियअसिवरं ॥
 अरि करिकुं भकालियधवलुज्जलमोत्तियपंतिदंतुरं ॥ छ ॥

3 A हुववहि.

17 1 A जलियउ. 2 A भिक्खु. 3 P रहसिउ. 4 AP वगहि. 5 AP णिवडिउ.
 6 AP गउ.

18 1 AP ०गलिय०.

16 6 b सिरिमइतणएं तारकेण. 8 a उवायापुत्ते द्विपुष्टेन. 11 णियवइणिब्भयहं
 निजस्वामिनिर्भयकारकाणा रक्षकाणाम्.

17 2 ०विरइयारयं विगजिताः अरा यस्य तादृशं चक्रम्. 5 a केर आशा. 6 b मंडाखंडु
 अपूपखण्डः. 7 a देसिउ कार्पाटिक परदेशिक. 8 b विग्गहि विग्रहं करोपि. 9 b वारुवारु वारवारम्.
 10 b भडवाए नुभट्वातेन. 12 मउ मृगः.

18 1 विसवि नम विसण्णव० विष्वद्विषमं विष पानीयं यत्र तस्मिन्नर्णवे समुद्रे.

थक्कउ करयलेण उग्गामिवि
मुक्कु चक्कु दुक्कउ रिउकंठहु
जाइवि दिणयरविंबु णिमण्णउं
ससयणसडयणदिण्णसुहेल्लिहि
हसियेपुसियेपरणरवइरायहु
खग्गे वसिकिउ लोउ असेसु वि
जिह महि सिद्धी अद्ध तिविद्धहु
उत्तंगत्ते धणु सो सत्तरि
पावे पाविउ सत्तमु महियल्लु
जहिं पडिकेसउ तहिं गउ केसवु
एम भणेप्पिणु पासि तिगुत्तहु
बहुरिसिवंदे^१ समउ समाहिउ

ता सिरिरमणे णहयलि भामिवि ।
णावेइ अत्थसिहरिउवकंठहु ।
लोहियलित्तउं लोहियवण्णउं । 5
फुल्लु णाई हरिसाहसवेल्लिहि ।
पडिउ सीसु तारयणरणाहहु ।
मागहु वरतणु जित्तु पहासु वि ।
तिह हूई णिवरिद्धि दुविद्धहु ।
जीविउं वरिसलक्ख वाहत्तरि । 10
तहिं अवसरि णियमणि चित्तइ वल्लु ।
काले णडियउ णिवडइ वासवु ।
वउ लइयउं समत्थुं समचित्तहु ।
केवलणाणसिरीइ पसाहिउ ।

घत्ता—गउ मोक्खहु अचल्लु अकंपमइ भरहणरेसरवंदिउ ॥

15

जोइसविमाणवासियपवर पुप्फदंतसयवंदिउ ॥ १८ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए

महाक्कइपुप्फयंतविरइए महाक्कवे अचल्लदुविद्धतारयकहंतरं

णाम चउवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५४ ॥

२ A णं रवि अत्थ°. ३ A णिवण्णउ. ४ P हसिउ पुसिय°. ५ A पुसिउ. ६ A णिव झत्ति दुविद्धहु.
७ AP उत्तंगत्ते. ८ AP चित्तइ णियमणि वल्लु. ९ AP वउ. १० A समत्तु णियचित्तहु. ११ AP
रिसिविदहिं. १२ P पहासिउ. १३ A अकंपमणु. १४ A पुप्फयत°.

4 b अत्थ सि हरि उव कंठ हु अस्तगिरिसमीपम. 5 a णि म ण्ण उ निमग्गमिव. 6 a स स य ण स ड य ण-
दि ण्ण सु हे ल्लि हि स्वकीयस्वजना एव भ्रमरास्तेभ्यो दत्त सुख यया. 8 प हा सु वि प्रभासक्षेत्रमपि. 10 b
जी वि उं आयुः. 12 b ण डि य उ प्रेरितः. 14 a म मा हि उ सावधानः.

तवसिरिराइयहु मुणिझाइयहु सयमहमहियपयावहु ॥
 वंदिवि कमजमलु णिज्जियकमलु विमलहु विमलसहावहु ॥ ध्रुवकं ॥

1

णरउलमहिलं	वज्जियमहिलं ।	
जेण विरइयं	भोयविरइयं ।	
सत्थं सारं	वयणंसारं ।	5
जस्स गहेउं	हिंसाहेउं ।	
णट्ठसमोहं	वड्ढियमोहं ।	
काउं समयं	मयमाणमयं ।	
पत्ता णरयं	जेत्ताणरयं ।	
भुवणमहीसं	कह लहिही सं ।	10
पइं परिहीणं	जिण पडिही णं ।	
णारयविवरे	णविण विवरें ।	
णासइ गरयं	जणियंगरयं ।	
ण हु उलुहंते	सरणमहं ते ।	
देव पइट्ठो	तं महं इट्ठो ।	15
इय थुइवायं	करइ सुवायं ।	
तसियगहिंदो	जस्स महिंदो ।	
तं गुणविमलं	णविउं विमलं ।	
हयमोहंगं	तस्स कहंगं ।	
भणिमो सरसं	वारियसरसं ।	20

यत्ता—तेरहमउ अवरु जणसंतियरु सुत्तगोफसोमालइ ॥

अंचमि णरहियइ खयविरहियइ जिणु कब्बुप्पलमालइ ॥ १ ॥

1 १ A सिरिरायहु. २ AP पहावहु, K पहावहु but corrects it to पयावहु. ३ AP उवल. ४ A जे ताणरय; P जेत्ताणरयं. ५ A महु. ६ AP गुंफसोमालइ, T गोफ°.

1 1 १ ग इ यहु राजितस्य. 2 कमजमलु पादयुगम्. 3 a णरउलमहिलं नरकुलानां पृथ्वी-
 दायकम्. 4 a भोयविरइयं भोगविरक्तिदायकम्. 5 a सत्थंसारं शालं परमार्थभूतम्; b वयणंसारं
 यस्य शालस्य वचनाशान् अर अत्यर्थ. 6 a गहिउ गृहीत्वा पश्चान्मिथ्याशालं कृत्वा. 9 a पत्ताणरय
 नरकं प्राप्ता, b ताणरयं तेषां पुराणामनुरक्तम्. 10 a भुवणं भुवनम्; अहीसं बुद्धिरहितम्; b लहि-
 ही लस्ये, स सं सुखम्. 12 b विवरें पञ्चिवरेण गरुडेन. 14 a उलुहंते उल्लङ्घना काकास्तेयामन्ते
 समीपे. 16 b सुवायं शोभनवाचम्. 19 a हयमोहंगं हतं मोहस्याङ्गं कारणं स्वरूपं वा येन, b कहंगं
 क्रयास्वरूपम्. 20 b वारियसरसं निषिद्धस्मरसुखम्. 21 सुत्तगोफ° सुत्तग्रथनम्. २२ णरहियइ
 प्राणिनां हितकारिण्या, कब्बुप्पलमालइ काव्यमेवोत्पलानि तेषां मालया.

2

धादइसंडइ परिभमियहरि
 तहिं पुव्वविदेहि तरंतकरि
 तहि दाहिणकूलि कलंवहरि
 फलरंसवहरुक्खसोक्खसयरि
 पहु पउमसेणु पउमारमणु
 कयलीदलवीयणसीयरइ
 मंदाणिलवालियकुसुमरइ
 वयणुगयधीरधम्मज्झुणिहि
 संपयपइ पउमणाहु करिवि
 थक्कउ रिसिदिक्खइ दिक्खियउ

पुव्वामरगिरिगंभीरदरि ।
 सीयां णामं अत्थि सरि ।
 णवसत्तच्छयछाइयमिहिरि ।
 रम्मयवइदेसि महाणयरि ।
 णवजोव्वणु रमणीमणदमणु । 5
 दिसिउग्गयसरसरसीयरइ ।
 अण्णाहिं दिणि वणि पीइंकरइ ।
 पायंति य सव्वगुत्तमुणिहि ।
 आरंभडंभविहि परिहरिवि ।
 एयारह अंगइं सिक्खियउ । 10

घत्ता—मलु उड्ढावियउ समु भावियउ पंकयसेणं घणघणु ॥
 पक्खि व पंजरइ दुक्खियविरइ धम्मज्जाणि धरिउं मणु ॥ २ ॥

3

सुक्किउ भववासकिलेसहरु
 मुउ मुक्काहारु विसुद्धमइ
 अट्टारहजलहिपमाउधरु
 णवमासहि एकसु सो ससइ
 णवणवसहंसहि संवच्छरहं
 जावंजणमहि ता णाणगइ
 तें दीहु कालु दिवि संचरिउं
 तइयहुं पढमिदें लक्खियउं

आवज्जिवि तित्थयरत्तयरु ।
 हुउ सहसारइ सहसारवइ ।
 चउरयणिसरीरु अरोयजरु ।
 परमाणुय वर मणेण गसइ ।
 सुहुं जणइ णिएवि मुहुं अच्छरहं । 5
 तहु गुण कि वण्णइ खंडकइ ।
 जइयहुं अयणंतरु उव्वरिउं ।
 सहस त्ति कुवेरहु अक्खियउं ।

2 १ AP अवरविदेहि. २ AP सीओया. ३ P °मिहरि. ४ A °रसवहुमक्खसोक्खसयरि, P °रसवहरुक्खसोक्खसयरि. ५ P °धम्मु झुणिसि. ६ A सव्वगुत्ति°. ७ AP धरियउ.
 3 १ P °जलहिपरमाउ°. २ A चउरयण°. ३ A परमाणुवरसुमणेण. ४ A सहसइं. ५ A तं.

2 1 a परि भ मिय हरि भ्रान्तसूर्ये. 3 b °सत्तच्छयछाइयमिहिरि सत्तच्छदवृक्षाच्छादितसूर्ये.
 4 a फलरसवह° फलरसमार्गः फलरसप्रवाहो वा, °मोक्खसयरि सौख्यशतदायके. 6 b °सरसरसीयरइ तडागजलशीकरे. 8 b पायति पादान्ते, य च. 9 a सपयपइ सपत्स्थाने. 11 पंकयसेणे पद्ममेनेन.
 3 1 a सुक्किउ सुकृतम्. 3 a °जलहिपमाउधरु °सागगेपमायुर्धर, b चउरयणि° चतु-
 हंस्तप्रमाणम्. 4 a एकसु एकदा, b परमाणुयवर परमाणुकान् वरान्. 5 b णिएवि दृष्ट्वा. 6 a जावं-
 जणमहि पङ्कप्रभां यावत्. b खंडकइ पुष्पदन्तकविः. 7 b अयणंतरु पण्मासा.

इह भरहखेत्ति कंपिल्लपुरि
कयवम्मु राउ तहु घराणि जय

पुरुदेववांसि विम्हविर्यसुरि ।
णं विहिणा वम्महवित्ति कय । 10

यत्ता—ताहं महागुणहं वेणिणं वि जणहं होसइ भवणि भडारउ ॥
कम्ममणोरहहं अट्टारहहं णियदोसहं खयगारउ ॥ ३ ॥

4

जक्खाहिव तुरियउं जाहि तुहुं
ता पुरवरु णिहिणाहं विहिउं
दहिक्कुट्टिमयलजियसरयघणु
वणरुक्खराइसुरहियपवणु
सयणागमहारिसियपउरयणु
धणु दिज्जइ जहिं बहुदेसियहं
सियसिहरवद्धयपाडलिउं
ललियंगपसाहियकामियणु

करि पुरु धेरि चिंतिउं भोयसुहुं ।
णं सग्गखंडु धराणिहि णिहिउं ।
गयणग्गलग्गमणिमयभवणु ।
वणरुहसररयकलहंसयणु ।
रयणंसुजालजियतियसधणु । 5
सियरहियहं णिच्चपवासियहं ।
पाडलपूयफलदुमललिउं ।
कामियणपरोप्परदिणमणु ।

यत्ता—णरणियराउलइ तहिं राउलइ जयदेविइ सुहसुत्तइ ॥

सिविणावलि णिसिहिं उग्गयदिसिहि दीसइ कोमलगत्तइ ॥ ४ ॥ 10

5

करि दाणजलोल्लकवोलयलु
पंचाणणु रुइहयहारमणि
दुइ सुमणालउ मालउ खयलि
तिमि दोणिणं रमतं तरंत जलि
दो कलस ससलिलं सकमल सदल

ढेकंत्तु वसहु जियवसहवलु ।
अरविंदणिलय माहवरमणि ।
हिमयर अहिमयरुग्गय विउलि ।
संणिहिय मणोरम धराणियलि ।
णालिणालय मयरालय विमल । 5

६ AP विंभइयसुरि. ७ AP दोहं मि.

4 १ AP घर. २ A चिनियभोयसुहुं. ३ A °सिरियकलहंसगणु. ४ AP तहि. ५ A पाडल-
पूयफल°. ६ AP सुहं सुत्तए.

5 १ A ढिकंत्तु. २ A दोण्ण. ३ AP तरंत रमत. ४ P कलस सलिल.

4 4 b वणरुहसररय° पन्नसरसि रत.. 5 b °तियसधणु इन्द्रधनु'. 6 b सियरहियहं
श्रीगहितानाम्. 7 a °पाडलिउं °कर्तुरम् b पूयफल° पूयफलम्. 10 उग्गयदिसिहिं उद्भासित-
दिवायां, प्रभाते इत्यर्थे..

5 1 a दाणजलोल्लकवोलयलु मदजलार्द्रकपोल ; b ढेकंत्तु गर्जेन्, जियवसहवलु जिता-
न्यत्रुपभवलः. 2 a रुइहयहारमणि स्वक्या निरस्कृतहारमणि सिंह ; b माहवरमणि लक्ष्मीः.
3 b विउलि विपुले आकाशे. 4 a तिमि मत्स्यौ.

आसंदी हरिणरायधरिय
णाइणिगिज्जंतगेयमुहलु
मणिरासि सिहाहि फुरंतु सिहि

अमरिंदवसहि पहपरियरिय ।
णाइंदहु केरउं सउहयलु ।
सिविणोलि णिहालिय दिण्णदिहि ।

घत्ता—सा सीमंतिणिय पीणत्थणिय दंसणु दइयहु भासइ ॥

देउं णराहिवइ पडिबुद्धमइ तं फलु ताहि समासइ ॥ ५ ॥

10

6

पयपुंडरीयजुयणं वियसुरु
मयरद्धयधयणिल्लूरणउ
इंदाएसें णिम्मच्छरउ
जयदेविहि देहु पसंसियउ
छम्मासु हेमधाराधरहिं
जेट्टहु मासहु तमदसमिदिणि
रयणेहि सुरेहि संथुयचरिउ
णिहिकेळससचिकउं पयडियउं
जइयहुं सायरसम तीस गय
पल्लंतपणट्टइ धम्मि वरि
कंचणचूलालिहियंबुहरि

अरहंतु अणंतु तिलोयगुरु ।
परमेसरि होसइ तुह तणउ ।
एत्थंतरि आयउ अच्छरउ ।
गम्भासयदोसु विहंसियउ ।
वरिसिउ जकखहि णं जलहरहिं । 5
उत्तरभइवयइ हिमकिराणि ।
करिरुवें गब्भि समोयरिउ ।
णवमास पुणु वि वसु णिवडियउं ।
मिच्छत्तें दूसिय सयल पय ।
णिव्वुइ वारहमइ तित्थयरि । 10
तइयहुं कयवम्महु तणइ घरि ।

घत्ता—माहचउत्थिहि वड्ढियससिहि सिवजोयइ जिणु जायउ ॥

संदणहयगयहिं लंबियधयहि चउदिसु सुरयणु आइउ ॥ ६ ॥

7

मायासिसु मायहि ढोइयउ
कर मउलिवि पणविवि परमपरु
करि पेळ्ळिउ चळ्ळिउ गयणयलि
लंघेविणु रविससिमंडलइं

सकें जिणवयणु पलोइयउ ।
पुणु भत्तिइ लेविणु तित्थयरु ।
पहपडहभेरिठक्कामुहलि ।
णं णहयललच्छिहि कुंडलइं ।

५ P ताउ.

6 १ AP °णमिय°. २ A °कलसविमुकउ. ३ A धम्मवरि. ४ A °चउइसिहि; P चउत्थि-
सिइ. ५ AP वट्ठिय°.

7 १ P भत्ति.

6 a आसदी आसनम्, b अमरिंदवसहि देवविमानम्.

6 1 a पयपुंडरीय° पादकमलम्. 2 a °णिल्लूरणउ स्फेटक. 6 a तमदसमि° कृष्ण-
दशमी. 7 a रयणेहिं रत्नैः. 8 a णिहिकलससचिकउ निधिकल्लोपु स्वविक्रम प्रकटीकृत°. 11 a
कचणचूला° सौवर्णशिखरम्. 12 सिवजोयइ अहिर्बुध्नयोरो उत्तगभाद्रपदानक्षत्रे.

गउ तेत्तहिं जेत्तहिं पंडुसिल
मंदरगिरिसिरि विरइउं णवणु
पंडुरि ससहरकररासिहरि
सिसु संसिवि जय चिरु सुकयतव
कालेण पवड्डिउ जिणु तरुणु
सहंसहुत्तरमियलक्खणइं
वण्णेण वि सहइ सुवण्णाणिहु
परमेसहु माणियवालवय
पुणु सयमहेण पणवि वि णविविउ
वरिसहं वसिहइ दिण्णकरा

णिरु णिममल णावइ सिद्धइल । 5
तहु देवहिं पुज्जिय दिव्वतणु ।
आणेप्पिणु णिहियउ जण्णिघरि ।
गय णच्चिवि णायहु णायभव ।
गरुयारउ हूयउ सट्ठिधणु ।
तहु दिईइं वहुयइं वेजणइं । 10
हो किं मइं वण्णिज्जइ अरिहु ।
वरिसहं पण्णारह लक्ख गय ।
रायत्तणि तिजगराउ थविउ ।
तिउणियदहलक्खइं भुत्त धरा ।

यत्ता—तुहिणविणिग्गमणि महुआगमणि तीरोसरियजलालउ । 15
रविकिरणहिं हणिवि हिमकण धुणिवि गिंमं जित्तु सियालउ ॥ ७ ॥

8

अवलोइवि सो दलवट्टियउ
पहु चितइ अणुदिणु परिणवइ
चिरु चित्तु दुच्चित्तहु णीणियउं
पुणु जीविउ जम्मणु आणियउं
इंदियवसेण ण विवेइयउं
धणपुत्तकलत्तहि मोहियउ
अच्छइ ण णियच्छमि किं पि किहं
ता संवोहिउ लोयंतियहिं
किउ देवयत्तसिवियारुहणु

कालेण कालु पल्लट्टियउ ।
जणु तो वि ण जुंजइ धम्ममइ ।
दिवि दिव्वभोयसुहुं माणियउं ।
तिहिं णाणहिं तिहुवणु जाणियउं ।
हा मइं वि ण अण्णउं चेइयउं । 5
मयरद्धयवाणहिं जोहियउ ।
अण्णमणु अण्णु अण्णाणु जिहं ।
अहिसित्तउ सुरवरपंतियहिं ।
गउ झ त्ति सहेउयणाम वणु ।

यत्ता—माहचउत्थियहि ससहरसियहि छावीसमि णक्खत्तइ ॥ 10
सहुं सहसं णिवहं इच्छियसिवहं थिउ जिणु जइणचरित्तइ ॥ ८ ॥

२ देवहु. ३ AP जण्णिहरि, K जण्णिकरे but corrects it to जण्णिघरि. ४ A जिण तरुणु.
५ A अट्टोत्तरसयमियं, P सट्टोत्तरसयमियं. ६ A तहु णवसयसंखइं, P तहु तवसयसंखइं. ७ A तीरोसरिउ.

8 १ AP परिणमइ. २ AP धम्मे मइ. ३ AP धणमित्तं. ४ A किहा. ५ A जिहा.
६ A चावीसमि and gloss श्रवणनक्षत्रे. ७ A जइचारित्तइ.

7 5 b सिद्धइल सिद्धभूमि. 8 b णायहु स्वर्गम्, णायभव देवाः. 13 b तिजगराउ
त्रिभुवनराजः. 14 a दिण्णकरा दत्तदाना, b तिउणियं त्रिगुणितानि. 15 तुहिणविणिग्गमणि
शीतकाले विगते, महुं वमन्त. 16 सियालउ शीतकालः.

8 1 a दलवट्टियउ चूर्णितः. 3 दुच्चित्तहु दुराचारात् दुष्परिणामात्; णीणियउं निष्का-
शितम्. 5 इंदियवसेण इन्द्रियपरवगेन. 6 b जोहियउ विद्ध. 7 b अण्णमणु उद्धान्तचित्तः. 9 a
देवयत्तं देवदत्ता. 10 छावीसमि उत्तराभद्रपदे. 11 जइणचरित्तइ जिनचारित्रे जिनदीक्षायाम्.

9

तर्हि दिणि जयवई उववासियउ
बीयइ दिणि आयउ णंदउरु
झाणाणलहुयवम्मीसरहु
मणिपुंजें ढंकिउ तासु गिहु
छउंमत्यें मेइणियलु भमिवि
दिक्खावणि जंवूरुक्खयलि
छट्टइ दिणि दिवसभाइ अवरि
देवें केवलु उप्पाइयउं
गयणगलग्गमाणिक्कसिहु
छाइर्यणहमंडलु पंचविहु

मणपज्जवणाणें भूसियउ ।
णंदेण णमंसिउ पुरिसपुरु ।
आहारु दिण्णु परमेसरहु ।
तर्हि चोज्जु वियंभियं पंचविहु ।
संवच्छर तेण तिण्णिण गमिवि । 5
माहम्मि मासि ससियरधवलि ।
छंवीसमि जायइ उहुपवरि ।
तियसउलु ण कथइ माइयउं ।
संपत्तउ दहविहु अट्टविहु ।
सोलहविहु तेत्थु वि तं तिविहु । 10

यत्ता—थुणइ सुराहिवइ कुसुमइं घिवइ अरुहहु उप्परि पायहं ॥

जिण तुहुं गयमालिणि हियवयणलिणि वसहि रिसिहि हयरायहं ॥९॥

10

वत्तीसहं इंदहं तुहुं हियइ
तुहुं चंदु ण चंदु विमलवहणु
तुहुं सरहि ण सरहि वि खारजहु
पइ एहउ तेहउ जं कहमि
जर्हि अरुछइ तिजगु परिट्टियउं
संचलइ जेण जें परिणवइ
जं वण्णगंधरसफासधरु
पइं दिट्टइ दीसइ तं सयलु
पइं दिट्टें मुच्चइ चउगइहि
तुह सुहि संपावइ परमु सुहुं

तुहुं संसेविउ सासयसियइ ।
तुहुं सूरु ण सूरु वि णिडुहणु ।
तुहुं हरु णउ हरु वि पमंतु णडु ।
तं हउं वुहलोइ हासु लहमि ।
जें रुद्धउं णिच्चलु संठियउं । 5
जें णिच्चमेव चयण वहइ ।
जं अवरु वि काइं वि चरु अचरु ।
तुट्टइ दढमोहलोहणियलु ।
पहु होइ जीउ पंचमगइहि ।
वइरियेउ णिरंतरु तिव्वु टुहुं । 10

9 AP जइवइ. २ AP णदिउरु. ३ AP पुरिसवरु. ४ A छमत्ये. ५ A वावीसमि, P छावीसमि. ६ AP छाइउ णहमडल. ७ A गयरायह.

10 १ A पमत्तणडु. २ A जेण ज परि°. ३ A वइरिउ ण णिर°.

9 1 a जयवइ जगत्पतिः. 2 b पुरिसपुरु पुरुषप्रधानः. 7 a अवरि पश्चिमे, b छंवीसमि उत्तराभद्रपदे. 10 a पंचविहु ज्योतिष्का देवाः. 12 हियवयणलिणि चित्तकमण्डे, हयरायहं हतरागाणां मुनीनाम्.

10 1 b सासयसियइ शाश्वतलक्ष्म्या मोक्षलक्ष्म्या. 2 विमलवहणु विलपकलाञ्छनधारकः. 3 a सरहि जलधिः, b हरु शिवः. 4 b वुहलोइ पण्डितजने. 5 b णियलु शृंगला. 10 a सुहि सुहत्.

तुहुं पुणु दोहं मि मज्झत्थमणु इयं चोळु सहीयवइ धरइ जणु ।
 घत्ता—चेईहरवणहिं बहुतोरणहिं धयपंतिहि पिहियंके ॥
 परिहागोउरहिं सालहिं सरहि समवसरणु किउ सैके ॥ १० ॥

11

तहिं जाया णीसरंतमुणिहिं	पण्णास पंच गणहरमुणिहिं ।	
गज्जंतमेहगंभीरसर	एयारहसयमिय पुव्वधर ।	
छत्तीससहस पुणु पंचसय	तीसुत्तर सिकखुय मुणियणय ।	
चत्तारि सहस अडसयवरहं	अणगारहं सव्वावहिहरहं ।	
पणसहसइं अवरु वि पंचसय	घोसंति साहु संजय विमय ।	5
केवलिहि रिसिहिं मणपज्जयहं	णवसहसइं वेउव्वणवयहं ।	
सहसाइं तिणिण लेसासयइं	वाइहि विद्धंसियपरममइं ।	
संजइयहुं लक्खु तिसहससहिउं	सावयहं लक्खजुयलउं कहिउं ।	
परियाणियज्जिणगुणपरिणइहि	चत्तारि लक्ख तहु सावयहि ।	
तियसेहिं असंखहिं वंदियउ	संखेज्जतिरियअहिणंदियउ ।	10
तिवरिसरहियइं णडियच्छरहं	पण्णारह लक्खइं संवच्छरहं ।	
महि हिडिवि लोयतिमिरु लुहिवि	संमेयहु सिहरु समारुहिवि ।	
घत्ता—आसाढड्ढमिहि कसणहि तमिहि परमप्पउ णिककु हुउं ॥		
भरहमहीवइहिं फाणिसुरवइहिं विमैलु पुष्पदंतहिं थुउं ॥ ११ ॥		

इयं महापुराणे तिसड्ढिमहापुरिसगुणालंकारे महांभव्वभरहाणुमणिणए
 महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे विमलणाहणिव्वाणगमणं
 णाम पंचवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५५ ॥

४ P इह. ५ A पिहियकहि. ६ A सक्किहिं.

11 १ A सिक्खिय. २ AP हुवउ. ३ विमल. ४ AP थुयउ. ५ A पंचा^०.

12 पि हियके आच्छादितग्ग्येण.

11 7 a लेसासयइ पट्टनतानि. 12 लुहिवि स्फेट्ठित्वा. 13 तमिहि रात्री.

सुरवंदहु विमलजिणिंदहु तित्थि भीसु पालियछलु ॥
रणि अब्भिडियउ अमारिसि चडिउ महुहि सयंभु महावलु ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—अवरविदेहि जंबुदीवासिइ सिरिउरि पिसुणदूसणो ॥
महिवइ णांदिमित्तु मित्तो इव णियकुलकमलभूसणो ॥ छ ॥

सो चितइ णियमाणे णरवरिंदु	खइ सव्वु लोउ णं पुंणिमिटु ।	5
धणु सुरधणु जिह तिह थिरु ण ठाइ	पणइणि पुणु अणणहु पासि जाइ ।	
भायर णियभायहु अवयरंति	कुलैभवाणि कुलहु कलयलु करंति ।	
फिकर चहुयम्मु रयांति तेव	सव्वस्सु पयच्छइ पुरिसु जेव ।	
पोसंति णियांति सिंसुं णहवंति	मायाउ थणु आसाइ देंति ।	
भइणिउ बंधव बंधव भणांति	ता जाम उयरपूरणु लहंति ।	10
सिरिलंपहु घरदव्वावहरणु	तणुरुहु वि पडिच्छइ तायमरणु ।	
जगि कासु वि को वि ण एत्थु अत्थि	मयगंधवसिं भमरेण हत्थि ।	
गाइ वि सेविज्जइ वच्छण	रंभासइं दुद्धहु कण ।	
जणु इच्छइ सयलु सकज्जकरणु	जीवहु पुणु जिणवरधम्मु सरणु ।	
घत्ता—ईय बोल्लिवि रंजु पमेल्लिवि सोसियभीमभवणुउ ॥		15
जियकामहु सुव्वयणामहु पासि तेण लइयउं वउ ॥ १ ॥		

2

दुवई—जायउ सो मरेवि संणासं वम्महजलणपावसो ॥
पंचाणुत्तरम्मि तेत्तीसमहोवहिदीहराउसो ॥ छ ॥

भासइ गोत्तमु णियगोत्तसूरु	पंचिंदियेरिउसंगामसूरु ।
सुणि सेणिय कहमि मणोहिरामु	पइ पइ वसंति पुरणंगरगामु ।

1 १ A omits रणि. २ A पुण्णमिटु. ३ A कुल भवेणु कलहकलयलु, P कुलभवणि कुलह-
कलयलु. ४ A सुसंणहवति. ५ P आसाउ. ६ P इउ. ७ AP मेइणि मेल्लिवि. ८ A सोसीय°.

2 १ AP °पाउसो. २ AP जो इदिय°. ३ A सेणि कहमि. ४ A णयर°.

1 1 पालिय छलु पालितसग्राम.. 2 महुहि मधुना सह. 3 जंबुद्री वा सि इ जम्बूद्रीपाश्रिते;
सिरिउरि श्रीपुरे. 5 b खइ क्षये विनाशकाले. 8 a चहुयम्मु चाटुकरवचनम्, b सव्वस्सु सर्वस्वम्.
9 b आसाइ वाञ्छया. 12 b मयगंधवसि मदगन्धवगेन. 13 b रभासइ गोशब्देन.

2 1 °पावसो मेघः.

गोजूहचिण्णसुहरियतणालु 5
 तहिं सावत्थी पुरि वसणहेउ
 अवरु वि वलि तेत्थु जि अक्खकील
 चरंगमणछेज्जकड्डणपवंचु
 जाणिवि रवंति क्रि वे वि जाम
 हारंतउ सपुरु सकोसु देसु
 इह भरहि देसु णामे कुणालु । 5
 णिवसइ णरिंदु णामे सुकेउ ।
 पारडु विहिं मि जूयारलील ।
 धरघायदायघरहरणसंचु ।
 एक्के उड्डिउं णियरज्जु ताम ।
 थिउ एकल्लउ काणीणवेसु । 10

घत्ता—णउ हय गंय णउ संदण धंय एक्कु जि वसणे णडियउ ॥
 वारंतहं गुरुहं महंतहं रायविलासहु पडियउ ॥ २ ॥

3

दुवई—जे ण करंति देवगुरुभासिउं दुइमगव्वपरवसा ॥
 ते णिवडंति एंव णिवरा भुवि दुज्जसमसिमलीमसा ॥ छ ॥

मायाविणीइ विन्भमहरीइ 5
 आज्जाणुविलंबियंसाडियाइ
 णीसेससोकखणिद्धाडियाइ
 जूण ण कासु वि कुसलु एत्थु
 वंदेवि सुदंसणु मुक्कवत्थु
 तउ लेप्पिणु थिउ लंबंतहत्थु
 जइ अत्थि फलु वि तवतिव्वकम्मि
 पाडेसमि मत्थइ तासु वज्जु
 इय संभरंतु संणासणेण
 लंतवि सुरु सुक्कियसोहमाणु
 सेज्जातंवलसुहंकरीइ ।
 वैर खज्जउ माणउ चेडियाइ ।
 खणि खणि आयइ ण वराडियाइ । 5
 गउ सो सुकेउ होइवि अवत्थु ।
 णाणेणालोइयसयलवत्थु ।
 चिंतवइ अट्टझाणेण गत्थु ।
 तो मारेसमि आगमियजम्मि ।
 वलि जेण महारउ जित्तु रज्जु । 10
 मुउ जायउ भूसिउ भूसणेण ।
 चउंदहसमुइजीवियपमाणु ।

घत्ता—णीसंगे' जिणवरलिगे वलि देवत्तु लहेप्पिणु ॥

असराले जंते काले सुरणिलयाउ चवेप्पिणु ॥ ३ ॥

५ A °सुरहियं. ६ A भरहवेसि. ७ P वरगमणं. ८ A वरदायघायं, P परदायघायं. ९ P रमति.
 १० A केउ उड्डिउं.

3 १ AP °गुरुजंपिउं. २ P °विडंबियं. ३ P वरि. ४ AP मुक्कु वत्थु. ५ AP चोइसं.
 ६ AP °पवाणु. ७ P णीसंगे.

5 a गोजूहचिण्णं गोजूयेनात्वादितम्. 6 a वसणहेउ द्यूताधिकारी. 7 अक्खकील पाशकक्रीडा.
 8 a चरं बुद्धिकौशल्येन कोष्ठकान्तर्धाने परसारिघातेन द्यूतरमणम्, गमणं आत्मीयशारिरक्षण कुर्वन्निः
 स्वशारीणा परपश्चात्स्वपश्चानयनम् छेज्जं शारिघातः ; कड्डणं आत्मीयशारीणा परघातरक्षणेन स्वपक्षा-
 नयनम्, b घरहरणं व्याधिसारिमि. परगृहस्वीकार, संचु परशारिप्रविघ्ननप्रतिषेधेन स्वगृहावर्तनम् (?).
 9 b उड्डिउं हारितम्. 12 रायविलासहु पडियउ राजभोगात्पतितः.

3 2 णिवरा नृवरा. 5 b वराडियाइ कपर्दिकया. 8 b गत्थु अस्तः. 12 a सुक्कियसोह-
 माणु सुदनेन शोभमान. 14 असराले बहुलेन.

4

दुवई—इह भरहम्मि रयणपुरि णरवइ णामे समरकेसरी ॥

वीणाकलपलावसंणिहञ्जुणि धरिणी तस्स सुंदरी ॥ छ ॥

सो ताहं विहिं मि दिग्गयणिणाउ
सुउ जायउ मयरद्धयसमाणु
तिसयल महि णिज्जिय तेण केंव
तहिं कालि गहीरत्ते समुहु
महएवि तासु णामे सुहँइ
तहिं पढमइ जणियउ पढमपुत्तु
वीयइ लंतैवत्तुउ रिद्धिहेउ
ते वेणिण वि धम्मसयंभुणाम
ते वेणिण वि रामसुसामदेह
ते वे वि सिद्धविज्जासमत्थ
ते वे वि विणिग्गयमलविलेव

लक्खणलक्खंकिर्यदिव्वकाउ ।
महु णामे णं उग्गमिउ भाणु ।
णिहिघडधारिणि धरदासि जँव । 5
दारावइपुरवरि राउ रुहु ।
अण्णेक्क पुहइ पुहइ व्व भइ ।
अहमिंदु देउ सो णंदिमिच्चु ।
संजणियउ णंदणु सो सुकेउ ।
ते वेणिण वि ससिरविसरिसधाम ॥10
ते वेणिण वि गरुयणिवद्धणेह ।
ते वे वि दिव्वपहरणविहत्थ ।
ते वे वि सीरहर वासुएव ।

घत्ता—गुणवंतहिं तेहिं सुपुत्तहि दोहिं मि उज्जालियउ कुलु ॥

पँहवंतहि गयणि वहंतहिं णं ससिसूरहिं महियलु ॥ ४ ॥

15

5

दुवई—वेणिण वि ते महंत वलवंत महाजस धोयदसदिसा ॥

वे वि मइंदगरुडवाहिणिवइ वे वि अचितसाहसा ॥ छ ॥

जयसिरिरामाउकंठिएण
जणविंभयभावुप्पायणेण
अवल्लोइउ चिंधचलंतमयरु
पुच्छिउ सँमंति भणु कासु सिमिरु
दुव्वसणविसेसकयंतएण
रमणीयपँएसपुराहिवेण

घरसत्तमभूमिपरिट्टिएण ।
एक्कहिं वासरि णारायणेण । 5
पुरवाहिरि दूसावासणियरु ।
दीसइ भूसणरुइरहियतिमिरु ।
तं णिसुणिवि वुत्तु महंतएण ।
मंडलियएं ससिसोमँ णिवेण ।

4 १ AP °लक्खकिउ. २ AP सुभइ. ३ P लतवि चुउ. ४ AP पवहतहिं.

5 १ AP एक्कम्मि दियहि. २ A सुमति. ३ AP रमणीयवेस°.

4 2 वी णेत्या दि वीणायाः कलमनोहरप्रलापसदृशध्वनिः. 5 a तिसयल त्रिगकला त्रिसण्डा.
11 a रामसुसामदेह शुकुदेह कृष्णदेहश्च. 15 पवहतहिं प्रभावद्भयाम्.

5 2 मइंदगरुडवाहिणिवइ मृगेन्द्रवाहिनीपतिर्ब्रह्मभद्र, गरुडवाहिनीपतिः कृष्णः. 5 b
दूसावासणियरु पटकुटीसमूहः. 6 a समति आत्मनो मन्त्री, सिमिरु शिविग्म b रहिय° आच्छा-
दितम्. 8 b ससिसोममे चन्द्रसौम्यनाम्ना.

भीएण देव परिहरिवि दप्पु महुणरणाहहु पेसियउ कप्पु ।
 मायंग तुरय मणि दिव्व चीरु कंकणकडिसुत्तयहारिहारु । 10
 असिकरकिंकररक्खिज्जमाणु ओहच्छइ पत्थु णिवद्धठाणु ।
 यत्ता—विहसंतं भणिउं अणंतं पालियं चाउव्वण्णहु ॥
 जीवंतहु महु पेक्खंतहु जाइ कप्पु किं अण्णहु ॥ ५ ॥

6

दुवई—जिम लंगलि णरिंदु जिम पुणु हउं पुहविहि अवरु को प्ह ॥
 णिच्छउ धिवमि कुद्धकालाणणि पिक्कउ महु व सो महु ॥ छु ॥
 ता मंतं वुत्तउ भो कुमार किं गज्जसि किर परतत्तियार ।
 महराउ भणहि महुघोइ काइ हा ण वियाणहि तुहुं तहु कयाइ । 5
 मयवंत णरेसर णिहिल व्हिय महि जेण तिखंड वलेण गहिय ।
 णिज्जिय धिज्जाहर जक्ख जेण आहवि को जुज्झइ समउं तेण ।
 तं णिसुणिवि णीलणियासणेण पडिवयणु दिण्णु संकरिसणेण ।
 महु भाइहि रणि देव वि अदेव तुहुं वण्णहि अरिवरु वप्प केंव ।
 पुरिसंतरु ण मुणहि णिध्वियेय ता पेसिय किंकर उग्गतेय । 10
 रणि हणिवि जिणिवि ससिसोममंति रुंधिवि वंधिवि णं विंझदंति ।
 आणिय मायंग तुरंग करह सोवण्णहार वरवसह सरह ।
 यत्ता—आहरणइं पसरियकिरणइं कण्हहु अग्गइ धित्तइं ॥
 पडिणेत्तइं वण्णविचित्तइं णं रिउअंतइं पित्तइं ॥ ६ ॥

7

दुवई—ससिसोमेण देव जं पेसिय तं खलदुक्खदाइणा ॥
 हित्तउं तुज्झ दव्वु औवेंतउ रुहसुएण राइणा ॥ छु ॥
 इय णिसुणवि चरवयणाउ वयणु किउ रापं मुहुं रत्तंतेणयणु ।
 पट्टुविउ वओहरु गउ तुरंतु धरणीतणयहु वज्जरइ मंतु ।
 किं भग्गउ वसुमइणाहमाणु किं हित्तु हेमु आगच्छमाणु । 5

४ A चार. ५ A परिपालिय^० with परि in the margin.

6 १ A णीलणिवासणेण, P णीलणियंसणेण. २ A सोवण्णभार.

7 १ AP खलु दुक्ख^०. २ AP आएंतउ. ३ P रत्तत्तणयणु.

9) b क'पु करमारः. 10) b °हारिहारु मनोजहारः. 12) पालियचाउव्वण्णहु पालितचातुर्वर्ण्यस्य मम पश्यत .

6) 2) पिक्कउ महुव पक्कमधुवत्. 4) a) महुघोइ मधुगण्डप. 7) a) णीलणियासणेण नीलवज्जेण. 13) पडिणेत्तइ गत्रुनेत्राणीव; पित्तइ पित्तानि.

7) 2) आवेंतउ आगच्छत्. 4) a) वओहरु वचोहरो दूत् .

कि खलिउ गयणि दिणयरु भमंतु
 हा हे विवुद्धि धगधगधगंतु
 किं तोडिउ केसरिकेसरग्गु
 आहव्वभावु परिहरहि दोसु
 ता चवइ उविंदुप्पणरोसु
 जइ लोहिउ णउ पायमि पिसाय
 ता दूयहु मुहि णीसरिय वाय

आमंतिउ कि भुक्खिउ कयंतु ।
 उच्चोल्लिहि अंगालउ णिहित्तु ।
 किं महिवइआणापसरु भग्गु ।
 पट्टुवहि ससामिहि सब्बु कोसु ।
 दक्खालमि तहु असिवरु विकोसु । 10
 तो छित्ता लइ मइं धम्मपाय ।
 जिह जंपइ तिह को धिवइ घाय ।

घत्ता—कहजोग्गइ महिलहुं अग्गइ सयलु वि गज्जइ णिययघरि ॥
 जससंगहि जीवियणिग्गहि विरलउ पहरइ संगरि ॥ ७ ॥

8

दुवई—एवं चवंतु दूउ गउ रायहु कहियउ तेण वइयरो ॥
 देव ण देइ कप्पु वसुहासुउ गलगज्जइ भयंकरो ॥ छ ॥

ता वासुएवस्स
 दुंदुहिणिणायाइं
 संणाहवद्धाइं
 सेण्णाइं जुज्झंति
 खग्गेहि छिज्जंति
 वम्माइं लुम्मंति
 चम्माइं फुट्ठंति
 वूहाइं विहडंति
 अंतेहिं गुप्पंति
 वहुंतसमरट्ठि
 गरुलेस महुराय
 चिरवइरियालग्ग
 पंचाससरहेहि
 फणिपक्खिराएहिं

पडिवासुएवस्स ।
 रणभूमिआयाइं ।
 णिइयइं कुद्धाइं ।
 वीरेहिं रुज्झंति ।
 कौंतेहिं भिज्जंति ।
 रत्तेण तिम्मंति ।
 अट्ठियइं तुट्ठंति ।
 मंडलिय णिवडंति ।
 खेयर समप्पंति ।
 गयदंतसंघट्ठि ।
 उक्खित्त णाराय ।
 धणुवेयकयमग्ग ।
 मायंगसीहेहि ।
 मेहेहिं वाएहि ।

5

10

15

४ A इंगालउ.

8 १ AP तुट्ठति. २ AP फुट्ठति.

8 b उच्चोल्लिहि कटीवस्त्रे. 9 a आहव्वभावु प्रसृताभिलापः. 11 a पिसाय पिशाचान्.

8 1 वइयरो व्यतिकर. 8 a वम्माइ मर्माणि. 10 a वूहाइ व्यूहा. 11 अंतेहिं अन्त्रे.
 12 a वहुंतसमरट्ठि वर्षमानात्कारे. 14 b धणुवेयकयमग्ग धनुर्वेदे कृतो मार्ग. प्रवृत्तिर्याभ्याम्.
 15 a पचासं सिंहः.

पहरंति ते वे वि
महुणा पजंपियउं

ता चक्कु करि लेवि ।
किं दविणु महुं हियउं ।

यत्ता—किं धम्मं गयमडकम्मं जो पहरणु णावेक्खइ ॥

मइं कुद्धइ जयसिरिलुद्धइ एमहिं को पइं रक्खइ ॥ ८ ॥

20

9

दुवई—ता दामोदरेण रिउ दुंछिउ धम्मपहाणुआरिणा ॥

एण रहंगएण दारेव्वउं तुहुं मइं कित्तिकारिणा ॥ छ ॥

तं सुणिवि

भुय धुणिवि ।

मणहरिहि

सुंदरिहि ।

विउसयण-

कयवयण- ।

विणुएण

तणुएण ।

खयकरणु

रहचरणु ।

राणि मुक्कु

खाणि दुक्कु ।

णाहि चलिउं

जैलजलिउं ।

समियक्कु

करि थक्कु ।

अहिणवहु

केसवहु ।

तं धरिवि

छलु भरिवि ।

दीहरेण

मच्छरेण ।

विप्फुरिवि

हुंकरिवि ।

माहवेण

घणरवेण ।

तणु गणिउं

अरिभणिउं ।

रे पाव

करि सेव ।

दुहहरहु

हलहरहु ।

पइं कालु

दाढालु ।

सेवंतु

घोरंतु ।

रुसंविउ

उट्टविउ ।

कंहुइवि

छलु मुइवि ।

ओसरहि

मा मरहि ।

घणघणइ

काणणइ ।

पइसरिवि

जिणु सरिवि ।

5

10

15

20

25

9 १ AP दामोदरेण. २ P^oपहाणुरायणा. ३ A जले जलिउ. ४ AP त्सविउ. ५ A कंहुइवि.

9 1 दुंछिउ निर्भस्सित, धम्मपहाणु आरिणा धर्ममार्गानुचारिणा. 6 a विणुएण सुत्तेन, b तणुएण मुन्दर्या. पुत्तेण. 7 b रहचरणु चक्रम. 10 समियक्कु शमितार्कम्. 12 b छलु भरिवि पौत्त्यमवलम्ब्य.

व्रँड धरहि	तउ करहि ।	
ता चवइ	चक्कवइ ।	
सुरउइ	दालिइ ।	
डिभस्स	छुहियस्स ।	
को कंढुँ	आणंदु ।	30
मणि जणइ	दिहि कुणइ ।	
सयडंगु	तुहं तुंगु ।	
महुं चहुँ	भुयदंहुँ ।	
सकयत्थ	दिव्वत्थ ।	
मरु हणमि	सिरु लुणमि ।	35

घत्ता— ता चकें महुमहमुकें महुवच्छत्थलु छिप्पणउं ॥
करतंवे णं रविर्विंवे कालउ अब्भु विहिप्पणउं ॥ ९ ॥

10

दुवई—पत्तउ महु मरिवि समरंगणि तमतमणांमवसुमई ॥
जायउ अद्धचकि लच्छीहरुं भुवणि सयंभु महिवई ॥ छ ॥

जलकीलइ वणकीलइ रमंतु	अंगाइं कुसुमसयणइ घिवंतु ।	
भंडारवत्थुसारइं णियंतु	मायंगतुरंगसमारुहंतु ।	
घवघवघवंतुं चलणेवराइं	माणंतु चारुंअंतेउराइं ।	5
आसत्तु कामि णं भमरु गंधि	मुउ हुउ अंतिमणरयंतरंधि ।	
णिवसेप्पिणु पुहईजणणिगग्भि	हा हा सइंभु पडिओ सि सुब्भि ।	
सम्मत्तवंति मिच्छत्तविरइ	मईं मायरम्मि जिणधम्मणिरइ ।	
बुद्धो सि ण कम्महु अत्थि मल्लु	कि वद्धउ आसि णियाणसल्लु ।	
इय एव धम्मु विरएवि सोउ	णंदणहु समप्पिवि सिरिविहोउ ।	10
आउच्छिवि परियणु सयंणु लोउ	दुज्जोउ व मेल्लिवि दिव्वभोउ ।	

६ AP वउ. ७ P कुंदु. ८ A चड. ९ A दड.

10 १ P ०णामि. २ P लच्छीहउ ३ A ०घवतचल०. ४ AP ०णेउराइं. ५ AP माणतु सुहयअंते०. ६ AP सयलु.

30 a कंदु इन्दु. 32 a सय डंगु शकटाङ्गं चक्रम्. 37 करतंवे किरणताम्रेण; वि हि ण्ण उ विदारितम्.

10 1 तमतमणासवसुमई सप्तमनरकभूमि. 5 a चलणेवराइं चलनूपुराणि. 6 अतिमणरयंतरंधि सप्तमनरकच्छिद्रे. 7 b सुब्भि धन्ने नरके. 10 a विरएवि सोउ शोक कृत्वा, b सिरिविहोउ श्रीविभोगः. 11 b दुज्जोउ दुष्टग्रहादीना योग इव.

पणवेवि विमलवाहणु जिणिंदु
पावेप्पिणु करणविहीणणाणु

वहुरायहिं सहं ह्यउ मुणिंदु ।
भव्वयणि णिउंजिर्वि धम्मदाणु ।

घत्ता—भरहेसरु पढमणरेसरु जिह तिह धम्मु वि दढभुउ ॥

गउ मोक्खहु सासयसोक्खहु पुष्पदंतगणसंधुउ ॥ १० ॥

15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए
महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे धम्मसयंभुमहुकहंतरं
णाम छप्पणासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५६ ॥

७ A मच्चयण. ८ AP णिजुंजिर्वि. ९ A पुष्पयंत°. १० A महुमहकहंतरं.

13 a करणविहीणणाणु इन्द्रियरहितं केवलज्ञानम्.

पुणु भासइ गोत्तमु सेणियहु दुद्धरदुक्खकिलेसमह ॥
सिरिविमलणाहजिणगणहरहं मंदरमेरुहुं तणिय कह ॥ ध्रुवकं ॥

1

जंवूदीवइ अवरविदेहइ
मंदचूयचवचिचिणिचारइ
देसु गंधमालिणि जाणिज्जइ
भमरहिं वियलंतउं महु पिज्जइ
जहि माहिसु सरसलिलभंतरि
अहिणवपल्लववेल्लीभवणइ
गंधसालिपरिमल्लु दिस वासइ
णिइवि छेत्तवालिणिइ मुहुल्लउं
दहिउल्लउ जहिं कूरकरंवउ

माणवमिहुणयवद्धियणेहइ ।
सीओयाणइउत्तरतीरइ ।
गाइहिं कंगुकाणिसु जहि चिज्जइ । 5
पक्खिहिं कलरखु जहिं विरइज्जइ ।
ण्हाइ पउरपंकवरयपिंजरि ।
गोव सुवंति पुष्फपत्थरणइ ।
पूसउं कं धुणंतु जहिं वासइ ।
जहि पंथिय चवंति सरसुल्लउं । 10
पवहि पवहि जिम्मइ अवंवउ ।

घत्ता—तहिं देसि रवणु सुवण्णमउ णहविलग्गमंदिरसिहरु ॥
परिहापायारहिं परियरिउ वीयसोउ णामे णयरु ॥ १ ॥

2

रायमहारिसि मुक्कवियारउ
जाइ जणिउ सा धण्णी णिव सइ
गेहिणि भव्व सव्वसिरि णामे
संजयंतु अण्णेक्कु जयंतउ
सारसमिहुणसरालवणंतरि
एक्कहि दिणि दक्खवियरहंतहु
धम्मु अहिंसावंतु सुणेप्पिणु

सो सुयणायाणायवियारउ ।
णरवइ वइजयंतु तहिं णिवसइ ।
सुय उप्पण्णा सुहपरिणामे ।
अणिहणजसधवलियतिजयत्तउ ।
णासियसोय असोयवणंतरि । 5
पयजुयलउं वंदिवि अरहंतहु ।
हियउल्लउं मुणिमग्गि थैवेप्पिणु ।

1 १ AP चूयचवि°. २ A गंधमालिणि. ३ A पूसउ कण चुणंतु, P पूसउ कणु चुणंतु.

2 १ AP °तिजयंतहु. २ A जिणमग्गि. ३ T सुणेप्पिणु सुट्टु नीत्वा.

1 1 °किलेसमह °क्लेशमथिका. 5 b चिज्जइ भक्ष्यते. 7 b पउरपकयरयपिंजरि प्रचुरपद्म-
रज.पीते. 8 b पुष्फपत्थरणइ पुष्पास्तरणके. 9 b पूसउकधुणंतुजहिंवासइ यत्र शुक्रः मस्तक
कम्पयन् शब्द करोति. 11 a दहिउल्लउ दधियुक्तम्, b पवहि मार्गे, पवहि प्रपायाम्; अवंवउ अति-
शयेन अम्लः.

2 1 a रायमहारिसि राजां प्रधान, राजपूज्यः, b सुय श्रुतम्. 2 a सइ सती पतिमना,
3 b सुय सुतौ. 5 a °सरालवणंतरि शब्दयुक्तजलविशेषे. 6 a दक्खवियरहंतहु दर्शितान्तगयान्तस्य.

वइजयंतणामहु सहेप्पिणु
ते तिविहें णिव्वेपं लइय
आमेळ्ळियणियसुललियजाया
इय तवविहिहि णिति किर के वलु

संजयंततणयहु महि देप्पिणु ।
छिंदिवि मोहलोहदुल्लइय ।
पिउ पुत्तय तिण्णि मि रिसि जाया । 10
वप्पहु उप्पणउ जहिं केवलु ।

घत्ता—तहि आयहु देवहु फणिवइहि रूवु णिहालिवि हिययहरु ॥
णिज्जायइ लुहु जयंतु मुणि जइ फलु देसइ सुतवतरु ॥ २ ॥

3

तो मज्जु वि एहउं लायणणउं
एव णियाणणिवंधणबंधउ
मुउ जयंतु संपत्तइ कालइ
जेण वणण मोक्खु पाविज्जइ
मोहें मोहिउ लोउ ण याणइ
सवरुल्लउ किं मोत्तिउं वुज्जइ
आहिंडंतसरहपंचाणाणि
णिज्जियरापं वज्जियकापं

होज्जउ भवि सोहग्गाइण्णउं ।
जणु तिहिं सल्लहिं सयलु वि खद्धउ ।
जायउ विसहरिंदु पायालइ ।
तें संसारु केंव मग्गिज्जइ ।
काणणि कार्याणंतिय वीणइ । 5
मिच्छाहिद्विहि दिट्ठि ण सुज्जइ ।
तावेक्कहिं दिणि भीसणकाणणि ।
संजयंतु थिउ पडिमाजोपं ।

घत्ता—मुणिमारउ धीरउ दुहरिसु दूसहु गुणसांणिहियसरु ॥

णियभामइ सामइ रामियउ णं रइरामइ कुसुमसरु ॥ ३ ॥ 10

4

णहयलि विज्जुदाहु विज्जाहरु
सुरहरु रिसिहि उवरि ण पयइइ
ताव तेण अवलोइउं महियलु
सुमरिवि पुव्ववइरु भुइ ढोइउ

विहरइ असिवरु वसुणंदयकरु ।
दुज्जणमणु व णं जाव विसइइ ।
दिट्ठउ मुणिवरु मेरु व णिच्चलु ।
विज्जासामत्थेणुच्चाइउ ।

४ AP दुल्ललिय. ५ A वप्पहं.

3 १ AP °वद्धउ. २ A कायाणणिय. ३ A मिच्छाहिद्विहि. ४ P आहिंडति सरह°.

4 १ A विज्जदाहु. २ AP जाव ण.

9 b °दुल्लइय दुर्लतिकाम्. 10 a °जा या भार्या. 11 a णिं ति किर केवलु नयन्ति के नरा वल शक्तिम्, के पुर्याः प्राप्नुवन्ति यथा पितु. केवलमुत्पन्नम्.

3 1 b सोहग्गाइण्णउं सौभाग्याकीर्णं व्याप्तम्. 5 b कायाणंतिय काकणी मुञ्जा; वीणइ प्रार्थयति. 6 a सवरुल्लय भिच्छः. 8 a णिज्जियरापं निर्जितरागेण. 10 णियभामइ सामइ श्यामानाम्भ्या निजभार्यया, रामियउ अनुरञ्जितः.

4 2 a सुरहरु विमानम्. 4 a भुइ ढोइउ चाहुभ्यां विषये धृतः.

आण्ड तुंगसाहिसंघायद्
हरिवद् करिवद् चामीयरवद्
एयँड मिलियड जहिं तहिं पेळिड
देसु असेसु तेण संचालिड
णग्गड णिग्घिणु वसणोवायड
दुम्महु दुडुवुद्धि विवरेरड
ता मणुयहिं मुणिंहु कयरोसहिं

भारहवरिसंपुव्वदिसिभायद् । 5
कुसुमवद् वि चंडवेर्योणद् ।
पंचमहासरिसंगमि घळिड ।
अच्छद् एत्थुं एक्कु मलमइलिड ।
तुम्हइं रक्खसु भक्खहुं आयड ।
हणह कुण्हं जइ मंतु महारड । 10
ताडिड उवलहिं दंडसहासहिं ।

घत्ता—थिरं सत्तु मित्तु समभावि थिड सुक्कझाणसरुद्धमणु ॥

सो खवड खंवयसेढिहि चडिड तिणु वि ण मण्णइ णिययतणु ॥४

5

साहु भीमु उवसग्गु सहेप्पिणु
गड तहि जहि गड पुणरवि णावद्
मारिजंतु वि वइरिसमूहं
ताहं मि जणु पहरणु किं धारद्
सहुं देवहि भवभावणिसुंभद्
आयड सो जयंतु उरंजंगड
फुक्कारुद्धावियणहयंदं
माणवणिवहु णिवद्धड णायहिं
अवरहि वुत्तु फणिंद वियारहि
उक्खयखग्गं मच्छरगाढं
परियणसयणहिं सहुं थरहरियड

तिकलेवरणिवंधु मेल्लेप्पिणु ।
मुणिवरलील तिजगि को पावद् ।
जे कया वि विष्पंति ण कोहं^३ ।
जहु अप्पणु अप्पाणडं मारद् ।
तहिं णिव्वाणपुज्ज पारंभद् । 5
पेच्छिवि चिरवंधुहि पडियंगड ।
आरुसेप्पिणु खणि धरणिंदं ।
विणिहंउ णीससंतु कसघायहिं ।
अम्हइं काइं भडारा मारहि ।
एउं सव्वु विलसिउं तडिदाढं । 10
ता णासंतु सत्तु सो धरियड ।

घत्ता—किर वंधिवि धिवद् समुद्दजलि ता फणिवद् दुम्मियहियड ॥

आइच्चपहावें सुरवरिण करुण करेप्पिणु पत्थियड ॥ ५ ॥

३ A °वरिसि पुव्व. ४ A कुसुमचडई व पाणद्, P कुसुमवद् वि चंडवियाणद्. ५ A जहिं एयड मिलि-
यड तहिं पेळिड. ६ AP एक्कु एत्थु. ७ P कुणाह. ८ A दुडुसहासहिं. ९ AP थिड. १० AP
खवगसेढिहि.

5 १ A मलेप्पिणु. २ AP जहिं सो गड पुणु णावद्. ३ A मोहं. ४ AP अप्पाणडं अप्पणु.
५ AP उरजंगमु. ६ A वणि हड. ७ AP °आइच्चपहाहे. ८ A करणु, P करणु.

5 a °सा हि सघायद् वृक्षसंघाते. 6 a हरिवद् हरिमत्यादिपञ्च सरित् ; 6 चडवेया चडवेगा. 9 a
वसणो वा यड दु खोत्तादक. 13 खवड क्षपकः.

5 5 a भवभावणिसुंभद् संसारस्फेटके. 6 a उरजंगड सर्पः धरणेन्द्रः. 8 a णायहिं
नागपाशेन; 6 कसघायहिं कशाघातै. 9 a वियारहि विचारय. 10 6 विलसिउं चेष्टितम्.
13 क रण करेप्पिणु करुणां कृत्वा.

6

णायराय पहएं किं आपं
मुइ मुइ किं किर कलुससहावें
एत्थु ण को वि बंधु णउ वइरिउ
जेण सुसीलवंतु संताविउ
किर मुणि तवदुक्खि तणु तावइ
इहु हिंसइ इहु धम्मि पयइइ
तं णिसुणेवि रोसु मेहेप्पिणु
दारणमारणविहिविच्छिण्णउं

लज्जिजइ णिहएण वरायं ।
पावयम्मु सइं खज्जउ पावें ।
पिसुणु ण होइ एहु उवयारिउ ।
मोक्खु तुहारउ भायरु पाविउ ।
अण्णे किउ तं तहु णिरु भावइ । 5
चउंजम्मंतरु दोहं वि वइइ ।
चवइ अहीसरु सिरु विहुणेप्पिणु ।
भणु किह विहिं मि वइरु संपंणउं ।

यत्ता—तं णिसुणिवि दरदरिसियदसणदिच्छिइ जगु धवलउं करइ ॥

कह देवदिवायराहु फणिहि वहुरसभावहिं वज्जरइ ॥ ६ ॥

10

7

भारहगोत्तखेत्तरक्खणवइ
सयलकलाविण्णाणवियक्खण
पढसु मंति सिरिभूइ विणीयउ
विहसियसरलसरोरुहणेत्तउ
तहु गेहिणिहि सुमित्तिहि ह्यउ
हिंडंते जाएण जुवाणें
तेण किरणसंताणसिणिड्डं
देसिएण सीहउरि वसंतें
तक्करभीणं रुइविच्छिण्णइं

सीहसेणु सीहउरि महीवइ ।
रामयंत्त तहु देवि सलक्खण ।
सच्चघोसु अवरु वि तहिं वीयउ ।
पउमसंडपुरि सेट्ठि सुदत्तउ ।
भइमित्तु सिस्तु णिरुवमरुवउ । 5
देसंतरु लंघिवि पहरिणें ।
रयणदीवि वररयणइं लद्धइं ।
सुद्धसहावें बहुगुणवंतें ।
सच्चघोसमंतिहि करि दिण्णइं ।

यत्ता—गउ अण्णु पुणरवि णियवरहु लेवि सहायसमागयउ ॥

10

जा मग्गइ रयणइं णिहियाइं ताव लुहु लोहें हयउ ॥ ७ ॥

6 १ P चउजग्गे तरुदेहविघइइ. २ A उण्णउं. ३ AP दरदरिसिय°. ४ A देवदिवा-
यरु तरो P देउ दिवायराहु.

7 १ AP भारहखेत्ति खेत्त°. २ A रामदत्त. ३ A सो च्चिय सच्चघोस पुणु भणियउ,
P सोत्तिय सच्चघोसु तहिं भणियउ. ४ AP वियसिय° K वियसिय° but corrects it to विहसिय.
५ AP मणिदइं.

6 1 a पहएं किं आप एतेन प्रहतेन किम्. 3 b उवयारिउ उपकारकर्ता. 7 b वि हुणे-
प्पिणु ऋग्दित्वा. 9 दरदरिसियदसणदिच्छिइ इंपदार्शितदन्नकान्ता. 10 कह कथा.

7 6 b पहरिणें अध्वजान्तेन. 8 a देसिएण परदेशप्राप्तेन.

8

देइ ण मंति तासु पियरयणइं
वणिवरु घरि घरि फुहु पुक्कारइ
पुच्छिउ रापं कालउ तंवउ
दीणु रयंतउ णिच्चु जि दीसइ
घोसहि सच्चघोस किं जुत्तउं
हउं वि तुहुं वि जइ चोरु णिरुत्तउ
तो किं जियइ को विं भुवणंतरि
हिडइ दव्वपिसापं भुत्तउ
एउ चोरु चिंतंते^६ गहियउं

णाइं विरत्तउ विडयणु णयणइं ।
खलु लच्छीमएण अवहेरइ ।
हित्तउ काइं वत्थुणित्ठंउ ।
पइं दूसइ अण्णाउ पघोसइ ।
तो विहसेप्पिणु विप्पे वुत्तउं । 5
जणणि गिलइ जइ डिभउ सुत्तउ ।
एहु लयउ चोरेहि वणंतरि ।
जंपइ जं जि तं जि अवचित्तउ ।
ता राएण वि तं सइहियउं ।

यत्ता—वणि डिंभसहाँसहिं परियरिउ भमइ णयरि परिमुक्कसरु ॥ 10
आरडइ करुणु सूरुग्गमणि णिवर्घरणियडइ चडिवि तरु ॥ ८ ॥

9

मइं दिहिवंतइ सीलविसुद्धइ
परववणगुणतग्गयचित्तहिं
णिरणुट्ठाणु दीणु दालिहिउ
तहु जंपिउ ण को वि आयण्णइ
णिवे तुह मंदिरि चोरहं उण्णइ ।
एम चवेप्पिणु सुंदरु विहियउं
पयहिं पडंतु संतु हक्कारिउ
दोहिं मि अक्खजूउ पारद्धउं
मज्झु जाइ णीसेसहु देसहु
चामीयरसोहासोहिल्लहि

ता महपविइ वुत्तु विरुद्धइ ।
महिवइमइ भामिज्जइ धुत्तहि ।
अप्पणु जइ वि होइ सोहहिउ ।
राउ वि णिद्धणवयणु ण मण्णइ । 5
पासाहलउ पासि संणिहियउ ।
आउ महंतु तहिं जि वइसारिउ ।
देविइ भल्लउं उत्तरु लद्धउं ।
तुज्झु विं सुत्तहु दियवरवेसहु ।
अवरु वि मुइइ मणितेइल्लहि । 10

8 १ A वणि वरु पुडरीउ पुक्कारइ. २ AP राए वणिउ चवतउ. ३ P तो. ४ A omits वि.
५ A चोरु. ६ AP चित्तंते. ७ A °सहाँसि. ८ AP णिवघरि णियडउ.

9 १ P तहिं. २ A adds this line in second hand, P omits it. ३ AP जि.
४ AP मुइहि.

8 1 b विडयणु विटजन.. 2 b अवहेरइ भर्त्सयति. 3 b वत्थुणित्ठंउ वस्तु रत्नम्,
णित्ठंउ समूह., रत्नसमूह इति यावत्. 4 b अवचित्तउ उद्धान्तचिन्त. 5 a चिंतंते चिन्तन
कुर्वता. 11 णिवघरणियडइ राजगृहसमीपे.

9 1 b विरुद्धइ विरुद्धया कुपितया. 2 b महिवइमइ राजां मतिः. 3 a णिरणुट्ठाणु निरु-
धम्, b सोहहिउ सौहार्दयुक्तः. स्नेहयुक्तः. 6 b पासाहलउ पादाफलकः. 7 a अक्खजूउ मारिणुत्तम्.

विष्णि वि एयइं भूसियगत्तइं
महियंगुलियइ वज्जुजलियइ

रायाणियइ छइल्लइ जित्तइं ।
उववीयउ सहं अंगुत्थलियइ ।

यत्ता—तं णिउणमइहि समप्पियउं धाँइहि हियवउं हरिसियउं ॥

अहिणाणु महामंतिहिं तणउ भंडाँयारिहि दरिसियउं ॥ ९ ॥

10

पप्फुल्लियसुवत्तसयवत्तइ
अच्छइ गुरु राउलि अवलोयहि
तां कोसाहिवेण सामुंगउ
गय सा तं लेप्पिणुं खणि तेत्तहि
जूयपवंचु पहुहि वज्जरियउ
ता राणं पायावलिजडियइं
पडिहारें आहूयउ वणिवरु
भणिउं णरिदें वणिउ णिरिक्खइ
लइयउ तेत्थु तेणं णियमणिगणु
दिण्णउं पुरमहल्लसेट्टित्तणु
मंतिणिरिक्कु दुक्कु अवमाणहु
सीसि तीस खरंढक्करघायहि

चिंधु पदंसिवि वुत्तउं धुत्तइ ।
भइमित्तमाणिक्कइं ढोयहि ।
अप्पिउ धाँइहि वत्थुसमुग्गउ ।
अच्छइ सणिवणिवाणी जेत्तहि ।
वसुविसेसु कुडिलें अवहरियउ । 5
अण्णइं रयणइं तहि तौतडियइं ।
लइ णियमाणिक्कइं पसरहि करु ।
णियधणु किं ण को वि ओलक्खइ ।
जिह मणिगणु तिह णरणाहहु मणु ।
पावइ को ण सुइत्तें कित्तणु । 10
कंसथालि खावाविउ छाणहु ।
ताडिउ मल्लहिं कुंचियकायहि ।

यत्ता—कसपहरपरंपरसुढियतणु वरवेयणवड्डियजरउ ॥

सुउ रायहु उप्परि कुवियमणु हुउ वसुवासइ विसंहरउ ॥ १० ॥

५ AT विज्जुजलियइ, but gloss in T हीरकीप्या. ६ A महिवइहिययउं. ७ P भडायारिहे.

10 १ P तो. २ A साचगउ, P सामगउ. ३ P लेप्पिणु तंखणि. ४ P सणिवइराणी.
५ P adds वि after तेण. ६ A पावइ को ण सुइत्ते, P पावइ किं ण सुइत्तें. ७ A सीस तीस खर-
ट्कर°, P सीसि तीस खरढक्कर°. ८ A धणवेयण°, P वणवेयण°. ९ A विसहरु.

11 b छइल्लइ चतुरया. 12 a महियंगुलियइ पूजिताङ्गुलिकया; वज्जुजलियइ हीरकैर्दीप्रिया;
b उववीयउ यज्ञोपवीतम् 14 भडायारिहिं भाण्डागारिकस्य.

10 1 a पप्फुल्लियसुवत्तसयवत्तइ प्रोत्फुल्लितसुवक्त्रकमलया. 3 a सामुगउ समुद्रकः
करण्डक, b वत्थुसमुग्गउ वस्तुपूर्णः रत्नपरिपूर्णः. 4 b सणिवणिवाणी स्वनृपभार्या. 5 b वसुविसेसु
द्रव्यविशेष 6 a पायावलि° किरणपक्तिः, b तौतडियइ मिश्रितानि. 10 b सुइत्तें शुचित्वेन. 11 a
मंतिणिरिक्कु मन्त्रिचोर, b छाणहु गोमयस्य. 13 °सुढिय° शूना, वरवेयण° तीव्रवेदना. 14 वसु-
वानइ भाण्डागारे.

11

भीमु अगंधणकुलि संभूयउ
सिसुससिसरिसविसमदाढाणणु
कज्जलकण्हलतंविरोयणु
फुकरंतु दुम्मुहु अहि अच्छइ
ता राएण रिद्धिपरिउण्णउं
असणवणंतरि कंतारायलि
सुणिवि धम्मु संसारहु संकिउ
णियजणणिइ छुहियइ उवलद्धउ
मरिवि महावलु पडिवलमहणु
सीहँचंदु पहिलारउ भासिउ
रामयत्त विहि पुत्तहिं राहिय
अण्णहिं दिणि कुलकमलदिणेसरु

णं जमपासउ णं जमदूयउ ।
धणणिहिकलसयवलइयणियतणु ।
कोइलभसलकसणु मरुभोयणु ।
दीहरु कालु जाव तहिं गच्छइ ।
मंतित्तणु धम्मिल्लहु दिण्णउं । 5
धम्मणाममुणिवरपयजुयतलि ।
भद्दमित्तु जिणवरदिक्खंकिउ ।
गहाणि सुमित्तौवग्घिइ खद्धउ ।
मयवइसेणहु जायउ णंदणु ।
पुण्णयंदु तहु अणुउ पयासिउ । 10
णं पुण्णिम रविससिहिं पसाहिय ।
दविणागारु णियंतुं णरेसरु ।

घत्ता—जो सच्चघोसु चिरु मंतिचरु वद्धवइरु हुउ सण्णु घरि ॥
तं रूसिवि डक्किउं भीसणिण णउलीयरणु करेवि करि ॥ ११ ॥

12

मुउ सल्लइवणि जायउ करिवरु
णवर ससामिमराणि कुज्जंतं
गारुडइंडण गारुडिपं
भणिउ काइं महं वयणु णियच्छहु
ता पइसरिवि जलणि अहि णिग्गय
पच्चारियउ इयरु मंतीसं
एवहि एम काइं अच्छिज्जइ

असणिघोसु णामे दीहरकरु ।
मंतसारु सयलु वि वुज्जंतं ।
फाणि आवाहिय मच्छरचंडिपं ।
दीवुं धरेप्पिणु णिलयहु गच्छहु ।
अकयदोस जे ते सयल वि गय । 5
राउ महारउ भक्खिवि रोसें ।
जिम सिहि खज्जइ जिम विसु छिज्जइ ।

11 १ P °सरिससविसदाढा°, २ A कज्जलकण्हिरतविर°, P कज्जलकज्जलतंविरो°. ३ A °वग्घिणि-
खद्धउ. ४ P सीहचहु. ५ AP पुण्णचहु. ६ AP ससिरविहिं. ७ AP णियत्तु. ८ P तं रूसिवि.
९ AP डक्किउ.

12 १ A गारुडियइ. २ १ चडियइ. ३ A दिवु धरेप्पिणु, P वीउ धरेप्पिणु. ४ P जलिणि.
५ A चिज्जइ.

11 2 b °कलसयवलइय° कलशकवेष्टिता. 3 b मरुभोयणु वातभोजन सर्प. 6 a
कंता रायलि कान्ताराचले. 8 a छुहियइ बुभुक्षितया. 9 b मयवइसेणहु सिंहसेनस्य. 10 b अणुउ
अनुजः. 14 डक्किउ दष्टः.

12 2 a कुज्जंतं कुप्यतः. 6 a इयरु इतरो दोषवान्.

ता चितइ कुंभीणसु णियमणि
उंगिल्लिउ विसु केम गिलिज्जइ

अम्हइं जाया गोत्ति अगंधणि ।
कुलसामत्थु केम मइलिज्जइ ।

घत्ता—मँरणि वि संपण्णइ गरुयगरु कुलछलु माणु ण मेल्लियउ ॥ 10
जालावलिजलियइ विसहरिण अप्पउं हुयवहि घल्लियउ ॥ १२॥

13.

अट्टज्जाणमरैट्ठे सो मुउ
खंति हिरण्णवई वाणि वंदिवि
रामयत्त पियदुक्खे भग्गी
सिंहचंदु चिरु रज्जु करेप्पिणु
पुण्णचंदु भयवंतु ण्वेप्पिणु
जायउ इंदियदप्पवियारणु
रामयत्तदेवीइ मणोहरि
वंदिउ वंदणिज्जु णियमायइ
कुच्छि सलक्खण एक्क महारी
अज्ज वि अच्छइ काइं रमारउ
तं णिसुणेप्पिणु भणइ भडारउ

कालवणंतरि हुयउ चमरीमउ ।
टुक्किउ पुणु पुणु णिंदिवि गरहिवि ।
पंचमहव्वयचरियहि लग्गी ।
पुरु धरित्ति णियभायहु देप्पिणु ।
पवरदियंवरवित्ति लप्पिणु । 5
मणपज्जयणाणिउ णहचारणु ।
दिट्ठउ काणणि ललियलयाहरि ।
पुणु आउच्छिउ सुंमहुरवायइ ।
तुहुं जणिओ सि जाइ भववइरी ।
धम्मु ण गेण्हइ भाइ तुहारउ । 10
णिसुणहि ससयणभववित्थारउ ।

घत्ता—कोसलविसयंतरि धणभरिउ बुट्टगाउं वइपरियरिउ ॥

तहिं आसि मृगायणु विप्पवरु महुरइ वंभणीइ धँरिउ ॥ १३ ॥

14

सज्जणमोहणि णावइ वारुणि
मरिवि मयायणु पुरि साकेयइ

धीय विहिं मि उप्पण्णी वारुणि ।
अइवलणामणरिदणिकेयइ ।

६ AP उगिल्लियउ. ७ AP ते मरणे वि होंतए गरुययरु कुलुच्छल.

13 १ A °ज्जाणमरणेण य सो मुउ. २ AP गरहिवि णिंदिवि. ३ AP सीहचंदु. ४ A णएप्पिणु. ५ A समहुर° ६ AP मियायणु. ७ AP वरिउ.

14 १ P मियाणणु.

8 a कुं भीणसु सर्पं. 10 कुल छलु कुलवल्लम्.

13 1 a मरट्टे दपेण, b चमरीमउ चमरीमृगो गवयः. 2 a हिरण्णवई मृगायणविप्रचरा सा, अस्मिन्भवे माता पूर्वजन्मनि भर्ताभूत्. 3 a पियदुक्खे भर्तृदुःखेन. 7 b °लयाहरि लताग्रहे. 11 b ससयणभववित्थारउ निजस्वजनभवविस्तार 12 वइ° वृत्तिः.

14 1 a वारुणि मद्यम्, b वारुणि वारुणीनाम्री.

सुमईदेविहि गम्भि समायउ
धीय हिरण्णवइ त्ति य जायउ
पोयणपुरवरि रूवरवणी
जा चिरु महुर सा जि तुहुं हई
भइमित्तु सुउ तुह उप्पण्णउ
वारुणि पुण्णयंदु जाणिज्जसु
पुण्णचंदु जो पोयणसामिउ
जो तुह जणणु तुज्जु गुरु जायउ
ताउ महारउ कंतु तुहारउ
कूरतिरियजम्मं संमोहिउ

पुरिसु वि थीलिंगंतु आयउ ।
भुवणि वियंभइ कम्मविवायउ ।
पुण्णयंदणरणाहहु दिण्णी । 5
रामयत्त दोहं मि सिरिदूई ।
सीहईंदु हउं गेहिं भिण्णउ ।
अम्मिइ मोहु हवंतु खमिज्जसुं ।
भइवाहुगुरुणा उवसामिउ ।
महुं वि सो जि सुरपुज्जियपायउ ।
जायउ वणि वारणु दुव्वारउ ।
हणणकामु सो मइ संवोहिउ ।

घत्ता—ओसरु गयवर मयरयभमर मा दूसहु दुक्किउ करहि ॥

किं णिहणहि णंदणु अप्पणउं सीहयंदु णउ संभरहि ॥ १४ ॥

15

ता जाइंभरु जायउ कुंजरु
झायइ इहु रिसि तणुरुहु मेरउ
जो चिरु भुंजंतउ रस णव णव
जो चिरु सेवंतउ वरणारिउ
जो चिरु चंदणकुंकुमलित्तउ
जो चिरु सुहुं सोवंतउ तूलिहि
जो चिरु देंतउ दाणु सुदीणहं
जो चिरु जाणंतउ छगुण्णउं
डज्जउ देव एय तिरियत्तणु

दुद्धरु गिरिवरगेरुयपिंजरु ।
हउं जायउ वणि करि विवरेरउ ।
सो एवहिं भक्खमि तरुपल्लव ।
तहु एवहि दुक्कउं गणियारउ ।
सो एवहि कइमि पंगुत्तउ । 5
सो एवहिं हउं लोलमि धूलिहि ।
सो एवहिं महुयरसंताणहं ।
तें किह पुत्तं णिहणु पडिवण्णउं ।
ता मइ भणिउं मुणेप्पिणु तहु मणु ।

घत्ता—मा णिहणहि पडिकरि गिरितरु वि जीव णिहालिवि पउ धिवहि । 10

गय भक्खहि णिवडियदुमदलइं परकलुसिउ पाणिउ पियहि ॥ १५ ॥

२ AP सुम्मइदेविहि. ३ A थीलिंगि तहु. ४ P पुण्णइद°. ५ AP सीहचंदु. ६ AP खवेजसु.
७ AP पुज्जियसुरपायउ. ८ A मयरसभमर.

15 १ A जाईसरु, P जाएभरु, K जाईसरु but corrects it to जाइंभरु. २P omits this line. ३ AP भुंजंतउ. ४ A दुक्कहि. ५ A कइमहि. ६ A सो एमहि लोलिवि तणु, P सो एमहि लोलिमि तणु. ७ A त किह णिहणु पुत्त पडि°, P ते किह णिहण पुत्तु पडि°. ८ A डज्जउ देव एहु, P डज्जउ एउ देव.

13 मयरयभमर मदे रताः भ्रमरा यस्य.

15 1 a जाइंभरु जातिस्मर.. 2 b विवरेरउ विपरीत.. 4 b गणियारिउ करेणुकाः.
5 b पंगुत्तउ पङ्कुरणवत्तिः. 8 a छगुण्णउ पाइगुण्यम्.

18

जं धणमित्तं आणित आयउ
तं दियमुसलजुवलु तहु केरउ
पणइणिकंठइ णिहिउ णिहालहि
पुत्तय णिरु विचित्तु संसारउ
ता हियवउ पिउणेहे भिण्णउं
पुत्तं परिवारेण वि सोइउ
उवसमेण हूई पविमलमइ
रामयत्त सणियाण मरेप्पिणु

पल्लंकहं पयजोगउ जायउ ।
मुत्ताहलणितुं वउ सारउ ।
पुत्तय सावयवय परिपालहि ।
पुत्तय पहु वि होइ कम्मरउ ।
दंतिदंतु अवरुंडिवि रुण्णउं । 5
कुसुमहिं अंचिवि हुयवहि ढोइउ ।
थिउ धरि धम्मणिरउ सो णरवइ ।
कप्पु महंतु सुक्कु पावेप्पिणु ।

घत्ता—मंदारदामसोहियमउहु रयणाहरणावियारधरुं ॥

सा हूई रविसंणिहणिलइ रविभासासुरु सुरपवरु ॥ १८ ॥ 10

19

पुणु फणिरायहु गुञ्जु ण रक्खइ
काले जंतं सुक्कियलीलइ
पुण्णयंदु पुण्णे उप्पण्णउ
विसमविसमसरवाण णिवारिवि
संभूयउ संतहि णिरवज्जहि
इह रययायलि दाहिणसेढिहि
पइ अइवेउ पुरंधि सुलक्खण
सा सग्गाउ ढलिय पंकयकर
दिण्णी पिउणा दरिसियणामहु

आइचाहु कहंतरु अक्खइ ।
वरवेरुलियविमाणि विसालइ ।
वेरुलियप्पहु तहिं संपण्णउ ।
दंसणणाणचरित्तइ धारिवि ।
सीहचंदु उवरिमगेवज्जहि । 5
धरणितिल्लयपुरु रुढउ रुढिहि ।
रामयत्त जां चिरु सेवियवण ।
सुय उप्पण्णी णामे सिरिहर ।
अलयाणाहहु वड्डियकामहु ।

घत्ता—सो पुण्णयंदु दिवि देवसुहुं माणिवि हर्यविहलत्तणउं ॥ 10

णियकम्मविवापं णिवडियउ पुणु पत्तउ महिलत्तणउं ॥ १९ ॥

18 १ A °कठहो. २ A पियणेहे. ३ A धरधम्मि णिरउ. ४ AP °वियारहरु. ५ A रवि-
भासासुर, P रविभासासुर.

19 १ A °विमाणविसालइ. २ A पुण्णयंदु. ३ P तहिं जि सपण्णउ. ४ AP °तिल्लयपुरि.
५ A जा सेविय चिरु वण. ६ A विहवविहत्तणउ.

18 1 a आयउ आयपदवस्तु. 2 a दि यमुसलजुवलु दन्तमुसलयुगलम्. 5 a पि उणेहे
पितृस्नेहेन, अवरुडिवि आलिङ्गय. 10 रविसंणिहणिलइ सूर्याभविमाने.

19 4 a विसमविसमसरवाण विपमाश्च ते विपमशरस्य कामस्य वाष्पाः. 5 a संतहि
त्रैवेयके शान्तस्थाने. 6 a इह भरतवर्षे, रययायलि रजताचले. 7 a अइवेउ अतिवेगः. 10 हय-
विहलत्तणउ हतदरिद्रत्वम्. 11 महिलत्तणउ स्त्रीत्वम्.

खवइ पुराइउ कम्मु गयालसु
माणइ सौक्खु ण तिप्पइ भोएं
जायवेउ णं तरुपव्भारें

तहु सुउ रयणाउहु रइलालसु ।
णं मयैरहर तरंगिणितोएं ।
अइरारिउ वित्थरइ वियारें ।

घत्ता—अण्णहि दिणि पवरुज्जाणहरि गिरिसरिखेत्तविहूसियउ ॥

सिरिवज्जदंतमुणिणा जणहु तिहुयणमाणु पयासियउ ॥ २३ ॥ 10

24

विजयमेहु णामें कुंभीसरु
तं णिसुणिवि मुणिभासिउ कंखइ
मंतिविज्ज आउच्छइ राणउ
ताव तेहिं अवलोइउ जाइवि
जंगलकवलु णिवद्धु ण ढोइउ
सो कवलिउ करिणा करु देंतें
मत्थएण वंदिवि मुणिपुंगमु
कहइ महारिसि जियवस्मीसरु
पीयैभद्दु णामें णं वस्महुं

णिवंकल्लाणकारि जलहरसरु ।
दिण्णु वि मासगासु ण वि भक्खइ ।
महु तंवेरमु किं विहाणउ ।
लक्खिउ तणु गुणदोस पलोइवि । 5
पयधियकूरपिहु संजोइउ ।
वज्जदंतु पुच्छिउ महिवंतें ।
मासु ण खाइ काइं तंवेरमु ।
एत्थु भरहि छत्तउरि णरेसरु ।
सइदेवीवइ णावइ सयमुहु ।

घत्ता—पीइंकरु पुत्तु पसिद्धु जइ मंतिवि जाणिउं चित्तमइ ॥ 10

कमला इव कमला तासु पिय तणुरुहु ताहं विचित्तमइ ॥ २४ ॥

25

धीरु धम्मरुइ सिरिगुरु मण्णिवि
मणि पडिवज्जिवि शुत्तिउ तिण्णि वि
गय रिसिवउ लेप्पिणु साक्रेयहु

धम्मु अहिसिल्लउ आयणिवि ।
पीइंकरु विचित्तमइ विण्णि वि ।
सत्तभूमिसउहावलिसेयहु ।

३ A मयहर. ४ AP अवरहि दिणि.

24 १ A णवकल्लाण°. २ A पलोयवि, P पलाइवि. ३ A पीइभद्दु, P पाइभद्दु.

25 १ AP समिदिउ पच वरेप्पिणु विण्णि वि, A adds a new line after this पीइंकरु विचित्तमइ वेण्णि वि in second hand. २ A रिसि गयवउ.

7 b मयहरु समुद्रः. 8 a तरुपव्भारे वृक्षसमूहेन, b अइरारिउ अतीव लालितः.

24 1 a कुंभीसरु गजेवर. 3 a मतिविज्ज मन्त्रिणः वैद्याश्च, b तंवेरमु हस्ती, विहाणउ दुर्वलो ज्ञातः. 4 b तणु वृणम्. 6 a करुदंते गुण्डा ददता. 9 b °देवीवइ °देवीपतिः. 10 जइ जगति, चित्तमइ चित्रमतिनाम मन्त्री.

25 3 b °सउहावलिनेयहु °सौधावलीभि. श्वेतस्य.

खीरैरिद्धि उष्णणी जेदुहु
चंदसूर णावइ गयणंगणि
वहुउववासरीणमुणिपंथिय
थाहु भणंतियाइ पणवेप्पिणु
कामिणीइ अप्पाणउ गरहिउं
पुच्छइ लहुयउ साहु ससंसउ

णिज्जियणियजीहिदियचेदुहु ।
वेण्णि वि चडिय छुहु जि घरंप्रंगणि । 5
ते धीसेणइ वेसइ पत्थिय ।
ण थिय भडारा विगय वलेप्पिणु ।
किं जीविउ मुणिदाणं विरहिउं ।
किं आया से ण गहियउ गासउ ।

घत्ता—गुरु अक्खइ महुमासासियहं णिप्पिह कयपरलोयकिसि ॥ 10
अविणीयहं रायहं कामिणिहि दिण्णु वि पिंहु ण लेति रिसि ॥२५॥

26

तहि विचित्तमइ सुमरइ रामहि
मयणसरोहे हियवउं भिण्णउं
गउ सहाउ तहु मेळ्ळिवि मंदिरु
सिसुमृगणयणइ पीवरथणियइ
दिण्णउ तासुं भोज्जु जं चंगउं
सरसवयणु तहि तेण णिउंजिउं
रत्तु मुणेवि ताइ अवहेरिउ
तो गुणवंतु ताम गह्यत्तणु
णिग्गउ गउ परिहेप्पिणु राउलु

गीओलंविद्यमोत्तियदामहि ।
जंपंतहं हुंकारइ सुण्णउं ।
णं इंदीवरासु इंदीवरासु इंदिंदिरु ।
वंदिउ सो पडिगाहिउ गणियइ ।
विडसाहुहि संपीणिउ अंगउं । 5
दहुउं चरियधण्णु जं पुंजिउं ।
णारिहि भुवाणि को ण किर मारिउ ।
जाम ण लग्गइ मणसियमग्गणु ।
विसयाल्लुद्धउ जायउ आउलु ।

घत्ता—पलपाएं जाएं मिट्ठुएण सूयारउ णिवमणि चडिउ ॥ 10
कय कामिणि दविणं तेण वस रिसि चारित्तहु परिवडिउ ॥ २६ ॥

३ A खीणरिद्धि. ४ AP °पगणि. ५ A ते विसणीयइ, P ते धेसिणीयइ. ६ A किं आयहो घरे गहिउ
ण गासउ; P किं आयहे घरे गहिउ ण गासउ. T supports the reading of K.

26 १ सुउरइ. २ AP छिण्णउं. ३ AP मेळ्ळिवि तहि. ४ AP °मिगणयणइ. ५ AP
°थणिइ. ६ A ताइ. ७ AP गुह्यत्तणु. ८ A सिद्धएण.

6 b धीसेणइ बुद्धिपेणानाम्भ्या. 9 a ससंसउ स्वसशयम्; b किं आया किमर्थमागतौ, से अस्या
(गृहम्), ण ग हियउ गासउ ग्रासस्तु न गृहीतः. 10 कयपरलोयकिसि कृतपरलोककृतयो ऋयम्..

26 1 b गीओलविय° श्रीवावलम्बिता. 2 a °सरोहे शरसमूहेन. 3 a सहाउ सखा. 4 b
पडिगाहिउ प्रतिग्राहितः, गणियइ वेश्यया. 6 b चरियधण्णु चारित्रधान्यम्. 7 a अवहेरिउ निरा-
दतः तिरस्कृतः. 8 b मणसियमग्गणु कामवाणः. 9 a परिहेप्पिणु वन्न गृहीत्वा. 10 पलपाएं
मांसपाकेन, सूयारउ सूपकारः. 11 वस वशीकृता.

27

मरिवि तुहारउ जायउ कुंजरु
एहु एवहिं जाँउ जाईभरु
ता रयणाँउहेण णियतणयहु
तासु जि गुरुहि पाँसि तउ चिण्णउं
विण्णि वि संतइं मायापुत्तइं
अज्जरु पंक्कप्पहरणयंतहु
दारुणाभिल्लहु सुउ अइदारुणु
तेण पियंगुदुग्गि अवलोइउ
मुउ सव्वत्थसिद्धि संपत्तउ
सत्तमि तमतमपहि भीसावणि

महु भासंतहु तिहुवणपंजरु ।
तुहं वि वप्प अप्पाणउ संभरु ।
रज्जु समप्पिउ पयडियपणयहु ।
तहु मायाइ तं जि पडिवण्णउं ।
अच्चुइ अणिमिसत्तु संपत्तइं । 5
णीसरियउ कह कह व कयंतहु ।
मंगिहि सवरिहि हुउ करिमारणु ।
तउ तवंतु वज्जाउहु घाइउ ।
सवरु वि पावं णरइ णिहित्तउ ।
पंचपयारदुक्खदरिसावणि । 10

घत्ता—धाइसंडइ सुरवरदिसहि मेरुहि परविदेहि सरइ ॥
गंधिल्लदेसि उज्जाउरिहि णरवइ अरुहदासु वसइ ॥ २७ ॥

28

कामहुयासहु णं कालंविणि
अवरं वि तहु जिणयत्त घरेसरि
अच्चुयच्चुय तेणं णं दिणयरु
विहिं वि वेण्णि संजणिय तणूरुह
ते वेण्णि मि णं छणससिसायर
वीयहु णरयहु गयउ विहीसणु
लंतवि जायउ देउ महामहु
सम्महंसणसासणि लग्गउ
जंबुदीवपरावयउज्झहि
सो केसवु दुहुं भुंजिवि आयउ

सुव्वयं णामें तासु णियंविणि ।
अमरमहामयरहरहु णं सरि ।
रयणमाल रयणाउह सुरवरु ।
विजय विहीसण णवपंकयमुह ।
ते वेण्णि वि वलकेसव भायर । 5
दुद्धरु तउ करेवि संकरिसणु ।
आइच्चाहु हउं जि सो सुहवहु ।
मइं संवोहिउ णरयहु णिग्गउ ।
सिरिवम्महु सीमहि तणुमज्झहि ।
लच्छिधामु णामें सुउ जायउ । 10

27 १ APT जाईसरु. २ A रयणाहिवेण. ३ AP पाउ. ४ AP अजगरु.

28 १ AP सुव्वइय. २ AP अवरु वि. ३ A णंदण ससिसायर.

27 2 a जाईभरु जातिरुमः. 4 b मायाइ रत्नमालया. 5 b अणिमिसत्तु देवत्वम्.
6 b कयंतहु कृतनरकभवपर्यन्तात्. 10 b पंचपयारदुक्खं परिणामदेहवेदनाविक्रियापरस्परोदीरित-
दुग्गा. 11 सरइ सरति. भोगयुक्तः.

28 1 a कालविणि मेघमाला. 2 b अमरमहामयरहरहु श्रीरसमुद्रस्य. 7 a महामहु
महानेजाः, b सुहवहु सुखावह. 9 b सीमहि श्रीमत्याः.

रिसिहि विणासियवम्महलीलहु
पत्तउ वंभकप्पि मेळ्ळिवि तणु

धिरु पावइयउ पासि सुसीलहु ।
अट्टगुणद्धिवंतु देवत्तणु ।

घत्ता — वज्जाउहु सव्वत्थहु चविवि संजयंतु जिणतवि गिरउ ॥

तुहुं हुउ जयंतु वंभाउ घुउ रिसि णियाणसल्लेण मुउ ॥ २८ ॥

29

णायराउ जाओ सि भयंकरु
अहंमाणिवद्धाउसु अहगारउ
पुणु वाल्लुयपहि वालु णिमण्णउ
तसथावरतिरिक्खभवजालइ
पविउलअइरावइ णइतीरइ
गोसिगें घरिणिहि संखिणियहि
तावसेण संजणियउ तावसु
दिव्वतिल्लयपुरि खेयरराणउ
णाम सुमालि णिवंध णिवद्धउ
खगधरणीहरि उत्तरसेणिहि
विज्जदाहु खगु पिय विज्जप्पह
ताहं विहिं मि हियइच्छियरूवउ
विज्जदाहु णामे दढयरभुउ

इयरु वि पाउ मुणिंदखयंकरु ।
अहि हूयउ अंतिममहिणारउ ।
दुक्खपरंपराइ अहण्णउ ।
णिवडिउ हिंउमाणु गयकालइ ।
भूयरमणि काणणि गंभीरइ । 5
संखुब्भउ समुद्दसंखिणियहि ।
पंचहुयासणु सहइ सतामसु ।
जोइवि जंतउ सक्कसमाणउ ।
अण्णाणें णियतवहलु लद्धउ ।
णहयलवल्लहपुरि सुहजोणिहि । 10
मुहससियरधवलियदसदिसिवह ।
हरिणसिगु मुउ सुउ संभूयउ ।
जमदूयाणुरूउ भडसंथुउ ।

घत्ता — इहु भाइ तुहारउ गरुययरु मेरुधीरु परिचत्तभउ ॥

एणं जम्मंतरवइरिइण हुउ परमेसरु मोक्खगउ ॥ २९ ॥

15

30

एहउ भवसंवंधु वियारिउ
म करहि तुहुं जिणधम्मविरुद्धउं
तं णिसुणिवि पडिजंपइ उरयरु
पइं जिणमग्गु मज्झु वज्जारियउ
तइ वि साहु उवसंग्गणिरुंभणु

एत्थु केण किर को णउ मारिउ ।
णियमहि हियवउं रोसाइद्धउं ।
तुह वयणेण ण मारमि खेयरु ।
भवकइमि पडंतु उद्धरियउ ।
लइ कीरइ खलदप्पणिसुंभणु । 5

29 १ A अहसु. २ P वाल्यः ३ A भयजालइ. ४ A हरिणसिगु हूयउ तवसिणियहि;
P सखु व भवसमुद्दसखिणियहि. ५ A °पुरखेयर. ६ A वज्जदाहु. ७ A विज्जप्पह. ८ P विज्जदाहु.

30 १ AP उवसग्गु. २ AP °दप्पणिसुभणि.

29 2 a अहमं जघन्यसप्तमनरके, अहगारउ पापकारी. 3 b अहण्णउ विदारितः. 6 b संखुब्भउ हरिणशृङ्गापरनामा, समुद्दसखिणियहि स्वमुद्रया निजाकारेण शंखिन्या निर्भाग्यायाम्. 9 a णिवंधणिवद्धउ निदान वद्धम्.

30 2 b णियमहि नियमय. 3 a उरयरु उरग सर्प..

एयहु कुलि सिज्जंतु म विज्जउ
णारिहिं सिज्जिहिंति णियमालइ
मागहमंडलकुवलयचंदहु
हिरिवंधणि पयणियखयरिदहु
मुइवि णिवद्धवइरवंदिग्गहु
गउ फणि संजयंतु मुणि वंदिवि
सुरु जाइवि सुहि संठिउ लंतवि

पुरिसहं दुद्धरविहुरसहेज्जउं ।
संजयंतपडिमापयमूलइ ।
इंदभूइ पुणु कहइ णरिंदहु ।
णामु करिवि हिरिमंतु गिरिंदहु ।
लहु णीसल्लु चविवि सपरिग्गहु । 10
रविआहउ सुरवरु अहिणांदिवि ।
आउमाणि वोलीणि सउच्छवि ।

घत्ता—इह भरहखेत्ति उत्तरमहुरि पुरि अणंतवीरिउ णिवइ ॥
लायण्णरुवसोहग्गणिहिं णारि मेरुमालिणिय सइ ॥ ३० ॥

31

आइच्चाहु मोहमयमदणु
णियकुलसंतइवेल्लिवराहं
हुउ सपुण्णविहवेणुदामं
आयण्णह विरएप्पिणु अंजलि
सीहसेणु करि सिरिहरु सुरवरु
वज्जाउहु अहमिंदु पियारउ
महुर रामदत्त वि जाणिज्जइ
सिरिहरु पुणु वसुसमदिवि अणिमिसु
पुणु विज्जयंकु वि आइच्चाहउ
वारुणि छणविहु वेरुलियप्पहु
रयणाउहु अच्चुयउ विहीसणु
सिरिधामउ सुउ वंभणिवासउ
पुणु मंदरगुणिगणसंजुत्तउ

हूयउ मेरुणामु तहु णंदणु ।
अमयवईहि तेण णरणाहं ।
धरणु चविवि सुउ मंदरु णामं ।
एयहं सयलहं भणमि भवावलि ।
रस्सिवेउ रवितेउ वरामरु । 5
संजयंतु दय करउ भडारउ ।
भक्खराहु पुणु देउ भणिज्जइ ।
रयणमाल अच्चुयसुरु सहरिसु ।
जाउ मेरु पुणु मुणिगणणाहउ ।
जसहर काविट्टइ रूयंप्पहु । 10
सक्करवसुमइणारउ भीसणु ।
णिउ जयंतु फणिवइविवरासउ ।
सिरिभूइ वि फणि चमरि पवुत्तउ ।

घत्ता—कुक्कुडफणि चौत्थयणरयरुहु अजयरु पंकप्पहडुहिउ ॥

समरुल्लउ सत्तमपुहविभउ अहि पुणु सर्यलदुक्खगहिउ ॥ ३१ ॥ 15

३ A सिज्जंतु. ४ A दुद्धर विहुर°, P दुद्धरि विहुरि. ५ A हरिवद्धणि पयलिय°, P हिरिवद्धणि पयलिय°.

31 AP अणमिसु. २ A विजयंतु वि. ३ A वेरुडिय°. ४ A भूयप्पहु. ५ AP सुरु. ६ A मंदरमुणिगण°; P मंदरि मुणिगण°. ७ १ चउत्थइ णरइ तुहु. ८ A सच्चुयउक्ख°.

9 a हि रो त्या दि द्वीलंत्रा बन्धने सति प्रजनिता खचरेन्द्रस्य विद्युदंष्ट्रस्य यत. कारणात्ततः कारणात् हीमा-
निति नाम गिगीन्द्रस्य विजयाधस्य कृत्वा वरणेन्द्रो गतः. 12 b सउच्छ वि उत्सवसहिते.

31 10 a छणविहु पूर्णचन्द्रः.

हिडिवि भवसंसारि परव्वसु
 विज्जदादु मुणिमारणदुज्जणु
 भदमित्तु पुणु केसरिससहर
 चक्काउहु सासयगईगामिउ
 णविवि विमलवाहणु तित्थंकरु
 गणहर गणु परिपालिवि णीरय
 महु पसियंतु देतु गुणदित्तइं
 णिच्चल होउ फुरियणहविमलइ

पच्छइ हरिणसिंणुं हुउ तावसु ।
 हो डज्जउ दुक्कम्मवियंभणु ।
 पुणरवि उवरिमगेवज्जामरु ।
 देउ समाहि मज्जु रिसिसांमिउ ।
 तेरहमउ परमेट्टि सुहंकरु । 5
 मोक्खहु वे वि मेरु मंदर गय
 सुद्धइं दंसणणाणवरित्तइं ।
 भत्ति भवंतयारिकमकमलइ ।

यत्ता—कह णिसुणिवि मेरुहि मंदरहु विंभियं भरहणराहिवइ ॥

थिय जिणवरपयसंणिहियमइ पुप्फयंतकरसरिसरुइ ॥ ३२ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे संजयंतमेरुमंदरकंहंतरं
 णाम सत्त्ववर्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५७ ॥

32 १ A °ससार°. २ A °सिंसुउ. ३ AP विज्जदादु मुणिमारणु. ४ A सासयगय°. ५ P °सासिउ. ६ A गुण. ७ A विंभिउ. ८ AP पुप्फदंत°. ९ A °कंहंतरवण्णण. १० AP सत्तावण्णा°.

32 ३ a केसरिससहर सिंहचन्द्रः. ४ a फुरियणहविमलइ स्फुरितनग्वविमले जिन्-
 चरणकमले.

जेणेकें कम्मविमुकें जगु तं तेहउं लक्खिउं ॥

कयडंभहिं हरिहरवंभहि जं जम्मि वि णं सिक्खिउं ॥ ध्रुवकं ॥

1

जो ण महइ जीवहं सासणासु
सुज्झइ सम्मत्ते खाइएण
णांयंदणमंसियसासणासु
जम्मंतरि भावियभावणासु
समदिट्ठिदिट्ठकंचणतणासु
णाणंतणिवेसियतिहुवणासु
उच्चियसियायवत्तत्तयासु
पवयणवारियपेसियसुरासु

जे होंते मेल्लइ सासणासु ।
थुव्वइ देवोहे^१ खाइएण ।
तहु णित्तदिव्वभासासणासु । 5
संखोहियविंतरभावणासु ।
तवजलणइड्ढुदुक्खियतणासु ।
दिहिवइपरिरक्खियवयवणासु ।
एक्काहियवरवत्तत्तयासु ।
कमकमलणंविद्यदेवासुरासु । 10

घत्ता—हर्यंधंतहु गुणवंतहु अणिमिसकेउकयंतहु ॥

भयवंतहु अरहंतहु पणविवि पयइं अणंतहु ॥ १ ॥

A has, at the beginning of this samḍhi, the following stanza —

संजुडियजाणुकोप्परगीवाकडिवन्धणावयवो ।

अणुहवइ वेरियं तुज्झ जं पावइ लेहओ दुक्खं ॥ १ ॥

P and K do not give it anywhere.

1 १ P लक्खियउं. २ AP ण वि सिक्खि°. ३ P सिक्खियउं. ४ A देवेहिं. P देवोहिं.
५ AP णाइंद°. ६ A जम्मंतरभमिय°. ७ PT णाणंति णिवे°. ८ PT °पेसासुरासु. ९ AP °णमिय°. १० A भयवंतहु गुण°. ११ A हयवंतहु अर°.

1 1 जेणेकें येन एकेन अद्वितीयेन. 2 जम्मि वि जन्मन्यपि. ३ a ण महइ नेच्छति; सासणासु प्राणनाश; b सासणासु सा लक्ष्मीः स्वनाशं चपलत्वं मुञ्चति, अथवा, सास लक्ष्म्या. आशा ता णा पुन्य. आसु आशु त्वरितं मुञ्चति. 4 a खाइएण क्षायिकेन, b देवोहे देवसमूहेन, खाइएण आकाशादागतेन. 5 a णित्तदिव्वभासासणासु निर्गत. दिव्यभाषया सर्वभाषात्मिकया स्वनः शब्दो यस्य. 7 b °दुक्खियतणासु दुष्कृतमेव नृणं तस्य. 8 a णाणंतं ज्ञानमध्ये, b दिहिवइपरिरक्खियवयवणासु वृत्तिरेव वृत्ति तथा परिरक्षित प्रतान्येव वन येन. 10 a °पेसियसुरासु पेशी मांसं सुरा मयम्. 11 हयवंतहु हत विनाशितं स्वत्य परेषा च ध्वान्तमज्ञानं येन तस्य, अणिमिसकेउ° शपनेतु ऋतम्.

2

पुणु कहमि कहाणउं कामहारि
धादइसंडहुपच्छिमदिसाइ
परिहापौणियपरिभमियमयरि
पउमावल्लहु पउमरहु राउ
आणियसंमाणियदुज्जणाइ
अविणीयइ धणमयवैभलाइ
बहुकवडडविडणिवरंजियाइ
महिवइलच्छिइ एयइ खलाइ
वद्धउ हउं णिवसमि एत्थु काइं
सिरि ढोयमि तणयहु घणरहासु
इय चिंतिवि पासि सयंपहासु

तहु केरउं सासयसोक्खकारि ।
वित्थिण्णिं मेरुपुच्चिल्लभाइ ।
मणितोरणवंति अरिट्टणयरि ।
तहु एकु दिवसु जायउ विराउ ।
णीणियअवमाणियसज्जणाइ । 5
पवणाहयतणजललवचलाइ ।
भंगुरभावेणं लंजियाइ ।
मणवारणवंधणसंखलाइ ।
अणुसरमि सत्तत्ताइं ताइं ।
संसारइ सरणु ण को वि कासु । 10
वउ लइयउ छिदिवि मोहपासु ।

घत्ता—अविहंगइं धरिवि सुयंगइं एयारह जिणदिट्ठइं ॥

कयवसणइं इंदियपिसुणइं जिणिवि पंच दप्पिट्ठइं ॥ २ ॥

3

बंधिवि तित्थंकरणांमगोत्तु
सो पंकयसंदणु णरवरिंदु
वावीसमहोवहिपरिमियाउ
पुंफ्फंतरपवरविमाणवासि
वावीसहिं पक्खहिं कहिं वि ससइ
जाणवि तेत्तियहि जि वच्छरेहि
अवहीइ रूविवित्थारु ताम

संणासें मुउं जइवइ पवित्तु ।
सोलहमइ दिवि हूयउ सुरिदु ।
तिकरद्धपाणिपरिमाणु काउ ।
तणुतेओहामियदुद्धरासि ।
हियएण देउ आहारु गसइ । 5
सेविज्जइ अमरहिं अच्छरेहिं ।
पेच्छइ छट्टउं णरयंतु जाम ।

2 १ AP पावहारि. १ A वित्थिण्णमेरु°. २ A °भावि. ३ A °वाणिय°. ४ P °परिसमिय°. ५ AP दिवसि. ६ A °कवडणिविडमइरजियाइ, P °कवडणिविडरजियाइ. ७ P ढोइवि.

3 १ A °णामु, P °णाउं. २ AP मुवउ. ३ A तिकरद्धपाणिपरिमाणकाउ, P तिकरुदयणिय-परिमाणकाउ. ४ AP पुफ्फुत्तर°, ५ AP °विवाण°. ६ A रुउ वियारु. ७ A जाम. ८ ताम.

2 2 a अपच्छिमदिसाइ पूर्वभागे. 5 b णीणिय° निष्काशिताः. 7 °डविड° दृढविटाः, b लंजियाइ दास्या. 10 a घणरहासु घनरथस्य. 12 अविहंगइं अखण्डितानि; सुयंगइ श्रुतस्य अज्ञानि.

3 2 a पंकयसंदणु पद्मरथः 3 b तिकरद्धपाणि° त्रयः करा अर्धपाणिश्च. 5 b हियएण मनसा. 6 a जाणवि जानामि. 7 a रूविवित्थारु रूपिपदार्थविस्तार .

कि वण्णमि सुरवइ सुक्कलेसु
जइयहुं तइयहुं धम्मोवयारि
इह भरहखेत्ति साकेयणाहु
इक्खाउवंसुं कूरारिकालु

तहुं जीविउ थिउ छम्माससेसु ।
वज्जरइ कुवेरहु कुलिसधारि ।
पहु सीहसेणु थिरथोरवाहु । 10
जयसामासुंदरिसामिसालु ।

वत्ता—लहु एयहुं दिणयरतेयहुं करहि धणय पुरवरु घर ॥

तं इच्छिवि सिरिण पडिच्छिवि चलिउ जक्खु पंजलियरु ॥ ३ ॥

4

उज्जाउरि कण्णं कहिं वि पीय
कत्थइ हरिणीलमणीहि काल
कत्थइ थिय मरगय पोमराय
कत्थइ हल्लइ चिधंहिं चलेहिं
णं गायइ भमरहि रणुरुणंति
पुरि अक्खइ खुत्तउ कामवाणु
जा णिमिय पालियणिहिघडेण
तण्णयरीसहु पियगेहिणीइ
हिमहासकाससंकासवासि

कत्थइ ससियंतजलेहिं सीय ।
णं महियलि णिवाडिय मेहमाल ।
णं ओहंडलधणुदंडछाय ।
णं णच्चइ कामिणि करयलेहिं । 5
पारावयसहें णं क्कणंति ।
दरिसइ व कुसुमधूलीवियाणु ।
सा मइ वण्णज्जइ किं जडेण ।
सोहग्गमहाजलवाहिणीइ ।
णिदायंतिइ तलिमप्पएसि ।

वत्ता—सुहुं सुत्तइ पुण्णपवित्तइ रयणिहि पच्छिमजामइ ॥ 10

अवलोइय मणि पोमाइय सिविणावलि जयसामइ ॥ ४ ॥

5

करडगलियमयधारओ
वसहो सण्हासोहिओ
पविणिहणहरुक्केरओ
णवपंकयसरसामिणी
गुमुगुमंतमहुयरचलं

करि गिरिभित्तिवियारओ ।
खुरलंगूलपसाहिओ ।
विसमो सीहकिसोरओ ।
गयवरण्हविया गोमिणी । 5
दामजुयं सुहपरिमलं ।

१ A जीविउ तहु. १० A °वंसकूरारि°.

4 १ AP कणय. २ A चेवे. ३ P कुणंति. ४ P णउ. ५ A सुहसुत्तइ.

5 १ AP विसमउ.

4 1 a कण एं कनकेन, b स सियंतजले हिं चन्द्रकान्तजले. 2 a काल कृष्णवर्णा. 6 a अक्खइ कययतीव, b °वियाणु° विज्ञानम्. 7 a पालियणिहिघडेण कुवेरेण. 9 b तलिमप्पएसि पद्धप्रदेशे. 11 पोमाइय प्रशसिता.

5 2 a सण्हा° साक्षा. 3 a पविणिहणहरुक्केरओ वज्रसदृशनखराङ्कुरः.

पुण्णो लच्छिसहोयरो कीलाए उड्डीणया वयणसमण्णियसयदला वियसियतामरसायरो गरुयं गयरिउआसणं णिद्धं ^३ णायणिहेलणं दिसिवहपत्तमऊहओ पसरियजालाणियकरो	गयणे उड् उ दिवायरो । सरभमिरा पाढीणया । कलसा दोण्णिण समंगला । मयरकरिल्लो सायरो । सुरसउहं तमणासणं । काओयरकयकीलणं । चंचिररयणसमूहओ । विमलो मारुयसहयरो ।	10
घत्ता—फलु वालहि सिविणयमालहि पुच्छंतिहि धवलच्छिहि ॥ पइ भासइ तणुरुहु होसइ तिजगणाहु तुह कुच्छिहि ॥ ५ ॥		15

6

रायहु धरु सयमहपेसणेण आगय सिरि हिरि दिहि कंति बुद्धि माणिककिरणपसरियवियार कत्तियपडिवयदिणि चंदंसुक्कि गयरुवें गंगापंडुरेण अवइण्णु सुराहिउ गम्भवासि अहिसित्तइं मायापियरयाइं तिहुवणवइगुरुहि गुरुत्तणेण	कंचीणिवद्धकिंकिणिसणेण । विरइय जयसामहि गम्भसुद्धि । छम्मास पडिय धरि कणयधार । रेवइणवखात्ति मलोहमुक्कि । कयसुकयमहीरुहफलभरेण । चउभेयदेवपुंजाणिवासि । मंगलकलसहि जिणगुणरयाइं । समलंकियाइं सुपहुत्तणेण ।	5
घत्ता—णच्चंतहि मउ गायंतहिं करहयतूरणिणायहिं ॥ घरपंगणु दिसि गयणंगणु छायउ अमरणिकायहि ॥ ६ ॥		10

7

पुणु वसुवरिसणविहवें गयाइं गइ विमलरिसीसरि दीहराइं	सत्तरइं दोण्णिण वासरसयाइं । जइयहुं गयाइं णवसायराइं ।
---	---

२ P दिहं णाय^०. ३ P सहोयरो.

6 १ A जयसामहो. २ A चदमुक्कि. ३ AP ^०पुजापवेसे.

7 १ P विमलि रिसी^०.

6 a लच्छिसहोयरो चन्द्र.. 7 b पाढीणया मत्स्यौ. 10 a गयरिउआसण सिहासनम्. 11 b काओयर^० सर्पाः. 12 b चंचिर^० कर्तुर. 13 b मारुयसहयरो अग्निः.

6 ± a चंदसुक्कि चन्द्रेण अशुक्के, ऋणपक्षे इत्यर्थ, b मलोहमुक्कि निर्मले. 8 a तिहुवणवइगुरुहि जिनगुरो.

7 1 b सत्तरइं दोण्णिण वासरसयाइ नव मासा इत्यर्थः.]

जइयहुं अंतिमपल्लहु तिपाय
तइयहुं भवभूरुहसत्तहेइ
जेइहु मासहु तमकसंणपक्खि
उप्पण्णउ तिहुवणसामिसालु
दावियसुरकामिणिणइलीलु
परियंचिवि तं पुरवरु विसालु

वत्ता—उत्तुंगहु रुम्ममयंगहु सूयरखद्धकसेरुहि ।

गउ सुंदरु देउ पुरंदरु णाहु लएप्पिणु मेरुहि ॥ ७ ॥

10

8

भावालउ णच्चंतहिं णडेहिं
अहिसित्तु भडारउ भावणेहिं
वइमाणिएहिं वीणाहरेहिं
भूसिउ परिहाविउ अरुहु संतु
आणेप्पिणु पुणु पुरवरु पसण्णु
पणविवि सुरवइ गउ णियविमाणु
जोण्हालउ णिहिलकलाउ लेंतु
कामग्गिताववित्थरु हरंतु

वत्ता—जिणु वरिसहं कयजणहरिसहं माणियइच्छियसोक्खइं ॥

जैहिं कुंवरत्तणि थिउ सिसुकीलणि तहिं सत्तद्ध जि लक्खइं ॥८॥ 10

खीरोयखीरधाराघडेहिं ।
वणसुरवरेहि जोइसगणेहि ।
गायउ वंदिउ मउलियकरेहिं ।
णाणं अणंतु कोक्किउ अणंतु ।
देविदें देविहि देउ दिण्णु ।
वडुइ सिसु णं सिसुसेयमाणु ।
सुहदंसणु कुवलयदिहि करंतु ।
अकलंकु अखंडु पसण्णकंतु ।

9

पुणु तहु कइ पत्ती मयणताउ
सिचिय अहिसेयघंडंवुएहिं

सिरि मुच्छिय चमरहिं दिण्णु वाउ ।
सच्चेयण कय मइवरणएहिं ।

२ A °भूत्तहेइ सत्तहेनिरमि . ३ A °कसिण°. ४ AP अवयरिउ . ५ A कवडवाडु . ६ A भम्ममयगहु .

8 १ P omits वण°. २ P पसण्णु कंतु . ३ A omits जहिं . ४ AP कुमरत्तणि .

9 १ AP °वडभएहिं . २ AP °वरणरेहिं .

१ a °सत्तहेइ सत्तहेनिरमि . ५ b णा सिय विवक्खि विघ्नरहिते . 9 रुम्ममयंगहु रुम्ममयं सुवर्णमयं अङ्ग यत्थ तत्थ मेरोः .

8 1 b खीरोय° श्रीरसमुद्रः . १ a परिहाविउ वच्चै . परिधापित . ५ b देविहि मातु . 6 b सिसुनेयमाणु वालचन्द्रः .

9 1 a तहुकइ इत्यादि अनन्तनायेन सह भोगार्थं भोगनिमित्त मदनतापं प्राप्ता का राज्य लक्ष्मीः . 2 a अहिसेयघंडंवुएहिं अभिषेकघटजलै ; b मइवरणएहिं मतिवराणा मन्त्रिणा नयैः .

उट्टिय लहु सत्तंगइं धुणांति
णियपरियणणिवसणु संवरंति
अवलोइय णाहहु खेउं देति
पुज्जिउ सूहउ इंदाइएहिं
भुंजंतहु संपयसुहसयाइं
पण्णाससरासण देह तुंगु
णाणामहिवालयकुलसमग्गि

अरि सुहि मज्झैत्थु वि मणि मुणंति ।
मिलियहं मंडलियहं मणु हरंति ।
वच्छयलि विउलि लीलइ वसंति । ७
सीसेण णमंसिउ दाइएहि ।
पणदहसमाहं लक्खइं गयाइं ।
तवणीयवण्णु णं णवपयंगु ।
सो रयणिहि थिउ अत्थाणमग्गि ।

घत्ता—तहिं रापं भवियसहापं उक्क पडंति णिरिक्खिय ॥ 10

गय चंचल जिह सा सयदल तिह णररिद्धि वि लक्खिय ॥ ९ ॥

10

ता तणुरुइरंजियछणससीहिं
णहवणाइउं पोमासंगमेहिं
अप्पिवि अणंतविजयहु सधामु
महुरज्जुणिकिंकिणिलंवमाणु
छट्टेण जेइमासंतरालि
वरुणासाधुलिइ खरंसुजालि
पहु पंचमुट्ठि सिरि लोउ देवि
वीयइ दिणि दिणयरकरफुरंति
रापं विसाहभूएं अणंतु
दिण्णउं तें^६ तहु आहारदाणु

संवोहिउ दिव्वमहारिसीहि ।
कल्लाणु कयउं सुरपुंगमेहिं ।
णीसेसु रंज्जु धणु साहिरामु ।
आरूढउ सायरदत्तजाणु ।
वारसिवासरि णित्तारवालि । ७
उज्जाणि सहेउइ घणतमालि ।
सहसेण णिवहं सहं दिक्ख लेवि ।
हिंडंतु देउ उज्जाउरंति ।
जयकारिवि धरिउ महीमहंतु ।
पंचविहु वियंभिउ चोञ्जाणु । 10

घत्ता—णियमत्थहु दसदिसिवत्थहु खरतवचरणसमत्थहु ॥

दुइ अइइं दुरियविमइइं गयइं तासु छम्मत्थहु ॥ १० ॥

11

मासम्मि पहिल्लइ महुपमत्ति
पुव्विल्लइ वणि आसत्थमूलि

णिच्चंदइ दिणि मासंतपत्ति ।
पंचमउ णाणु हयघाइमूलि ।

३ A मज्झत्थइ. ४ P °सरासणु.

10 १ AP देसु. २ A धणसाहिरामु. ३ AP सायरदत्तु. ४ AP °फुसिइ. ५ A विसाह-
भूइं, P वसाहभुइ. ६ A त तहु. ७ AP चोञ्जु.

3 a सत्तंगइ स्वाम्यमात्यादि. 4 a °परियणणिवसणु परिजन एव निवसनं वत्त्रम्. 7 b °समाहं
वर्षाणाम्. 8 b णवपयंगु बालसूर्य. 11 सयदल शतखण्डम्.

10 1 a °रजियं द्योतित. 3 a सधामु स्वगृहम्. 4 b सायरदत्तजाणु सागरदत्तशिविकाम्.
5 b णित्तारवालि तारापत्तिरहिते. 6 a °धुलिइ पतिते, खरंसुजालि मूर्ये.

11 1 a महुपमत्ति भ्रमरैर्मत्ते, b मासतपत्ति अमावात्यायाम्.

संभूयउं लोयालोयगामि
आइय वत्तीस वि सुरवरिंद
तडि मेह सुवण्ण विसाग्गिणाय
क्किणर क्किपुरिस महोरगाय
संपत्त भूय भत्तिल्लभाव
जय जय सामासुय जय अणंत
जय जणणणिहणमयरहरसेउ

थिउ अरुहावत्थहि भुवणसामि ।
गह तारा रिक्ख खरंसु चंद ।
मरु जलणिहि थणियासुरणिहाय । ५
गंधव्व जक्ख रक्खस पिसाय ।
सयल वि थुणंति जय देव देव ।
जय मिहिरमहाहिय गुणमहंत ।
जय सिव सासयसिवलच्छिहेउ ।

यत्ता—जिणणामे भत्तिपणामे पावमर्हातरु भज्जइ ॥

10

गयगव्वहं सव्वहं भव्वहं भावसुद्धि संपज्जइ ॥ ११ ॥

12

अंतरियउं जं महिसुरहरेहिं
जं केण वि णउ दिट्ठउं सुदूरु
धणपुत्तकलत्तइं अहिलसंति
तुहं पुणु संसारु जि संपुसंतु
दिणि अच्छइ घरि वावारलीणु
तुहं पुणु रिसि अहणिसु जग्गमाणु
वाहिरतवेण पइं अंतरंगु
तवतावे पइं ताविउं णियंगु

जं सुहुंसु ण याणिउं जणि परेहिं ।
तं पइं पयडिउं तुहं भावसूरु ।
भोयासइ तावस तउ करंति ।
संचरहि महामुणि चरिउं संतु ।
णिसि सोवइ जणु समदुक्खरीणु । ५
दीसहि परिमुक्कपमायठाणु ।
रक्खिउं णीसेसु वि मुइवि संगु ।
विहवियउ पइं दुइमु अणंगु ।

यत्ता—अणुसंकुलु हत्थयलामलु जिह तिह णिहिल्लु णिरिक्खिउं ॥

मयमत्तउं मयणासत्तउं तिहुवणु पहुं पइं रक्खिउं ॥ १२ ॥

13

णिम्मुककसाय जिणेसरासु
पुव्वंगधराहं सहासु बुत्तु

जाया गणहर पण्णास तासु ।
तं तिउणउं वाइहिं दुसयजुत्तु ।

11 १ A °भत्तिल्लभाव. २ P °णिहल°. ३ AP °जयलच्छि. ४ P महाभर. ५ A भजइ.
६ AP भव्वहं सव्वह.

12 १ P सुहुंसु. २ A सदूरु. ३ A संफुसुत्तु. ४ AP महामुणि संचरित्तु. ५ A अहणिसि.
६ A हत्थतल°. ७ AP सयल. ८ AP पइं पहु.

S a सा मासुय जयस्यामापुत्र. 9 a °मयरहर° समुद्र .

12 1 a अतरियउ अन्तरित्तमन्तर्हितम्, b परेहिं स्त्रादिमि. 2 b भावसूरु परमार्थेना-
दित्त्वं. ३ a सपुसंतु संमार्जयन्. ५ b सम° श्रमः. 6 a अहणिसु अहर्निशम्. 8 a णियंगु स्व-
शरीरम्. 9 अणुसंकुलु परमाणुसंकुलम्, हत्थयलामलु हस्ततले अमलः स्फटिक इव.

चालीससहस्रं एकं भणमि
 चत्वारि सहस्रं तिष्ठिणि जि सयाइं
 वयसहस्रं केवलदंसणाहं
 तेत्तियइं जि मयविद्वावणाहं
 अद्वेव सहास्रं एकं लक्खु
 सावयहं लक्ख दो चउ भणंति
 गयसंख तिर्यसगण वंदणिज्ज
 संमेयहु सिहरु समारुहेवि
 विच्छिण्णउं किरियाजालु सयलु
 गउ मोक्खहु अमवासोणिसियहि
 रिदुसमसहसाइं सउत्तराइं

पंच जि सयाइं भिक्खुंयहं गणमि ।
 अवहीहराहं पालियवयाइं ।
 मणपज्जवणाणमहागुणाहं । 5
 वसुसमयइं सिद्धविउव्वणाहं ।
 संजमधारिहिं सण्णाणचक्खु ।
 सावइहि महाकइ किर गणंति ।
 संखेज्ज तिरिक्ख णमंसणिज्ज ।
 छेइल्लु ज्ञाणु दद्वयरु धरेवि । 10
 ओसारिवि देउ तिदेहणियलु ।
 गुरुजोयव्भासें तहि जि दियहि ।
 सिद्धाइं रिसिहि पणमामि ताइं ।

घत्ता—तमहारहिं जलणकुमारहि जिणसरीरु संकारिउं ॥

णीसल्लहिं घल्लियफुल्लहिं अमरिंदहि जयकारिउ ॥ १३ ॥ 15

14

संपेणणदुवालसतवविहूइ
 अवरु वि समदमसंजमपसत्थि
 सुप्पहपुरिसुत्तमगुणणिहाणु
 पंचसयधणुणयमणुयदेहि
 उत्तंगुं काउ दिण्णायणाउ
 पयपालहु अरिहुहु पय णवेवि
 मई णउ रुद्धी सल्ले अणेण
 उप्पण्णउ कयदह्विहवियण्णि
 अट्टारहसायरपरिमियाउ

पुणु भासइ गणहरु इंदभूइ ।
 वित्तउं अणंतजिणणाहत्तियि ।
 सुणि मागहेसहरिवलपुराणु ।
 इह जंबुदीवि सुरदिसिविदेहि ।
 णंदउरि महावल्लु णाम राउ । 5
 रिसि जायउ तणयहु रज्जु देवि ।
 तणुचाउ करिवि सल्लहणण ।
 सुर सहसारइ सहसारकप्पि ।
 कि वण्णामि सुखरु सुद्धभाउ ।

घत्ता—इह भारहि पयडियसुहवहि पोयणपुरि चिरु होंतउ ॥ 10

वसुसेणउ तृयमणयेणउ णरवइ वइरिकयंतउ ॥ १४ ॥

13 १ A °सहासेकूण. २ AP सिक्खुयह. ३ A वसुसहस्र सिद्ध°, P वसुसहसइ सिद्ध°. ४ AP °वेउव्वणाहं. ५ A सणाणचक्खु. ६ P omits गण. ७ A अमवासहो णिसाहे, P अमवासोणिसीहि. ८ A सदुत्तराइं. ९ A सकारिउ.

14 १ P has before this जिणतणु पणवेष्णिणु गउ सुरिदु, वरणेदु णरिदु खरिदु चदु, K gives it in margin in second hand. २ A सपुण्णु. ३ AP उत्तुग काउ. ४ AT मह णावरुद्ध. ५ AP दहवियवियण्णि. ६ AP तियमण.

13 10 b छेइल्लु ज्ञाणु अन्तिमध्यानम्. 11 b ति देह णियलु औदारिकतेजसकामणदेहत्रय-निगडम्.

14 2 a सपण्ण° उत्पन्ना. 5 b सुरदिसिविदेहि पूर्वविदेहे 6 a दिण्णा यणाउ दिग्गज-नादः. 7 a पयपालहु प्रजापालतीर्थकरस्य. 11 °सुहवहि° शुभपथे. 12 तृयमणयेणउ लोमनस स्तेन.

15

मुहँदोहामियसरयचंद
रइरहसपसाहियजोव्वणाइं
तामायउ जियपडिवक्खँदंडु
अइरावयकरथिरथोरवाहु
वसुसेणं मण्णिउ परममित्तु
अवलोइवि णंदहि चारु वयणु
अवलोइवि णंदहि खीणु मज्झु
विहु सहँदुं ण सक्किउ मयणवाणु
वसुसेणं दइयविओइएण
वउं लइउ पासि णासियसरासु
अप्पउं दंडिउ छंडिउ ण माणु

महएवि तासु णामेण णंद ।
अच्छंति जाम विण्णि वि जणाइं ।
णामेण चंडसासणुं पयंडु ।
राणउ सुहडुगगणि मलयणाहु ।
तहु कंतहि लग्गउ तासु चित्तु । 5
विहु जूरँइ ओहुँलंतवयणु ।
विहु कुप्पइ तप्पइ हिययमज्झु ।
अवहरिवि णंद गउ णिययडाणु ।
असमत्थे विहिणित्तेइएण ।
सेयंसणामजोईसरासु । 10
संमोहजणणु वद्धउं णियाणु ।

वत्ता—तववरणहु खंचियकरणहु हउं फलु एत्तिउं मग्गमि ॥

परयारिउ सो खलु वइरिउ मारिवि परभवि वग्गमि ॥ १५ ॥

16

तहु सहिरवारिधाराइ जेव
इय वंधिवि दुडु णियाणसल्लु
संभूयउ तहिं सहसारसग्गि
तहिं दिट्ठउ तेण महावलेण
वद्धउ सणेहु कीलाविसालु
तहिं कालि सहिवि णाणाकिलेसु
इह भारहि कासीणामदेसिं
पुहँसरु तहि णामे विलासु
एयहं दोहं मि लक्खणणिउत्तु

परिहवपडु धोवमि होउ तेव ।
मुउ सो काले मोहंवुंगिल्लु ।
जिणतवहलेण माणियसमग्गि ।
देवेण भव्वजणवच्छलेण ।
सहवासं दोहिं मि गलिउ कालु । 5
परिभमिवि चंडसासणु भवेसु ।
वाणौरसिपुरि वरि घरणिवेसि ।
गुणवइणामे महएवि तासु ।
महुँसूयणु णामे जाउ पुत्तु ।

वत्ता—राणि मिलियहं परमंडलियहं भुयवल्लु पवल्लु विजित्तउं ॥ 10

तें सुहयरु रूपयगिरिवरु धरिवि महीयल्लु भुत्तउं ॥ १६ ॥

15 १ AP मुहयंदो. २ A पडिवक्खवुदु P पडिवक्खददु. ३ A चंडसासणपयंडु. ४ A चडुगगमि. ५ AP झरइ. ६ A ओहुँलंतवयणु, P उहुँल्लवयणु. ७ A सहिवि. ८ AP वउ.

16 १ A मोहंवुंगिल्लु but T मोहजलार्दः. २ AP देसु. ३ A पुरवरवरिवेसु, P पुरि वरवरिवेसु. ४ AP महसूयणु. ५ A तं सुहयरु.

15 † b सुहडुगगणि सुभट्टाग्रणीः; मलयणाहु मलयदेशस्वामी. b ओहुँलंतवयणु शुभद्रदनः. 9 b विहिणित्तेइएण विधिना कृत्वा निस्तेजस्केन, पुण्यहीनत्वान्निर्वलेन. 13 परयारिउ पारदारिकः; वग्गमि नृत्य क्रोगे.

16 1 b परिहवपडु परिभव एव पटो वस्त्रम्. 2 b मोहवुगिल्लु मोहजलार्दः. 9 a लक्खणणिउत्तु लक्खणसुत्तु. 11 ते तेन मधुसूदनेन.

17

जहिं वरिसहं लक्खइं णिट्ठियाइं
 तंहु भुंजंतहु लच्छीविलासु
 दारावइपुरि णं दससयक्खु
 तहु जयवइ अवर वि अत्थि वीय
 कालेण भुवणि किर को ण गसिउ
 पढमाइ महावल्लु पुत्तु जणिउ
 सुप्पहु पुरिसुत्तमु णामधारि
 ते वेण्णि वि पंडुरकसणवण्ण
 ते वेण्णि वि साहियसिद्धविज्ज

जहिं वरिससयाइं जि संठियाइं ।
 तहिं अवसरि सुणि अवरं वि पयासु ।
 सोमप्पहु पहु णवपउमचक्खु ।
 लहुइं पणइणि णामेण सीय ।
 सुरवरु सहसारविर्माणल्लहसिउ । 5
 वीयइं जो चिरु वसुसेणु भणिउ ।
 ते वेण्णि वि हलहरदाणवारि ।
 ते वेण्णि वि उण्णयपुण्णधण्ण ।
 ते वेण्णि वि खयरामरहं पुज्ज ।

घत्ता—हरिकंधर धवलधुरंधर जोइवि कलहपियारउ ॥

10

महिरायहु दावियघायहु जाइवि अक्खइ णारउ ॥ १७ ॥

18

भो भो महसूयण सुहडसीह
 सुंदर सोमप्पहदेहजाय
 दारावइपुरवरि दोण्णि भाय
 णं तुहिणंजणमहिहर महंत
 पण्णाससरासणदेहमाण
 तहिं कालेसलोणउ भणइ एस्व
 को अण्णु राउ मइं जीवमाणि
 आरूसेप्पिणु दुम्मियमणेण
 पडिवक्खपसंसियविक्रमासु
 पभणिउं भो भो लहु देहि कप्पु

समरंगणि को तुह लुहइ लीह ।
 मइं दिट्ठा सुणि रायाहिराय ।
 सक्कु वि णउ पावइ ताहं छाय ।
 थिर तीसंवरिसलक्खाउवंत ।
 संगामरंगणिव्वूढमाण । 5
 भो सुप्पह माहिवइ तुहुं जि देव ।
 को जीवइ गुणसंणिहियवाणि ।
 ता दूउ दिण्णु महसूयणेण ।
 गउ तासु पासि पुरिसुत्तमासु ।
 आवियक्खणु कि किर कराहि दप्पु । 10

घत्ता—पहु मण्णहि कलि अवगण्णहि करि उत्तउं महु केरउं ॥

महसूयणि भिडिय महारणि ण रंमइ खग्गु तुहारउं ॥ १८ ॥

17 १ AP तहिं. २ AP अवर. ३ P णउ पउम°. ४ AP °विवाण°. ५ P वीयउ.
 ६ AP पुण्णवण्ण.

18 १ A लहइ. २ AP तीसलक्खवरिसाउवंत. ३ AP काले. ४ AP दुम्मिय°. ५ A
 धरइ, K धरइ but corrects it to रमइ.

17 1 a णि ट्ठियाइ गतानि. 2 b पयासु प्रकाशः महिमा. 3 a दससयक्खु इन्द्र इव
 सहस्राक्षः. 5 b °ल्लहसिउ च्युत. 6 a पढमाइ प्रथमया जयावत्या. 7 b °दाणवारि विण्णुः. 9 a
 साहियसिद्धविज्ज सर्वेभ्य साधिकसिद्धविद्यौ. 11 णारउ नारदः.

18 1 b लुहइ स्फटयति; लीह रेखा. 6 a कालसलोणउ वासुदेवः. 8 a दुम्मिय-
 मणेण सखेदचित्तेन. 11 अवगण्णहि मुञ्च.

19

तं णिसुणिवि भासइ सीरधारि
 अम्हारउ करु मग्गइ अयाणु
 अम्हारउ करु सहं धणुंहरेण
 अम्हारउ करु चक्केण फुरइ
 अम्हारउ करु तहु कालवासु
 तं सुणिवि महंतउ गउ तुरंतु
 ण समिच्छइ संधि ण देइ दव्वु
 तं णिसुणिवि मणि उप्पण्ण खेरि
 संणद्ध सुहउ हणु हणु भणंति
 आरोहचरणचोइयमयंग
 धाइय रहंवर धयधुव्वमाण
 णिग्गउ आरुसिवि राउ जाम
 आयउ रिउ हय दुंदुहिणिणाउ

भो दूय म कोक्कउ गोत्तमारि ।
 कि ण मरइ रंणि सो हम्ममाणु ।
 अम्हारउ करु सहं असिवरेण ।
 अम्हारउ करु तहु जीउ हरइ ।
 जिणु मेल्लिवि अम्हइं भिच्च कासु । 5
 विण्णवइ ससामिहि पय णमंतु ।
 पर चवइ रामु केसउ सगव्वु ।
 हय रसमसंति संणाहभेरि ।
 दट्ठोड्ड रुड्ड दढ्ढभुय धुणंति ।
 धीरासवारवाहियतुरंग । 10
 गयणयलि ण माइय खगविमाण ।
 चरपुरिसहि कंहियउं हरिहि ताम ।
 थिउ रणभूमिहि वहियकसाउ ।

घत्ता—तं णिसुणिवि णियभुय धुंणिवि केसउ जंपइ कुड्डउ ।

मरु मारमि पलउ समारमि रिउ बहुकालहुं लद्धउ ॥ १९ ॥ 15

20

हरिवाहिणिखगवाहिणिसमेय
 रह तुरय दुरय णरंवरउद्ध
 चलचमरुत्तधयल्लणसेणुं
 दसदिसिर्वहभरिय ण कहि मि माइ
 फाणि तेण भरेण ण केमं मरइ
 णरभोयणकइ रोमंचियाइं

णिग्गय वेण्णि वि हिमगरलतेय ।
 मज्जायविवज्जिय णं समुद्ध ।
 उग्गयधूलीरयकविलवणुं ।
 महि वज्जघडिय विहडिवि ण जाइ ।
 धुयफडकडप्पु थरहरइ सरइ । 5
 सुपहूयइं भूयइं णच्चियाइं ।

19 १ AP सो रणि. २ AP धणहरेण. ३ AP भुयवलि. ४ P धारासवार. ५ A रह रणि
 वय°. ६ AP साहिउं. ७ AP विहुणिवि.

20 १ AP णरवरउद्ध. २ AP मजायसुक्क णं चल समुद्ध. ३ A °सेणु. ४ A धूलीरव°. 5
 ५ A °वण्ण. ६ A °दिसवह°. ७ AP कह व. ८ A वण° but corrects it to णर in second
 hand.

19 2 a कर राजदेवम्. 8 a खेरि वैरम्. 15 पलउ समारमि प्रलयकालमानयामि.

20 1 b हिमगरलतेय यवलवर्णः कृष्णवर्णश्च. 2 a दुरय गजा. 4 b वज्जघडिय वज्र-
 घटिनेव. 5 b °फडकडप्पु °फणासमूह. 6 a णरभोयणकइ नरा एव भोजनं तस्य कृते, b सुपहू-
 यट् तुप्रभूतानि प्रचुगाणि.

विष्णि मि सेण्णइं समुहागयाइं
जयगोमिणिमेइणिलंपडाइं

आलग्गइं तासियदिग्गयाइं ।
मुसुमूरियचूरियभडथडाइं ।

घत्ता—दप्पिडुइं वेण्णि मि दिडुइं सेण्णइं समरि भिडंतइं ॥
हलसूल्लइं झसैकरवालहि पहरंताइं पडंतइं ॥ २० ॥

10

21

पवरासवारवेढियरहोहि
जोहंघिदलियमंडलियमउडि
वियडियकवाडसंदोहणीडि
मीडामहग्घजुज्झंतवीरि
णीरेरुहसममुहपंकएण
कयहलणित्तेइयकयखलेण
वलएवहु पइसरु सरणु अज्जु
कज्जु वि मइं अक्खिउ तुज्जु सारु
आरुहसु म जमसासणु अजाण
माणहि मा महं रणि वाणविट्ठि

रहसंकाडि णिवडियविविहजोहि ।
मउडुच्छलंतमणिकिरणविउडि ।
णीडाहिरूढसुरवरसमीडि ।
वीरंगगलियकीलालणीरि ।
पंकयणाहें दप्पंकएण । 5
खलु दुच्छिउं दुदमभुयवलेण ।
अज्ज वि णउ णासइ मित्तकज्जु ।
सारुइ मुइ अवरु वि हत्थियारु ।
जाणेण जाहि मुक्काहिमाण ।
विट्ठि वै भीसण तुह हणइ तुट्ठि । 10

घत्ता—पडिकण्हें भणित्तं सतण्हें फलवज्जिउ कि गज्जहि ॥
धणुदंढें डिभय कंढें रे कुमार मइं तज्जहि ॥ २१ ॥

22

दे देहि कप्पु कि जंपिण्ण
तुहुं किंकरु हउं तुहुं परमणाहु
इय भणिवि विसमभडघाइणीइ
सीयासुएण भग्गइ अणीइ
ता रिउणा घल्लिउ फुरियधारु

दुण्णयवंतें सुइविप्पिण्ण ।
कि वद्धउ विहलु पहुत्तगाहु ।
जुज्झिउ विज्जइ वहरुविणीइ ।
वहुंरुविणि जिय पडिरुविणीइ ।
रहचरणु चवैलु सहसारुफारु । 5

९ P समुह गयाइ. १० A हलसूल्लिहिं. ११ AP वरकरवालहिं.

21 १ A जोहोहदलिय^०. २ AP दोच्छिउ. ३ A वि. ४ AP सयण्हे. ५ AP डिभियकडे.

22 १ A बहुरूपिणि. २ A तरणु. ३ AP सहसारु फारु.

8 b ^०भडथडाइ ^०भटसमूहानि.

21 1 a ^०वेढियरहोहि ^०वेष्टितरथौवे. 2 a जोहवि^० योधपादै. 3 a वियडिय^० विरकु-
टित्तम्. 4 a मीडामहग्घ^० मा च ईडा च ताभ्या महार्थ. 5 णीरेरुह^० पद्धजम्. 8 b सारुइ लक्ष्मी-
रुचिम्. 12 डिभय हे शिगो.

22 2 b विहलु विफलम्. 4 a अणीइ सैन्ये.

गिरिधरणिबलयचालणवलेण
 सो रेहइ तेण सुणिम्मलेण
 णिर्यरूवपरज्जियणित्तणेण
 पुणु भणिउ वइरि रे सुप्पहांसु
 पालियतिखंडमंडियधरेण
 तुहं सुप्पहु विण्णि वि मज्झु दास
 सरसलिलि रहंगसयाइ अत्थि
 मरु मरु मारंतहु णत्थि खेउ

तं हरिणा धरियउ करयलेण ।
 णवमेहु व रविणा णित्तलेण ।
 अलियंजणसामे पत्तलेण ।
 करि केर म जाहि कयंतवासु ।
 पडिजंपिउं पडिदामोयरेण । 10
 को गव्वु रहंगे रे हयास ।
 किं तेहिं धरिज्जइ मत्तहत्थि ।
 संभरहि को वि णियइद्देउ ।

घत्ता—असमिच्छिवि पुणु णिन्मच्छिवि चक्के रिउसिरु तोडिउ ॥
 हरिहंसं लद्धपसंसं णं रणंतरुहलु साडिउ ॥ २२ ॥ 15

23

मंहिरक्खसि खद्धणिमासखंड
 पत्थिव पसु गिलइ ण कहिं मि धाइ
 कालेण कण्हु गउ अवहिठाणु
 णिल्लुंचियकुंतलु करिवि सीसु
 परिसेसिवि भवसंसरणवित्ति
 जहिं भुक्खु णत्थि आहारवग्गु
 जहिं कामिणि कामु ण रोसु तोसु
 जहिं वाहि ण विज्जु ण मलु ण प्हाणु
 इच्छइ पेच्छइ णीसेसु ताम
 संतेण समियफुल्लाउहेण

पुरिसुत्तमेण भुत्ती तिखंड ।
 ओहच्छइ केण वि सहुं ण जाइ ।
 हलिणा चिंतिउ रिसिणाहणाणु ।
 जायउ सोमप्पहगुरुहि सीसु ।
 थिउ भूसिवि मोक्खमहाधरित्ति । 5
 जहिं णिइ ण मंदिरु सयणवग्गु ।
 जहिं दीसइ पक्कु वि णाहिं दोसु ।
 जहिं अप्पे अप्पउं जाणमाणु ।
 तिहुयणु अणंतु आयासु जाम ।
 चउथेण तेण सीराउहेण । 10

घत्ता—ववगयरइ भरहेरावइ जं णरेहिं आराहिउं ॥

तं सिद्धउं सिवसुहुं लद्धउं पुष्पदंतजिणसाहिउं ॥ २३ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण महा-
 कइपुष्पयंतविरइए महाकव्ये अणंतणाहसुप्पहपुरिसुत्तममहसूयणकहंतरं

णाम अट्टवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५८ ॥

३ AP णित्तवेण. ४ A omits Sa. ५ AP °मडलवरेण. ६ A तो जंपिउ पडि°, P ता जंपिउं पडि°. ७ A महु मारतहु. ८ AP णिन्मच्छिवि. ९ P णं णवसररुह पाडिउ.

23 १ AP have before this: बहुपाउ करिवि बहुभोयसत्तु, तमतमि पत्तउ पडिलच्छि-
 कंतु. २ AP सयणमग्गु. ३ AP अप्पइ अप्पउं जायमाणु. ४ AP अच्छइ. ५ A पुल्लाउहेण. ६ AP
 चोत्थेण. ७ AP तं लद्धउं सिवसुहुं सिद्धउं. ८ AP °पुरिसोत्तम°. ९ AP अट्टवण्णा°.

7 b णित्तलेण निर्दोषेण, भासुरेणेत्यर्थः. 9 b केर आज्ञा. 13 a खेउ कालक्षेपः.

23 1 a °णि मा स वृमांसम्. 4 a अवहिठाणु सप्तमनरके अवविष्टानं नरकविलम्. 6 a
 परिनेमि वि परित्यज्य. 7 a भुक्खु मोदकादिकं भक्ष्यम्. 9 a विज्जु वैद्यः. 11 °फुल्लाउहेण °कामेन.

जिणुं धम्मु भडारउ तिहुवणसारउ मइं जडेण किं गिज्जइ ॥
चवलुककलियायरु भरियउ सायरु कि कुडुवेण मविज्जइ ॥ धुवकं ॥

I

लच्छीरामालिगियवच्छं	उण्णयसिरिवच्छं ।	
दिव्वञ्जुणि छत्तत्तयवंतं	कंतं भयवंतं ।	
भामंडलरुइणिज्जियचंदं	भध्वकुमुयचंदं ।	5
अमरमुक्ककुसुमंजलिवासं	देवं दिव्वासं ।	
वुद्धं बहुसंबोहियसुरवं	जयदुंदुहिसुरवं ।	
वरकंठीरवपीढारूढं	मीमंसारूढं ।	
पंचिंदियभडसंगरसूरं	भुवणणलिणसूरं ।	
मंदरहिधीरं सवरहियं	रायरोसरहियं ।	10
दूरुज्झियमायाविरहंसं	मुणिमणसरहंसं ।	
एयाणेयवियप्पविवायं	मोहमेहवायं ।	
पायपोमपाडियगिग्वाणं	उग्गयगिग्वाणं ।	
दिसिणासियदुण्णयसारंगं	हयवसुसारंगं ।	

All mss., A, K and P, have, at the beginning of this sandhi, the following stanza:—

अत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीति स्थितिश्छन्दसा-
मर्थालकृतयो रसाश्च विविधास्तत्त्वार्थनिर्णीतयः ।
किं चान्यत्रदिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्विद्यते
द्वावेतौ भरतेशपुष्पदशनौ सिद्ध ययोरोदशम् ॥ १ ॥

K reads ते चार्थनिर्णीतय. for तत्त्वार्थं, देवेतौ for द्वावेतौ, and भरताख्यं for भरतेश; P reads देवेतौ भरते तु पुष्पं. K has a gloss on देवेतौ as देवत्व इतौ प्राप्तौ देवेतौ.

1 १ A जिणधम्म. २ P कि त.

1 2 °उ क्क लि या य रु उत्कलिकाकारः कल्लोलसमूहयुक्तः, कुडुवेण मानप्रमाणविशेषेण. 3 b °सि रि व च्छ श्रीवृक्षमशोकवृक्षम्. 4 b भयवत ज्ञानिनम्. 6 b दिव्वास दिग्वसनम्. 7 a °सुरव °सुरपतिम्; b °सुरवं शोभनशब्दम्. 8 b मी मं सा रूढं मीमासाविचाररूढं परीक्षाप्रसिद्धमित्यर्थः. 10 a स वर हियं स्वपरहित भिल्लहित वा. 11 a °मा या विर ह स मायाविग्रहयोरंगं भागम्. 13 b उ ग य गि ग्वा ण उद्गता निष्पन्ना गीर्वाणाः पण्डितगणधरदेवादयो यस्मात्, अथवा उन्नतप्रीवाणा मिथ्यादृष्टीना ध्वस्तसंनन्धिनम्. 14 a दु ण्ण य सार गं °दुर्मतहरिणम्, b ह य व सु सार गं हतद्रव्यलक्ष्म्यनुरागम्.

तवहुयवहहुयवम्महधम्मं
भणिमो तस्स चरित्तं चित्तं

णमिऊणं धम्मं ।
रंजियपरचित्तं ।

15

यत्ता—जिह अक्खइ गोत्तमु उत्तमु णित्तमु सत्तमु सेणियरायहु ॥

तिह हउं दुक्कियहरु कहंमि कहंतरु भरहहु भव्वसर्हायहु ॥ १ ॥

2

धादइसंडइ पुव्वदिसायलि पुव्वविदेहइ
सीयातीरिणिदाहिणतीरइ वच्छयदेसइ
सुपसाहियसिरु बुहयणवच्छलु गिवसइ केहउ चाएं भोएं विहवें रूथें वम्महु जेहउ ।
रयणिसमागमि गिलियउ छणससि अन्नपिसाएं खीरामेलउ णावइ णाएं दिट्ठउ राएं ।
चित्तित्ठु णियमणि सच्छसहावें वियलियदप्पें अमयकलायरु जेम णिसायरु गसिउ विडप्पें ।
तेम गसेव्वउ जीउ पुसेव्वउ कूरकयंतं णिव्वयवंतं कारिमजंतं काइं जियंतं ।
एव चवेप्पिणु रज्जि थवेप्पिणु अइरहु णंदणु संगु मुएण्णिणु गउ तउ लेप्पिणु णिम्माणुसु वणु ।
पडिउ सुयंगइ सो एयारह णिट्ठइ झिज्जिवि तिहुवणखोहणु तित्थयरत्तणु पुण्णु समज्जिवि ।
पाववि गसैं मुउ संणासैं गउ सव्वत्थहु जगि णउ काइं मि दीसइ दुग्गमु धम्मसमत्थहु ।
जंतसणाडिहि लहुयउ गरुयउ काइं वि अच्छइ तं णियणाणं एक्कं करंगउ जाणइ पेच्छइ । 10
सो तिहिं तीसहि पक्खहि गलियहिं सासु पउंजइ तेत्तियवरिसलहासहिं संखइ झीणइ भुंजइ ।
सुक्कलेसु सासिसुक्कवण्णु सुइं णिप्पडियारउ किं वण्णिज्जइ इंदु चंदु अहमिंदु भडारउ ।
तेण तितीससमुद्दमाणु परमाउसु भुत्तउं परियाणिवि उव्वरिउं सेसु छम्मासु णिरुत्तउं ।
पेसणु पढमें सयमहिण जक्खिदहु सिट्ठउं कुरु कुरु जिणपुज्जाविहाणु परमागमि दिट्ठउं ।

यत्ता—सुंणि जंवूदीवइ ससिरविदीवइ भरहखेत्ति जणपउरइ ॥ 15

महेराउ णरेसरु सुरकरिकरकरु अत्थि जक्ख रयणउरइ ॥ २ ॥

३ AP णविऊणं. ४ P omits चित्तं. ५ A कहवि. ६ P °सयायहु.

2 १ A °सिणि. २ P णिवइ स. ३ A गसेवउ. ४ A पुसेवउ. ५ AP read this line as पडिउ सुयंगइ सो अविहगइ एयारह पुणु. P adds after this: सरिवि सुहंगइ दहधम्मंगइ सोसिवि गियतणु, AP add after this: छत्तीस वि गुणसहिए तवणिट्ठइ (A तवणिट्ठविएं झिज्जिवि. ६ P एक्क. ७ A सो तेतीसहि. ८ A सुह°. ९ A तिणि तेत्तीस°. १० A पुण जंवू°, P सुणि जंवू°. ११ P जणे पउरइ, K जणवगइ but corrects it to जणपउरइ. १२ A मेहराउ; P महाराउ.

15 a °वम्महधम्मं कामदेवधनु. 17 सत्तमु अतिचयेन प्रशस्तः.

2 1 a पुव्वदिसायलि पूर्वमेरौ, b माहवगेहइ माधवा लक्ष्मीपतयः तेषां गृहके. 2 b-3 a जयनिरिसेसइ सुपसाहियसिरु जयलक्ष्मीशेषया पुष्पमालया प्रसाधितं वृद्धारितं शिरो यस्य स गजा. 4 a अन्नपिसाए राटुणा. 5 b विडप्पें गटुणा. 6 a पुसेव्वउ कूरकयंतं स्फोटयितव्यः क्रूर-द्वान्तेन यमेन b णिव्वयवंतं अतरहितेन; कारिमजंतं शरंगेण, जियंतं जीवता. 9 a सव्वत्थहु सर्वार्थनिद्रिविमानं गतः. 10 b एक्कं करगउ एकदलकाय, अथवा एकाङ्गुलिवत्. 11 a तिहि तीसहिं त्रिमिन्त्रियता च. 12 a मुद शुचिः, णिप्पडियारउ प्रतीचारहितः. 15 a पढमें सयमहिण प्रथमेन देवन्द्रेण, सौधमेन्द्रेण. 17 महाराउ महसा तेजसा राजित भानुराजा.

3

पुरंधि तस्ल सुप्पहा	सई अणंगमापहा ।	
जणेदिही जिणेसरं	रईणिसादिणेसरं ।	
पुरं णिवद्धतोरणं	घरं समत्तवारणं ।	
करेहि तं तथा तुमं	कुलकमागयं इमं ।	
णमंसिउं सुराहिवं	तओ गओ धणी भुवं ।	5
णवप्पसंडिपीयलं	अणयखाइयाजलं ।	
अणयवणसालयं	अणयणट्टसालयं ।	
अणयकेउछाइयं	अणयतूरणाइयं ।	
अणयदारदावणं	अणयवल्लरीवणं ।	
अणयसुंदरावणं	अणयतित्थपावणं ।	10
कयं पुरं महासरं	तहिं चि रायमंदिरं ।	

घत्ता—तहि पच्छिमरयणिहि सुत्तइ सयणिहि दीसइ देविइ कुंजरु ॥
पसुवइ पंचाणणु विप्फुरियाणणु मयमारणणहपंजरु ॥ ३ ॥

4

अवरं वि सिरिदामइं दिट्ठिहि सोम्मइं ढोइयइं	
णहि पंडुरतंवंइं ससिरविविवइं जोइयइं ।	
दुइ मीण रईणड दुइ मंगलघड सरयसरु	
जलणिहि जलभीसणु सेहीरासणु सक्कवरु ।	
उरगिंदणिहेलणु णाणामणिगणु सत्तसिहु	5
सुद्धइ अवलोइउ मणि संमाइउ भणिउ पहु ।	
मइं दिट्ठा सिविणय सोलह सिविणय देतु सुहुं	
फलु ताहं भडारा णरवरसारा कहहि तुहुं ।	
पइ कंतहि अक्खइ गुड्ढु ण रक्खइ भुयणगुरु	
तुह होसइ तणुरुहु णवसररुहमुहु गुणपउरु ।	10

3 १ AP जणेइही. २ P समत्त°. ३ A तहि च राय°.

4 १ AP अवरु. २ AP सुविणय. ३ A णवससररुहमुहु.

3 1 b अणग मापहा कामश्रीसदृशी. 2 a जणेदिही जनिष्यति, b रईणि सादिणे सररतिरेव निगा तस्या विनाशसूर्यं 5 b धणी वनदः. 6 a णवप्पसंडिपीयल नवसुवर्णपीतम्. 10 a °सुंदरावण शोभनहट्टं आपणम्. 11 a महासर सरोयुक्तम्, b तहिं चि तत्रैव नगरे.

4 3 सरयसरु पन्नसर. 5 सत्तसिहु सतार्चिर्गि. 7 सिविणय देतु नुहुं श्रीविनतानां राज्ञां सुख ददत्त्वम्. 10 णवसररुहमुहु नवपङ्कजसुखः.

तं णिसुणिवि राणी णं सहसाणी वणरविण
 णच्चइ सिगारें रसवित्थारें णवणविण ।
 हेमुज्जलभित्तिहिं उग्गयदित्तिहिं जियतवणि
 वोलावियं अयणइं पडियइं रयणइं णिवभवणि ।
 वइसाहइ मासइ तेरसिदिवसइ ससिधवलि 15
 थिउ गच्चि जिणेसरु अहममेसरु गलियमलि ।
 रेवइणक्खत्तइ णंविउ पवित्तइ सुरवरहिं
 आयहिं दिहिकंतिहिं सिरिहिरिकित्तिहिं अच्छरहि ।
 चउसायरमेत्तइ सिद्धि अणंतइ मयमहणु
 अंतिमपल्लुइ धम्मविसुद्धइ गइ णिहणु । 20
 माहम्मि खण्णइ धर्णपउण्णइ जणियसुहि
 ओसाकणसंकुलि णवतणकोमलि तुहिणवहि ।
 सियपक्खहु अवसरि तेरसिवासरि दिण्णदिहि
 उप्पण्णउ जगगुरु सिरिसेवियउरु णाणणिहि ।
 गुरुजोइ सुरिदहिं ण्हविउ फणिंदहिं सुरगिरिहि 25
 आणिवि पियवाइहि अण्णिउ मायहि सुंदरिहि ।
 गउ सक्कु सुहम्महु पणविवि धम्महु पणइसिरु
 वइइ परमेसरु ख्वे जियसरु महुरगिरु ।
 वत्ता—पणयालसुंवावइं उज्जुयभावइं गरुणं तणु तुंगत्ते ॥
 तेलोकहु सरें अरुहकुमारें जणु रंजिउ धणु देत्ते ॥ ४ ॥ 30

5

ताव कुंअरत्तणे	देवकयकित्तणे ।
लक्खजुयसंजुयं	अद्धलक्खं गयं ।
वच्छरविसेसंहं	अच्छरसुरेसंहं ।
विरइय अणिंदओ	जसविडविकंदओ ।
इंदकयण्हाणओ	जायओ राणओ ।

5

४ A महसाणी; P सुहसाणी. ५ P वोह्हाविय. ६ A अद्धमिदिवसइ. ७ AP णववि. ८ A धम्मपउ-
ण्णइ. ९ P उंसा^१ १० A गुरुजोय. १३ AP पणयसिद्ध. १२ A सचावइ.

5 १ AP कुमरत्तणे. २ P^०विमेनेहि. ३ P^०सुरेनेहि. ४ AP विरइयाणंदओ.

11 नइसाणी मयूरी. 12 णवणविण नवनवेन. 14 वोलाविय यापितानि, अयणइं पण्मासपर्यन्तम्.
15 अमसिधवलि कृणे. 17 णविउ नमस्कृत.. 22 ओसाकण^१ अवदयायकणा. 25 गुरुजोइ
पणनधे 27 पणइसिद्ध प्रणतविसा.

वयसमालकखहं	गयहं कयसोक्खहं ।	
चंदिमाकंतिया	उक्क णिवडंतिया ।	
तेण अवलोइया	विहियणिव्वेइया ।	
सइं जि उम्मोहिओ	पुणु वि संवोहिओ ।	
वरकुसुमहत्थहि	दिव्वरिसिसत्थहिं ।	10
हरिहिं अहिसिंचिओ	वंदिओ अंचिओ ।	
सिहरलिहियंवरं	णाययत्तं वरं ।	
सिवियमारोहिउं	वम्महं जोहिउं ।	
मंदिरा णिग्गओ	सालवणमुवगओ ।	
माहि तेरहमए	दियहि सैमियंकए ।	15
पूसि सायण्हए	रहिउ रइतण्हए ।	
छट्टुववासओ	करिवि णिहियासओ ।	
णिवसहससंजुओ	मुणिवरिदो हुआओ ।	
खंतिकंतापिओ	तुरियणाणंकिओ ।	
पुरिं घरविचित्तए	पांडलीउत्तए ।	20
भमिउ पिंडत्थिओ	विणयणविओ थिओ ।	
धण्णसेणालए	ढोइयं कालए ।	
भोयणं फासुयं	सव्वदोसच्चुयं ।	
जायपंच्चुयं	दाणममरत्थुयं ।	
सहइ तवतावणं	करइ गुणभावणं ।	25

घत्ता—उवसंतइ मच्छरि गइ संवच्छरि खाइयभावहु आइउ ॥
फुल्लंतपियालउं तुंगतमालउं तं सालवणु पराइउ ॥ ५ ॥

6

तहिं सत्तच्छयतरुहि तलि	खगउलमहुलि ।
छट्टुववासांकियहु	अविसंकियहु ।
पूसरिक्खि छणससिदिवसि	हइ कम्मरसि ।

५ A वयसमलकखहं; P वयसमसुलकखहं. ६ A णवकुसुम°. ७ A समयकए. ८ A पिहियामवो. ९ A पुरघर°. १० AP पाडलीपुत्तए. ११ AP पासुय.

6 १ AP °मुहलि.

5 0 a वयसमालकखहं पञ्चसवत्सरलक्षणाम्. 7 a चदिमाकतिया दीप्याक्रान्ता. 12 b णायदत्त नागदत्ताम्, वर वरामुत्कृष्टाम्. 13 b जोहिउ जित्वा. 15 b समियंकए चन्द्रसहितं. 19 b तुरियणाणंकिओ मन.पर्यायज्ञानयुक्तं. 26 खाइयभावहु आइउ घातिचतुष्टयं विनाशमागतम्.

6 1 b खगउलमहुलि पक्षिसमूहमुखरे. 3 b कम्मरसि कर्मरसे कर्मसामर्थ्ये हते सति.

अवरणहइ हूयउ सयलु	केवलु विमल्लु ।	
आयउ तुरियउं सतियसयणु	दससयणयणु ।	5
थुणइ थुणंतु गहीरञ्जुणि	जय परममुणि ।	
धम्मु ण णहयलि गिरिगुहिलि	णउ धरणियलि ।	
धम्मु ण णहाणि ण पसुर्गसाणि	ण सुरावसाणि ।	
तुहुं जि धम्मु जिणधम्ममउ	कयजीवदउ ।	
णरयपडंतहं दिण्णु करु	तुहुं दुरियहरु ।	10
हंरु तुहुं संकरु परमपरु	तुहुं तित्थयरु ।	
बुद्धु सिद्धु तुहुं महु सरणु	हयजरमरणु ।	
जिहं मणु धावइ णारियणि	उत्तुंगथणि ।	
जिह मणु धावइ भवणि धणि	णियवंधुयणि ।	
तिह जइ धावइ तुह पयहं	गयभवभयहं ।	15
तो संसारि ण संसरइ	ण हवइ मरइ ।	
जाइ जीउ तिहुवणसिरहु	तहु सिवपुरहु ।	
एवं थुणेवि पुरंदरिण	वीणासरिण ।	
समवसरणु णिम्मिउ विउलु	तहिं जीवउलु ।	
धम्मचक्रपहणा जिणिण	संवोहियउं ।	20
इंदियविसयकसायवसु	सुणिरोहियउं ।	

वत्ता—तहु वज्जियल्लम्महु देवहु धम्महु तवभरधरदढयरभुय ॥

चालीस मणोहर जाया गणहर विहिं गणणाहहिं संजुय ॥ ६ ॥

7

णवसयइं पुव्वपारयरिसिहि
चालीससहास सत्तसयइं
रिद्धुसयइं तिणिण सहसइं परहं

संदरिसियमोक्खमग्गादिसिहि ।
सिक्खुयहं णमंसियगुरुपयइं ।
अवहिल्लहं संजमभरधरहं ।

२ AP add after this: देवें सयगयर सुणिउ, जगु ज्ञाणियउं (A omits जगु जाणियउ), खणि जाइय (A जाइयउ) देवागमणु, छण्णइ (A सुण्णव^०) गयणु, णाणाविहहिं पडाइयहिं, अव-
गइयहिं, संयुउ देउ सुरासरहिं, मउल्लियकरहि, K gives these lines but scores them off.
३ A तुरिउ. ४ A पसुवहणे. ५ P has तुहु before हरु. ६ A मह सुयणु. ७ P omits this
line. ८ A धावइ भवणि वणि P धावइ णियभवणि धणि. ९ P तिहि.

7 १ P भिक्खुयहं.

5 b दससयणयणु इन्द्र.. 7 a गिरिगुहिलि गिरिगहने. 8 b सुरावसाणि मद्यव्यसने.

7 1 a पुव्वपारव^० पूव्वपारणा ऋषीणाम्. 3 b अवहिल्लहं अवधिज्ञानयुक्तानाम्.

चउसहस पंचसय केवलिहि
 भयसहसइं विकिरियाइयहं
 सहसाइं सङ्घि चउसयजुयइं
 दोलक्खइं भणियइं सावयाहं
 गिच्चाण मिलिय संखारहिय
 पणवांति जासुं को तेण सहं
 गिभागमि अट्टणवुत्तरेहि
 चोत्थिइ पच्छिमपहरइ णिसिहि
 संपण्णी धम्महु परमगइ

मणपज्जयाहं तइं मणवलिहि ।
 दोसहसइं वसुसयवाइयहं । 5
 अज्जियहं मोहवासहु चुयइं ।
 दुगुणाइं तयहं पालियवयाहं ।
 संखेज्ज तिरिक्ख दिक्खसहिय ।
 उवमिज्जइ हूई चित महं ।
 सह जइसपहि कयसंवरहि । 10
 संमेयसिहरि अरिहहु रिसिहि ।
 महं देउ भडारउ सुद्धमइ ।

घत्ता—वंदारयवंदहु देहुं जिणिदहु पुज्जिवि हयभवपासहु ॥

पहांजियरविमंडलु गउ आहंडलु गय अवर वि णियवासहु ॥ ७ ॥

8

धम्मवारिविहरणवोहित्ये
 सेणिय हलहरचक्कराणं
 णवसासंचियवसुमइदेहे
 णिवसइ णरवइ परदुव्विसहो
 सो संसारजायणिव्वेयउ
 काउं तवचरणं जिणिदिट्ठं
 पत्तो णिरसणविहिणा सग्गं
 अट्टारहजलणिहिपरिमाणं
 जइया तइया इह रायगिहे
 णाम सुमित्तो अप्पडिमल्लो
 जुज्जे सो भुयवलमयमत्तो
 ताम तेण परिमउलियणेत्तं

अस्सि परमधम्मजिणत्तित्ये ।
 णिसुणहि चरियं णरपवराणं ।
 जंबूदीवे अवरविदेहे ।
 वीयसोयणयरे णरवसहो ।
 दमवरपासे सुद्धिसंमेयउ । 5
 विसहियकेसालुंचणणिट्ठं ।
 तं सहसारं भोयसमग्गं ।
 तस्सेयारहमे वोलीणे ।
 णयरे घरसिरणच्चियवरिहे ।
 दुज्जणहियउप्पाइयसल्लो । 10
 रायसीहराएण णिहित्तो ।
 परिभवदुक्खपरंपरच्छित्तं ।

घत्ता— णियरज्जु मुपप्पिणु तणयहु देप्पिणु जुण्णउं तणु व गणेप्पिणु ॥

चिण्णउं वरुं दूसहु कयवम्महवहु कण्हसूरि पणवोप्पिणु ॥ ८ ॥

२ A जिह केवलहिं. ३ AP तियह ४ AP जासु सो केण सह. ५ A अट्टणववुत्तरेहि. ६ A देवजिणिदहु.

8 १ A अस्स. २ P णरवासहो. ३ P ससारहु जाय°. ४ °संमेयउ. ५ A रायहरे. ६ A वउ, P तउ.

4 b तइ तावन्तः केवलिप्रमाणा, मणवलि हिं मन पर्यायज्ञानसहितानाम्. 10 a गि भागमि आषाढे शुक्ले.

8 1 a ° वो हित्ये प्रवहणे नौकायाम्, b अस्सि अस्मिन्. 4 b णरवसहो नरवृषभनामा. 9 b वरिहे °मयूरे. 11 b णि हित्तो निराकृतो मानभङ्ग प्रापितः. 12 a परिमउलियणेत्तं परिमुकुलितनेत्रेण; b °छित्तं °सृष्टेन.

9

णवर पमाणं	माणकसाणं ।	
भीमें रुद्धउ	हियवइ कुद्धउ ।	
खरतवझीणउ	साहु अयाणउ ।	
पत्थइ तवहलु	होज्जउ भुयवलु ।	
आगामिणि भवि	भडरवि रउरवि ।	5
जेण वियारमि	सो रिउ मारमि ।	
इय णिज्झाइवि	देहु पमाइवि ।	
सल्लकिलेसं	मुउ संणासं ।	
थिउं सुरविंदइ	हुउ माहिंदइ ।	
जाउ मणोरमि	अणुवमतणुरमि ।	10
आउअणिंदइ	सत्तसमुदइ ।	
जहि जिणगीर्यइं	अच्छरगीयइं ।	
जहिं सवणिज्जइं	सुइरमणिज्जइं ।	
जं चिरु जित्तउ	राउ सुमित्तउ ।	
सो पत्थिवहरि	णं मत्तउ करि ।	15
हिडिवि भववाणि	विहुरावलिघणि ।	
फलियधरायलि	इह कुरुजंगलि ।	
पंडुरगोउरि	हूयउ गयउरि ।	
राउ कुसीलउ	सो महुकीलउ ।	

वत्ता—करयलकरवालें भिउडिकरालें पुहइ तिखंडं पसाहिय ॥ 20
मंडलिय मउद्धर जेम धुरंधर तेम तेण घरि वाहिय ॥ ९ ॥

10

रज्जु कंसिणसुहसारउं अणहुत्तिहिं णियउं
कइवइ वरिसइं जइयहुं तहु जीविउं थियउं ।

9 १ AP अजाणउ. २ AP भइयणि. ३ A थिय. ४ P जिणगंहइं. ५ A अच्छरिगीयइं.
६ A तिखडइं साहिय. ८ AP मउद्धर.

10 १ A कसण°. २ AP अणुहुंजिवि.

9 1 a पमाणं प्रमादेन. 2 a भीमें गैद्रेण. 5 b भडरवि रउरवि भट्कोलाहले रौद्रे. 10 b
अणुवमतणुरमि अनुपमा शरीरस्य स्मा शोभा यत्र. 11 a आउअणिंदइ आयुषा अनिन्ये. 12 a
जिणगीयइं त्रिनसंयन्वानि गीतानि. 16 b विहुरावलिघणि दुःखपरंपराप्रचुरे. 19 b महुकीलउ
मनुनीउ. 21 मउद्धर मउद्धरा ; धुरंधर वृत्तमा..

10 1 कसिण° क्लृप्तं संपूर्णम् ; अणहुत्तिहिं णियउ अनुभुक्तिं नीतम्.

तद्वयहं खगउरणाहहु सीहसेणणिवहु
 इक्खाउहि सुपसिद्धहु इह भरहुभवहु ।
 विजयादेविहि गम्भइ उप्पणणउ धवलु 5
 सो णरवसहवरामरु भुयजुयवलपवलु ।
 सुहिहिं सुदंसणु कोक्किउ कुलसरहंसवरु
 तहि अवसरि माहिंदहु णिवडिउ सइ इयर ।
 अहरबिंवरुइणिज्जियणवरविधिंविधिहि
 सो सुमित्तु सुउ जायउ उयँरइ अंबियहि । 10
 पुरिससीहु हक्कारिउ लहुयउ बंधवहिं
 पहु पमाणु संपत्तउ थणयथण्णधुयहिं ।
 ते वेण्णि वि ससियरहिमकज्जलगरलण्ह
 वेण्णि वि ते सुरगिरिवरसंणिहमाणसिह ।
 वेण्णि वि ते वल केसव वासवविहियभय 15
 ते विण्णि वि नृवंसिरमणिकिरणारुणियपय ।
 ते विण्णि मि संसेविय विज्जाजोइणिहि
 समलंकिय हरिवाहिणिगारुलवाहिणिहिं ।
 ते तेहा^१ आयण्णिवि परसिरिअसहणउ
 महुकीलउ आरुड्डउ राणि जुज्झणमणउ । 20
 पेसियदूए^२ जाइवि बोळिय रायसुय
 कि तुम्हइं ण कयाइ वि एही वत्त सुय ।
 घत्ता—खोणीयलपालहु जो महुकीलहु कप्पु देइ सो जीवइ ॥
 हलहर सुहभायण सु^३णि णारायण अवरु जमाणु पावइ ॥ १० ॥

11

भग्गणरिदो तां गोविदो ।
 माणमहंतो भणइ हसंतो ।

३ A गोउरणाहहु; K गोउर^० but corrects it to खगउर^०. ४ A णरवसहु. ५ A ^०पवलवलु.
 ६ A णिवडिउ सो इयरु. ७ P अवरइ. ८ A थणयथणचुवहिं, P थणयथणधुवहिं. ९ AP वेण्णि
 मि ते. १० AP णिव^०. ११ AP तहा. १२ AP बोळिय जाइवि. १३ AP णिसुणि णारायण.

11 १ A तो.

4 इक्खाउहि इक्खाकुवरो. 7 सुहिहि सुहद्धिः. 8 सइ स्वयम्, इयरु सुमित्रचर.. 9 अहरेत्यादि अधर-
 विम्बकान्त्या निर्जिते तिरस्कुते रविबिम्बे द्वे यया. 12 पमाणु संपत्तउ प्रामाण्य प्राप्त, सर्वोत्कृष्टो बभूवे-
 त्यर्थः; थणयथणधुयहिं स्तनपेषु चालेषु स्तन्यधुतेषु स्पर्शकेषु तरुणेषु च प्रामाण्यं प्राप्तः. 16 ^०किरण-
 रुणियपय ^०किरणैः अरुणितौ पादौ यथो.. 17 विज्जाजोइणिहिं विद्यादेवताभिः. 19 तेहा तादृशौ.
 22 एही वत्त एया वार्ता.

भुवि जो मंदो	मइं सच्छंदो ।	
मंगइ कप्पं	तमहं भप्पं ।	
करमि अदप्पं	किं माहप्पं ।	5
अत्थि पराणं	खग्गकराणं ।	
दोण्णयमुक्कं	मोत्तूणेक्कं ।	
लंगलपाणिं	को पहु दाणिं ।	
मइं जीवतं	वइरिकयंतं ।	
वयणं चंडं	सुइवहकंडं ।	10
तं सोऊणं	चारु अदीणं ।	
विगओ दूओ	हरिसियभूओ ।	
कुंजरगइणो	तेण सवइणो ।	
कहिया वत्ता	कुरु रणजत्ता ।	
ण करइ संधी	लच्छिपुरंधी- ।	15
लोलो रामो	कण्हो भीमो ।	

वत्ता—तस्वखणि संणद्धउ उब्भियधुयधउ रोसें कहिं वि ण माइउ ॥
 हयतूरगहीरं सहुं परिवारं महुंकीडउ उद्धाइउ ॥ ११ ॥

12

रमणीदमणइं	रिउआगमणइं ।	
जूरियसयणइं	णिसुणिवि वयणइं ।	
जोइयभुयवल	णिग्गय हरि वल ।	
इल्लरि वज्जइ	डुंडुहि गज्जइ ।	
संचल्लिय चमु	हुउ महिविब्भमु ।	5
उक्खयखग्गइं	सेण्णइं लग्गइं ।	
भडकडवदणि	मोडियसंदणि ।	
फाडियधयवाडि	तोडियर्गयगुडि ।	

२ A भमह सच्छंदो. ३ A मंगइ. ४ A कवणाजुत्ता. ५ AP महुकीडउ.

12 १ A जोइवि. २ AP ०मदणि. ३ P पाडिय०. ४ P ०हयगुडि.

11 3 a म दो जडः. 4 b भप्पं भत्तम्. 7 a दो ण्ण यमुक्कं दुर्णयसुक्कं बलभद्रम्. 8 b दा णि इदानोम्. 10 b सुइवहकंडं कर्णपथाकृष्ट्याणम्. 12 b हरि सिय भूओ हर्षसंपन्नः, अथवा हर्षितानि भूतानि येन समामजनकत्वात्. 14 b कुरु रण जत्ता रणयात्रां संग्रामप्रयाणं कुरु. 15 b — 16 a लच्छिपुरंधी लो लो लक्ष्मीलभट्टः. 17 ०धुयधउ ०आन्दोलितत्वजः.

12 7 a मडकडवदणि भट्टाना प्रकटचूर्णाकरणे. 8 b ०गयगुडि गुडा गजपाखर. (पृष्ठा-
 स्तणम्).

पहरणसंकडि	विहडावियघडि ।	
सुरवरदारुणि	णवकोवारुणि ।	10
देहवियारणि	खेयरमारणि ।	
चुयजंपाणइ	खलियविवाणइ ।	
कुरयंधारइ	धणुंठंकारइ ।	
धाइयवाणइ	लुयतणुताणइ ।	
रुहिरज्झलझलि	णरवरगोंदलि ।	15
मारियवारणि	तहि पइसिवि रणि ।	

घत्ता—पडिसंतुं वुत्तउं एउं अजुत्तउं जं मइं सहं रणि जुज्झहि ॥

तुहं भिच्च कुलीणउ हउं तुह राणउ एत्तिउं कज्जु ण वुज्झहि ॥ १२ ॥

13

दे देहि कप्पु	मा कालसप्पु ।	
पइं गिलउ अज्जु	अणुहुंजि रज्जु ।	
ता भणिउं तेण	दामोयरेण ।	
को एत्थु सामि	कहु तणिय भूमि ।	
कुलभूसणम्मि	सिरिसासणम्मि ।	5
भणु लिहिय कासु	बलु जासु तासु ।	
इय वज्जरंत	अमरिसंफुरंत ।	
आउहइं लेवि	अब्भिट्ट वे वि ।	
ते वरणरिद	पडिहरिउविंद ।	
कयरोलियाउ	दाढालियाउ ।	10
पिंगच्छियाउ	वीहच्छियाउ ।	
फणिकंकणाउ	लंविथणाउ ।	
उक्केसियाउ	रिउपेसियाउ ।	
वहुरूविणीउ	सुरकामिणीउ ।	
कण्हें हयाउ .	णासिवि गयाउ ।	15

५ AP अलिङ्गंकारइ. ६ A °तणताणइ. ७ A पडिसत्तं.

13 १ P गिलइ. २ A अमरिसु. ३ AP वीहच्छियाउ. ४ A उक्कोसियाउ. .

13 a कुरयंधारइ भूरजसा अन्धकारिते. 14 b तणुताणइ °तनुत्राणे कवचे. 15 b °गोंदलि युदे.
17 पडिसत्तु प्रतिशत्रुणा.

13 6 a लिहिय लिखिता कस्य वर्तते भू, यः सुभटस्तस्य भूर्भवतीति प्रसिद्धमेतत्. 10 a
कयरोलियाउ कृतकोलाहला. 13 a उक्केसियाउ ऊर्ध्वकेशिका.

परणिक्खिणेण	करिउरणिवेण ।
चालिवि गुरुक्कु	उम्मुक्कु चक्कु ।
आरालिफुरिउं	कण्हेण धरिउं ।
दाहिणकरेण	णं गहवरेण ।
कसणेण तंबु	णवभाणुविंबु ।
पुणु भणिउ पिसुणु	महुकील णिसुणु ।

20

यत्ता—रेरे रिउकुंजर दढदीहरकर सीरिहि सरणु पढुक्कहि ॥

एवहिं असिजीहहु महं णरसीहहु कम्मि पंडियउ कहिं चुक्कहि ॥१३॥

14

इय भणिवि सयडंगु अणेण पमेळियउं
दो वि पंचचालीसधणुणयदेहधरं
ते हलहरहरिराणा मंगलभासिणिइ
खयकाले मुसुमूरिउ पुरिससीह गहिरि
भाइपेउं सक्कारिवि सीहसेणतणउ
छट्टुमउववासहिं दसमदुवालसहिं
रुक्खमूलवहि सयणाहिं रवियरतावणाहिं
भुवणत्तयसिहरग्गहु मोक्खहु णिकलहु
मुणिगणिंदु आहासइ गोत्तमु विप्पसुउ

उरयलु वइरिहि विउल्लु वियरिवि घल्लियउं ।
सुहुं दहलक्खइं वरिसहं थिय भुंजंत धर ।
वीर वे वि आलिंगिय विजयविलासिणिइ ।
रउरवि रंणरवि णिवडिउ सत्तममहिविवरि ।
धम्महु सरणु पइट्टुउ रामु सुदंसणउ । ७
परवसलद्धादारहिं विलवणणीरसहिं ।
कम्मकंदु णिल्लूरिवि मुणिगुणभावणाहिं ।
णिक्कसायणीरायहु गउ सो णिकलहु ।
फणिकिणरविज्जाहरगणगंधवंधुउ ।

यत्ता—मागहणिव मण्णाहि पुणु आयण्णाहि चरिउं चक्कणेरारहं ॥ 10

संगामसमन्धहं तइयचउत्थहं मघवसंणाइकुमारहं ॥ १४ ॥

15

पडिवइरिइ हइ णिवडिइ तमतमधरणियलि

गिद्धखद्धमणुअंतइ वित्तइ भडतुमुलि ।

५ AP परिनुक्कु. ६ P वरसीहहु. ७ A कम्मपडियउ.

14 १ A देहवर. २ A उरुदह°. ३ A हरिणाति. ४ A रणयविणिवडिउ. ५ A भाइ-
देहु. ६ A गिक्काउ णीराउ तुदंसणु गिक्कलहु. ७ A गणिसुणिंदु. ८ AP विज्जाहरवर°. ९ P गंवधुउ.
१० P मववात्तणउत्तुमारहं.

16 b करिउरणिवेण हास्तिननृपेण. 19 b गहवरेण राहुणा. 23 कम्मि पडियउ आक्रान्त.

14 ७ a भाइपेउ भ्रातृनृतकधरोग्गु; सीहसेणतणउ सिहसेणपुत्रो वलभद्रः. 6 b विल-
वणं निचेवाः खगरहितैः. 7 b कम्मकंदु कम्मसमूहः, णिल्लूरिवि छेदवित्ता. 8 a णिकलहु कला-
रत्तं यतोरत्तं मोक्षम्; b गिक्कलहु कलहरहितः. 10 चक्कणेरारहं चक्रत्वामिनो..

15 1 पडिवइरिइ प्रतिक्रमे.

- दामोयरि गइ णरयहु भीमरहंगकरि
मारवियारणिवारइ णिवुइ सीरंधरि ।
दीहकाल वोलीणइ णरणियराउहरि 5
धम्मणाहतिथंतरि बुहयणसंतियरि ।
सुणि जे जाया भारहि भासुरचक्कवइ
वेणिण सयलइलपालय जिणकमणिहियमइ ।
एत्थु खेत्ति महिमंडलि णयरि विचित्तघरि
मोरकीरकुरराउलि सीमारामसरि । 10
तित्थि वासुपुज्जेसहु दुद्धर वय धरिवि
णरवइ णामे राणउ दुक्करु तउ करिवि ।
हुउ मज्झिमगेवज्जहि अहममराहिवइ
जिणधम्मं पाविज्जइ सासयसोक्खगइ ।
कवणु गहणु देवत्तणु परियत्तणसहिउं 15
एउं वप्प मइ जाणिउं लोएहिं वि कहिउं ।
सत्तवीससायरखइ जायउं मरणु सुरि
सउहावलिसिहरुभडि सिरिसाकेयपुरि ।
इह सुमित्तणरणाहहु सुहिसंमाणियहि
हंसवंसकलसइहि भदाराणियहि । 20
मघउ णाम ह्यउ सुउ सुयणाणंदयरु
असियरपसमियरिउतमु भमिउ णिवदिवसयरु ।
घत्ता—जिउ मागहुं वरतणु सुरखेयरगणु णट्टंमालितुहिणामरु ॥
वसिकिय मंदाइणि साहिवि मेइणि पुणरवि आयउ णिययवरु ॥१५॥

16

दोचालीससद्धधणुतुंगं
अंगं तस्स सुलक्खणवतं
पंचलक्खवरिसह बद्धाउ
दिव्वकामभोएं भोत्तूणं

कणयच्छवि णं मंदिरसिंगं ।
कामिणिमणसंखोहणवतं ।
णिच्चं सिद्धसमीहियधाउ ।
चक्कवट्टिरिद्धि^३ मोत्तूणं ।

15 १ AP सीरहरि. २ A दीहकाल; P दीहकालि. ३ P °णिरयाउ°. ४ A धम्मदेवतित्थ-
करि; P धम्मदेवतित्थतरि. ५ AP °इलवालय°. ६ A विचित्तयरि. ७ P णामे. ८ P भमिउ जि
दिवसयरु. ९ A मागहवर°. १० P °मालिरु तुहिणामरु. ११ AP वसिकय.

16 १ A मदरसिंगं; P मदरे सिंगं. २ A रिद्धी मोत्तूणं.

3 °रहंगकरि °चक्रकरे. 5 णरणियराउहरि नरनिकरस्यायुःक्षयकरे. 8 °इलपालय भूपालकौ.
20 °वंस° वेणुः. 22 असियर° खड्गकिरणैः. 23 तुहिणामरु हिमवंतकुमार.

16 3 ७ °समीहियधाउ नवनिधानरूप्यसुवर्णादिधातुः.

प्रियमित्तहु पुत्तहु दाऊणं
मणहरउज्जाणं गंतूणं
गहिउं दिक्खं सहिउं दुक्खं
मघवंतो पयणयमघवंतो

सव्वं जिणतच्चं णाऊणं । 5
अमयघोसदेवं थोत्तूणं ।
जिणिउं तण्हं णिहं भुक्खं ।
रयपरिचत्तो मोक्खं पत्तो ।

यत्ता—जहि कामु ण कामिणि दिणु णउ जामिणि ताराणाहु ण णेसरु ॥
जहिं वसइ ण सज्जणु भसइ ण दुज्जणु तहिं थिउ मघवमहेसरु ॥१६॥

17

काले जंते अवरु जिह
चिंधवीरच्चुंविद्यस्सयलि
सूरवंसणहदिणयरउ
पहु अणंतवीरिउ वसइ
हरि करि विसवइ कुमुयपिउ
अच्चुयकप्पहु ओर्यरिउ
किणरवीणारवञ्जुणिउ
विरइयणामकरणविहिहिं
तेण समुदणियंसणिय
घणणंदणवणकौतलियं
वहुणरिंदकोडुवाणिय
लक्खंड वि महि जित्त किह
पुव्वभाणियघणुतुंगयरु

नैवु उप्पण्णउ कहमि तिह ।
इह विणीयपुरि छहधवलि ।
धीरउ पयपालणणिरउ ।
तहु महएवी धरिणि सइ ।
जोइवि सिविणय णलिणहिउ । 5
सुरसिसु उयरि ताइ धरिउ ।
पुणु णवमासहिं संजाणिउ ।
सणकुमारु कोक्किउ सुहिहिं ।
चउदहरयणविहूसणिय ।
गंगाजलवेलंचलियं । 10
गरुयगिरिंदसिहरथणियं ।
णिहिघडधारिणि दासि जिह ।
तिणिण लक्ख वरिसाउधरु ।

यत्ता—यत्तीससहासहिं मउडविहूसहिं णरणाहहिं पणविज्जइ ॥

जो सयलमहीसरु णरपरमेसरु तासु काइं वणिणज्जइ ॥ १७ ॥ 15

18

रंभापारंभियतंडवइ
अत्थाणि परिट्टिउ सक्कु जहिं

तावेक्कहिं दिणि मणिमंडवइ ।
आलाव जाय सुरवरहिं तहिं ।

३ AP पियमित्तहु.

17 १ A णिव; P णिउ. २ A मद्देवी. ३ P णलिणिहिउ. ४ A अववरिउ. ५ P सुर
सिसु. ६ AP कौतलिया. ७ AP चलिया. ८ A कौडावणिया; P कोडुवाणिया. ९ AP थणिया.

8 a पयणयमघवंतो पादयोर्नतः इन्द्रो यस्य; b रयपरिचत्तो कर्मरजोविमुक्त..

17 2 a चिंधवीरं च्चत्रः. 9 a णियंसणियं वतना. 13 a पुव्वभाणियघणुं सार्ध-
द्विचत्वारिंशदक्षुपि.

18 1 a रंभापारंभियतंडवइ स्वर्गवेश्यया प्रारब्धे नृत्ये.

भो अत्थि णत्थि किं सुहयरहु
तं णिसुणिवि भणइ सुराहिवइ
सुरणरकामिणियणणालिणरवि
माणुसु णवत्थि रूउज्जलउं
ता झ त्ति समागय तियस तहिं
अवलोइवि णरवइ सुरवरहिं
रूवें तेल्लोक्करूवविजइ
जिणणाहु वि जहिं संसइ चडइ

णरलोइ रूउ कासु वि णरहु ।
जो संपइ वट्टइ चक्कवइ ।
सो सणकुमारु किं दिट्ठु णवि । 5
जेणेहउं भासिउं मोक्कलउं ।
अच्छइ वसुहेसरु भवणि जहिं ।
अहिणंदिउ विहुणियसिरकरहिं ।
एहउ सुरिंदु दुक्करु हवइ ।
तहि अवरु रूउ किर कहिं घडइ । 10

घत्ता—पयडेवि सरूवइं सोम्मसहावइं विहसिवि देवहिं भासिउं ॥

जइ मरणु णं होंतउ तो पज्जत्तउ एउ जि रूउ सुहासिउं ॥ १८ ॥

19

ता जरमरणसंइ आयणिवि मणिवि तणु व महियलं ।
देवकुमारणामे सुइ अप्पिवि सतुरंगं समयगलं ॥ १ ॥
णिच्चतिगुत्तिगुत्तसिवगुत्तमहामुणिपायपंकयं ।
तेणासंधिऊण पक्खालिय बहुभवपावपंकयं ॥ २ ॥
गहियं वीरपुरिसचरियं चित्तं तडिदंडचंचलं । 5
रुद्धं चंडकुसुमसरकंडांडंबरडमरविंभलं ॥ ३ ॥
ससिडिडीरपिंडपंडुरर्यरहिमपडछइयदेहयं ।
वासियं बाहिरम्मि परिसेसियधरपंगुरणणेहयं ॥ ४ ॥
चलतडयडियपाडियसोयामणिताडणविहडियायलं ।
सहियं पावसम्मि वणतरुतलि विसरिसजलझलज्जलं ॥ ५ ॥ 10
महिहरविंयडकडयविउलविउलयलसिलायलणिहियकाइणं ।
सूरस्सहिम्मुहेण सूरेण वरेण विमुक्कराइणं ॥ ६ ॥

18 १ P णेवि. २ A णयत्थि. ३ A वडइ. ४ AP सोम°. ५ A ण हुंतउ ता, P ण हु तउ तो.

19 १ AP °मरणघोसु. २ AP अप्पवि. ३ A °कडडवर°. ४ A °पंडुरपरहिम°. ५ P °ताडण-विणणविहडिया°. ६ AP °वियल°. ७ A सूरशिहिमुहेण, P सूरराहिमुहेण.

3 a सुहयरहु शुभकरस्य. 6 a णवत्थि अस्ति न वा, b मोक्कलउ यदच्छया. 10 जि णेत्या दि जिननाथोऽपि रूपेण ईदृशो भवति न वेति सशये पतति. 12 मरणु ण होंतउ मरण चेन्नाभविष्यत्; सुहासिउ सुखाश्रित श्लाघितम्.

19 2 सुइ सुते पुत्रे. 4 °पावपकय पापकर्दम°. 6 °कडाडंबरडमरविंभल °काण्डानां समूहानामाडम्बरमाटोपस्तेन डमर भय तेन विहल चपलम्. 7 ससिडिडीर° चन्द्रवत् फेनः; °पंडुरयर° अतिश्वेतवर्णम्. 10 पावसम्मि प्रावृट्काले. 11 °काइणं °देहेन.

सोढुं गिंभयालरविकिरणकलावखरवियंभियं ।
 दुदमकोहमोहदढलोहमयं णियलं णिसुंभियं ॥ ७ ॥
 सहसा दिट्ठसयलसयरायरकेवलविमललयणो ।
 देउ सणक्कुमारु जइ सुहमइ जायउ सो णिरंजणो ॥ ८ ॥

15

घत्ता—मइलिउ मोक्खत्ते कइधिट्ठत्ते काइं कइत्तणु पोसइ ॥
 भरहाइणरिंदहं चरिउं अणिंदहं पुष्पयंतु जइ घोसइ ॥ १९ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणय
 महाकइपुष्पयंतविरइय महाकव्वे धम्मपरमेट्ठिसुदंसणपुरिससीह-
 महुकीलयमघवसणक्कुमारकहंतरं णाम एक्कुणसाट्ठिमो
 परिच्छेओ समत्तो ॥ ५९ ॥

८ A °खर वियमिय. ९ AP जाओ. १० AP मुक्खत्ते.

17 मोक्खत्ते मूलत्वेन; कइत्तणु कवित्वम्. 18 पुष्पयंतु जइ पुण्यसमानदन्तो यतिः सर्वज्ञः.

सोढुं गिंभयालरविकिरणकलावखरवियंभियं ।
 दुइमकोहमोहदडलोहमयं णियलं णिसुंभियं ॥ ७ ॥
 सहसा दिट्ठसयलसयरायरकेवलविमललयणो ।
 देउ सणक्कुमारु जइ सुहमइ जायउ सो णिरंजणो ॥ ८ ॥

15

घत्ता—मइलिउ मोक्खत्ते कइधिट्ठत्ते काइं कइत्तणु पोसइ ॥
 भरहाइणरिंदहं चरिउं आणिंदहं पुष्पयंतु जइ घोसइ ॥ १९ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए
 महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे धम्मपरमेट्ठिसुदंसणपुरिससीह-
 महुकीलयमघवसणक्कुमारकहंतरं णाम एक्कुणसाट्ठिमो
 परिच्छेओ समत्तो ॥ ५९ ॥

८ A °म्वर वियंभियं. ९ AP जाओ. १० AP सुक्खत्ते.

17 मो क्वत्ते मूलत्वेन; क इत्तणु कवित्वम्. 18 पुष्पयंतु ज इ पुष्पसमानदन्तो यति. सर्वज्ञः.

दुक्कियपसरणिवारओ
मोहमहारिउमारओ

जो दीणेषु किवारओ ॥
जो सासयासिवमारओ ॥ ध्रुवकं ॥

1

पंचमचक्रहरो णरईसो
सोलहमो परमेट्टि पसण्णो
तत्तसमुज्जलकंचणवण्णो
केवलणाणमहामयमेहो
भूसणभारविवज्जियकण्णो
जो छणयंदकरावलिकंतो
भत्तजणत्तिहरो भयवंतो
फुल्लियकोमलपंकयवत्तो
संतियरो भुवणुत्तमसत्तो

घत्ता—सो भवसायरतारओ
णियसुकइत्तु पयासमि

जेण णिओ समणं ण रईसो ।
सुत्तणिसेहियपेसिपसण्णो ।
णायणिउत्तचउव्विहवण्णो । 5
भव्वसमूहणिरूवियमेहो ।
पंगणणच्चियखेयरकण्णो ।
संतसहावो उज्झियकंतो ।
जो गिरिधीरो णो भयवंतो ।
धत्थकुत्तित्थ सुत्तित्थपवत्तो । 10
बुद्धयो परिरक्खियसत्तो ।

पणविवि संतिमडारओ ॥
तासु जि चरिउं समासमि ॥ १ ॥

2

जंबूदीवि भरहि विजयाचलु
जहिं सुरणारिहिं गेयपवीणहिं
जहिं रिसिवसइ अछित्तु अहंसं
जहिं जं भूसिजइ सरककं

अहिणवचंदणचंपयपरिमलु ।
सरुं सुम्मइ वज्जंतहि वीणहि ।
जसु मेहल सेविजइ हंसं ।
णिम्मलु तं वाणिज्जइ कं कं ।

1 १ A छणइद°.

2 १ A सुर. २ A सरु ककं.

1 1 b किवारओ कृपारत.. 2 a °मारओ °हिंसक, b मारओ °लधमीरत. 3 a णर-
ईसो राजा, न तु कुम्भकारः चक्रपाणित्वात्, b समणं स्वचित्त प्रति, रईसो कामः. 4 b सुत्तणिसेहिय-
पेसिपसण्णो सूत्रे निषिद्धा पेशी मासं प्रसन्ना मद्य च येन. 5 b णायणिउत्तचउव्विहवण्णो न्याये
स्थापिताश्चत्वारो वर्णा येन. 6 a महामयमेहो महाजलमेघः, b °णिरूवियमेहो निरूपिता मेघा बुद्धि-
येन. 7 b °खेयरकण्णो °खेचरकन्यः. 8 b णो भयवंतो न भययुक्त.. 9 b धत्थकुत्तित्थ ध्वस्तानि
कुतीर्थानि यस्य.

2 a गेयपवीणहिं गीतचतुराभिः, b सरु शब्दः. 3 a रिसिवसइ चैत्यालय, अथवा
ऋषिरिवाखण्डितत्रता सती, अछित्तु अस्पृष्ट. पापागेन. 4 a सरककं जलवकेन, b कं जलम्, के केन.

जहिं केवलि णिव्वाणपयं गउ
फलिहसिलायलि जहिं मायंगहिं
दाहिणसेढिहि तहि रहणेउरु
तेत्थु जलणजडि णिवसइ खगवइ
णियजसेण कंतहु चंदाहहु
तासु सुहइदेवि पियराणी

यत्ता—ताहं विहिं मि सुय इई
वाउवेय सा एयहु

जहिं मणियैरहिं ण दिट्ठु पयंगउ । 5
मुहुं दिज्जइ जोइयणिययंगहिं ।
पुरु णारियणराणियपयणेउरु ।
विण्णभोणयसिरु णारइ खगवइ ।
तिलयणयरणाहहु चंदाहहु ।
णं आसीस पुव्वपियराणी । 10

णं रइणाहहु दूई ॥
दिण्णी दिणयरतेयहु ॥ २ ॥

3

सिहिजडिणामहु जयसिरिधामहु
अक्ककित्ति सुउ जायउ केहउ
अवर वि चंदसरीरइ णं पह
देसिं सुरम्मइ पंकयणेत्तहु
विजयाणुयहु महाहवपवलहु
मुसुमूरियकंठीरवकंठहु
जणिउ ताइ सिंसु सिरिविजयंकउ
उत्तरसेढिहि वसियंतेउरि

यत्ता—परिहावलयसुदुग्गामि
पंचवण्णधयसोहणि

रुउदामहु णिज्जियकामहु ।
खत्तधम्मु णरवेसें जेहउ ।
उप्पण्णी सुय णाम सयंपह ।
पोयणणयरि पयावइपुत्तहु ।
कोडिसिलासंचालणधवलहु । 5
दिण्णी पढमहु हरिहि तिविट्ठहु ।
विजयभहु कंतीइ ससंकउ ।
पुरि सुरिंदकंतारि सुगोउरि ।

रयणदीवणासियतमि ॥
देवदेविमणमोहणि ॥ ३ ॥

10

4

खयरु मेहवाहणु पीणत्थाणि
जुइमाला णामे सुय वल्लह

णाम मेहमालिणि तहु पणइणि ।
ढोइय रविकित्तिहि परदुल्लह ।

३ A मणिययरहिं, ४ AP महु, ५ A णारोयण°, ६ A विणउण्णय°.

3 १ A सिहजडि°, २ A रुवोदामहु, ३ A देससुरम्मइ.

5 a णिव्वाणपयं गउ निर्वाणपदं प्राप्तं, b पयंगउ सूर्यः. 6 b °णिययंगहिं °निजाङ्गप्रतिविम्बैः,
प्रतिगजगङ्गा इत्यर्थः. 9 a चंदाहहु चन्द्रामनाम्नः. 10 b आसीसपुव्वपियराणी पूर्वपितृणामाशी-
रिव. 12 एयहु ज्वलनजटिनः.

3 3 a पह प्रमा. 5 a विजयाणुयहु विजयवलभद्रानुजस्य त्रिपृष्ठस्य, b °धवलहु वृषमस्य
धुग्धस्य. 6 b हरिहि कृष्णस्य. 7 a सिरिविजयंकउ श्रीविजयनामा. 8 a वसियंतेउरि वसितान्तः-
पुरे, b सुरिंदकंतारि सुरेन्द्रकान्तारनगरे.

4 2 a जुइमाला ज्योतिर्माला.

परिणिय पुंसु तेण तहि जायउ
धीय सुतार तारवरलोयण
ताएं पोढत्तणि कयपणयहु
अमियतेउ भल्लारउ भाविउ
भुत्तउं तेण णिवद्धं णियाणउं
सिरि सिरिविजयहु देवि हियत्ते
विजयं तउं लइयउं आयणिवि
अमियतेउ णियरज्जि थवेप्पिणु
अक्ककित्ति जइवइ गउ मोक्खहु
विजयभहु सिरिविजयहु वच्छलु
पाहुडगमणागमणपवाहें

घत्ता—जा तावेक्कु सुसोत्तिउ
सत्तमि दिणि जं होसइ

अमियतेउ णामें विक्खायउ ।
सुंदरि मुणिहिं वि कामुक्कोयण ।
दिण्णी सिरिविजयहु ससतणयहु । 5
जुइवह सुय कण्हें परिणाविउ ।
पत्तउ कालें अवहियठाणउ ।
कामभोयपरिभारविरत्ते ।
वित्तु कलत्तु वि तिणैसमु मणिणिवि ।
भत्तिइ तउ तिक्खयरु तवेप्पिणु । 10
मुक्कउ भवसंसरणहु दुक्खहु ।
जिह तिह अमियतेउ णिरु णेहलु ।
जाइ कालु बंधुहुं उच्छाहें ।

तहिं आयउ णिमित्तिउं ॥
तं सिरिविजयहु घोसइ ॥ ४ ॥ 15

5

अरिपुरवरणिवसावयवाहहु
तडयडंति सिरि^१ दत्ति भयंकरि
विजयभहु पभणइ रे बंभण
जइ रायहु सिरि विज्जु पडेसइ
तं आयणिवि तणुविच्छायहु
पत्थिव महु मत्थइ मलमुक्कइं
मरणवयणवाएं विहाणउ
को तुहुं कासु पासि केहिं सिक्खिउ
अक्खइ सुत्तकंठु पुहईसहु

तडि णिवडेसइ पोयणणाहहु ।
सहसा दहविहप्राणखयंकरि ।
णिइय सज्जणहिययणिसुंभण ।
तो तुहुं सिरि भणु किं णिवडेसइ ।
दियवरु आहासइ जुवरायहु । 5
णिवडिहिति णाणामाणिक्कइं ।
तहि अवसरि सइं पुच्छइ राणउ ।
केमं भविस्सु वप्प पइं लक्खिउ ।
हउं पव्वइयउ समउं हलीसहु ।

4 १ AP तेण पुत्तु. २ AP णिवद्ध. ३ A अवहियट्टाणउ; P अवहिट्टाणउ. ४ P वउ.
५ AP तिणसउ. ६ AP णेमित्तिउ.

5 १ A सिरि दुत्ति; P सिरि दत्ति. २ AP °पाण°. ३ AP °वायइ. ४ AP किर. ५ P
केम इहु भविस्सु.

4 b कामुक्कोयण कामोत्पादिका. 5 a ताए पित्रा, b सिरिविजयहु त्रिष्टुष्टपुत्रस्य, ससतणयहु भगिनी-
स्वयंप्रभापुत्रस्य. 6 b जुइवह ज्योतिःप्रभा. 7 b अवहियठाणउं सप्तमनरकः.

5 1 a अरीत्यादि शत्रुनगरनृपश्चापदव्याधस्य, b णिवडेसइ पतिष्यति. 2 a दत्ति शीघ्रम्.
6 a मलमुक्कइ निर्मलानि. 7 a °वाएं विहाणउ °वातेन शुष्कः. 9 a सुत्तकंठु ब्राह्मणः; b पव्वइ-
यउ पूर्वं दीक्षित. पश्चान्नगः.

गउ विहरंतु देसि पुरु कुंडलु
दूसहविसयपरीसहभग्गउ
घत्ता—अंतरिक्खसुणिमित्तइं
भउमु वि खेत्तपमाणउं

णं महिणारिहि परिहिउ कुंडलु । 10
काइं मि जीवियवित्तिहि लग्गउ ।
सिक्खिउ गहणक्खत्तइं ॥
अंगउं अंगणिवाणउं ॥ ५ ॥

6

सरु गंभीरु इयर उवलक्खिउ
लक्खणाइं कमलाइं पसत्थइं
वक्खाणामि जं जिह सिविणंतरु
तं हउं सिक्खिवि अट्टपयारउं
केसरिरहहु पुरोहिउ सुरगुरु
वंदिवि आयउ पोमिणिखेडहु
सोमसम्मु णियजणणीभायरु
मेलविउ हउं तेण सुदुहियहि
ससुरयदिण्णु दब्बु भुंजंतहं
हउं पर केवलु पढमि णिमित्तइं
मामसमप्पिउ कंचणु णिट्ठिउ
महुं कडियलि लग्गउं कोवीणउं
घत्ता—घरिणिइ पसारियदुक्खइ
भुंजाहि भणिवि विसालइ

विंजणु पुणु तिलयाइउं सिक्खिउ ।
जाणामि मूसयच्छिण्णंइं वत्थइं ।
पावइ जेण सुहासुहु णरवरु ।
इय एहउ णिमित्तु सवियारउं ।
तासु वि सीसु विसारउ महुं गुरु । 5
फलिहालंकियकुलिसकवाडहु ।
मइं दिट्ठु तहिं कयपरमायरु ।
लोमंजणियहि ससंहरमुहियहि ।
दोहं मि गलिउ कालु कीलंतहं ।
किं पि वि णिव ण समज्जामि वित्तइं । 10
घरि दालिहु रउहु परिट्ठिउ ।
तो वि ण भासामि कासु विदीणउं ।
महुं उज्झंतहु भुक्खइ ॥
घित्त वराडय थालइ ॥ ६ ॥

7

तुहुं महुं दइवें दिण्णउं वंभणु
उज्जउ करहि ण भरहि कुहुंवउं

एत्तिउं तेरउं अच्छइ कुलहणु ।
लोयणजुयलु करिवि आयंवउं ।

६ AP विरहपरोसह°.

6 १ A छिन्नइं P छित्तइं. २ P सुदुहियहि. ३ A लोमंजणियहि. ४ AP ससय° ५ A सुसुय°.

7 १ AP उज्जु.

13 a भउमु भूमौ भवम्; b अगउं अङ्गलक्षणं सामुद्रिकम्; अंगणिवाणउं अङ्गे शरीरे निर्माण-
नुत्तित्तिर्यम्.

6 1 a इयर तुच्छः २ b मूसयच्छिण्णइ मूपकच्छिन्नानि. 4 a अट्टपयारउं अष्टाङ्गम्;
b सवियारउं विचारयुक्तम्. 5 a केसरिरहहु सिंहरयत्य, b विसारउ विचारद°. 9 a ससुरय-
दिण्णउं श्रयुगेण दत्तम्. 12 a कोवीणउं कौपीन कटिवत्तम्. 14 वराडय कपर्दिका.

7 1 b एत्तिउं कपर्दिकामात्रम्. 2 a उज्जउ उद्यमम्, b आयंवउं आताम्रम्.

एम जाम घरणीइ पवोल्लिउ
अइणियडउं जि जलणु पज्जालिउ
तक्खणि सिहिफुलिंगु उच्छलियउ
हउं थिउ तं जोयंतु सइत्तउ
उत्तरु महं ण देसि जंपंतिहि
जं इंगालउ पडिउ वरालइ
जं पइ पाणिण अहिसिचिउ
सां जंपइ पइ बुद्धिहि भुल्लउ

घत्ता—उज्झउ णिद्धणजंपिउं
परु जणवउ किं बुच्चइ

ता महं हियवउ णं झसंसल्लिउ ।
इंधइ इंधणु केण वि चालिउ ।
आविचि जल्यरि गरुयइ धिवियउं । 5
ता कंतइ सिरि सल्लिं सित्तउ ।
मइं दर विहासिवि भासिउं पत्तिहि ।
तं तडि पडिही पोयणपालइ ।
तं जाणंहि हउं रयणहिं अंचिउ ।
चप्फल्लु अंखइ चंदगाहिल्लउ । 10

महुरु वि कण्णहं विप्पिउं ॥
कुलघरणिहिं वि ण रुच्चइ ॥ ७ ॥

8

इय धितंतु घरहु णीसरियउ
णाम अमोहजीहु ओहच्छमि
जइ चुक्कइ नृव केवलिदिट्टउं
सउणु भडारा सच्चउं सुच्चइ
तं तहु भणिउ चित्ति संमाइउ
भणइ सुवुद्धि कुलिसमंजूसहि
वसहि णराहिव मज्झि समुद्धु
चवइ सुमइ पइसहि परदुच्चरि
मइसायरु भासइ ण तसिज्जइ
जं लिहियउं तं अग्गइ थक्कइ

घत्ता—सुरमहिहरथिरचित्तं
धरियणराहिवमुद्धं

हउं तुम्हारइ पुरि अवयरियउ ।
पट्टणणाहहु पलउ णियच्छमि ।
तो जाणहि चुक्कइ मइं सिट्टुं ।
कैरु पडियारु जेम तुहुं रुच्चइ । 5
रापं मंतिहि वयणु पलोइउ ।
आयससंखलवलयविहूसहि ।
जेणुंवरसि सदेहविमइहु ।
रुप्पयगिरिवरगुहविवरंतरि ।
णरवइ जिणवरिंदु सुमरिज्जइ ।
जमकरणहु मरणहु को चुक्कइ । 10

कयपहुरक्खपयत्तं ॥
भासिउं बुद्धिसमुद्धं ॥ ८ ॥

२ P झसंसल्लिउ. २ AP पज्जालिउ. ४ AP गरुयइ जलयरि. ५ AP जं जोयंतु ६ A omits this foot. ७ P वराडइ. ८ P तडि पडिहीसी. ९ AP जाणमि. १० A सइ जपइ; P स वि जंपइ. ११ P चप्पल्ल. १२ AP रुच्चइ.

8 १ AP जा अच्छमि. २ AP णिव. ३ AP करि. ४ AP जेणुंवरहि.

4 b इंधइ चुल्लके. 5 b जलयरि कपर्दके वराटके. 6 a सइत्तउ सावधान. 8 a वरालइ कपर्दके. 10 पइ पतिः.

8 2 a अमोहजीहु अमोघजिह्वः, ओहच्छमि एप तिष्ठामि, b पलउ प्रलयं क्षयम्. 4-a सउणु निमित्तम्. 7 b सदेहविमइहु स्वदेहनाशात्. 9 a तसिज्जइ त्रस्यते. 11 a सुरमहि वरथिरचित्तं मेरुवत् स्थिरचित्तं मन्त्रिणा, b कयपहुरक्खपयत्तं कृतप्रभुरक्षाप्रयत्नेन. 12 a बुद्धिसमुद्धं मत्तिसागरेण.

विवरि णिहिंत्तउ वित्तु पहाणउ
 गेहि जयंतीपंतिहिं वेविइ
 अच्छइ तीहिं वि संझहिं ण्हायउ
 समयंतरपवियारणि जाए
 दुप्परिणामे मुउ कर्यमायउ
 णासावंसउ विधिवि साहिउ
 काले जंते जायउ दुव्वलु
 गल्लियसत्ति सो णिवडिवि थक्कउ
 को वि ण तिणुं णउ पाणिउं दावइ
 जइयहुं हउं वलवंतउ हौतउ
 तइयहुं सयल देति महुं भोयणु
 कसंमसत्ति दंतेहिं दलेवउं

यत्ता—इय भरंतु माहिंदउ
 मरिवि भरेण सतामसु

सुणि महिवइ दिट्ठंतकहाणउ ।
 सीहउरइ सिरिरामासेविइ ।
 खलु दप्पिट्ठु सोमुं परिवाइउ ।
 सो जिणदासें जित्तु विवाए ।
 तहिं जि महिसु सविसाणउ जायउ । 5
 लोएं लोणु भरेप्पिणु वाहिउ ।
 एम जीउ भुंजइ दुक्कियफलु ।
 णायरणरणिउसंवे मुक्कउ ।
 रूसिवि सेरिहु णियमणि भावइ ।
 जइयहुं वलइउ भारु वहतउ । 10
 अज्ज ण केण वि किउ अवलोयणु ।
 पुरयणु मइं कइयहुं वि गिलिन्वउं ।

दुग्गइवेल्लीकंदउ ॥
 हुउ तहिं पिउवणि रक्खसु ॥ ९ ॥

तेत्थु जि पुरि अण्णायविहूसिउ
 तेण सयलु काणणमृगुं खद्धउ
 चित्तइ सूयारउ णिह णिक्किउ
 वणयरु णत्थि केत्थु पावमि पलु
 आणिउं घल्लियडिंभयजंगलु
 पइवि महाणससत्थणिओएं

कुंभु णाम राणउ मंसासिउ ।
 हरिणु ससउ सारंगु ण लद्धउ ।
 विणु मासेण ण भुंजइ धुवुं नृवु ।
 आहिउवि मसाणधरणीयलु ।
 जीहालोलहं पेउ जि मंगलु । 5
 ढोइउ पडुहि रसायणपाएं ।

9 १ A गिहिंत्तु. २ AP सोमु परिवायउ. ३ A हयमाणउ; K also records. हय-
 माणउ इति पाठान्तरे. ४ AP जायउ सुविसाणउ. ५ AP णासावंसें. ६ P विधवि. ७ A तणु. ८ P
 रुसद. ९ A कसमसंतदंतेहिं.

10 १ P ०मिगु. २ P धुउ णिउ.

9 2 a जयंतीपंतिहिं वेविइ अजापक्तिमिः कम्पिते. 3 b सोमु परिवाइउ सोमनामा परि-
 माज्जकः. 5 a कर्यमायउ कृतमाय.. 6 a साहिउ वदीकृत.. 9 b सेरिहु महिपः. 10 b वलइउ
 गोप्या वेष्टित., उमयपाश्चलन्धितगोणि. 13 a भरंतु स्मरन्, माहिंदउ महिपः. 14 b पिउवणि
 स्मदाने.

10 1 a अण्णाय विहूसिउ अन्यायविभूषित, b मंसासिउ मांसभक्षकः. 3 a सूयारउ
 सूतकार. 5 a घल्लियडिंभयजंगलु निक्षिप्तपतितद्विग्भमांसम्. 6 a पइवि पक्त्वा; महाणससत्थं
 मदानलशास्त्रम्, b रसायणपाएं रसायनपात्रकेन, सूदेन.

तूसिवि तहुं मुहकमलु गिरिक्खिउ
माणुसमासहु राउ पइद्धउ
साहियरक्खसविज्जाणियरउ
तहिं अवसरि पुव्विल्लउ णिसियरु
कुलिसकठिणणक्खेहिं वियारइ
वाहिवि वाहिवि पुणु अवहेरिउ
अप्पसयत्थियाइं तमवंतइं

घत्ता—पंडुरमंदिरपयडइ
सयलु लोउ थिउ पइसिवि

चारु चारु पभणंतं भक्खिउ ।
अवरहि दिणि सूर्योरु जि खद्धउ ।
णरवरिंदु ह्यउ रयणियरउ ।
तहु सरीरि संठिउ भीसणयरु । 10
णासंतइं जंतइं पच्चारइ ।
चंगउं हउं चिरु भुक्खइ मारिउ ।
एमहिं कहिं महुं जाहु जियंतइं ।

ता पट्टणि कारयडइ ॥
तहु रयणियरहु णासिवि ॥ १० ॥ 15

11

ता सीहउरु पमेल्लिवि णिग्गउ
धेडहड त्ति णरलोहिउ घोट्टइ
चरयरंत तणुचम्मइं फाडइ
रायणिसाडचरणजुयलग्गइ
चरुयसयडु मणुएं संजुत्तउ
जइयहुं तं आयउ ण णिरिक्खहि
कुंभकारकहु पुरवरु घुट्टउं
तहिं जि चंडकोसिउ दियसारउ
पउरणिवद्धउ णिरु दुव्वारउ
विप्पेण वि अणउवरि णिवेसिउ
भूयाहिं चालिउ पासि णिसीहहु

घत्ता—दंडपाणि अवराइउ
दंडरेहिं महिरंधइ

णिवरक्खसु जणपच्छइ लग्गउ ।
कडयड त्ति हड्डइं दलवट्टइ ।
णाइं णिवद्धेणाइं अच्छोडइ ।
ता वुत्तउ पयाइ भयभग्गइ ।
दियहि दियहि लइ तुज्जु णिउत्तउ । 5
तइयहुं तुहुं पुणु सव्वइं भक्खहि ।
णिच्चेमेव दिज्जइ उवइट्टउं ।
सोमसिरीमणणयणपियारउ ।
अण्णाहिं दिणि तहु आयहु वारउ ।
पुत्तु मंडकोसिउ लहु पेसिउ । 10
ललललंतमुहणिग्गयजीहहु ।

रक्खसु संमुहुं धाइउ ॥
वहुंवउ घित्तु तमंधइ ॥ ११ ॥

३ AP रूसिवि. ४ AP सूर्यारु वि.

11 इ AP घडयडत्ति. २ AP कडयडत्ति. ३ AP चरयरत्ति. ४ AP णिवद्धेणाइं. ५ AP आयउ तं. ६ P चंडकासिउ. ७ AT अणु उवरि. ८ P दंडुरेहिं. ९ AP वडुयउ.

9 b रय णि यरउ रजनीचरो राक्षसः. 13 a अप्पसयत्थियाइ स्वायिन.. 14 b कारयडइ कार-
कटे नगरे.

11 2 b हड्डइ अस्थीनि. 3 b णिवद्धेणाइ शिरावन्धनानि, अच्छोडइ त्रोटयति. 4 a राय णिसाड राजा चासौ निशाटो राक्षसश्च. 5 a चरुयसयडु नैवेद्यशकटम्, मणुएं संजुत्तउं मनु-
ष्येण युक्तम्. 7 a कुंभकारकहु नामेदम्. 8 a दियसारउ द्विजप्रधान. 10 a अणउवरि अनः
शकट., तस्योपरि. 12 a अवराइउ अपराजितनामा. 13 a दंडुरेहिं अन्यराक्षसैः.

12

तहिं अच्छिउ अजयरु तें गिलियउ
तेण देव तुहुं विवरि ण विष्पहि
पभणइ मइसायरु मंहि दिज्जइ
ता अहिसिचिवि मेइणिसासणि
सो किंकरजणेण पणविज्जइ
जीय देव आपसु भणिज्जइ
गयणविलंबमाणधयमालउ
झायइ अंधुवु असरणु तिहुवणु
ता सत्तमउ दियहु संपत्तउ
असणि पडिय तहु जक्खहु उप्परि
पडमिणिखेहु गामसयसहियउं

घत्ता—अण्णु वि रयणिहिं संचिउ
किउ वंभणु परिपुण्णउ

पुणु सो वलिवि ण जणणिहि मिलियउ ।
एत्थु जि जीवोवाउ वियप्पहि ।
पोयणणाहु अव्वरु इह किज्जइ ।
कंचणजक्खु णिहिउ सिंहासणि ।
सो चलचामरेहि विज्जिज्जइ । 5
तासु पुरउ णच्चिज्जइ गिज्जइ ।
णरवइ गंपि पइहु जिणालउ ।
जिणपडिविंवाणिहियणिच्चलमणु ।
जो जणेण पोयणवइ उत्तउ ।
णोमित्तियहु दिण्ण रहुं हरि करि । 10
णंदणवणमारुयमहिमहियउं ।
मोत्तियदामहिं अंचिउ ॥
पुणु पहु रज्जि णिसण्णउ ॥ १२ ॥

13

चंदकुंदणिहदहियहिं खीरहिं
अट्टावयकलसहिं जिणुं ण्हाणइ
अप्पाणहु कुलकुवलयचंदं
कालं जंतं तहि णिवसंतं
जणणिपसापं मंतु लहेप्पिणु
सुज्जतेय विज्जाहरसामिणि
जोव्वणभावजणियसिंजारइ
गउ णहेण वणि दुमदलणीलइ
तावेत्तहि विहरणअणुराइउ

घत्ता—हित्तमहारिउच्छापं
आसुरियहि उप्पण्णउ

गंगासिधुमहासरिणीरहि ।
करिवि विइण्णइं दीणहं दाणइं ।
विहिय संति सिरिविजयणरिंदं ।
पोयणपुरवरु परिपालंतं ।
पंचपरमपरमेट्टि णवेप्पिणु । 5
साहिय विज्ज णहंगणगामिणि ।
एक्कहिं वासरि समउं सुतारइ ।
थिउ कामिणिकिलिंकिचियकीलइ ।
भांमरिविज्ज लहेवि पराइउ ।

इंदासणि खगरापं ॥ 10
लच्छिहि गुणसंपुण्णउ ॥ १३ ॥

12 १ वेष्पहि; P वेष्पिहि. २ AP अवर वर. ३ AP सीहासणि. ४ P वज्जिइ. ५ AP अट्टउ. ६ AP रहु करि हरि. ७ AP महमहियउं. ८ AP रयणिहिं.

13 १ AP °महाणइणीरहिं. २ A जिणण्हवणइ. ३ AP भावरि°.

12 1 a अच्छिउ स्थित. b वलिवि पश्चाद्गत्वा. 2 b जीवोवाउ जीवितव्योपायः 11 a पडमिणिखेहु पञ्चिनिखेटकं नाम. 12 a रयणिहिं रत्नैः. 13 a परिपुण्णउ परिपूर्णमनोरथः.

13 6 b णहंगणगामिणि आकाशगामिनी. 8 b °किलिंकिचियकीलइ हास्यरुदनयुक्त-
श्रीउत्ता. 9 b भांमरिविज्ज भ्रसररूपा विया 10 a हित्तमहारिउच्छापं क्षित्तरिपुमाहात्म्येन. 11 a आसुरियहि असुरलक्ष्म्या.

14

चमरचंचपुरवइ रइराइउ
 तेणासुररिउसुयसीमंतिणि
 मोहिउ णावइ मोहणवेल्लिइ
 मायाहरिणु तेण दंक्खालिउ
 रूवु धरिवि वरइत्तहु केरउ
 अप्पणु झ त्ति जारु तहिं पत्तउ
 देव मृगाइं धरंतु ण लज्जहि
 कीलणु तुज्जु तासु भयभंगउं
 तं णिसुणिवि पररमणें भासिउं
 हउं परियत्तउ एण जि करुणें
 एम भणेवि चडाविय सुरहरि
 णहि जंतें दाविउं ससरीरउं
 मुक्क धाह हा णाह भणंतिइ

असणिघोसु णामेण पराइउ ।
 दिट्ठ सुतार हारभूसियथणि ।
 उरि विद्धउ मयरद्धयभल्लिइ ।
 पइ सइसामीवहु संचालिउ ।
 अज्झाहियआणंदजणेरउ । 5
 अमुणंतिइ धरिणीइ पवुत्तउ ।
 अज्ज वि चालत्तणु पडिवज्जहि ।
 कंपइ मरणविसंढुल्लु अंगउं ।
 सुंदरि चारु चारु उवएसिउं ।
 आउ जाहुं पुरवरु किं हरिणें । 10
 रेहइ चंदरेहं णं जलहरि ।
 मुद्धइ तं जोइवि विवरेरउ ।
 करजुयलेण सीसु पहणंतिइ ।

घत्ता—पुणु परंपुरिसु ण जोइउ एण णाहु विच्छोइउ ॥

सुघडिउं विहि विहडावइ एवहि को मेलावइ ॥ १४ ॥ 15

15

एम रुयंति तेण सा णिज्जइ
 एत्तहि पवणु व वेयपयट्टउ
 मत्तमयूरवंदकयतंडवु
 पररमणीहरणेण णिवेसिय
 लोलइ विज्ज सुतारारूवें
 उत्तउं भत्तारें किं जायउं
 अक्खइ मायाविणि हउं णट्ठी

पिययमविरहें तिल्लु तिल्लु द्विज्जंइ ।
 गउ सृगुं पुहइणाहु पल्लट्टउ ।
 पडिआयउ सुंदरिलयमंडउ ।
 रयणसिलायलि तेत्थु जि दरिसिय ।
 जाणिवि गहिय कंत जमदूएं । 5
 दीसइ वयणकमलु विच्छायउं ।
 कुक्कुडफणिणा करयलि दट्ठी ।

14 १ A दिक्खालिउ. ३ AP धरिणीइ पइ वुत्तउ. ३ AP मिगाइं. ४ AP चदलेह.
 ५ AP °पुस्सु.

15 १ AP मिगु. २ A कमलवयणु, P वयणु कमलु.

14 1 a रइरा इउ सुरतराजितः. 4 b पइ श्रीविजयः, सइसामीवहु सर्तीसामीप्यात्. 5 a
 वरइत्तहु श्रीविजयस्य b अज्झा हियं सुताराहृदयम्, अज्झा इति सुताराया द्वितीय नाम. 9 a पर-
 रमणें जारेण. 10 a करुणें करुणया. 15 a विहडावइ विघट्टयति.

15 2 a वेयपयट्टउ वेगेन प्रवृत्तः. 5 a विज्ज विद्या, b कंत कान्ता, जमदूए सृत्तुना.

विसरिसविसरसवियणगुरुक्की
चंदणवंदणइंधणु पुंजिवि
घत्ता—पियविओयअँयंपिउ
संकप्पहु जि वसंगउ

इय भणंति पाणेहिं विमुक्की ।
सूरकंतमणिजलणु पउंजिवि ।
परिसेसियइहपरहिउ ॥ 10
णरवइ सलहि वलग्गउ ॥ १५ ॥

16

ता संपत्त विण्णि विज्जाहर
तेहिं तिविट्ठुपुत्तु ओलक्खिउ
एक्के बुद्धियमायामग्गे
पायड करिवि नृवंहु दक्खालिय
महिवइ विंभइवसु अवलोइवि
जंबुहीवि भरहखेत्तंतरि
दाहिणसेट्ठिहि जोइप्पहपुरि
हउं तहिं पहु णामे संभिण्णउ
संजय पणइणि सुउ दीवयसिहु
जणण तणयं ए अम्हइं सुंदर
चिरु परिभमिवि रमिवि पिउ वोल्लिवि
पइवय परमेसरि अहिमाणिणि

सयणाविहुरहर असिवरफरकर ।
णिज्जाणि वणि मरंतु णोवेक्खिउ ।
ताडिय इ त्ति वामपायग्गे ।
विज्ज पणट्टु भीयवेयालिय ।
खयरं भणिउ णिसुणि मणु ढोइवि । 5
चारुधोयकलहोयमहीहरि ।
उज्जाणंतथंतकीलासुरि ।
अमियतेयंकिंकरु माणुण्णउ ।
महुं ओहच्छइ णं कंतिइ विहु ।
अवलोयंति सिहरिदरिकंदर । 10
गयणुल्ललिय जाम वणु मेल्लिवि ।
ता रुयंति णहि णिसुणिय माणिणि ।

घत्ता—णिरु उक्कंठिय अच्छमि
हा सिरिविजय पधावहि

वल्लह पँइं कहि पेच्छमि ॥
कुट्टि लग्गहि म चिरावहि ॥ १६ ॥

17

हा हा अमियतेय दुंदुहिरव
हा हा माम तिविट्ठु महावल

इहु अवसरु तुहु वट्टइ वंधव ।
पइं जीवंति णंति मइं किं खल ।

३ A °इधण. ४ A °आयामिउ.

16 १ AP ण उवेक्खिउ. २ P णिवहु. ३ AP विंभयवसु. ४ P °तेउ. ५ A तणय वे
यम्हइं. ६ AP कह पइं.

17 १ AP किं मइं.

8 a °वि यण° वेदना. 9 °व द ण° रक्तचन्दनम् ; सूरकंतमणिजलणु सूर्यकान्तमणोरग्निः. 10 a °वि-
ओ य आ यं पि उ वियोगेन आकम्पितः; b परिसेसिय° त्यक्तम्. 11 b सलहि काष्ठभक्षणार्थं चितायाम्;
वलग्गउ आरुढ..

16 1 b सयणविहुरहर स्वजनकष्टहरी. 2 b णोवेक्खिउ न निराहृतः. 4 a पायड
करिवि विद्यां प्रकटीकृत्य. 5 a विभइवसु विस्मयवद्गः, b मणु ढोइवि चित्तं सावधानं कृत्वा. 6 b
°कलहोयं कल्यौतं लुप्यम्. 10 ए तौ आवाम्. 14 b कुट्टि पृष्ठे.

हा सासुइ देवर साहारहि
 हा हलहर पइं अप्पउं तारिउ
 हा हे घोर जार जैगि सारहु
 जइ वि मइंणु तुहुं तो वि ण इच्छमि
 णिसुणिवि णियसांमिहि णामक्खरु
 भणिउ वइरि भडवाएं भज्जहि
 अप्पहि तरुणि घुलियहारावलि
 घत्ता—ता देवीइ पवुत्तउं
 काणणि कामसमाणउ

मइं रोवंति काइं ण णिवारहि ।
 महुं लग्गंतु कुपुरिसु णे णिवारिउ ।
 मइं लहु णेहि पासि भत्तारहु । 5
 पइं हउं जणणसरिच्छु णियच्छमि ।
 अम्हइं धाइय गुणि संधिवि सरु ।
 अवरकलत्तु हरंतु ण लज्जहि ।
 दूसह सिरिविजयहु वाणावलि ।
 एव्वहिं भिडहुं ण जुत्तउं ॥ 10
 जाइवि जोइवि राणउ ॥ १७ ॥

18

लहु महुं तणिय वत्त तहु अक्खहु
 तं परिहच्छियं पणवियमत्था
 ए अम्हइं आइय वेण्णि वि जण
 एम भणिवि दीवयसिहु पेसिउ
 जिह हरिसुउ गउ मयणिदेसैं
 जिह वेयालियविज्जइ विलसिउ
 जइ ण वि सिट्ठउं अण्णं केण वि
 तो वि सब्बु सब्भावहु आणिउं
 अम्हहं धरि जायइं दुणिमित्तइं
 पणइणिहरणु जाउं पियणीसहु
 परे कि कुसल्लु पडीवउं दीसइ
 घत्ता—इय जिह विप्पहिं सिट्ठउं
 सुयरिवि सुयहु सय्माणउं

जीउ जंतु णरणाहहु रक्खहु ।
 चंडकंडकोडंडविहत्था ।
 तुहुं मा मरु रामारंजियमण ।
 तें पोयणपुरि वइयरु भासिउ ।
 जिह णिय धरिणि चमरचंचेसैं । 5
 ता पहुजणणिहि वयणु विणीसिउ ।
 जयगुत्तं अमोहजीहेण वि ।
 सपरोक्खु वि पच्चक्खु वि जाणिउं ।
 पडियइं णहयलाउ णक्खत्तइं ।
 जायउं विग्घु किं पि धरणीसहु । 10
 को वि कुसलवत्तिउ आवेसइ ।
 तिह तुहुं आयैउ दिट्ठउं ॥
 देविइ दिण्णु पयाणउं ॥ १८ ॥

19

छत्तछण्णरविकिरणविलासैं
 दिट्ठु पुत्तु आलिंणित्त मायइ

गय तं वणु ससेण्ण आयासैं ।
 भूमिभाउ णं पाउसत्तायइ ।

२ A ण वारिउ. ३ AP जगसारहु. ४ AP मयणु. ५ AP णियसामियणामक्खरु.

18 १ AP परिहच्छिवि. २ A जाम. ३ AP आइउ. ४ A कहाणउं.

17 ३ a साहारहि आश्वासनं देहि. 6 a मइणु मदनः. 10 b भिडहु युद्ध कर्तुम्.

18 2 a तं परिहच्छियं तां परिपृच्छय. 4 b तें दीपशिखेन. 5 a मयणिदेसे मृगपृष्ठेन,
 णिय नीता, चमरचचेसैं चमरचचापुराधीशेन. 10 a पियणीसहु प्रियाः त्रीशा राजानो यस्य. 13 a
 सुयरिवि स्मृत्वा, सयाणउ यानवाहनयुक्तम्; देविइ स्वयंप्रभया.

19 1 b ससेण्ण सैन्येन सह गय गता.

पयहिं णवंतु विवाणि चडाविउ
 पहु रहणेउरु णियउ सहरिसहिं
 काहिउ सो वि सवडंमुहुं णिग्गउ
 पायवडणु घरपाहुणयत्तणु
 मंतिउ मंतु काहिउ मंतीसहिं
 णाम मरीइ वइरिजलसोसहु
 तेण वि णारीरणु ण दिण्णउं
 यत्ता—आइय दूय सुहिं
 हरिकुलहरपायारहु

वीयउ सिसु पोयणु पट्टाविउ ।
 अमियतेयरायहु चरपुरिसहि ।
 मिलियउ णं दिसदंतिहि दिग्गउ । 5
 किउ महल्लपरिवाडिपवत्तणु ।
 अमियतेयसिरिंविजयमहीसहि ।
 पेसिउ दूयउ असणिणिघोसहु ।
 भंडणु भंडखंडणु पडिवण्णउं ।
 जलणजडीसुयपुत्तं ॥ 10
 तहु सिरिंविजयकुमारहु ॥ १९ ॥

20

दिण्ण विज्ज वीरियपोरिसखाणि
 ओसारियखलखेयरसत्थहं
 भीममहाहवभरधुरजुत्तहं
 वहिणीवडदिण्णाइं लएप्पिणु
 चमरचंचपुरवइहि ससंदणु
 णियसोहाणिज्जियहिमवंतहु
 सहसरास्सिपुत्तेण समेयउ
 तहिं आराहियमृगसंवग्गइ
 णं णिवइहि महिमंडलरिद्धी
 एत्तहि असणिघोससिरिंविजयहं
 णियसुय असणिगुघोसें पेसिय
 सहसघोस सयघोस सुघोस वि
 जं गय ते पविहंडियमाणा
 यत्ता—णिर्यवि सुताराहारउ
 छाइउ सरवरपंतिहिं

पहरणवारणि वंधविमोयणि ।
 रस्सिसुंवेयाइयहं समत्थहं ।
 पंचसयाइं सहायइं पुत्तहं ।
 विज्जादेवयाउ सुमरेप्पिणु ।
 उक्खंधे गउ केसवणंदणु । 5
 अमियतेउ सिहरिहि हिरिवंतहु ।
 गउ मरुवेपं मारुयवेयउ ।
 संजयंतपडिमापायग्गइ ।
 विज्ज महाजालिणि तहु सिद्धी ।
 जायउ संगरु सधयहं सगयहं । 10
 जे ते जुज्झिंवि दिसिहिं पणासिय ।
 मेहघोस थरिघोस असेस वि ।
 तं मेळंतु वाण फाणिमाणा ।
 सिरिंविजयं दुव्वारउ ॥ 15
 णाइ उवहउ संतिहिं ॥ २० ॥

19 १ P पट्टविउ. २ AP आइए दूए.

20 १ AP पग्गण° २ A रस्सिसुंवेयाइयहं. ३ A ओखंधि, P उद्धे. ४ AP हिरिमंतहु.
 ५ A मरुमणं, T मरुवेणं आकाशेन. ६ P °मिग°. ७ A मेळति. ८ AP णिएवि.

३ a वि वा णि विमाने, b वी वउ सि सु विजयभद्र.. ५ a सो वि अमिततेजा अपि. 6 a महल्लपरि-
 वा डि प व त्त णु महत्तगाणां वृद्धाना परिपाटिकाप्रवर्तनम् . 8 a मरीइ मरीचिर्नाम. 10 सु हिं चै सुहदत्वेन;
 b जलणजडी सुयपुत्तं अर्ककीर्तिपुरेण. 11 a °कुलहरपायारहु °कुलगृहप्राकारस्य.

20 ५ a उक्खंधे अश्वमारुह्य. 7 b मरुवेए आकाशमार्गेण. 13 a जं यावत्; b तं तावत्.
 11 a णियवि दृष्टा, सुताराहारउ अगनिघोपः.

21

आसुरियहि लच्छिहि सुउ धायउ
 धाराजियखयहुयवहजालें
 रिउ भामरिविज्जामाहणें
 हय वेणिण वि चत्तारि समुग्गय
 अट्ट णिहय सोलह संजाया
 वत्तीस वि दोखंडिय जामहिं
 चउसट्टि वि विहलिय सरूवउ
 एम दुवाड्डिइ वड्डिउ दुद्धरु
 जलि थलि दसादिसिवहि णहपंगणि
 वेढिउ पोयणणाहु खर्गिंदहि

घत्ता—जरफेरवरवभीमइ
 पत्तउ सेण्णसणाहउ

णाइ कयंतें दंहु णिवेइउ ।
 हउ विजएं पइसिवि करवालें ।
 विहि रूवहि उत्थरइ सदणें ।
 ते वि दुहाइय अट्ट समुग्गय ।
 सोलह तयं वत्तीस समाया । 5
 रिउ चउसट्टि पराइय तामहि ।
 अट्टावीसउ सउ संभूयउ ।
 हणु भणंतु असिवसुणंदयकरु ।
 दीसइ असाणिघोसु समरंगणि ।
 णं विझइरि महाघणविदहिं । 10

तहि तेहइ संगामइ ॥
 रहणेउरपुरणाहउ ॥ २१ ॥

22

राउ सयंपहपुत्तु खलत्तें
 तांव आमियतेएण पवुत्तउं
 परकलत्तु कि आणिउ गेहहु
 एम भणेवि तेण लहु मुक्की
 पवणुद्धयच्चिधु सविमाणउ
 जहिं णाहेयहु सीमागिरिवरु
 परणारीहरु भयवसु तट्टउ
 सिरिविजयाइय चोइयगयघड
 माणखंभअवलोयैणभावे
 केवलणाणसमुज्जलदिट्टिहि

घत्ता—जसधवलियच्छणयंदहु
 विद्धंसियवम्मीसरु

जाम ण हम्मइ तेहिं अखत्तें ।
 असाणिघोस किं कियउं अजुत्तउं ।
 हक्कारिय भवित्ति णियदेहहु ।
 विज्ज महाजालणि रणि दुक्की ।
 तं पेक्खिवि सहस त्ति पलाणउ । 5
 विजउ णामु जहिं अच्छइ जिणवरु ।
 समवसरणि तहिं सरणु पइट्टउ ।
 अणुमग्गें तहु लग्ग महाभड ।
 मुक्का पत्थिव मच्छरभावे ।
 मउलियकर णवंति परमेट्टिहि । 10

पुच्छंतहु खयरिंदहु ॥
 अक्खइ धम्मु रिसीसरु ॥ २२ ॥

21 १ A समागय°, २ AP हय. ३ A जरफेकारवभीमइ. ४ P °णाहहु.

22 AP महाजालिणि णहि दुक्की. २ AP सरणि. ३ AP °लोयणगावे.

21 2 b धारा जिय धारया जित, b विजएं श्रीविजयेन, पइसिवि सग्राममध्ये प्रविश्य.
 8 a दुवड्डिइ द्विवृद्ध्या. 11 जरफेरव° वृद्धशृगालः.

22 1 b अखत्ते अन्यायेन. 3 b भवित्ति मरणम्. 5 b पलाणउ नष्टः. 6 a णाहेयहु
 श्रीवृषभनाथस्य. 7 a तट्टउ वस्त..

23

भणइ भडारउ रोसु ण किज्जइ
 रोसवंतु णरु कंह व ण रुच्चइ
 रोसु करइ बहुआवइसंकहु
 रोसु कयंतु व कं णउ तासइ
 जो रोसेण परव्वसु अच्छइ
 माणपमत्तु ण काइं वि मण्णइ
 माणथेद्दु वंधुहिं वि ण भावइ
 मायाभावे जो चिम्मकइ
 णउ वीससइ को वि णिधम्महु
 मायारउ तिरिक्खु उप्पज्जइ
 लोहें जणु चामीयरु संचइ
 खाइ ण देइ धिवइ धणु खोणिहि
 घत्ता—एयहं चउहुं कसायहं
 जो अप्पाणउं रक्खइ

रोसें णरयविवरि णिवडिज्जइ ।
 जइ वि सुवल्लहु तो वि पमुच्चइ ।
 रोसें पुरिसु थाइ णं मकंहु ।
 अत्थु धम्मु कामु वि णिण्णासइ ।
 तहु मुहकमलु ण लच्छि णियच्छइ । 5
 माणे गुरु देव वि अवगण्णइ ।
 णिरु दुणिरिक्खइं दुक्खइं पावइ ।
 तहु संमुहउ ण सज्जणु दुक्कइ ।
 णिच्चपउंजियमायाकम्महु ।
 लोहें णियजणणी वि विरज्जइ । 10
 लोहें अप्पणु अप्पउं वंचइ ।
 लुद्धउ णिवडइ दुग्गयजोणिहि ।
 दावियणरयणिवायहं ॥
 मोक्खसोक्खु सो चक्खइ ॥ २३ ॥

24

मिच्छत्ते जणवउ छाइज्जइ
 मिच्छत्ते विडगुरुपय पुज्जइ
 मयणमत्तमहिलामहुसेवहं
 मिच्छत्तेण जीउ मोहिज्जइ
 मिच्छत्तेण असंजमु वड्डइ
 पोसइ पंचिदियइं दुरासइं
 परहणपरकलत्तअणुवंधे
 तहि अवसरि आसुरियइ लच्छिइ
 अमियतेयसिरिविजयहं ढोइय
 किउ खंतव्वच्चित्तु णीसल्लउं

हिंसइ सग्गगमंणु पडिवज्जइ ।
 मिच्छत्ते जिणणाहु विवज्जइ ।
 पायहिं पडइ रउइहं देवहं ।
 भवविच्चमि भामिज्जइ छिज्जइ । 5
 जीवहं जीविउ मंडइ कड्डइ ।
 पावइ माणउ विहुरसहासइं ।
 वज्जइ एम जीउ रयवंधे ।
 आणिवि सा सुतार धवलच्छिइ ।
 भायरपइहिं सणेहें जोइय ।
 भव्वहं खम मंडणउ पहिल्लउं । 10

23 १ AP कट वि. २ A मंकहु. ३ A माणवंतु. ४ AP णरु. ५ AP णिद्धम्महु. ६ P विरहज्जइ.

24 १ AP गवणु. २ A मड्डइ, P मड्डइ. ३ P खतव्वु चित्तु. ४ A सव्वहं.

23 5 b ण णियच्छइ नेच्छते. 7 a मा णय दु मानेन स्तब्धः. 12 a खो णि हि भूमौ. 13 b णि वा य हं निपातानाम्. 14 b चक्खइ आत्वादयति.

24 5 b मंडइ बलात्कारेण. 6 a दुरासइ दुष्टाश्वान्.

तं रिउजणणिहि वयणु समिच्छिउ
घत्ता—दुइमपावखयंकरु
उगयसंसयसंकहु

पुणु रहणेउरवइणा पुच्छिउ ।
कहइ णरोहंसुहंकरु ॥
विजय अमियतेयंकहु ॥ २४ ॥

25

जंबूदीवि भरहवरिसंतरि
अचलगामि धरणीजहु वंभणु
तहु इंदग्गिभूइसुय सुहयर
कविल्लु णामु दासेरु अलक्खिउ
कुलविद्धंसणु जाणिउ विण्णं
गउ रयणउरहु भल्लउं भाविउं
जंबूघरिणिहि हूई सुंदरि
कुलणिदिउं करंतु गुणवंतइ
घत्ता—णवर धणोहें चत्तउ
दालिहें संतत्तउ

मागहविसइ सुसासणिरंतरि ।
अग्गिलवंभणिउररुहसुंभणु ।
सुयसत्थत्थमहत्थ मणोहर ।
वेयचउक्कु सडंगइं सिक्खिउ ।
दुज्जसभीएं धाडिउ वण्णं । 5
सच्चयदियवरेण परिणाविउ ।
सच्चभौम णामेण किसोयरि ।
वरु कुलहीणु वियाणिउ कंतइ ।
आर्येणिवि सुयवत्तउ ॥
तहिं जि ताउ संपत्तउ ॥ २५ ॥ 10

26

सपराहवभीएण णमंसिउ
तहु पयजुवल्लु तेण ओलग्गिउं
कुलदूसणरुहणीसासुण्हइ
कहइ जणणु पियवयणहिं तुट्टउ
कंतु तुहारउ होइ ण दियवरु
तहि सिंरिसेणु राउ णरसिरमणि
वीय अणिदिये काइं भणिज्जइ

कविल्ले पुरयणमज्झि पसंसिउ ।
दिण्णउं कंचणु जेत्तिउं मग्गिउं ।
धणु ढोइवि आउच्छिउ सुण्हइ ।
महुं घरि दासीसुउ णिक्किट्टउ ।
एउं भणेप्पिणु गउ सो णियघरु । 5
पढम सीहणांदिय तहु पणइणि ।
जाहि रइ वि दासि व्व गणिज्जइ ।

५ A णराह सुहकरु.

25 १ A दण्णे. २ AP सच्चइ°. ३ P सच्चसामि. ३ AP आयणिय.

26 १ AP एम. २ P अणदिय.

11 a वयणु वचनम्. 13 a उ ग य सं स य स क हु उद्रतसदेहकीलकस्य, b वि ज य विजयो जिन .

25 1 b सु सा स° सुधान्यम्. 2 b °उर रु ह सुं भ णु °स्तनमर्दकः. 4 a दा से रु दासीपुत्र., अलक्खिउ प्रच्छन्नतया, न ज्ञात कदा शिक्षितः. 6 b स च्च य° सात्यकनाम्ना. 8 a कु ल णि दि उं कु ल-निन्दितं विकर्म रजस्वलागमनम्. 9 b सु य व त्त उ पुत्रस्य वार्ताम्. 10 b ता उ तातः.

26 1 a स प रा ह व भी ए ण स्वमानभङ्गभीतेन. 3 a कु ले त्या दि विट्कर्मप्रभवो निश्वासः उण्णो यस्य; b सु ण् ह इ पुत्रभार्यया.

ताहं विहिं मि कंतिइ सुच्छाया
कुललंछणउं धरियमज्जायहु

घत्ता—तेण कविल्लु अवगण्णउ
कक्कसदंडे ताडिउ

इंदउविंदसेण सुय जाया ।
जंवूधूयइ साँहिउं रायहु ।

जणि चंडालु व मण्णिउ ॥
पुरवराउ णिद्धाडिउ ॥ २६ ॥

10

27

सच्चभाम सइ सुद्ध हवेप्पिणु
सदम अमियेगइ णामारिंजय
सिरिसेणे आहारु पयच्छिउ
चउदहमलपरिमुक्कु अकुच्छिउ
भायणधरणाइयउ सुधम्मउ
चउहुं वि सुकयवीउ लइ लद्धउं
समरंगदलवट्टियपरबल्लु
सिरिमइदेविहि उयरुप्पणी
दुज्जणमणपइसारियसल्लहु
समउं बहुल्लियाइ गयगामिणि
साणंतमइ उविदहु रत्ती

घत्ता—णंदणवणि णिवसंतहि
कारणि ताहि अजुत्तउं

थिय उवसमु हियउल्लइ लेप्पिणु ।
आइय भिक्खहि चारण संजय ।
दिज्जंतउ धरिणीहिं समिच्छिउ ।
रिसिहि पाणिवत्तेण पडिच्छिउ ।
सच्चयतणयइ किउ सुहकम्मउ । 5
भोयभूमिपरमाउ णिवद्धउं ।
कोसंवीणयरीसु महावल्लु ।
ते सिरिकंत णाम सुय दिण्णी ।
सिरिसेणंगरुहहु पुँरिमिल्लहु ।
अवर पवर संपेसिय कामिणि । 10
मोहेँ मयरोहेण व मत्ती ।

दोसु रोसु चिंतंतहिं ॥
विहि मि जुज्जु आढत्तउं ॥ २७ ॥

28

धाइय पहरणपाणि ससंदण
कह व णिवारहुं वे वि ण सक्किउ
रज्जु सणेहु सदेहु पमाइवि
रायाणीयउ तेण जि मग्गे

सिरिसेणे अवलोइय णंदण ।
णरवइ दूमिउ चित्ति चमक्किउ ।
विससेलिधगंधु अग्घाइवि ।
दियधीय वि तं तिह णासग्गे ।

३ P साहियउ. ४ A तेण वि खल्ल.

27 १ AP सच्चभाव. २ AP लएप्पिणु. ३ A सदणे but records a *p*: सवणि वा.
४ AP अमियगय. ५ AP समरगण°. ६ AP पुव्विल्लहु.

28 १ १ P °सेल्लेध°. २ A रायाणियउ जि तेण जि.

9 a धरियमजायहु पालितमर्यादस्य.

27 1 a नइ सती. 5 b सच्चयतणयइ सत्यभामया. 8 a उयरुप्पणी उदरे उत्पन्ना. 9 a
पुरिमिल्लहु उपेक्षस्य. 10 a बहुल्लियाइ वध्वा; गयगामिणि गजगामिनी अनन्तमति. 11 a मोहेँ
स्तेन प्रेम्णा, मयरोहेण व मदिराममूहेनेव. 13 कारणि ताहि तस्या अनन्तमत्या कारणे.

28 2 b दूमिउ दुःखितः. 3 b विससेलिधगंधु विप्रकमलगन्धम्. 1 b दियधीय द्विज
दुहिता सत्यभामा, णासग्गे नासाग्गेण.

गरयवेइं महियलि णिवडेप्पिणु
धादइसंडि पुव्वभायंतरि
चत्तारि वि अज्जइं संजायइं
जायँउ णिब्भरु पेमरसिल्लउं
हई मुणिवरदाणे णंदिय

घत्ता—जुज्झंतहं दुव्वारहं
अंतरि थिउ विज्जाहरु

मउलियणयणइं तेत्थु मरोप्पिणु । 5
उत्तरकुरुहि सुभोयणिरंतरि ।
छहधणुसहसपमाणियकायइं ।
राउ सीहणंदिय मिहुणुल्लउं ।
वंभणि भाँमिणि पुरिसँ अणिदिय ।

दोहं मि रायकुमारहं ॥ 10
णाइ गिरिंदहं जलहरु ॥ २८ ॥

29

पभणइ जिणकमकमलेंदिदिरु
किं पुणु पहरणेहिं पिहियक्कहि
तं णिसुणिवि भणंति ते भायर
अक्खइ खेयँरु दिव्वइ वायइ
मंदरपुव्वासइ सुहवासइ
तहिं रययायलि दाहिणसेढिहि
खयरु सुकुंडलि रंभसमाणी
मणिकुंडलि हउं तहिं संभूयउ
प्रवरि पुंडरिक्किणि गउ तेत्तहि
पुच्छिउ सो मइं णिययभवावलि
पुक्खरदीवि वरुणसुरसिहरिहि

घत्ता—रूवेणं मयरद्धउ
कणयमाल पीवरथणि

जुज्जेवउं फुल्लहि वि असुंदरु ।
सत्तिसेल्लं गलचलचक्कहि ।
के तुम्हइं पडिसेहकयायर ।
धादइसंडहु सुरदिसिभायइ । 5
खलविरहियपुक्खलवइदेसइ ।
आइच्चाहणयरि गउ रूढिहि ।
अमियसेण णामें तहु राणी ।
अत्थु व सुकइकहहि जणणूयउ ।
अमियप्पहु जिणपुंगमु जेत्तहि ।
कहइ भडारउ समँयसमियकलि । 10
पुव्वदिसहि हयसोयहि णयरिहि ।

महिवइ तहिं चक्कइउ ॥
तहु वल्लह सीमंतिणि ॥ २९ ॥

30

कणयलया सररुहलय णामें
धीयउ वेणिण ताहि मृगणेत्तउ

णियंकरभल्लि धित्त णं कामें ।
कयलीकंदलकोमलगत्तउ ।

३ A गरडवेय, P गरत्रेए. ४ A सुललियणिरतरि. ५ A जोयउ णिब्भरपेम्म°. ६ AP राय. ७ A भाविणि. ८ AP पुरिसु.

29 १ A जुज्जेवउ. २ P °सेल°. ३ P वेयरु. ४ A °संडइ. ५ A सुकइकहाहे जणियउ.
६ A पवरपुंडरिक्किणि, P पवरपुडरिक्किणि. ७ A समपसमिय°. ८ P कणयद्धउ.

30 १ A णिवकर°. २ A तहो मिग°; P ताहि मिग°.

5 a गरयवेइं विपवेगेण. 0 a पुरिस अ णि दिय अनिन्दिता पुरुषो जात. सत्यभामा स्त्री जाता.

29 1 b जुज्जेवउ फुल्ल हिं वि असुंदरु पुष्पैरपि युद्धमसुन्दरम्. 2 a पिहियक्क हिं छादित-
सूयै.. 3 b पडिसेहकयायर निषेधकृतादरा.. 6 b रूढिहि प्रसिध्या. 8 b जणणूयउ जनस्तुतः.
10 b समय° समीचीनो बोध आगमो वा. 12 b चक्कइउ चक्रध्वजः.

30 .1 a सररुहलय कमललता.

विज्जुमईदेविहि हयदुम्मइ
 अमियसेण कंतियहि णवेप्पिणु
 सा गय सग्गहु आराईयहु
 सुर जोएवि सुरूवें रंजिय
 कालें जंतें सुरलोयहु चुउ
 कणयलया जलरुहलय धीयउ
 इंदउविंदसेण पंकयमुह
 सोक्खु असंखु सुइरु भुंजेप्पिणु
 हई कहि मि महावलकामिणि
 घत्ता—जं जिणणाहें सिट्ठउं
 हउं आयउ ओसारहुं

तासु जि रायहु सुय पोमावइ ।
 कणयमाल सावयवउ लेप्पिणु ।
 भोयभारसंपीणियंजीवहु । 5
 पोमावइ हई सुरलंजिय ।
 कणयमालकुंडलि हउं हुउ ।
 वेण्णि वि मरिवि सुकम्मविणीयउ ।
 जाया रयणउराहिवतणुरुह ।
 सुरलंजिय सग्गाउ चएप्पिणु । 10
 दिण्ण विवाहि तुज्जु गयगामिणि ।
 तं पच्चक्खु वि दिट्ठउं ॥
 दोहि मि जुज्जु णिवारहुं ॥ ३० ॥

31

कासु वि को वि ण किं किर जुज्जहु
 हउं मायरि चिरु तुम्हइं तणयउ
 देवत्तणु माणिवि णरजाया
 तं णिसुणिवि कुमौर हयल्लम्महु
 गय मोक्खहु णिक्खवियरओहहु
 जो सिरिसेणु पुणु वि जो कुरुणरु
 सिरिपहु सुरहरि णं ससहरपह
 कुरुमणुयत्तणु माणिवि वहुंमहु
 सुरु हई पुणु वंभणि वयसह
 घत्ता—जो सिरिसेणु महाइउ
 सो एवहिं तुहुं जायउ

भवसंसरणु ण किं पि वि वुज्जहु ।
 होंतियाउ परिपालियपणयउ ।
 किं पहरह उग्गामियघाया ।
 तउ चरेवि पयमूलि सुधम्महु । 5
 अट्टमहागुणविरइयसोहहु ।
 पढमकप्पि सो जाउ वरामरु ।
 हुय हरिणंदियज्ज विज्जुण्ह ।
 देवि अण्णिदिय दिवि विमलप्पहु ।
 सच्चभामं तहु कंत ससिप्पह ।
 कुरुणरु सुरु सग्गाइउ ॥ 10
 अमियतेउ खगरायउ ॥ ३१ ॥

३ AP विज्जमई. ४ AP °जीवहु. ५ AP सरूवे. ६ A चुएप्पिणु.

31 १ A °पालियविणयउ. २ AP माणवि. ३ A कुमारयल्लम्महु. ४ P विजापह.
 ५ A वहुलहु. ६ AP वंभणि पुणु. ७ सच्चभाव.

७ a आराईयहु सौधर्मस्त्वर्गम्. 8 a जलरुहलय कमललता. 11 a महावलकामिणि वेद्या
 अनन्तमतिः. 13 a ओ सारहुं निपेडुम्.

31 ३ a माणिवि सुक्खा. 4 a हयल्लम्महु हतकपट्टस्य. 6 a कुरुणरु आर्य. 8 a वहु-
 महु बहुतेजः मान्यता वा 9 a वयसह व्रतं सहमाना; 10 a महाइउ महर्द्धिक..

32

जा सा सइ पंचाणणणंदिय
 पुणु हई सिरिविजउ वियाणहि
 जा सा धुवु सुतार सस तेरी
 कविलु सुइरु हिडिवि संसारइ
 पविउलअइरावयणइतीरइ
 चवलवेयतवसिणियइ जणियउ
 तेण तवंतें कामविलुद्धउं
 जायउ सुउ आसुरियहि तराणिहि
 पिउं णियविज्जाविहवें मोहिवि
 पभणइ तिजगणाहु ण रुसिज्जइ
 णिसुणि णिसुणि किं बहुयइ वत्तइ
 घत्ता—धुव पंचमु चक्रेसरु
 भराहि राय तुहुं होसहि

सा जोइप्पह घरिणि अणिंदिय ।
 सोत्तिणि सच्चंभाम अहिणाणहि ।
 सुरणरविसहरहिययवियारी ।
 भूर्यरमणकाणणि भयगारइ ।
 कौसियतावसभुत्तसरीरइ । 5
 सो मयसिगु णाम सुउ भणियउ ।
 खयरु णिएवि णियाणु णिवद्धउं ।
 असणिघोसु रत्तउ चिरघराणिहि ।
 णिय कंचणविमाणि आरोहिवि ।
 अमियतेय जीवहं खम किज्जइ । 10
 णवमइ जम्मंतरि संपत्तइ ।
 इह सोलहमु जिणेसरु ॥
 पुप्फदंतसिरि लेसहि ॥ ३२ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे संतिणाहभवावलिवणणं
 णाम सट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६० ॥

32 १ AP सच्चभाव. २ P रमणि काणणि. ३ P आसुरिहि.. ४ AP चिर घरिणिहि.
 ५ A थिउ णिय°, P पिउ मय°. ६ P वुत्तइ. ७ A धुव. ८ A राउ.

32 1 a पंचाणणणं दिय सिंहनन्दिता, a जो इप्पह विद्युत्प्रभा. 2 a सोत्तिणि ब्राह्मणी;
 अहिणाणहि अभिजानीहि. 3 a सस तेरी तव अमिततेजस स्वसा. 8 a चिरघराणिहि सत्यभामा-
 चरो तस्याम्. 9 a पिउ श्रीविजयः. 13 b पुप्फदंतसिरि पुष्पवत्कान्ता श्रीः मोक्षलक्ष्मी ; लेसहि
 त्वं गृह्णासि ग्रीह्यसि.

सो असणिघोसु आसुरियसिरि देवि सुतार सयंपह वि ॥
पंव्वइयइं णिसुंणिवि जिणवयणु जिणु पणवेप्पिणु तिजगरवि ॥ धुवर्क ॥

1

सिरिविजयकं	णिग्गयसकं ।	
मारुयवेपं	अपमियतेपं ।	
वउ उज्जालिउ	पोसहु पालिउ ।	5
घरु वेण्णि वि जण	गय ते सज्जण ।	
सुरकरिकरभुउ	रविकिच्चीसुउ ।	
णिरु णिरवज्जउ	साहइ विज्जउ ।	
उत्तमसत्ती	चलपण्णत्ती ।	
णहयलगामिणि	इच्छियरूविणि ।	10
जलसिहिथंभंणि	वंधंणि रंभणि ।	
अंधीकरणी	पहरावरणी ।	
विस्सपवेसिणि	अवि आवेसिणि ।	
अप्पडिगामिणि	त्रिविहपलाविणि ।	
पासविमोयणि	गहणीरोयणि ।	15
वर्लणिक्खेवणि	चंडपहावणि ।	
पहराणि मोहाणि	जंभणि पाडणि ।	
अवर पहावइ	सइ पविरलगइ ।	
भीमावत्तणि	पवरपवत्तणि ।	
पुणु लहुकारिणि	भूमिवियारणि ।	20
रोहिणि मणजव	देवि महाजव ।	
चंडाणिलंजव	णिरु चंचलजव ।	
वहुलुप्पायणि	सत्तुणिवारिणि ।	

1 १ AP पावइयइ. २ P णिसुणवि. ३ AP °यमिणि. ४ AP °णिरुभणि. ५ A पहरा-
वरणी ६ K records a p: चल इति पाठे चपला. ७ AP °पहाविणि. ८ A भडणि पाडणि; P वंधणि
पाडणि. ९ AP °वियारिणि. १० A चंडालिनिजव.

1 4 b अपमियतेपं अप्रमिततेजसा. 9 b चलपण्णत्ती चला चपला प्रवृत्तिः. 11 a °सि हि°
अग्नि. 12 b पहरावरणी प्रहारनिपेधिका. 13 a विस्सपवेसिणि त्रैलोक्यप्रवेधिका. 14 a अप्पडि-
गामिणि जेतुमयक्या. 15 b गहणीरोयणि भूतादिग्रहनिपेधिका. 16 b चंडपहावणि प्रचण्डप्रभा.
18 b पविरलगइ प्रगतविग्लगति. शीघ्रगामिनी. 22 a चंडाणिलजव वायुवेगा. 23 a वहुलुप्पा-
यणि अन्तर्गतादिका.

अक्खरसंकुल	खलगलसंखल ।	
मायावहुई	पर्णलहूई ।	25
हिमवेयाली	सिहिवेयाली ।	
मोक्कलवाली	चलचंडाली ।	
अलिसामंगी	सिरिमायंगी ।	
इय वरविज्जहिं	णहयरपुज्जहिं ।	
उहसेढीसरु	हुउ परमेसरु ।	30
अण्णाहि वासरि	तेणं सणेसरि ।	
दमवरणामहु	णिज्जियकामहु ।	
पुण्णुप्पायणु	दिण्णउ भोयणु ।	

घत्ता—ते चारणादिणं भोयणेण इहं रत्ति जि संभवितु फलु ॥

सुरखु दुंदुहिसरु वसुवरिसु मेहहि बुद्धउ सुरहिजलु ॥ १ ॥ 35

2

अमरगुरुदेवगुरु-	णामाण सावसरु ।	
हयमोहवासम्मि	साहूण पासम्मि ।	
तहि अमितेएण	सिरिविजयरएण ।	
णियतायजम्माइं	वणहरणकम्माइं ।	
सिलखंभदलणाइं	दाइज्जमलणाइं ।	5
तवचरणकरणाइं	सणियाणमरणाइं ।	
सुरलोयवासाइं	णरभवविलासाइं ।	
पडिवक्खमहणाइं	हरिगीवणिहणाइं ।	
सिरिरमणिरमणाइं	कयणरयगमणाइं ।	
जसंकेतिफुरणाइं	असुरारिचरियाइं ।	10
रिसिणाहकहियाइं	सोऊण गहियाइं ।	

११ A मायावहुई, K मायवहुई but connects it to माया°. १२ P पर्णलहूई. १३ A तेण परेसरि. १४ A इह रत्ति जि. १५ A सुहु जलु.

2 १ A दिव्वगुरु. २ A णामेण. ३ P adds after this: जसकित्तिपुरियाइ, असुरारिचरियाइ, which in our text is line 10 below. ४ A जसकित्तिफुरियाइं.

25 a मायावहुई मायावह्वी, b पर्णलहूई पर्णलह्वी. 30 a उहसेढीसरु उभयश्रेणिराजा. 31 b सणेसरि आदित्यसहिते. 34 इह रत्ति जि इहेव जन्मनि.

2 1 b सावसरु स्वावसर यथा भवति तथा. 4 b वणहरणकम्माइ विशाखनन्दिभवे वनहरणादिकथानकानि. 5 b दाइज्जमलणाइ पितृव्यपुत्रमानभङ्गादिकम्. 8 b हरिगीव° अश्वघ्रीवः. 11 b सोऊण श्रुत्वा.

दोहि पि सुवयाइं	अमयाइं सुदयाइं ।	
सिरिविजउ तण्हंतु	मणि महइ कण्हंतु ।	
पुणु कालमाणेण	परिवट्टमाणेण ।	
विउलमइ विमलमइ	णामिऊण परमजइ ।	15
णाऊण मासाउ	मोत्तूण मासाउ ।	
रवितेय सिरियत्त	राइवदलणेत्त ।	
णियणियतणुब्भूय	कंदप्पसमरूय ।	
दोर्णहं पि ण्हविऊण	कुलमग्गि थविऊण ।	
चंदणवणंतम्मि	णंदणमुणी जम्मि ।	20
णिम्मुक्ककम्मम्मि	पईसरिवि लहु तम्मि ।	

घत्ता—अहिसिंचिवि पुज्जिवि परमजिणु वंदिवि भत्तिसमंघविउं ॥

आहारु सरीरु वि परिहरिवि विहि मि परत्तु जि चिंतविउं ॥ २ ॥

3

जं णियपरपेसणसुणिरवेक्खु	जं णिणणासियभवबंधदुक्खु ।	
जं घोरसरायकसायसमणु	तं कयउं तेहिं पाओवमरणु ।	
तेरहमइ कप्पि मणोहिरामि	सुरणंदिय णंदावत्तधामि ।	
हुउ अमियतेउ रविचूलु देउ	सत्थिउ णामे अवरु वि णिकेउ ।	
मणिचूलु णामु सिरिविजउ तेत्थु	सुरवरु जायउ लक्खणपसत्थु ।	5
को वण्णइ ताहं महापहाउ	ते वे वि वीससायरसमाउ ।	
कालेण जंबुदीवंतरालि	इह पुव्वविदेहि रमाविसालि ।	
वच्छावइदेसि पहायरीहि	णयरिहि वणकीलियकिणरीहि ।	
णीसेसकलालउ मणुययंदु	णामेण थिमियसायरु णरिदु ।	

५ A सदयाइं A adds after this: भवभावखमियाइ, K also writes it but scores it off. ६ A परिवट्टमाणेण, P परिवट्टमाणेण. ७ AP णविऊण. ८ AP दोहिं पि. ९ A णविऊण. १० पइसग्वि. ११ P समुग्वविउ.

3 १ A पावोगमणु, P पाओवगमरणु २ A पहावरीहि. ३ A अमियसायर, P तिमियसायर.

13 a तण्हंतु आकाक्षार्त्त., b कण्हंतु कृणत्वम्, 16 a मा सा उ मासमात्रजीवितम्, b मा सा उ लम्भा आत्वादम् 17 a र वितेय सिरिदत्त अमिततेजस. पुत्रो रवितेजा, श्रीविजयस्य पुत्र श्रीदत्तः. 22 मत्ति सम ग्व विउ भक्त्या समर्चितं सुप्रापम्.

3 1 a सु णिरवेक्खु सुनिरपेक्षम् (पादपोषगमनम्). 3 b णं दा वत्त धा मि नन्द्यावर्तविमाने. 4 b सत्थिउ न्वस्तिक्कं नाम विमानम्. 6 a महापहाउ महाप्रभावः. 8 a पहायरीहि प्रभाकरीनगरात्.

तहु देविहि देउ वसुंधरीहि
आवेपिणु णंदावत्तणाहु

घत्ता—मणिचूळु वि सत्थियसुरंहरहु णिवडिवि हुउ अणुमइतणउ ॥
सो सूहउ सोम्मु सुलंक्खणउ वण्णे जियणीलंजणउ ॥ ३ ॥

राविचूळु गग्भि थिउ सुंदरीहि । 10
अवराइउ हुउ थिरथोरवाहु ।

4

परदुज्जउ केसउ मणि गणेवि
पढमहु विरएपिणु पट्टवंधु
सिंहांसणु छत्तइं परिहरेवि
अरहंतहु अविचितियपहासु
अवलोइवि कत्थइ णायराउ
पुरि सुहुं वसंति ते वे वि भाइ
णच्चंति ताउ ते तहिं णियंति
आयउ णारउ दिग्गयजसेहिं

कोक्किउ अणंतवीरिउ मणेवि ।
लहुयहु ढोइवि जुवरायचिधु ।
णिम्मोहभावभावणउ लेवि ।
पिउ सरणु पइडु सयंपहासु ।
सिरितण्हइ मरिवि फणिटु जाउ । 5
णडि वच्चरि अण्णेक्क वि चिलाइ ।
जा ताम हारहिमहासकंति ।
संमाणिउ णउ रसपरवसेहि ।

घत्ता—मणि रोसु हुयासणु पज्जलिउ सहहुं ण सक्किउ चलयिगहि ॥

सो जंतु ण केण वि दिट्ठु तहि पवणु चडुलु उल्ललिउ णहि ॥ ४ ॥ 10

5

गउ रूसिवि सिवमंदिरपुरासु
वज्जरिउ तेण रयणाइं कासु
वच्चरिचिलाइणामालियाउ
पहयरिपुरि अवराइयहु गोहि
वेणिण वि थणभारें भग्गियाउ
पट्टवहि मंति आणवहि तुरिउं
अवलोइय मंतिमहंत संत

दमियारिहि विज्जाहराणिवासु ।
पइं मेळ्ळिवि को महियलि महीसु ।
णच्चणिउ दोणिण वरवालियाउ ।
णं विज्जुलियउ अच्छंति मेहि ।
लइ णरवइ तुज्जु जि जोगियाउ । 5
राएण वि तं णियचित्ति धरिउं ।
सहसा संपेसिय बुद्धिवंत ।

४ A मणिचूलि. ५ A सुरवरहु णिवडिवि ताहि जि हुउ तणउ. ६ A सलक्खणउ.

4 १ AP सीहासणु. २ A चलयिगहि.

5 १ AP जोगियाउ. २ AP आलोइय. ३ A मतमहत.

12 अणुमइतणउ अनुमतीराजीपुत्रः 13 जियणीलजणउ जितकज्जलकृणवर्ण .

4 2 a पढमहु अपराजितस्य. 4 a अविचितियपहासु अत्यद्भुतमाहात्म्यस्य. 5 b सिरितण्हइ श्रीतृणया. 6 b णडि नर्तकी. 9 सहहु सोडुम्, चलयिगहि गच्छद्ग्रहे नमसि. 10 चडुल चपल .

5 1 b णिवासु नृपस्य. 3 b वालियाउ वालिके नवयौवनवत्पौ. 6 a आणवहि आनय. 7 a संत विद्वांसः.

गय ते वि पुरिहि पहायरीहि
लइ तेहिं ताहं उवइद्दु कञ्जु
तो णियणडिजुयलउं देहु ताम
ता पोसहणियमालंकिएण

जे वल्लह तणय वसुंधरीहि ।
जइ इच्छह संपयविउलु रञ्जु ।
दमियारिदेउ रूसइ ण जाम । 10
जिणपायपोमसेवापिएण ।

यत्ता—जिणभंणयिएण णराहिविण अवराइण समंतियणु ॥

आउच्छिउ दिज्जउ तियजुयलु किं किज्जउ सह तेण णु ॥ ५ ॥

6

तं णिसुणिवि मंति भणंति एम्ब
णारीदाणेण वे होइ मलिणु
थिउ चिताउरु णरणाहु जाम
सव्वउ पण्णत्तिपहूइयाउ
वयणेण तेण संतुद्दु वे वि
गय सिवमंदिरु वित्थारएण
दरिसिउ रायहु पडिहारएण
दूएण काहिउ तं एउ राय
अवराइएण लइ दिण्णु तुज्जु

खयराहिउ दुज्जउ समरि देव ।
तं णिसुणिवि मउलियणयणवयणु ।
चिरंभवविज्जउ पत्ताउ ताम ।
रिउवहु चवंति वसिहूइयाउ ।
भायर णियमंतिहि रञ्जु देवि । 5
कवडे णडिवेसायारएण ।
जं संजुत्तउं सिगारएण ।
को सहइ तुहारा विसमघाय ।
कामिणिजुयलुल्लउं खीणमज्जु ।

यत्ता—ता कउयमउडमणिकुंडलिहिं कंचीदामहिं भूसियउ ॥

दमियारं मायामाणिणिउ सुइसुमहुरु संभासियउ ॥ ६ ॥

7

करणंगहारवहुरसविसद्दु
वीणाञ्जुणि घणथण मज्झस्साम

वीयइ दिणि अवलोपवि णट्टु ।
अदुईय धीय कणयसिरिणाम ।

४ A जे पियसुय वसुह्वसुंधरीहि P जे पियसुह्वसहि वसुंधरीहि. ५ AP °भवणि थिएण. ६ P तियजमल.

6 १ AP वि. २ AP मउलियवयणणलिणु. ३ AP चिरंभव° ४ AP add after this: जंति णवंति सडूइयाउ, चिरं सामिहि दासत्तणु गयाउ, को पहणहु को आणहु धरेवि. ५ AP add after this परिमिय (P परमिय) जणेहि णीसरिय वे वि. ६ AP दूयएण.

7 १ A तहिं आय धीय.

४ b जे वल्लेयवो, वसुंधरी हि अपराजितमाता वसुंधरी तस्या. 9 b संपयविउलु संपदा विपुल्लु.

6 1 b खयराहिउ दमितारि. देव हे अपराजितगज्जु. 2 a मलिणु भग्नमान., अस्स-
दिग्गे कृतत्तो वा. 4 b रिउवहु चनुववम्. 11 सुइसुमहुरु कर्णमधुरम्.

7 1 a करण° अष्टोत्तरं शनं हस्तनर्तनं करणमुच्यते, °अगहार° अद्गविक्षेप. 2 b अदुईय
अद्वितीय.

अप्यिय तापं मायाविणीहिं
णच्चंतिहि तहि पुणु कामवेसु
कण्णाइ भणिउं को सो अणिदु
कित्तिमरूवाजीवाइ वुत्तु
परमेसरु पहयरिपुरिणिवासु
उवमिज्जइ सो भुवणयलि कासु
सा भणइ मोरकेक्कारवाइ
दूसहविरहग्गिञ्जुलक्कभीउ

णाडउं सिक्खाविय भाविणीहिं ।
गाइउ अणंतवीरिउ णरेसु ।
किं किंणरु किं सुंरु किं फणिंदु । 5
सो कुमरु थिमियंसायरहु पुत्तु ।
अवराइउ भायरु होइ जासु ।
ता केण्हि लग्गउ कामपासु ।
तहु दंसणु लब्भइ केर्म माइ ।
दक्खालहि जाम ण जाइ जीउ । 10

घत्ता — ता कवडणडित्तणु अवहरिवि थिउ हरि पायहु तणु करिवि ॥
जोयंति तरुणि णं सिसुहरिणि विद्धी मयणं हुंकरिवि ॥ ७ ॥

8

मणि खुत्तु कुमारिहि कामवाणु
णिय सुंदरि तायहु कहिय वत्त
पोसिय मंडलिय अणेयभेय
ते जित्त घित्त रणराइएण
सयमेव पत्तु ता चावपाणि
किर वेणिण वि सर संधंति जाव
जुज्झिय वेणिण वि बहुपहरणेहि
पच्छइ पुणु कित्तिहरहु सुएण
तं लेप्पिणु हरिणा तहु जि दिण्णु
रिउ मारिवि किर चळंति जाम

आरोहिवि धयचंचलु विमाणु ।
तेण वि पारंभिय समरजत्त ।
सुर विज्जाहर चंदक्कतेय ।
हंलिणा वलिणा अवराइएण ।
हणु हणु भणंतु अहिमाणि दाणि । 5
अंतरि पइदु दणुयारि ताव ।
ते केसव पडिकेसव घणेहिं ।
मुक्कउ रहंगु णिट्टुरभुएण ।
वियलंतरुहिरु वच्छयलु मिण्णु ।
पयमेत्तु णं चलइ विमाणु ताम । 10

घत्ता — ता पेक्खंतहि सयलउ दिसउ समवसरणु अवलोइउं ॥

हरिवलाहिं विहि मि विभियवसहिं णियविज्जामुहुं जोइउं ॥ ८ ॥

२ AP पुणु तहि. ३ A णरु. ४ तिमिय°. ५ AP कण्हइ. ६ P कि ण माइ

8 १ AP विवाणु. २ AP हरिणा. ३ A अहिमाणदाणि, P अहिमाणखाणि. ४ A णिग्गत-
रुहिरु. ५ AP पयमेत्तु विवाणु ण चलइ ताम. ६ AP विभिय°.

4 a काम वे सु कन्दर्पसदृश 6 a कित्ति मरूवा जी वा इ कृत्रिमवेद्यया. 10 a °ञ्जुलक्क° ज्वाला.
11 कवडणडित्तणु अवहरिवि कपटनट्टीत्वमपहृत्य.

8 4 a घित्त क्षिप्ता., रणराइएण रणवोभिना. 6 b दणुयारि कृष्णः. 9 b वियलं-
रुहिरु विगलद्वधिरम्.

9

सा भणइ महापहु विजयकंखु
तहु तणउ तणउ किच्छिहरु राउ
संतियरहु सीसु मुणवि राउ
अच्छइ भो केवलि जाहुं एहु
ता सव्वइं भव्वइं तहि गयाइं
लायणवण्णणिज्जियसिरीइ
भणु देवदेव णियजणमरणु
तं सुणिवि केहइ समसत्तुमित्तु

घत्ता — इह दीवि भरहि संखउरवरि वणि देविल्लु चक्कलथणिय ॥

बंधुसिरि घरिणि गुणगणणिलय सुय सिरिदत्त ताइ जणिय ॥९॥ 10

होंतउ सिवमंदिरि कणयपुंखु ।
एयहु दमियारिहि होइ ताउ ।
थिउ वरिसमेत्तु परिमुक्ककाउ ।
भत्तिइ वंदहुं वोसइदेहु ।
वंदेप्पिणु परमप्पयपयाइं । 5
आउच्छिउ चामीयरसिरीइ ।
मइं दिट्टुउ किं सुहिसोयकरणु ।
भुवणत्तयणवराईवमित्तु ।

10

पुणु कुंठि^१ पंगु अण्णेक्क दीण
अण्णेक्क वहरि णउ सुणइ वाय
अण्णेक्क एकलोयणिय जाय
लहुवाहिणिउ करुणं तोसियाउ
वणि संखमहीहरि सीलवाहु
पालिय अहिस वयणेण तासु
दिण्णउं सुव्वयखंतियहि दाणु
सम्मत्ताभावे कयउ वालि
सोहम्मसग्गि सामण्णदेवि
हूई दमियारिहि तणिय पुत्ति

घत्ता—तं वयणीवमणविणिंदणहु फलु पइं सुइ अणुहुंजियउं ॥

हियउल्लउं जणणहु राणि वडिउ दिट्टुउं रुहिरं मंडियउं ॥ १० ॥

णिल्लक्खण हूई हत्थहीण ।
खुज्जी अण्णेक्क विमुक्कछाय ।
पिउ मुउ कालें गय मरिवि माय ।
छं वि एयउ पइं घरि पोसियाउ ।
अवलोइउ सव्वजसंकु साहु । 5
अण्णेक्कु धम्मचक्कोववासु ।
आहारवमणि विदिगिंछंठाणु ।
मोहेण पडइ जणु जम्मजालि ।
होइवि मुय माणुसदेहु लेवि ।
जं दिट्ठी पिउखयदुहपवित्ति । 10

9 १ AP दमियारिहि. २ AP केवलि भो. ३ AP भणइ. ४ A भरह.

10 १ A कुंठ, I कुट्टि. २ AP सच्छवि. ३ A सच्चजसक°. ४ K धम्म. ५ AP विजि-
गिंछ°. ६ A तं वइणीव°; P त वइणीव°. ७ AP अणुहुजिउं. ८ AP रजियउं.

9 1 a सा भणइ विद्या कथयति, विजयकखु दिग्विजयवाञ्छक. 2 a तणउ संवन्वी,
तणउ पुत्र. 4 b वोसइदेहु कायोत्तर्गयुक्त.. 8 b °णवराईवमित्तु °नवीनपद्मस्य सूर्य इव. 9 वणि
वणिक, चक्कल° विस्तीर्णो. 10 सिरिदत्त श्रीदत्ता.

10 3 a एकलोयणिय काणा 1 b पइ त्वया श्रीदत्ताचर्या. 6 b धम्मचक्कोववासु अरा-
णामश्रोत्तग्गंनन धम्मचक्रं भवन्ति । तत्र एकोपवामेन आरात्रयं लभ्यते इति षट्त्रिंशदुपवासाः । तुम्हस्य चैक
उत्तवान् । आदाववसाने च षट् । एवमशीतिदिवसैः समाप्त्यते । किंकिल्या. किंभेदा अरुत्तुम्हकोपवासाः
द्विंशन्ते इति चेदुच्यते । दर्शनस्त्राशौ । ज्ञानस्त्राशौ । चारित्रस्य प्रवचनमातृत्वापेक्षयाशौ । तपसो द्वादशोप-
वासा । इति षट्त्रिंशत् । अरात्रिभोजनस्य चैक उपवासः. 7 a सुव्वयखति हि सुव्वनार्याया . 9 वयणी-
वमणविणिंदणहु व्रतिर्ना आर्षा तस्या वमननिन्दनस्य फल तत् .

11

तं णिसुणिवि हरि वल णियघरासु
 गोविदतणउ कइकामधेणु
 रिउसुय तं तहु पइसहुं ण देंति
 कंचणसिरियहि संरंभगाढ
 आवेप्पिणु चवलाउहकरेहिं
 सोयग्गि दहु सरीररुक्खु
 वलकेसव पत्थिवि गय कुमारि
 सुण्णहहि पासि थिय संजमेण
 सोहम्मि अमरु हई मरेवि
 खग माणव दाणव जिणिवि सैमरि

गय कण्ण लेवि पहयरिपुरासु ।
 सिवमंदिरु गयउ अणंतसेणु ।
 करवालहिं सुलहिं उत्थरंति ।
 भायर सुघोस वर विज्जदाढ ।
 ते वे वि णिहय हरिहलहरेहिं । 5
 असहंति सवंधवपलयदुक्खु ।
 जिणु णविवि सयंपहु णाणधारि ।
 गणणिहि संतिहि कहिणं कमेण ।
 एत्तहि महि चक्कं वसि करेवि ।
 णार्रायण सीरि पइट्टु णयरि । 10

घत्ता—बलएवं विजयासुंदरिहि हई सुय णामे सुमइ ॥

कंकेल्लिपल्लवारत्तकर पाडलपिल्लयमंदगइ ॥ ११ ॥

12

णियमियदुइममणवारणासु
 संपुण्णु अण्णु दिण्णउं समिद्धं
 दिट्ठी पिउणा सुय दिण्णदाण
 सांणिहियसयंवरमंडवंति
 जोवइ वरु जा किर रहवरत्थ
 हलि दिह्लिदिलिए ण भरहि काइं
 जा पुव्वमेव ण लहइ णिजम्मु
 सुणि विहिं मि भवंतरु कहमि माइ
 भरहे णंदउरइ णं सुरिदु
 तहु अत्थि अणंतमइ त्ति भज्ज
 धणासिरि अणंतसिरि तहि सुयाउ

घरु आयउ दमवरचारणासु ।
 पंचच्छेरउ पत्ती पसिद्धं ।
 णवजोव्वण रूवे सोहमाण ।
 देसंतरायणररायकंति ।
 तावच्छर चवइ वरंवरत्थ । 5
 पइं मइं मि सग्गि भणियाइं जाइं ।
 सा इयरहि अक्खइ परमधम्मु ।
 पुक्खरवरद्धपुव्विल्लभाइ ।
 णामेण अमियविक्कमु णरिंदु ।
 वरकइविज्जा इव जणमणोज्ज । 10
 हउं तुहुं वेणिण वि सुललियभुयाउ ।

घत्ता—वणि सिद्धमहागिरि गंपि हलि णंदणमुणिवरपयजुयलु ॥

वंदेप्पिणु व्रैउ उववासतउ चिण्णउं दुच्चरु गलियमलु ॥ १२ ॥

11 १ AP पहयरपुरासु. २ AP दाणव माणव. ३ AP सवरि. ४ AP णाराइण.

12 १ AP सपक्कु. २ A समिद्ध ३ A सिद्ध. ४ A सरहि. ५ A वृजम्म. ६ P णदउरिहि.
 ७ AP वउ.

11 ३ a रिउसुय दमितारिपुत्रौ, b उत्थरति संमुखमागच्छन्ति 4 a सरभगाढ सरम्भेण
 क्रोधेन गाढौ दढौ. 6 a दहु दग्वा. 7 a पत्थिवि प्रार्थना कृत्वा. 12 पाडलपिल्लयं बालहंस.

12 5 b वरवरत्थ विमलाकागस्था. 6 a दिह्लिदिलिए हे बाले, भरहि स्मरति. 7 a
 णिजम्म मनुष्यजन्म.

13

वज्जंगउ णामेँ ससहराहु
 वंताइ कुलिसमाँलिणिइ सहिउ
 गउ णियपुरि णियपणइणि थवेवि
 वेणिण वि जणीउ संचालियाउ
 आयासि जाम धावइ तुरंतु
 भत्तारच्चित्तगइ संभरंतु
 णिक्करुणेँ दइइउपेल्लियाउ
 परिहरियभीमवणयरभयाउ

तहिँ आयउ कत्थइ.तिउरणाहु ।
 अम्हइं णियंतु मारेण महिउ ।
 कामाउरु पडियागउ वलेवि ।
 णं हंसं कुवलयमालियाउ ।
 ता दिट्ठउ तेण कलत्तु एंतु । 5
 ईसाकसायवसु विप्फुरंतु ।
 भीएण वेणुवणि घल्लियाउ ।
 तहिँ वेणिण वि संणासेँ मुयाउ ।

यत्ता—णउ कंदु ण मूलु ण फलु ण दलु अहिलसियउ णउ किं पि वणि ॥
 जोईसरु सासयसिद्धियरु परमजिणेसरु धरिवि मणि ॥ १३ ॥ 10

14

हउं णवमी आहंडलहु देवि
 णामेँ रइ पवर कुवेरणारि
 मंदरयलि दिट्ठउ चरियतिकखु
 पुच्छिउ सिद्धत्तणु कम्मि कालि
 चोत्थइ णित्थरह भवद्विणीरु
 आउच्छिवि हरि वल वे वि ताय
 णिवकुंमरिहिँ सहुं सत्तहिँ सपहि
 एयारहमइ दिवि सुहणिहाणि
 केसत्तु महि भुंजिवि कम्मणडिउ
 सुउ रज्जि थवेवि अणंतसेणु
 तउ चरिवि सीरि विहडियकसाउ

हई तुहु माणुसतणु मुएवि ।
 णंदीसरजत्तहि दुक्खहारि ।
 दिहिसेणु णाम पणवेवि भिक्खु ।
 होसइ रिसि भणइ भवंतरालि ।
 तं सुणिवि कण्ण विहुणिवि सरीरु । 5
 वंदिवि सुव्वयसंजइहि पाय ।
 पावज्ज लइय भूसियवएहि ।
 सुरवरु हई प्राणावसाणि ।
 रयणप्पहवसुहाविवरि पडिउ ।
 जसहरंरुचरणंवुरुहि लीणु । 10
 सोलहमइ सग्गि सुरिंदु जाउ ।

यत्ता—पिउ जायउ जो उरयाहिवइ तासु पासि दंसणेरयणु ॥
 पावेप्पिणु णरयहु णीसरिउ सो अणंतवीरियउ पुणु ॥ १४ ॥

13 १ A सइसवाहु. २ P °मालिणए. ३ AP दइउ पेल्लियाउ.

14 १ A नृवकुंमरिहिँ. P णिवकुअरिहिँ. २ AP पाणावसाणि. ३ P जसहरचरणंवुरुहे
 गिल्लीणु. ४ AP दंसणु न्यणु. ५ P °वीरिउ.

13 i a ससहराहु शशवराभ चन्द्रप्रभ.. 2 b णियंतु अवलोकयन्. 7 a दइउपे ल्लि-
 याउ कर्मप्रेरिते हे b वेणुवणि वगवने.

14 1 a णवमी नवमीनामी. 2 a कुवेरणारि रातिनामी कुवेरभार्या. 3 a चरियतिकखु
 उप्रचान्ति.. 5 a णित्थरह भवद्विणीरु संमाराच्चि तरिप्यथ 12 पिउ त्तिमितत्ताणर., उरयाहिवइ
 धरणेन्द्र..

15

भरहम्मि पत्थु विजयाचलेंदि
णहवल्लहपुरि घणवाहु राउ
घणवर्णणउ जायउ ताहं पुत्तु
सो सयलखयरखोणीवईसु
पण्णत्तिविज्ज संसाहमाणु
सम्मत्तु लण्णिणु तिमिरणासु
अण्णहि दिणि गउ णंदणगिरिदु
हयकंठभाइ णामे सुकंदु
जायउ भीमासुरु सरिवि वेरु
उवसग्गहु ण चलइ कि पि जाम
रिसि साहिवि आराहण अमंदु
इह दीवंतरि सुरदिसिविदेहि

उत्तरसेदिहि धवलहरुंदि ।
घणमालिणिवरकंतासहाउ ।
घणणाहु णाम णवणलिणणेत्तु ।
मंदरणंदणवणि णमियसीसु ।
अच्चुयणाहे बोहिउ सणाणु । 5
णिकखंतु सुरामरगुरुहि पासु ।
थिउ पडिमाजोपं मुणिवरिंदु ।
संसारु भमिवि दुक्खवाहिददु ।
आढत्तु तेण मुणि मेरुधीरु ।
सइं लज्जिउ गउ रिउ गयणु ताम । 10
अच्चुइ इंदहु हूयउ पडिंदु ।
मंगलवइदेसि विचित्तगेहि ।

घत्ता—पुरि रयणसंचि मणिचेंचइइ थिरु आउंचियारिपसरु ॥
राणउ खेमंकरु दीहकरु धीमहंतु उद्धरियधरु ॥ १५ ॥

16

तहु कणयचित्त णामेण देवि
जाया हियमाणिणिहिययसार
सिरिसेणहि सुउ सहसाउहेण
णियसंति णामु सुरणाहमाहिउ
जावच्छइ ता दिवि देवसत्थु
अण्णहिं वण्णिउ कुलिसाउहासु
तं णिसुणिवि सुरवरु चित्तचूलु
जिणजेडुतणुभवु भणिउ तेण

तहि णंदण इंद पडिंद वे वि ।
वज्जाउह सहसाउह कुमार ।
जणियउ णेहु व कुसुमाउहेण ।
खेमंकरु पुत्तपउत्तसाहिउ ।
पभणइ भुवि को सइंसणत्थु । 5
णिम्मल्लुं सम्मत्तु गुणावयासु ।
आयउ णिविधरु णहलग्गचूलु ।
अण्णणु होइ तिहुवणु खणेण ।

घत्ता—णउ अत्थि तो वि दीसइ पयहु जिह सिविणउ तेलोक्कु तिह ॥

लइ सुण्णुं जि णिच्छउ आवडिउं कहिं अच्छइ गय दीवसिह ॥१६॥ 10

15 १ A वण्णिउ. २ A पण्णत्त. ३ P अणाणु, K अणाणु but corrects it to सणाणु.
४ AP जयवरिंदु. ५ AP संसारि. ६ P दुक्खेहि ददु.

16 १ A तहि णदणु अच्चुवइंदु ए वि. २ A reads this line and 3 a as वज्जाउहु
णामे तिजयसार, तें परिणिय सिरिमइ ण कुमार, तीए जणियउ सहसाउहु कुमार. ३ AP को भुवि.
P भण्णिउ. ५ A णिम्मल. ६ A नृवधरु. ७ AP सुण्णउ णिच्छउ.

15 3 a घणवण्णउ मेघवर्ण. कृष्णवर्ण.. 8 a हयकंठभाइ अश्वग्रीवस्य भ्राता, b दुक्खा-
हिददुदु खसपेण दष्टः. 9 a सरिवि वेरु वैर स्मृत्वा. 13 चेंचइइ देदीप्यमाने.

16 3 a सिरिसेणइ श्रीपेणाया सहस्रायुधभार्यायाम्. 4 a णियसति कनकशान्तिः, निज-
शब्देन कनकम्. 5 a देवसत्थु देवसमूह., b सइंसणत्थु सदृशनस्थ.. 10 आवडिउ ज्ञातम्.

17

तं सुणिवि भणइ पविपहरणक्खु
जइ अव्वरु जि खणि खणि होइ सव्वु
पज्जायारुढी सव्वसिद्धि
अण्णयविरहिउं जि जगु भणंति
जइ सिविणु व तच्चु परोवहासि
जइ सुण्णत्तहु दीवच्चि जाइ
तं सुणिवि पवुद्धउ सुरे वउद्ध
को करइ वप्प पइं सहं विवाउ

अण्णाणहं दुक्करु णाणचक्खु ।
तो किं जाणइ जणु णिहिउ दव्वु ।
आउंचिउ हत्थु जि होइ मुट्ठि ।
खकुसुमुं ते सससिं गे हणंति ।
तो सिविणयभोयणि किं ण धासि । 5
तो खपरि कज्जलु केमं थाइ ।
संसइ तुहुं णरवइ णाणसुद्धु ।
अरहंतु भडारउ जासु ताउ ।

ग्रन्था—गउ चित्तचूलु सणिहेलणहु इंदचंदफणिपरियरिउ ॥

खेमंकरु पढमहु तणुरुहहु अण्णिवि वसुमइ णीसरिउ ॥ १७ ॥ 10

18

घरु मेल्लिवि वणि थिउ मुक्कगत्तु
रायाहिराउ णिव्वृढमाणु
वज्जाउहु अवइण्णइ वसंति
तडिदाहं चिरभववइरिण्ण
खयरेण णायपासेण वद्धु
सा तेण णिहय दढकरयलेण
रिउ णासिवि गउ भयभीयजीउ
वसिकयसुरणरविज्जाहरासु
घरु आयइं ता परिहरिवि मरणु

काले अरहंतावत्थ पत्तु ।
गोमिणिकामिणि अणुहुंजमाणु ।
जलि रमइ सुदंसणसरवरंति ।
दुक्कम्मभावसंचारिण्ण ।
विउलइ सिलाइ सह संणिरुद्धु । 5
गय सयदंलु णारि व रयमलेण ।
णियंघरि पइहु कुलहरपईउ ।
णवणिहि चउदहरयणाइं तासु ।
घरि णहयरु एक्कु पवण्णु सरणु ।

ग्रन्था—तहु अणु आगय असियरखयरि चवइ हणामि को मइं घरइ ॥ 10

पहरणकरु थविरु अवरु अइउ णिवहु सवइयरु वज्जरइ ॥ १८ ॥

17 १ AP जइ खणे खणे अवरु जि होइ. २ P खकुसुम. ३ AP किं ण थाइ. ४ A सुरु पवुद्धः P सुरु वउद्ध.

18 १ AP सहसा णिरुद्ध. २ A सयदण. ३ AP णियपुरि. ४ AP मइं को.

17 1 a पविपहरणक्खु वज्जायुशाख्य.. 3 a पज्जायारुढी पर्यायमालुढा; सव्वसिद्धि सर्व-
लुट्टिः. 4 a अण्णयविरहिउ अन्वयग्रहितम्; द्रव्यरूपतया अपरापरपर्यायेष्वनुवर्तनमन्वयः; b सससिं गे
शशशृङ्गेण. 5 a परोवहासि हे परोपहासिन्, b ण धासि न तृप्यसि. 6 a दीवच्चि दीपशिखा. 7 a
वउद्धु अणिकवादी, b संसइ प्रसंसति.

18 1 a मुक्कगत्तु मुक्कगत्तः. b अरहंतावत्थ केवलज्ञानम्. 3 a अवइण्णइ अवतीर्णे
प्राप्ते, b सुदंसणसरवरंति सुदर्शननाम्नि सरोवरे. 4 a तडिदाहं विद्युदंष्ट्रेण. 6 a णिहय निहता
चूर्णाश्रिता b सयदंलु शतस्रष्टम् णारिव रयमलेण यथा रजस्वला स्त्री लज्जया शतखण्डं प्रजति रक्त-
मलेन. 9 a परिहरिवि मरणु मरणम्यात्. 10 अणु पश्चात्. 11 थविरु वृद्धः; अइउ आगत..

19

इह वरिसि खगायलि अरिहंभत्तु
तहु देवि जसोहर वाउवेउ
तेत्थु जि पुरु किंणरगीउ अत्थि
तहु सुय सुकंत महुं तणिय कंत
ओहच्छइ तुह पयणय विणीय
विज्जासाहाणि थियवणयरासु
किर साहइ इच्छियसिद्धि जाव
तं अवंगणिवि मृगैलोयणाइ
आरूसिवि कड्डिउ मंडलग्गु
आवेप्पिणु तुज्जु पइइ गेहि
आगच्छमि जा महिहरधरित्ति
इह आयउ अक्खिउ तुज्जु राय
गंभीरघोरवइराउहेण

सकंप्पहपुरि पहु इंदयत्तु ।
हउं पुत्तु पुण्णसंपुण्णतेउ ।
तहि चित्तचूलु खगु जसगभत्थि ।
वहुतंतमंतविहिवुद्धिवंत ।
संतिमइ णाम महुं तणिय धीय । 5
उवगय मुणिसायरगिरिवरासु ।
गुरुविग्घु पउंजिउ एण ताव ।
सिद्धी देवय जाणिवि अणाइ ।
एहु वि लंघिय ण्हमंडलग्गु ।
हउं पुज्ज लेवि खे भमियमेहि । 10
ता पेच्छिवि णहि धावन्ति पुत्ति ।
पेक्खहि परिरक्खहि णायंछाय ।
तं सुणिवि वुत्तु वज्जाउहेण ।

घत्ता—इह दीवइरावयविह्वउरि विह्वसेणु णामे नृवइ ॥

णामेण सुलक्खण मृगंणयण तहु रायाणी हंसगइ ॥ १९ ॥ 15

20

तहु णंदणु णामे णलिणकेउ
तेत्थु जि वणिवरु णामे सुमिच्चु
पीयंकरि णामे तासु भज्ज
महिलाविरहेण सुणिंदवासि
भंजिवि दुम्महु कंदप्पदप्पु
जंवूदीवंतरि कच्छदेसि
पुरि कणयतिलइ णं पुण्णयंदु
तहु पणइणि णामे णीलवेय

णं थिउ णररुवें मयरकेउ ।
सिरिदत्त कंत तणुरुहु सुदत्तु ।
सा हित्ती णिवतणए मणोज्ज ।
रिसि हुउ सुदत्तु सुव्वयहु पासि ।
संणासें गउं ईसाणकप्पु । 5
वेयइइ उत्तरसेठिवासि ।
णामे महिदविकमु खगिदु ।
सुरु मेल्लिवि सुरतणु अमियतेय ।

19 १ A अरुह°. २ A सुक°. ३ P मिग°. ४ AP णहि मंडलग्गु. ५ P णायणाय.
६ AP णिसुणिवि. ७ P णिवइ. ८ A सलक्खण. ९ P मिग°.

20 १ AP पीइकरि. २ A नृवतणए. ३ AP हुउ. ४ A पुण्णिविदु, P पुण्णिवदु.

19 3 b जसग भत्थि यइ किरण.. 6 a थियवणयरासु स्थिता वनचरा यत्र तस्य, b मुणि-
सायरगिरिवरासु पर्वतस्य नामेदम् 9) b अणाइ अनया शान्तिमत्या. 12 b णायछाय
नीतिप्रभावः.

20 3 a पीयंकरि प्रीतिकरो; b हित्ती हृता, णिवतणए नलिनकेतुना.

चिरु वणि सुदत्तु जो दुक्खरीणु
इंशीवरदलसंकासणेत्तु
सीमंकरसुरिहि णविवि पाय
णियदुक्किउ णिंदिवि णायणेउ

सो तहि सुउ जायउ अजियसेणु ।
जं हित्तउ वणितणयहु कलत्तु । 10
तउ चरिवि घोरु चूरिवि कसाय ।
गउ मोक्खहु सो नृवु णल्लिणकेउ ।

घत्ता—पीइंकरि सुव्वयसंजइहि पासि मुण्णियणु घरणियल्लु ॥
चंदायणु चरिवि पसण्णमइ मय पक्खालिवि पावंमल्लु ॥ २० ॥

21

ईसाणि देवि तित्थाउ आय
इहु अजियसेणु चिरवरु दुलंघु
इय णिसुणिवि कण्णइ पुव्वजम्मु
संतिमइ सुगंथवियक्खणाहि
देवत्तु लहेप्पिणु वीयसग्गि
ता पेक्खइ जो णरजम्मि ताउ
जिह सो तिह अवरु वि अजियसेणु
थुइसयहिं पसंसिवि वरगिरेण
देविं चिंतिउ संसारु चित्तु
काणीणदीणदिज्जंतदाणि

संतिमइ तुहारीय धीय जाय ।
विज्जउ साहंतिहि करइ विग्घु ।
खेमंकरणाहहु पासि धम्मु ।
हूई सीसिणिय सुलक्खणाहि ।
संचरइ जाम गयणयलमग्गि । 5
सो जिणवरु जायउ वाउवेउ ।
रयणत्तयजलधुयकम्मरेणु ।
वेणिं वि वंदिय पणमियसिरेण ।
जिणधम्मि ण किज्जइ केम चित्तु । 10
चक्केसररज्जि पवड्डमाणि ।

घत्ता—खगमहिहरदाहिणंपंतियहि सिवमंदिरि घणवाहणहु ॥
विमलादेविहि संभूय सुय कणयमाल संपसाहणहु ॥ २१ ॥

22

संगरभरमारियखत्तियासु
गुणमणिउज्जोइयकुलहरासु

दिण्णी वसुहाहिवणत्तियासु ।
सोवण्णसंतिणामहु वरासु ।

५ A अमियसेणु. ६ A नृउ, P णिउ. ७ A पीइंकर. ८ AP सुय. ९ A पायमल्ल.

21 AP तुहारी. २ AP इय णिसुणेप्पिणु अप्पणउ जम्मु. ३ AP गयणमगमग्गि. ४ AP वेणिं वि पणविवि वदिवि सिरेण. ५ A देविं, P देविए. ६ AP °दाहिणसेट्ठियहि. ७ AP सुपसाहणहु.

13 a णा यणेउ ज्ञातपदार्थः. 14 घर णियल्लु गृहनिगडम्. 15 चंदायणु अमावास्यायामुपवासं कृत्वा एकादिग्रासानामेकोत्तरेण चतुर्दशपारणानि । पुनरुपवासं कृत्वा चतुर्दशग्रासानामेकोत्तरहान्या चतुर्दशपारणानि । तत एक उत्रवास, मय मृता.

21 4 a सुगंथवियक्खणाहि सुशास्त्रविचक्षणायाम्. 6 a ताउ पिता वायुवेग. 7 °धुय-कम्मरेणु °प्रञ्जालितकर्मरजा. 9 a चित्तु वैचित्र्यम्. 12 सपसाहणहु ससैन्यस्य समण्डनस्य वा.

22 2 b सोवण्णसंतिं कनकशान्ते. श्रीपेणपुत्रस्य.

वसुसारयणयरि समुद्रसेण
दोहिं मि सहं गउ गहणंतरालु
विमलप्पहु णामे तेत्थु साहु
णिसुणेवि तच्चु पावज्ज लइय
णारिहि णे चल मइ जणियसंति
सिद्धायलि काओसग्गु देवि
अवियाणियसमच्चित्तं जडेण
लहुपणइणिमेहुणएण ताहं
तज्जिउ खयरिदं असिगहेण

रायहु जयसेण वसंतसेण ।
घोलंतणीलदलवेह्लिजालु ।
अवलोइउ णाणजलोहवाहु । 5
सहं धरणिहिं तेण विमुक्कदइय ।
आसंघिय विमलमइ त्ति खंति ।
तिणिण वि थियाइं मणि जोउ लेवि ।
विज्जाहरेण वइरुभडेण ।
उवसग्गु रइउ तीहि मि जणाहं । 10
गउ चित्तचूलु णासिवि णहेण ।

घत्ता—णिवसुयसुउ कणयसंति णिवइ कणयमाल परिसेसिवि ॥

आहिउइ महियलि सुद्धमणु अप्पउ तविण विहासिवि ॥ २२ ॥

23

रयणउरइ राणउ रयणसेणु
अण्णेक्के वणि अच्छंतु संतु
एयहं दोहं मि मुणिवर समाणु
देवागमु पेक्खिवि हीणु दीणु
सो खलु वसंतसेणाहि सयणु
णियणात्तिउ णियवि अणंतणाणि
खेमंकरतायहु पासि दिक्ख
सिद्धहरिहि लेप्पिणु वरिसजोउ

तं तहु भयवंतहु दिण्णु दाणु ।
आढत्तु हणहुं कम्मइं खवंतु ।
संजायउ केवलि तिजगभाणु ।
पुणु मुणिवरकमकमलयालि लीणु ।
पणाविउ हिरिभावोणल्लवयणु । 5
णिच्चिण्णउ रइसुहि चक्कपाणि ।
मणि धरिवि असेस वि समयसिक्ख ।
थिउ देहविसग्गे मुक्कभोउ ।

घत्ता—संज्ञायइ पंचमहव्वयइं पंचहिं पंचे जि भावणउ ॥

पंचमगइणिच्चलणिहियमइ परिगयपंचेदियपणउ ॥ २३ ॥ 10

22 १ A adds after this: तह सुय उप्पणी वरमुएण, सा पुणु परिणिय पहुसुयसुएण.
२ AP णिच्चलमइ.

23 १ AP मुणिवरु. २ A हरिवाहोणावल्लवयणु. AP पंच वि.

6 b विमुक्कदइय प्रवज्याया विशेषणमिदम्, विमुक्ता दयिता भार्या यस्यां सा प्रवज्या. 10 a लहुं-
पणइणिमेहुणएण वसन्तसेनामातुलपुत्रेण चित्रचूलेण.

23 3 a एयहं दातृमारकयोरुपरि. 5 a सयणु मेहुणकः मातुलपुत्रः; b हिरिभावोणल्ल-
वयणु हीभावेन लज्जाभावेन अवनत्तद्वदनो नीचमुखः. 6 b चक्कपाणि वज्रायुध.. 7 b समयसिक्ख
आगमजिनशासनशिक्षाम्. 10 पणउ १स्नेहः.

चिरु हरिगीवहु सुय धम्मभट्ट	णामें रयणाउह रयणकंड ।	
संसारु भमेप्पिणु जाय देव	पहरंति पाव तं सावलेव ।	
आयइ रंभाइ तिलोत्तिमाइ	णिम्मच्छिय वंदियजइकमाइ ।	
अइवलु समहावलु खाणि पलाणु	पाविट्टहु कासु ण भग्गु माणु ।	
सहसाउहेण सयवलिहि रज्जु	ढोइवि ववसिउ परलोयकज्जु ।	5
ब्रंउ लइयउं पिहियासवहु पासि	मइ रमइ ण संतहु गेहवासि ।	
वइभारमहीहरि सिद्धिठाणि	दिट्टुउ णियसुहि जोयावसाणि ।	
तउ चरिवि तहि जि रिसिजुवलु मयउं	उवरिमगेवज्जहि णवरि गयउं ।	
घत्ता—एकूणतीससायरसमइं वेण्णि वि सुहुं भुजंत थिय ॥		
भरहुवरिगामि हिमअहिमर्यर पुष्पयंतसुराणियर पिय ॥ २४ ॥ 10		

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए
महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे वज्राउहचक्रवद्विवण्णं णाम
एकसट्ठिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६१ ॥

24 १ AP ससारि. २ AP वउ. ३ AP वइभारि महीहरि सिद्धिठाणि. ४ P सुयउं.
५ AP णवर. ६ A अहिमरय. ७ AP पुष्पयंत°.

24 सावलेव पापसहितौ. 3 b वंदियजइकमाइ वन्दितयतिचरणया. 6 b गेहवासि
गृह्यामि गृह्यामि वा. 7 b जोयावसाणि ध्यानावसाने.

पढमदीवि थियमेहइ
पुक्खलवइदेसंतरि

सुरगिरिपुव्वविदेहइ ॥
पवरपुंडरिगिणिपुरि ॥ ध्रुवकं ॥

1

तहिं घणरहु पहु सयमहणमिउ
तहु देवि मणोहर तुंगथणि
वज्जाउहु जो अहमिंदु हुउ
तणुतेओहामियभाणुरहु
सहसाउहु अमरु मणोरमइ
णिवकंतेइ णंदणु संजणिउ
भायरहं विहिं मि कमभाणियउ
हुउ एकहि णंदिवुहु तणउ
अवरेक्कहिं दिणि सुसेण गणिय
सा घणमुहु कुक्कुड लेवि गय
पडिपक्खि पक्खणक्खहिं हणइ
घत्ता—दिज्जइ सालंकारहं
एह वत्त णिसुणेप्पिणु

तिहुयणसिरिरमणीप्राणपिउ ।
गलकंदललंविद्यहारमणि ।
संभूउ गब्भि सो ताहि सुउ । 5
हक्कारिउ ताणं मेहरहु ।
गेवज्जहि आयउ सुहसमइ ।
सो सज्जणेहिं दढरहु भणिउ ।
पियमित्त सुमइ वरराणियउ ।
अण्णाहि वरसेणु वराणणउ । 10
पियमित्तहि घरु कोहुवणिय ।
भासइ देविहि पणमंति पय ।
कियवाउ एहु जो रणि जिणइ ।
ताहं सहस्सु दीणारहं ॥
अवरं वि पक्खि लण्णपिणु ॥ १ ॥ 15

2

कुलिसाणणु कुक्कुड कंचणिय
गरुडेण वि जिप्पइ एहु ण वि
ता हरिसैं वाइय जयवडह
तहिं आया घणरह मेहरह
पियमित्तसुमइकरयलपुसिय

अक्खइ सुमइहि घरं कामिणिय ।
उडुंतहु संकइ गयणि रवि ।
खुज्जुय णच्चंति लडहमडह ।
दढरह वरसेण णंदि सुमह ।
चिरजम्मणिवद्धवैरिवसिय । 5

1 १ AP थिए मेहए. २ AP पाणपिउ. ३ AP णिवकताणंदणु. ४ A सहासु. ५ AP अवरु.

2 १ P घरि कामिणिय. २ AP कुज्जय. ३ A णदिपमुह. ४ AP वइरसिय.

1 1 a पढमदीवि जम्बूद्वीपे, थियमेहइ स्थितमेधे. 7 b सुहसमइ शुभसमये. 9 b कमभाणियउ क्रमेण भणिते. 12 a घणमुहु घनमुख इति कुक्कुटनाम. 13 b कियवाउ कुक्कवाकु कुक्कुट. 15 b अवर अपरा प्रियमित्रा नाम.

2 1 a कुलिसाणणु वज्रतुण्ड', कंचणिय काञ्चनानाग्री सा सुमतेर्गणिका. 3 b लडहमडह मनोहरम्. 4 b णदि नन्दिवर्धन., सुमह सुतेजा.

जुञ्जंति पक्खि ते पवलवल
उल्लणवलणपरियत्तणहिं
रोसुद्धयकंधरकेसरय
तं ताएं पुच्छिउ मेहरहु
किं तंवचूल जुञ्जंति सुय

घत्ता—कहइ कुमार सुहावइ
सयडजीवि तिट्ठावर

चंचेलचंचुचरणारचल ।
पेहुणसिरसिहरवियत्तणहिं ।
जं केव वि ण ओसरंति सरय ।
संवोहहुं भव्वजीवणिवहु ।
भणु अवहिवंत सग्गग्गच्चुय । 10

एत्थु दीवि अइरावइ ॥
रयणउरइ णर भायर ॥ २ ॥

3

पहरेवि परुप्परु कट्ठिणभुय
णामेण पसिद्धा भइ धाणि
वहुपुंडरीयपंचाणणइ
सियकण्ण तंवकण्ण त्ति गय
कोसलणयरिहि गोउलियघरि
एप्पिणु जुञ्जेप्पिणु खयहु गय
वरसेणसत्तिसेणहं णिवहं
ए चूलि पइया संभरमि
दीवाइदीवि खगसिहरि वरि
खगु गरुलवेउ दिहिसेण प्रियं

घत्ता—कुसुमालुद्धइदिंदिरि
जइवर तेहिं णियच्छिउ

वलिवइहु कारणि कोवजुय ।
ते वे वि मरोप्पिणु तेत्थु धणि ।
कंचणसरितीरइ काणणइ ।
संजाया पुणु जुञ्जेवि मुय । 5
जाया सेरिह णववयहु भरि ।
तेत्थु जि पुरि कुरर पलद्धजय ।
अग्गइ जुञ्जिवि उज्जियकिवहं ।
भउ पेक्खालुअहं मि वज्जरमि ।
उत्तरसेट्ठिहि कणयाइपुरि ।
सुय चंदविचंदतिलय सुहिय । 10

सिद्धकूडजिणमंदिरि ॥
णियजम्मंतरु पुच्छिउ ॥ ३ ॥

4

थिउ लंछणु धादइविडवि जहिं
सुरादिसि अइरावइ तिलयपुरि

रिसि अक्खइ धादइसंडि तहि ।
पइ अभयघोसु सिरि तासु उरि ।

५ A चरणा चवल. ६ AP केम वि णोसरति.

3 १ AP वणि. २ A °तंवकण्णंत गय. ३ A मय. ४ A उररय लद्धजय, P उरर पलद्ध-
जय; T कुररय मेपौ, K कुरर मेपौ, पलद्धजय प्रलब्धजयौ. ५ AP चूलिय हूया. ६ AP °सिहरिसिरि.
७ AP पिय. ८ A कुसुमलुद्ध°.

6 b चंचेलचंचु वक्खञ्चु. 7 a °परियत्तण हिं परिवर्तनैः; b पेहुण° पिच्छानि. 8 b सरय
कोपयुत्तौ. 11 a सुहावइ सुखास्पदे. 12 a सयडजीवि शकटजीविनौ, तिट्ठावर तृष्णापरौ.

3 3 a °पुंडरीय व्याघ्र. 4 a सियकण्ण श्वेतकर्ण, तवकण्ण ताम्रकर्ण. इति गजौ जातौ.
5 b नेरिह महिपौ. 6 b कुरर मेपौ. 8 b पेक्खालुअहं प्रेक्षकयोर्द्वयोर्विद्याधरयोः. 9 a दीवाइदीवि
जगृदीपे, रगसिहरिवरि विजयार्थे. 10 चंदविचंदतिलय चन्द्रनिलकविचन्द्रतिलकौ.

जिह तिह गेहिणि कंचणतिलय
 मयरद्धयवार्णवरोल्लियहि
 णामें जगि जाणिय जय विजय
 विजाहरगिरिदाहिणइ तडि
 तहि संखु खयरु तहु जय धरिणि
 दिण्णी जयविजयजणेरयहु
 संवच्छरंति कईयवणिलय
 पभणइ सुवण्णतिलयहि तणउं
 आवेहि जाहुं जोयहि णिवइ
 मेरउं वणु जोव्वणु किं ण सुहुं

घत्ता—ताहि वयणु अवगण्णिवि
 गउ महिवइ वणजत्तहि

णावइ रइणाहहु रइविलय ।
 जाया सुय वेणिण पियल्लियहि ।
 णं कामदेव णिम्मयरधय । 5
 मंदरपुरि सरसु णंडंतणडि ।
 सुय पुहइतिलय ससिमुहि तरुणि ।
 तहु अवर ण रुच्चइ तहि रयहु ।
 णामेण विसारि चंदतिलय ।
 वणु फुल्लिउं फलियउं घणघणउं । 10
 ता चवइ सवत्ति विरुद्धमइ ।
 जें जोर्यहि दूयहि तणउं मुहुं ।

पडिवक्खु जि वहु मण्णिवि ।
 मलिवि माणु मृगणेत्तहि ॥ ४ ॥

5

साहीण काहि भत्तारदय
 करपंकयलुहियभालतिलय
 रिसिणाहहु संजमवयधरहु
 अवलोइवि पंचमहब्भुयइं
 अण्णउं मोहें ण विडंविउं
 इंदियपडिवलु रणि णिज्जियउं
 मुउ सव्भावें सम्मयणिरउ
 सिंसु तासुं वे वि तेत्थु जि अमर
 दिवि मरिवि वे वि ते भाइवर
 भुवि जाया गरुलवेयधणहि

सुमईगणिणिहि सा सरणु गय ।
 तवचरणि लग्ग पुहइतिलय ।
 पहुणा किउ भोयणु दमवरहु ।
 सुरकिणरणायरायथुयइं ।
 ससुएण वउ जि अवलंविउं । 5
 अरहंतणामु तेणज्जियउं ।
 हुउ अंतिमकप्पि पुरंदरउ ।
 जाया अच्छरकरधुयचमर ।
 तिलयंतिम चंद विचंद णर ।
 जाउडयजडिलमंडियथणहि । 10

4 १ AP °वाणविरोल्लियहि. २ AP ण मयरधय. ३ AP मंदिरपुरि. ४ AP णडति णडि.
 ५ AP कइवयणिलय. ६ A फलियउं घणउ घणउ, P फलियउं घणघणउ. ७ A नृवइ. ८ A जं
 जोयहि; P जें जायहि. ९ P मिगणेत्तहि.

5 AP अरहंतु. २ AP वे वि तासु. ३ P जाउडुय°.

4 3 b रइ विलय रतिवनिता. 4 a °वाण वरो ल्लिय हि वाणवरपक्ते. 5 b णि म्म यरध य
 कामदेवौ परतु मकरध्वजरहितौ मस्तके. 8 a °जणेरयहु पितुरभयघोपस्य, b तहि रयहु तस्यां रतस्य.
 9 a कइ यव णिलय कपटगृहभूता, b विसारि दूतिका. 11 b सवत्ति पृथ्वीतिलका. 12 b जें जो य हि
 दूयहि तणउं मुहु येन चन्द्रतिलकाया मुख वनगमनार्थमवलोकयसि. 13 b पडिवक्खु काञ्चनतिलकाम्.

5 1 a साही णेत्यादि स्वाधीना न कस्या अपि भर्तृदया. 2 a °लुहिय° मृष्ट° स्फेदितः. 3 b
 पहुणा अभयघोषेण. 5 b ससुएण पुत्राभ्या सह. 7 सम्मय° जिनमतम्. 9 b तिलयनिमचद-
 विचदणर चन्द्रतिलक° विचन्द्रतिलकश्च. 10 b जाउडय° कुङ्कमम्.

तं सुणिवि कुमारहिं वोळ्णियउं
भणु अभयघोसु उप्पणु कहि
जइ चवइ पुंडरिंकिणिपुरिहि

घत्ता—तणु मेळ्णिवि तियसाहिउ
जो सक्के पणविज्जइ

मुणि जम्मंतरु उव्वेळ्णियउं ।

पिउ वसइ जहिं जि गच्छामि तहि ।
णंदणु घणमालिणिसुंदरिहि ।

जायउ तेलुक्काहिउ ॥

सो जिणु किं वण्णिज्जइ ॥ ५ ॥

15

6

तहिं अच्छइ देउ सवंधुयणु
परिभमणणमणउट्टाणणिहि
दिव्वासं एहउ वज्जरिउं
गय वेण्णि वि चिरजणणासयहु
तायत्तणु तहु ससुयत्तणउं
गुणवंतहु गुत्तिगुत्तमणहु
गय णिव्वाणहु खरतवतवण
भउ णिसुणिवि पक्खिहिं कंदियउं
किमिपिंहु ण भक्खिउ मरिवि गय
वेंतरसुर जाया भूयकुलि
अण्णेक्कु भूयरमणंतवाणि
तहिं जहिं अच्छइ सुउ घणरहहु

घत्ता—भणुउं तेहिं जउपक्खिहिं
तुज्जु पसाएं आयउं

जोयंतु कूडकुक्कुडयरंणु ।

चितंतु घोरसंसारविहि ।

तं सुणिवि खयरभायर तुरिउं ।

पयडेप्पिणु अग्गइ जणसयहु ।

कम्माणुबंधविणियत्तणउं ।

वैउ लइउ णविवि गोवद्धणहु ।

ते चंदविचंदतिलय सवण ।

अप्पाणउं गरहिउं णिंदियउं ।

जिणवयणं दुक्खियवेळ्णियहु ।

तहिं एक्कु देववणि गिरिगुहिलि । 10

भूयाहिव वेण्णि वि पत्त खणि ।

संदरिसियविमलणाणपहहु ।

अम्हंहिं किमिउलभक्खिहिं ॥

दिव्वंभवंतरु जायउं ॥ ६ ॥

7

मेहरहदेव पइं दिणु सुहुं
मणुउत्तरमहिहरपरियरिउं
पणयाललक्खजोयणविउलु

आवहि विमाणि आरुहहि तुहुं ।

संसरिकुलसिहरिअलंकरिउं ।

अवलोयहि मणुयखेतु सयलु ।

४ A गच्छामि, P गच्छमि. ५ AP तइलोक्का°.

6 १ A °रयणु. १ AP वउ. ३ A दुक्खिय वेण्णि हय; P दुक्खियवेळ्णियहु. ४ AP सुउ अच्छइ. ५ A अम्हं. ६ AP दिव्वु.

7 १ AP विवाणि. २ P मणुसुत्तर°. ३ P °परियरउं. ४ AP सरिसर°.

11 b उव्वे णिय उ प्रकटीकृतम्.

6 ३ a दिव्वासं दिव्वाससा. 4 a °जणणासयहु पितृगृहम्. 7 b सवण श्रमणौ. 8 a भउ पृष्ठभवम्. 10 b देववणि देवारण्ये.

7 2 a मणुउत्तरमहि हरपरियरिउ मानुपोत्तरनिरिदेषितं मनुयक्षेत्रम्.

उवयारहु पडिउवयारु किह
 दुलंधु सदेवहं दाणवहं
 तां इच्छिवि कीलाभवणु मणि
 णिर्धसहयरकिकरगुरुसहिउ
 णहि सुरहरि जंति विविहँपुरइं
 घत्ता—एहु भरहु अवलोयहि
 एह दिव्व गंगाणइ

तुह किज्जइ जसु जगि रिद्धिसिह ।
 अहिवंदणिज्जु वरमाणवहं । 5
 आरूढउ सुंदरु सुरभवणि ।
 कुकुडदेविहिं भत्तिइ महिउ ।
 दावंति देव देसंतरइं ।
 इहु हिमवंतु विवेयहि ॥
 एह सिधु मंथरगइ ॥ ७ ॥ 10

8

इहु दीसइ णिम्मल्लु पोमसरु
 हइमवउ एहु पूरियदरिउ
 तुहिणइरि एहु गरुयउ अवरु
 हिरिदेवि एत्थु णिच्चु जि वसइ
 इहु एत्थु वहइ णामेण हरि
 इहु मंदरु ए गयदंतगिरि
 इहु णिसहु णाम महिहरु पवरु
 दिहिदेवि एत्थु विरइयभवणं
 एयाइं विदेहइं दोणिण पिय
 इहु णील्लिहि केसरि णाम दहु
 इहु रम्मु एउ णइणारिवर
 इहु रम्मिधंराहरु पुंडरिउ
 घत्ता—बुद्धिदेवि इहँ अच्छइ
 जिणवरसेवासिद्धउं

सिरिदेविसहिउ रंजियंभमरु ।
 वररोहियरोहियाससरिउ ।
 अण्णेक्कु महासयवत्तसरु ।
 हरिवरिसु एउ सग्गु वि हसइ ।
 अण्णेक्कु पेक्खु हरिकंतसरि । 5
 इहु सुरंकरु उत्तरंकरु सँसरि ।
 इहु जोवहि णिव तिंणिगिच्छिसरु ।
 अच्छइ सुरंरायणिहँत्तमण ।
 सरि सीया सीओया वि थिय ।
 इहु दीसइ कित्तीदेविसँहु । 10
 णरकंत एह पवहइ अवर ।
 सरु एत्थु देव पाणियभरिउं ।
 जगि माणउ जो पेच्छइ ॥
 तेण णयणफलु लद्धउं ॥ ८ ॥

५ P तो. ६ AP णिउ सहयर°. ७ A विविफुरइं. ८ K देसंतइ.

8 Mss. read एहु and इहु promiscuously here. १ A रजिय°. २ A हइमवइ.
 ३ P रोहिणि रोहियासउ सरिउ. ४ A तुहिणयरि. ५ P reads this line after 8 b. ६ A सुर
 कुरु. ७ A ससरि. ८ AP °भवणु. ९ A सुयराय°. १० AP णिहित्तमणु. ११ A केसरु. १२ A
 ओ दीसइ; P पहु दीसइ. १३ A सुहु. १४ AP पहु, probably प is confounded with ए.
 १५ A रम्मि. १६ AP एह.

4 b रिद्धि सि ह ऋद्धिशिखा लक्ष्मीपरमप्रकर्षः. 6 a की ला भ व णु क्रीडाभ्रमणम्. 7 b कु कु ड दे वि हिं
 कुकुटचराभ्याम्. 9 b वि वे य हि जानीहि.

8 2 a हइमवउ हैमवतगिरिः, b रो हि य रो हि या स रोहितरोहितास्ये नद्यौ. 3 a तु हि ण-
 इ रि महाहिमवान्; b महासयवत्तसरु महापद्महृदः. 5 a a हरि हरिन्नदी. 6 b स सरि नदीसहितौ.
 8 b सुररायणिहत्तमण सौधमेन्द्रे आरोपितचित्ता. 10 a दहु हृद, b °दे विसहु °देव्या सह.

9

णिव खेत्तु हिरण्वंतु णियहि
रुप्पयकूल वि इह एम गय
सो एहु सिंहरिगिरि सिंहरपिउ
लच्छीदेविहि रुच्चइ रमइ
रत्तारत्तोयसरिहिं सहिउं
फुल्लियतरुमालापरिमलइं
पिच्चंति कलमकयैलीहलइं
कच्छाइयाइं विसयंतरइं
दरिसंति^१ अमर जोयंति णर

घत्ता—कंदरुदरिक्कीलियसुर
अकयइं मणियरतंवेइं

सोवण्णकूलसरिजल्लु पियहि ।
जहिं कुद्धहिं सीहहिं हात्थि हय ।
सरु पत्थु महापुंडरिउ हिउ ।
ओहच्छइ इह वासरु गमइ ।
अइरावउ एउं खेत्तु कहिउं । 5
वरिसंति मेह धारोजलइं ।
णच्चंतमोरपिच्चुज्जलइं ।
खेमाइयाइं णयरइं वरइं ।
विम्हइयहियय कंपवियकर ।

जोइवि णाणागिरिवर ॥ 10
वंदिवि जिणपडिविंवेइं ॥ ९ ॥

10

णरखेत्तु गिरीसरिमालियउं
तहु उप्परि मणुयहं णत्थिं गइ
पडिआया घणरहनृवणयरु
पुज्जिवि कुमारु गय तियस तहि
संसारु असारु विवेइयउ
घणरहिण पुत्तु हक्कारियउ
लोयंतिणहिं उदीवियउं
जाणं माणिककविराइपण
गउ वंणि किउ देवें तवचरणु

घत्ता—भूगोयरखगरायहि
णमिउ जिणिंदु हयत्तिइ

मणुसुत्तरु जाम णिहालियउं ।
पल्लइ सविम्हयभिण्णमइ ।
जयजयसइं पइसरिवि घरु ।
णंदणंवाणि णियणयरइं जहिं । 5
इंदियकंखइ पडिचोइयउ ।
मेहरहु राज्जि वइसारियउ ।
वेरग्गु तेणं णिरु भावियउं ।
णरखयरसुरिंदुच्चाइपण ।
उप्पायउ केवल्लु मलहरणु ।

चउविहदेवणिकायहिं ॥ 10
तणपं जाइवि भत्तिइ ॥ १० ॥

9 १ A वरिसंत. २ A जलधाराइं. ३ A °केली°. ४ AP णच्चंति. ५ P °पिंहुज्जलइं. ६ P दरिसंति य अमर°. ७ P विंमहय°. ८ A दरकेलिय°.

10 १ A मणुउत्तर. २ AP सविंभव°. ३ AP णिवणयर. ४ A पइसेवि, P पइसरवि. ५ A °वणणिय°. ६ AP तेहिं. ७ A वणु. ८ AP णविउ.

9 3 a सि हरि गि रि शिखरी नाम पर्वत., सि हर पि उ शिखरैः प्रियः. 4 b ओ हच्छइ एया लम्बी. निश्रुति. 5 a रत्तारत्तोयं रत्ता रत्तोदा च. 7 a पि च्चंति पक्कानि भवन्ति. 8 a विसयंतरइं कच्छाइवेशा.. 11 a अकयइं अकृत्रिमाणि, म णियरतंवेइं रत्नकिरणताम्राणि.

10 1 a मालियउं °मालायुक्तम्, सहितमित्यर्थः. 3 a घणरहनृवणयरु पुण्डरीक्किणी. 5 b पडिचोइयउ पश्चाद्भक्तित्., पुत्र. प्रेम्ति वा. 11 a हयत्तिइ हतपीटया भक्त्या.

11

अण्णहिं दिणि वणि तरुकोमलइ
 आसीणउ राणउ मेहरहु
 विजाहरविजाचोइयउं
 तं ताहं ण वच्चइ पॅउ वि किह
 आरुद्धउ वड्ढियअमरिसउ
 महियलि कीलंतु रत्तु सुयणु
 उत्थल्लिवि घल्लमि एउ खलु
 इय चित्तिवि कुहु अकारणइ
 तलि पइसिवि चालिय तेण सिल

घत्ता—अरिवरु तणु व वियप्पिवि
 मेहरहे पंडिपेल्लिय

पियमित्तइ समउं सिलायलइ ।
 जांवच्छइ ता ढकंतु णहु ।
 उप्परि विमाणु संप्राइयउं ।
 वायरणवियारणु जडहुं जिहं ।
 खेयरु अवलोयइ दसदिसउ । 5
 दिद्धउं उवविद्धउं णरमिहुणु ।
 अणुहवउ विमाणुणिरौहफलु ।
 विज्जइ पायालवियारणइ ।
 डोल्लिउ बहुवरु थरहरिय इल ।

सिल चरणयलें चप्पिवि ॥ 10
 तासु जि मत्थइ घल्लिय ॥ ११ ॥

12

संचलहुं ण सक्कइ सो खयरु
 तहु घरिणि भणइ उद्धरहि लहुं
 मा मारहि रमणु महं तणउ
 तं^३ णिसुणिवि करपल्लवि धरिवि
 पहु भणइ म मेल्लहि करुणसरु
 विहलुद्धाराणि पसरियहरिस
 थिउ वीलावसु ओणल्लमुहु
 पियमित्तइ णाहु पपुच्छियउ
 तं णिसुणिवि ओहिणाणयणु

घत्ता—धादइसंडएरावइ
 रामगुत्तु नृवु हॉतउ

आकंदइ रवपूरियविवरु ।
 दे देहि वप्प पइभिक्षु महं ।
 तुहुं देवै वइरिविद्वावणउ ।
 कड्ढिउ कारुणें दय करिवि ।
 लइ अम्मि तुहारउ एहु वरु । 5
 पिसुणहं मि खमति महापुरिस ।
 णहंयलु अवलोइवि जायदुहु ।
 कहु तणउ एहु कहिं अच्छियउ ।
 अक्खइ णरवइ पहुल्लवयणु ।

तहि संखउरि सुहावइ ॥ 10
 संखिणिरमणीरत्तउ ॥ १२ ॥

11 १ P ढकतु. २ A विजाहर. ३ AP विवाणु संप्राइयउ. ४ P वच्चइ उवरि किह. ५ A आरुद्धउ. ६ A चत्तसुयणु. ७ A घल्लिवि एहु, P घल्लिमि एउ. ८ AP विवाणु. ९ P विजाइ. १० A तेणुच्चइय सिल. ११ A अरिवर. १२ A पंडिमेल्लिय.

12 १ A मह तणउ. २ AP देउ. ३ P ते. ४ AP ओणल्लमुहु. ५ AP णहयरु. ६ A जायसुहु. ७ AP महिवइ. ८ A पफुल्लवयणु, P पफुल्लवयणु. ९ AP णिउ.

11 2 b ढकतु आच्छादयन्. 4 a पउ वि पदमपि, b वायरणवियारणु व्याकरणविचारः. 8 b पायालवियारणइ पातालविदारिण्या. 9 b इल पृथ्वी. 10 a तणु व तृणमिव. 11 घल्लियक्षिता.

12 2 b पइभिक्षु पतिभिक्षा, पतिजीवितमित्यर्थः. 3 a महु तणउ मदीय. 6 a विहलुद्धाराणि दु खितजनोद्धरणे. 7 a वीलावसु लजापरः, ओणल्लमुहु अश्रोमुखः. 9 b पहुल्लवयणु प्रफुल्लवदनः.

13

रंजियसहूलणिरंतरइ
मुणि सव्वगुत्तु आसंधियउ
जिणगुणउववासं खविवि तणु
दिहिसेणहु दाणु पयच्छियउं
विरएप्पिणु परमेट्ठिहि ण्हवणु
संणासं मुउ वंभेदु हुउ
सीहरहु एहु खयराहिवइ
इहु पुण्णवंतु जयलच्छियउ

घत्ता—अंगइं गेण्हंवि छंडिवि
दुल्लहभोयाकंखिणि

संखइरिगुहाकुहरंतरइ ।
दोहिं मि संसारु विलंधियउ ।
जिणचरणकमलि थिरुं करिवि मणु ।
पंचविहु वि चोज्जु णियच्छियउं ।
पणाविवि समाहिगुत्तु समणु । 5
कालेण णवर तेत्याउ चुउ ।
देवहुं दुज्जउ तिहुवणविजइ ।
मइं जित्तउ तो किं मज्जु मउ ।

चिरु संसारि विहंडिवि ॥
जिणतवेण सा संखिणि ॥ १३ ॥ 10

14

गय सग्गहु पुणु वेयंहुधरि
विज्जाहरु इंदकेउ वसइ
सुप्पह उप्पण्णी ताहं सुय
एयइ पिययमु ओलणियउ
णिसुणिवि भंवि संसरियउं विउलि
घणरहजिणकर्मकमलउं मंहियउं
पियमित्तवेयर्गणणीकहिउ
थिय मयणवेयविरइइ किह
दक्खालइ लोयहुं णायवहु

घत्ता—णंदीसरि संपत्तइ
दंसणु णाणु समिच्छइ

दाहिणसेट्ठिहि वसुमालपुरि ।
पिय मयणवेय तहु अत्थि सइ ।
ओहच्छइ वालमुणालभुय ।
भत्तारभिक्षु हउं मणियउ ।
सुउ थविवि सुवण्णतिलउ सउलि । 5
सीहरहं मुणिचरित्तु गंहियउं ।
संजमु जमु अवलंवि वि सहियउ ।
कइमइ दुक्करकहरीण जिह ।
तहिं रज्जु करइ सो मेहरहु ।

जिणु ज्ञायंतु सचिंत्तइ ॥ 10
उववासियु जावंच्छइ ॥ १४ ॥

13 १ A खवियतणु. २ AP संणिहिय मणु. ३ A गिण्हइ. ४ A संसार.

14 १ A वेयंहुधरि. २ A तासु. ३ P has तं before णिसुणिवि. ४ A भव संसरियउ, P भवि संसरियउं. ५ AP कमजुयलउं. ६ P महियउं. ७ P गहियउं. ८ A °गणिणी°. ९ A सह-
त्तइ. १० A जा अच्छइ; P जामच्छइ.

13 2 a आसंधियउ आश्रितः. 3 a जिणगुणउववासं पञ्चकल्याणानां क्रमेण पञ्चोप-
वासा । षोडशतीर्थकरत्वकाणानां षोडश । अष्टप्रातिहार्याणामष्टौ । चतुस्त्रिंशदतिशयानां चतुस्त्रिंशत् ।
आदावसाने च षष्ठाष्टमम्. 4 b णियच्छियउं दृष्टम्. 5 a घउ धवो मर्ताः b मउ मदो गर्वः.

14 1 a ओलणियउ सेवितः. 5 b सउलि स्वकुले. 7 b सहियउ स्वहितम्. 8 b कइ-
मइ दुक्करकहरीण जिह कविमतिर्यया दुक्करकयाकथने श्रान्ता. 9 a णायवहु न्यायपयः. 11 b
जावंच्छइ दावच्छिप्रति मेहरयः.

15

भवभावपवेवियसव्वतणु
तावेक्कु कवोउ पराइयउ
किर झ त्ति झैडप्पिवि लेइ खलु
ता पक्खिण्णारिंदे वारियउ
किं मारहि वारहि अप्पणउं
ता पुच्छइ दढरहु देव किह
पहु अक्खइ मंदरउत्तरइ
पुरि पउमिणिखेडइ मंदगइ
धणमित्तु तासु वल्लहु तणुउ
मुइ वणिवरि भायर जायरइ
ते लुद्ध मुद्ध मुय वे वि जण

घत्ता—इहु मारइ इहु णासइ
णहि पंतें हउं दिट्टउ

चलंमरणुत्तासिउ सरणमणु ।
तहु पच्छइ गिद्धुं पराइयउ ।
णियवइरिहि लुंचिवि खाइ पलु ।
पइं एहु भवंतरि मारियउ ।
मा पावहि भवि दुहुं घणघणउं । 5
महुं कहहि कहाणउं वित्तु जिह ।
खेत्तंतरि सोक्खणिरंतरइ ।
धेण सागरसेणहु अमियमइ ।
पुणु जायउ णंदिसेणु अणुउ ।
अवरोप्परु पंहणिवि धणहु कइ । 10
जाया खग मारणदिण्णखण ।

भीयउ रक्ख गवेसइ ॥

मज्झु जि सरणु पइट्टउ ॥ १५ ॥

16

अण्णोण्णु जि भक्खिवि जणु जियइ
इहु दीणु इहु णिरु भुक्खियउ
किं किज्जइ खगु दिज्जइ जइ वि
तहि अवसरि कुंडलमउडधरु
जइ देसि ण तो गिद्धहु पलउ
चाइत्तणु तेरउ किं करइ
मइं चाउ करेवउ तेम तिह
वर अचल्लउ णिग्गुणु लुहियतणु

ण णिहालइ णिवडंती णियइ ।
ईय चित्तिवि राउ द्रवक्खियउ ।
णउ लब्भइ धम्मलाहु तइ वि ।
अंवरयलि थिउ भासइ अमरु ।
पलि दिण्णइ पारावयहु खउ । 5
तां विहसिवि महिवइ वज्जरइ ।
जिउ ण मरइ ण हवइ हिंस जिह ।
णउ ओर्याविज्जइ प्राणिग्गुणु ।

15 १ AP चल. २ AP सेणु. ३ A झडेप्पिणु. ४ P भवि भवि दुहुं घणउं. ५ P वणि-
सागर°. ६ A पहरिवि. ७ P °दिण्णमण.

16 १ A एउ. २ A दुवक्खियउ, P दुवक्खियउ, T दुवक्खियउ पक्षद्वय.. ३ A हिजइ.
४ AP सेणुहु. ५ A तो. ६ A उज्जाविज्जइ. ७ A पाणिगणु, P पाणिगुणु.

15 1 a °पवे विय° प्रकम्पिता. 2 a कवोउ कपोतः. 4 a पक्खि गृध्रः. 8 b धण भार्या.
9 b अणुउ अनुजः. 10 a जा यरइ जातरजसी जातकालुप्यौ; b धणहु कइ धनस्य कृते, धनार्थम्.
11 b °दिण्ण खण °दत्तप्रस्तावौ. 12 b रक्ख रक्षणम्.

16 2 b द्रवक्खियउ भीतः. 5 a पलउ क्षय, b पलि दिण्णइ मासे दत्ते सति. 6 a
चा इत्तणु त्यागित्वम्. 7 b जिउ जीव. 8 b ओ या विज्जइ उपद्रवं प्राप्यते, मार्यते.

किं वग्धु भणिज्जइ पच्च गुणि

घत्ता—जेहि णियागमि वुत्तउं
ते लहंति दुणिरिक्खइं

आहारु असुद्धु ण लेंति मुणि ।

आमिसु दिण्णउं भुत्तउं ॥ 10
भवि भवि विविहइं दुक्खइं ॥ १६ ॥

17

तं णिसुणिवि देवें संसियउ
गउ अमरु णिवाणुणण भणिउ
को एहु किमत्थु समागमणु
पइं दमियारिहि रणि पाइयउ
भवि भमिवि सुइरु कइलासयडि
वरसिरिद्धाकंतावसहु
चंदाहु णाम प्रिउ पाणपिउ
जोइसकुलि उप्पणउ अमरु
ईसाणणामकप्पाहिवइ
महुं केरी चायसुभोयथुइ
आएं महु सीलु णिरिक्खियउ

घत्ता—एउ वयणु णिसुणेर्पिणु
वंदिवि जिणवरसासणु

मेहरहु सिरेण णमंसियउ ।

कोऊहलु महुं हियवइ जणिउ ।

तां कहइ णराहिउ रिउदमणु ।

हेमरहु णाम णिउ घाइयउ ।

वणि पण्णकंततीरिणिणियडि । 5

सुउ जायउ सोम्महु तावसहु ।

पंचग्गिताउ तउ तेण किउ ।

गउ जहिं हरि अच्छइ कुलिसकरु ।

तहिं तियसहं णिसुणिवि वयणगइ ।

इहु आयउ कुद्धु अजायरुइ । 10

चित्तेण असेसु परिक्खियउ ।

पक्खें रोसु मुएप्पिणु ॥

कयउं विहि मि संणासणु ॥ १७ ॥

18

वेणिण वि सुरुवअइरुववर
णरणाहु तेहिं संमाणियउ
पइं रउरवि णिविडमाण धरिय
गय सुरवरराएं दमवरहु
हुंहुहिरउ मणिकंचणवरिसु

सुररमणवणंतरि जाय सुर ।

पइं देवं धम्मु जगि जाणियउ ।

अम्हइं मि कुजोणिहि णीसरिय ।

कय भोज्जजुत्ति संजमधरहु ।

सुरजयसरु पाउसु कयहरिसु । 5

17 १ A तो. २ AP पण्णकति°. ३ A सोमहु. ४ AP पिउ. ५ A कुलिसधरु. ६ A वायसुभोय°. ७ A कुद्ध व जायरुइ. ८ P णिसुणेविणु.

18 १ AP धम्मु देव.

17 2 a णिवाणु णेन दृश्येन. 4 a पइं त्वया अनन्तवीर्येण सता दमितारिणुपस्य
मृत्यो हेमरथो मारितः, पाइ. कत° पर्णकान्ता नाम नदी. 6 a वरेत्यादि वरा
श्रीदत्ता कान्ता तस्या वगत्य. 11 a मोगल्लि.; b अजायरुइ अजातरुचिः.

18 1 a सुरुववर
गन्तोदकवृष्टिः.

सुररमणवणंतरि देवारण्ये. 5 b पाउसु

मरु सुरहियंगु मंथरु वहइ
पुणु णंदीसरि पोसहु करिवि
ईसाणसुरिंदें वण्णियउ
वण्णियउ कहु केरउं चरिउ पइं

घत्ता—ते^३ णियगुज्जु ण रक्खिउ
मइं संथुउ परमेसरु

जणु जणहु दाणु विलसिउ कहइ ।
थिउ पडिमाजोएं जिणु सरिवि ।
अण्णाहिं देवहिं आयण्णियउं ।
को तुज्जु वि गरुयउ देवें सइं ।

सुरचररापं अक्खिउ ॥ 10
सिरिमेहरहु महीसरु ॥ १८ ॥

19

तं णिसुणिवि देवि सुरुविणिय
जहिं अच्छइ राउ समाहिरउ
दोहिं मि गाढउ आलिंगियउ
दोहिं मि सुमहरु संभासियउ
णीवीणिवंधु आमेल्लियउ
दोहिं मि सवियारु पलोइयउ
अचलत्ते अहिणवमंदरहु
तं वेण्णि मि वंदेप्पिणु गयउ
अण्णाहिं दिणि सुर चवंति जुवइ
ता भासइ ईसाणाहिवइ

घत्ता—ता देवय मणि कंपइ
रुवें मण्णइ माणवि

अणेक दुक्क अइरुविणिय ।
तहिं ताहिं तासु दाविउ समउ ।
दोहिं मि मुहचुंवणु मग्गियउ ।
दोहिं मि आहरणाहिं भूसियउ ।
दोहिं मि थणकलसहिं पेळियउ । 5
दोहिं मि उरुउप्परि ठोइयउ ।
जं हियउ ण हित्तउ सुंदरहु ।
वंदारयघरिणिय अविश्यउ ।
णरलोइ अत्थि कि रूववइ ।
पियमित्तहि केरी रूवगइ । 10

पुरहूयउ किं जंपइ ॥
आगय रइ रइसेण वि ॥ १९ ॥

20

अइंसणीहिं सुरकामिणिहि
अब्भंगिउ अंगु मणोहरउं
वेण्णि वि पुणु दारि परिट्ठियउ
अक्खिउ कण्णइ कट्टियहरइ

जोइवि अइरावयगामिणिहि ।
उग्घाडउं तुंगपयोहरउं ।
देविउं दंसणउकंठियउ ।
अच्छंति त्थयउं दारंतरइ ।

२ AP देउ. २ AP तं.

19 १ A समहरु. २ AP पुरुहूअउ.

20 १ A सदसणीहिं. २ P देविहिं. ३ AP तियउं.

6 b सुर हि यंगु सुरमिताङ्ग.; सुगन्धस्वरूप इति भाष्ये.

19 2 a समाहिरउ समाधिरतः, b दाविउ समउ अवसरो दर्शितः. 5 a णीवीणिवंधु कटीवस्त्रवन्धनम्. 6 b उरुउप्परि हृदयोपरि, वक्षसि. 8 b अविश्यउ अविश्यते अत्रते द्वे. 11 b पुरहूयउ देवेन्द्रः. 12 a माणवि मनुष्यस्त्री.

20 1 a अइंसणीहिं प्रच्छन्नाभ्याम्. 3 a दारि द्वारे.

किं खेयरीउ किं अच्छरउ
तं ण्हाइवि जणमणसाहणउं
सुरणारिउ पुणु पइसारियउ
अवलोइवि झीणु रूवविहवु
तेरउं सरूउ रूवहु ढलिउ

घत्ता—ता रइसुहि णिविण्णी
उम्मण दुम्मण थक्की

तुह दंसणमणउ अमच्छरउ । 5
लहुं लइयउं ताइ पसाहणउं ।
माणवजणदूरोसारियउ ।
देवयहिं पवुत्तु ण किं पि धुवु ।
पुव्विल्लहि रेहहि परिगालिउ ।

सा पियमित्त विसण्णी ॥ 10
माणमरट्टे मुक्की ॥ २० ॥

21

तं पेक्खवि गउ मणहरवणहु
चउपव्वपयारि अणासयहं
सावयअज्जयणु ण तं रहुइ
विविहउ घरधम्मपवित्तियउ
दढरहिण ण रज्जु समिच्छियउ
सुउ मेहसेणु पच्छइ थविवि
सहुं भाइइ सहसा लइउ तउ
धीरहिं णिंदियइंदियसिवहिं

घत्ता—सिरिपुरि थरि सिरिसेणहु
अंतयपुरि णिवणंदहु

राणउ पणविवि घणरहजिणहु ।
आउच्छइ वित्ति उवासयहं ।
सत्तमउ अंगु रिसिवइ कहइ ।
किरियाउ असेसउ उत्तियउ ।
णीसारु दुंरंगु दुगुंछियउ । 5
मेहरहिं जिणवरु विण्णविवि ।
वारहविहु सोसिउ विसमभउ ।
भयसमसहसाहिं सह पत्थिवहिं ।

भुंजिवि दिण्णसुदाणहु ॥ 10
थाइवि अमराणंदहु ॥ २१ ॥

22

तहिं भत्तपाणागिद्धिइ रहिउ
पइसिवि वणंगिरिवरकंदरइ

इच्छिवि णिच्छियमत्तासहिउ ।
फाणिविच्छियंघरि तरुकोडुरइ ।

४ A समच्छरउ. ५ A सुहणिविण्णी.

21 १ A हरइ. २ A विण्णिविवि; P वेण्णविवि. ३ A विसमतउ. ४ A णिवदाणहु.

22 १ AP भत्तु पाणु. २ A वणे गिरि°. ३ A विच्छियतरुगिरि°. ४ AP कोडुरइ.

5 b अमच्छरउ मत्तररहिते. 9 b रेहहि गोभायाः. 10 रइसुहि रतिसुखे.

21 2 a चउपव्वयारि चतु.पर्वप्रकारे; अणासयहं अनाशानामुपोपितानाम्, अथवा कर्मा-
श्रवरहितानाम्; b उवासयहं श्रावकाणाम्. 3 a-b सावयअज्जयणु सत्तमउ अंगु उपासकाध्ययनं
सत्तममङ्गम्. 4 a घरधम्मपवित्तियउ अणुव्रतगुणव्रतशिक्षाव्रतानि, b किरियाउ एकैकस्य व्रतस्य पञ्च
पञ्च भावनाः. 7 b विसमभउ संसारः. 8 a इंदियसिवइ इन्द्रियसौख्यानि. 10 a अतयपुरि
दत्तपुरे इत्यर्थे; णिवणंदहु नन्दनराजगृहे.

22 1 a गिद्धिइ रहिउ आकांक्षारहितः; b णिच्छियमत्तासहिउ निश्चितमात्रासहितम्,
2 b विच्छियं वृश्चिकः.

णिण्णासइ सँत्त वि सो भयइं
दिहु वंभचेरु णवविहु धरिउ
दहभेउ विकालु वि लक्खियउ
वारह अणुपेक्खउ चिंतवइ
चउदहगुणठाणइं अब्भसइ
परिभाविवि सोलहकारणइं

घत्ता—सहुं बंधवेण अणिंदहु
दूसहणिट्ठाणिट्ठिउ

मयच्चिंधइं तहु अट्ट वि गयइं ।
दहविहु जिणधम्मु परिप्फुरिउ ।
एयारह अंगइं सिक्खियउ । 5
तेरहँ चारित्तइं थिरु थवइ ।
पण्णारहविह पमाय पुसइ ।
तित्थयरत्तणहकारणइं ।

गउ णहतिलयगिरिंदहु ॥
तहिं अणसणिण परिट्ठिउ ॥ २२ ॥ 10

23

हियउल्लउं मुणिमग्गेण णिउ
जइपुंगम घणरहरायसुय
सव्वत्थासिद्धिसुरैहरि धवल
तेत्तिससमुंद्दजीवियपवर
तइ वरिससहासइं लेति खणु
जगणाडिपलोयणणाणधर
ते णिप्पडियार पसण्णमइ
रिज्झंति धम्मसंभासणइं
केवलि उप्पण्णइ जिणवरहं
सहुं भायेरेण अहमिंदु सुरु

घत्ता—गोत्तमेण जं अक्खिउ
जं सुहु सोत्तहिं माणइ

पाउंगमरणु मासंतु किउ ।
मँय वेणिण वि ते अहमिंद हुय ।
करमेत्तदेह वरमुहकमल ।
तेत्तिय जि पक्ख णीसासधर ।
आहारु वि चिंतिउ सुहँमु अणु । 5
तेत्तियवीरियविकिरियकर ।
कत्थइ णउ ताहं विर्याररइ ।
कत्थइँ मुयंति सीहासणइं ।
भुवि जाइजराजम्मणहरहं ।
जाणंतु तच्चु पर्णमंतु गुरु । 10

जं भरहेसँ लक्खिउ ॥
पुप्फयंतु तं जाणइ ॥ २३ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे मेहरहतित्थयरगोत्तणिबंधणं
णाम दुसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६२ ॥

५ AP सो सत्त वि भयइ. ६ AP अणुपेक्खउ. ७ P तेरह वि चरित्तइं थिरु धरइ.

23 १ A पाउवगमणु. २ AP मुय. ३ A ०हरधवल. ४ AP ०जलहिं. ५ A सुहुमु.
६ AP विहाररइ. ७ A कत्थइ ण मुयंति. ८ A पणवंतगुरु.

3 b म य चिं धइं मदस्य लक्षणानि. 5 a द ह भेउ वि का लु दशवैकालिकं यतीनामाचारशेपनिरूपकम् .

23 2 a घ ण र ह रा य सु य तीर्यकरपुत्रौ. 3 a ध व ल उज्ज्वलशरीरौ; b क र मे त्त दे ह एक-
हस्तमात्रशरीरौ. 5 a त इ तावन्मात्रम्. 6 b तेत्तियं जगन्नाडीपर्यन्तम्. 8 a रिज्झ ति ऋद्धिं गच्छन्ति.
12 a सो त्त हिं कर्णाभ्याम्.

छम्मासइं आउससेसइं थियइं जाम अहमिंदहु ॥
ता रम्मइ तहि सोहम्मइ जाय चिंत तियसिंदहु ॥ ध्रुवकं ॥

1

जिणवरण्हवणण्हवियगिरिमंदरु	धणयहु अक्खइ देउ पुरंदरु ।
कुंजरकरताडियसीयलजलि	सिसिरकिरणविलसियणीलुप्पलि ।
णवखरदंडसंडमंडियसरि	दसदिसु गुमुगुमंतमयमहुयरि । 5
सीमारामगामरमणीयइ	दीणाणाहदिणतवणयिइ ।
गंधसालिकेणसुरहियपरिमलि	कीरकुररकलहंसीकलयलि ।
दिव्वुज्जाणविडविणिवडियफलि	जंवूदीवि भरहि कुरुजंगलि ।
हत्थिणयरु तहि मंडलि छज्जइ	तूरहं सहे णं गलगज्जइ ।
सग्गे सरिसउ अप्पउ मण्णइ	घरसिहरहि हरइ व तिजगुण्णइ । 10
अजियसेणु तहि पहु पियवाइणि	तहु पियदंसण णामे पणइणि ।
वंभकप्पचुउ वइरिविमइणु	वीससेणु उप्पण्णउ गंदणु ।
सुणि गंधारदेसि गंधारइ	पुरि पंडुरघरि पुहईसारइ ।
तहि णरणाहु णाम अजियंजउ	अजियदेविवल्लहु परदुज्जउ ।
यत्ता—ते राएं सुहिअणुराएं णिरु भल्लारउं भाविउं ॥	15
अइरा सुय णवकिसलयभुय वीससेणु परिणाविउ ॥ १ ॥	

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:-

वन्ध सौजन्यवार्ये कविखलधिपणाध्वान्तविध्वंसभानु
प्रौढालंकारसारामलतनुविभवा भारती यस्य नित्यम् ।
वक्त्राम्भोजानुरागक्रमनिहितपदा राजहंसीव भाति
प्रोद्यद्गभीरभावा स जयति भरते धार्मिके पुष्पदन्त. ॥ १ ॥

AP read वन्धु in the first line for वन्धः, but K has a gloss सेतुः on it. P reads °भावः for °भावा in the third line.

1 १ AP °वियसिय°. २ A सीमागामराम°. ३ AP °कणपसरियपरिमलि.

1 4 b सि सिरकिरण विलसिय° चन्द्रविकसितानि. 5 a णवखरदंड° नवपद्मानि,
b मयमहुयरि °मदोन्मत्तमधुकरे. 9 a मंडलि देणे, छज्जइ जोमते. 11 a पियवाइणि प्रियवादिनी;
b पियदंसण प्रियदर्शनानाम्नी. 12 b वीससेणु विश्वसेनः. 15 ते राएं तेन राजा अजितसेनेन.
16 अइरा इति नाम, णवकिसलयभुय कोमलभुजा.

2

पर्यहं होसइ ध्रुवु तित्थंकरु
 धणय धणय लइ तेरउ अवसरु
 तं णिसुणिवि तें कमलदलक्खें
 हरियउं मरगयतोरणमालहिं
 कोमलगत्तइ मउलियणेत्तइ
 णिहाएंतिइ पुण्णपवित्तिइ
 परादेविइ दिट्ठउ कुंजरु
 सिरि दामाइं दोणिण विलुलंतइं
 कुंभजुयल्लु हसजुयलउं कीलिरु
 सीहासणु विमाणु अमराणउं
 रयणरासि सत्तच्चि वि जोइउ
 गय सुंदरि सुविहाणइ तेत्तइ

सोलहमउ कंदप्पखयंकरु ।
 करि पुरु मणियरहयादिवसेसरु ।
 कंचणपट्टणु णिमिउ जक्खें ।
 जलइ व पउमरायकरजालहिं ।
 सउहयलइ पैल्लं कपसुत्तइ । 5
 पच्छिमरत्तिइ गुणगणजुत्तिइ ।
 पसुवइ केसरि खरणहपंजरु ।
 ससिरविविं वइं णहि उर्ययंतइं ।
 सरवरु जलहि जलावलिचालिरु ।
 भवणु फणिंदहु तणउं पहाणउं । 10
 मुहु धोइवि दप्पणु अवलोइउ ।
 थिउ अत्थाणि णराहिउ जेत्तहि ।

घत्ता—सिविणंतरु णिहिल्लु णिरंतरु कंतइ कंतहु ईरिउं ॥

अवहीसें तेण महीसें तं फलु ताहि वियारिउं ॥ २ ॥

3

तुज्झु उयरि तेलोक्कपियारउ
 रायंगणि लोएहिं वि दिट्ठउं
 हिरि सिरि बुद्धि कंति कित्ती सइ
 भइवयहु भयसंखावासरि
 जणणिहि मुहि पइट्ठु गयवेसें
 मेहरहेण तेण अहमिदें
 आय देव सयल वि पंजलियर
 णवमासइं णिहित्तु चामीयरु
 पल्लुचउत्थि भाइ तइयंसें

होसइ सिरिअरहंतु भडारउ ।
 जा छम्मा सताम वसु वुट्ठउं ।
 आगय घरु जिणगुणरंजियमइ ।
 भरणिरिक्खि णिसिपरपहरंतरि ।
 किउ गव्भावयारु परमेसें । 5
 पुण्णपवणकंपावियइंदें ।
 पुज्जिय सयण असेस वि सपियर ।
 धणएं किउ पहुपंगणु पिंजरु ।
 ऊणि तिसायरि गलियजमंसें ।

2 १ A तोरणदारहिं. २ P पल्लकि पसुत्तइ. ३ AP अइरादेविइ. ४ A उवयतइ. ५ P अमरालउ. ६ A सत्तच्चिय.

3 १ A चउत्थभाय°. २ A ऊणतिसायर°.

2 1 a ए यहं विश्वसेनैरयोः. 2 b मणि यरहय दि व से सरु मणिकिरणैस्तिरस्कृतादित्यम्. 4 b जलइ ज्वलति. 7 b पसुवइ वृषभः. 8 b उययंतइ उदयं प्राप्ते. 11 a सत्तच्चि सप्तार्चिरग्निः. 14 वियारिउ विवेचितम्.

3 4 a भयसंखा वासरि सप्तम्याम्; b परपहरतरि पश्चिमप्रहरे. 9 b गलियजमसे गलितः संयमलेशो यस्मिस्तत्र.

धम्ममहामुणिदेवजिणंतरि चित्तौजुत्तमासपक्खंतरि । 10
 कालइ दिणि चउदहमइ जायइ जामइ जोइ सुहंकारि आयइ ।
 पच्छिमसंझहि जणियउ मायइ जिणु रेहइ णाणत्तयछायइ ।

यत्ता—एरावइ चडिवि सुरावइ सहसा पत्तु पुरंदरु ॥
 सहं देवहिं णाणारूवहिं अरुहु लेवि गउ मंदरु ॥ ३ ॥

4

इंदचंदखयरिंदफणिंदहिं णहाणिउ तहिं वंदारयवंदहिं ।
 पुज्जिउ कुंदकुडयकाणियारहि वउलतिलयचंपयमंदारहिं ।
 जणसंतीयरु संति भणेप्पिणु तं गुरु सुरागिरिसिहरु मुणप्पिणु ।
 आणिवि भवणहु अप्पिउ जणणिहि जिणवरसुरतरुसंभवधरणिहि ।
 हरि घरि पायडणहु व पणच्चिउ तेण ण को को किर रोमंचिउ । 5
 गउ सग्गहु पणविचि सक्कंदणु कालें जाउ णाहु णवजोव्वणु ।
 कणयवण्णु णं वालपयंगउ दह दह तह दह दह धणुतुंगउ ।
 लक्खवरिसपरमाउ महामहु दढरहु णाम अवरुहसयमहु ।
 वीससेणरायण रवण्णउ जसवइदेविहि सो उप्पण्णउ । 10
 णामें चक्काउहु पियतणुरुहु छणसत्तावीसंजोयणमुहु ।

यत्ता—ते भायर चंददिवायरणिह परिणाविय तापं ॥
 णिवक्कण्णउ वहुलायण्णउ जयजयपडहणिणापं ॥ ४ ॥

5

पंचवीसवरवरिससहासइं वोलीणइं कुमरत्ति पयासइं ।
 जेट्टहु अप्पिय धराणि णरिदें अप्पणु वड्डउ पट्टु सुरिदें ।

३ A जिट्ठा° but gloss चैत्र; T चित्तजुत्तमास° चैत्रः.

4 इ° खयरिंदसुरिंदहिं. २ AP पायडु णडु व. ३ AP दह तह दह. ४ AP लक्खु वरिसु परमाउ. ५ A अवरु अहसयमहु. ६ A नुव°.

10 b चित्तौजुत्तमासपक्खंतरि ज्येष्ठवदि चतुर्दश्याम्; सर्वो वैशाखः अर्धश्वेत्र. तदन्तरे ज्येष्ठकृष्णे इत्यर्थः. 11 b जामइ जोइ भरणीनक्षत्रे. 12 a पच्छिमसंझहि. निशात्यये इत्यर्थे. 13 सुरावइ गोमनशब्दे.

4 3 a जणसंतीयरु जनाना शान्तिकर्ता. 5 a हरि इन्द्रः, पायडणहु व सामान्यनटवत्. 7 b दहेत्यादि चत्वारिंशद्वर्षि तुङ्गत्वेन. 8 b अवरुहसयमहु अपर. अहमिन्द्र; इन्द्रसदृश इत्यर्थः. 10 a चक्काउहु चक्रायुध, b छणसत्तावीसंजोयणमुहु सत्तावीसंजोयणश्चन्द्रः कथ्यते, पूर्णचन्द्रमुख इत्यर्थः.

रञ्जु करंतहु देंतहु णियधणु
जइयहुं तइयहुं पुण्णविसेसें
चक्कु छत्तु असि पहरणसालहि
कागणि मणि उप्पण्णइं सिरिहरि
कण्णा गय तुरंग खगभूहरि
छेक्खंड वि महिवीदु पसाहिवि
पणवीसइसहस महि पालिवि

घत्ता— णिव्वेइउ णाहु पैसाइउ लोयंतिएहिं पवोहिउ ॥

अवमत्तउ इंदे सित्तउ रयणाहरणहिं सोहिउ ॥ ५ ॥

गलिय समासहास तेत्तिय पुणु ।
आयइं दिट्ठइं तेण णरेसें ।
संभूयउं दंडु वि सुविसालहि । 5
थवइ पुरोहु चमूवइ गयउरि ।
णवणिहि जलणिहिणइसंगमघरि ।
विंतर सुर विज्जाहर साहिवि ।
दप्पणयलि णियवयणु णिहालिवि ।

10

6

थिउ सव्वत्थसिद्धि सिवियासणि
सिलहि णिसण्णे उत्तरवयणे
जेट्ठहु मासहु सतिमिरपक्खइ
अवरण्हइ णिक्खवणु करंते
उप्पाइउ मणपज्जउ देवे
जो धम्मिल्लभारु आलुंचिउ
घल्लिउ णवर खीरमयरालइ
संजमु णिवसहसें पडिवण्णउ
गउ मंदरपुरु जिणु तवताविउ
महि विहरंतु मुणियसत्थत्थउ
संतु दंतु भयवंतु सरिसिगणु

घत्ता— णववत्तहु णंदावत्तहु तरुहि मूलि आसीणउ ॥

खंचियदुहु सुरादिसिसंमुहु रिउमित्ते वि समाणउ ॥ ६ ॥

जाइवि तहि लहु सहसंवयवणि ।
कयपलियंके दीहरणयणे ।
दिवसि चउइसि भरणीरिक्खइ ।
छट्ठुववासिपण गुणवंते ।
किं ण होइ भणु संजमभावे । 5
सो सुरणाहे कुसुमे अंचिउ ।
चक्काउहुपमुहहिं तक्कालइ ।
वीयइ वासरि समसंपण्णउ ।
पियमित्ते राए पाराविउ ।
सोलह वरिसइं थिउ छम्मत्थउ । 10
पुणु आयउ तं सहसंवयवणु ।

7

पूसहु मासहु
दहमादिणंतरि

सोक्खणिवासहु ।
सियपक्खंतरि ।

5 १ A असि पहरणु सालहि, P असि चम्मु वि सालहि. २ P मेहवइ दंडु वि. ३ AP
संगमहरि. ४ A छक्खंड. ५ AP पयासिउ.

6 १ A जिणतवताविउ. २ A विरहंतु. ३ AP णवपत्तहु. ४ A सुरदिसिमुहु.

7 १ A दियतरि.

5 3 b तेत्तिय पञ्चविंशतिवर्षसहस्राणि. 6 b गयउरि हस्तिनागपुरे. 7 b जलणिहिणइ-
संगमघरि गङ्गासागरसंगमस्थाने. 10 पसाइउ प्रसत्ति नीतः प्रसन्नीकृत. 11 अवमत्तउ अप्रमत्तः
त्यक्तपरिग्रहो वा.

6 2 a उत्तरवयणे उत्तरामिमुखेन. 3 a सतिमिरपक्खइ कृष्णपक्षे. 7 a खीरमयराल-
इ क्षीरसमुद्रे. 10 a मुणियसत्थत्थउ ज्ञातशाल्मार्यः. 12 णववत्तहु नवीनपत्रस्य. 13 सुरदिसि-
समुहु पूर्वामिमुखः.

छडुववासँ	वियलियपासँ ।	
दरसंझालइ	जाँइ वियालइ ।	
कम्मँ णिवाइउ	खाणि उप्पाइउ ।	5
केवलदंसणु	दोसविहंसणु ।	
धुवँ सिवमाणणु	केवलजाणणु ।	
कर्यमयविलपं	कुरुकुलतिलपं ।	
कासवगोत्तँ	सुयसुइसोत्तँ ।	
पत्तउं कित्तणु	सिरिअरुहत्तणु ।	10
दहविह वसुविह	अवर वि वयविह ।	
सुर सोलहविह	भूसणयरसिह ।	
गुणगणवत्तं	पंकर्यणेत्तं ।	
अइरपुत्तं	खमदमजुत्तं ।	
खाइर्यंभावं	संतिं देवं ^{११} ।	15
ते ^{१२} वंदंते	सुँहुं ज्ञायंते ।	
पंजलिहत्था	पणवियमत्था ।	
भत्तिरसाला	विलुलियमाला ।	
घत्ता—मउ वज्जइ गँइ पडिवज्जइ पंचिंदियइं वि दंडइ ॥		
पइं होंते मग्गु दिसंतं जणु संसारि ण हिंडइ ॥ ७ ॥		20

8

तओ कोसिएणं	जसेणं सिएणं ।	
कर्यं मुक्कंडंभं	महामाणखंभं ।	
महाधम्मलंभं	महापंकर्यंभं ।	
महाखाइयालं	महापुष्कमालं ।	
महाधलिसालं	महाणट्टसालं ।	5

२ AP जायवियालइ. ३ A कम्मणिवाइउ. ४ A धुउ, P धुव. ५ AP कर्यमलविलपं. ६ AP ०गणवत्तं, AP add after this: ससहरवत्तं. ७ AP ०णत्तं. ८ AP ०पुत्तं. ९ A omits खमदमजुत्त, P adds. दोसविचत्तं. १० AP ०भावं. ११ AP देवं. १२ A तं वंदंते; P तें वंदंते. १३ A मुहं जोयंतं, P सुहं जोयंतं. १४ A मइ.

8 १AP मुक्कदंभं.

7 4 b वि यालइ संघायाम्. 5 a णि वा इउ निपातितम्. 7 b केवलजाणणु केवल-
जानम्. 9 b सु य सु इ सो त्तं श्रुतस्य शुचिः प्रवाहो यस्मात्. 10 a कित्तणु कीर्त्यते श्लाघ्यते इन्द्रादिभि-
रिति कीर्तनम्. 12 b भूसणयरसिह भूषणकिरणशिखाः 13 a गुणगणवत्तं गुणगणपात्रम्.
19 मउ मद.; गइ मुक्तिः.

8 1 b सि एण श्वेतेन.

महासाहिवंतं	महाकेउकंतं ।	
महावेइयम्मं	महार्थूहहम्मं ।	
महादेवछण्णं	महासाहुपुण्णं ।	
महारिद्धिरूढं	महासीहैपीढं ।	
महासोयैरत्तं	महासेयछत्तं ।	10
महाचामरिल्लं	महाहुंहुहिल्लं ।	
महापुप्फवासं	महादिव्वभासं ।	
महादित्तिवंतं	महंतं पवित्तं ।	

घत्ता—पडिहारहिं णायकुमारहिं सेविज्जंतुं दयाचरु ॥

गंभीरहिं ह्यजयतूरहिं समवसरणु गउ जिणवरु ॥ ८ ॥ 15

9

अक्खइ धम्मु कम्मु ओसारइ	सत्त वि तच्चइं जणहु विचारइ ।	
अट्टुह धराणिहिं माणु पयासइ	सग्गविमाणहं पंतिउ भासइ ।	
पायालंतरि भवणसहासइं	चलणिच्चलइं मि जोइसवासइं ।	
जीवकम्मपोग्गलपरिणामइं	कहइ भडारउ णाणाणामइं ।	
चक्काउहपहूइ तहु गणहर	जाय छत्तीस विं जणमणहर ।	5
अट्टुसयइं पुव्वंगवियाणहं	रिसिहिं कट्टुतणकणयसमाणहं ।	
पक्कतालसहसइं वसुसमसय	सिक्खेसुदिकखसिक्खपारंगय ।	
सहसइं तिण्णि अवहिणाणालहं	चउ केवलिहिं पि हियतमजालहं ।	
विकिरियावंतं छह भणियइं	मणपज्जवधराहं चउ गणियइं ।	
वाइहिं दोसहसाइं णिरुत्तइं	सयचउक्कु अगलउ पउत्तइं ।	10

घत्ता—हिरिसेणहि वर्यविहिखीणहि पायपोमथुइरायइं ॥

णरमहियइं तिसंयहि सहियइं सट्टिसहासइं जायइं ॥ ९ ॥

२ A °थूलहम्म. ३ AP सीहवीढं. ४ AP महासोयवंतं. ५ A महादित्तिदित्तं, P महादित्तिदित्तं. ६ A समवसरणगउ.

9 १ A अट्टमिधराणिहि, २ AP °विवाणहं. ३ A °परिमाणइं. ४ P जि. ५ A सिक्खयदिकख-सिक्ख°. ६ A केवलिहिं पयतम°; P केवलिहिं मि हयतम°. ७ A °वत्तहं. ८ AP °विहिलीणहि. ९ P तिसई सहियइ.

6 a °सा हि वं तं °वृक्षयुक्तम्. 7 a महा वे इ य म्मं महावेदिकर्मरचनायुक्तम्. 13 a महा दि त्ति वं तं भामण्डलयुक्तम्.

9 1 b वि या र इ विचारयति.

10

झाणमोणणियमियणियमइयउ
लक्खइं दुइ सावयहं सल्लग्घहं
अरुहदासिपमुहाहं सुइत्तइं
देव असंख संख मृगकुलरुह
पंचवीससहसइं बोलीणइं
हिंडिवि महियलि धम्मु कहेप्पिणु
गिरिसंमेयारुहणु करेप्पिणु
जेट्टुचउद्दसिवासरि काँलइ
गउ जगसिहरहु संति भडारउ
सहुं चक्काउहेण तव्वरिद्धइं

एत्तियाउ भणियउ संजइयउ ।
सुरकित्तीपमुहहं णिव्विग्घहं ।
सावईहिं चउलक्खइं वुत्तइं ।
एक्कदुखुर गयवय जाया वुह ।
वरिसहं सोलहवरिसविहीणइं । 5
मासमेत्तु जीविउ जाणेप्पिणु ।
चरमसुक्कु दियहेहिं धरेप्पिणु ।
भरणिरिक्खि धरणीमुहि विमलइ ।
देउ समाहि वोहि भवहारउ ।
णवसँहसइं रिसिणाहहं सिद्धइं । 10

घत्ता—सुविलेवणु घल्लिवि कुसुमइं मेल्लिवि पणाविउ तहिं अग्गिदहिं ॥
मणि ईहिय सिद्धणिसीहिय णविय भरेण सुरिंदहिं ॥ १० ॥

11

रुं वु सिरिसेणु पुणु वि जो कुरुणरु
वज्जाउहु सुरवइ घणसंदणु
दरिसउ मज्जु सयलु सयलायरु
देवि अण्णिय कुरुणरु माणउ
अमयासउ अणंतवीरिउ हरि
मेहणाउ पडिहरि सहसाउहु
पुणु सव्वत्थासिद्धि परमेसरु
संति भंति विहुणेवि महारी

देउ खयरु सुरु हलि पवरामरु ।
सव्वत्थाहिवु अइरहि णंदणु ।
होउ पडंतहु लहु लग्गणतरु ।
सुरु सिरिविजउ महीयलराणउ ।
णारउ जोइयवइतरणीसरि । 5
कप्पणाहु दढरहु पहसियमुहु ।
चक्काउहु सुहुं देउ रिसीसरु ।
करउ कसायसंति गरुयारी ।

घत्ता—भरहेसरु जियसरु मुणिपवरु जहिं गउ जिण तुहुं तेत्तहि ॥

मइं पावाहि सिद्धालयमहि पुष्पयंतरुइ जेत्तहि ॥ ११ ॥

10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए

महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे संतिणाहणिन्वाणगमणं

णाम तिसट्ठिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६३ ॥

10 १ P सल्लवइं. २ P णिव्विग्घइ. ३ A सुवत्तइं. ४ AP मिग°. ५ A वल्लइ. ६ AP गुणरिद्धइं. ७ A णवसयाइं. ८ AP कालायरु घल्लिवि सुरतरु दिण (ण्ण ?) अग्गि अग्गिदहिं.

11 १ AP णिउ. २ A विज्जाउहु. ३ P कुरुत्तणुमाणउ. ४ AP सिरिविजउ महियलि. ५ AP पुष्पदंत°.

10 1 a °णि य मिय णि य म इ य उ °नियमिता वद्धा निजमतिर्यामि°. 3 a सु इ त्त इ सुचित्तानि. 4 b ग य व य गजपदा ज्ञानप्रता वा. 9 b दे उ ददातु.

11 2 a घ ण स द णु मेवरय. 6 a प डि हरि अच्युते प्रतीन्द्र ; ७ कप्पणाहु इन्द्रः. 9 जिय मरु त्रितस्मरः. 10 पुष्पयंतरुइ चन्द्रादित्यसदृशी दीतिर्यत्र.

LXIV

जिणगिरिपवरहु णीसरिय वारहंगपाणियसरि ॥
पुव्वमहण्णवगामिणिय पणवेप्पिणु वाईसरि ॥ ध्रुवकं ॥

1

जो भुवणि भणिउ छट्टउ णिराउ
जो इंदियकूराहिहिं विराउ
जो ण मरइ ण हवइ कालएण
घणमणतिमिरेँ अलिकालएण
जो णग्गु णिरंजणु लुक्कवालु
जे बुत्तु अहिंसावित्तिसुत्तु
जो दंसियसासयपरममोक्खु
जो तिउरडहणु जियकामदेउ
जे रक्खिउ सणहु वि जीउ कुंथु
पुणु कहमि कहंतरु दिव्वु तासु

जो हियवएण णिञ्जु जि णिराउ ।
जो सत्तारहमउ जिणु विराउ ।
जो^१ को जाणिज्जइ कालएण । 5
ण समंकिउ जो कंकालएण ।
जो ण करइ करि कत्तियकवालु ।
जो गाणिवि णं याणइ अक्खसुत्तु ।
णउ करइ पिणाएं कंडमोक्खु ।
पहु परमप्पउ देवाहिदेउ । 10
सो वंदिवि रिसिपरमेट्ठि कुंथु ।
दालिहदुक्खदोहग्गणासु ।

घत्ता—एत्थु जि जंवूदीववरि पुव्वविदेहि महाणइ ॥

णामेँ सीय सलक्खणिय तं को वण्णहुं जाणइ ॥ १ ॥

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:—

आखण्डोडुमरारवोडुमरुकं (?) चण्डीगमाश्रित्य य
कुर्वन्कामकाण्डताण्डवविधिं डिण्डीरपिण्डच्छविम् ।
हंसाडम्बरमुण्डमण्डलसद्भागीरथीनायक
वाञ्छन्निर्त्थमहं कुतूहलवती खण्डस्य कीर्तिः कृते ॥ १ ॥

P reads °डमरारुचण्डमरुक, P reads चण्डीसमासत्य; K reads चण्डीसमासत्य. P reads कुर्वत्काम°, A reads कुर्वन्क्रीड°, P reads °छवेः. A reads डिण्डमण्डल°. P reads कृते. K has a marginal gloss on the stanza: अखण्ड एव आखण्डः, उडुमरो भयानक, आखण्ड-शब्दः तेन युक्तं उडुमरुक वाद्य यस्य हरस्य तम् । अ काण्ड° अप्रस्तावेन । रुद्रमाश्रित्य या कीर्तिर्वर्तते इत्य-ध्याहार्यम् । रुद्रादप्यहं अतिशयेन निर्मला इति भावार्थः । कृतेः काव्यस्य. The stanza, all the same, is not clear.

1. १ A जो जाणिज्जइ इह कालएण. २ A अहकालएण. ३ A चमकिउ. ४ A लुक्कवालु. ५ AP कत्तियकरालु. ६ A omits this foot. ७ P ण जाणइ. ८ P जवूदीवि वरि.

1 1 a °सरि नदी. 3 a णिराउ चक्रवर्ती, b णिराउ निर्गतारागः. 4 a विराउ पक्षिराजो गरुडः; b विराउ विशिष्टः शब्द. 5 b को ब्रह्मा परमज्ञानम्. 6 a °मणतिमिरेँ ज्ञानदर्शनावरणेन; अलिकालएण भ्रमरवत्कृष्णेन; b समकिउ चिह्नितः, कंकालएण मृगकलेवरेण. 8 b अक्खसुत्तु जपमालाम्. 9 b कंडमोक्खु त्राणमोक्षम्. 11 a सणहु सूक्ष्मः.

2

तहि दाहिणतीरइ वच्छदेसि
सोहिलसुसीमाणयरि रम्मि
सीहरहु सीहविकमु महंतु
अणुहुंजिवि भोउं सुदीहकालु
णिवडंत णिहालिय तेण उक्क
जइवसहहु पासि ह्यत्तिएहिं
एयारहंगधरु सीलवंतु
तिणिं कणि सचित्ति णउ चरणु देइ
बंधिवि तित्थंकरणामकम्मु
पत्तउ पंचाणुत्तरविमाणु
छम्मास परिट्ठिउ आउ जाम

डिंडीरपिंडपंडुराणिवासि ।
अणवरयमहारिसिकहियधम्मि ।
णरवइ णियारिकुलवलकयंतु ।
जोयंतं कहिं मि णहंतरालु ।
संसारिणि रइ णीसेस मुक्क ।
पावइयउ सहं वहुवत्तिएहिं ।
वणि णिवसइ रुक्खु व अणलवंतु ।
वयविहिअजोग्गु दिण्णु वि ण लेइ ।
मउ उवरिमिल्लु ससिर्विवसोम्मु ।
भुंजिवि तेत्तीसजलणिहिपमाणु ।
वइसवणहु कहइ सुरिंदु ताम ।

घत्ता—दीवि पहिल्लइ पविउलइ भरहि देसु कुरुजंगलु ॥
गयउरि माहिवइ तहिं वसइ सूरसेणु जंगमंगलु ॥ २ ॥

3

कुरुकुलरुहुं सिरिजयसिरिणिकेउ
सिरिकंत कंत कमणीयरुय
णरणाहहु सा वल्लहिय केव
एयहुं दोहं मि होही ण भंति
करि पुरवरु घरुं णंदणवणालु
तं णिसुणिवि धणणं तं विच्चित्तु
पवणुद्धयपहकप्परपंसु
पासायचूलियालिहियमेहु

कासवगोत्तं भूसिउ सुतेउ ।
सुरखयरणियंविणितिलयभूय ।
सुवियदुहु वरकइवाणि जेव ।
जिणु कुंथु णाम केवलि कहंति ।
पुज्जिअइ भत्तिइ सामिसालु ।
किउ णयरु कणयमाणिकदिउ ।
सरसरिनीरंतररमियहंसु ।
गयणुंगयसुरहियधूमरेहु ।

घत्ता—सुहुं सुत्ती रयणिहि सयणि वालहंसमंथगामिणि ॥
पच्छिमजामइ सोलह वि पेच्छइ सिविणय सामिणि ॥ ३ ॥

2 १ A भोव २ AP णिवडंति. ३ A तणे. ४ A दिण्णउ ण लेइ. ५ AP जयमंगलु.

3 ३ A °कुलरुहजयसिरिसिरी°. २ A सुकेउ. ३ AP णरणाहहु तहु वल्लहिय. ४ AP घर.
५ A पवणुद्धयपंकययविमीसु, P पवणुद्धयपहकप्परपंसु. ६ AP सरिसर°. ७ A गयणमाय°. ८ P
धम्मरेहु. ९ A सुहसुत्ती. १० P °गइगामिणि.

2 3 b °कयंतु यम°. 6 a ह्यत्तिएहिं इतार्तिमिः. 7 b अणलवंतु अल्पन् मौनवान् अब्रु-
वाणः. 8 a तिणि वृणे, b °अजोग्गु अयोगम्. 11 b वइसवणहु धनदस्य.

3 1 a °कुलरुहुं कुलोत्तज्ज. 3 b सुवियदुहु चतुरस्य. 5 a करि त्वं कुरु.

4

वारणं मयालीणच्छप्यं
केसरिं गलालं विकेसरं
उग्यं हिमंसुं^३ दिणेशरं
सायकुंभकुंभाण संघेडं
खीरवारिरासि महारवं
मंदिरं सुराणं विहावियं
मेल्यं मणीणं विचित्तयं
राइछेयए संविउद्धिया
रत्तियाविरामे णियच्छियं
कहइ तीइ तिस्सा फलं पई
इंदचंदणाइंदवंदिओ
चक्कवट्टि भोत्तूण भूयलं

गोवइं खुरुब्भिण्णवप्पयं ।
गोमिणी सुमालाजुयं वरं ।
रत्तमीणजुम्मं रईसरं ।
पंकयायरं लच्छिपायडं ।
विट्टरं सकंठीरवं णवं । 5
णायगेहमहिरायसेवियं ।
झत्ति धूमकेउं पलित्तयं ।
सा णिवस्स वज्जरइ मुद्धिया ।
दंसणावलं कयसुहच्छियं ।
होहिहीं तुहं सुउ महामई । 10
दिञ्चणाणि णिज्जियमणिदिओ ।
पाविही पयं परमणिक्कलं ।

यत्ता—तं णिसुणिवि संतुंइ सह आइय मंदिरु मीणइ ॥

बुद्धि लच्छि सिरि कंति हिरि दिहि कित्ति वि लीलागइ ॥ ४ ॥

5

कय धणपं दरिसियसुयणतुट्टि
सावणमासंतरि कसणपक्खि
कत्तियणक्खत्ति णिसाविरामि
सीहरहु राउ अहामिंदु देउ
वणवासहिं घल्लियकच्चुरेहिं
गइ संतिणाहि मलदोसहीणि
वईसाहमासि पडिवयहि दियहि

छम्मासु जाम ता रयणंउट्टि ।
दहमइ दिणि माणवज्जणियसोक्खि ।
थिउ गब्भि भडारउ पउरधामि ।
वणिणज्जइ किं णिव्वाणहेउ ।
थुउ इंदपडिंदाइहिं सुरेहिं । 5
पल्लोवमद्धि सायरि वि खीणि ।
अग्गेयजोइ णरणाहपियहि ।

4 1 A खुरविभिण्ण^०. २ AP गोमिणिं. ३ A हिमेषु ४ P सघण. ५ A मेलय विचित्तं मणीणयं. ६ AP तुहं सुओ पद्दोही महामई. ७ A सतुट्टमइ.

5 १ A रयणविट्टि. २ AP कित्तिय^०. ३ A वइसाहमासि पडिवयह दियहि, P वइसाहमासि सेयपडिवयहिं दियहि.

4 1 b खुरुब्भिण्णवप्पयं खुरैभिन्नवप्पम्. 3 b रईसर क्रीडापरम्. 4 a सघड युग्मम्, b लच्छिपायड लक्ष्म्या प्रकटम्. 6 a विहाविय दृष्टम्. 7 a मेलय राशिम. 8 a राइछेयए रजन्यवसाने. 11 b णिज्जियमणिदिओ निर्जितचित्तेन्द्रियः. 13 मीणइ मेनका देवाङ्गना.

5 3 a कत्तियणक्खत्ति कृत्तिकानक्षत्रे. 5 a वणवासहिं व्यन्तरैः; घल्लियकच्चुरेहिं पातित्तसुवर्णैः. 6 b सायरि साकारके लक्ष्मीकारके इत्यर्थः. 7 b अग्गेयजोइ कृत्तिकानक्षत्रे, णरणाहपियहि श्रीकान्तायाः.

जायँउ जिणु कयतइलोकखोह
णिउ सुरगिरिसिरु सुरणाहणाह

सुरवइ संपत्तु ससुरवरोह ।
णाणत्तयसलिलवरंभवाह ।

घत्ता—सिंचिवि खीरघडेहिं जिणु अंचिउ णवसयवत्तहिं ॥
इदं रुंदाणंदयरु जोइउ दससयणेत्तहिं ॥ ५ ॥

10

6

वंदिवि पुणु णामु कैहिवि कुंथु
पुरु आविवि जणणिहि दिण्णु बालु
पोढत्तभावि थिउ कणयवण्णु
पहु पंचतीसधणुतुंगकाउ
तेवीससहसवरिसहं सयाइं
चरणंभोरुहणमियामरासु
पुणु तेत्तिउ मंडलियत्तणेण
जइयहुं परिच्छिण्णउ कालु दीहु
गउ कहि मि वणंतरु रमणकामु
मत्तंडचंडकिरणइं सहंतु

लंघेप्पिणु दीहरु पवणपंथु ।
गउ समगहु हरि सुरचक्कवालु ।
कंतीइ पुण्णचंदु व पसण्णु ।
सिरिलंछणु जयदुंदुहिणिणाउ ।
सत्तेव सपण्णासइं गयाइं । 5
णियवालकलिलीलाइ तासु ।
तेत्तिउ जि चक्कपरियत्तणेण ।
तइयहुं परमेसरु पुरिससीहु ।
दिट्टुउ रिसि तेण तवेण खामु ।
दुंम्मुक्कजम्मविलसिउ महंतु । 10

घत्ता—सो तज्जणियइ दंसियउ मंतिहि तेण णरिंदे ॥

जोयहि दुच्चरु तवचरणु चिण्णउं एण रिसिदे ॥ ६ ॥

7

छड्ढिवि कुंडंउ कुविडंउ सवु
वणि पइसिवि णिहसिवि इंदियाइं
चंगउ ववसिउ जइपुंगमेण
तं णिसुणिवि मंते बुत्तु एम
जाएसइ कहि णिम्मुक्कगंथु
जाएसइ तहिं जहि भूयगामु

छड्ढिवि कुलवलु छलमाणगवु ।
अवगण्णिवि दुज्जणणिंदियाइं ।
लइ हउं मि जामि एण जि कमेण ।
एयइ णिड्डइ तउ करिवि देव ।
तं णिसुणिवि भासइ देउ कुंथु । 5
णउ पहवइ लोहु ण कोहु कामु ।

४ AP जायउ जिणिंदु तेलोक्खोहु.

6 १ AP करिवि. २ A उरु चक्कवालु. ३ AP^०णविय^०. ४ AP दुक्कम्मजम्म^०. ५ A दुच्चरु.

7 १ A कुडुउ.

9 b^०वरंभवाहु वरमेव..

6 2 b सुरचक्कवालु देवसमूहपालकः. 4 b सिरिलंछणु श्रीवत्सलाञ्जनः. 7 b चक्कपरि-
यत्तणेण चक्रित्तेन. 10 a मत्तंड^० मारण्ड. सूयं., b महंतु मधन्. 11 तज्जणियइ अग्राङ्गुल्या.

7 1 a कुविडंउ कुत्सितविडम्भनम्. b छलमाणगवु शत्रुवध्नम्. 2 a णिहसिवि निवृष्य,
जित्वेत्यर्थ..

जाणसइ तहिं जहिं हेमकंति
हो हउं मि पवच्चमि तेत्थु तेम
घरु आवेप्पिणु सँसरासईहि
अहिसेउ विरइउ पुरंदरेण

घत्ता—सिवियहि तेणारुहणु किउ विजयहि विजयपयासहि ॥

णाणामणिसिहरुज्जलहि लग्गखगाहिवतियसहि ॥ ७ ॥

गउ परमप्पउ परमेद्वि संति ।
ण णियत्तमि कालं कहिं मि जेम ।
ता पडिवोहिउ सुरवरजईहिं ।
कुलि णिहिउ सतणुरुहु जिणवरेण । 10

8

वणि विउलि सहेउयरुक्खणीलि
दिणि तम्मि चेय विच्छुलियपंकि
वैउ लइउ लइवि छट्ठोववासु
संसारि सणेहु ण किं पि वडु
वीयइ दिणि दिणयरकयपयासि
गयउरि दाविउ आहारु चारु
अमरहिं घल्लिय मंदारयाइं
सोलहवरिसइं तउ तिब्बु चरिवि
दिक्खावणि पत्ति चइत्ति मासि
कयछुंहे तिलयतलासिएण
अप्पेणप्पाणउं मुणिउं तेण
पैरिजाणिउं तिजगु अणंतु गयणु

घत्ता—दिव्वंवरदिव्वाहरणइं सुर णमंति चउपासहिं ॥

पुणु वि पुरंदरु अवयरिउ णाणाजाणसहासहि ॥ ८ ॥

णियजम्ममासपक्खंतरालि ।
कित्तियणक्खत्तासिइ ससंकि ।
तें सहुं पव्वइयउं णिव्वसहासु ।
मणपज्जउ णाणु जिणेण लद्धु ।
परिभमइ णाहु णरवासवासि । 5
थिउ धम्ममित्तवरि हयवियारु ।
विहियइं पंच वि अच्छेरयाइं ।
भवभामिरु दुक्कियभाउ हरिवि ।
चंदिणि तइयइ दिणि सुहणिवासि ।
खणि खीणकसाएं जससिएण । 10
उग्गामिएं णाणें केवलेण ।
जायउ सजोइजिणु अचलणयणु ।

9

थिओ समवसरणि
जिणो विहियकरुणो

सया विउससरणि ।
हयावरणमरणो ।

२ A सुसरासईहि, KT record: 'सुसहासईहिं इति पाठे अतीव शोभनभाषिमिः.

8 १ AP °रुक्खमूलि. २ A विच्छलिय°. ३ AP वउ. ४ A पृवसहासु. ५ P पउ जाणिउ.

8 b ण णियत्तमि पश्चान्नागच्छामि. 9 a ससरासईहि स्ववाण्या. 11 विजयहि विजयानाम्भ्यां शिन्वि-
कायाम् ; विजयपयासहि विजयप्रकाशिन्याम् .

8 2 a विच्छुलियपकि निर्मले, b कित्तिय° कृत्तिका. 5 b णरवासवासि गृहे गृहे.
6 a आहारु चारु चर्यामार्गः. 9 b चंदिणि शुक्ले. 10 a तिलयतलासिएण तिलकवृक्षमूलाश्रितेन.

9 1 b विउससरणि विदुषा शरणे.

समुद्धरइ समयं
मुसावयणमुइयं
जणं करइ विमयं
मलं महइ कसणं
फणीसुरनुभवणं
चलं खलइ कविलं
तणूणिहियमहिलं
वला विणिहयपुरं
मुणि कणयचरणं
खणाभावविगयं
अयं अमरतरुणी-
परं रिसहचरियं
जिणा किमवि गहियं
ण सो पडइ गहिरि

णया हरइ कुमयं ।
पसूहणणरुइयं ।
पहे थवइ दुमयं ।
घणं दमइ वसणं ।
फुडं कहइ भुवणं ।
हरं हसणमुहलं ।
महीघरणसवलं ।
हरि भणइ ण वरं ।
ण तं तिमिरहरणं ।
ण पत्तियह सुगयं ।
रयं णमइ ण गुणी ।
महोपसमभरियं ।
मणे अहव महियं ।
णरो णरयविचरि ।

5

10

15

घत्ता—पंचतीस गणहर जिणहु जाया हयरयसंगहं ॥
भयसयाइं दिव्वहं रिसिद्धि मणमाणियपुव्वंगहं ॥ ९ ॥

10

चालीस तिण्णि सहसाइं होंति
एत्तिय सिक्खुय सिक्खाविणीय
दोसहसइं पंचसयाइं ओहि-
पंचेव सहस सउ एक्कु दाहं
दोसहसइं पण्णासाहियाइं
सहसाइं तिण्णि तिण्णि जि सयाइं
सहसाइं सट्ठि आहुइसयइं

सहुं अद्धसएं सउ तहिं ण भंति ।
गुरुभत्तिवंत संसारभीय ।
णाणिहि केवलिहिं ति दोण्णि लेहि ।
महरिसिहिं विउव्वणरिद्धि जाहं ।
गुणवंतहं वाइहिं साहियाइं ।
मणपज्जववंतहं गयमयाइं ।
अज्जियहं तेत्थु थुयकुंथुपयइं ।

5

9 AP °सुरणिभवण. २ A विणिहयपर. ३ A महापसम°. ४ P omits ण. ५ AP हय-
रइसंगहं. ६ AP मणि माणिय°.

10 १ A केवलिहि वि दोण्णि.

3 a समयं दिनशासनम् b णया नयात्. 4 a मुसावयणमुइयं असत्यमापणेन मुदितं (जनम्).
5 a विमयं मदरहितम् b दुमयं दुर्मदं दुर्मतं वा. 6 a कसणं कृत्स्नम्. 8 a खलइ कविल
कपिलमनं खलयति; b हसणमुहलं हास्यमुखरम्. 10 a विणिहियपुर स्थापितद्वारवतीम्. 11 a
कणयचरणं अक्षपादम्. 12 a खणाभावविगयं क्षणेन आत्मनोऽभावस्तत्र विशेषेण गतं प्राप्तम्,
धगमन्नवादिनमित्यर्थः. 13 ab अमरतरुणीरयं देवस्त्रीरतम्. 15 a जिणा येन, किमवि स्वल्प-
मपि, b महिय प्रशंसितम्.

10 7 a आहुइ अर्थचतुर्थ°.

सावयहं लक्ख दो तिण्णि लक्ख
संखेज्ज तिरियगणु णहकरालु
तेत्तिउ सोलहवरिसूणु कालु
गउ संमेयहु सम्मयगुणालु
पडिमाइ परिट्टिउ मासमेत्तु

सावइहिं ण याणमि देव संख ।
जेत्तिउ होइवि थिउ चक्कवालु ।
महि विहरिवि ह्यणरमोहजालु । 10
तं^३ सुक्कझाणु पूरिउ विसालु ।
रिसिसहसैं सहं णिम्मुकुगत्तु ।

घत्ता—वइसाहहु सियपडिवइ जामिणिमुहि णिहयक्खहु ॥

गउ जिणु-सहसक्खें कित्तियउ कित्तियरिक्खे मोक्खहु ॥ १० ॥

11

कय तियसहिं तासु सरीरपुज्ज
भंभाभेरीदुंदुहिणिणाय
पयपणइपयासियदुरियदलणं
उव्वसिरंभाणच्चणरसिह्लुं
तुंवरुणारयसंगीयगेय
मालाविजाहरपिहियगयण
णवकमलकलसदप्पणसमेय
दूवंकुरदह्चिंदणपसत्थ
सण्णाणि सुदंसणि विउलवुद्धि

सुराकिंकरकरहयविविहवज्ज ।
घणथणियामरमुहमुक्कणाय ।
जैय जयहि जिणेसर कम्ममलण ।
सयमहकरपंजलिघित्तफुल्लुं ।
विरइय जिणपडिविवाहिसेय । 5
मुणिघोसियणाणाथोत्तवयण ।
धवलायवत्तधयसंखसेय ।
वंसग्गविलंविद्यदिव्ववत्थ ।
णिव्वाणपुज्ज महं देउ सुद्धि ।

घत्ता—सुहुं कुंथु भडारउ देउ महं वंदिउ भरहणरिंदहि ॥

सियपुप्फयंतउज्जलमुहहिं णामिउ फणिंदसुरिंदहि ॥ ११ ॥

10

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुप्फयंतविरइप महाकव्वे कुंथुच्चक्कहरतित्थयरणिव्वाणगमणं
णाम चउसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६४ ॥

२ A सावयह संख दो. ३ A omits this foot.

11 १ AP °दलणु. २ AP वरजलणकुमारणिहित्तजलणु. ३ A °रसिह्ल. ४ A °फुल्ल.
५ AP खेयरविसहरचदहिं. ६ AP कुथुच्चक्कवट्टित्थयरपुराण.

9 a णहकरालु नखकरालो रौद्रः. 13 णिहयक्खहु अतीन्द्रियस्य.

11 3 a पयपणइ° पादप्रणति.. 9 b सुद्धि कर्मक्षय..

सुयदेवयहि पसत्यहि पसामियदुम्मइहि ॥
वंदिवि सिरेण सउव्वइं अंगइं भयवइहि ॥ धुवकं ॥

I

जो भयवंतो मुक्कसवासो	जं णीसासो सुरहियवासो ।	
जेण कयं उत्तमसंगासं	जो ण समिच्छइ चउसण्णासं ।	
जिणदिट्ठं पंचिदियणासं	जं पणवंतो पावइ णा सं ।	5
भीममुहा वग्घाइणवासा	जस्स गया दूरेण सवासा ।	
रक्खइ भुवणं जस्स खमा णं	णाणं जस्साणंतखमाणं ।	
जेणुवइट्ठं धम्मणिहाणं	समियं चित्तं भिल्लणिहाणं ।	
जो जीवाणं जाओ ताणं	गुरुयणभत्ती जाणं ताणं ।	
अत्ताईणं वत्थुपयाणं	जो वत्तारो सब्वपयाणं ।	10
दिण्णं जेणं अमयपयाणं	सासयसिवणयरस्स पयाणं ।	
भवहंतारं धीरं हं तं	णमिउं देवं अरमरिहंतं ।	
तस्स भणामि चरित्तं चित्तं	जणियसुरासुरविसहरचित्तं ।	

वत्ता—जंवूदीवइ सुरगिरिपुव्वदिसासियइ ॥

पुव्वविदेहइ पविडलि केवलिभासियइ ॥ १ ॥

15

All Mss have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:

आजन्मं (?) कवितारसैकधिपणासौभाग्यभाजो गिरां

दृश्यते कवयो विलाससकलग्रन्थानुगा बोधतः ।

किं तु प्रौढनिरूढगूढमतिना श्रीपुष्पदन्तेन भोः

साम्यं विभ्रति (?) नैव जातु कविता शीघ्रं ततः प्राकृते ॥ १ ॥

AP read चिञ्चल in the second line: A reads प्रौढनिगूढ^o in the third line; and AP read कविना, A reads शीघ्रं ततः प्राकृतैः, P reads शीघ्रं त्वतः प्राकृते: in the fourth line.

1 १ A सम्मियचित्तं. २ A अताईणं, P अत्थाईण. ३ A तेण. ४ AP वीर.

1 सउव्वइ पूर्वयुक्तानि भयवइहि भगवत्या श्रुतदेवतायाः चतुर्दशपूर्वयुक्तानि एकादशा-
न्नानि. 3 a सवासो त्वरुहं वस्त्रं च, b णीसासो नृणां शासः शिक्षा यस्मात्; अथवा नृणा सा लक्ष्मीः
सा त्वा निजा यस्य, नीसा वा मुकुटवद्धराजादयः स्वा निजा यस्य, सुरहियवासो सुरभितगन्धः.
4 a सणासं सर्वसङ्गत्यागम्. b चउसण्णासं आहारादिसंज्ञासुखम्. 5 b णा पुरयः; सं सुखम्.
6 a भीममुहा वेताल; वग्घाइणवासा व्याघ्रचर्मवस्त्रा, b सवासा प्रेतरक्षकाः पाशयुक्ता वा. 7 b
अणंतखमाणं अनन्ताकाशप्रमाणम्. 8 b भिल्लणिहाणं भिल्लसदृशानाम्. 10 a अत्ताईणं आता-
यीनाम्; वत्थुपयाण जीवादिवस्तुपदानाम्. 13 b जणिय... चित्तं जनिताश्चर्यम्.

2

सीयहि उत्तरकूलि रवणइ
खेमणयरि धणवइ पुहईसरु
णंदणाहृतिथयरसमीवइ
अप्पउं तेण णिओइउं राणं
चत्तकुपंथे जाणियसत्थे
जाउ जयंताणुत्तरि सुरवरु
आउ तासु तेत्तीसमहोयहि
तप्पमाणविकिरियातेणं
भुंजंतहु सुहुं अहमिंदाणउं

कच्छाणामदेसि वित्थिण्णइ ।
रूवे रमणीसरु वम्मीसरु ।
बुद्धिंवि धम्मु णाणसच्चभावइ ।
समैणु हवेप्पिणु मणवयकाणं ।
किउ पाओवगमणु परमत्थे । 5
कायमाणु तहु एक्कु जि किर करु ।
लोयणाडि सो पेक्खइ सावहि ।
वीरिएण संजुत्तु अमेणं ।
आउहि थिउ छम्मासपमाणउं ।

घत्ता—सोहम्माहिउ भव्वहु जिणपयरयमइहि ॥

10

तहिं कालिहि आहासइ सुरवइ धणवइहि ॥ २ ॥

3

एत्थु भरहि कुरुजंगलि जणवइ
राउ सुदंसणु तहु गुणजलसरि
एयहं दोहं वि होसइ जगगुरु
ता तं जाइवि जक्खे रइयउ
णिसि सुहुं सुत्तइ पियकमणीयइ
करि करोहु पंचाणणु गोमिणि
सफरुल्लय दो कलस सुहायर
सीहासणु विमाणु णायालउ
जायवेउ दीहरजालावलि

कुंजरपुरवरि मारुयधुयधइ ।
मित्तसेण णामेण घरेसरि ।
तुहुं करि ताहं तुरिउ कंचणपुरु ।
पट्टणु रयणकिरणभइसइयउ ।
सिचिणयपंति दिट्ठ रमणीयइ । 5
मालाजुयलु चंदु णहयलमणि ।
विमलसलिलकमलायर सायर ।
मणिणुउरुंनु मऊहकरालउ ।
इय जोइवि ताप सिचिणावलि ।

घत्ता—देविइ सुत्तविउद्धिइ अक्खिउ णरवइहि ॥

10

तेण वि फलु विहसेप्पिणु भासिउ तहि सइहि ॥ ३ ॥

2 १ A बुद्धवि णाणु धम्म, २ AP णिओविउ, ३ AP सवणु, ४ AP पायोगमरणु, ५ AP अहमिंदाणं, ६ A °पवाण; P °पमाणं, ७ AP तहिं जि कालि आहासइ.

3 १ AP तुरिउ ताहं, २ A सुहसुत्तइ, ३ AP मयूह°, ४ A °विवुद्धइ.

2 2 a धणवइ धनपतिर्नाम, b रमणीसरु स्त्रीणा स्वामी. 4 a णिओइउ प्रेरित.. 7 b सावहि अवधिज्ञानयुक्तः. 8 a तप्पमाणं लोकनाडिप्रमाणेन; b अमेण अमर्यादेन. 11 धणवइहि धनदस्य.

3 1 b धुयधइ °कम्पितध्वजे. 2 b घरेसरि शहिणी. 5 a पियकमणीयइ प्रियस्य मनो-ज्ञायाः, भर्तृचरणलीनाया वा. 6 a करोहु वृषभः, b णहयलमणि आदित्य.. 7 a सफरुल्लय मत्स्यै, b कमलायर पद्मसरः. 8 b मऊहकरालउ किरणयुक्तः. 9 जायवेउ अग्निः.

4

जो जाणइ तिहुंयणि परु अप्पउ
तं णिसुणिंवि हरिसिय सीमंतिणि
कंति कित्ति सह बुद्धि भडारी
जा छम्मास ताम धरि चंदिह
फग्गुणि चंदविसुद्धहि तइयहि
थिउ गम्भंतरालि जो धणवइ
थुउ अमरिंदचंदधरणिंदहिं
बुद्धउं विसरिसेहिं वसुहारहि
परिवट्टंतइ दिणसंताणइ
थक्कइ कुंथुणाहणिन्वाणइ
वैरमग्गसिरमासि सिसिरहु भरि

सो तुह सुउ होसइ परमप्पउ ।
आइय धरुसिरि दिहि हिरि कामिणि ।
गम्भसुद्धि कय सुहइ जणेरी ।
धैत्तिउं जक्खें लोयाणंदिरु ।
णिसिपच्छिमसंझहि रेवइयहि । 5
सो अहमिंदु चवेप्पिणु सुहमइ ।
तहु दिवंसहु लग्गिणि जक्खिदहिं ।
अट्टारहपक्खंतरमेरहिं ।
वरिसकोडिसहसेण विहीणइ ।
पल्लचउत्थभायपरिमाणइ । 10
पूसजोइ चउदहमइ वासरि ।

घत्ता—सग्गमग्गसंखोहणु वुहयणदुरियहरु ॥

णाणत्तयसंजुत्तउ णासियजम्मजरु ॥ ४ ॥

5

सत्तमचक्कवाट्टि हयपरमउ
मंदैरसिहरि तूरणिग्घोसहिं
णामु करेप्पिणु परमेसहु अरु
गउ पोलोमीवइ णियमंदिरु
हेमच्छवितणु दहदहधणुतणु
एक्कवीसवरिसहं सहसइं सिसु
एक्कवीससहसइं मंडलवइ
चउदह रयणइं णव वि णिहाणइं
सारयन्मु पविलीणु णियच्छिवि
जीविउ देहु असारु वियप्पिवि

संभूयउ जिणु अट्टारहमउ ।
ण्हविउ पुरंदरेहि वत्तीसहिं ।
अम्महि करि अप्पिउ आविवि घरु ।
वहइ पुण्णवंतु जिणु सुंदरु । 5
गरुयारउ गुणगणरंजियजणु ।
लीलइ थिउ डिंभयकीलावसु ।
एक्कवीससहसइं पुणु महिवइ ।
भुंजिवि पीणिवि दविणें दीणइं ।
लच्छिविहोउ असेसु दुगुंछिवि ।
अरविंदहु महिरज्जु समप्पिवि । 10

4 १ AP तिहुवणु. २ P सुणिवि. ३ A खित्तउ; P वित्तउ. ४ A देवसहु, P दिवहहु.
५ AP परिवट्टंतइ. ६ AP दिणि. ७ P सिवमग्गसिर°. ८ A सिसिहरभरि, P सिसिरहे भरि.

5 १ K मंदिरसिहरि. २ P एक्कवीससहसइ.

4 1 a परु पुट्टलादिकम्. 3 b सुहइं जणेरी सुखोत्पादिका. 5 a चंदिह कनकम्. 5 b
णिसिपच्छिमसंझहि प्रभातसध्यायाम्. 8 a विसरिसेहिं अनुपमैः, b अट्टारहपक्खंतरमेरहिं नव-
मासान् यावन्. 11 b पूसजोइ रेवतीनक्षत्रे.

5 1 a हयपरमउ हनमित्यामतः. 4 a पोलोमीवइ इन्द्रः. 7 b महिवइ चक्री. 9 a
सारयन्मु शकालाभ्रम्; b लच्छिविहोउ लक्ष्मीविभोगः. 10 अरविंदहु अरविन्दनाम्नः पुत्रस्य.

घत्ता—खीरवारिपरिपुण्णहिं तारहारसियहिं ॥
पहाइवि मंगलकलसहिं सुरपल्हत्थियहिं ॥ ५ ॥

6

णिसुणिवि सारस्सयसंबोहणु
करिवि सहेउयवणु तं जेत्तहि
मियसिरजुत्तमासि दहमइ दिणि
अवरण्हइ छट्टेणुववासं
लुंवि वि कुंतल णिम्मोहालउं
मणपज्जयधरु सुद्धिणिरिक्खहि
चक्कणयरि अवराइयणरवें
तहु घरि पंच वि चोज्जइं घडियइं
तवतावें णियतणु तावंतउ

वइजयंतसिवियहि आरोहणु ।
गउ तुरिणण महापहु तेत्तहि ।
चंदिणि रेवइरिक्खि सुसोहणि ।
णिकखंतउ सहं रायसहासं ।
लिंगु असंगु लेवि णिच्चेलउं । 5
वीयइ दियहि पइट्टु भिक्खहि ।
पाराविउ अमरासुरसुरवें ।
कुसुमइं रयणइं गयणहु पडियइं ।
सोलहवरिसइं महि विहरंतउ ।

घत्ता—दिक्खावणु आवेप्पिणु कत्तियमासि पुणु ॥

10

सियवारहमइ वासरि सुरवरणवियगुणु ॥ ६ ॥

7

अवरण्हइ अंवयतलि थक्कउ
जायउ केवलि केवलदंसणि
धरणु वरणु ससि तरणि धणेसरु
थुणइ अणेयहिं थोत्तपउत्तिहिं
तेत्थु णिसण्णणण तं सिट्टुउ
चउ णिरूवि अज्जीव पयासिय
मग्गणगुणठाणाइं समासिय
सत्तपंचणवछ्विविहभेयइं

छट्टुववासिउ मोहें मुक्कउ ।
आयउ भेसइ अंगारउ सणि ।
पवणु जलणु भावेण सुरेसरु ।
समवसरणु किउ विविहविहत्तहिं ।
जं अवरहिं मि देवहिं दिट्टुउ । 5
रूविखंधेसाइ वि भासिय ।
जीव सकाय अकाय वि दरिसिय ।
पयइं अवरइं कहियइं णेयइं ।

6 १ A सारयस्स. २ AP तावंतहु. ३ AP विहरतहु.

7 १ A भेसउ. २ AP अंगारय. ३ AP णिरूवि.

6 1 a सारस्स य° लौकान्तिका देवाः. 3 a मिय सिरजुत्तमासि मार्गशीर्षे, b चंदिणि शुक्ले. 5 a णिम्मोहालउ निर्मोहयुक्तम्. 6 a सुद्धिणिरिक्खहि शुद्धनिरीक्षायाम्. 7 a °णरवे नर-पतिना राजा; b °सुरवे शोभनगव्देन.

7 1 a अंवयतलि आम्रवृक्षतले. 2 b भेसइ वृहस्पतिः. 4 b °विहत्तहि °विभक्तिभिः. 6 a चउ णिरूवि चत्वारो रूपरहिता धर्माधर्माकाशकालाः. 8 b णेयइं प्रमेयाणि ज्ञेयवस्तूनि.

तहु संजाया तहिं मउलियकर
गणमि दहुत्तर वम्महदमणहं

गणहर तीस रिद्धिवुद्धीसर ।
तिण्णि तिण्णि सय सिक्खुय सवणहं । 10

घत्ता—पंचतीससहसइं भणु अट्टसयइं कियइं ॥

तीसणिउत्तइं जाणसु मुणिहिं वयंकियइं ॥ ७ ॥

8

एत्तिय ओहिणाणि तहु हयकलि
जिणवरचरणुण्णामियसीसइं
मणपज्जयधराहं वरचरियहं
सोलहसयइं परागमहारिहिं
सावयाहं पुणु लक्खु भणिज्जइ
लक्खइं तिण्णि गेहधम्मत्यहं
संखावज्जिपहिं गिञ्वाणहिं
एक्कवीससहसइं ध्रुवुं माणइं
भूयलि भमिवि भव्व पहिं लाइवि
सहं रिसिसहसं थिउ संमेयइ
फग्गुणपुरिममासि कसंणंतिमि
पुञ्वाणिसागमि णिक्कलु जायउ

दुसहस वसुसय साहिय केवलि ।
दोसहसइं पणवण्णविमीसइं ।
चउसहसइं तिसयइं विक्किरियहं ।
सट्टिसहासइं संजमणारिहिं ।
सुण्णचउक्क छडग्गइ दिज्जइ । 5
महिलहं मंगलद्व्वविहत्थहं ।
खगमृगेहिं पुव्वुत्तयमाणहिं ।
वरिसहं सोलहवरिसंविहीणइं ।
मासमेत्तु णियजीविउ जोइवि ।
मुइवि दिव्वंत्तणु पडिमाजोयइ । 10
दियहि चंदि कयरेवइसंगमि ।
गउ तहिं जिणु जहिं गयउ ण आयउ ।

घत्ता—चउविहदेवणिकायहिं जयजयकारियउ ॥

अरु अग्गिदकुमारहिं तहिं साहुंकारियउ ॥ ८ ॥

9

अरु अरविंदगम्भकयचारउ
अरु अरमाणिहीहिं णउ रुच्चइ

अरु अरुहंतु अणंगवियारउ ।
अरु अरहिल्लु तच्चु जग्गि सुच्चइ ।

४ AP समणहं. ५ P पंचवीस.

8 १ AP एत्तिय तीयणाणि; T तइयणाणि. २ AP ०निगेहि. ३ AP पुव्वुत्तयमाणहिं.
४ A जुयमाणइ. ५ A ०वरिसइं हीणइं. ६ T चोइवि. ७ AP कलेवर. ८ A कसणतमि. ९ AP
संकारियउ.

9 १ AP जग्गि.

9 a रिद्धिवुद्धीसर पूर्वधरा. 10 a दहुत्तर तिण्णि तिण्णि सय दशोत्तरपद्दशतानि.

8 2 a ०उण्णामियसीसइं उन्नामितमत्तकानि. 4 a परागमहारिहिं मिथ्यामतहारकाणां
वादिनाम्. 9 a पहिं लाइवि मोक्षमार्गे प्रेरयित्वा. 11 b कयरेवइसंगमि चन्द्रे कृत्तरेवतीसंगमे सति.

9 2 a अरमाणिहीहिं अरमा दारिद्र्यं निर्विनिवानं येषां तेषां दरिद्राणाम्; b अरहिल्लु
प्रकृत. सुच्चइ श्रुयते.

अरु अरसिल्लु अगंधु अरुअउ
अरु अरईरईहिं णउ छिप्पइ
अरु अरवे गुणेण संजुत्तउ
अरु अरुयाणिवासु अजरामरु
अरु अरुहक्खरोहिं जगि भाणित्त
सो संसारि भमंतु ण थक्कइ
अरु अरिहरु आवरणु महारउ

अरु अरामु अविरामउ ह्यउ ।
अरु अरोसु किहे पावे लिप्पइ ।
अरु अरुणे पवणे पहु वुत्तउ । 5
अरु अरुद्धु विहुरेण सुहायरु ।
अरु अरु वप्पे जेण णउ जाणित्त ।
अरुथुइ करहुं ण सक्कु वि सक्कइ ।
णिहणउ दंसणणाणणिवारउ ।

घत्ता—अरतित्थंकरि णिव्वुइ रंजियविउससह ॥

10

हूइ णिसुणि सुंभउमहु चक्किहि तणिय कह ॥ ९ ॥

10

एत्थु भरहि लंविद्यधयमालइ
पहु भूवालु णाम भूमंडणु
बहुयहिं आहवि एक्कु णिरुज्झइ
खज्जइ बहुयहिं भरियभरोलिहिं
बहुयहिं मिलिवि माणु तहु खंडिउ
लोहमोहमयभयजमदूयहु
भोयाकंखइ करिवि णियाणउं
सोलहसायराउ सो जइयहुं
काले कालु जाम पल्लइइ
पवरिक्खाउंवंसु सियमंदिरि
दुद्धरवइरिवीरसंघारउ

रयणासिहरघरि णयरि विसालइ ।
तहु जायउं परेहिं सहं भंडणु ।
बहुयहिं सुत्तहिं हत्थि वि वज्झइ ।
विसहरु विसदारुणु वि पिपीलिहिं ।
तेण वि पुरु कलत्तु घरु छंडिउं । 5
रिसिवउ लइउ णियडि संभूयहु ।
मुउ लद्धउं महसुक्कविमोणउं ।
अच्छइ सुरवर सहं दिवि तइयहुं ।
एत्थु कहंतरु अवरु पवट्टइ ।
सहसवाहु णरवइ कोसलपुरि । 10
कण्णाकुज्जहि राणउ पारउ ।

घत्ता—णाम विचित्तमइ सह तेण मुणालभुय ॥

सहसवाहुंणरणहहु दिण्णी णियय सुय ॥ १० ॥

२ किम. ३ A अरए. ४ AP वरुणे. ५ A अरुवाणिवासु. ६ AP जेण वप्प. ७ P सुभोमहु.

10 १ AP भूपाल. २ P छड्डिउ. ३ AP रिसिवउ. ४ AP विवाणउ. ५ AP ०वंसि तहु मंदिरि. ६ AP सहसवाह°.

3 a अरसिल्लु तित्तादिरससहितः, b अरामु स्त्रीरहित, अविरामउ विनागरहितः. 5 a अरवे गुणेण संजुत्तउ अशब्देन गुणेन युक्तः, तस्य गुणा वक्तुं न शक्यन्ते इत्यर्थः. 6 a अरुयाणिवासु आरोग्यनिवासः. 9 b णि हणउ हन्तु.

10 1 b विसालइ विशालनाम्नि. 4 a भरियभरोलिहिं भृतवल्मीकाभिः, भरोलि वल्मीकः. 10 a सियमंदिरि उज्ज्वलसौधयुक्ते गृहे. 11 b कण्णाकुज्जहि कन्याकुञ्जपुरे; पारउ पारतनामा.

11

सुंदरु लक्खणलक्खियकायउ
 वीणालावहि मज्जे खामहि
 सयविंदुं णरिंदकुलहंसं
 सिंसु जमयग्गि णाम उप्पण्णउ
 वाल्लत्तम्मि तेण सेविउ वणु
 अवरु तहिं जि द्ढगाहिणरेसरु
 वेण्णि मि समउं सोक्खु भुंजेप्पिणु
 णिउ जिणवररिस्सि सोत्तिउ तावसु
 मित्तें मित्तु वुत्तु णउ जुज्जइ
 विप्पे तासु वयणु अवहेरिउ
 जिणवरहरपयाइं सुमरेप्पिणु
 खत्तिउ मरिवि जाउ सोहम्मइ

तहि कयवीरु णाम सुउ जायउ ।
 पारयविहिणिहि सिरिमइणामहि ।
 णियजससहरधवल्लियवंसें ।
 जणणिमरणसोएं णिव्विण्णउ ।
 जगि जायउ तवतिव्वु तवोहणु । 5
 तासु मित्तु हरिसम्मु सुदियवरु ।
 जइ जाया इच्छिउ वरुं लेप्पिणु ।
 ह्यउ मोहमंदुं मिच्छावसु ।
 तावसमग्गे जम्मु ण छिज्जइ ।
 उत्तरु किं पि वि णेय समीरिउ । 10
 वेण्णि मि मुय संणासु करेप्पिणु ।
 वंभणु पुणु जोइससुरहम्मइ ।

अत्ता—चित्तिउ पत्थिवदेवे सुहि वसुमलमइहि ॥

तउ अण्णाणु चरेप्पिणु हुउ जोइसगइहि ॥ ११ ॥

12

मइं सयणेण वि णउ उत्तारिउ
 इय णिज्जाइवि दुक्कउ तेत्तहिं
 णेहपरव्वसेहिं भुयमंडिउ
 अवलोइवि जोइसु मउल्लियकरु
 पइं जिणवयणु वप्प अवगण्णिउ
 णच्चइ देउ गेयसरु गायइ
 उहइ पुरइं रिउवग्गु वियारइ

जायउ वंधु दीहसंसारिउ ।
 अच्छइ सुरवरु जोइस जेत्तहि ।
 दोहं मि एक्कमेक्कु अवरुंडिउ ।
 आहासइ विहसिवि कप्पामरु ।
 अण्णाणु जि गुरुयारउं मण्णिउ । 5
 महिलउ माणइ वज्जउ वायइ ।
 एहउ किं संसारहु तारइ ।

11 १ A सुंदरु. २ AP ०वहिणिहि. ३ A वाल्लत्तणि जि. ४ AP तउ तिव्वु. ५ AP वउ.
 ६ A ०वरसिरि सोमिच्छिउ P ०वररिस्सि सोमिच्छिउ. ७ P मेहमंदु.

12 १ दीह वंधु. २ A जोइससुरवरु. ३ AP गरुयारउ.

11 1 a त हि तत्या विचित्रमत्याम्, कयवीरु कृतवीरः. 2 b पार य वि हि णि हि पारतभगि-
 न्ना श्रीमतीनान्याम्. 3 a स य विं दु शतदिन्दुना. 4 a ज म य ग्गि जमदग्निः. 8 a णि उ नृपः. 11 a
 जि ण व र ह र प या इं सु म रे प्पि णु मुनिना जिनपादाना स्सरां कृतं तापसेन हरपादानाम्. 12 b जो इ स-
 सुरहम्मइ उभोत्तिकविमाने. 13 व सु म ल म इ हि शङ्काद्यष्टदोषमत्तौ.

12 1 a म इ इ त्या दि नृदृष्टिदेवश्चिन्तयति स्वचित्ते. 3 a सु य मं डि उ भुजौ प्रसार्य. 6 b
 दे उ नृ..

णिकलु किं सिद्धंतु समासइ
सहं विणु कहिं सँत्थपरिग्गहु
तं णिसुणिवि इयरेण पवुत्तउं

विणु वयणेण सहु कहिं होसइ ।
पइं कुमग्गि किं किउ णियणिग्गहु ।
मइं ण सिवागमि इट्टु तउ तत्तउं । 10

घत्ता—गउरीमुहकमलालिहि वरगोवइगइहि ॥

भासिउ किं पि ण वुज्झिउ देवहु पसुवइहि ॥ १२ ॥

13

ता पंभणइ सुरु सम्माइट्टिउ
सो दावहि तावसु जो गयमलु
सुहिणा उत्तउ मयणणिवारउ
ते वेणिण वि जेण गुणगणसिक्खहि
गय कलविंकमिहुणु होएप्पिणु
कणु चुणंति कीलंति भमंति वि
अण्णाहि दिणि जंपइ चिडउल्लउ
गच्छमि लग्गउ एत्थु जि अच्छहि
ता चिडउल्लियाइ पडिवोल्लिउ
पइं विणु एक्कु वि दिवहु ण जीवमि
करंहि सवह जइ परइ ण आवहि

जो तुम्हारइ णिट्टइ णिट्टिउ ।
आउ आउ वच्चहुं धरणीयलु ।
पेच्छंहि रिसि जमयग्गिभडारउ ।
सज्जण लग्गा धम्मपरिक्खहि ।
थिय मुणिमीसियवासु रएप्पिणु । 5
तावसंमासुरवासि रंसंति वि ।
कंति कंति हउं भर्मणपियल्लउ ।
कल्लइ आयहु महु मुँहुं पेच्छहि ।
हियवउ णाह महारउ सल्लिउ ।
अज्जु वियालइ जमपुरि पावमि । 10
तो मइं णिच्छंउ मुइय विहावहि ।

घत्ता—भणइ पक्खि हलि पक्खिणि परइ ण एमि जइ ॥

हउं एयहु जमयग्गिहि दुक्किउ लेमि^{११} तइ ॥ १३ ॥

14

तं णिसुणिवि सयविंदुहि णंदणु
अरि अरि पिसुण पक्खि कि वुक्कउं

पभणइ रोसजलणजालियतणु ।
महुं गुणवंतहु किं किर दुक्किउं ।

४ AP सहं.

13 १ AP वच्चं. २ P पच्छहि. ३ A जिण. ४ A तावसमासुर. ५ A रंसंति. ६ A भवणं; P भणमि. ७ महं. ८ A डोल्लिउ. ९ A करहु. १० A णिच्चउ. ११ A लेवि.

14 १ A पक्खि पिसुण. २ AP वुक्किउ.

8 a णि कलु सदाशिव, b वयणेण वदनेन. 10 a इयरेण विप्रचयेण ज्योतिःकदेवेन. 11 गउरी-मुहं पार्वतीमुखम्, वरगोवइगइहि वृषभोपरिगतेः. 12 पसु वइहि रद्रस्य.

13 5 a कलविंकं चटकः, b मुणिमीसियवासु मुनिश्मश्रुकूर्चं वासः. 6 b तावसमासुर-वासि तापश्मश्रुवासिनौ, रंसंति शब्द कुर्वन्ति. 7 b भमणपियल्लउ भ्रमणप्रिय. 8 b आयहु महु आगतस्य मम. 10 b वियालइ सध्यायाम्. 11 a सवह शपथान्, b मुइय मृताम्.

14 2 a वुक्कउं उक्तम्.

जइ दुक्किउ तो पइं संघारमि
 एव चवेप्पिणु कयसंकीलणु
 पेहुणिल्ल थिय अंवरि जाइवि
 तवहु ण जुत्तउं जीवविणासणु
 ता भासइ छारेणुद्धलिउ
 किं मइं कियेउं पाउ तवचरणे
 ता घरपक्खि कहइ लइ चंगउं
 परं किं वेयवयण ण वियाणिउं
 सुयमुहकमलु ण कहिं वि णिहालिउं
 णत्थि अपुत्तहु गइ विष्पागमि

हत्थे णिहसिवि पेहुं समारमि ।
 करहि णिहिद्धउ सउणिणिहेलणु ।
 पभणिउ तवसि तेणे पोमाइवि । 5
 खमहि ताय खम मुणिहिं विहसणु ।
 हउं तुम्हहिं किं ज्ञाणहु चालिउ ।
 गणवइतिणयणपूयाकरणे ।
 पइं तवतावे ताविउं अंगउं ।
 णवउ कलत्तु ण कत्थु वि माणिउं । 10
 दुरिपं अष्पाणउं किं मइलिउ ।
 ता संजाय चिंत जइपुंगमि ।

घत्ता—अष्पाणिउ तवभद्धउ मायावयणहउ ॥

सो तहु पारयणामहु मामहु पासि गउ ॥ १४ ॥

15

तणुरुहकारणि मग्गइ कण्णउ
 वेयालु व विथरालु जडालउ
 थेरु जराजज्जरिउ ण लज्जइ
 कीलंती अण्णेक्क पियारी
 रेणुय भणिवि तेण हक्कारिवि
 वइसारिय अंचोलिहि लुद्धे
 णिसुणि ससुर एयइ हउं इच्छिउ
 एह देवि लहुई किं बुच्चइ

कज्जलकंचणमरगयवण्णउ ।
 अवलोएप्पिणु णट्टउ वालउ ।
 धरधरिणीवापं किह भज्जइ ।
 कुयरि रेणुधूसर लहुयारी ।
 कयलीहलु दंसेवि पयारिवि । 5
 भणिउं अणंगसरोहणिरुद्धे ।
 मुद्धइ एंतु मणेण पडिच्छिउ ।
 जाहि महारउ वोळ्ळिउ रुच्चइ ।

घत्ता—णासउ तंणुगरुयत्तणु पत्थिवपुत्तियहं ॥

वद्धियजोव्वणगव्वहं मज्जु विरत्तियहं ॥ १५ ॥

10

३ AP पिट्टु. ४ AP तहि. ५ AP कयउ. ६ A सुरपक्खि, T घरपक्खि. ७ AP पइं.

15 १ AP धरि धरिणी°. २ P °धूसरि. ३ A वियारिवि, PT पवियारिवि. ४ A अचो
 लिहि. ५ AP देहि. ६ लहुवी, P लहुवी. ७ P वडगरुय°.

३ b पेहु चूर्णम्. 4 a कयसंकीलणु कृतसंकीडम्, b णि हि द्दउ निवृष्टम्, सउणिणिहेलणु पश्चि
 नीटम्. 5 a पेहुणिल्ल पक्षिणौ. 6 a छारेण भस्सना. 8 b गणवइ गणेशः, तिणयण रुद्र.. 9 a
 घरपक्खि ग्रामचट्टकः.

15 1 a तणुरुहकारणि पुत्रनिमित्तम् b कज्जल° श्यामलवर्णा. 2 b णट्टउ वालउ कन्याः
 नशाः. 4 a कुयरि कुमारी. 5 b पयारिवि प्रनार्य. 6 a अचोलिहि उत्तङ्गे. 9 णासउ तणुगरु
 यत्तणु नगरु ननुत्तम्, कुञ्जा भवन्त्वित्यर्थः.

16

कण्णउ खुज्जियाउ तहु सावें
कण्णाकुज्जणयरु तं धोसिउ
एयहं पासिउ एह रवणी
गउ वणवासहु माहिहरकंदरि
जाया तणुरुह दोण्णि महाभुयें
दोहिं मि णिहियेइं जयजसधामइं
रेणुयभायरु साहु अरिजउ
आउ णिहालिवि ससइ णमंतिइ
जइयहुं महु विवाहु किउ ताएं
अज्जु देहि बंधव जइ भावइ

जायउ तिव्वतवोहपहावें ।
देवहिं जडचरित्तु उवहासिउ ।
देहि मज्जु ता ताएं दिण्णी ।
तहि णित्रसंतहं ताहं सणिज्जरि ।
दोण्णि वि चंद सूर णं णहचुय । 5
इंदसेयरामंतइं णामइं ।
रिद्धिवंतु तवतत्तु सुसंजउ ।
मग्गिउ कि पि हसंतहसंतिइ ।
तइयहुं धणु ण दिण्णु पइं भाएं ।
जेण दुक्खु दालिहु वि णावइ । 10

घत्ता—भणइ मुणीसरु सुंदरि छिंदहि कुमयमइ ॥

दंसणणाणचरित्तइं रयणइं तिण्णि लइ ॥ १६ ॥

17

ता सम्मत्तु वियारें सहियउ
तुट्टु भडारउ सुट्टु वियक्खणु
परसुमंतु परिरक्खणु देंतें
हूइं रेणुय ताइ कयथी
तुम्हारिसहं सजीउ वि देंतहं
ससहि महंतु हरिसु पयणेप्पिणु
कामधेणु हियइच्छिउ दुब्भइ
अण्णाहि वासरि सुरगिरिधीरें
गहणणिहेलणु छुडु जि पइट्टुउ

सावयवउ मुद्धइ संगहियउ ।
करुणें करिवि सवहिणिणिरिक्खणु ।
दिण्णी कामधेणु भयवंतें ।
पभणइ भिक्खुहि पंजलिहत्थी ।
दीणुद्धरणु सहाउ महंतहं । 5
गउ रिसि धम्मविद्धि पभणेप्पिणु ।
तं तावसकुहुंचु तहि रिज्जइ ।
सहसवाहु संजुउ कयवीरें ।
राउ तवोहणेण तें दिट्टुउ ।

घत्ता—अब्भागयपडिवत्तिइ भोयणु दिण्णु तहु ॥

10

हियंउं भिण्णउं दोहं मि कुंअरहु पत्थिवहु ॥ १७ ॥

16 १ AP कण्णाखुज्जु. २ A तहु धोसिउ. ३ A कुडचरित्तु. ४ A महब्भुय. ५ A दिण्णइं. ६ A जं भावइ. ७ A दालिहु ण आवइ, P दालिहु वि ण आवइ. ८ P छडुहि.

17 १ A सुद्धे. २ P पररक्खणु. ३ P तें. ४ P तहिं. ५ AP हियवउ. ६ A कुमरहु.

16 1 b तवोहं तपःसमूहः. 2 b देवहि देवान्याम्. 6 b इंदसेयरामतइं इन्द्रराम. श्वेतराम इति. 8 a आउ णिहालिवि आगतं दृष्ट्वा, ससइ भगिन्या रेणुकया. 9 b भाए भ्रात्रा.

17 1 a वियारें ज्ञानेन. 4 b सहाउ स्वभावः. 7 b रिज्जइ ऋद्धिं प्राप्नोति. 9 a गहण-णिहेलणु वनस्थगृहं तापसगृहम्. 11 भिण्णउ साश्वर्यं जातम्.

18

णियजणणीसस णविवि णियच्छिय
अम्मि अम्मि भोयणु भल्लारउं
एहउं नृवहं मि णउं संपज्जइ
अक्खिउ रेणुयाइ विहसेप्पिणु
ताइ वुत्तु अम्हहं चिंतिउ फलु
जं अंवाइ एम आहासिउं
रयणइं होंति महीयलवालहं
तासु वि तहि जि चित्तु आसत्तउं
चउरासमगुरु रयणिहिं अंचहि

माउच्छिय कयवीरें पुच्छिय ।
जहिं चक्खिज्जइ तहिं रससारउं ।
तुम्हहं तावसाहं किह जुज्जइ ।
गउ वंधवु सुरधेणुय देप्पिणु ।
णं तो पुणु वणि भुंजहुं दुमहलु । 5
तणएं तं णियंपिउहि पयासिउ ।
णउ तवसिहिपसरियजडजालहं ।
कयवीरें कर मउलिवि वुत्तउं ।
दिक्खगाइ दिय देहि म वंचहि ।

यत्ता—गाइ ण देमि म पत्थहि अरितरुणियरसिहि ॥

10

विणु गाइइ अम्हारइ ण सरइ होमविहि ॥ १८ ॥

19

ता तं सुणिवि तेण महिणाहें .
झ त्ति अमरवरसुरहि मैहद्धिय
भुयहिं धरइ जमयग्गि ण संकइ
तवसिहि करु करेण अच्छोडिउ
णीसारिय णांदिणि मढवोंसहु
उद्धावद्धाणिविडजडमंडलु
सोत्तरीयउववीययउरयलु
वद्धतोणु परिवद्धियअमरिसु
दोणिण तिण्णिण चउ पिच्छंचिय वरं

गोहणलुद्धें णं वणवाहें ।
कंचणदामइ धरिवि णियद्धिय ।
रेणुय कलयलु करहुं ण थक्कइ ।
णिच्चलु मेइणियलि सौ पाडिउ ।
णं णियंजीयवित्ति तणुदेसहु । 5
सवणोलंवियतंवयकुंडलु ।
धूलिधवळु अवलोइयभुयवलु ।
धाइउ सर मुयंतु रणि तावसु ।
पंच सत्त णव दह चंचलयर ।

18 १ AP णिवहं. २ P ण वि. ४ AP दुमफल. ४ णियपियहि. ५ A तवसियपसरिय°.

19 १ P ता ते सुणिवि. २ AP महिद्धिय. ३ A तहिं पाडिउ. ४ AP add after this चल्लिउ लेवि जाम णियवासहु (A णियदेसहु). ५ A omits this foot. ६ P तणु देंतहु. ६ A समणोलविय°. ८ A सोत्तरीउ. ९ A धवल. १० AP सर.

18 1 b माउच्छिय मातृष्वसा. 6 a अवाइ लक्षुमात्रा मातृष्वसा. 7 b तवसिहिपसरियजडजालहं तपोग्निना प्रसारितं जटाजालं येषां तेषा रत्नानि न भवन्ति. 9 a चउगसमगुरु चतुर्णा-माश्रमाणा गुण गजा, b दिय हे यते. 10 °सिहि हे अग्ने. 11 सरइ संपद्यते.

19 1 b वणवाहें भिल्लेन. 2 a अमरवरसुरहि कामधेनुः; b णियद्धिय आकृष्टा. 4 a तवसिहि करु यतिहस्त, अच्छोडिउ मोचित.. 5 b णियजीयवित्ति, निजजीवप्रवृत्तिः तणुदेसहु शरीरप्रदेमात्. 6 a उद्धावद्ध° ऊर्ध्वे वद्धम्; °जडमंडलु जटामण्डलम्.

वारह तेरह पुणु पण्णारह सोलह वाण मुक्क सत्तारह । 10
 णहयलु सरसच्छणु ण दीसइ सहसवाहु णियरहियहु भासइ ।
 घत्ता—वाहि वाहि रहु तुरिपं संघारमि कुमइ ॥
 एहा महियलि जइ जइ तो केहा णिवइ ॥ १९ ॥

20

वाणहिं वाण हणेप्पिणु विद्धउ णं चंदणतरु णायहिं रुद्धउ ।
 जइ विचित्तमइदइएं घाइउ सयविंदुहि तणुरुहु विणिवाइउ ।
 णाहमराणि दुक्खेण विसइइ गाइ ण जाइ हयवि पलइइ ।
 महिपलोहु णियसामि णिहालइ पुच्छि विज्जइ जीहइ लालइ ।
 दुद्धे सिंचइ वयणु समिच्छइ ओरसंति णियहुंलइ अच्छइ । 5
 जाम ताम णियवइरिहिं चप्पिवि रोचइ रेणुय विहुरु वियप्पिवि ।
 हा हा कंत कंत किं सुत्तउ किं ण चवहि महं काइं विरत्तउ ।
 मुच्छिओ सि किं तवसंतावे किं परवसु थिउ झाणपहावे ।
 लइ कुसुमाइं घट्टु लइ चंदणु कराहि भडारा संझावंदणु ।
 घत्ता—उट्टि णाह जलु ढोवहि तण्हाणिरसणउं ॥ 10
 करि सहवासियहरिणहं करयलफंसणउं ॥ २० ॥

21

दावहि एयहु कुवलयकंतिहि जलु होमावसेसु सिसुदंतिहि ।
 उट्टि णाह तुहुं एक्कु जि जाणहि तणयहं वेयपयइं वक्खाणहि ।
 तेहिं वि अज्जु काइं सुइराविउं अवरु कि पि किं दुग्गि विहाविउ ।
 जहिं गय कंदमूलफलगुंछहं तहिं किं कामि णिवडिय खलमेच्छहं ।

११ A णहयलु सच्छणुउ णउ दीसइ, P णहयलु छणु ण वाणहिं दीसइ. १२ वाहु वाहु.

20 १ AP चदणतरु णं. २ A णियहुल्लिय; P णियहुल्लइ. ३ A णियवइउरि.

21 १ A दुग्गु. २ AP ०गोच्छहं.

11 a सरसच्छणु वाणैराच्छादितम्, b १रहियहु सारथेः. 12 वाहि वाहय. 13 एहा ईदशाः, जइ यदि, जइ यतय, केहा कीदशाः.

20 2 a जइ यतिः, विचित्तमइदइएं विचित्रमत्या भर्त्रा सहसत्राहुना. 3 b हयवि शृङ्गादिना हत्वा. 4 b विज्जइ वीजयति. 5 b णियहुल्लइ निकटे. 9 a षट्टु घृष्टम्.

21 1 a सिसुदंतिहि त्रालगजस्य. 2 b वेयपयइं वेदपदानि. 3 b दुग्गि वने. 4 b कामि णिवडिय हस्ते पतितौ.

णउ मुणंति जं जणयहु जायउ
 आर्यण्णवि तहिं जणणिहि रुण्णउं
 जाइंवि दोहिं मि थीयणसारी
 भणु भणु केण ताउ संघारिउ
 कुलिसिहि कुलिसु केण मुसुमूरिउ
 केसरिकेसरग्गु किं छिण्णउं
 केण सदेहु हुणिउ कालाणणि

ता तहिं सुयजुवल्लुउं आयउं । 5
 पिउमडउल्लुउं वाणविहिण्णउं ।
 पुच्छी अम्माएवि भडारी ।
 केण संपाणणासु हकारिउ ।
 सेसफडाकडणु किं चूरिउ ।
 केण गरलु हालाहलु चिण्णउं । 10
 को पइहु वइवसमुहधंघलि ।

घत्ता—इज्जइ कहिउ ख्यंतिइ भोयणरिद्धिभरि ॥

सहसबाहु कयवीरु वि भुंजिवि मज्झु घरि ॥ २१ ॥

22

जहिं भुत्तउं तहिं भाणउं भिंदिवि
 गय रिउ हरिवि महारिय धेणुय
 गज्जिवि पुणु वि रोसरसभरियउ
 ता जेदुहु उवइदुउ मायइ
 गय धेणिण मि जण धीरं महाइय
 करि तुरंगु रहवरु णरु णावइ
 लंघिरकेसइं भउहाभीसइं
 णासंत वि खत्तिय णिक्खत्तिय
 जो भूआलु णाम चिरु राणउ
 देउ महासुकंतरि जायउ
 समउं तेण गब्भेण पलाणी

कंतु महारउ कंडहिं छिंदिवि ।
 ता संथविय संपुत्तिहिं रेणुय ।
 णयणजुयलजलु जणणिहि पुसियउ ।
 परसुमंतु दिण्णासीवायइ ।
 तं साकेयणयरु संप्राइय । 5
 दसदिसु चहुलु परसु परिधावइ ।
 पिउपुत्तहं खणि छिण्णइं सीसइं ।
 वइवसमुहकुहरंतरि घत्तिय ।
 जो तउ चरिवि मरिवि सणियाणउ ।
 जो पुणरवि जम्मंतरि आयउ । 10
 सइ विचित्तमइ णामे राणी ।

घत्ता—णियपइपुत्तहं मरणे सोयविसंतुलिय ॥

सुंदरि भयकंपियतणु कत्थइ संचलिय ॥ २२ ॥

३ AP जणणहु. ४ A आयण्णिवि तहिं; P आयण्णंतहिं. ५ A जोयवि. ६ P ताउ केण. ७ A सुपाण-
 णासु. ८ A जि छित्तउ. ९ AP भुत्तउं. १० AP हरि.

22 १ AP गउ. २ AP महारी. ३ A सपुत्तिहि. ४ P धीर. ५ AP संपाइय. ६ AP
 भूपाल. ७ AP सो.

5 a जं जणयहु जायउ तातस्य मरणम्. 6 b पिउमडउल्लुउं पितुर्मृतकम्. 7 a थीयणसारी
 स्त्रीजनमध्ये उत्तमा. 9 कुलि सि हि इन्द्रस्य. 10 b चिण्णउ भक्षितम्. 11 b धंघलि विघ्नप्राये.
 12 इज्जइ मात्रा; रिद्धिभरि ऋद्धिभृते मम गृहे.

22 2 a महारिय मदीया, b सपुत्तिहिं स्वपुत्राभ्याम्. 3 b पुसियउं मार्जितम्. 4 b
 दिण्णासीवायइ दत्ताशीर्वादया मात्रा. 6 a णावइ अभिमुखं नागच्छति. 7 a भउहाभीसइं भ्रुकुटि-
 भीषणानि. 8 a णिक्खत्तिय निपातितः; b वइवसमुहं यममुखम्. 9 a भूआलु भूपालो विशाल-
 नगरपतिः. 13 a सुंदरि विचित्रमतिः.

23

सा गुरुहार दिदु संडिल्लें
अणिय सा सुबुद्धिणिग्गंधहु
वसइ जिणालइ गइ रणयालइ
पुत्तु पसूइ देवहिं रक्खिउ
पुच्छिउ साहु समंजसु घोसइ
सोलहमइ पत्तइ संवच्छरि
देवीभायरेण हयसल्लें
पडिभडवरसिरखुडणसमत्थइं
पत्तहि रिसिजमयग्गिहि पुत्तें

तावसेण संसयणवच्छल्लें ।
सुद्धसहावहु कहियसुपंथहु ।
फुल्लियकाणणि तहिं मिग्गेलइ ।
मायइ कुलउद्धरणु णिरिक्खिउ ।
णंदणु छक्खंडाहिउ होसइ । 5
तुहुं पेच्छिहिसि चिंधु तणुरुहवरि ।
णिउ णियभवणहु सिंसु संडिल्लें ।
परिपालिउ सिक्खिउ सत्थत्थइं ।
जयसिरिरइरसलंपडचित्तें ।

घत्ता—जणणमरणु सुअरतें मारिय रायवर ॥

10

परसुमंतंमाहर्षे रणि करवालकर ॥ २३ ॥

24

एक्कवीसवारउ णिक्खत्तिवि
वड्ढियवेयवयणमाहप्पहं
जाया रिद्धिइ सक्कसमाणा
जहिं दीसइ तहि पसु मारिज्जइ
सोमपाणु महुमहुरउ पिज्जइ
विउलजणमंडवासिरि दावइ
णिच्चमेव संठियपडिहारइ
पयडियदंतपंतिवियरालइं
ताराणियरसिसिरकरधवलइं
जायउ सव्वभोमभूवालउ
गुरुहारहि कह कह व चलंतहि

खत्तिय सयल्लु वि छारु पौरत्तिवि ।
पुहइ असेस वि दिण्णी विप्पहं ।
जहिं दीसहि तहिं दियवर राणा ।
पियरहं ढोपप्पिणु पल्लु खज्जइ ।
सामवेयपउ मणहरु गिज्जइ । 5
होमहुयासधूमु णहि धावइ ।
परसुरामदेवेसुदुवारइ ।
खांभि खांभि कीलियइं कवालइं ।
णं जसवेल्लिहि फुल्लइं विमलइं ।
किं वाण्णिज्जइ तावसवालउ । 10
मायहि पसवणवियणकिलंतहि ।

23 १ A सिंसुजणवच्छल्लें, P ससुयणि वच्छल्लें. २ AP सइ सुबंधु°. ३ A तेत्थु सा वि जा वसइ जिणालइ, P वसइ जिणालइ गय रणयालइ. ४ A सचिंधु तणु°. ५ A सिरिजम°. ६ AP सुम-रतें. ७ A °मंतिमाहर्षे रण°.

24 १ A सयल वि. २ AP पवत्तिवि. ३ A सुदुवारइ. ४ A सव्वभूमिभूवालउ.

23 1 a गुरुहार गर्भिणी, b ससयण° निजस्वजन°. 3 a गइ रणयालइ रणकाले गते सति. 5 a समंजसु न्यायवान्. 6 b चिंधु ध्वजम्.

24 1 b परत्तिवि भस्मीकृत्य. 8 b कीलियइ कवालइ जटितानि हतानां राशं कपालानि. 10 a सव्वभोमभूवालउ सर्वपृथ्वीपरिपालकः.

उप्पज्जइ सो को वि सुणंदणु
जामयग्गिणरणहें जेहउ

किज्जइ जेण वइरिसिरिंछिंदणु ।
अण्णहु जयविलासु कहु एहउ ।

घत्ता—भरहु असेसु वि भुत्तउ हय रिउ तायवहि ॥

पुष्पदंत तहु तेएं सभय चरंति णहि ॥ २४ ॥

15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए
महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे अरतित्थंकरणिव्वाणगमणं
परसुरामविहववण्णणं णाम पंचसट्ठिमो
परिच्छेओ समत्तो ॥ ६५ ॥

५ A कहिं. ६ A सुभूमचक्कवट्टिउप्पत्ती.

11 a गुरुहार हि गर्भिण्या . 14 हय रिउ तायवहि पितृवघे रिपवो हता . 15 a तहु तेएं तस्य इन्द्रामत्य तेजसा.

एत्तहि गिरिगहणि तावसघरि वड्डइ सुंदरु ॥
लक्खणचेंचइउ ण्हणिवड्डिउ णाइ पुरंदरु ॥ ध्रुवरुं ॥

1

करताडियवरफणिकणकडप्पु
लीलाइ धरियकेसरिकिसोरु
दियसिहिं वड्डिउ णं वालयंदु
सत्तुहि छिंदंतहु अमरसेण
णं सहसबाहुकुलजसणिहाउ
चक्कंकियकरयल्लु पायपउमु
विहवत्तणहुंक्खोहरियछाय
सांडिल्लु मामु तुहुं जणणि माइ
विणु ताएं पुत्तु ण होइ जेण

उद्दालियवणमायंगदप्पु ।
तरुंकीलिरकिणरिचित्तचोरु ।
णं सो णिववंसहु तणउ कंदु । 5
उव्वरिउ कहि मि जो विहिवसेण ।
णं परसुरामसिरकुलिसघाउ ।
हक्कारिउ मामें सो सुभूउमु ।
अण्णहि दिणि पुच्छिय तेण माय ।
पर ताउ ण पिच्छमि महुरवाइ । 10
महु संसउ वड्डइ कहहि तेण ।

घत्ता—भणु हउं कासु सुउ महियलि मंडणउ पहिल्लउं ॥

भणु किं कारणेण तुह हत्थि णत्थि कहुंल्लउं ॥ १ ॥

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:-

यस्येह कुन्दामलचन्द्रोचि समानकीर्तिः ककुभां मुखानि ।
प्रसाधयन्ती ननु बम्भ्रमीति जयत्वसौ श्रीभरतो नितान्तम् ॥ १ ॥

पीयूषसूतिकिरणा हरहासहार-
कुन्दप्रसूनसुरतीरिणिशक्रनागा ।
क्षीरोद शेष बल याहि निहंस चैव
किं खण्डकाव्यधवला भरत स्थ यूयम् ॥ २ ॥

A reads in the third line: बलयासिति हंस चैव, P reads बलसत्तम हस चैव, AP reads in the fourth line भरतस्तु यूयम्. K has a gloss. याहि त्व गच्छ; निहंस नितरा हंस त्वमपि गच्छ । यूयं किं भरतः अतिशयात् खण्डकाव्यवत् धवला वर्तध्वे, अपि तु न । तर्हि गच्छन्तु.

1 १ AP णहि णिवड्डिउ. २ P °फणिकड°. ३ P उद्दालिय°. ४ A णिरु कीलिरकिणर°. ५ P omits ण. ६ AP °सिरि कुलिस°. ७ A सुभूमु. ८ A °दुक्खे हरिय°. ९ A भणु कासु सुउ हउ महिलहि मंडणउ. १० AP कडउल्लउ.

1 1 तावसघरि शाण्डिल्यगृहे. 2 °चेंचइउ भूपित., 7 ण कुलजसणिहाउ कुलजगः-समूहः. 9 ण °दुक्खो हरिय छाय °दुःखेन अपहृता शोभा यस्याः.

2

तावम्महि अंसुजलोल्लियाइं
जाणिवि णियतणयहु तणिय सत्ति
सुणि सुय जो सुव्वइ परसुरामु
तावट्टवीसधणुदंडतुंगु
तं णिसुणिवि णं जमरायदूउ
चूडामणिकिरणालिहियमेहि
दिउ णारायणकमकमलभसलु
सो पुच्छिउ तेण कयायरेण
सहसयरसिरुप्पल्लूरणेण

णयणइं णं कमलइं फुल्लियाइं ।
पडिलवइ सहसभुयरायपात्ति ।
तें मारिउ तुह पिउ अतुलथामु ।
वण्णे कणयच्छवि राणि अहंगु ।
आरुट्टु अरिहि सिद्धिचुरुलिभूउ । 5
तावेत्तहि रेणुयतणयगेहि ।
संपत्तउ केहिं मि णिमित्तकुसलु ।
उद्धरियसंधरधरगुरुभरेण ।
णियजणणिमणोरहपूरणेण ।

घत्ता—पइं विप्पेणं जगि जीवहं भवियव्वु पमाणिउं ॥

10

महु कइयहुं मरणु भणु भणु जइ पइं फुडु जणिउं ॥ २ ॥

3

तं णिसुणिवि विप्पे वुत्तु एम
भोयणकालइ रसरसियभावि
रिउदसण असणभावेण जासु
ता राएं णयरि महाविसाल
संणिहिय णिओइय दिण्णु दाणु
पीणिवि देसिय तित्तिइ डेरंत
दसदिसिपहहि पसरिय एह वत्त
अइदीहरपंथं मंथिएण
भो भो कुमार लहु जाहि जाहि

रायाहिराय भो णिसुणि देव ।
अग्गइ दक्खालिइ कयसरावि ।
णिव परिणमंति तुहुं वज्जु तासु ।
काराविय तक्खाणि दाणसाल ।
धिउं दुद्धु दहिउं इच्छापमाणु । 5
णिच्चं चिय दाविज्जंति दंत ।
कयवीराणुयसुइसुसिरु पत्त ।
वेणि जंतं वुत्तउ पंथिएण ।
साकेयणयरि भुंजंतु थाहि ।

घत्ता—किं वणतरुहलेहिं खद्धेहिं मि तित्ति ण पूरइ ॥

10

पेच्छिवि तुज्जु तणु महुं भायर हियवउं जूरइ ॥ ३ ॥

2 १ AP ता अम्महि. २ AP रिउहि. ३ A कह व. ४ A सधरगुरुभायरेण. ५ A °पूरएण.
६ A विप्पेण वर जगि, P विप्पे वर जगि. ७ AP पमाणियउं. ८ AP जाणियउं.

3 १ AP पीणिय. २ A फुरंत. ३ A दहदिसिपह°; P दसदिसिपह°. ४ A कुमारहु अक्खिउ
ता पथिएण.

2 1 a असुजलो ल्लियाइं अश्रुजलार्द्राणि. 2 b °पत्ति विचित्रमतिः. 5 b सिद्धिचुरुलिभूउ
अमिज्वालासदृशः. 7 a दिउ द्विज. 9 a सहसयरं सहस्रवाहुः. 11 कइयहुं कदा.

3 2 a रसरसियभावि रसनायको रसिकः भावः परिणामस्तत्र, b कयसरावि स्थापित-
शगवे. 3 a असणभावेण ओदनभावेण, शरावे ये शत्रूणा दन्ताः स्थापिता ते यस्य पुरुषस्य दर्शनेन
ओदनो भविष्यति तेन त्वं वध्य इत्यर्थः. 5 a णिओइय किंकराः. 6 a देसिय यात्रिका, डरत
मीता. 7 b कयवीराणुयं सुभौमः, °सुइसुसिरु कर्णविवरम्.

4

जहिं रायहु केरुं अत्थि दाणु
भोयणपत्थावइ मुहरुहोहु
सो जासु कुरु होही सुरामु
तहि गच्छहि पेच्छहि चोज्जु वप्प
तं णिसुणिवि मणि चितइ कुमारु
दुज्जणकरगाहगलत्थियाइं
दरिसावियबंधवलोयवसण
सो णिहयंजणणिजोव्वणवियारु
वरिसहं परमाउसु जमदुगेज्जु
लइ णियइ ण दुक्कइ अंतरालि
अह वा जइ मरामि ण तो वि दोसु

जहिं जणवउ भुंजइ अप्पमाणु ।
जहिं दरिसिज्जइ ससिअंतसोहु ।
तहु हत्थे मरिही परसुरामु ।
किं अच्छइ काणणि णिव्वियप्प ।
उहु उहु णरु जंगलपुंजु फोरु । 5
जे दिट्ठइं सयणइं दुत्थियाइं ।
जेणायणिय णंदंत पिसुण ।
अम्हारिसु जीवइ भूमिभारु ।
धुवु सट्ठिसहासइं आउ मज्जु ।
रिउ चूरामि मारमि कल्लहकालि । 10
लइ अज्जु करामि हउं सहलु रोसु ।

घत्ता—तायवियारणउं जं वहरु रिणु य चिरु दिण्णउं ॥

तं हउं तासु राणि लइ अज्जु देमि उच्छिण्णउं ॥ ४ ॥

5

इय भणेवि वीरो^१ धुरंधरो
कायकंतिधवलियदिसावहो
धराणिविजयसिरिविजयलंपडो
दंडपाणिपोत्थयपरिग्गहो
कुसपवित्तयंकियकरंगुली
सहयरेहिं सह लच्छिमाणो
दाणमंडवं खणि पइड्ढओ

समरभारवहणेक्कंधरो ।
चिक्करंतच्छक्कणुपाणहो ।
कसणकुडिलधम्मिल्लक्षंपडो ।
रत्तवीरवेचइयविग्गहो ।
कोसलं पुरं पत्तओ वली । 5
वेयघोसवाहिरियदिसाणणो ।
तं णिउत्तमणुपहिं दिट्ठओ ।

4 १ P °पत्थारइ. २ A मरही. ३ A णरजंगल. ४ AP भार. ५ AP णिहियजणणिहि जोव्वण°. ६ AP समरकालि. ७ A वहरु रिणु चिरु ण दिण्णउं, P वहरु रिणु व चिरु दिण्णउं.

5 १ AP धीरो. २ AP °कवलिय°. ३ A चिक्करतु छक्कणुवाणहो, P चिक्करतु छक्कणुवाणहो.

4 1 b अप्पमाणु अतिवहुलम्. 2 a भोयणपत्थावइ भोजनप्रस्तावे; मुहरुहो हु दन्त-समूहः, b ससिअतसोहु चन्द्रकान्तसदृशः. 2 a सुरामु मनोहर. 4 a चोज्जु आश्चर्यम्. 5 b जंगल-पुंजु मासपुञ्ज. 8 a णिहयजणणि जोव्वणवियारु निहत. जननीयौवनविकारः कुचानामध पतना-द्येन स..

5 2 b छक्कणुपाणहो °पट्कर्णोपानद्युक्तः. 3 b °धम्मिल्लक्षंपडो मुक्तकेशः. 5 a कुस-पवित्तय° दर्भसुद्रिका.

तेहिं तस्स णविऊण णीरयं
आसणे णिविडुंस्स णिम्मलं

पायपोमपक्खालणं कयं ।
णीलदब्भंखंडं पुणो जलं ।

घत्ता—पुणु अहियारिण्हिं ढोएप्पिणु मिट्टुअ भोयणु ॥

10

दसणुक्केरु तहु दक्खालिअ जायउ ओयणु ॥ ५ ॥

6

जं दंत जाय णवकलमसित्थ
हणु हणु भणंत करफुरियखग्ग
परमेसरु ते णउ गणइ केव
जो दसणपुंजु तं कूरु जाउ
उट्ठिवि दिट्ठिइ चप्परिय सव्व
विण्णविउ तेहिं पहु परसुधारि
आएसपुरिसु संपत्तु भीसु
सपसाहणेण हरिवाहणेण
आवंतु दिट्ठु वालें अणेण
जइ अत्थि को वि सुक्कियपहाउ
इय चित्तिवि तेण सुकम्मवाउ
भामिउ णहि जायउ णिज्जियक्कु

तं उट्ठिय भड रणभैरसमत्थ ।
वालहु अखत्तधम्मेण लग्ग ।
कंठीरउ वणि गोमाउ जेव ।
तं जोयइ णं णियजसणिहाउ ।
गय णासेप्पिणु भड गलियगव्व । 5
भो पुहइणाह रिउ जीवहारि ।
तं णिसुणिवि णिग्गउ इंदरामु ।
संणज्जिवि लहु सहं साहणेण ।
भुयदंड तुलिय हरिसियमणेण ।
तई एउ जि पहरणु मज्झु होउ । 10
तं दंतकूरपुरिउ सराउ ।
आरासहासविप्फुरियउ चक्कु ।

घत्ता—रिसिसुउ तेण हउ मारिउ गउ णरयणिवासहु ॥

दुग्गइ सावडइ सव्वहु वि लोइ कयहिंसहु ॥ ६ ॥

7

दुइसय कौडिहि वरिसहं गयहं अरतित्थे
राउ सुभोमउ रामाकामउ हुउं सुत्थे ।

४ AP णमिऊण. ५ A आसणोपविट्ठस्स. ६ A णीलडम्भ°.

6 १ A भड समत्थ २ P अक्खत्तधम्मेण. ३ AP तहिं कूरु. ४ A चप्परिवि. ५ A adds after this. वोल्लिउ पडिभडडडमंजणेण. ६ A तइ एउ; P ता एउ. ७ A सकम्मवाउ. ८ A दंतंत-कूरु. ९ AP °विप्फुरिउ.

7. १ A दुइसय वरिसहं गइयहं कौडिहि, P दुइसय वरिसहं कौडिहिं गइयहं. 2 AP सुभउ-मउ. ३ A हुवउ सुत्थित्थे; P हुउ सत्थे.

8 a णीरयं धूलिरहितं यथा भवति तथा. 11 दसणुक्केरु दन्तसंघात°.

6 2 b अखत्तधम्मेण अक्षत्रधमेण अन्यायेन, स एक. ते बहवः इति अक्षत्रत्वं जातम्. 3 a परमेसरु सुभोम°; b गो माउ शृगालः. 5 a चप्परिय उत्सारिता°. 8 a सपसाहणेण शृङ्गारितेन, हरिवाहणेण अश्ववाहनेन. 10 b एउ ओदनगरावः. 11 a सुकम्मवाउ सुकर्मपाकः. 13 रिसि-सुउ इन्द्रगम. 14 सावडइ संपन्नते; लोइ लोके.

7 2 सुत्थे प्रसत्ते अग्नीधे.

माणु मलेष्णिणु दुँद्वहं धिद्वहं दुज्जणहं हित्तइं छत्तइं चमरइं चिधइं वंभणहं ।	
रहजंपाणइं पिउंसंताणइं लद्धाइं चउदहरयणइं णव वि णिहाणइं सिद्धाइं ।	5
छक्खंड वि महि जयलच्छीसहि भुत्त किह असिणा तासिवि णाएं भूसिवि दासि जिह ।	
एक्कहि वासरि उग्गइ दिणयरि उत्तसिउ विरइयभोयणु अमयरसायणु भाणसिउ ।	10
कयलालाजल णावइ कोमल झंडुलिय तेण सिरीधरि दिण्णी णिवकरि अंवलिय ।	
सा भक्खंतं रसु चक्खंतं सिरु धुणिउं राएं तं रूसिवि तहु गुण दूसिवि जं भणिउं ।	
तं खलसंदहि णिरु दुवियद्वहिं पोसियउं जीविउ धीरहु तहु सूवारहु णासियउं ।	15
मरिवि सतामसु जायउ जोइसु दुक्कु तहि छण्णं रोसं वणिवरवेसं राउ जहि ।	
तं माहिवालहु जीहालोलहु ढोइयइं फलइं अणेयइं बहुरसंभेयइं जोइयइं ।	20
गइं पक्खंतरि अह मासंतरि रहइ खलु वणिउ सराएं मग्गिउ राए देहि फलु ।	
तेण पवुत्तउं देव णिरुत्तउं णिट्टियइं णिरु दूरंतरि परदीवंतरि संठियइं ।	
घत्ता—फलसंदोहु मइं सुरवरहुं पसाएं लद्धउ ॥ णिच्छउ णिट्टियउ लइ पइं जि भडारा खद्धउ ॥ ७ ॥	25

8

सच्चउं वसुहाहिव कहमि तुज्जु
तुह पुणु पहु अवलोयणि तसंति

एवहिं ते देव ण देंति मज्जु ।
इयरहं कह महिमंडलि वसंति ।

४ AP धिद्वह दुद्वह. ५ A चमरइ छत्तइ चिधइ, P चमरइं चिधइ छत्तइ. ६ जाणइ सयणइं लद्धाइ.
७ P अमिय°. ८ A झिदुलिय. ९ A भक्खतइं. १० A चक्खतइं. ११ A राएं रूसिवि. १२ P राइ-
यइ. १३ AP बहुविहभेयइ. १४ P ढोइयइ. १५ P गहपक्खंतरि. १६ A णिउत्तउ.

8 णा ए न्यायेन. 11 झंडु लिय अम्लिका चिद्धा. 18 छण्णं प्रच्छन्नेन. 22 सराएं सराणेण. 26 णि-
ट्टियउ समाप्तिं गतम्.

राएं पंडिवण्णउं वयणु तासु
णिउ णरपरमेसरु तेण तेत्थु
जीहिंदियविसयवसेण खविउ
चडुयविहत्थु रोसेण फुरिउ
पभाणिउ मइं जाणहि किं ण पाव
चिचिणिहलत्थि दप्पिइ दुट्ठं
इय कहिवि तेण सयखंडु करिवि

भणु भुवाणि ण दुक्कइ णियइ कासु ।
करिमयरभयंकरु जलहि जेत्यु ।
तहिं सिहरि सिलायलि णिवइ थविउ १५
सूयारवेसु देवेण धरिउ ।
खलवयणणाडिय रे कूरभाव ।
हउं पइं जम्मंतरि णिहउ कट्ठं ।
मारिउ गउ णरयहु भउमु मरिवि ।

घत्ता—गोत्तमु वज्जरइ मगहाहिव चारु चिराणउं ॥

10

अण्णु वि णिसुणि तुहुं वलणारायणहं कहाणउं ॥ ८ ॥

9

इह खेत्ति णिसेविवि जइणमग्गु
तहि एक्कु सुकेउ सहुं ससल्लु
इह भारहंति संपुण्णकामु
इक्खाउवंसगयणयलि चंडु
तहु देवि पढम पिय वइजयंति
जइयहुं सुभउमि मुइ जाणियाहं
तइयहुं संसुउ सोहम्मदेउ
अण्णेक्कु लच्छिमइयहि ससल्लु
तहिं एक्कु पकोक्किउ णंदिसेणु
णामइं हक्कारिउ पुंडरीउ
ते वेण्णि वि णीलसुपीयवसण
दोहं मि चिच्छिण्णउ आवयाउ

दो पत्थिव गय सोहम्मसग्गु ।
किं वण्णामि मूढंउ मोहगिल्लु ।
चक्कउरि णाहु वरसेणु णामु ।
दाणोल्लियकरु णं सुरकरिंदु ।
लच्छिमइ वीय णं ससिहि कंति । 5
छहसयसमकोडिहि झीणियाहं ।
हुउ पुत्तु जयंतिहि सोक्खहेउ ।
कि वण्णामि अण्णडिमल्लुमल्लु ।
अण्णेक्कु वि दुत्थियकामधेणु ।
कि थुणामि वइरिमृगपुंडरीउ । 10
ते वेण्णि वि भायर धवलकसण ।
दोहं मि संसिद्धउ देवयाउ ।

घत्ता—सीरिहि साहियइं छप्पण्णसहासइं वरिसहं ॥

चक्किहि णाहियइं परमाउसु एंव सुपुरिसहं ॥ ९ ॥

8 ३ A वडिवण्णउ. २ AP °विसयवसेण. ३ A चडुयविहत्थु, P चडुयविहत्थु. ४ A दुट्ठं.
५ A कट्ठं.

9 १ A सुउ. २ A मोहे मूढगिल्लु. ३ A चक्कउरिणाहु. ४ AP अण्णेक्कु वि लच्छिमइहि. ५ AP
अण्णडिमल्लु. ६ AP मिग°. ७ AP read a as b and b as a. ८ P संच्छिण्णउ. ९ AP एउ.

8 3 b णियइ भवितव्यता. 5 a न्वविउ झित. 6 a चडुयविहत्थु चाडुकारेण व्याकुलः.
8 a चिचिणिहलत्थि चिच्चिर्णाफलनिमित्तम् b णिहउ मारितः.

9 3 a भारहति भरतमध्ये. 4 b दाणोल्लियकरु दानार्द्रकरः. 6 b छहसयसमकोडिहि
पद्दानवकोटिभि. 7 b जयतिहि वैजयन्त्या. 10 b °पुंडरीउ व्याघ्र. 12 a आवयाउ आपदः.
14 णाटियइ न अविक्कानि, तत्समानि एव पद्पचागद्वर्षसहस्राणि.

10

छञ्चीसचाव देहहु पमाणु
 इंदउरि णरिदु उविंदसेणु
 तहु तेण धीय दामोयरासु
 तं हरहुं पराइउ पहु णिसुंभु
 जायउं रणु विज्जहि लग्ग वे वि
 पडिहरिणा घल्लिउ धगधगंतु
 तेणाहउ उरयलि पडिउ वेरि
 गउ णरयहु णियमगगहियखेरि
 हरि हलहर रज्जु करंत थक्क
 सव्वभंतरि णिवडिउ चक्कपाणि
 सिवघोसगुंरुहि उवएसएण

ताहिं ताहं पहुत्तणु जाणमाणु ।
 जो देवहिं गेज्जइ धरिवि वेणु ।
 पोमावइ दिण्ण कयायरासु ।
 चिरभवि सुकेउ सो रिउणिसुंभु ।
 अवरोप्परु णउ सक्किय हणेवि । 5
 धरियउं कण्हेण रहंगु पंतु ।
 अइभीसणु कयधम्मावहेरि ।
 महि सांहिवि पहयाणंदभेरि ।
 ता कालें अणुयहु दिट्ठि मुक्क ।
 हलिणां विरइय कम्मावहाणि । 10
 सिद्धउ मुक्कउ मोहें मएण ।

घत्ता — भरहणराहिवहिं मणभरियभत्तिपइरिक्कहि ॥
 वंदिउ विसहरोहिं खगपुप्फयंतगहचक्कहिं ॥ १० ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे सुभउमचक्कवट्टि-
 वलएववासुएवपडिवासुएवकहंतरं णाम
 छसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६६ ॥

10 १ AP सहिवि. २ AP हलिणा पुणु विरइय कम्महाणि. ३ A °रिसिहि. ४ AP omit पडिवासुएव°. ५ P adds सत्तमचक्कवट्टि अर स एव तित्थयर अट्टमचक्कवट्टि सुभौम छट्टवलएव णदिसेण, वासुदेव पुंडरीय, पडिवासुएव णिसुभ एतच्चरिय सम्मत्त, K gives this in margin.

10 5 b ण वि सक्किय हणे वि हन्तु नैव शक्तौ 7 b कयधम्मावहेरि धर्मनिरादर. S a °गहियखेरि गृहीतकलह. 9 b कालें अणुयहु दिट्ठिमुक्क कालेन यमेन अनुजस्सोभरि दृष्टि' मुक्ता, अनुजो मृत इत्यर्थः. 10 a सव्वभतरि स्वप्नमध्ये. 12 °भत्तिपइरिक्कहिं भक्तिप्रगुणै. 13 °गहचक्कहिं ग्रहसमूहै.

तिहुवणसिरिधरो सल्लविवज्जिओ ॥
जो परमेसरो सयमहपुज्जिओ ॥ ध्रुवकं ॥

1

जेण हओ णीहारओ	रुइणिज्जियणीहारओ ।	
सुजसोधवलियहंसओ	जस्स भुवणसरहंसओ ।	
जा कंती मयलंछणे	संपुण्णा जाय छणे ।	5
सा वि जस्स मुहपंकए	इर मज्जइ णिप्पंकए ।	
मोत्तूणं महिवइचलं	चित्तं सोदामणिचलं ।	
गाढं जेण वसं कयं	मुणिमग्गे णीसंकयं ।	
हिसायारो वारिओ	जो कोवाणलवारिओ ।	
कामभोर्यआसी हया	सरहस्स व वणसीहया ।	10
णट्ठा जस्स विवाइणो	अइवहुकम्मविवाइणो ।	
सोउं जस्स सुआमयं	हंतूणं मोहामयं ।	
पुरिसा णिक्कलधामयं	पत्ता णाणसुधामयं ।	
आयंबुज्जलकरणहं	भयवंतं णियकरणहं ।	

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:—

इह पठितसुदारं वाचकैर्गीयमानं
इह लिखितमजसं लेखकैश्चारु काव्यम् ।
गतवति कविमित्रे मित्रता पुष्पदन्ते
भरत तव गृहेस्मिन्भाति विद्याविनोदः ॥ १ ॥

1 १ A सिरिवरो. २ K reads a p : मिज्जइ इति पाठे मीयते. ३ A महिवइवलं. ४ T reads a p : कामभोर्यआसी इति पाठे काम एव भोगी सर्पस्तस्य आसी दंष्ट्रा.

1 3 a णीहारओ नृणामीहारज मिथ्याचेष्टाजनितं कर्म, b °णीहारओ हिमाशु.. 4 a सुजसोधवलियहंसओ शोभनेन यगसा धवलित. हंसः आदित्यः येन, a भुवणसरहंसओ भुवनसरसि हंसवद्रमने (यश.). 5 b छणे पौर्णमास्याम्. 9 b इर किल, मज्जइ वृद्धति; णिप्पंकए निर्मले. 7 a महिवइचलं राजल्लमीम्. 6 b °वारिओ मेघ.. 10 a कामभोर्यआसी हया कामभोग एव आशी सर्पस्य दंष्ट्रा हता येन, अथवा कामभोगानामानी प्रार्थना सा हता येन; b सरहस्सव अष्टापदस्येव. 11 a विवाइणो मिथ्यावादिन.; b °कम्मविवाइणो कर्मविपाकवन्त.. 12 a सुआमयंश्रुतामृतम्, b मोहामयं मोहव्याधिम्. 13 a णिक्कलधामयं सिद्धस्थानम्. 14 a आयंबुज्जलकरणहं आताम्रो-ज्ज्वलन्तनन्सम् b णियकरणहं निजेन्द्रियवानकम्.

णिम्मलत्तणिरसियणहं
वोच्छं तस्सेव य कहं

तं मल्लिं णमिउण हं ।
इयरह मोक्खविही कहं ।

15

घत्ता—पढमइ दीवइ सुरगिरिपुव्वइ ॥
कच्छादेसइ सोहादिव्वइ ॥ १ ॥

2

वीयसोयणयरेसरो
धीरो जियपरमंडलो
कोसेणं वइसवणओ
अण्णसिं दियहे घणं
पंकेरुहरयधूसरो
ताम पवासियदिहिहरो
थोरथेभंथिप्पिरणहो
फुल्लियफुडयकयंबओ
णीरपूरपूरियधरो
पत्तो वासारत्तओ
णञ्जावियसिहिउलणडो
पर्यलियपल्लवराहयं
दट्टुणं तं पायवं
होइ जयं पुणु णासए

रायां रूवी विव सरो ।
विहवेणं आहंडलो ।
णामेणं वइसवणओ ।
गंतूणं कीलावणं ।
रमइ जाम पुहईसरो ।
सुरधणुमंडियजलधरो ।
पच्छाइयदसादिसिवहो ।
वियसावियदालिवओ ।
किडिकरडीण सुहंकरो ।
दूरं कंको मत्तओ ।
विज्जुजलणजलिओ वडो ।
हुयवहपउलियसाहयं ।
चित्तइ णिव्वइ णवं णवं ।
णिच्चं चिय ण हु दीसए ।

5

10

घत्ता—जिह णग्गोहओ दाणिं दिट्ठओ ॥

15

तडिदंडाहओ सहसा णट्ठओ ॥ २ ॥

3

णासिहिंति तिह हय गया
देहो जो रसपोसिओ

चिंधलत्तवामरचया ।
रयणाहरणविहसिओ ।

५ A णविज्जण.

2 १ A रायं रूवे जियसरो. 2 AP वीरो. ३ AP अण्णेम. ४ AP °जलहरो. ५ AP °थिम°.

६ A पयडिय°. ७ A णरवइ.

3 १ A °चामरधया.

15 a णि म्म ल त्त णि र सि य ण ह निर्मलत्वेन तिरस्कृतं गगन येन. 16 b इ य र ह अन्यया.

2 1 b सरो स्मर काम. 6 a प वा सि य दि हि ह रो पथिकधृतिहरो वर्षाकालः. 7 a °थे म°
विन्दुः; °थि प्प र° क्षरत्. 8 b °दा लि व ओ गोमयच्छत्र शिलीन्ध्रकम्. 9 b कि डि° सूकर, कर डी गज.
10 b क को वकः. 11 b वि ज्जु ज ल ण ज लि ओ विद्युदग्निना भस्मीकृतः. 12 a प य लि य प ल्ल व रा ह यं
प्रगलितपल्लवगोभे वटवृक्षम्, प उ लि य° प्रज्वलिता दग्धा.

3 1 b °चा म र च या चामरसमूहा.

सिंभवसापित्तासथो
इय भणिउं दाउं सिरिं
सिरिणायं सिहरुण्णयं
संवोहियवहुवणयरं
णविऊणं जाथो जई
पयारह वि सुयंगइं
धरिऊणं हिययं दढं
इंदचंदकयकित्तणं
अहमिंदेहिं विराइए
तेत्तीसंबुहिकालए

सो वि ण होही सासथो ।
णियतणयस्स गथो गिरिं ।
दरितरुकीलियपण्णयं ।
सिरिणायंकं मुणिवरं ।
सामंतेहिं समं वई ।
पढिऊणं अविहंगइं ।
चिण्णं चरियं णीसढं ।
वद्धं तित्थयरत्तणं ।
संभूयड अवराइए ।
गइ थिइ छम्मासालए ।

5

10

यत्ता—तम्मि कालए अमल्लिणवेसहो ॥

सोहम्माहिवो कहइ धणेसहो ॥ ३ ॥

4

सुणि इह भरहे अंगए
मिहिल्लउरणयरहिवो
रिसहगोत्तवंसुव्वमवो
किं किर कहमि महासई
णिक्कंदप्पो णिव्वमओ
भुवि हिरण्णगव्वो गुणी
कुणसु तस्स णयरं तुमं
सहसा रइयं तं पुरं
पुण्णाणं पिव संचए
राइविरामे सुत्तिया
साहियसिरियणुभवणए

विसए धम्मवसंगए ।
दीणेषु य पसरियकिवो ।
कुंभो णाम महाणिवो ।
देवी तस्स पयावई ।
होही ताणं अव्वमओ ।
जं थुणंति देवा मुणी ।
ता धणएण अणोवमं ।
रयणजालफुरियंवरं ।
पासाए मणिमंचए ।
पेच्छइ पंकयणेत्तिया ।
एए सोलह सिचिणए ।

5

10

यत्ता—पूणं मत्तयं धोरेयं सियं ॥

सारंगाहिवं गोवद्धणपियं ॥ ४ ॥

२ A णमिऊणं, ३ P पढिऊणं.

4 १ A महिलावरं. २ A दीणेषु, P दीणेषु पसरियं. ३ AP महाहिवो. ४ AP पहावई.
५ A नावु.

3 a पि च्चा स थो पि च्चा श्रय.. 5 a सिरिणायं श्रीनागपर्वतम्. 6 b सिरिणायं कं श्रीनागाङ्कम्.
7 b वडे स्कुटम्. 8 b अविहंगइ परिपूर्णानि. 9 b णीसढं निष्कपटं शठत्वरहितम्. 12 b छम्मा सा-
लए पण्मासकाठे स्थिते सति.

4 १ b अव्वमओ अर्भक. 7 b अणोवमं अद्वितीयम्. 11 a साहियसिरिअणुभवणए
मणितं प्रिया. अनुभवनं अनुभवो यैस्तादृशान् स्वप्नान्. 12 पूणं गजम्, धोरेयं वृषभम्. 13 सारंगाहिवं
सिद्धम्, गोवद्धणपियं गोवर्धनो विष्णुस्तस्य प्रिया लक्ष्मी. ताम्.

5

मालाओ कयजणदिहिं
भावभरियवम्महरसं
धवलघडाणं जुयलयं
पुलिणणिलीणवलाययं
सरिरायं रसणारवं
अच्छरणाइणियेयए
हरियं पीयं तंबयं
दडूणं मरुजालियं
पडिबुद्धा परमेसरी
मइं विइण्णलोयणरई

अमयरुहं सररुहसुहिं ।
अणिमिसमिहुणं रइवसं ।
हंसीचुंवियकुवल्यं ।
सजलं कमलतलाययं ।
मणिवीढं हरिभइरवं ।
इंदफणिदणिकेयए ।
रयणाणं णिउरुवयं ।
अग्गिं जालामालियं ।
कहइ सपइणो सुंदरी ।
दिट्ठा सिविणयसंतई ।

5

10

घत्ता—तिस्सां तं फलं कहइ नृसारओ ॥

तुह होही सुओ देवि भडारओ ॥ ५ ॥

6

धरिही जो रयणत्तयं
लहिही जो छत्तत्तयं
उहिही जो णिब्भंतयं
सो ते होही डिंभओ
अमरविलासणिसत्थओ
सुविसुद्धे गव्भासए
पढममासि पढमे दिणे
राणउ जो रईकंदओ
गयरूवेणवइण्णओ
सो सुरेहिं अहिणंदिओ

णविही जस्स जयत्तयं ।
जाइजरामरणत्तयं ।
जाही मोक्खमणंतयं ।
सुहिजणलग्गणखंभओ ।
पत्तो मंगलहत्यओ ।
धणधारावारिसे कए ।
आसिणिगइ हरिणंकणे ।
वइसवणो अहमिदओ ।
राणीगत्थि णिसण्णओ ।
फणिकिणरणरवंदिओ ।

5

10

5 १ A °वलालय. २ A तडालयं. ३ A तस्सा. ४ AP णिसारओ.

6 १ A सो तव होही. २ A अस्सिणि°. ३ A राओ जो. ४ AP रुइरुदओ.

5 1 b अमयरुह चन्द्रम्; सररुहसुहिं सूर्यम्. 2 b अणिमिसमिहुण मत्स्ययुग्मम्.
4 a °वलालय ब्रलाका, b °तलालय तडालयम्. 5 a सरिरायं सरिता राजान समुद्रम्; रसणारव
जलमानुषशब्दयुक्तम्, b हरिभइरव सिंहैर्भयानकम्. 11 नृसारओ नृपु प्रधानो राजा.

6 1 b णविही नमस्यति. 3 a णिब्भंतय भ्रान्तिरहितम्. 7 a पढमेत्यादि चित्रप्रतिपदा-
याम्; b आसिणिगइ हरिणकणे चन्द्रे अश्विनीगते. 8 a रइकंदओ सौख्यकन्द. 9 a तुहिणायेरे
चन्द्रे.

णिन्वाणं पत्ते अरे	वरिसकोडिसहसंतरे ।	
मग्गासिरे तुहिणायरे	सियणयारसिवासरे ।	
आसिणिरिक्खे जायओ	तित्थयरो हयरायओ ।	
एक्कुणवीसमओ इमो	णररूवेण व संजमो ।	
अहिसि तो अमरायले	हरिणा पंडुसिलायले ।	15

घत्ता—मल्लियमालागंधो जाणिओ ॥

इंदेण जिणो मल्ली भाणिओ ॥ ६ ॥

7

अणुअत्थं पवियप्पिओ	जणणीहत्ये अप्पिओ ।	
घणडंवरघल्लियपया	देवा णियवासं गया ।	
बुहसुहपोमाणं इणो	वड्डइ कालेणं जिणो ।	
जाओ जायरूवाहओ	पंचवीसधणुदीहओ ।	
आउसु तस्स सहासइं	वरिसहं पणपण्णासइं ।	5
वरिससए वोलीणए	आरूढो सुरपूणए ।	
कुणइ विवाहपवट्टणं	पेच्छइ कुंअरो पट्टणं ।	
परिहापाणियदुग्गमं	बहुदुवारकयणिग्गमं ।	
हेमघडियपायारयं	पवरट्टालयसारयं ।	
पोमरायंकयभारुणं	उब्भियधुयधयतोरणं ।	10
हसियणिसावइकंतियं	पेच्छंतो घरपंतियं ।	
सरइ पहू अवराइयं	सुकयं मज्झु पुराइयं ।	
खीणं तेण विमाणयं	मुक्कं अहमिदाणयं ।	
एण्ह होही किं थिरं	णरजस्से णयरं घरं ।	

घत्ता—उत्तायारयं सिवमहिमंडलं ॥

करमि तवं परं लहमि धुवं फलं ॥ ७ ॥

15

५ A अस्सिणि°.

7 १ A अणुअत्थं and gloss आश्रयं, T अणुअत्थं आश्रयं. 2 A °धणुदेहओ. ३ A सुरपूणए. ४ AP कुमगे. ५ AP पोमरायकिरणारुणं.

13 b हयरायओ वीतराग.. 15 a अमरायले मेरौ.

7 1 a अणुअत्थं अन्वर्थम्. 2 a घणडंवरं आक्राशम्. 4 a जायरूवाहओ सुवर्णाभः. 6 b सुरपूणए सुग्गजे. 10 b °धुयं आन्दोलिताः. 12 a अवराइयं अपराजितं अनुत्तरविमानम्. 15 उत्तायारयं सिवमहिमंडलं उत्राकारं शिवाना सिद्धाना महिमण्डलं मोक्षस्थानम्.

8

ता सारस्सयभासियं
कुंभणिवस्स य तणुरुहो
इंदेणं ससहरमुहो
जयणे जाणे थक्कओ
कामेसुं सुविरत्तओ
जम्मदिणे णक्खत्तए
णिववरतिसैयइए जुओ
सायण्हे सुतवे थिओ
धिच्चं पच्चक्खाणयं
विहिं दिवसेहिं गएहिं सो
णिण्णेहो णीसंगओ
णंदिसेणवररौइणा
भुत्तं तणुणिव्वाहणं

सोऊणं सुइमीसियं ।
तरुणीणं विवरंमुहो ।
ण्हाविओ दिक्खासंमुहो ।
कुवल्लयकुमुयमियंकओ ।
सरयवणं संपत्तओ ।
पक्खे तम्मि पउत्तए ।
मोहणिवंधाओ चुओ ।
णाणवउक्केणंकिओ ।
मोत्तुं भत्तं पाणयं ।
दसदिसिवहपसरियजसो ।
मिहिलाए भिक्खं गओ ।
दिण्णं भत्तं जोइणा ।
संजमजत्तासाहणं ।

5

10

घत्ता—पुणु दिक्खावणे सुरहियपरिमले ॥

थक्कु असोयहो तलि धरणीयले ॥ ८ ॥

15

9

दिणि छक्के विच्छिण्णए
हुउ देवाण वि देवओ
रिसिविजाहरसंसिओ
समवसरणि आसीणओ
जीवमजीवं आसवं
वंधं मोक्खं भासए
थवइ तस्स णिसुणियञ्जुणी

भिण्णे मिच्छादुण्णए ।
लद्धो खाइयभावओ ।
इंदपडिंदणमंसिओ ।
अरिसुयणे वि समाणओ ।
संवरणिज्जरणं तवं ।
लोयं धम्मविसेसए ।
अट्टवीस जाया गणी ।

5

8 १ A सुयमीसियं. २ A °तिसईए; P °तिसइएण. ३ P घेत्तुं. ४ A मोत्तं. P ५ °राइणो.
६ A भिक्खं, P भक्ख. ७ जोइणो.

9 P adds after this: पूसकिण्हकीयए तओ, पंचमु णाणुप्पणओ. २ A अरिसयणे,
P अरिसयणा.

8 1 a सारस्सय° लौकान्तिकाः, b सुइमीसियं आगमयुक्तम्. 2 b विवरंमुहो पराइसुखः.
4 a जयणे जयननाम्नि, b कुवल्लय° भूमण्डलम्.

9 1 a दिणि छक्के पारणानन्तरम्, तृतीये दिने पारणं जात तदनन्तरं द्वितीय पारणं न जात-
मित्यर्थः.

सयइं पंचपण्णासइं
एकूणतीससहासइं

पुव्वधराहं णिरासइं ।
सिक्खुयाहं मलणासइं ।

घत्ता—दुसहसदुसयइं सावहि हयकलि ॥
तहि जेत्तिय ते तेत्तिय केवलि ॥ ९ ॥

10

10

चउदहसय वाईसहं
णवसय दोणिण सहासइं
मणजाणहं सत्तारह
पंचावण्णसहासइं
सावयलक्खु अहीणउं
सुर असंख उम्मोहिवि
भवसमुदतडपाविण
पंचसहासहिं जुत्तओ
संमेण सिरहयणहे
भरणीरिक्खे मुक्कओ

विकिरियहं वि रिसीसहं ।
कुच्छियणयविद्धंसइं ।
सयपण्णास समीरह ।
विरइहिं मुक्कसवासइं ।
सावईहि तं तिउणउं ।
पसु ससंख संवोहिवि ।
माससेसथियजीविण ।
रिसिहिं णाहु तमचत्तओ ।
फग्गुणि सियपंचमियहे ।
अट्टमपुहईइहि थक्कओ ।

5

10

घत्ता—हरउ भयंकरं भवविग्गमदुहं ॥
मल्लिमुणीसरो देउ सुहं महं ॥ १० ॥

11

मल्लित्थसंताणे कयपडिवक्खवहं
बुहयणसुइसुहयरणं णिसुणह चक्किहं ।
जंवूदीवसुरोयलि पुव्वविदेह्वरे
विउलि सुकच्छाजणवइ सिरिहरि सिरिणयरे ।
तडिकरालअसिघारातासियसयलखलो
पयपालो पुहईसो पोसियपुहइयलो ।

३ A सिक्खुवाह; P मिक्खुवाह. ४ AP तहि हुय जेत्तिय तेत्तिय.

10 १ A पण्णावण्ण°. २ A मुक्कसवासइं, P मुक्कमवासइं. ३ A संमोहिवि. ४ AP मास-
सेसि थिइ जीविण. ५ AP °पुहविहि. ६ AP महं सुहं.

11 १ A °सुहजणणी; P °सुहजाणण. २ A सुरालए. ३ A विदेहि वरे.

10 सावहि अवधिज्ञानमहिता..

10 3 b समीरह प्रतिपादय, कथय त्वम्. 5 a अहीणउं परिपूर्णमेकलक्षम्; b तिउणउं
त्रिगुणम्. 9 a सिरहयणहे मस्तकेन हतनभसि. 12 देउ ददातु.

11 2° बुइसुहयरणं श्रुतिमुखकारकम्. 3° सुरायलि मेरौ. 5 तडिकराल° विद्युता रौद्रः.

णिसिसमए दट्टुणं उक्कं ण्हल्लहसियं
 सिवगुत्तस्स समीवे सुकियं तेण कियं ।
 वारहविहतवचरणे इंदियमयहरणं
 मुक्काहारसरीरं सल्लेहणमरणं । 10
 जायउ अच्चुयकप्पे अमरो मरिऊणं
 सग्गसिहरभवणाओ पुणु ओयरिऊणं ।
 इह भरहे कासीए वाणारसिणाहो
 आइदेवकुलतिलओ पहु पंकयणाहो ।
 मज्जे खामा सामा रामा तस्स सई 15
 जाओ देवो पोमो ताणं सुद्धमई ।
 तीसवरिससर्हासउ धणुवावीसतणु
 णयसंणिहियणरोहो पहु णं चरममणु ।
 गंगासिंधूणविओ साहियमहियमरो
 णिहिरयणालंकारो णवमो चक्कहरो । 20
 घत्ता—पुहईसुंदरीपमुहउ धीयउ ॥
 अट्ट वि सिद्धुउ सुट्टु विणीयउ ॥ ११ ॥

12

णेहे णिउत्ताण विण्णाणजुत्ताण	दिण्णाउ ताओ सुकेयस्स पुत्ताण ।
णिच्छिज्जमाणेण दीहेण कालेण	रज्जं करंतेण भूचक्कवालेण ।
देवेण सव्वावणीरिद्धिरिद्धेण	दिट्ठो घणो खे पणट्ठो खणद्धेण ।
कम्मरिचारित्तत्ती कया जाम	दुब्भंतिणा मंतिणा जंपियं ताम ।
जायंति भूयाण संजोयभावेण	जीवा ण वज्जंति पुण्णेण पावेण । 5
दिक्खाइ भिक्खाइ कि होउ हे राय	णाहेण सो उत्तु भो बुद्ध णिण्णाय ।
जं णत्थि णो तस्स उप्पत्तिसंताणु	णो जम्मु णो कम्मु णो कस्सं णिव्वाणु ।
कूराण कउलाण कंकालंघिधाण	कीलालमत्ताण कंतारयंघाण ।

४ A उक्क उल्लहसियं. ५ A रामा सामा तस्स. ६ A सहसाज. ७ A सिद्धउ.

12 १ A दिण्णाउ ता ताउ. AP सुकेउस्स. ३ A पिच्छिज्जमाणेण. ४ A सं पणट्ठो. ५ A अत्थि. ६ P धम्मणिव्वाणु. ७ A कंकालगिद्धाण.

7 णहल्लहसियं गगनात् च्युताम्. 14 पंकयणाहो पन्ननाभ. 15 रामा रामानाम्नी. 16 पोमो पन्ननामा चक्री. 18 णयसणिहियं न्याये स्थापितः.

12 1 a णेहे णिउत्ताण स्नेहयुक्तानाम्, b ताओ ता अष्टापि पुत्रीः. 2 a णिच्छिज्जमाणेण निश्छिद्यमानेन गच्छता. 3 b घणो मेघः. 4 a कम्मरिचारित्तत्ती कर्मगुणजनस्तस्य चारित्र्य तत्ति-
 श्रिन्ता; b दुब्भंतिणा दुष्टभ्रान्तिना चावीकमतानुसारिणा. 5 a भूयाण भूतानां पृथ्वादीनाम्. 7 a जं
 णत्थि यद्वस्तु खपुष्पादिक नास्ति. 8 b कीलालमत्ताण मद्यमत्तानाम्, कंतारयंघाण त्रीग्नान्धानां
 भार्योरमणान्धानाम्.

सुत्तेण किं मज्जु किं वंधुणेहेण
एवं पवोत्तूण तच्चाइं णाऊण
सुरिस्स तिव्वं समाहीइ गुत्तस्स
सोमो व्व सोमेण णिम्मुकपोमेण
संहुं इसी जायया णिकसाएण
खीणां तवेणं खरं णिकलत्तेण

साहामि सोक्खं धुवं एण देहेण ।
पुत्तस्स भूमिं असेसं पि दाऊण । 10
काउं तवं पायमूले सुजुत्तस्स ।
राया सुकेऊं वि अण्णे वि पोमेण ।
णिल्लोहाणिम्मोहिणा णिव्विसाएण ।
मोक्खं गया संठिया णिकलत्तेण ।

घत्ता—एत्थइ तित्थइ जे ह्यवइरिणो ॥

15

जाया भाणिमो ते हरिसीरिणो ॥ १२ ॥

13

ससहरधवलहरे धणरिद्धे
मंदरधीरो वीरो राया
एए किर दुम्मइपइरिका
लगा ते ण हु पिउणो चित्ते
लक्खियतच्चे रक्खियजीवे
धम्मणाहतित्थे ह्यमारा
णो समियं णियचित्तं कुद्धं
जइ वयवेल्लिहलं पावामो
एम भरंतो णिगर्गप्राणो
पढमे कप्पे पिहुल्लंविमाणे
पिसुणंमहंतो ता संसारे
उत्तरसेठीमंदिरणामं
जाओ धरणीवइ खयरिंदो

इह भरहे साकेयपसिद्धे ।
पुत्ता रामविरामा जाया ।
पिसुणमंतिवयणेण विमुक्का ।
भाउं वि णिहियउ जुवराइत्ते ।
गुरुणो सिरिसिवगुत्तसमीवे । 5
ते पावइया रायकुमारा ।
अणुजाएण णियाणं वद्धं ।
तां तं खलमंतिं णिहणामो ।
अणसणेण जाओ गिक्वाणो ।
जेट्ठो वि हु तत्थेय विमाणे । 10
अणुहविऊणं दुक्खपयारे ।
णयरे कामिणिकामियकामे ।
वल्लिवलणासो णाम वल्लिंदो ।

घत्ता—चंडा राइणो असिणा दंडिया ॥

तेण तिखांडिया मेइणि मंडिया ॥ १३ ॥

15

८ AP साहम्मि. ९ P सोमो ण. १० A सुकेऊविइण्णेण. ११ A सुद्धं इसी जायओ; P सक्कं इसी जायया. १२ A खीणं तवेणं.

13 १ P साकेयए पसिद्धे. २ A रामविराम विजाया. ३ A भाऊ णिहिओ. ४ A लक्खियचित्ते. ५ A तो. ६ AP °पाणो. ७ AP °विमाणे. ८ P तत्थेअ समाणे; K records: तत्थेअ समाणे इति पाठे पूजासहिते. ९ P पिसुणु. १० A णरिंदो.

9 a सुत्तेण आगमेन चार्वाकादीनाम्. 12 सोमो व्व सोमेण चन्द्रवसौम्येन; णिम्मुकपोमेण मुक्कलक्ष्मीकेण 13 सहुं सार्धम्. 14 a णिकलत्तेण स्त्रीरहितेन, b णिकलत्तेण निःशरीत्वेन.

13 3 a °पइरिका प्रचुरा., b पिसुणं मन्त्रिनामेदम्. 7 a अणुजाएण लघुभ्रात्रा विगमेण. 11 b दुक्खपयारे दु.ग्वप्रकारान्. 13 b वल्लिवलणासो वल्लिष्ठाना वलनाशकः.

14

पत्थंतरण	सिरिसुंदरए ।	
खेत्तविचित्ते	भारहखेत्ते ।	
कासीदेसे	सज्जनवासे ।	
बहुगुणरासी	वाणारासी ।	
उण्णयहम्मा	णयरी रम्मा ।	5
पडिभडमल्लो	अग्गिसिहिल्लो ।	
सत्तिसहाओ	तस्सि राओ ।	
सिसुहंसगई	अवराइय ई ।	
णं पच्चक्खा	कयरयसोक्खा ।	
अलिकेसवई	थी केसवई ।	10
वीया सरसा	पियघरसरसा ।	
विस्सुयणामो	जो चिररामो ।	
कयजिणसेवो	आयउ देवो ।	
थक्को गब्भे	रवि व सियब्भे ।	
जाओ तीए	पढमसईए ।	15
रमियरईए	केसवईए ।	
अवरो हूओ	वम्महरूओ ।	

घत्ता—लीलागामिणो णाह मरालया ॥
णवजोवणसिरि पत्ता बालया ॥ १४ ॥

15

तहिं पहिल्लओ णांदिमिन्तओ	वीयओ वि णामेण दत्तओ ।
खरपयाधभरतसियवासवा	वे वि ते णिवा सीरिकेसवा ।
वे वि सिद्धहरिरहविहंगया	वे वि कासकज्जलणिहंगया ।

14 १ A गिरिसुंदरए. २ P खेत्ति विचित्ते. ३ A °गुणवासी. ४ A उगयहामा. ५ AP आओ.

15 १ A हुवा.

14 2 a खेत्तविचित्ते धान्यक्षेत्रैः विचित्ते. 6 b अग्गिसिहिल्लो अग्निशिखः. 8 b ई लक्ष्मी. प्रत्यक्षा. 9 b कयरयसोक्खा कृतरतिसौख्या. 10 a अलिकेसवई भ्रमरसमानकृष्णकेगयुक्ता; b केसवई केगवतीनाम्नी. 11 b पियघरसरसा भर्तृगृहतडागलक्ष्मीः. 15 b पढमसईए अपरान्जितायाम्.

15 3 a सिद्धहरिरहविहंगया सिद्धा सिंहरथवाहिनी त्रिधा बलस्य, गरुडरथवाहिनी कृष्णस्य, b कास° श्वेतपुष्पम्.

विहिं मि अत्थि महिपंसुपिंजरो
मग्गिओ ये सो रायराइणा
अट्टहासहिमरासिवण्णओ
दूयवयणविहिवद्धिओ कली
चारु अमरकंतारवासिणा
वद्धणेहरसमुणियसाउणा
सहिय वे वि वंधू वि णिग्गया
जाययं रणं वलियसंमुहा
चूरिया रहा दारिया हरी
णच्चिया णहे अमरसुंदरी
अंतरे भडो संठिओ हरी

खरिसायरो णाम कुंजरो ।
धीरवइरिसंतावदाइणा ।
तेहिं तस्स सो णेय दिण्णओ ।
सह चमूइ आर्येउ णिवो वली ।
दाहिणिल्लसेढीखगीसिणा ।
माउलेण केसवइभाउणा ।
सह वलेण समराइरं गया । 10
सीरिणा हया वइरितणुरुहा ।
लूरिया धया मारिया करी ।
वद्धमच्छरो धाइओ अरी ।
तेण दोच्छिओ खयरकेसरी ।

घत्ता—दोहिं मि जं कयं विज्जापहरणं ॥

15

को तं वण्णए वहरूवं रणं ॥ १५ ॥

16

जं दिणयरविंनु व विष्फुरिउ
सुहउत्तदीउ णं संचरिउ
हउ वइरि तेण मारिउ तुमुलि
इह एव एहु थिउ गंपि जहिं
तहिं अवसरि सीलु परिग्गहिउं
संभूयजिणेसरु सेवियउ
सहियइं वावीसपरीसहइं
अणयार महाकेवलिपवरु
ससहावे तिवुवणसिहरु णिउ
सो बुद्धु सिद्धु णिद्धयरउ

पडिक्खे चक्कु मुक्कु तुरिउ ।
तं दत्तएण हत्थे धरिउ ।
गउ णिवडिउ सत्तमधरणियलि ।
महि भुंजिवि कण्हु वि गर्येउ तहिं ।
हलिणा हियउल्लउं णिग्गहिउं । 5
तवतावे अण्णउ तावियउ ।
महियइं चउकम्मइं दुम्महइं ।
जायउ कालेण अजरु अमरु ।
वीयउ परमेट्टि हवेवि ठिउ ।
धुंवकेवलदंसण्णणामउ । 10

२ AP वि. ३ AP वीर°. ४ AP आइओ. ५ A दाहिणल्ल°. ६ A दुच्छिओ.

16 १ A पडिक्खे. २ AP तेण वइरि. ३ A इह एम गंपि थिउ एहु जहिं. ४ A जाम तहिं, P तेम तहिं. ५ AP तवभावे. ६ A दुम्मयइं. ७ AP धुउ.

4 a °पंसु पिंजरो धूलिधूसरः. 5 a रायराइणा प्रतिवासुदेवेन. 8 a अमरकंतार° नगरस्य नामेदम्.
10 b समराइरं संग्रामाङ्गणम्. 14 b दोच्छिओ भस्तिः. 15 a विजापहरणं विद्याभिः संग्रामः.

16 1 पडिक्खे शत्रुणा. 7 चउकम्मइं चत्वारि घातिकर्माणि. 8 a अणयार मुण्ड-
जेवली. 9 b परमेट्टि सिद्धः.

मयरद्भयचावसमुल्लियं

णिसियं संछिंदु आवलियं ।

घत्ता—भरहणमंसिउ महं देहाणियं ॥

सुकुसुमयंतउ कुसुमसराणियं ॥ १६ ॥

इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाभव्वभरहाणुमणिए महाकव्वे
 मल्लिणाहंपउमचक्किणांदिमित्तदत्तयवलिपुराणं णाम
 सत्तसद्धिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६७ ॥

८ A णिसि पासिउ छिदिउ आवडिय. ९ A महं. १० A मल्लिणाहणिव्वाणगमण णाम सत्तसत्तिमो.

11 ७ णि सि यं तीक्ष्णाम् , आ व लि य कामवाणपक्तिमित्यर्थः. 12 दे हा णि य देहानीताम्. 13 सु कु सु म-
 यंतउ सुष्टु कुन्दवत्कान्तिः, कु सु म स रा णि यं पुष्पवाणमयीम् .

जो तित्थंकर वीसमउ वीसु विसयविसवेयणिवारणि ॥
जोईसर जोइहिं णमिउ जो वोहित्थु भवणवतारणि ॥ ध्रुवकं ॥

1

जो दिव्ववाणिगंगापवाहु	जो रोसहुयासणवारिवाहु ।	
जो मोहमहाघणगंधवाहु	जो मोक्खणयरवैहसत्थवाहु ।	
तणुगंधं जो समु चंदणासु	पउणइ जो तेपं चंदणासु ।	5
जो पणमिउ रामे लक्खणेण	धम्मेण अहिसालक्खणेण ।	
जणु जेण णिहिउ सग्गापवग्गि	जो सरिसचित्तु रिउवंधुवग्गि ।	
जे मिच्छतुच्छधीरंगरत्त	दप्पिट्टु दुट्ट तिट्ठागरत्त ।	
जे घुम्मिरच्छ पीयासवेण	जे वद्धा गुरुकम्मासवेण ।	
जे कयलालस मासासणेण	जे विरहिय परहियसासणेण ।	10
जे णारिहिं वसै आया रएण	ते मुक्क जासु आयारएणं ।	
सुद्धोयणि सुरगुरु कविल भीम	वयणेण विणिज्जिय जेण भीम ।	
तिहुयणि ण कोइ दीसइ समाणु	सण्णाणु जासु आयासमाणु ।	
णिच्चलपरिपालियसुव्वयासु	पणवेप्पिणु तंहु मुणिसुव्वयासु ।	

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:

चञ्चन्द्रमरोचिचञ्चुरचुराचातुर्यचक्रोचिता
चञ्चन्ती विचट्चमत्कृतिकवि प्रोद्दामकाव्यक्रियाम् ।
अञ्चती त्रिजगन्ति कोमलतया वान्धुर्यधुर्या रसैः
खण्डस्यैव महाकवेः सभरतान्नित्यं कृतिः शोभते ॥ १ ॥

P reads अर्चन्ती, A reads तृजगन्ति; and P त्रिजगत्र in the third line; and AP read सभरता in the fourth line.

1 १ AP णविउ. २ A °वहे सत्थ°. ३ AP पणविउ. ४ AP जो. ५ AP घुम्मिरच्छि. ६ AP add after this: जे विरहिय (P रहिय) सया वि आयारएण. ७ A वसु जाया. ८ A जे मुक्क. ९ AP add after this: तेलोइयसुद्धायारएण. १० P तुहु.

1 1 वीसु वीनामीशो गरुडः; °वेव° वेग आतङ्को वा. २ वोहित्थु नौ. 3 a दिव्ववाणिगंगापवाहु दिव्यवाणेष्व गङ्गाप्रवाहो यस्य; b °वारिवाहु मेघः. 4 a °गं ववाहु वायुः, b °वह° मार्गः. 5 b चंदणासु चन्द्राभिभवः, चन्द्रतिरस्कार जनयतीत्यर्थः. 6 a मिच्छतुच्छधीरंगरत्त ये मिथ्या च तुच्छधीगगक्तास्ते यस्य भगवत आचारेण मुक्ताः. b तिट्ठागरत्त तृष्णाविपार्ती. 7 a घुम्मिरच्छ घूर्णितनेत्रा पीनमयेन. 10 b परहियसासणेण परं यद्धितं तदर्थं शासनं, जैनमतमित्यर्थः. 11 a रएण गत्या; b आयारएण अनुष्ठानेन. 12 a सुद्धोयणि सौगतः; सुरगुरु बृहस्पतिश्चार्वाकः; b वयणेण यचनेन. 13 b सण्णाणु सम्यग्ज्ञानम्, आयासमाणु आकाशप्रमाणम्, अनन्तमित्यर्थः.

घत्ता—तद्दु जि कंहंतरु वज्जरमि जेण विमुच्चमि दुग्गइदुक्खहु ॥ 15
अद्दु वि कम्मइं णिद्धविवि देहु मुएप्पिणु गच्छमि मोक्खहु ॥ १ ॥

2

एत्थेव य कयकूरारिकंप
तहिं असिजलधारइ हरियछाउ
सो एक्कहिं दिणि उज्जाणु पत्तु
अणगार णाणि परमत्थसवणु
सत्तंगसंगु सुइ णिहिउ रज्जु
तत्तउं तउ सहं बहुपत्थिवेहि
होइवि एयारहअंगधारि
तणुं चारं मुउ हुउ प्राणइंदु
तद्दु आउ वीससायरइं तेत्थु
सियलेसु चित्तपाडिचारवंतु
णीससइ देउ दहमासएहिं

भरहंगदेसि पुरि अत्थि चंप ।
जगु जेण कियेउ हरिवम्मराउ ।
दिट्ठुअ अणंतवीरिउ विरत्तु ।
वंदेप्पिणु णिसुणिवि धम्मसवणु ।
अप्पणु पुणु कियउं परलोयकज्जु । 5
णिग्गंधमग्गपत्थियसिवेहि ।
अरहंतपुण्णपब्भारकारि ।
हरिवम्मु सकंतिइ जित्तचंदु ।
तणु भणु विहत्थि पुणु तिउणु हत्थु ।
अवहीइ णियइ पंचमधरंतु । 10
पुणु वीसहिं वैरिससहसगएहि ।

घत्ता—देउ मणेण जि आहरइ सुहमइं पोग्गलाइं रसरिद्धइं ॥
अयणमेत्तु जीविउ थियउ पयइइं जायइं कालहु चिधइं ॥ २ ॥

3

ता तद्दु चरित्तु णिच्चप्फलेण
इहं भरहि मगहरायंणिहि दित्तु
जिणपायपोमजुयरेणुलित्तु
अप्पडिमसत्ति णं सिद्धमंतु
एयहं णंदणु जिणु सोक्खहेउ
भो धणय धणय कल्लाणमित्त

धणयहु भासिउ आहंडलेण ।
पुरि वसइ राउ णामं सुमित्तु ।
हरिवंसकेउ कासवसुगोत्तु ।
किं वण्णामि सोमाएविकंतु ।
होही प्राणयत्तुउ देवदेउ । 5
एयहं दोहं मि करि पुरि विचित्त ।

2 १ AP कयउ. २ P हरिवम्म. ३ A तणु चइवि मुउ. ४ AP पाणइदु. ५ A वाससहा-
एहि; P वाससहसगएहिं.

3 १ AP णिच्चफलेण. २ A ०रायणिहु. ३ AP पाणयत्तुउ.

2 2 a हरि य छाउ हतमाहात्म्यः. 4 a परमत्थसवणु परमार्थेन श्रमण. 5 a सत्तंगसगु
सप्ताङ्गैः सह, सुइ पुत्रे. 9 b विहत्थिपुणु तिउणु हत्थु वितस्तियुक्तास्त्रयो हस्ताः. 10 a ०पडियारं
मनःप्रवीचारः; b पंचमधरंतु पञ्चमनरकपर्यन्तम्. 13 अयणमेत्तु पण्मासान्, कालहु मरणस्य.

3 1 a णिच्चफलेण निश्चपलेन. 2 a दित्तु दीप्तिमान्. 4 a अप्पडिमसत्ति अप्रतिम-
शक्तिः.

ता रइय णयरि दविणाहिवेण
पासायपंतिरहचच्चरेहिं
सरिसरणंदणवणजिणघरेहिं

दिप्पंतं तव्वणिज्जे णवेण ।
गयणैयललग्गवरगोउरेहिं ।
रक्खिज्जंती णिर्यक्किंकरेहिं ।

यत्ता—तहि सँउहहु सत्तामि तलि घणथणमंडलहारबिलंबिणि ॥ 10
सुहुं सोवंती सयणयलि पेच्छइ सिविणय रायणियंबिणि ॥ ३ ॥

4

मत्तसिंधुरं
हरिणराययं
फुल्लदामयं
चंदविंबयं
चंडकिरणयं
कुंभजुयलयं
कमलवासयं
अमयमाणिहिं
सीहभूसणं
सिहरसुंदरं
धुयधयालयं
णिहियेतिमिरयं
कविलचलसिहं

सियधुरंधरं ।
लच्छिकाययं ।
दिट्टिकामयं ।
उययतंबयं ।
मीणमिहुणयं ।
देलियकमलयं ।
सुरहिवासयं ।
अमरवारिहिं ।
दिव्वमात्तणं ।
इंदमंदिरं ।
विसहरालयं ।
रयणणियरयं ।
जलियहुयवहं ।

5

10

यत्ता—इय जोइवि सिविणय सइइ सुत्तविबुद्धइ भासिउं दइयहु ॥
तेण वि तं तैहि अक्खियउं जं फल्लु होसइ पुव्वविरइयहु ॥ ४ ॥ 15

5

तुह कुच्छिहि इच्छियगुणमहंति
सुरधणधारंचिइ रायगेहि

होसइ सुउ तिहुवणणाहु कंति ।
अच्छरहि पसाहिइ देविदेहि ।

४ P तवणिजे तवेण. ५ P °यले लग्ग°. ६ P णिवक्किंकरेहि. ७ AP सउहहि.

4 १ A लच्छिकामय. २ A धरियकमलयं. ३ A सीहभूसियं. ४ A विहिय°, P विहय°. ५ A तहु.

5 १ A जिणु.

7 b तवणिजे सुव्वणेन. 11 गयणियविणि सोमादेवी.

4 1 b सियधुरंधरं श्वेतवृषभम्. 2 b लच्छिकाययं लक्ष्मीमूर्तिम्. 6 b दलिय° विकसितम्. 7 a कमलवासय पद्मसर. 6 b अमरवारिहिं क्षीरसमुद्रम्. 15 a पुव्वविरइयहु पूर्वोपार्जितपुष्यस्य.

5 1 b कंति हे कान्ते भार्ये;.

सावणतमवीयहि सवणरिक्खि
 देविइ दिट्ठउ समुहारविदि
 हरिवम्मु राउ जो प्राणइंदु
 आयउ वंदइ सयमेव इंदु
 गइ मल्लिदेवि हयमोहजालि
 उप्पण्णउ णिउ सक्केण तेत्थु
 अहिसिंचिउ पंडुसिलायलग्गि
 आणंदं णच्चिउ कुलिसपाणि
 सुव्वउ मुणिसुव्वउ भणिवि णाहु

पंडुरु करि आयउ अंतरिक्खि ।
 पइसंतु संतु रयणिहि अणिदि ।
 सइगम्भवासि थिउं सो जिणिंदु । 5
 किर कवणु गहणु तहिं सूरचंदु ।
 चउपण्णलक्खवरिसंतरालि ।
 तं मेरुमहागिरिसिहरु जेत्थु ।
 घेरु आणिउ णिहिउ समाउअग्गि ।
 तहु वयणविणिग्गय दिव्ववाणि । 10
 गउ णिययणिवासहु तियसणाहु ।

घत्ता—वड्डइ देउ लहंतु पय लक्खणवंतु जणंतु सुहं जणि ॥

सालंकारु कंतिई सहिउ कव्वविवेउ णाइ वरकइयणि ॥ ५ ॥

6

पहु वीससरासणामियसरीरु
 परिणयमऊरवरकंठवण्णु
 सत्तद्ववरिससहसाइं जाम
 दहपंचसहासदहं धरिति
 आहारु ण गेण्हइ णेय चारु
 करि पुव्वतालपुरि आसि राउ
 बंभणहं दिंतु मणिकणयदाणु
 सुंयरइ सल्लइपल्लवदलाइं
 सुंयरइ करिणीकरलालियाइं
 सुंयरइ सिंसुमयगलकीलियाइं

पियवयणभासि गंभीरु धीरु ।
 दहदहदहसहससमाउ वण्णु ।
 थिउ कि पि वालकीलाइ ताम ।
 भुंजिवि जोइवि करिवरहु वित्ति ।
 पइ णरविदहु वज्जरइ चारु । 5
 कुच्छियमइ जणियकुपत्तभाउ ।
 मुउ काणणि हुउ गउ गलियदाणु ।
 सुंयरइ सीयलसरिसरजलाइं ।
 गिरिगेरुयरउद्धलियाइं ।
 करतालवट्टहिदोलियाइं । 10

घत्ता—एवं कहेप्पिणु मुक्कु गउ गउ सो विंझहु कहि मि सइच्छइ ॥

अग्गइ सयणहं परियणहं णरणाहेण पवोल्लिउ पच्छइ ॥ ६ ॥

२ AP पाणइदु. ३ P सो थिउ. ४ AP add after this: वइसाहमासि पहु कसणपक्खि, दहमइ दिणि ससि थिइ सवणरिक्खि. ५ P धरि. ६ A कतिसहिउ.

6 १ AP सत्तद्वसहसवरिसाइ.

10) b समाउ अग्गि स्वमातुरग्गे. 11) b तहु वयणविणिग्गय दिव्ववाणि इन्द्रस्य मुक्ताद् दिव्यवाणी निर्गता तथा नाम कृतं गृहीतं सुवतः मुनिसुवत इति. 14) कव्वविवेउ काव्यविवंकः.

6 2) a परिणयं तरुण., b दहेत्याहि त्रिंशत्सहस्रसममायुः प्रातः. 5) a चारु तृणकवलम्; b चारु शोभनम्. 8) a सुंयरइ स्मरति.

7

जहि णरणाह वि होंति गय
 तहिं किं किज्जइ सिरिधरणु
 किज्जइ काणंणि पइसरिवि
 सुररिसिहिं वि सो तहि संथविउ
 विजयहु रज्जु समप्पियउ
 गउ सिवियइ अवराइयइ
 ओइण्णउ जिणु णीलवणि
 वइसाहइ दसमीदियहि
 सवणि सहासें सहं णिवहं
 छट्ठववासें तवु गहिउं
 भिक्खहि मुणि गउ रायगिहु
 वसहसेणरायस्स धरि
 जं पासुययरु लद्धु जिह
 भुंजिवि पुणु तेत्थाउ गउ
 खरतयतावें तत्ताहो
 णव झीणइं णिम्मच्छरइं
 आयउ पुणु तं तरुगहणु
 दिक्खारिक्खि पक्खि कहिए
 णवमीदिणि चंपयहु तलि
 पोसहजुयलें गलियमलु
 केवलविमलु अणंतयरु

कालेण हय ।
 जिणतवचरणु ।
 थिरु मणु धरिवि ।
 सक्के ण्हविउ ।
 तिणु कंप्पियउं । 5
 सुंविराइयइ ।
 तरुवेल्लिघणि ।
 णिच्चंदवहि ।
 जगवंधवहं ।
 अमरहिं महिउ । 10
 विच्छिण्णच्छिहुं ।
 थिउ पुण्णभरि ।
 तं भोज्जु तिह ।
 कयसुंहिविजउ ।
 सुविरंत्ताहो । 15
 संवच्छरइं ।
 वम्महमहणु ।
 मासें सहिए ।
 थिउ धरणियलि ।
 ह्यउ सयलु । 20
 सुरखोहयरु ।

यत्ता—कोमलकरयलर्घ्यत्तियहिं कुसुमहि चित्तलंतु गयणंगणु ॥

णं चित्तवहु पसारियउ जलि थलि महियलि माइ ण सुरयणु ॥ ७ ॥

8

सहसकखे विरइउ समवसरणु

उवविट्ठु भडारउ तिजगसरणु ।

चरु अचरु असेसु वि जणहु कहइ

तहिं पसु वि चारु चारित्तु वहइ ।

7 AP कीग्इ. २ A काणणु. ३ AP मणु थिरु. ४ AP कप्पियउ. ५ A रुहराइयइ; K omits सुविराइयइ. ६ AP उवइण्णउ. ७ A णिच्चदयहि. ८ A सवणसहासे. ९ A विच्छिण्णल्लुहु. १० A सुहविजयो. ११ नत्तयो. १२ A सुविरत्तयो. १३ AP ० घल्लियहिं. १४ AP चित्तवहु. १५ AP णहयलि.

7 5 b तिणु कंप्पियउ तृणवसंकट्पितम्. 7 a ओइण्णउ अवतीर्णः. 8 b णिच्चदवहि निगंतश्चन्द्रपथो यत्र. 9 a सवणि श्रवणनक्षत्रे. 11 b विच्छिण्णच्छिहु गतस्तुह.. 13 a पासुययरु प्राप्तरुत्तम्. 14 b कयसुहिविजउ मुद्दा कृतविजयः. 15 b सुविरत्ताहो सुविरत्तस्य. 17 b वम्महमहणु काममथकः. 18 a दिक्खारिक्खि श्रवणनक्षत्रे. 21 a अणंतयरु अनन्तानन्तम्. 22 चित्तलंतु चित्रयन्. 23 चित्तवहु चित्रपट्..

जाया देवहु रिसिवित्तिअरुह
 दहदोअंगइं रिसि जे धरंति
 सिक्खुयहं सहासइं एकवीस
 वइकिरियहं दुसहस दोसयाइं
 गियणयविद्धंसियपरमयाहं
 पणदहसय पुणु मणपज्जयाहं
 पण्णाससहासइं संजईहिं
 मंदिरवयणारिहिं तिण्णि लक्ख
 हिंडेप्पिणु एव महीयलंति
 फग्गुणतमदसमिहिं सवणजोइ
 रिसिसहसैं सहं संमेयकुहरि

अट्टारह गणहर मल्लिपमुह ।
 पंचसयइं ताहं वि वज्जरंति ।
 तेत्तिय केवलि ओहीविहीस । 5
 भुवणंतपसिद्धिहि संगयाइं ।
 वाइहिं वारहसय संजयाहं ।
 णासियसुप्पयरिउसंपयाहं ।
 सावयह लक्खु ह्यदुम्मईहिं ।
 सुर तिरिय असंख णिरुद्धसंख । 10
 मासाउसेसि थिइ जीवियंति ।
 णिसि पच्छिमसंझहि मुक्ककाइ ।
 सिद्धउ थिउ जाइवि तिज्जगसिहरि ।

घत्ता—अरसु अगंधु अवण्णमउ फाससहवज्जिउ गयरूवउ ॥

मुणिसुव्वउ महं दय करउ सुद्ध सिद्ध हुउ णाणसहावउ ॥ ८ ॥ 15

9

णिव्वुइ सुव्वइ जो णिज्जियारि
 हरिसेणु णाम तहु तणउं चरिउं
 वरभारहवरिसि अणंततित्थि
 णरपुरवरि णाहु णराहिरामु
 सुविसालविमोणि विमाणसारि
 इह खेत्ति भोयपुरि दीहवाहु
 तहु देवि कियोयरि सुद्धसील
 एयहं सो सुरु अंगरुहु जाउ
 सुहलक्खणु वीसधणुप्पमाणु
 गउ तेण समउं पिउ पुहइवीरु

इह जायउ महिवइ चक्कधारि ।
 णिसुणह पवित्तु परिहरिवि दुरिउं ।
 गंधियकुंगंधवंधणवहित्थि ।
 तउ करिवि हरिवि कलि कोहु कामु ।
 संभूयउ अमरु सणक्कुमारि । 5
 इक्खाउवंसि णिउ पउमणाहु ।
 अइरा एरावयगमणलील ।
 हेमाहु समाजुयपरिमियाउ ।
 कंतीइ चंडु तेण भाणु ।
 मणहरवाणि णाचिवि अणंतवीरु । 10

8 १ A ओहीविमीस. २ A महि डिंडेप्पिणु इम महियलति. ३ A सिद्धसिहरि.

9 १ A °कुगथिवधण°. २ AP °विवाणि विवाण°. ३ AP पुहइवीरु.

8 ३ a °अरुह योग्याः, 4 a दहदो° द्वादश. 5 b ओ ही वि ही स अ व धि वि धी गा. अव-
 धिज्ञानवन्तः. 8 b णा सि य सु ण य रि उ सं प या हं नाशिता ओभनपदस्य मोक्षपदस्य रिपवो मिथ्यादर्शना-
 दयः तेषा सपद. ये 10 a म दि र व य णा रि हिं गृहस्थव्रतस्त्रीणा श्राविकाणामित्यर्थ, b णि रु द्ध म ख
 संख्याताः. 14 ग य रू व उ मूर्तपदार्थस्वरूपरहितः.

9 3 b ग थि ए त्या दि जैनाभासग्रन्थिकाना मिथ्यादृष्टीना कुत्सितग्रन्थस्य वन्धनं रचन तस्माद्
 वहि.स्थे ब्राह्मे. 7 b अ इ रा नामेदम्. 8 b स मा जु य प रि मि या उ अयुनवर्षप्रमाणायुः, समाजुयं दशवर्ष
 सहस्राणि.

रिसि हूर्यउ पडु पंकरुहणाहु

पुत्तं आयण्णिवि धम्मं साहु ।

यत्ता—लइयइं पंचाणुव्वयइं पंचं वि इंदियाइं णियमंतं ॥

आवेप्पिणु पुरं रज्जि थिउ पुण्णपहावें कालें जंतं ॥ ९ ॥

10

उण्णणउं पहरणु घरि रहंगु
णिच्चिसु तहिं जि धवलायवत्तु
जणणहु केवलसिरि देहुं पत्त
जाइवि जिणु वंदिवि रसियवज्ज
मंदिरवइ थवइ पुरोहु अवरु
करितुरयणारिरयणाइं जाइं
उल्लंघियाइं सायरजलाइं
काराविय किणरखयरसेव
महि हिंडिवि खांडिवि वइरिमाणु
कत्तिइ णंदीसरि सरकयंतु
उववासिउ छणवासरि पसण्णु

पविदंहु चंहु रिउदिण्णभंगु ।
सिरिहरि कागणि मणि चम्मजुत्तु ।
एक्कहिं खणि तण्णं णिसुय वत्त ।
घरु आविवि विरइय चक्कपुज्ज ।
सेणावइ णिज्जियवीरंसमरु । 5
विज्जाहरेहिं दिण्णाइं ताइं ।
संसाहियाइं धरणीयलाइं ।
वसिकय अणेय गणवद्धदेव ।
आवेप्पिणु तं पुणु णिययठाणु ।
अहिसिंचिवि अंचिवि अरुहु संतु । 10
जावच्छइ णिसि णरवइ णिसण्णु ।

यत्ता—इंदणीलणीलंगण चंदविंनु ता गिलिउं विडप्पें ॥

णहभायणयलि संणिहिउ घोड्डिउ दुद्धु व कसणें सप्पें ॥ १० ॥

11

णं ढंकिउ अलिजूहेण कमलु
संणिहिय विहाएण व विवित्ति
चित्तइ पहुं विहु गहगत्यु जेम
लइ जामि हणामि दुक्कम्मजोणि
गउ पुहइणाहु वेरगभूरि

णं पावें सुक्किउ छइउ विमलु ।
मयणाहि घोयकलहोयवत्ति ।
कालें कउलेवउ हउं मि तेम ।
महसेणहु ढोइवि सयलखोणि ।
सिरिमंतसेलि सिरिणायसूरि । 5

४ AP जायउ. ५ A धम्मलाहु. ६ P पंचेदियाइ. ७ P omits पु. ८ A जंतं कालें.

10 १ A देहि. २ A °धीरसमरु.

11 १ A कलहोयपत्ति. २ A इहु. ३ AP महिसेणहु.

11 b धम्म साहु धर्ममाकर्ण्य, साधु यथा भवति तथा.

10 २ a णि च्चिसु असि. b सिरिहरि भाण्डागारे. 4 a रसियवज्ज शब्दितवायः.
5 a मदिग्गवइ गृहयतिः. 10 a सरकयंतु स्मरस्य कृतान्तः. 11 a छणवासरि पौर्णमास्याम्.
12 विटप्पें गहणा 13 घोड्डिउं पीतम्.

11 1 a अलिजूहेण भ्रमग्गमूहेण, b सुक्किउ छइउं पुण्यं स्यगितमिव. 2 a विहाएण
विगजा, विवित्ति विगणं वृत्ते वर्तुले, b मयणाहि कस्तूरिका, घोयकलहोयवत्ति रूप्यमये पात्रे.
3 a विट्टु चन्द्रः, गहगत्यु राहणा व्रस्त.

पणवेष्पिणु लइयउ तवोविहाणु
 तें दिण्णउं जीवदयालुण
 विसहेवि भीमु रविकिरणताउ
 तवदंसणणाणचरित्तरिद्धि

तसथावरजीवहं अभयदाणु ।
 गिरिसिहरि सुइरु लंविभुण्ण ।
 विद्धंसिवि मिच्छामोहभाउं ।
 आराहिवि गउ सव्वत्थसिद्धि ।

घत्ता—हरिसेणहु भरहाहिवहु अहमिदत्तणु तं तहु सिद्धउ ॥ 10
 दिव्वसोक्खसंदोहयरु जं ण पुप्फदंतेहिं वि लद्धउं ॥ ११ ॥

इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे मुणिसुव्वयणिव्वौणं हरिसेण-
 कहंतरं णाम अद्वसद्विमो परिच्छेओ सर्मत्तो ॥ ६८ ॥

४ P विसहेवि मुणिवरु रवि°. ५ A °णिव्वाणगमणं. ६ P adds another पुष्पिका. मुणिसुव्वय-
 जिणदसमचक्कवट्टि हरित्तेण एतच्चरियं सम्मत्त, K gives it in the margin in second hand.

मुणिसुव्वयजिणत्तित्थि तोसियसुररामायणु ॥
हरिहलहरगुणथोत्तु जं जायउं रामायणु ॥ छ ॥

1

णियवुद्धिंपवित्थरु णउ रहमि
णिव्वाहमि भरह्वम्भत्थियउं
कलिकाले सुट्टु गलत्थियउ
सामग्गि ण एक वि अत्थि महु
कइराउ सयंभु महायरिउ
चउमुहहु चयारि मुहाइं जहिं
महु एकु तं पि मुहुं खंडियउं
मइं छंदु ण लक्खणु भावियउं
बुहहियवइ जइ वि ण पइसरमि
महु खमउ भडारी विउससह

लइ तं पि कि पि एवहिं कहमि ।
परिपालमि पडिवण्णउं थियउं ।
जणु दुज्जणु अण्णु वि दुत्थियउ । 5
किर कैवण लीह चिरकइहि सहं ।
सो सयणसहासहिं परियरिउ ।
सुकइत्तणु सीसउ काइं तहि ।
विहिणा पेसुण्णउं मंडियउं ।
अण्णउं जणि हासउ पावियउ । 10
धिद्वत्ते तइ वि कव्वु करमि ।
आयण्णहु रहवइरायकह ।

यत्ता—सुकइपयासियमग्गि मणि दहमुहु वि चमकइ ॥
रामधम्मगुणसहि अमुहु पिसुणु कहिं दुकइ ॥ १ ॥

2

जिणचरणकमलभंसलें झुणिउं
सुइपेसलु कण्णविइण्णसुहु
सैइं लग्गइ चित्ति वियक्खणहु
वइदेहिसइत्तणु भूसियउं

मइं एउं णिरत्थु वि रणुरणिउं ।
वियसावियमाणिणिडिंभमुहु ।
जसु रामहु पोरिसु लक्खणहु ।
जलविंदु व पोमपत्ति थियउं ।

1 १ P ०वुद्धिइ वित्थरु. २ P भरह्वम्भत्थियउ. ३ P कमण. ४ AP चिर कहहिं. ५ A सुयणमहासे, A सुयणसहासेहिं. ६ P सीसइ. ७ P चकवइ. ८ A समुहु.

2 १ AP ०भमेरे. २ AP एत्थु. ३ A लइ. ४ P पोमवत्ति.

1 1 ०सुररामायणु सुरलीगण लीजनो वा: 2 रामायणु रामचरितम्. 4 b पडिवण्णउं अङ्गीकृतम्. 6 b चिरकइहिं चिरकविभि. 7 a सयंभु महायरिउ स्वयंभू. महाचार्यः; दीहरसमास-
णालं मददलं अत्थेस्सखवित्रं । बुहमहुयरपीयरसें सयभुकव्वुप्पल जयउ. 8 a चउमुहहु चतुसुखनामः
कवे. 9 b पेसुण्णउं मंडियउं दुर्जनत्वं कृतम्. 12 a विउससह विद्वज्जनसमा. 13 सुकइ सुकविः
वानरश्च, दहमुहु गवणः, चमकइ विभेति 11 रामधम्मगुणसहि रामस्य धर्मगुणयोर्वर्णने, रामस्य
वा धर्मो धनुस्तस्य गुणो दोस्तस्य गव्दे ट्ठकारे, अमुहु पिसुणु अमुखा: खरद्वयणादय.

2 2 a कण्ण विइण्ण सुट्टु कर्णयोः वितीर्णसुखम्. 4 a वइदेहिं सीता.

मुत्ताहलवणु समुव्वहइ
जं विरइउं मंदमंदमईहिं
जं जगि पसिद्धु सीयाहरणु
जं विडसुग्गीवरायमरणु
जं लवणसमुद्धंसमुत्तरणु

आसयगुणेण कव्वु वि सहइ । 5
अम्हारिसेहि जगि जडकईहिं ।
जं अंजणेयगुणवित्थरणु ।
जं तारावइअम्भुद्धरणु ।
जं णिसियरवंसहु खयकरणु ।

घत्ता—भरहहु भत्तिभर्रासु वहुरसभावजणेउं ॥

10

तं आहासमि जुञ्जु रावणरामहु केरउं ॥ २ ॥

3

जिणचरणजुयलसंणिहियमइ
णिरु संसयसल्लिउं मज्जु मणु
किं दहमुहु सहं दहमुहहिं हुउ
जो सुम्मइ भीसणु अतुलवल्लु
किं अंचिउ तेण सिरेण हरु
कि तहु मरणावह रामसर
सुग्गीवपमुह णिसियासिधर
किं अज्जु वि देव विहीसणहु
छम्मासइं णिईं पेय सुयइ
किं महिससहासाहिं धउ लहइ
वम्मीयवासवयणिहिं णडिउ

आउच्छइ पहु मगहाहिवइ ।
गोत्तमगणहर मुणिणाह भणु ।
किं जम्मं गरुयउ तासु सुउ ।
किं रक्खसु कि सो मणुयं खलु ।
किं वीसणयणु किं वीसकरु । 5
किं दीहर थिर सिरिरमणकर ।
किं वाणर कि ते णरपवर ।
जीविउ ण जाइ जमसासणहु ।
किं कुंभयणु घोरइ सुयइ ।
लइ लोउ असच्चु सव्वु कहइ । 10
अण्णाणु कुम्मग्गकूवि पडिउ । 11

घत्ता—गोत्तम पोमंचरित्तु भुवणि पवित्तु पयासाहि ॥

जिह सिद्धत्थसुएण दिट्ठउं तिह महुं भासाहि ॥ ३ ॥

५ A °समुद्धं उत्तरणु. ६ P भत्तियरासु. ७ AP रामण°.

3 १ P किं जम्मे. २ AP सो सुम्मइ. ३ A मणुवकुल्ल ४ AP पेय णिइ. ५ APT पउम°.

5 b आसयगुणेण आश्रयगुणेण स्थानमाहात्म्येण. 7 b अंजणेय° हत्तमान्. 8 a विडसुग्गीवराय° वालिनरेन्द्रस्य, b तारावइ° मूलशुश्रीव.. 9 b णिसियर° राक्षसाः.

3 1 b पहु श्रेणिक°. 3 a दहमुहु रावणः किं दशभिर्मुखैर्जनितः; b जम्मि गरुयउ तासु सुउ इन्द्रजित् किं रावणाद्वर्षेर्व्येष्ट.. 4 b खलु स्फुटम्. 5 a तेण रावणेण. 6 a मरणावह मरणकराः; b सिरिरमण° लक्ष्मणः. 7 a णिसियासिधर तीक्ष्णखड्गधराः. 9 b सुयइ स्वपिति. 10 a धउ तृप्तिम्. 11 a वम्मीय° वाल्मीकिः, वास° व्यासः; णडिउ वद्धितः. 12 पोमंचरित्तु रामचरित्तम्. 13 सिद्धत्थसुएण श्रीवीरेण.

4

ता इंदभूइ गंभीरञ्जुणि
इह भरहि भवावहारिणिलइ
मायंदगोदगोदलियसुइ
णिप्पीलिउच्छरससलिलवहि
मलरहिय मलयदेसंतरइ
तहि वसइ पयावइ पयधरण
जें सत्यें जित्त सरासइ वि
जें रिद्धिइ जित्तउ सुरवइ वि
तहु रायहु णयणसुहावणिय
रुवेण सरिच्छी उव्वसिहि
सुउ चंदचूलु चंदु व उइउ

सेणियराहु कहं कहइ मुणि ।
फुल्लियकणयारवउलतिलइ ।
महमहियकलमकेयारजुंइ ।
संतुट्टुपुट्टुपंथियणिवहि ।
रयणउरि भवणरुइहयसरइ । 5
जें दंउं जित्तउं जमकरणु ।
जें बुद्धिइ जित्तउ भेसइ वि ।
जें भोएं जित्तउ रइवइ वि ।
णं वाणावलि मयणहु तणिय ।
गुणवंत कंत कंति व ससिहि 10
सिसु मंतिमित्तु तेण वि लइउ ।

घत्ता—सो विजयंकु पंसिद्धु णं ससिरवि गयणंगणि ॥

वेणिण वि सह खेलंति वद्धणेह घरपंगणि ॥ ४ ॥

5

तरुणीकडकखोहविकखेवमूढाइ
णिण्णहुदपिण्णिकिद्धुतुट्टीइ
णं तावसा के वि अरहंतदिकखाइ
अण्णम्मि तंवासरे तम्मि णयरम्मि
गोत्तमवणिदेण वइसवणघरिणीइ
विण्णाणवंतस्स संसारसारस्स
करधरियाभिंगारचुयवारिधारेण
वालेण वालालयं झ त्ति गंतूण

जोव्वणसिरीए सरीराहिरूढाइ ।
घोराण जाराण चोराण गोट्टीइ ।
ते वे वि ण चरंति रायस्स सिक्खाइ ।
णिद्धणजणे दिण्णवहुदविणणियरम्मि ।
जायस्स कलहस्स णं चारुकरिणीइ । 5
सिरिदत्तणामस्स वणिवरकुमारस्स ।
णियधीय रमणीय दिण्णा कुवेरेण ।
णंमिउण जय देव देव त्ति वोत्तूण ।

4 १ AP सहं. २ A भवावहारि. ३ A °कणियार°. ४ A मायंदगोच्छ°; P मायंदगोदि°. ५ A केयागहुए. ६ A °उच्छु°. ७ A बुद्धे. ८ P लइं. ९ P omits पंसिद्धु.

5 १ A कडकखोहविकखेव°, P °कडकखोहविकखेव° २ A °बुद्धीइ. ३ AP ता वासरे. ४ A णविज्जण.

4 2 a भवावहारिगिलइ सर्वज्ञस्यानभूते. 3 a मायंदगोद° आम्रवृक्षसमूहः; °गोदलियसुइ °शब्दितशुभे. 5 a °उच्छरसं इक्षुसं. 5 b भवणरुइहयसरइ सौवशोभाभिर्हता तिरस्कृता शरत्काल-शोभा यस्मिन्. 7 a सत्ये शास्त्रेण; b भेसइ वृहत्सतिः. 8 b रइवइ मदनः. 11 a चंदचूलु भवि-प्यलक्ष्मणः; उइउ उदितः.

5 1 a °कडकखोहविकखेवमूढाइ कटाक्षसमूहविक्षेपमूढया. 4 a तंवासरे तस्मिन् वासरे एकस्मिन् दिने. 8 a वालालयं चन्द्रचूल्यहम्.

केणावि पावेण रहरहसजुत्तीइ	रूवं वरं वणिणयं वणिणयउत्तीइ ।	
रेहंतराईवदलदीहणेत्ताइ	तीं ^१ संणिहा का कुवेराइदत्ताइ ।	10
तं सुणिवि सिरु धुणिवि विद्धत्थं धम्मणेण	संचरिवि वियडं तुरं कूरकम्मणेण ।	
वणिभवणि पइसरिवि बहुसहसहाएण	हित्ता कुमारी धराणाहजाएण ।	
रोवंति वेवंति वरइत्तहत्थाउ	णंटाउ णारीउ विलुलंतवत्थाउ ।	
घत्ता—णिव परिताहि भणंतं पुरि अण्णाउ कुमारहु ॥		
गय तरुसाहाहत्थ वणिवर रायदुवारहु ॥ ५ ॥		15

6

आउच्छिउ रापं पउरयणु	विण्णवइ णवंतु तसंततणु ।	
तुह तणुरुहु परदविणइं हरइ	परिणियउं कलत्तु ण उव्वरइ ।	
पइसरउ भडारा वियणु वणु	अण्णेत्तहि जीवउ जाउ जणु ।	
ता रापं पुरवरतलवरहु	आएसु दिण्णु असिवरकरहु ।	
सिरकमल्लु विलुंचवि णिट्टुरहु	पेसहि तणुरुहु वइवसपुरहु ।	5
अण्णाणु णायविद्धंसयर	खल्लु सो ^३ किं बुच्चइ रज्जधरु ।	
जो दुट्टु कट्टु णिद्धम्मयर	सो खंडमि हउं अप्पणउं करु ।	
हियउल्लउं दुक्खे सल्लियउं	ता पउरें मंतिहिं ^५ वोल्लियउं ।	
घत्ता—णंदणु हणहुं ण जुत्तउं जइ सो मणहु ण रुच्चइ ॥		
गिरिदुग्गमि कंतारि तो ^१ दूरंतरि मुच्चइ ॥ ६ ॥		10

7

पहु भणइ जाउ कि तेण महुं	हउं णंदमि चिरु धम्मणेण सहुं ।
गुणदूसणु अप्पपसंसणउं	तवदूसणु मिच्छादंसणउं ।
णडदूसणु णीरसंपेक्खणउं	कइदूसणु कच्चु अलक्खणउं ।

५ A थी संणिहा. ६ A विद्धत्थकामेण. ७ A^१सहावेण. ८ P तट्टाउ. ९ AP भणंता.

6 १ AP तसंतमणु. २ A परसरणु, P पइसरह. ३ P किं सो. ४ A महिवइ. ५ A ता.

7 १ AP णीरसु.

10 a रेहं तराईव^० शोभमानकमलम्, b ती स्त्री, संणिहा सदृशी, कुवेराइदत्ताइ कुवेरदत्तया.

11 b तुर शीघ्रम्. 12 a बहुसहसहाएण बहुभिः सहैः समर्थं. सह. 13 a वेवंति वेपमाना कम्ममाना.

6 2 b परिणियउ कलत्तु परिणीता स्त्री. 3 a पइसरउ प्रविशतु, वियणु वणु विजन वनम्.
7 a कट्टु निन्यः 9 मणहु चित्तस्य.

7 2 a अप्पपसंसणउ आत्मप्रशंसनम्. 3 b अलक्खणउं व्याकरणरहितम्.

धणदूसणु सढंखलयणभरणु
रइदूसणु खरभासिणि जुवइ
सिरिदूसणु जहु सालसु णिवइ
गुरुदूसणु णिकारणहंसणु
ससिदूसणु मिगमलु मसिकसणु

वयदूसणु असमंजसैमरणु ।
सुहिदूसणु पिसुणु विभिण्णमइ । 5
जणदूसणु पाउ पत्तकुगइ ।
मुणिदूसणु कुसुइसमव्भसणु ।
कुलदूसणु णंदणु दुव्वसणु ।

घत्ता—लइ जं तुम्हहं इट्टु मइं वि तं जि पडिवण्णउं ॥

जाइवि कुलवुट्ठेहिं वालहं उत्तरु दिण्णउं ॥ ७ ॥

10

8

कि परकलत्तु उद्दालियउं
किं वप्प सुदप्प कुसंगु किउ
कुद्धउ पिउ एवहिं को धरइ
तं णिसुणिवि सिस्सु चवंति गहिरु
को रक्खइ आवंतउं मरणु
कु वि अग्गइ कु वि पच्छइ मरइ
मंतीसं करपल्लवधरिया
तरुवरविलगगचलद्वदहाणि
गणणाहहु हयवम्महवलहु
रायागमणायवियाणएण
परमेसर ए णर भव्व जइ

उज्जलु अप्पाणउं मइलियउं ।
परयारचोरकीलाइ थिउ ।
तुम्हारउं जीविउ अवहरइ ।
अत्थंतु णिवारइ को मिहिरु ।
जगि कासु ण दुक्कइ जमकरणु । 5
वइवसदंतंतरि पइसरइ ।
सुय वेण्णि वि किंकरपरियरिया ।
पइसारिय वेण्णि वि गिरिगहाणि ।
दक्खविय णंवंत महावलहु ।
कुच्छियमइ धाडिय राणएण । 10
वर एवहिं तुहं उद्धरहि तइ ।

घत्ता—दुम्मइमलमइलेहिं कुंअरिहिं कहिं जाएवउं ॥

भणि भवियच्चु भयवंत एहि काइं पावेवउं ॥ ८ ॥

9

मुणि भणइ एत्थु दिहि^१ करिवि तवे
णामेण रामलक्ष्मण विजई

होहिंति सीरि हरि तइयभवे ।
तं णिसुणिवि जाया तरुण जई ।

२ A सह खलय^०. ३ AP असमंजसु. ४ A ^०मसणु. ५ A जि.

8 १ A सदप्पु. २ A उदयतु. ३ AP ^०पल्लवि धरिया. ४ AP णमंत. ५ AP कुमरहिं.
६ P भयवंतहिं.

9 १ P विहि.

4 a सढं सर्वत्र वक्रहृदया ; b असमजसमरणु सखल्यमरणं आत्मघातो वा. 6 a सिरि^२ राज्यलक्ष्मीः ;
b पाउ पापम्. 7 b कुसुइसमव्भसणु मिथ्यागाल्नाभ्यासः. 8 a मिगमलु मृग एव मलः.

8 2 b परयार^० परदाराः. 4 b अत्थंतु अस्तं गच्छन्, मिहिरु सूर्यः. 5 b जमकरणु रोगः.
10 a रायागमं नीतिनाम्नः ; b कुच्छियमइ कुमती द्वौ पुरुषौ. 12 कुंअरिहिं कुमाराम्भ्याम्.

9 1 b सीरि हरि वरुदेवो वानुदेवश्च.

गड मंति णिहेलणु पय णवइ
 वसुहाहिव तणुरुह गिरिविवरि
 कासु वि सकम्मउग्गुग्गमहो
 विसहावियदंडेणमुंडणं
 णिवणयणइं मुकंसुयजलइं
 हा हा मइं रुसिवि किं कियउं
 अइरहसें किज्जइ कज्जरइ
 मणु मंतें परियाणिवि पइहि
 जिह दोहिं मि लइयउं तववरणु
 कोमलतणु णीसारिवि घरहु

णरणाहहु वइयरु विण्णवइ ।
 आरणिण णिहिय वणवासिघरि ।
 तणुदुक्खलक्खविहिंसंगमहो । 5
 पंचिदियदप्पविहंडणइं ।
 ओसासित्ताइं व सयदलं ।
 किं वालजुयलु दुक्खे हयउं ।
 जा सा णिदइइ ण कासु मइ ।
 अक्खिउ जिह पासि णिहिय जइहि । 10
 ता जायउं तायहु सिमुकरुणु ।
 गंदण पट्टंवि वि वणंतरहु ।

घत्ता—डहु बुहणिदिरु रज्जु रज्जु जि पाउ णिरुत्तउं ॥

रज्जमएण पमंत्तउ ण सुणंइ जुत्ताजुत्तउं ॥ ९ ॥

10

णियं गोत्तिउ णियकुलि संणिहिउ
 भरहेण व अहिवंदिवि रिसहु
 गड मोक्खहु अक्खयसोक्खमइ
 खग्गउरहु वहि कयधम्मकिसि
 थिय जइयहुं तइयहुं महि जिणिवि
 सुप्पह पुरिसोत्तम दिट्ठं पहि
 दीसइ णरणाहहु जेरिसउं
 मुंड सणकुमारु हुउ रिसि विजउ
 कमलप्पहि विमलविमाणवरि
 मणिचूलु देउ जायउ पवरि

वणु जाइवि रापं तनु गहिउ ।
 पणवेवि महावलु मुणिवसहु ।
 थिउ णाणदेहु णिव्वाणपइ ।
 आयावणजोपं वालरिसि ।
 महसूयणु समरंगणि हणिवि । 5
 सासिचूलं चिंतिउं हिययरहि ।
 महु होउ पहुत्तणु तेरिसउं ।
 सुरु णामु सुवण्णचूलु सदउ ।
 णिवतणउ मणिप्पहि अमरघरि ।
 कलहंसु व विलसइ कमलसरि । 10

घत्ता—जं अणिमाइगुणोहिं वहुंविहवेण णिउत्तउं ॥

तं दिवि दीहरु कालु विहिं मि दिव्हु सुहुं भुत्तउं ॥ १० ॥

२ A णिहेलणि पइ. ३ A उग्गुग्गमहो. ४ A दिहि°. ५ AP डडण°. ६ P मुडणहो. ८ AP णिदइइ. ९ A पइविय. १० AP पमत्तु. ११ AP मुणइ.

10 १ AP णियणत्तिउ. २ A दिट्ठि. ३ A मुए. ५ AP सणकुमारो. ५ A वहुंविहत्तवेण.

4 b वण वा सि° मुनयो भिच्छा वा. 5 a सकम्मउग्गुग्गमहो स्वकर्मणः. उग्र. रौद्रः उदयस्तस्मात्.
 7 b ओ सा सि ता इ अवशयावसिक्तानि. 9 a अइरहसें अतिरभमेन उत्तुकेन. 10 a पइ हि रागः.

10 4 a कयधम्मकिसि कृतधर्मकर्षणौ. 5 a जइयहु इत्यादि पूर्व यदा काले अनन्तत्रिन-
 तीर्थे चन्द्रचूलेन सुप्रभपुरुषोत्तमौ चतुर्थेवलकेणवौ मार्गे दृष्टौ. 6 b हिययरहि मनोरथे. 8 b सदउ दया-
 सहितः. 9 b णिवतणउ चन्द्रचूलः.

11

सरवरमरालर्चाक्खियभिसइ
 जहिं सालिरमणकीलाहरइं
 जहिं सालिकमलछण्णइं सरइं
 सिसुहंसपयइं मयरंदरइ
 रोमंथंतइं संतुट्टाइं
 उच्छुरसु जंतणालीलहसिउ
 ओयणु सीयलु दहिओल्लियउं
 जहिं जिम्मइ पहिययणहिं पवहि
 ओहामियअलयाउरिसिरिहि
 तहि दसरहु दसदिसिणिहियजसु

इह भरहवरिसि कासीविसइ ।
 जहिं सालिधण्णछेत्तंतरइं ।
 जहिं सालिहियाइं व अक्खरइं ।
 गोहणइं चरंतइं पइ जि पइ ।
 दीसंति हरियतणपुट्टाइं । 5
 दक्खारसु पिज्जइ मुहरसिउ ।
 फणिवेल्लिपत्तपत्तलि थियउं ।
 देसियढक्करिजंपणरवहिं ।
 जणभरियहि वाणारसिपुरिहि ।
 णिवसइ णिउ जियरिउ थिरु सवसु । 10

घत्ता—कुवलयबंधु वि णाहु णउ दोसायरु जायउ ॥

जो इक्खाउहि वंसि णरवइरूढिइ आयउ ॥ ११ ॥

12

करगेज्जु मज्जु उच्चुंगथणि
 सिविणंतरि पेच्छइ उग्गामिउ
 ससि कुमुयकोसवित्थारयरु
 सुविहाणइ कंतहु भासियउं
 तुह होसइ तणुरुहु सीरहरु
 अण्णहि दिणि सग्गहु अवयरिउ
 मधरिक्खयंदि णीरयदिसिहि
 देविइ णवमासहि सुउ जणिउ
 करिवरलोहियर्पव्वालियउ

तहु सुवल णाम वल्लह धरिणि ।
 रवि सहसकिरणु णहयलि भमिउ ।
 गजंतु जलहि जुज्झियमयरु ।
 तेण वि तहु गुज्जु पयासियउं ।
 हलि चरमदेहु णं तित्थयरु । 5
 सुंरु कणयचूलु उंयरइ धरिउ ।
 फग्गुणि तमकालिहि तेरसिहि ।
 तणुरामु रामु राणं भणिउ ।
 सिविणंतरि सीहु णिहालियउ ।

11 १ A °चालियभिसए. २ P रोमंथंतइं पसुसंतुट्टाइं. ३ AP वाराणसि°. ४ A °रूढिं आयउ.

12 १ A सुकल. २ AP रमणि. ३ AP सुउ. ४ A उवरे, P उवरें. ५ A °रिक्खे चंटे, P °रिक्खि इंटे. ६ P °पच्चालियउ. ७ P सुविणंतरि.

11 1 a °चक्खियभिसइ °आस्वादितपच्चिनीकन्दे. 2 a सालिरमणकीलाहरइं स्त्रीपुन्ययुक्तकीडागृहाणि. 3 a सालिकमल° सभ्रमराणि कमलानि, b सालिहियाइं लक्ष्मीलिखितानि. 4 a मयरंदरइ मकरन्दरजसि, b पइजिपइ पदे पदे. 8 a पवहि प्रपायाम्. 11 दोसायरु चन्द्रः, दोषाणामाकरश्च.

12 1 a करगेज्जु मुष्टिग्राह्यम्. 7 a मधरिक्खयंदि मवानक्षत्रस्ये चन्द्रे; णीरयदिसिहि निर्मलदियायाम्. 8 a तणुरामु शरीरेण उज्ज्वल.. 9 a °पच्चालियउ लिखित.

माहहु मासहु सियपढमदिणि
मणिचूलु देउ दसरहरयइ
जोइउ लक्खणलक्खंकेयउ

सविसाहि जसाहिउ पहु भुवणि। 10
सुउ अवरु वि जायउ केकयइ।
सो तापं लक्खणु कोक्कियउ।

घत्ता—वेणि वि ते गुणवंत भुयवलतासियदिग्गय ॥

णाइं सियासियपक्ख पत्थिवगरुडहु णिग्गय ॥ १२ ॥

13

रेहंति वे वि वलएव हरि
णं गंगाजउणाजलपवह
णं पुण्ण मणोरह सज्जणहं
अवरोप्परु णिरु णिममच्छराहं
सहसाइं विहिं मि णिदेसियेइं
पण्णारहचावइं तुंगतणु
पुरवाहिरि उववणसंठियहु
अवलोइवि रामहु सरपसरु
करि आउहु जं लक्खणु धरइ

णं तुहिणगिरिंदंजणसिहरि।
णं लच्छिहि कीलारमणवह।
णं वम्मवियारण दुज्जणहं।

तेरहवारहसंवच्छराहं।

परमाउसु जइवरभासियेइं। 5

ते सत्थु सुणंति गुणंति धणु।

विद्धंतहु जयउकंठियहु।

मउ चेय मुयंति ण वइरि सरु।

तहु परपहरणु जि ण संचरइ।

घत्ता—कंपइ महिसंचारे ससरसरासणहत्यहं ॥

10

संकइ जमुं जमदूउ को णउ तसइ समत्यहं ॥ १३ ॥

14

रिसहाहिवसंताणाइयहं
संखापरिवज्जिय पुरिस गय
ताहि अण्णहु कहिं जीवियकहइ
सव्वत्थसिद्धि हरिसेण गइ
सुयसुइदिणाउ जायविजइ

सिरिभरहसयररायाइयहं।

अहमिद वि जहि कालेण मय।

लइ अत्थेमियइ पत्थिवसहइ।

दिणमाणे वरिसहं सैहसहइ।

पुण्णइ पंचुत्तरवरिससइ। 5

८ AP सविसाहु. ९ AP भवणि. १० P जायउ अवरु वि.

13 १ AP तुहिणगिरिंदं नीलसिहरि. २ A °जलपवाह, P °जलणिवहु. ३ A °रमणगह; P °खणवहु. ४ A णिदेसियउ. ५ A भासियउ. ६ A जम.

14 १ A अण्ण वि कहिं, P अण्णहिं किं. २ A अइ अत्थेमिए; P लइ अत्थेमिए. ३ P दिणमाणह. ४ A सहासरुए, P °सहसि हए. ५ AP °दिणाउ जाएवि लए.

10 b स वि सा हि विदाखानक्षत्रयुक्ते. 1± सि या सि य प क्ख शुक्रकृणपत्रौ.

13 1 b °अजणसिहरि नीलपर्वतः. २ b कीलारमणवह क्रीटारमणमार्गौ. S b सरु शब्दं त्राणं वा. 10 ससर त्राणयुक्तम्.

14 3 b पत्थिवसहइ पार्थिवसभया. 5 a सुयसुइदिणाउ पुत्रोत्पत्तिदिवमात्.

असुरिदं विद्धंसियसयरि
परियाणिवि तणयहुं तणउं वलु
सहुं पुत्तहि जायधरारइहिं
तहिं सुहुं णिवसंतहु णरवइहि
अण्णेक्कहि भरहु पसण्णमणु
महिवइ संपुण्णमणोरहहिं
सोहइ पुत्तहि सकयायरहिं

दहरहु पइहु उज्झाणयरि ।
हुउ महियलि सयलु वि खलु विवलु ।
सुपरिद्धिउ पहु णियसंतइहिं ।
उप्पणउ संतोसु व जइहि ।
अण्णेक्कहि धरिणिहि सत्तुहणु । 10
चउहिं वि जणेहिं परवलमहहिं ।
णं भूमिभाउ चउसायरहिं ।

घत्ता—मिहिल्लाणयरिहि ताम णामे जणउ णरेसरु ॥

पसुवहकम्मं सग्गु चिंतइ जण्णहु अवसरु ॥ १४ ॥

15

महु मेरउ रक्खइ को वि जइ
तं णिसुणिवि मंते जंपियउं
सो जासु ण जाउहाणु गहणु
सो रक्खइ धुवु काकुत्थु तिह
ता रापं पेसिय दूयवर
उज्झहि दसरहहु णिवेइयउं
जो रक्खइ अद्धर परमकूय
णामेण सीय वेल्लहलभुय
तं बुद्धिविसारणण भणिउं
कउकरणुं णिहालणु रक्खणु वि

वसुहासुय दिज्जइ तासु तइ ।
जसु णामे तिहुयणु कंपियउं ।
जसु लहुवभाइ भइ महमहणु ।
खेयरहिं ण हम्मइ होसु जिह । 5
गय ते वहुपाहुंडलेहकर ।
आलिहियउं पण्णउं वाइयउं ।
तहु दिज्जइ णं पच्चक्ख सूर्य ।
किर कहु उवमिज्जइ जणयसुय ।
इहरत्ति परत्ति चारु झुणिउं ।
लइ रक्खउ राहुउ लक्खणु वि । 10

घत्ता—कारावय होआयार हुणिय पसु वि देवत्तणु ॥

जेण लहंति णरिंद तं करि जण्णपवत्तणु ॥ १५ ॥

६ AP दसग्हु. ७ A सुपइइउ. ८ A महिल्ल°.

15 १ A णाउहाणु. २ A रक्खइ धंघुसमेउ. ३ A पाहुड लेवि कर. ४ P णिवेवियउं.
५ A अद्धर परमरुअ, P अद्धर परमकिय. ६ AP सिय. ७ P करणु. ८ A कारावय होयारहुणिय;
P कागवयहोआयारि.

6 a असुरिदं इत्यादि इयं कथा अग्रे कथयिष्यते. 9 b जइहि यते: 10 b सत्तुहणु अत्रुण. 11 b
परवलमहहिं अत्रुसेन्यमथके. 12 a सकयायरहिं स्वेषु द्रव्येषु ज्ञातिषु वा कृत. आदरो यैः पुत्रैः,
सागरपद्मे तु स्वकीयै. आकरै..

15 1 a महु मखो यज, b वसुहासुय सीता. 2 a मंते जनकमन्त्रिणा. 3 a जाउहाणु
गच्छसो गवणः; b महमहणु मधुसूदन. 4 a काकुत्थु राम.. 6 b पण्णउं पर्णे पत्रम्. 7 a परमकूय
परमक्रिया; b सूर्य लक्ष्मीः. 8 a वेल्लहल कोमलौ. 9 a बुद्धिविसारणण दशरथमन्त्रिणा. 10 a
रुडं कत्रुयज; b राहुउ गववो राम.. 11 कारावय यजे धनव्ययकारिणः, होआयार होतारः
पण्डितवत्स्वयं कर्तार; हुणियपसु धातितः पशुरपि यजेन कृत्वा देवत्वं प्राप्नोति.

16

जं जुंजिवि' सग्गहु सयरु गउ
तं नृव रक्खिज्जइ किज्जइ वि
जगि धम्ममूलु वेउ जि कहिउ
ते हुंति देव दिव्वंगधर
रक्खेवि जणु सा घणथणिया
ता अइसयमइणा ईरियउं
सुणि भारहि चारणजुयलि पुरि
तहिं अत्थि सुजोहणु दिण्णदिहि
सुय सुलस सुलक्खण जहि जि जहिं
तहि णिरुवमु रूउ गुणग्घविउं

सहुं सयणहिं तणयहिं मुक्करउ ।
भावे वित्थारहु णिज्जइ वि ।
सो जेहिं महापुरिसहिं गंहिउ ।
लहु पेसहि कुलसरहंसवर ।
सिसु परिणउं सुय जणयहु तणिया । 5
पइं वप्प असञ्चु वियारियउं ।
जिणधम्मपहाउज्झियविहुरि ।
महपवि तासु णामे अतिहि ।
दीसइं भल्लारी तहि जि तहिं ।
णिउणे विहिणा कहिं णिम्मविउं । 10

घत्ता—णउवेयालियछत्तवंदिणघोसाऊरिउं ॥

ताहि सयंवरु जाउ सयरु राउ हक्कारिउ ॥ १६ ॥

17

सो कोसल मेल्लिवि णीसरिउ
दप्पणि अवलोइउ सिरपैलिउं
राएण वुत्तु कि परिणयणु
थेरत्तणि परिहउ पेम्मविहि
ता तहु धाईइ किसोयरिइ
सियकेसें चंगउ दीसिहइ
ते वयणे महिवइ पुणु चलिउ
दियहेहिं पराइउ तं णयरु

पहपरहरि मज्जणि संचरिउ ।
णवचंपयतेल्ले विच्छुलिउं ।
एवहिं कि छिप्पइ तरुणियणु ।
विसहिज्जइ चर तवतावसिहि ।
पडिवयणु दिण्णु मंदोयरिइ । 5
तुंह सिरिहरि संपय पइसिहइ ।
गरुडइउ णहयलि परिघुलिउ ।
ससुरग्गइ संथुउ णिवसेयरु ।

16 १ A जुजवि, P हुजेवि. २ AP णिव. ३ A कज्जइ व. ४ A णिज्जइ व. ५ A महिउ.
६ P परणउ. ७ AP अवलोइय मारइ तहिं जि तहिं. ८ AP सयरगउ.

17 १ A पहु पुरिवहि. २ AP सिरि पलिउ. ३ A पेम्मणिहि. ४ AP तहु. ५ A णिउ
सयरु, P णिउ सगरु.

16 1 a जुजिवि कारयित्वा; b मुक्करउ मुक्तपाप. 2 b वित्थारहु णिज्जइ विस्तार नीयते.
6 a अइसयमइणा अतिशयमतिमन्त्रिणा. 7 a चारणजुयलि नगरस्य नामैदम्, b °उ प्लियविहुरि
°त्यक्तदुःखे. 11 °छत्तं छात्रा..

17 1 b पहपरहरि प्रभा परामुक्कटां धरति शो दर्पणः स प्रभापरधर, अथवा प्रभा माहात्म्यं
परेषां हरतीति, मज्जणि स्नानावसरे, संचरिउ प्रतिविम्बितम्. 2 b विच्छुलिउं प्रथितमभ्यक्तम्.
3 b छिप्पइ स्पृश्यते. 4 a परिहउ परिभव.. 6 b सिरिहरि श्रीगृहे.

जाइवि धाइइ मंदोयरिइ सइं दिण्ण कण्ण तुच्छोयरिइ ।
 घत्ता—कण्णइ गुणसंदोहे हियवउं सयारि णिहित्तंउं ॥ 10
 मायइ विहसिवि ताम अवरु पडुत्तरु बुत्तउं ॥ १७ ॥

18

सुणि देसि सुरमइ सहलवणि पोयणपुरि धणपरिपुण्णजणि ।
 वाहुवल्लिणराहिवसंतइहि जायउ महु वंधु कुलुण्णइहि ।
 तिणपिंगु तासु पिय सुजसमइ वीणारव णं मणसियहु रइ ।
 तहि तणउ तणउ णं कुसुमसरु तरुणीयणलाइयविरहजरु ।
 महुपिंगु णामुं तुह मेहुणउ सुइ अच्छइ आयउ पाहुणउ । 5
 अण्णेत्तहिं म करहि रमणमइ तुह जोग्गु जुवाणउ सो जि लइ ।
 णियभाइणेज्जु वरु इच्छियउ अण्णेकु असेसु दुगुंछियउ ।
 सासुयइ पइत्तु समारियउ पडिवक्खागमणु णिवारियउं ।
 अण्णेक्के सयरहु साहियउं जं आहरणेहिं पसाहियउं ।
 जं कण्णारयणु समहिलसिउं तं दुल्लहु वट्टइ विहिवसिउं । 10

घत्ता—अतिहीदेविहि वंधु जो तिणपिगलु राणउ ॥
 महुपिंगलु तहु पुत्तु आयउ मयणसमाणउ ॥ १८ ॥

19

देहिंति तासु सुथ जाहि तुहुं ता पडुणा जोइउं मंतिमुहुं ।
 गुरु चवइ एउ किर कित्तंडउं महुं तिहुंयण-सरिसव-जेत्तंडउं ।
 जइ णउ परिणावमि कण्ण पइं तो मंतित्तणु किउं काइं मइं ।
 इय भणिवि कच्चु कइणा विहिउ वरलक्खणु दलसंचइ लिहिउ ।
 तं कासु वि कहिं मि ण दावियउं मंजूसहि तेण छुहावियउं । 5

६ AP गिहत्तउ.

18 १ A णउ तसु पेहणउ. २ A अण्णेहे तहे. ३ A रमणरइ. ४ A सवारियउ; P संवारियउ.

19 १ A कित्तंडउं, P केत्तंडउ. २ A तिहुवणु सरिसउ.

9 b दिण्णकण्ण कर्णो दत्तः, सुलसया सगराणा श्रुताः.

18 4 a तहितणउ तणउ तस्याः सवन्धी तनय. पुत्रः, 5 a मेहुणउ मातुलपुयः;
 b पाहुणउ प्रावूर्णकः. 6 a अण्णेत्तहिं अन्यत्र सगरादौ. 7 a भाइणेज्जु भ्रातृपुत्रः; b अण्णेकु
 अद्वितीयः. 8 a सासुयइ मातुलान्या अतिथिदेव्या, पइत्तु प्रयत्नः b पडिवक्खागमणु प्रतिपक्षस्य
 सगरस्यागमनम्.

19 2 a कित्तंडउं कियन्मात्रम्, b सरिसव जेत्तंडउ सर्पपमात्रम्. 4 b दलसंचइ
 पत्रउपुटे. 5 b छुहावियउं निश्चितम्.

बहुवण्णविचित्तचीरपिहिउं
हलियहि हलि हत्थु जेत्यु णिहिउ
कउं चड्ढियतणकट्टयरहिउ
चावारिय कम्मु करांति जहिं
आयद्धिवि णीय णिहेलणहु
उग्गाडिय पोत्थउं जोइयउं

णिवउववणमहियलि संणिहिउं ।
जहिं छुडु भूभाउ समुल्लियउ ।
जहिं पग्गाहि धवलु परिग्गाहिउं ।
णंगरि मंजूस विलग्ग तहिं ।
दक्खालिय पहुहि सुजोहणहु । 10
अण्णेकं भल्लउं वाइयउं ।

घत्ता—दियवरवेसें दुक्कु कई पच्छण्णु सरायइ ॥

वरइत्तहु सामुहु भासइ कोमलवायइ ॥ १९ ॥

20

काणकुंटपिंगलाहं
णिद्धणाहं णिव्वलाहं
माणलज्जवज्जियाहं
कुट्टणट्टुकाययाहं
णीयकम्मकारयाहं
णिग्घिणाहं णिह्याहं
वहमाणदुज्जासाहं
वुडुकुच्छियंगयाहं
गोत्तवित्तवत्त जा वि

अंधमूयपंगुलाहं ।
बुद्धिहीणवेभलाहं ।
रोयभावणिज्जियाहं ।
छिण्णपाणिपाययाहं ।
इत्थिडिंभमारयाहं । 5
साहुकम्मणिदयाहं ।
दुक्कुलाहं साँलसाहं ।
दीणभावनं गयाहं ।
दिज्जए ण कण्ण सा वि ।

घत्ता—मंडवमज्झि विवाहि पिंगलु जो पँइसारइ ॥

सो विहवत्तणु दुक्खु णियधीयहि वित्थारइ ॥ २० ॥

21

ता सो महुपिंगलु लज्जियउ
एक्किल्लउ ल्हिक्खिवि वंधवहं

गउ चामरउत्तविज्जियउ ।
लग्गउ दहट्टुविहहं जिणतवहं ।

३ A चीर पिहिउ. ४ AP समुल्लिहिउ. ५ A omits this foot. ६ P adds after this : वंसालग्गा रह णिर गहिउ. ७ A लग्गलि, P लग्गलि. ८ A कइकयपच्छण.

20 १ A °विग्गलाह, P °विभलाहं. २ A दुज्जणाहं. ३ A दुग्गुहाह. ४ A कुच्छियारयाहं. ५ A वइसारइ. ६ P omits सो.

21 १ AP एक्किल्लउ.

7 a हलिय हिं कर्षकै., b समुल्लियउ समुल्लिखित. 8 b पग्गाहि प्रग्रहे रस्मौ, धवलु वर्लीवर्दः. 9 b णंगरि लाङ्गले हले. 12 कइ स एव मन्त्री, सरायइ रागपूर्विकया वाचा. 13 सामुहु लक्षणम्.

20 2 b °वे भलाह विह्वलानाम्.

21 2 a ल्हिक्खिवि तिरोभूत्वा.

सेवइ हरिसेणगुरुहि पयइं
एत्तहि सो सयर वि वालियइ
अणुहुंजिवि तहिं णववहुसुरउ
उज्जाउरि जाइवि पाणपिउ
महुपिंगु भडारउ कहिं मि पुरि
जा तावेकें विपेणं कहिउ
रिसिसीलु एण अवलंविउं
अवरेकें ता तहिं भासियउं

णिकखवइ अणंतइं दुक्कियइं ।
वरु लइउ सयंवरमालियइ ।
पुणु आमेलेप्पिणु सासुरउं । 5
सिरि सुलसइ सहं भुंजंतु थिउ ।
पइसइ भिक्खहि चउवणघरि ।
सामुहु असेसु सच्चरहिउ ।
लच्छीमुहु काइं ण चुंविउं ।
पइ लक्खणु किं किर णिरसियउं । 10

धत्ता—सुणि पोयणपुरि राउ होंतउ एहु महीसरु ॥

राउ सुलसावरयालि चारणजुयलउं पुरवरु ॥ २१ ॥

22

पिउसससुय परिणइ जाम किर
पोत्थइ वित्थारिवि दक्खंविउ
सासुयससुरहं मणु हारियउं
अप्पुणु पुणु खलु वरइत्तु थिउ
तं णिसुणिवि हियवइ कुज्जु जइ
पाविट्टु दुट्टु खलु खुदमइ
रिसि रोसु भरंतु भरंतु मुउ
सो सद्विसहसमहिसाहिवइ

ता सयरमंतिकयकवडगिर ।
विवरिवि बहुसइसमग्घविय ।
इहु पिंगदिट्ठि णीसारियउ ।
तेणेयहु दुक्खणिहाँणु किउ ।
जिणदेसिउ तवहलु अत्थि जइ । 5
मइं पुरउ हणेव्वउ सयरु तइ ।
असुरिंदहु वाहणु देउ हुउ ।
किं वण्णमि महिसाणीयवइ ।

धत्ता—जिणवरधम्मु लहेवि खमभावें परिचत्तउ ॥

खाणि सम्मत्तु हणेवि सुरदुग्गइ संपत्तउ ॥ २२ ॥

10

23

पुणु तक्खणि असुरे जाणियउं
जिह मामिहि मामहु हित्त मइ

जिह कव्वु करेप्पिणु आणियउं ।
जिह पिंणो पडिवण्णी विरइ ।

२ A अणुहुंजहि; P अणुभुंजहि. ३ AP पइसरइ. ४ A जा ना विपेणं एकें. ५ A सुणि.

22 १ A दिक्खंविउ. २ A णिहाउ.

१ b आ मेलेप्पिणु त्यक्त्वा, सासुरउं श्वशुरकुलम्. १ b चउवणघरि चतुर्वर्णाना गृहा यत्र पुरे.
12 सुलसावरयालि तुलसाया विवाहकाले.

22 1 a पिउसससुय पितृमगिन्याः पुत्री. 2 b विवरिवि विस्तारोक्तम्. 4 a खलु दुर्जनः.
१ a भरंतु म्मन्. १ b 'अणीयवइ नेनापतिः'.

जिह गहिय तणूयरि मंदगइ
सहुं मंतिहि साकेयाहिवइ
ईय चिंतिवि तंभिरलोयणउ
मुहकुहरविणिग्गयवेयञ्चुणि
सुलसावइजीवियसिरिहरहु
जायउ सहाउ जो दुम्मयहु
उत्तंगसत्तधरणियलघरि
विस्सावसु राणउ विमलजसु

तिह एवहिं धुउ पावमि कुगइ ।
कहिं एवहिं वच्चइ लहु लइ ।
जायउ सो सालंकायणउ । 5
हिंसालउ दूसियपरममुणि ।
तहि तासु महाकालासुरहु ।
आयणहु तहु कैह पव्वयहु ।
एत्थेव खेत्ति सावत्थिपुरि ।
तहु सिरिमइदेविहि पुत्तु वसु । 10

घत्ता—णामें खीरकलंबु दियवर सत्थवियारउ ॥

तासु चट्टु वसु जाउ पव्वउ अवरु वि णारउ ॥ २३ ॥

24

सहुं सीसहिं सो परमायरिउ
अन्भावयासणिट्टवियणिसि
उज्झापं पणविवि पुच्छियउ
तीहिं वि दियवरउत्तहं तणउ
वसु पव्वय णारयधरणियलि
जिणणाणंसुणिच्छउ मणि वहइ
तं णिसुणिवि गुरु उव्विग्गमणु
खेलंतु दिएसं धाडियंउ
कंपंतदेहु सुहदाइणिहि

एक्कहिं दिणि काणणि अवयरिउ ।
उव्विट्टउ दिट्टउ तेत्थुं रिसि ।
भवियंव्वमग्गु सुणियच्छियउ ।
आहासइ मुणि पणट्टपणउ ।
पडिहिति दो वि कयजण्णफलि । 5
णारउ सव्वत्थसिद्धि लहइ ।
आयउ पुरु थिउ भूसिवि भवणु ।
अण्णाहिं दिणि लट्टिइ ताडियउ ।
वसु विसइ सरणु उज्जाइणिहि ।

घत्ता—पत्थिवि रक्खिउ ताप कंत म तासहि वालउ ॥

10

पत्थिवपुत्तु सुसीलु कमलगन्धसोमालउ ॥ २४ ॥

23 १ A अच्छइ लहु जइ. २ P तं चिंतिवि. ३ A कयकव्वयहु. ४ AP उज्जुण°. ५ A सावत्थपुरि, P सावित्थिपुरि.

24 १ A तेण. २ A भवियप्पु मग्गु. ३ A °णाणि विणिच्छउ, P °णाणु विणिच्छउ. ४ A उव्विण्णमणु. ५ AP पीडियउ. ६ A लट्टे ताडियउ.

23 3 a तणूयरि कुगोदरी. 5 a सालकायणउ सालङ्कायणनामा विप्ररूपः. 8 a सहाउ सहाय., b आयणहु आकर्णयत. 12 चट्टु शिष्य.

24 1 a परमायरिउ परमाचार्यः. 2 a अन्भावनासं अन्भावनागे माले. 3 a उज्झापं उपाध्यायेन; b सुणियच्छियउ सुष्ठु निरीक्षित.. 5 a णारयधरणियलि नरकभूमौ. 8 b लट्टिइ यष्ट्या. 10 पत्थिवि प्रार्थना कृत्वा.

25

धराणिहि वयणें वरु ओसरिउ
 महुं उप्परि एंतउ कुद्धमणु
 तं णिसुणिवि इज्जइ भासियउं
 जइयहुं मग्गाहि तइयहुं जि वरु
 व्रैउ लेंतें संतें पीणभुउ
 सहुं सहयरकिंकरहिं रमइ
 पक्खिखउलु णहंगणि पक्खलइ
 णीरुवु ण णहयलु परु धरइ
 इय चित्तिवि तेण विमुक्कु सरु
 आयासकलिहमउ खंभु हउ
 परिमंडुउ हत्थे जाणियउ
 तहु खंभहु उप्परि हरिगीढि

सिसु चवइ माइ पइं गुरु धरिउ ।
 भाणि एव्वहिं दिज्जउ वरु कवणु ।
 महुं पुत्त वित्तु संतोसियउं ।
 तुहु देज्जसु धवलवल्लूढभरु ।
 विस्सावसुणा कमि णिहिउ सुउ । 5
 अवरहिं दियहुल्लइ वाणि भमइ ।
 पहु पेक्खइ तं तहिं पडिल्लवइ ।
 पक्खलणहु कारणु संभरइ ।
 धणुंगुणु आयद्धिवि पिंछधरु ।
 उच्छलिवि वाणु धराणियलि गउ । 10
 उच्चाइवि भवणहु आणियउ ।
 सइं चडियउ कंचणमयइ पीढिं ।

घत्ता—आसणु चलइ ण किं पि जणु जणु नणवइ पयडइ ॥
 धम्मं णियसञ्चेण वसु गयणाउ ण णिवडइ ॥ २५ ॥

26

अण्णेक्कहिं वासरि विविहहलु
 चंदकउ कलाउ ण जलि करइ
 पत्तइं तिच्चाइं मयूरियहं
 इय तेण कज्जु परिहच्छियउं
 कइ णीलकंड सुविचित्तियउ
 सो ण मुणइ ण भणइ पहि चरइ

णारय पव्वय गुरुगिरिगुहिलु ।
 पच्छाउहपायहिं ओसरइ ।
 सरिवारिपवाहाऊरियहं ।
 पुणु मित्तहु वयणु णियच्छियउं ।
 भणु पव्वय मोरिउ केत्तियउ । 5
 विहसेप्पिणु णारउ वजरइ ।

25 १ AP भणु. २ A एमहि. ३ AP वउ. ४ P पडिल्लइ. ५ AP धणुगुणि.
 ६ AP खंभु. ७ A हरिगीढि. P हरिहि गीढि. ८ वीढि.

26 १ A ता एकहि. २ AP गय गिरिगुहिलु. ३ P पच्छामुहं. ४ A सिताइ (तिताइ ?)

25 ३ a इज्जइ उपाध्यायमार्यग. 4 b वल्लूढ भरु अतिशयेन महान्. 5 b कमि संतान-
 क्रमे. 6 b दियहुल्लइ दिवने. 8 b पक्खलणहु स्वलनत्व, सं भरइ स्मरति विचारयति. 9 b आ य-
 द्दिवि आह्वय. 10 a कलिहमउ स्फटिकमय. 11 a परिमंडुउ परामृष्टः स्पृष्ट. 12 a हरिगीढि
 तिहोमलिने सिद्धने. सिद्धानने इत्यर्थः. 14 गयणाउ आकाशात्.

26 1 a विविहहलु नानाफलयुक्तम्; b गुरु गिरिगुहिलु महागिरिगुहिरम्. 2 a चंदकउ
 मयूरः, b पच्छाउहपायहिं पश्चात्तादैः. 3 a तिच्चाइं जलाद्राणि, b सरिवारिं नदीजलस्य. 5 a
 कइ णीलकंड इति मयूरः.

सिहिणीउ. सत्त इह एङ्गु सिहि
बहुवुद्धिगहीरें पीलुरय
पयमग्गें जाणिय हत्थिणिय
पुच्छिवि पव्वउ पुरि पइसरिवि

ओसरिउ सरहु जो पिच्छणिहि ।
पयलंतपेम्मजलसित्तरय ।
अवर वि आरूढणियंविणिय ।
गउ तक्खणि मच्छंरु मणि धरिवि ॥ 10

घत्ता—अक्खइ मायहि गेहि णिरु ताएं संताविउ ॥

हउं ण पढाविउ किं पि णारउ चारु पढाविउ ॥ २६ ॥

27

सो जाणइ अस्मि अंसिद्धां
करिकरिणिहिं पयविंवइं कहइ
सहुं कंतें पयडियगरहणउं
पइं काइं वि पुत्तु ण सिक्खविउ
तं णिसुणिवि भट्टें घोसियउं
मयरंदगंधमीणाहरणु
सुउ तेरउ सुंदरि मंदु जहु
इय पमणिवि पिट्टें मेस कय
ए वच्छ लपप्पिणु तरुगहणि
जहिं को वि ण पेक्खइ धुवु मुणिवि
तं णिसुंणिवि जाइवि विविणपहि
कर मउलिवि जोइणि का वि थुय

वणि मोरिंणियइं अदिद्धां ।
ता वंभणि रोसु चित्ति वहइ ।
विरइउ कोणीहलकलहणउं ।
परडिभु जि सत्थमग्गि थविउ ।
अलिककहं केणुववेसियउं । 5
हंसहं वि खीरजलपिहुकरणु ।
णारउ पुणु ससहावेण पडु ।
सुय भासिय जणणें णवियपय ।
पइसरिवि दूरु पंविमुक्कजणि ।
तहिं आवहु विहि वि कण्णुं लुणिवि ॥ 10
पच्छण्णें थाईवि रुक्खरहि ।
पव्वइण उरब्भहु कण्ण लुय ।

घत्ता—इयरें पइसवि दुग्गें चित्तिउं चंददिवायर ॥

इह णियंति पसु पक्खि किंणर जक्ख णिसायर ॥ २७ ॥

28

जहिं गच्छमिं तहिं तहिं अत्थि पर
किह कण्णं उरब्भहु कत्तरमि

जइ णरु णउ तो पेक्खइ अमरु ।
घरु गंपिणु तायहु वज्जरमि ।

५ AP ओसरइ. ६ AP मणि मच्छरु.

27 १ AP अदिद्धां. २ AP कोलाहल°. २ AP परिमुक्कजणि. ३ AP कण्ण. ४ AP जायवि णिसुणिवि. ५ AP वियणवहि. ६ AP आइवि. ७ A किवायर.

28 १ AP कण्णु.

7 a सि हिणीउ मयूर्यः; b सरहु जलात्. 8 a पीलुरय गजरता, b °पेम्मजल° शुक्रम्, °रय धूलिः.

27 1 a अ सि द्धा इं अकथितानि, b मो रिं णि य इ मयूराणामिद्धितानि चिद्धानि. 3 b कोणी-हलकलहणउं कोपरघातकलहं रात्रौ करोति. 5 b अलिककहं भ्रमरवक्रानाम्. 6 a °मीणाहरणु मत्स्वाहारः; b °पिहुकरणु पृथक्करणम्. 11 a विविणपहि अरण्यमार्गं, b रुक्खरहि एकान्ते रक्ष्ये कुहरे वा. 12 उरब्भहु मेघस्य.

गय वेणिण वे पेसणु अप्पियउ
विप्पेण वुत्तु हलि हंसगइ
जहि गम्मइ तहिं असुण्णु णिलउ
सुरगुरु वि समाणु ण णारयहु
सुय धरिणि वि तासु समप्पियइं
तवचरणु जिणागमि संचरिवि
वहुकाले विहि वि हेउभरिउ
णारउ अर्यं जव तिवरिस चवइ
अय पसु भणंतु सो वारियउ
गउ मच्छरेण थरहरियतणु

घत्ता— तहिं दियवरवेसेण पव्वएण सो दिट्ठउ ॥

असुरसुईउ पढंतु तरुतलि सिलहि णिविट्ठउ ॥ २८ ॥

णारयकिउ चारु वियप्पियउ ।
अवलोयहि तुहु णंदणहु मइ ।
पसुसवणहं किह विरइउ विलउ । 5
लइ एहु वि जोग्गउ गुरुवयहु ।
वसुराएं सहं जंपिवि पियइं ।
दिउ मुउ थिउ दिव्ववोदि धरिवि ।
पारहु विवाउ पवित्थरउ ।
तं पव्वउ वयणु अइक्कमइ । 10
अवरोहिं बुहेहि णीसारियउ ।
संपत्तउ णीलतमालवणु ।

29

मणपणयपसंगुप्पायणउं
बुद्धेण वि पडिअहिवाउ किउ
सुय जायउ जाणिउ किं ण पइं
दोहिं मि सुभउमु गुरु सेवियउ
आयउ किर जोइहुं तासु मुहुं
लइ जणमहाविहिकारियहं
सयराइराय अब्भुद्धरहि
हउं कंचुइ अज्जु परइ मरमि
दियतरुणिं ता तहु इच्छियउं
पुरदेसहं ब्रह्मिउ मारि जरु
गय वेणिण वि तं कोसलणयरु

घत्ता— हुंणिवि तुरंग मयंग दणुणं दाविय मायइ ॥

कुंडलमउंइफुरंत दिट्ठ देव णहभायइ ॥ २९ ॥

तें तासु कयउं अहिचार्येणउं ।
पुणु वुत्तु होउं तुज्जु जि विणउ ।
चिरु खीरकलवें अवरु मइं ।
सत्थत्थु असेसु वि भावियउ ।
ता पवसिउ सो सुउ दिट्ठु तुहुं । 5
सहसाइं सट्ठि पसुवहरियहं ।
मैह महियलि कारावहि कराहि ।
णियविज्जइ पइं जि अलंकरमि ।
तं विज्जादाणु पडिच्छियउं ।
पहु को वि गवेसइ संतियरु । 10
दोहिं वि संवोहिउ णिवुं सयरु ।

२ A गुक्करहु. ३ AP सुउ. ४ AP बहुकालहिं. ५ AP पवित्थरिउ. ६ A अइजव.

29 १ A मणे. २ A त तासु. ३ P अमिवायणउं. ४ A पडिपणिवाउ. ५ AP होइ.
६ A कयवें. ७ A महु. ८ A कंचु अज्जु. ९ P तं विजां. १० AP णिउ सगरु. ११ A हणवि.
१२ A मउलं.

28 5 a असुण्णु णिलउ न जून्य निलयं स्थानम्, b पसुसवणहं मेपकर्णयो.. 6 b गुरु-
ययहु उपाध्यायपदस्य. 8 b दिव्ववोदि देवगरीरम्. 9 a हेउभरिउ हेतुभृतः युक्तिपरिपूर्णः; b विवाउ
विवाद. 14 अनुसुईउ अनुश्रुतीः.

29 1 a मणेत्यादि त्रित्ते स्नेहप्रसङ्गोत्पादकम्; b अहिवायणउं अमिवादनम्. 2 a पडि-
अहिवाउ प्रत्यमिवादनम्. 5 a जोइहुं द्रष्टुम्. 6 a जणमहाविहिकारियहं यज्ञमहाविधिकर्त्रीणाम्.
b पसुवहरियहं पशुवधकृत्वाम्. 7 b महयजम्. 8 a कंचुइ वृद्धः. 12 हुणिवि अमौ हुत्वा.

30

अप्पाणउं तहिं जि' हुणावियउं
सत्तच्चिणिहित्तं चउपयहं
मायारपण जणु मोहियउ
हारावलिरुइरंजियथणिय
गोसवि णियजणणि वि अहिलसिय
विप्पहं वंभणिवरंगु विहिउं
वहु वंचिय धुत्तेणेव जड
घरु जाइवि तणु घल्लिवि सयणि
हा सुलसि काइं मइं तुज्जु किउ
तां तहिं जि पराइउ पवरजइ
किं धम्मु भडारा पसुवहणु

देवत्तु णहंगणि दावियउं ।
णिट्टियइं सट्टिसहसइं मयहं ।
संतीइ सुहेण पयासियउं ।
सुलसा वि तेण हुयवहि हुणिय ।
सउयामणिमहि मइर वि रसिय । 5
महुणा लित्तउं जीहइ लिहिउं ।
अवलोयवि होमिज्जंतं भड ।
पहु सोयइ हा हा मिगणयणि ।
किह जीवियव्वुं णिडुहिवि णिउ ।
पुच्छइ पणामु विरइवि णिवइ । 10
किं सव्वजीवदयसंगहणु ।

घत्ता—तं णिसुणिवि करुणेण तेण मुणिदं वुत्तउं ॥

होइ अहिंसइ धम्मु हिसइ पाउ णिरुत्तउं ॥ ३० ॥

31

पहु जंपइ पच्चउ दक्खवहि
रिसि भासइ णहयलरंगणडि
णिवडेसहि णरइ मं भंति करि
तं रापं रइयणरावयहु
तेण वि वोल्लिउ मलपोट्टलउ
असुरिदं दरिसिय देवि णहि

अप्पाणउ कि मुहिइ खवहि ।
तुह सत्तमि दिणि णिवडिहइ तडि ।
किं सग्गुं जंति पसुं खंत हरि ।
आवेप्पिणु अक्खिउ पावयहु ।
किं जाणइ सवणउं विट्टलउं । 5
विउणारउ लग्गउ पुणु वि म्महि ।

30 १ P तहिं तो. २ P णिहित्तं. ३ P सोयामणि°. ४ A होमिज्जति. ५ A जीवियत्तु.
६ P तो.

31 १ A पइ जपइ सच्चउ. २ A ण. ३ AP सग्गि. ४ A पसु खंति. ५ AP पव्वयहु;
but T पावयहु. ६ A महि, P महो.

30 1 a अप्पाणउ सालङ्कायनेन स्वजीवोऽग्नौ क्षेपितः. 2 a सत्तच्चि° अग्निः, चउपयहं
चतुष्पदानाम्. 5 a गो स वि गोवधयज्ञे, b सउया मणिमहि सौत्रामणीयज्ञे, मइर मदिरा. 6 b °वरगु
योनिः. 12 करुणेण कारुण्येन.

31 1 a पच्चउ प्रत्यक्षम्, b मुहिइ मुधैव. 2 a °णडि नदी, b तडि विद्युत्. 3 b पसु
खंत हरि मृगादीन् खादन्तं सिहा. 4 a रइयणरावयहु रचिता नगणामापदो येन; b पावयहु
पर्वतस्य. 6 a देवि सुलसा, b विउणारउ द्विगुण.

सो असणिणिहाँएं घाइयउ
भणु पावें को व ण मारियउ
जं पिंगलु हउं पइं दूसियउ
जं वरलक्खणु महं कयउ छलु

वालुयपहमहि संप्राइयउ ।
रिउणा जाइवि पच्चारियउ ।
जं णियकरु कण्णइ भूसियउ ।
भुंजहि एवहिं तहु तणउं फलु । 10

घत्ता—पुणु असुरें णहमग्गि मायारूवें हरिसियइं ॥

सा सुलस वि सो सयरु विण्णि वि मंतिहिं दरिसियइं ॥ ३१ ॥

32

ता खद्धकंदेण	सह तवसिचिंदेण ।	
गउ णारओ सेउ	तं णयरु साकेउ ।	
तेणुत्तु दियसीह	पव्वय दुरासीह ।	
वणयरइं मारंतु	अट्टियइं चूरंतु ।	
चम्माइं छिदंतु	वम्माइं भिंदंतु ।	5
इसिदिट्ठु सुपसत्थु	जइ वेउ परमत्थु ।	
तइ खग्गु किं णेय	जज्जाहि कुविवेय ।	
जइ पोरिसेओ वि	णउ होइ भणु तो वि ।	
वण्णज्जुणी गयाणि	किं फुरइ णरवयणि ।	
अक्खरइं कहि विंदु	कहिं अत्थु कहिं छंडु ।	10
कयमणपयत्तेण	विणु पुरिसवत्तेण ।	
कहिं हेउं कहिं वेउ	कहिं णाणु कहिं णेउ ।	
कहिं गयाणि अरविट्ठु	णीरूवि कहिं सहु ।	
वेयम्मि कहिं हिंस	दिय गिलियपरमंस ।	
हिंसाइ कहिं धम्मु	जउ मुयहि तुहं छम्मु ।	15
कत्तार दायार	जण्णस्स णेयार ।	
जहिं होंति होयार	सुरणारिभत्तार ।	
तो सूणगारा वि	मीणावहारा वि ।	
पसुंखद्धवद्धा वि ।		
अमरा ण किं होंति	जइ जण्णि णिवडंति ^६ ।	20

७ P °णिवाए. ८ AP संपाइयउ ९ P जीयवि.

32 १ A तवसिचिंदेण. २ AP देउ. ३ A अविचार, PT अविचार. ४ AP omit this foot. ५ AP add after this. किं दुग्गइं जंति. ६ A गिवडंत.

7 a अस णि णि हाएं अशनिघातेन. 8 b रि उणा कालासुरेण. 10 a छलु चञ्चना.

32 2 a नेउ श्रेनं आवासं. कृत्वा (सौधैः). 3 a तेणुत्तु नारदेन उक्तः; b दुरासीह दुग्गशा चेष्टा. 8 a पोरिनेओ पीदपेय. 11 a कयमणपयत्तेण इत्तमनःप्रवर्तनेन; b °वत्तेण वक्त्रेण.

पसु सग्गु गच्छंति ।

दीसंति सकयत्थ तो अप्पयं तत्थ ।

होमेवि^१ मंतेहि सहं पुत्तकंतेहिं ।

गम्मिज्जए सग्गु भुंजिज्जए भोग्गु ।

घत्ता—जलमद्वियचम्मेण दब्भे सुद्धि कहेप्पिणु ॥

25

भट्टे खद्धउ मासु खगमिगकुलइं वहेप्पिणु ॥ ३२ ॥

33

जइ सच्चउ विष्प पवित्तु जलु

जइ गंगाण्हाणु जि^२ दुरियहरु

जइ मद्वियमंडणि तमु गलइ

जइ हरिणाइणु धम्मज्जलउं

किं वंभणु उत्तमु तुहुं कहहि

जइ दब्भे पुण्णु पवित्थरइ

तं रत्तिदियहु दब्भे जि चरइ

गोफंसणपिप्पलफंसणइं

जइ पाउ हणंति हुंत पउर

किं बहुवे पुणु वि मंति भणइ

णिग्गंथु णियत्थु वि परिभमउ

सो पावइ तं सिद्धत्तुं किह

तो किं तं जायउं मुत्तु मलु ।

तो झस वि लहंति वि मोक्खु परु ।

तो कोलु विमाणे संचरइ ।

तो हरिणउलु जि जगि अग्गलउं ।

तं मारिवि मासगासु महहि । 5

तो किं मयउलु भवि संसरइ ।

किह इंदविमाणि ण पडसरइ ।

सुत्तुद्वियाहं घयदंसणइं ।

तो वसहकायराया वि सुर ।

जो परु अप्पाणउं समु गणइ । 10

छुहु मोहु लोहु मच्छरु समउ ।

रसविद्धु धाउ हेमत्तु जिह ।

घत्ता—हिसारंभु वि धम्मु वयणु असच्चु वि सुंदरु ॥

जैणु धुत्तहिं दढमूहु किज्जइ कालउं पंडुरु ॥ ३३ ॥

34

जवहोमे संतियम्मु कहिउ

अय जव जि पयरिय हुंति णउ

जं तं पइ छेलएहिं गैहिउ ।

पइं लंघिउं तायहु घयणु कउ ।

७ A गच्छत. ८ A होमेहिं.

33 १ AP मुत्तमलु. २ A वि. ३ A सोक्खु. ४ P मरिवि. ५ AP दब्भु. ६ A किं.
७ AP अप्पाणे. ८ AP लोहु मोहु. ९ A सिद्धत्तु. १० AP जगु.

34 १ P कहिउ.

21 b तत्थ यजे. 22 a हो मे वि हुत्वा. 25 मा सु मासम्, वहे प्पिणु हत्वा.

33 2 a दुरियहरु पापविनाशकम्. 3 a मद्वियमंडणि मृत्तिकया शरीरलेपने; b कोलु सूकरः. 4 a हरिणा इणु हरिणचर्म; b अग्गलउ श्रेष्ठम्. 9 b वसहेत्यादि वृषभाणा गोशरीरस्पर्शात् काकानां पिप्पलस्पर्शात्. 11 a णियत्थु निर्वत्नः परिधानरहितः. 12 a सिद्धत्तु सिद्धत्वम्; b हेमत्तु सुवर्णत्वम्.

34 1 b छेलएहिं लागेयु. 2 a पयरिय उता..

गिरि घोसइ गुरुणा पिसुणियउं
 ता णारउ पव्वउ रुद्धय
 पव्वयजणणिइ अब्भत्थियउ
 जइ सुंअरहि भासिउं अप्पणउं
 तं अम्महि भासिउं परिगणितं
 जं चविउ असच्चु सुदुच्चरिउ
 महिकंपे ठाणहु विहडियउं
 णहंफलिहखंभचुउ चूरियउ

तें तेइयहुं वसुणा णिसुणियउं ।
 तावस सावित्थिहि झत्ति गय ।
 वरकालु एहु पहु पत्थियउ । 5
 तो थवहि वयणु भाइहि तणउं ।
 अय जव ण होंति तेण वि भणितं ।
 तं सधरु धरायलु थरहरिउ ।
 आयासहु आसणु णिवडियउं ।
 वसु चुण्णु चुण्णु मुसुमूरियउ । 10

घत्ता—णियमित्तहो मरणेण पव्वउ थिउ विच्छायउ ॥

पडियउ णरयणिवासि वसु असच्चु संजायउ ॥ ३४ ॥

35

पुणु दणुपं मायाभाउ किउ
 ता सयरमंति आणंदियउ
 पुणु तेण वि रायसुउ रइउ
 णिवमासहोमु विद्धंसियउ
 णारयहियउल्लउ तोसियउं
 मा णासहि पव्वय कहिं मि तुहुं
 जिणविंविइं चउदिसु थवहि तिह
 ता ते सिद्धउं तेहउं करिवि
 महिसिंदे लोयहु भासियउं
 देहिहि दुक्खावहु धम्मु कहिं
 तंवचरणे जालिवि मयणपुरि
 अज्ज वि अच्छइ जिणगुण महइ

वसु दाविउ सग्गविमाणि थिउ ।
 मूढेहिं जण्णु किं णिंदियउ ।
 दिणयरदेवे खयरं लइउं ।
 महकालवियंभिउ णासियउ । 5
 अमरारं पुणरवि घोसियउं ।
 मंतीसर माणहि अमरसुहुं ।
 खेयरविज्जाउ ण पंति जिह ।
 गय णरयविवरि विण्णि वि मरिवि ।
 अप्पाणउं वइरु मइ साहियउं ।
 पलु खज्जइ पिज्जइ मज्जु जहिं । 10
 णारउ अहमिंद विमाणवरि ।
 अइसयमइ दसरहासु कहइ ।

२ A त. ३ A रुद्धय. ४ A भासिउप्पणउ. ५ A महिकंपह. ६ A विवडियउ. ७ A फलिहमउ
 वसु वुउ चूरियउ.

35 * P °विवाणि. २ AP जि. ३ A लविउ. ४ A णरयघोरि. ५ AP तवजलणे.
 ६ A विमाणु वरि, P विवाणुवरि. ७ AP इय सयमइ.

३ a गिरि पर्वत., पिसुणियउं कथितम्. 4 a रुद्धय रुद्राञ्जचिह्वास्तापसाः. 5 a अब्भत्थियउ
 संसुत प्रात. 6 a सुंअरहि स्मग्नि, b भाइहि पर्वतस्य. 10 b मुसुमूरियउ चूर्ण. सजात..

35 3 b लइउं भक्तं स्वीकृत. 4 a णिवमासहोमु नृपमांसहोम., b महकालवियंभिउ
 महिपाणुविभूतिभनम्. 5 b अमरारं दैत्येन महिपाणुणेण. 9 a महिसिंदे दैत्येन महिपेन्द्रेण.
 10 a देहि ति जीवत्य. 11 b विमाणवरि विशिष्टे विमाने.

घत्ता—भरहकुमारजणेर हो हो जण्णु किं किज्जइ ॥
जगमहंतु अरहंतु पुप्फदंतु पणाविज्जइ ॥ ३५ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिय
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे रामंलक्खणभरहसत्तुहणुप्पत्ती
णाम जांगणिवारणं णाम एकूणहत्तरिमो
परिच्छेओ समत्तो ॥ ६९ ॥

८ AP ण. ९ A रामभरहलक्खण^०. १० A जण्णिवारणं. ११ A एकवत्तिमो, P णवत्तिमो.

13 भरहकुमारजणेर भरतकुमारपितः हे दशरथ.

आयणिणवि मंतिसुहासियंइं मिच्छादंसणु णिट्ठिउं ॥
दसरहहियउल्लउं मेरुथिरु जिणवरधम्मि परिट्ठिउं^३ ॥ ध्रुवकं ॥

1

अवरेहिं मि अरुहि णिहित्तु चित्तु
चमुवइणा मारियपरवलेण
तंवारवारु सो जणुणु जाउ
झसमुसल गयासणिधणुहरेहिं
विण्णाणणाणणयविहयमोहु
भणु भणु तणयहं महिरयणरिद्धि
ता बुत्तु णिमित्तवियक्खणेण
तहि तहि गोमिणि संमुहिय थाइ
ए अट्टम मंइं णिसुणुणुं पुराणि
जगतावणु रावणु रणि हणेवि
वलएव जणहण सुय ण भंति

संथुउ समंति कल्लाणमित्तु ।
एत्थंतरि उत्तु महावलेण ।
णिव जोयहि णिर्यणंदणपयाउ । 5
जिप्पंति ण जिप्पंति व परेहिं ।
ता राएं आउच्छिउ पुरोहु ।
तं गमणे होइ ण होइ सिद्धि ।
जहिं जाइ रामु सहुं लक्खणेण ।
दामोयरु मुइवि ण पउ वि जाइ । 10
संठिय सलायपुरिसाहिठाणि ।
महि भुंजिंहिति खगं जिणेवि ।
दससंदणु पुच्छइ विहियसंति ।

यत्ता—महुं कहहि पुरोह लद्धविजउ भुवणत्तयविकखायउ ॥
दंहगीउ दसासापत्तजसु केण सुं पुण्णे जायउ ॥ १ ॥

2

जसु आसंकइ जसु वरुणु पवणु
ता कहइ विण्णु महुइ गिराइ
आरामगामसंदोहसोहि
रंभंतगोउलावासरम्मि
गोवालवालकीलाणिवासि

तहु एयहु भणु सियचिंधु कवणु ।
सुणि धादइसंडहु पुव्विल्लभाइ ।
खरदंडसंडमंडियसरोहि ।
जवणालसालिजवळेत्तसोम्मि ।
तहि सारसमुच्चइ णाम देसि । 5

1 १ A °सुहासियउ. २ AP णिट्ठियउं. ३ AP परिट्ठियउं. ४ P णिवणंदण°. ५ A °णय विहियमोहु, P °णयगिहियमोहु. ६ AP णिसुणुणुं मंइं. ७ P भुंजिंहंति. ८ A omits लद्धविजउ. ९ A दहगीव P दसगीउ. १० P सपुण्णे.

2 १ P कमणु. २ AP °कील्लाणिवासि.

1 1 °सुहासियइ सुभाषितानि सुवचनानि. 5 a तंवारवारु नरकद्वार अयम्; b °पयाउ °प्रदान.. 7 a °विहयमोहु °विदनाज्ञान.. 10 गोमिणि लक्ष्मी .

2 1 b सियचिंधु श्रियो निमित्तं चिह्नं वा. 3 b खरदंड° कमलानि, °सरोहि तडागसमूहे. 4 a रंभन्तं इत्यं कुर्वन्त..

णायउरि अत्थि णरदेउ राउ
संतइहि थवेप्पिणु भोयदेउ
विज्जाहरु पेच्छिवि चवलवेउ
वद्धउ णियाणु महु जम्मि होउ
सुररमणीरमणविलासमग्गि
इह भरह्वरिसि वेयडुसोले
दाहिणसेढिहि हयवइरिजीउ

वंदिवि अणंत गुरु वीयराउ ।
जइ जायउ मेल्लिवि वंधहेउ ।
णहयलि आवंतु विचित्तकेउ ।
एहउ मणहरु खेयैरविहोउ ।
मुउ उप्पणउ सोहम्मसग्गि । 10
गयणग्गलग्गमणिमोहमेलि ।
पुरि मेहसिहरि पहु सहसगीउ ।

घत्ता—उव्वेयउ केण वि कारणिण अंतरंगि णिरुं जायउ ॥

कलहणउं करिवि सहुं वंधवहिं सो तिकूडगिरि आयउ ॥ २ ॥

3

लग्गइ अकंडि दुव्वयणकंडु
किं किज्जइ पिसुणाणिवासि वासु
तहिं गम्मइ जहिं तरुवरहलाइं
तहिं गम्मइ जहिं गुणणिरसियाइं
इय च्चित्तिवि धत्तिवि दुट्टसंक
उप्परिथियगिरिहत्थिहि विहाइ
णं सण्णइ एहिं जि पुणु वि एम
सिहरें णं भिंदिवि विउलमेह
जोयइ पुत्तलियाणयणएहिं
परिवित्थारिवि किन्तीमुहाइं

मउलाविज्जइ सुहि तेण तुंडु ।
तहिं गम्मइ जहिं कंदरणिवासु ।
तहिं गम्मइ जहिं णिज्जरजलाइं ।
सुव्वंति ण खलयणभासियाइं ।
काराविय राएं णयरि लंक । 5
चल्लियधयहत्थिहि णडइ णाइं ।
कि सग्गं मइं जोयंतुं देव ।
ससि पावइ किं घरतेयरेह ।
णं हसइ फुरंतहिं रयणएहिं ।
दावइ पारावर्यरवसुहाइं । 10

घत्ता—जहिं चंदसाल चंदंसुहय चंदकंतिजलु मेल्लइ ॥

कामिणिपर्यपहउ असोयतरु उववाणि वियत्तइ फुल्लइ ॥ ३ ॥

३ A खेयरहु होउ. ४ A °वरिस° ५ A °मज्जह°. ६ AP णिउ.

3 १ AP °वरफलाइ. २ AP सुम्मति. ३ A पावियदुट्टसक. ४ A °हत्थिय विहाइ. ५ A जोयंति. ६ AP सिहरेहिं वि. ७ AP णीलमेह. ८ A °रइसुहाइ. ९ A °रयसुहाइं. ९ A °पयहयउ.

6 a णायउरि नागपुरनगरे. 7 b वंधहेउ पापवन्धकारणम् 9 a जम्मि आगामिभवे, b °वि होउ विभोग ऐश्वर्यम्. 11 b °मो ह मे लि किरणसंघाते. 13 उव्वेयउ उद्विग्ग. कलुपित्. 1-1 सो सहस्रीवः.

3 1 a अकंडि अप्रस्तावे; °कंडु वाण, b सुहि सुहदः. 4 a गुणणिरसियाइ गुण-च्छेदकानि. 7 a सण्णइ संज्ञया. 8 b घरतेयरे ह गृहतेजस' गोभाम्. 10 किन्तीमुहाइं कीर्तिमुत्तानि शिखराण्येव. 11 चंदसाल गिरोग्रहमाच्छादितोपरितनभूमिः; चंदंसुहय चन्द्रकिरणैर्हता. 12 °पयपहउ पादप्रहतः-

4

सा पुरि परिपालिय तेण ताव
सयगीउ खगाहिउ पंचवीस
णिहलिवि वइरि भूमंगभीस
दसपंचसहासइं वच्छराहं
सुंदरि तहु पणइणि मेहलच्छि
अंकग्गि चडिउ चंडंसुमालि
आहासिउ दइयहु फलपयासि
संभूयउ सयणहं सुहु जणंतु
णिवरूवें आणंदु व पयाहं

गय वरिसहं वीससहास जाव ।
थिउ विहवंतु णाणामहीस ।
पण्णासगीउ मुउ जिइवि वीस ।
संठिउ पुलत्थि राइयधराहं ।
सां पेच्छइ घरि पइसंति लच्छि । 5
सिंविणंतरंति पैरिगलियकालि ।
णरदेव देव थिउ गम्भवासि ।
णं वहरूविणिवसियरणमंतु ।
आवासु व णहयरसंपयाहं ।

यत्ता—कुलधवलु धुरंधरु दहवयणु जायउ मायहि जइयहुं ॥ 10
मंदरगिरिदुग्गु पुरंदरिण महं भावइं किउ तइयहं ॥ ४ ॥

5

णवतरणि व सुरकुमुयायराहं
कढिणंकुसु णं दिग्गयवराहं
णं मत्तभमरु णंदणवणाहं
पवहंतमहासरिजलगलत्थु
वण्णेण गरलभसलउलकालु
जायउ जुवाणु जमजोहजूरु
णं विसर्मविसंकुरु विसविसित्तु
तज्जियदासि व भउ धरइ चरइ
जसु सत्तसत्तसहसाइं आउ

पडिमल्लु व गज्जियसायराहं ।
मणमत्थइ सूलु व अरिवराहं ।
णं कामवासु तरुणीयणाहं ।
महिमहिहरसंचालणसमत्थु ।
आयंवणयणु पडिवक्खकालु । 5
दुइंसणु णं मज्झणसूरु ।
णं पलयकालु हुयवहु पलित्तु ।
जसु असिर्धारइ धर मरइ तरइ ।
वरिसहं जो सुव्वइ वज्जकाउ ।

4 १ AP तीससहास. २ AP ओहामियरूवें जाइ लच्छि (A जायलच्छि). ३ P पडि-
गलिय°. ४ AP णरदेउ देउ. ५ A भावहि.

5 १ A कुमुयावराहं. २ AP मणि मत्थय. ३ AP कामवाणु. ४ A णं सविसु विसंकुरु
विसपलित्तु; P I ण समविसमंकुरु, K records a p; समविसमंकुरु. ५ P करइ डरइ. ६ P °धारहि.

4 4 b राइयध ग हं राजिता धरा येषु वर्षेषु. 6 a चंडंसुमालि सूर्यः, b परिगलियकालि
गलित्ताच्यवसरे, प्रभाने इत्यर्थः.

5 1 a °तरणि सूर्य. 2 b मणमत्थइ वित्ते मस्तके च. 3 b कामवासु कामपागः.
6 a जमजोहजूरु यमभयानां चूरकः. 7 a विसमविसंकुरु विसपलित्तु विपमविपस्याङ्कुरो विपेण
विपिनश्च, समविसमंकुरु इति पाठे सह मया लक्ष्म्या वर्तन्ते इति समा राजान. तेषां विपयाङ्कुरः, विगत.
समः उपगमः क्रोष. तस्याङ्कुरे वा. 8 a मउ धरइ भयं धरति, b वर भूः पृथ्वी.

घत्ता—जसु भइँपं रवि णं अत्यवइ चंदु व चंदगहिल्लउ ॥ 10
फणि पुरिसरूवु परिहरिवि हुउ दीहदेहु कीडुल्लउ ॥ ५ ॥

6

खयरेण कण्ण इच्छियजएण	मंदोर्यरि तहु दिण्णी मएण ।	
आरुहिवि चारु पुप्फयविमाणु	सहुं कंतइ णहयलि विहरमाणु ।	
रययायलि अलयावइहि धीय	विज्जासाहणि संजमविणीयं ।	
जोइवि मणिवइ झाँणाणुलग्ग	मइ रायहु मयणवसेण भग्ग ।	
पारहु विग्घु परिगलियतुट्ठि	उववाससोसकिसकायँलट्ठि ।	5
वारहसंवच्छरपीडियंगि	कुन्दी कुमारि णं खँयभुयंगि ।	
णासिउ वीयक्खरलीणु झाणु	इहु खगवइ चिंधे जाउहाणु ।	
महु वण्णु होउ मइं रणिण हरउँ	आयामि जम्मि महुं कज्जि मरउँ ।	
णिक्किउ विरत्तु विवरीयचित्तु	जाणिवि रोसंगिउं रत्तणेत्तु ।	
गउ दहसुहु खेयरि मरिवि कालि	थिय मंदोर्यरिगम्भंतरालि ।	10

घत्ता—उप्पण्णी धीय सलक्खणिय कंपावियकेलासहु ॥
णं लंकाणयरिहि जलणसिह णाइं भवित्ति दसासहु ॥ ६ ॥

7

दिणि पडिउ जलिउ उक्काणिहाउ	अप्पंपरि जायउ णरणिहाउ ।	
महि कंपइ जंपइ को वि साहु	किह चुक्कइ एवहिं पुहइणाहु ।	
एयइ धीयइ संभूइयाइ	खज्जेसइ णाइं विसूइयाइ ।	
खयकाले ढोइय मरणजुत्ति	वणि णिज्जाणि धिप्पइ कहिं वि पुत्ति	
सुइसुहहराउ विहुणियसिराउ	आयण्णिवि णोमित्तियगिराउ ।	5

७ AP जसु रवि ण भइयए अत्यमइ.

6 १ मंदोवरि. २ A °विलीय. ३ A महिवइ. ४ P झाणेणुल्लग्ग. ५ A °कायजट्ठि.
६ P खए भुयंगि. ७ A हरइ. ८ A मरइ. ९ P रोसें इंगिउ रत्तु णेत्तु.

7 १ A ताइ वि, P तासु वि. २ A °सुहयराउ.

10 अत्यवइ अस्तं याति.

6 1 b मएण मयनाम्ना असुरेण. 3 a अलयावइहि धीय अलकापुरीनरेन्द्रत्य पुत्री.
4 b मइ मतिश्चित्तम्. 6 b खयभुयंगि कालसर्पिणी. 7 a वीयक्खरलीणु वीजाक्षरलीनम्, b जाउ-
हाणु राक्षस. 9 a णिक्किउ निष्कृप.. 10 a खेयरि मणिवती खेचरी. 12 भवित्ति मरणहेतुः.

7 1 a उक्काणिहाउ उल्कासमूहः; b अप्पंपरि स्वयमेव, णरणिहाउ नरशब्दो हाहाकारः.
3 b विसूइयाइ विषूचिक्रया वमनेन. 5 a सुइसुहहराउ कर्णसुखहराः.

खगभूगोयरसिरिमाणणेण
किं गरलवारिभरियइ सरीइ
बंधवयणहिययवियारणीइ
णवकमलकोसकोमलयराउ
णिम्माणुसि काणणि धिवहि तेम

मारियउ पवुत्तु दसाणणेण ।
किं सविसकुसुममयमंजरीइ ।
किं जायइ धीयइ वइरिणीइ ।
उहालिवि मंदोयरिकराउ ।
पाविट्ट दुट्टु णउ जियइ जेम ।

10

घत्ता—तं णिसुणिवि तें मारीयएण भणिय देवि वररूवउं ॥

तुह गव्भि भडारी थीरयणु गोत्तखयंकरु हूयउं ॥ ७ ॥

8

मुई मुइ दहमुहखयकालदूय
वाहापवाहओहलियणयण
मारीयय णवतरुफलरसहि
घल्लिज्जसु कत्थइ पुत्ति तेत्थु
अह एयइ काइं जियंतियाइ
गिरिदारणीइ कि गिरिणईइ
आलिहिउं पत्तु मँच्छरकराल
वहुदुक्खजोणि बंधुहुं असीय
इय भासिवि मंजूसहि णिहित्त
दहगीवजीवरक्खणकएण
चंपयचँवचंदणचूयगुज्झि

तें होंतें होसइ अवर धूय ।
ता तरुणि चवइ ओहुल्लवयण ।
कीलंतपक्खिरमणीयसहि ।
रविकिरणु ण लग्गइ देहिजेत्थु ।

5

कूरइ णियतायकयंतियाइ ।
हो हो किं एयइ दुम्मईइ ।
रावणदेहुब्भव एह वाल ।
सुविसुद्धवंस णामेण सीय ।
सहुं रयणहिं वरराईवणेत्त ।
णिय णिविसँ णहि मारीयएण । 10
वाहि मिहिलाणयरुज्जाणमज्झि ।

घत्ता—मंजूसइ सहुं छणयंदमुहि सरिसरणिज्झरसीयलि ॥

णं रहुवइसिरिलयकंदसिरि णिकखय सुय धरणयिलि ॥ ८ ॥

9

गउ विज्जापुरिसु णहंतरेण
आरामुहलित्तधुरंधरेण

तिक्खें महि दारिय लंगलेण ।
मंजूस दिट्ट पामरणेण ।

३ A मारीयउ वुत्तु. ४ A गरुडवारि°. ५ A णिसुणंतें मारीयएण. ६ P भडारिए धीरयणु.

8 १ A मुय मुय. २ A वाहप्पवाह°. ३ A घल्लिज्जह. ४ P अच्छर°. ५ P रावण°. ६ A णिविसँ. ७ AP धवचंदण°.

7 a सरी इ नया. 9 a ° कोमलयगउ कोमलतरात् हस्तात्. 11 वररूवउ विशिष्टरूपं स्त्रीरत्नम्.

8 1 a मुइ मुइ; b तें होंतें राज्ञा जीवता. 2 a वाहापवाह° वाप्पप्रवाहः; °ओहलियं कथिते, b ओहुल्लवयण म्लानमुखी. 5 b °कयंतियाइ यमरूपया. 8 a असीय सतापकारिणी अलक्ष्मीर्वा. 10 b णिविसँ तिनिपेण.

9 1 a विज्जापुरिसु मन्त्री. 2 a आरामुहलित्त° हलारामुखाकृष्टा; b पामरणेण कर्षकेण.

वणवालहु अप्पिय तेण णीयं
वाइवि वइयरु बुज्जिय विणीय
वड्डइ परमेसरि दिव्वदेह
णं ललिय महाकइपयपउत्ति
णं गुणसमग्ग सोहग्गथत्ति
लायणवत्त णं जलहिवेल
थिर सूहव णं सँप्पुरिसक्कित्ति

रायाँलउ रापं दिट्ठ सीय ।
णियपियहि दिण्ण पडिवण्ण धीय ।
णं वीयाँयंदहु तणिय रेह । 5
णं मयणभावविण्णाणजुत्ति ।
णं णारिरूवविरयणसम्मत्ति ।
सुरहियं णं चंपयकुसुममाल ।
वहुलक्खण णं वायरणवित्ति ।

घत्ता—जसवेल्लि व अट्टमराहवहु अमरदिण्णकुसुमंजलि ॥ 10
पुरि वड्डिय जणयणरिंदसुय रारमणरामहं णाईं कलि ॥ ९ ॥

10

पयकमलहं रत्तत्तणु जि होइ
गुंफहं पुणुं गूढत्तणु जि चारु
जंघाबलेण जायउ अजेउ
णालोइउ जाणुहुं संधिठाणु
ऊरूयलच्चितइ हयसरीर
कडियलु गरुयत्तणुगुणणिहाणु
गंभीरिम णाहिहि णवर होउ
पत्तलउं उयरु सिंगारु करइ
सकयत्थउ मुद्धिहि मज्झु खीणु
वलियाहिं तीहिं सोहइ कुमारि

इयरह कह रंगु वहंति जोइ ।
इयरह कह मारइ तिजगु मारु ।
इयरह कह वग्गइ कामएउ ।
इयरह कह संधइ कुसुमवाणु ।
इयरह कह जालंधरियसार । 5
इयरह कह गरुयहं महइ माणु ।
इयरह कह णिवडिउ तहिं जि लोउ ।
इयरह कह मुणिपत्तत्तु हरइ ।
इयरह कह दंसणि विरहि रीणु ।
इयरह कह तिहुयणहिययहारि । 10

घत्ता—रोमावलिमग्गु मणोहरउ कण्णहि केरउ संघइ ॥

इयरह कह सिहिणसिहरिसिहरु मयरकेउ आसंघइ ॥ १० ॥

9 १ A सीय. २ AP रायालइ. ३ AP वीयाइदहु. ४ A °समग्गि. ५ A लायणवण्ण.
६ P सुरहिय णवचंपय°. ७ P सुप्पुरिस°. ८ A णं रामह रावण कलि, P रावणरामहं णाईं कलि.

10 १ A गुप्फहं; P गुप्फह. २ A omits पुणु. ३ A जणुहि, P जं तुहु. ४ AP गरुयत्तणु.
५ A मुद्धहि. ६ AP कह विरहें विरहि.

4 a वा इ वि व य र वाचितो व्यतिकर पत्रम्; b णि य पि य हि वसुधायाः; प डि व ण्ण धी य पुत्रिकात्वेन प्रतिपन्ना. 5 b °वी या य द हु द्वितीयाचन्द्रस्य. 6 a °प य प उ त्ति पदप्रयुक्तिः. 7 b ° वि र य ण स म त्ति विरचना निर्माण तस्याः समाप्तिः परमोत्कर्षः. 10 अ ट्ट म रा ह व हु अष्टमचलभद्रस्य.

10 1 b इ य र ह इतरथा अन्यया योगी कथमेतस्या दर्शने राग वहति. 5 b जालंधरी य सार जालंधरी कदली असार. 8 b °प त्त त्तु पात्रता. 11 सं घ इ श्लाघते. 12 सि हि ण सि हरि सि ह र स्तन-गिरिशिखरम्, आ सं घ इ आश्रयति.

11

देविहि थण रइरसपुण्णकुंभ
 भुय मयणपाससंकास गणमि
 कंधरु वंधुरु रेहाहिं सहइ
 तंवउ विवाहरु हरइ चक्खु
 दियदित्तिइ जित्तइं घत्तियाइं
 मुहससिजोण्हइ दिस धवल थाइ
 लोयणहिं वि दीहत्तणु जि जुत्तु
 भालयलु वि अद्धिदु व वरिदु
 कौतलकलाउ कुडिल्लत्तु वहइ

इयरह पुणुं कामतिसाणिसुंभ ।
 इयरह कह मणवंधणु जि भणमि ।
 इयरह कह कंबु रसंतु कहइ ।
 इयरह कह तग्गहणेण सोक्खु ।
 इयरह कह विद्धइं मोत्तियाइं । 5
 इयरह कह ससि झिजंतु जाइ ।
 इयरह कह पत्तइं जणमणंतु ।
 इयरह कह तहु मयणांस दिदु ।
 इयरह कह माणववंदु वहइ ।

घत्ता—जहिं दीसइ तहिं जि सुहावणिय सीय काइं वण्णिज्जइ ॥ 10
 रक्खेवि जण्णु जणयहु तणउ रामे धुवु पंरिणिज्जइ ॥ ११ ॥

12

ता कुलजयलच्छिसुहावहेण
 वलणाहें समउं महावलेण
 गरुं ससुरणयरु सुर सणर तसिय
 भड रहं करि तुरियं तुरंग चलिय
 घरु आर्यहं मामे कुसलु कयउ
 गय कइवय दियह मणोरेहेहिं
 चलपंचवण्णधयधुव्वमाणु
 दिज्जइ दीणहं आहारदाणु
 खज्जइ मासु वि किज्जइ विहाणु

पेसिय णियतणुरुह दसरहेण ।
 परिवारिय चउरंगे वलेण ।
 चलवलिय मयर मयरहरल्हसिय ।
 दसदसिवह एकहिं णाइं मिलिय । 5
 प्रंगणि जयमंगलु तुरु हयउ ।
 हा पहु वेहाविउ पसुवहेहिं ।
 मंडउ णिहित्तु जोयणपमाणु ।
 धिप्पइ कंपतहं मृगंहं प्राणु ।
 महं मिदुउं पिज्जइ सोमपाणु ।

11 १ AP कह. २ A कंबुरु. ३ A कंठ रसंतु. ४ A इहरहं. ५ A धवल. ६ AP खिज्जु.
 ७ AP मयणासु. ८ A कुडिल्लत्तु. ९ P माणवविदु. १० A परणिज्जइ.

12 १ A गउ. २ A सुरसेण तसिय, P सुर सणर तसिय. ३ AP करि रह. ४ A तुरय.
 ५ आयउ. ६ AP पंगणि. ७ A मंगलुरु, P मंगलतर. ८ AP मणोरेहेहिं. ९ AP मिंगं प्राणु.

11 3 b कंबु रसंतु शंखः शब्दायमानः. 5 a दि य दि त्ति इ दन्तकान्त्या, घत्तिया इं तिर-
 स्कृतानि. 6 a थाइ तिष्ठति, भवति. 7 b जणमणंतु लोकमन.पर्यन्तम्. 8 b मयणास मृगनाशो
 मदनाशश्च. 9 b वहइ इन्ति.

12 3 a सुर सणर तसिय तयो प्रयाणे नरसहिताः सुरा अपि त्रासप्राप्ताः; b मयर मत्स्याः;
 मयरहरल्हसिय समुद्राद्दहिः पतिताः. 6 b वेहाविउ अनुरक्षितो गृद्धि वा नीतः. 9 a विहाणु यज्ञविधिः.

इय णिव्वत्ति^{१०} कउ रित्तिएहिं
हिंसाइ धम्मु पावासवेण

भणु को ण वि खद्धउ सोत्तिएहिं । 10
अण्णाहिं वासरि जयजयरवेण ।

घत्ता—घणुकोडिचडावियघर्णगुणहु दरिसियवइरिविरामहु ॥
णियधीय सीय णवकमलमुहि जणएं दिण्णी रामहु ॥ १२ ॥

13

वइदेहि धरिय करि हलहरेण
णं तिहुयणसिरि परमप्पण
णं चंदे वियसिय कुसुममाल
दुव्वारवइरिवारणभुएण
अच्छइ दासरहि सुहेण जाम
आणिउ विणीयपुरि सरिधारि
अहिसिचिवि जिणपडिमउ घएहिं
णिव्वत्तिय जिणपुज्जा महेण
अवराउ सत्त कण्णाउ तासु
सोलह तहु महिलच्छीहरासु
गंभीरधीरसाहसधणाहं
कोणाहयतूरइं रंसमसंति
संमाणवसइं सयणइं णडंति

णं विज्जुल धवलें जलहरेण ।
णं णायवित्ति पालियपण ।
गोविदें णं सिरि सारणाल ।
सहुं सीयइ सहुं केकयसुएण ।
पिउणा णियदूयउ पहिउं ताम । 5
सकलत्तु सभाउ दुहावहारि ।
दहियहि दुद्धहिं धारापएहिं ।
सिसुणेहें तूसिवि दसरहेण ।
दिण्णाउ मुसलकरपहरणासु ।
अलिकुवलयकजलसामलासु । 10
रइयउ विवाहु दोहं मि जणाहं ।
मिहुणाइं मिलंतइं दर हसंति ।
पिसुणइं चितासायरि पडंति ।

घत्ता—काणीणहुं दीणहुं देसियहुं दिण्णइं दाणइं लोयहुं ॥

तहि समइ पराईउ महुसमउ णं विवाहु अवलोयहुं ॥ १३ ॥ 15

14

सोहइ वसंतु जगि पइसरंतु
महुकारि व महु धारहिं सवंतु

अहिणवसाहारहि महमहंतु ।
हेमंतपहुत्तणु णिड्वंतु ।

१० A णिव्वत्तिउ. ११ A दाणगुणहु, P धणुगुणहु.

13 १ A पालियवएण. ५ P कुमुयमाल. ३ AP पिहिउ. ४ P धारवएहि. ५ A समसमति.
६ AP पराइयउ.

10 a रित्ति ए हि ऋत्विग्भिः. 11 a पा वा स वे ण निन्द्यमयेन. 12 °व ण गु ण हु °निविडदोरस्य.

13 2 b णायवित्ति न्यायवृत्ति; पालियपएण राज्ञा. 3 b नारणाल कमलेन सहिता.
4 b केकयसुएण लक्ष्मणेन. 5 b पहिउ प्रेषित. 6 a विणीयपुरि अयोध्यायाम्. 7 b धारापए हिं
धाराजलैः. 10 a महिलच्छीहरासु लक्ष्मणस्य. 12 a कोणाहव° कोणो कीणादिवादन तेन हतानि.
15 महुसमउ वसन्तः.

14 1 b °साहारहिं आग्ने. 2 a महुकारिव कल्याणीव. कल्याणीव, महुधारहिं सवंतु
मकरन्दो माक्षिक मद्य च तस्य प्रवाहै, b हेमन्त° शीतकालः.

णियच्चिंधं दसदिसु पट्टवंतु
 सारंतु सुवाविहि वारिचीरु
 खरकिरणपर्याउ वि णेसरासु
 पयडंतु असोयहु पत्तारिद्धि
 वडलहु वड सुच्छायउं करंतु
 तिलयहु दलतिलयविलासु देंतु
 वल्लहकामुयवम्मइं हणंतु
 माणिणिहिं माणगिरि जजरंतु
 उत्तंगमड्ढि दियहइं गमंतुं ।
 मंदारकुसुमरयमहमहंतु

अंकुरंफुरंतु पल्लवचलंतु ।
 दावंतु णीलसेवालतीरु ।
 अवरु वि दीहत्तणु वासरासु । 5
 मोक्खयहु दुफग्गुणमोक्खसिद्धि ।
 वणलच्छिहि ओसासुय हरंतु ।
 वेल्लीकामिणियहं रसु जणंतु ।
 कणयारफुल्लरयधूसरंतु ।
 हिंडिरभसलावल्लिगुमुगुमंतु । 10
 रमणाहिलासविब्भमु भमंतु ।

घत्ता—जो मोणे चिरु संवरइ वणि सो संपइ महुसेविरु ॥

कलकोइल्लु पुण वि पुण वि लवइ मत्तउ को ण पलाविरु ॥ १४ ॥

15

वज्जइ वीणा पिज्जइ पाणं
 गिज्जइ महुरं सत्तसरालं
 परिमलपउरं पोसियरामं
 गंधकयंवयच्छडयवियारे
 सुप्पइ दवणयविरइयगेहे
 संधइ कामो कुसुमखुरप्पं

पियमाणुसच्चित्तं साहीणं ।
 दढपेम्मं पसरइ असरालं ।
 वज्जइ फुल्लियमल्लियदारुं ।
 णेवरकलरवणच्चियमोरे ।
 पुष्पत्थरणे भमियदुरेहे । 5
 णासइ तावसतवमाहप्पं ।

14 १ A फुरंत. २ A °ललंतु. ३ AP °सेवालीरु. ४ AP °पयाउ दिणेसरासु. ५A सच्छा-
 यउ. ६ AP ओसंसुय. ७ AP कणियार°. ८ AP उत्तंगमड्ढि ९ AP add after this: मज्जंत-
 पक्खिकुल्लुमुचुमंतु, K writes it but strikes it off. १० AP read this line as: रमणा-
 हिलासविब्भम भमंतु (A रमणीहि विलासविब्भमि भमंतु), मायंदकुसुमरयमहमहंतु. ११ A °कोकिल्लु.

15 १ A गंधकुडंबय°. २ AP णेउर°. ३ A सुप्पय°. ४ P °खुरप्पं.

4 a सारंतु सुवाविहि वारिचीरु सुवापीनां जलमेव चीरु वल्लमुत्सारयन्. 5 a णेसरासु सूर्यस्य.
 6 a मोक्खयहु दुफग्गुण मासरिद्धि मोक्खनामा वृक्षविशेषः, तस्य फाल्गुनमासे पत्राणि क्षरन्ति, तेन
 कारणेन फाल्गुनमासस्तस्य वृक्षस्यानिष्टः, तेन दुःफाल्गुन. कथ्यते, तस्य फाल्गुनस्य मोक्ष विनाशं कुर्वन्
 वसन्तः. 7 a वड वपु. शरीरम्, b ओसासुय अवश्याय एव, अश्रूणि. 8 a तिलयहु तिलकवृक्षस्य
 दलेषु पत्रेषु तिलकविलासं ददत्. 11 a उत्तंगमड्ढि मड्ढि वृक्षविशेष. तस्य दिनैः गमयन्, स वृक्षस्तदा-
 काले न विकसति किं त्वग्रे. 13 महुसेविरु मधुनो मद्यस्य मकरन्दस्य च सेवकः.

15 2 b असरालं अपर्याप्तम्. 3 a पोसियरामं पोषिताः प्रचुरीकृता रामाः स्त्रियो येन.
 4 a गंधेत्यादि श्रीगण्डादिगन्धद्रव्यस्य कदम्बकं समूहः तेन कृतार्द्रच्छयाविकारे पुष्पग्रहे लतामण्डपे,
 b णेवरं चपुरम्. 5 a सुप्पइ शयनं क्रियते, दवणय° दमनकपुष्पम्. 6 a कुसुमखुरप्पं कुसुमवाणम्.

अणुणिज्जइ रूसंति पियल्ली
सरजलकेलीसित्तसरीरो
तिम्मइ पणइणिसुहुमकडिल्लो
कुवलयमालाताडणललियँउ
इच्छाँमाणियकंताकंतो

दाविज्जइ कंदप्पसुहेल्ली ।
जंतविमुक्कसकुंकुमणीरो ।
दिट्ठावर्यववूढरसिल्लो ।
फुल्लपलासँदुमिहिं पज्जलियउ । 10
एव वियंभइ जाम वसंतो ।

घत्ता— ता दसरहपयपंकय णाविवि विहसिवि रामे बुच्चइ ॥
संताणकमागय तुह णयरि वाणारसि किं मुच्चइ ॥ १५ ॥

16

णासिज्जइ किं सो कासिदेसु
गुरुगय णियगय णिव दुविह बुद्धि
दीसंति जाइ सच्छिह्वेरि
विहुरे वि हु अणिहालियदिसेण
पहुसत्ति कोसंदंडेहि देव
जाणेवाँ अवर अलद्धलाह
बोल्लिज्जइ पहिलारउ जि सामु
बीयउ पुणु सीकिज्जंति किच्च

सुणि ताय रायसत्थोवएसु ।
बुद्धीइ पंचविह मंतसिद्धि ।
सा मंतसत्ति साहंति सूरि ।
उच्छाहसत्ति पुणु पोरिसेण ।
एयइ विणु महियल्लु वहइ केव । 5
चत्तारि उवाय धरत्तिणाह ।
पियवयणु जीवजणियाहिरामु ।
संमाणिवि वहरिविरत्त भिच्च ।

घत्ता—ते थद्ध लुद्ध अवमाणणिहि भीरु कहंति विवक्खहु ॥
णियरायहु केरउ दुच्चरिउ वियँलियपह परिरक्खहु ॥ १६ ॥ 10

17

उवदाणु वि हरि करि हेमं रयणु
अवयारु देसपुरगामडहणु
जिण्पंति हरिस मय कोह काम

दिज्जइ जइ लब्भइ को वि सयणु ।
सो दंडु भणंति वरारिमहणु ।
रिउ माण लोह दुक्कम्मधाम ।

५ A णिम्मिय°; P तिम्मिय°. ६ P °वयवसुवुढरसिल्लो. ७ A लल्लिओ. ८ A °दुमेहिं णं जल्लिओ,
P °दुमेहिं णं जल्लियउ. ९ A इच्छिय°, P इच्छए.

16 १ A कोसु दंडेहिं. २ A जाणेवा, P जाणेव. ३ AP धरत्तिणाह. ४ A वियडिय°.

17 १ AP हेसु.

9 a ति म्मइ आर्द्राक्रियते, °सुहुमकडिल्लो सूक्ष्म कटीवस्त्रम्, b °वूढ° धृतो वर्धित .

16 1 b रायसत्थोवएसु नीतिशास्त्रोपदेशः. 2 a गुरुगय गुरुगता आहार्या. 3 a सच्छिह्वे
वेरि सच्छिद्रो वैरी. 4 a विहुरेवि कण्डेऽपि, संकटेऽपि, अणिहालियदिसेण किकर्तव्यतामूढत्वरहितेन.
8 a सीकिज्जंति स्वीक्रियन्ते, किच्च कृत्या भेद्याः. b वहरिविरत्त शत्रुविरक्ताः. 10 परिरक्खहु
माहात्म्यरक्षणस्य.

17 2 a अवयारु अपकारः. 3 b रिउ अभ्यन्तरज्ञानवः.

जउ वक्खाणिउ इंदियजएण
सात्रहि णिरवहि इच्छंति के वि
विग्गहु विरइज्जइ दोसदुहु
आसणु गुरु कहइ असक्ककालि
जाणु वि सलाहु परिवारपोसि
जा किर विग्गहसंधाणवित्ति
जहि ण वहइ णियकरहत्थियारु
णरवइ अमच्चु जणठाणु दंडु
सत्त वि पयईउ हवंति जेण

घत्ता—तं णिसुणिवि जणसंतावहर ताएं चावविहूसिय ॥

णं जलहर वे वि धवल कसण सुय वाणारसि पेसिय ॥ १७ ॥

सांधि वि मित्तत्तणसंगएण ।
पट्टणइं वत्थु वाहणइं लेवि । 5
दोसेण होइ वंधु वि अणिहु ।
अवरोहि विउलि रणंतरालि ।
किज्जइ वज्जियदुंदुहिणिघोसि ।
तं दोहीअरणु ण का वि भंति ।
असरणि रिउसेव वि किं ण चारु । 10
घणु दुग्गुं मित्तु संगामचंडु ।
उज्जउं णउ मुच्चइ ताय तेण ।

18

णियतायपसायपसण्णभाव
देहच्छविदूसियरवियरोह
मणिमउडमुपट्टांलिनियंग
सेविज्जमाण णरखेयरेहिं
जोइज्जमाण जणवयजणेहिं
अलिकसणपीयणिवसणाणउत्त
दियहेहिं वंधु ते जंत जंत
पहचोइय गय सुहजणणपत्त
धयमालातोरणमंगलेहिं
णाणाणायरियहिं दीसमाण

सविणय पणमंत विमुक्कगाव ।
जुवरायत्तणसिरिलद्धसोह ।
णं सुरमहिहर उत्तंगंसिग ।
विज्जिज्जमाण चलचामरोहि ।
पेल्लिज्जमाण कामिणिथणेहिं । 5
सुंदर सुवलाकेकयहिं पुत्त ।
रमणीयपएसहिं थंत थंत ।
वाणारसि विणिण वि वीरं पत्त ।
दीहिदोवहिं सियकलसुप्पलेहिं ।
पइंसंति णयरि णं कामवाण ॥ 10

घत्ता—जणु वोळइ दसरहजेद्वसुउ इहु सैसहोयर आवइ ॥

कंचीकलाव गुप्पंतुं पहि पुरणारीयणु धावइ ॥ १८ ॥

२ A दोहीकरणु P दोहीअरणु. ३ A दुग्ग मित्त. ४ A जलहर धवल वे वि कसण.

18 १ A णवत्त P णयवंत; K records a p: णयवंत. २ A °भूसिय°. ३ P सुप्पहा°. ४ AP उत्तंग°. ५ P स्वर्गाय°. ६ P वाराणसि. ७ P वीर. ८ A दहिदूवहिं. ९ A पयसंति. १० A एहु सहोयर. ११ A गुप्पंति पहे. १२ AP पुरेणारी°.

4 A जउ जय. 7 a आसणु दुग्गाश्रयणम्. 8 a जाणु गमनम्. सलाहु श्लाघ्यं, b वज्जियदुंदुहि-
णिघो मि प्रच्छन्नतया मन्वृपरि गमयते 9 a विनाइ संधाणवित्ति त्वत्प्यो विग्रहः त्वत्प्यश्च सधिरिति मिश्रत्वं
द्वेषाङ्गण कय्यते मयानपूर्वको विग्रहो द्वेषाङ्गणम्. 10 b असरणि रिउसेव यदा शरण न दृश्यते तदा
मिषोर्गमि न्वा क्रियते. 11 a जणठाणु गच्छेय, b घणु कोश. 12 a पयईउ प्रकृतयः b उज्जउं उद्यमः.

18 1 a °दूसियरवियरोह °तिरिद्धतरविकिरणसमूहो. 2 b °सिग °शिवरो. 5 a जोइज्ज-
माण विदोक्कमानो. 6 a अलीत्यादि कृष्णपीतवन्नयुक्तौ. 8 a °पत्त °वाहनौ. 9 b °दोवहिं दूर्वाभि-
10 a णायरि नदिं नागारिक्के .

19

क वि मेल्लइ कौतलफुल्लदामु
काइ वि थणजुयलउं विहल्लु गौणुं
क वि दावइ कंकणु का वि हारु
पर्यलंतउं क वि परिहाणु धरइ
क वि सिंचइ पेम्मजलेण भूमि
जइ इच्छइ कह व धरित्तिसामि
दारें भत्तारु ण जाहुं देइ
मणि का वि विसूरइ चंदवयण
णं तो जोयमि उब्भिवि करग्ग
कर मउलिवि सण्णइ का वि पोमु
क वि णेउरु पहि णिवडिउ ण वेइ
जोयंति रायसुयजुयलताँइ

णीससइ का वि जोयंति रामु ।
हाँ एउ ण लक्खणणहहिं वणिउं ।
क वि ऊरुयल्लु क वि मुहविंवयारु ।
क वि कट्टदिट्ठि जोयंति मरइ ।
क वि चिंतइ एवहिं घरु ण जामि । 5
तो जियमि माइ सच्चउं भणामि ।
पायारु किं पि अंतरु करेइ ।
तल्लहत्थि ण जाया मज्झु णयण ।
गच्छंतु सुहय सुहसारमग्ग ।
आवेसमि जावहि सुवइ पोमु । 10
क वि भिक्खाचारिहि भिक्ख देइ ।
अण्णेत्तहिं घल्लइ कूरपिइ ।

घत्ता—क वि विहसिवि बोल्लइ चंदमुहि सीयइ काइं वउत्थउं ॥
जेणेहउं लद्धउं पंइरयणु दरिसियकामावत्थउं ॥ १९ ॥

20

अण्णेक्कइ वुत्तउं जाहि माइ
वयणें बहुणेहपवत्तणेण
जइ पडु ण इच्छइ विउलरमणि
इय पुररमणीयणजूरणेण
देहिअक्खयवहुसेसाउ लेवि
पियवयणें कि वि कि वि पाहुडेण
कि वि सुहिसंवंधपयासणेण
कि वि णेहें कि वि भुयवल्लिण घित्त

लग्गेज्जसु णाहहु तणइ पाइ ।
हरि आणहि महु दूयत्तणेण ।
तो मारइ मारु मरालगमणि ।
सज्जणहं मणोरहपूरणेण ।
रायालइ भाइ पइट्ट वे वि । 5
कि वि दुव्वयणेण रणुब्भडेण ।
कि वि वसिकय वित्तिविहसणेण ।
वणैवाल चंड मंडलिय जित्त ।

19 १ A मुणुउ. २ A हो. ३ AP उरयल्लु. ४ A पर्यलंतु का वि. ५ A मणि स विसूरइ
क वि चंद°, P मणि सुविसूरइ क वि चंद°. ६ AP हलि हत्थि ण. ७ A गच्छंत, P गच्छति. ८ AP
अण्णहिं सा घल्लइ. ९ AP परययणु.

20 १ AP सिद्धत्थक्खयसेसाउ. २ A बलवाल.

19 4 b कट्टदिट्ठि अस्पन्दलोचना. 7 a दारें इत्यादि द्वारे कान्त स्थितः रामावलोकनार्थं
गन्तु न ददाति. 8 b तल्लहत्थि हस्ततले. 9 a उब्भिवि कराग्रमूर्ध्वं कृत्वा, b सुहसारमग्ग शुभस्य
सुखस्य वा उत्कृष्टमार्गौ. 10 b जावहि सुवइ पोमु यस्या वेलाया पद्म स्वपिति. 11 a णवेइ न
जानाति 13 वउत्थउ व्रतमाचरितम्.

20 1 a माइ हे मात., हे दूति. 2 b हरि लक्ष्मणः. 3 b मारु कामः. 8 b वणवाल
भिल्लादिका'.

घत्ता—मयरहरहु मलु दूसणु जिणहु अमयहु विसु किं सीसइ ॥
गुणवंतहं दसरहतणुरुहहं दुज्जणु को वि ण दीसइ ॥ २० ॥ 10

21

अच्छंति वे वि ते तेत्थु जाव	एत्तहि लंकहि दहवयणु ताव ।	
वरकणयवीढसंणिहियपाउ	सीहासणग्गि रायाहिराउ ।	
अत्थाणि णिसण्णउ सामदेहु	अवइण्णु महिहि णं काममेहु ।	
करचालियाइं चमरइं पंडंति	कप्पूरपउरधूलिउ घुलंति ।	
पाढय पढंति तहिं णड णडंति	वाइत्तताल तेत्थु जि घंडंति ।	5
गिज्जंति नेय सरठाणलग्ग	णच्चंति असेस वि देसिमंग्ग ।	
पडिहारहिं अणिवद्धउं चवंतु	णियमिज्जइ लोउ वियारवंतु ।	
विण्णप्पइ भण्णंइ जीय देव	अमर वि करंति कमकमलसेव ।	

घत्ता—दसकंधरु दुद्धरु धरियंधरु तेयविहूसियदिसवहु ॥
जहिं अच्छइ भरहधरत्तिवइ पुष्पयंतसंकावहु ॥ २१ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए
महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे सीयाविवाहकल्लाणं णाम
सत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५० ॥

21 १ A P णवकणय०. २ AP चलति. ३ A घुलंति. ४ A देसमग्ग. ५ P जणवइ.
६ A वरियकर. ७ AP ०वरत्तिवइ.

१) मयरहरहु समुद्रस्य.

21 १) a सामदेहु कृणवणं. 6 b देसिमग्ग देशीभाषागीतानुसारेण. 7 a चवंतु वदन्
प्रत्यय. १) दिमवहु दिशा मार्ग. 10 पुष्पयंतसंकावहु चन्द्रमूर्यभयजनक..

णरसिरंकरखंडणु कहि तं भंडणु एम भणंतु जि संचरइ ॥
तहिं विष्णियगारउ आंयउ णारउ अत्थाणंतरि पइसरइ ॥ ध्रुवकं ॥ छ ॥

1

उद्धावैद्धपिंगजडमंडलु
तारतुसारहारपंडुरतणु
विमलफलिहमणिवलयालंकिउ
दीसइ पंतउ रायहु केरउं
कडियलणिहियहेममयमेहलु
सोत्तरीयउववीयंउरुज्जलु
कयदेवंगवत्थकोवीणउ
दिड्डुउ रीवणेण पडिवत्तिइ
पुच्छिउ पडुणा परमणसूलउ
तं णिसुणिवि संगामपियारउ

पोमरायरयणमयकमंडलु ।
णं ससहरु णावइ सारयघणु ।
णं जसुं पुरिसरुवु विहिणा किउं । 5
रणकायरभडभयइं जणेरउं ।
हसणु भसणु सवसणु सकल्लसु खलु ।
हिंडणसीलु समीहियकलयलु ।
जुज्जु अपेच्छमाणु णिरु झीणउ ।
वइसारिउ आसणि गुरुभत्तिइ । 10
कहहि वत्त को महु पडिकूलउ ।
आहासइ दहगीवहु णारउ ।

यत्ता—सुरगिरिसिरि णिवसइ महिहि ण विलसइ संचइ धणयहु तणउं धणु ॥
णिसि णिइ ण पावइ सयमहु भावइ णावइ तुज्जु जि भीयमणु ॥ १ ॥

2

सिहि णं करइ तुहारउं भाणसु
णेरिउ णेरियंदिस ता रुंभइ
रयणायरु जं गज्जइ तं जडु
वाउ वाइ किर तुह णीसासें
चंडु सूरु किरं तुह घरदीवउ
ससुरु सणरु खगु जगु तुह वीहइ

डहु वइवसु वइरिहिं तुहुं वइवसु ।
जाव ण तुज्जु पयाउ वियंभइ ।
तुहुं जि पक्कु तइलोकि महाभडु ।
वज्जइ फणिवइ तुह फणिपासें ।
सीहु वराउ वसउ वणि सावउ । 5
पर पइं जिणिवि एक्कु जसु ईहइ ।

1 १ AP णरकरसिरं. २ A वोळइ णारउ, P आइउ णारउ. ३ P उद्धावडु पिंगु जडमडु.
४ P पडरं. ५ A जसरुउ पुरिस विहिणा. ६ A एतहो, P एत्तउ. ७ P केहउ. ८ AP वसणु.
९ A उरज्जु. १० A रामणेण.

2 १ AP णेरियदेसि. २ AP किह.

1 4 b सारयघणु शरन्मेघः. 6 a एतउ आगच्छन्. 7 b सवसणु युदागतियुक्तः.
10 a पडि वत्ति इ प्रतिपत्त्या स्वागतेन.

2 1 a भाणसु सूषकागत्वम्. b डहु भस्मीभवतु, वउवसु यमः. 5 b सावउ श्रापदा.

दसरहतणउ मुसलहलपहरणु । दूरमुकपररमणीपरहणु ।
 परवलपवलसलिलवडवामुहु । जासु भाइ रणरसवियसियमुहु ।
 लक्खणु सुहडलक्खविक्खेवणु । अणु वि जासु पँवरपीणत्थणु ।
 जणपं कण्णारयणु विइण्णउं । ताँसु रूवि थिउ विहिणेउण्णउं । 10
 घत्ता—सा तुज्जु जि जोगी लयललियंगी हिप्पइ मड्डुई किंकरहं ॥
 सुरसरि झसमुद्दहु होइ समुद्दहु णउ जम्मि वि पंकयसरहं ॥२॥

3

विप्फुरियाणणु णं पंचाणणु । तं णिसुणिवि पँडिलवइ दसाणणु ।
 धीर विमुक्ककेर करिकरभुय । खल वलपँवल चवल दसरहसुय ।
 रामसाम गयसाम सहोयर । मारमि सुहड तुमुलि भूगोयर ।
 हरमि धरिणि गुणमणिसंचयखाणि । अहिणवहरिणणयण मयणावणि ।
 पभणइ गारयरिसि किं गावें । रावँण विहलें वीरपलावें । 5
 सरह सीह को वणि संघारइ । काल कयंत वे वि को मारइ ।
 चंद सूर को खलइ णहंगणि । हरि वल को णिहणइ समरंगणि ।
 केसरिकेसँछडा को छिप्पइ । जाणइ केण णराहिव हिप्पइ ।
 चवइ राउ विरइयअवराहहं । वालहं वाणारसिपुरिणाहहं ।
 सिरकमलइ खंडेसामि जइयहं । तुहं वि तेत्थु आवेसहि तइयहं । 10
 घत्ता—तेलोकैभयंकरु वइरिखयंकरु धणुगुणटंकारु जि झुणइ ॥
 खेयरउरदारणि महं सरधोरणि रणि रामहु वम्मइ लुणइ ॥३॥

4

ता परियाणवि कलहहु कारणु । अवसें होसइ एत्थु महारणु ।
 गउ गारउ णियमणि संतुट्टुउ । वीसपाणि मंतणइ पँइट्टुउ ।

३ AP पीणपीवरथणु. ४ AP ताहि. ५ AP मंडइ. ६ P ससमुद्दहु.

3 १ AP रणपवल. २ P रामण. ३ A केसरसड P केसरसड. ४ AP किं. ५ AP थिप्पइ. ६ AP वाराणसि^२. ७ A तइलोक^२.

4 १ A परितुट्टुउ. २ A P वइट्टुउ.

8 b भाइ भ्राता. 9 a विक्खेवणु इत्ता. 10 b विहिणेउण्णउ विधिनेपुण्यम्. 11 मड्डुइ द्ढात्.

12 नुरसरि गङ्गा; झसमुद्दहु समुद्रस्य.
 3 2 a विमुक्ककेर अवधीरिता आज्ञा याभ्या नौ. 3 a रामसाम श्वेतङ्गाणवणो द्वौ, गयसाम
 सामवचनरहिनी, b तुमुलि गैट्टसंग्रामे. 4 b मयणावणि कामभूः. 8 b जाणइ जानकी सीता,
 हिप्पइ द्वियने. 11 झुणइ कथयति.

4 2 b वीसपाणि गवण..

दुदु अणिदु विसिदु णं सिदुउ
तणुलायणवणजलवाहिणि
मारिज्जंति भाइ ते भीसण
तं णिसुणिवि मारीएं वुत्तउं
परवहुरमणु धम्मणिळूरणु
परवहुरमणु कित्तिविद्धंसणु
परवहुरमणु पराहवगारउं

घत्ता—परयारु सुविदुलु दुक्खहं पोदुलु दुग्गमु दुज्जसपरियरु ॥ 10
बहुभवसंसारणु सिवगडवारणु पावासवविहिवासघरु ॥ ४ ॥

5

दुत्तरमोहमहण्णवि लूढउ
तुहुं घइं बहुसत्थत्थवियाणउ
जो पडिकूलु होइ सो हम्मइ
भणइ दसाणणु जणसांमण्णहं
थीयणसारी णयणपियारी
सेलसिहरसंचालणचंडहिं
तो सकयत्थु महारउं जीविउ
जइ तहिं तं मुहकमलु ण चुंमि
कम्मणिबंधणेण णिक्कज्जे

घत्ता—हरिणच्छिहि वत्तइ सुइसुहमेत्तइ उप्पाइउ मणि कलमलउ ॥ 10
रइकायरु कंपइ पुणु पुणु जंपइ दहमुहु विरहविसंहुलउ ॥ ५ ॥

6

बुज्झिंवि अंतरंगु दहगीवहु
कामवाणसंताणहिं भग्गउ

वाय विणिग्गय मुहि मारीयहु ।
जइ तुहुं महिवइ सीयहि लग्गउ ।

३ AP वसिदुउ. ४ AP मतिए.

5 १ AP सह. २ A °सावणह. ३ AP हिययपियारी. ४ AP omit सा, A अवरुंडिवि
५ AP सपाविउ. ६ A णियक्कज्जे. ७ A सुयसुह°.

3 a विसिदु ण सिदुउ विद्वान्मन्त्री न पृष्टः; b मतिउ मंतु मन्त्रः स्वबुद्धया मन्त्रितः. 10 परयारु परकलत्रम्.

5 2 a घइ पादपूरणे. 4 b जणए जनकेन राजा. 5 a थीयणसारी त्वीजनमध्ये उत्कृष्टा.
9 a णिक्कज्जे निःकार्येण निष्प्रयोजनेन. 10 वत्तइ वार्नया, सुइसुहमेत्तइ कर्णमुखमात्रया, कलमलउ अरतिः. 11 °विसुहुलउ शिथिलगात्रः.

तो वि मयणु मग्गे माणेवउ
 तं जाणिज्जइ विविहपयारें
 अंसयदेसिजाइपरइत्थहु
 कामिणीउ जो महियलि जाणइ
 भइ मंद लय हांसि चउत्थी
 भइ भणमि सव्वंगसुरूविणिं
 लय दीहरतणु लय जिह पत्तल
 रिसिविजाहरजक्खपिसायहं
 तावसि उज्जुय भुंभुलभोली
 जक्खिणि धणकणलोहपरव्वस

रत्तविरत्तचित्तु जाणेवउं ।
 विडगुरुभासिएण सुयसारें ।
 इंगियसत्तभावरसंगुत्थहु । 5
 सो लंकाहिव रइसुहुं माणइ ।
 चउविह महिलाजाइ पसत्थी ।
 मंद धूलगुरुपेढालत्थणिं ।
 खुज्जी णारि मरालि समासल ।
 अंस होंति रमणीसंघायहं । 10
 खेयरि मइराकुसुमरसाली ।
 अडण पिसली भणिय सतामस ।

घत्ता—सारसि मिगि रिट्ठिणि सासि धयरट्ठिणि महिसि खरी मयरि वि जुवइ ॥
 सत्ते दीसत्ते^{१०} रइसइकत्ते वसुविह कहिय णिसुणि णिवइ ॥ ६ ॥

7

वच्छत्थलु थणकलसहिं पेळइ
 मिगिं णियबंधवदाणे मणणइ
 पुत्तहंडडुक्खिणि वायसरव
 ससि णिम्मीलियच्छि दुहभायण
 धयरट्ठिणि सररुहसरकीलिणि
 खरि खेळंति हसइ कहकहसर
 मयरि मासगासिणि दढगाहिणि

सारसि पिययमसंगु ण मेल्लइ ।
 तज्जिय तसइ गेळ आयणणइ ।
 रिट्ठिणि ठाणु मुयइ रणभइरव ।
 णिग्घिण परहरगासालोयण ।
 महिसि कराल रोसरसवालिणि । 5
 सहइ पायपहरु वि घल्लिउ करु ।
 कयसाहस कुकम्मणिन्वाहिणि ।

6 १ AP माणिव्वउ २ P जाणेव्वउ. ३ A °जाइपयओ, P °जाइपयइत्थउ. ४ A °रस-
 गुहपउ. ५ P adds after this: णवर मदा णिसुणि णियविणि. ६ P जाणि धूलगुरुपेढविलासिणि.
 ७ AP add after this: णउ मेविज्जइ सा वि यलक्खणि. ८ AP भुंभुरभोली, T भुसुर°. ९ AP
 धयरट्ठिणि. १० AP वीसत्ते.

7 १ A मृगि णिववधव°.

6 4 b विडगुरु° कामाचार्य, सुयमारें कामशान्त्रेण. 5 a असयइत्यादि हंसकादिभिरप-
 लभितव्य, परइत्थहु परस्त्रीममूहस्य सवन्धि रत्तविरत्तचित्तु इति मन्वयः, b इंगियेत्यादि इङ्कितसत्त्व
 भावमैगुविद्धस्य. 7 a महेत्यादि भद्रा मन्दा लता हसीति चतुर्विधा स्त्रीजातिः. 8 b °पेढालत्थणि
 विन्तीर्णन्तनी. 9 b मरालि हंसो, समासल मासला. 11 a भुंभुलभोली अच्युत्यन्ना, b मइराकुसुम-
 रसाली मन्त्रे पुष्पे चामन्ता. 12 b अडण पर्यटनशीला. 15 रइसइकत्ते गतिरेव सती नस्याः कान्तेन
 भद्रां कान्तेत्यर्थः, वसुविह अश्रुविधा.

7 2 a मणउ मानयति, b तज्जिय भस्मिना 3 a पुत्तहउ° पुत्रमाण्डम. 5 b रोसरसवालिणि
 रोसरसवालिनि निरंहरवालिणी.

सुंणि देसीउ णिहिलदेसाहिव
ससहावें लंपडि खरभासिणि

इह मालविणि होइ इच्छियसिव ।
वाणारसिसंभव वणवासिणि ।

घत्ता — अंबुइ जा कामिणि मंथरगामिणि सा पहिलउं जि दवु हरइ ॥ 10
दिणमेर णिवंधिवि रइरसु संधिवि पच्छइ सरकीलणु करइ ॥ ७ ॥

8

सिंधुवि पुणु पियंगेयहु रप्पइ
मायावहुलु भाउ कोसलियहि
दिविडि दंतणहलेयहु सक्कइ
ललियालावें लाडि लइज्जइ
कालिगी उवयारु पँउंजइ
सोरट्टिय आउंवणतुट्टी
अवरु महारट्टी जइ सीसइ
कौकणियहि जइ काइं वि दिज्जइ
दरिसियहरिसियवम्महलीलउ
करइ कि पि चंगउं ववसायउं
हिमवंती वि मंतवीयक्खरु
मज्झँएसणारीउ कलालउ

प्राणु वि दविणु वि दइयहु अप्पइ ।
लव्भइ रइगुणेणें सिघलियहि ।
अंध्रिणि णिब्भररयहु चमक्कइ ।
उट्टि रमणविण्णणें भिज्जइ ।
रक्खसु सुक्कउ रुक्खु वि रंजइ । 5
गुज्जरि णिच्चसयज्जहु लट्टी ।
ता तहि धुत्तत्तणु पर दीसइ ।
तो तं चितवंति सा झिज्जइ ।
पाडलिउत्तियाउ करणालउ ।
पारियत्तपणइणि पुरिसाइउं । 10
जाणइ जेणें पडइ पायहि वरु ।
होंति राय सयदलसोमालउ ।

घत्ता — देसंसयजुत्तहं जाइहि सत्तहं सयलहं पयइणिवासु किह ॥

गिरिसरिहरैठाणहं अमरविमाणहं मयरहरहं तेलोक्कु जिह ॥८॥

२ AP मुणि. ३ A अच्छए. ४ AP सुरयकील.

8 १ AP सेधवि. २ A पियणेहहु, P पियगेहहु. ३ AP पाणु. ४ P धणेण. ५ AP दिविडि.
६ AP अधणि. ७ AP पवज्जइ. ८ AP सुक्खउ. ९ P रक्ख. १० A भिज्जइ. ११ AP जेहिं.
१२ AP मज्झदेस°. १३ AP °महि°.

8 a देसीउ देशोत्पन्नाः, b इच्छियसिव वाञ्छितसौख्या. 9 b वणवासिणि वनक्रीडा. 10 अंबुइ
अर्बुदाचले. 11 दिणमेर दिनमर्यादा दिनसख्या, सरकीलणु स्मरक्रीडा.

8 1 a पियगेयहु प्रियगीतश्रवणात्, रप्पइ रज्यते. 3 a दविडि द्राविडा, b चमक्कइ
विभेति. 4 b उट्टि उद्देशजा. 5 a उवयारु उपचारः. 6 a आउवणतुट्टी चुम्बनतुष्टा b सयजहु
लट्टी स्वकार्ये दक्षा. 8 a काइं वि किमपि तुच्छमपि. 9 b करणालउ ऊर्वोरुपरि ऊरुनिवेशन करण
तच्छीला. 10 b पुरिसाइउ पुरुषागत रत विपरीत वा. 12 a मज्झएसणारीउ देहीदेशोत्पन्नाः,
कलालउ कलायुक्ता. 13 सत्तह अष्टभेदमत्त्वानाम्, पयइणिवासु प्रकृतिरेव निवास. स्थानम्.
14 मयरहरहं समुद्राणाम्.

सा वि तिविह णरजम्मि णिवंज्जइ
 पित्तपयइ आरूसइ खाणि खाणि
 गोरी बुद्धिवंत णहपिंगल
 उण्णयसिहिणवरंगु मुणेज्जसु
 सीयलु गंधु सेउ पंगुरणउं
 सिंभपयइ सामल वण्णुज्जल
 दिहुइ दोसि णिरुत्तउ चुक्कइ
 सच्चं विणपं दाणं विण्णइ
 रइजल पौंभल मउ सोणीयलु
 आयंविरणह सोहियकमकर
 कसण फरस मरुपयइ विलासिणि

वत्ता—करकडिणपहारहिं सद्गहीरहिं पयडउं पडु विडु जइ रमइ ॥

परिभ्रमणपरिकखहि कालकडकखहि तां कामग्गि ताहि समइ ॥ ९ ॥

पित्तसिभमारुयहिं णिरुज्जइ ।
 संतोसेवी धुत्तं दिणि दिणि ।
 मउपं किज्जइ सा रइभिंभल ।
 सीयलु तहि आलिगणु देज्जसु ।
 सीयलु ताहि जि सुरयारुहणउं । 5
 अहिणवकयलीकंदलकोमल ।
 पुणु जम्मि वि ण संमुइ दुक्कइ ।
 इयरह पुणु तहि अंगु ण छिण्णइ ।
 णिण्णडियंथ चारु तणुपरिमलु ।
 सुंदरि साहारणसुरयायर । 10
 बहु आहारु लेइ बहुभासिणि ।

10

जहिं पयइइ पयइइ फुडु भिण्णी
 जिह पयइउ तिह विहि विहिं जायइं
 जाइउ देसिउ तिह मइं बुद्धउ
 पहिलारउ सवत्तिसहवासं
 आसंकइ चामीयरलोहं
 वहइ असुद्धभाउ णारीयणु
 आलोयंतहं संमुहुं जोयइ

सा तौंतडिय दोहिं संकिण्णी ।
 अंसयसत्तइं मइं विण्णायइं ।
 भाउ दुविहु अविसुद्धु विसुद्धउ ।
 वयपरिणामे दीहंपवासं ।
 अंबरोहिं वि कारणसंदोहं । 5
 तेण वि वेयारिज्जइ जडयणु ।
 मुहुं वियसांवइ करयलु ढोवइ ।

9 १ A P विवज्जइ. २ AP रइवेमल. ३ AP उण्हय°. ४ A सीउ. ५ AP सीयलु सीयलु सुरयारुहणउं. ६ APT णिण्णडियम्म, K णिण्णडियंथ but records a p: णिण्णडियम्म इति पाठे मत्कारगहितः. ७ AP °भवण°. ८ A तो.

10 १ A पडुओ. २ P जणुउ. ३ AP सवित्ति°. ४ AP °पयामे. ५ AP अवरेण. ६ AP जउमणु. ७ AP विहसावइ.

9 ३ b मउपं मृदुत्तन, रइ मिंभल गतिविह्वला. 4 b सीयलु मण्डं मन्दम्. 5 b नेउ श्वेतम्. 6 b सिंभपयइ श्लेष्मप्रकृति; b °कंदल° आद्रांङ्कुरः. 8 b इयरह अन्यथा. 9 a पौंभल प्रचुरम्; b णिण्णडियंथ दुर्गन्धगहिना. 10 b साहारणसुरयायर साधारणं मन्दनिष्ठुरत्वरहितमुग्गादरा. 11 a मरुपयउ अतप्रकृतिः. 1; परिभ्रमणपरिकखहि परिभ्रमणे आलिङ्गनचुम्बनकरणविशेषादिलक्षणं परीक्षा चतुर्त्वं ज्ञया, कालकडकखहि कालेन मुच्य कटाक्षो यस्याः.

10 1 b तौंतडिय मिश्रा. 4 b वयपरिणामे यौवनवयसा. 6 b वेयारिज्जइ विक्रापंत.

सो वि देव विउसहिं पालिज्जइ वुद्धिइ संकिण्णत्तणु णिज्जइ ।
 मंडु तिक्खु तिक्खयरु पउत्तउ सुद्धभाउ तिहिं भेयहिं जुत्तउ ।
 घत्ता—भल्लारउं णिवसणु रयणविहसणु जोव्वणु णारिहिं हरइ मणु ॥ 10
 तं पुणु पियदूएं णियडीहूएं मयणहुयासें उंहेइ तणु ॥ १० ॥

11

ता तहिं दूवि का वि पेसिज्जइ ताइ भावसंभवु जाणिज्जइ ।
 इंगिपाहि देहुव्भवलिं गहिं कयणिण्णेहसणेहपसंगहिं ।
 भुक्खइ भग्गी अण्णहु लग्गी धणलंपडि कयखलसंसग्गी ।
 गमणकंख णिहालस मत्ती सुहिसोयाउर परगयचित्ती ।
 रुद्धी णिदुर कट्टपलाविणि एही णउ सेविज्जइ भाविणि । 5
 सीयं विसोसि परकुलउत्ती एक्क वि एत्थु जुत्ति णउ जुत्ती ।
 तो वि जाउ चंदणहि सुदेहिहि मणअवहरणु करउ वइदेहिहि ।
 ता पेसिय सां राएं तेत्तहि तं वाणारसिपुरवरु जेत्तहि ।
 गय गयणंगणेण सा खेयरि पंडुरभवणावलि जोइवि पुरि ।
 जोय्येइ चित्तकूहु णंदणवणु णं महिमहिलहि केरउं जोव्वणु । 10
 घत्ता—महुधारहि सित्तउं णावइ मत्तउं मलयाणिलसंचालिउं ।
 णवतरुवरसाहहिं पसरियवाहहिं णं णच्चंतु णिहालिउं ॥ ११ ॥

12

रुक्खमूलरोहियंधरायलं कुसुमधूलिधूसरियणहयलं ।
 कीलमाणसाहामयालयं गयणलग्गतालीतमालयं ।
 विल्लचिल्लवेइल्लसइलं हरिणदंतदरमलियकंदलं ।
 सच्छविच्छुलुच्छलियजलकणं अयरुदेवदारुयहिं घणघणं ।
 विडविणिहसणुग्गामियहुयवहं सुरहिधूमवासियदिसामुहं । 5

८ A सा वि. ९ P तें पुणु. १० AP दहइ.

11 १ सीलविसेसिं. २ AP राएं सा. ३ AP वाराणसि°. ४ AP जोइय.

12 १ A सोहिय°. २ AP वहुमाणहिंतालतालय. ३ P °दरदरिय°. ४ AP °धूव°.

S a सो वि अशुद्धभावोऽपि, b संकिण्णत्तणु सर्वथा अशुद्धस्वरूपता परित्याज्य शुद्धाशुद्धरूपत्वं नीयते.
 10 भल्लारउं णिवसणु उत्तम वस्त्रम्.

11 4 b सुहिसोयाउर सुहच्छोकदु खार्ता. 7 a चंदणहि शूर्पणखा, चन्द्रनखा द्वितीयं नाम, सुदेहिहि सुप्रगरोरायाः.

12 1 a °रोहिय° रुद्धम्. 2 a °साहामय° मर्कटाः. 3 a °विल्ल° विश्वा. 4 b अयरु° अगुरुः कृष्णचन्दन.. 5 a णिहसणु° निघर्षणम्.

परिबुलंतककेल्लिपल्लवं
वालवेल्लिविलएहि णवणवं
अलयवलयविलुलंतअलिउलं
केयईरुउक्खुसियमाणवं

पवणचलियमहिलुलियमहुलवं ।
कीरकुररकारंडकंलरवं ।
विविहकीलणावासपविउलं ।
रमियखयरजक्खिददाणवं ।

यत्ता—तहिं पयडियभावइ वहुसदावइ सिस्सुमाणिणिमणमोहणइ ॥ 10
जणइच्छियकोमलि घरवण्णुज्जालि णाइ कच्चि सुकइहि तणइ ॥ १२ ॥

13

उरगयचंदणि उरगयचंदणे
लोहियकंदइ सुहितरुकंदो
वड्डियमोयइ कयरइमोयो
लग्गपियाले णिच्चपियाला
खगरावाले वहुरावाला
महुयरगीए मणहरगीयइ
वहुपुहईरुहि पुहइसमेया
पडरिक्कीमइ कामियकामा

उण्णयवंदणि कयजिगवंदणे ।
गुरुमाइदइ जियमाइदो ।
फुल्लासोयइ वियलियसोयो ।
कीलासेले धीर व सेला ।
सरकमलाले गुरुकमलाला ।
छोहियसीयइ ते सहं सीयइ ।
सिवए सिवढोइयरिउमेया ।
लक्खणरामइ लक्खणरामा ।

5

५ A °कारडकुल्लवं. ६ A °रुउ उक्खुसिय°.

13 १ AP °चदणे. २ AP °वदणे. ३ AP °कदए. ४ AP °मायंदए. ५ AP °मोयए.
६ P °सोया. ७ P °पियाले. ८ P वीर व मेला; T वीर वसेला वशा इला ययोस्तौ वशेली. ९ AP
°गीयइ. १० A °गीया. ११ AP छाही°; T छाहिय°. १२ A सीया. १३ AP पयरिकीमए.

6 b °महुलव °वसन्तलना यत्र. 8 a अलयवलय° अलकवलयवत्, °अलिउल भ्रमरकुल्लम.
9 a °उक्खुसिय° लिता..

13 1 a उरगयचंदणि उरगतचन्दनवृक्षवने; उरगयचंदण हृदयलग्नचन्दनौ रामलग्नमणौ;
b उण्णयवंदणि उन्नतरक्तचन्दने. 2 a लोहियकंदइ रक्तकन्दे वने; सुहितरुकंदो सुहृद्वक्षेपु मेघौ,
b गुरुमाइदइ प्रचुराम्रवृक्षे वने; जियमाइदा लक्ष्मी. किल चन्द्रे कमले च वसति, लक्ष्मीसहितचन्द्रसदृशा
गज्ञान. ते जिना यस्यां नौ जितलक्ष्मीचन्द्रौ. 3 a वड्डियमोयइ मोचा कदलीवनम्, तद्वर्धित यस्मिन्,
कयरइमोया कृतरतिहर्षो; b वियलियसोया विगलितशोकौ. 4 a लग्गपियाले गगनलग्नचारवृक्षे,
निचपियाला निच प्रियायुक्तौ भार्यायुक्तौ; b कीलानेले क्रीडागिणै, धीरवमेला पर्वताविव धीरौ,
अथवा वसेला वशा इला पृथ्वी ययोस्तौ. 5 a खगरावाले पश्चिशब्दवति, वहुरावाला बहु प्रचुरं रा
ट्टयं तस्य पालकौ, b सरकमलाले सरकमल्लयुक्ते, गुरुकमलाला गुरुकमयोर्लालकौ वाञ्छकौ. 6 a महु-
यरगीए भ्रमरस्य गीत शब्दो यत्र, मणहरगीयइ मनोहरगीवया सीतया सह प्रविष्टाविति संशब्दः
b छोहियसीयइ छात्रिका छाया शीतला यत्र वने. 7 a वहुपुहईरुहि प्रचुरमहीन्दे वने, पुहइसमेया
लग्नमण्य पृथ्वी नाम महादेवी तथा सहिती, b सिवए शिवदे शौर्यवदे वने; सिवढोइयरिउमेया
निगना शृगापीना दत्तरिपुमंदनी. 8 a पडरिक्कीमइ पडरिक्कं प्रचुर अमयं जल यस्मिन्वने; कामिय-
कामा अनुभूतवाञ्छितार्थो; b लक्खणरामइ लक्ष्मणा. सारसार्त्तं रामे रमणाथे.

णंदणवणि छुडु छुडु जि पइटा लंकेसरवरयहिणिइ दिटा ।
 सहं अंतेउरोहिं कीलारय गहियणवल्लकुलमंजरिय । 10
 घत्ता—कयकिसलयकण्णउ कुसुमरवण्णउ णं देविउ वण्णैवासिणिउ ॥
 दुमसाहंदोलणि उववणकीलणि लग्गउ रायविलासिणिउ ॥ १३ ॥

14

काइ वि जणणयणहं रुच्चंतिइ मोरें सहं सहासु णच्चंतिइ ।
 सोहइ कमलु दुवासिहिं धरियउ णालंतालिपिंछविच्छुरियउ ।
 णाइं कंडु रइणाहहु केरउ दावइं सुरणरहिययवियारउ ।
 काइ वि समंउं वि हंसु चमकइ गइलीलाविलासि सो चुकइ ।
 काहि वि छप्पउ लग्गउ करयलि जडु अप्पउं मण्णइ थिउ सयदलि । 5
 काहि वि णियडउं णं ओलग्गइ एणउ दीहकडक्खिउं मग्गइ ।
 काइ वि उप्पलु सवणि णिहित्तउं कुम्माणउं णं णयणिहिं जित्तउं ।
 कुवलयकिकिणिमालाजुत्तउं काइ वि वडु वेल्लिकडिसुत्तउं ।
 काइ वि जाइवि मंडुइ धरियउ कुसुमरण रामु पिंजरियउ ।
 संझारापं णं मयलंछणु तेणं य सोहइ णं सारयघणु । 10
 जाइहुलु अण्णइ तहु ढोइउं अण्णइ सरसु वयणु संजोइउं ।
 जाइवंत कि जाइ भणिज्जइ जा महुरसयहि माणिज्जइ ।
 तो वि भडारी सीसैं वज्झइ अप्पकज्जि जणु सयलु वि मुच्चइ ।
 घत्ता—सव्वंगहि सुरहिउ वरमरुवउ पिउ रुणुंटेप्पिणु धुत्तडिय ॥
 मोग्गरउ मुण्णप्पिणु अंगु धुणेप्पिणु तामुप्परि महुरिचडिय ॥१४॥ 15

१४ A उववण°.

14 १ AP दुवासिहिं. २ P दावइ णं सुर°. ३ AP समंउं हंसु चमकइ. ४ को माणउ त णयणहिं. ५ P मथइ, K मथइ but connects it to मंडुइ. ६ AP तेण जि. ७ A धुत्तलिया. ८ AP जासुप्परि.

9 b लकेसरवरब हि णि इ शूर्पणखया. 10 b °रय रतौ. 11 कयकिसलयकण्णउ कणें कृतकर्णपूरा.. कुसुमरवण्णउ पुष्पैर्मनोहरा..

14 2 a दु वा सि हिं द्वयो. पार्श्वयोः, b णालंतालिपिंछविच्छुरियउ नालावसाने ये भ्रमरास्त एव पिच्छानि तैर्विस्फुरितम्. 3 a कडु काण्डो वाणः. 4 a चमकइ गच्छति. 5 b जडु मूर्खो भ्रान्तः. 6 b एणउ मृगः. 7 b कुम्माणउ म्लानम्. 8 a कुवलयकिकिणि° कुवलयान्धेव किङ्किण्य. 10 a मयलंछणु चन्द्रः. 11 a जाइहु लु जातीपुप्पम्. 12 a जाइवंत कुलीनाविशिष्टपुष्पजातिश्च, जाइ जातीपुप्पम्. 13 b अप्पकज्जि आत्मनः कार्यं प्रयोजन यत्र वस्तुनि. 14 सव्वगहिं डालशाखादिभिः; मरुवउ मरुवकः, धुत्तडिय धूर्ता भ्रमगी. 15 मोग्गरउ मोग्गरपुप्पम् तामुप्परि तस्य मरुवकस्योपरि.

15

का वि कुंदकुसुमइं णियदंतहिं
 वउंलु परिक्खइ णियतणुगंधं
 क वि फुल्लिउ साहारु णिरिक्खइ
 जंपमाणु णवकलियइ मत्तउ
 धरिउ ताइ रूसिवि मणदूसउ
 का वि उच्छुकरयल सुहकारिणि
 का वि फुल्लमालउ संचारइ
 का वि पलासपसूयइ वीणइ
 णिद्धइ रत्तइ कुडिलइं तिक्खइं
 काइ वि कोइल कसण णिरिक्खिय
 संपहिं एहं वि वोळ्ळणसीली
 एयहि सहु महुरु महुरउ विसु
 जइ मेंहुं लक्खणु अज्जु रमेसइ
 घत्ता—लयमंडव माणिवि कील समाणिवि कामभोयसंपण्णरइ ॥

जोयइ दप्पणि समउ फुरंतहिं ।
 विंवीहलु अहरहु संबंधं ।
 वाली हरिसाहारणु कंखइ ।
 खरसंताउ ण मुणइ सइत्तउ ।
 अग्गिवण्णु जायउ मुहि पूसउ । 5
 णावइ विसमसरासणधोरिणि ।
 सरुं सरपंतिउ णं दक्खालइ ।
 केकयंतणयहु पाहुडु आणइ ।
 णाइ वसंतमइंदहु णक्खइं ।
 पुंच्छिय अवरइ विहसिवि अक्खिय ।
 जणविरहाणलधूमं काली ।
 दोहि मि हम्मइ पवसिउ माणुसु ।
 ता हलि कलपलविउं सुहुं देसइ ।

णं^३ करिवरु करिणिहिं सहुं णियघरिणिहि सरि पइसंति णराहिवइ ॥१५॥

16

सीयापंजलिपाणियसित्तहु
 दीसइ रामहु उरि णोलुप्पलु
 कसणं हरिणा का वि महासइ

णं दप्पणयलि पुण्णपवित्तहु ।
 सोहइ णं छणचंदहु मयमलु ।
 सित्ती णं मेहेण वणासइ ।

15 १ A ववल. २ K¹ record a p: अथवा हरियासायणं चुम्बनम्. २ AP मुहि जायउ. ३ AP ण विसमसरारु. ४ A^०धोरिणि. ५ AP सचालइ. ६ AP सर. ७ A केकइतणयहु, P केइयतणयहु. ८ A अच्छिय अवरइ विहसिय अक्खिय, P अच्छिय अवरइ विहसिवि अक्खिय. ९ P एह जि १० AP वोळण^०. ११ AP मह. १२ A कललवियउं. १३ P omits णं.

16 १ AP पाणियपजलि^०. २ A छणयंदहु, P छणइंदहु.

15 2 a वउलु वकुलपुण्यम्. 3 b वाली तरुणी, हरिसाहारणु वासुदेवेन सह बाहुयुद्धम्. 1 b खरसताउ विरहोत्पन्नस्तीव्रताप., सइत्तउ नि.प्रपञ्चित.. 5 b अग्गिवण्णु रक्तवर्ण., मुहि मुखे; पूसउ गुरुः. 6 b उच्छुकरयल इधुयुत्करा, b विसमसरासणं कामधनु. 7 b सरुं स्मरं कामः. 8 a^०पसूयइं पुष्पाणि. 9 b वसंतमइंदहु वसन्त एव मृगेन्द्रः सिंहस्तस्य. 12 b दोहि मि द्वाभ्यामपि शुक्रोर्गिलान्या रन्यते परदेश प्रामो नर. 13 b कलपलविउं कोकिलाया मधुरशब्दः. 14 माणिवि भवन्वा कील समाणिवि कीलां वृत्वा. 15 सरि सगेवरे.

16 1 b दप्पणयति दपणसदयो हृदये, निर्मले इत्यर्थ. 3 b वणामइ वनस्पतिः.

णं रोमावलिअंकुर मेल्लइ
 क वि घणथणफलसंपय दावइ
 सिंचिय सिंचिय हसइ सलीलउं
 काहि वि पियकरजलविच्छुलियहि
 अल्लउं परिहणु ढैलिउ विहाविउ
 काइ वि महुमहकंतिइ कालिउं
 सहियहु दंसिवि कँहिवि वियण्पिउं
 सिंचहि ललिय एह पोमावइ
 कुंकुमर्पिउउ एयहि घल्लहि

मुहकमलेण णां पण्फुल्लइ ।
 सुंदरि वेल्लि अणंगहु णावइ । 5
 उच्छलंतकप्पूरकणालउं ।
 सुत्तजालु तुट्टउं कंचुलियहि ।
 लज्जइ सलिलि अंगु ल्हिक्काविउं ।
 रत्तउं सयदल्लु कण्हु णिहालिउं ।
 कण्णालगइ काइ वि जंपिउं । 10
 विरहिणि जेण भडारा जीवइ ।
 एह देव वच्छयल्ले पेल्लहि ।

घत्ता—तं सुणिवि कुमारें माणवसारें एक धरिय चीरंचलइ ॥
 अण्णेक्कहि जंतें दरविहसंतें मुक्कउं सलिलु थणत्थलइ ॥ १६ ॥

17

तं हारावलि तिम्मिवि, पडियउं
 कहिं लब्भइ पियसंगें आयउं
 काइ वि वल्लहहँत्थ गलत्थिय
 णहँणिवडंत धरिय धवलामल
 का वि णियंविणि णाहहु णासइ
 सरि परिघोलिरु सण्हउं पंडुहँ
 का वि उरत्थलि चडिय उविदहु
 पत्तिणिपत्तइ पेच्छिवि जलकण
 क वि हियउल्लइ विभिय मंतइ
 का वि ण इच्छइ जलपक्खालणु

विहिणा किं णउ तेत्थु जि जडियउं ।
 काहि वि मणि उच्छैल्लउं जायउं ।
 देहतावहँय ते जि समत्थिय ।
 तोयविंदु णावइ मुत्ताहल ।
 वणि णिम्मज्जइ दूरहु दीसइ । 5
 पाणियल्लि व कल्लइ अवरु ।
 णावइ विज्जुल अहिणवकंदहु ।
 हारु ण तुट्टउ अवलोइय थण ।
 अलयहं अलिहिं मि अंतरु चितइ ।
 कज्जलतिलयपत्तपक्खालणु । 10

३ AP पफुल्लइ. ४ AP पुलएं, K records a ष पुलएं. ५ A ण्हसिउ, P व्हसिउ. ६ AP किण्हु.
 ७ A कह व. ८ AP एह ललिय. ९ A जेम भडारा णीवइ.

17 १ AP णं. २ P णिम्मिवि. ३ AP उच्छुल्लउ. ४ P °हत्थि. ५ AP °तावहर.
 ६ P णहणियडत. ७ P पडर. ८ AP तुट्टइ. ९ A जलपक्खालणु.

7 a °वि च्छु लिय हि स्नापितायाः. 8 a अल्लउ आर्द्रम्. 9 a महुमहकंतिइ मधुमथनो हरिस्तस्य
 कान्त्या पद्म कृष्णं जातम्. 10 b कण्णालगइ कर्णे लगित्वा. 12 b वच्छयल्ले वक्ष स्थलेन. 11 जते
 जलयन्त्रेण.

17 1 तिम्मिवि आर्द्रकृत्य. २ b उच्छल्लउं उत्सुकत्वम्. 3 b तेज्जि तावेव हस्तावेव.
 5 b वणि जले. 6 a सरि तडागे, सण्हउं श्लक्ष्ण सूक्ष्मम्, b पाणियल्लि व जलस्य त्वचा इव,
 अवरु वस्त्रम्. 7 a उविंदहु लक्ष्मणस्य, b अहिणवकंदहु कृष्णमेघस्य. 8 a पत्तिणिपत्तइ
 पद्मिनीपत्रे. 9 a विंभिय विस्मिता, मंतइ विचारयति, b अलयह चूर्णकुन्तलानाम्, अलिहिं भ्रमरेषु.

उड्ड अंतरि करइंदीवरु
चवलरहल्लिजलोल्लियकेली

तहु णवणींलु व थिउ धारासरु ।
एम करोप्पिणु चिरु जलकेली ।

घत्ता - सरि ण्हाइवि णिग्गय णावइ दिग्गय थणंयलघुलियहारमणिहिं ॥
पयलियरसधारहु तलि साहारहु सहं णिसण्णु णियपणइहिं ॥१७॥

18

णावइ सीयसुरुवें णिज्जिय
तहिं अवसरि कंचुइ होएप्पिणु
जोयइ सीय पसाहिज्जंती
भालयलहु कलंकु परि किज्जइ
का वि ण वंधइ मोत्तियकंठिय
का वि कवोलइ पत्तु लिहेप्पिणु
चित्तइ खेयरि माणणिसुंभहं
रुवें सीयाए वि गुरुक्की
हा हा हय किं कर्यउ पयावइ
जासु एह कुल्लहरि कुलउत्ती
णिच्छउ होसंइ जित्तमहाहउ

विज्जाहरि तारुणें लज्जिय ।
सा चंदणंहि तेत्थु आवेप्पिणु ।
कवि संकइ तिलउल्लउ देंती ।
एणं णं महं हासउ दिज्जइ ।
कंथु पलोइवि णिहुणियं संठिय । 5
जूरइ किं पह पहर्यं णिहेप्पिणु ।
उव्वंसिगोरितिलोत्तमरंभहं ।
पुरिसहं वम्महभल्लि व दुक्की ।
दुक्कर रामंणु जोइवि जीवइ ।
रिद्धि विद्धि तहु तहु जि धरिती । 10
धण्णउ पुण्णवंतु जगि राहउ ।

घत्ता—जरधवलियकेसइ कंपिरसीसइ मायारुवें भावियउं ॥

मणहरणवियेड्डइ खेयैरिवुहइ तरुणीयणु पहसावियउ ॥ १८ ॥

19

ता तहिं एक भणइ नृवरंणी
हलि हलि कंचुइ काइं णियच्छसि

का तुहुं किं कारणु अवइणी ।
भणु भणु किं लिहिया इव अच्छसि ।

१० AP °णालु थविउ. ११ P थणयलघुलिय°.

18 १ सीयारुवें, P सीयासुरुवें. २ A चंदणवि. ३ P जोइय. ४ AP कंठु. ५ AP णिहुवी
मठिय. ६ AP णिहिय विहेप्पिणु. ७ A उव्वसिगोरी°, P उव्वसिमीणी. ८ AP कियउं. ९ A रावणु.
१० A कुल्लर. ११ A होसइ तहि जि महाजउ. १२ A °विसइहे. १३ P खेयवुहइ.

19 १ A णिवणी, P णिवरणी.

11 b नहु इन्दीवरुस्य वारामन वाराजलम्. 12 a °रहलि° लहरी, कल्लोला. 14 साहारहु
आमवृक्षन्.

18 1 b विज्जाहरि शूर्पणखा. 2 a कंचुइ वृद्धा, b चदणहि शूर्पणखा. 3 a पसादि-
वृती विभूयमाया: b कवि पुष्यदन्त, संकइ उद्येक्षते. 5 b कथु ग्रीवा; णिहुणिय निभृता निश्रला.
6 b पह पहर्य विहेप्पिणु प्रभा प्रहता दृष्टा. 7 b °गोरि° पार्वती, 9 a पयावइ हे हतविधे.
11 a जित्तमहाहउ जित्तमग्राम; b राहउ राम: 13 °विधइ विदग्धया चतुरया.

19 1 a नृवरणी राज्ञी, b अवइणी अचनीर्णा आगता.

तं गिसुणिवि बोह्लैइ मायारी
 तुम्हिहिं परभवि जं व्रंउं चिण्णउं
 लद्धा जेण णाह हलहर हरि
 तं मज्झु वि उवइसह वइत्तणु
 ता तं सीयइ झ त्ति दुगुंछिउं
 रयसलवासरि चंडालत्तणु
 अण्णहिं कुलि कत्थइ उप्पज्जइ
 सयणविओयवसेण रुयंती
 मंतिकेज्जि णउ कासु वि भावइ
 दूहउ दुट्ठु दुगंधु दुरासउ
 असहणु अहणु कुडिलु जाणेव्वउं
 घत्ता—जइ सइं चक्केसरु अहव सुरेसरु तो वि अण्णु णरु जणणसनु ॥
 वितेव्वउ णारिहि कुलगुणधारिहिं णउ लंघेव्वउ गोत्तकमु ॥१९॥ 15

हउं मायरि वणवालहु केरी ।
 जेणेहउं जायउं लायण्णउं ।
 जेण लच्छि एही सवसुंधरि । 5
 साहमि सर्वसा हं वि जुवइत्तणु ।
 महिलत्तणु किं किज्जइ कुच्छिउं ।
 णउ पावइ णियवंसपहुत्तणु ।
 वहुंती अण्णेण जि णिज्जइ ।
 वहलवाहविंदुयइं मुयंती । 10
 जा जीवइ ता परवस जीवइ ।
 अंधु वहिरु वाहिल्लु अभासउ ।
 जो भत्तारु सो ज्जि माणेव्वउ ।

20

विहवत्तणि पुणु सिरु मुंडेव्वउं
 रक्खइ पिउ अब्वत्तसिसुत्तणि
 रक्खइ वुट्ठत्तणि तणुरुहु तिह
 परवसाहिडण सयणाहारहु
 वुट्ठिइ वुट्ठयालि णिब्भग्गिउ
 किज्जइ जिणवरिंदभासिउ तउ
 रुहिररसावहु अट्टियपंजरु
 जहि इंदियइं ण इच्छियकामइं
 तं मग्गिज्जइ मोक्खमहासुहुं
 हियवउं भिण्णउं तक्खणि एयहि
 जाणियतच्चहि सच्चहि संतहि

अप्पउं तवचरणे दंडेव्वउ ।
 रक्खइ तृयै पँइ पुणु पोढत्तणि ।
 ण करइ किं पि वि कुलविप्पिउ जिह ।
 महिल ण मुच्चइ कारागारहु ।
 डज्जउ महिलत्तणु कि मग्गिउ । 5
 तं मग्गिज्जइ जहिं णउ संभउ ।
 तं मग्गिज्जइ जहिं ण कलेवरु ।
 जहिं सुव्वंति ण जारहं णामइं ।
 तं गिसुणिवि वुट्ठहि मउलिउं मुहुं ।
 भरइ सीलु को खंडइ सीयहि । 10
 जहि एहउ वियप्पु गुणवंतहि ।

२ P भासह. ३ AP वउ. ४ AP रामसामि°. ५ A मतकजि. ६ P परवसि.

20 १ A डडेवउ. २ A अच्छतसिसुत्तणि. ३ AP तिय. ४ AP पुणु पइ. ५ A वुट्ठिइ.
 ५ A भणइ; 'I' भरइ चिन्तयति.

३ b मायरि माता. 4 b एहउं ईइशम्. 6 b साहमि साधयामि, सवसा स्ववगा, जुवइत्तणु स्त्रीत्वम्.
 8 a रयसलवासरि रजस्वलादिने. 10 b वहलवाह° प्रचुरवाप्पम्. 13 a असहणु ईप्पोउ,
 अहणु निर्धनः.

20 2 a पिउ पिता. 3 b कुलविप्पिउ कुललाच्छनम्. 5 a वुट्ठिइ वुट्ठया त्वया, णिब्भ
 ग्गिउ निर्भाग्य भाग्यरहितम्. 6 b जहिं यत्र मोक्षे, संभउ संभवो जन्म. 10 b भरइ स्मरति.
 11 b वियप्पु स्त्रीजन्मनिन्दालक्षणो विकल्पः.

तहि मइं धुत्तिई काइं करेव्वउं पासहि हिंडिवि णवर मरेव्वउं ।
 घत्ता—इय चित्तिवि सुंदरि णिवसैं णहयरि चंचलगय गयणंगणइ ॥
 थिय मणियरणिम्मलि कणयधरायलि लंकाहिवघरप्रंगणइ ॥ २० ॥

21

अंजणसामहु लच्छिविलासहु णविवि ताइ विण्णविउ दसासहु ।
 देव दियंतदंतिदंतच्छवि- जसपसरणयर जगपंकयरवि ।
 पैइं इच्छइ सा जइ सिहि सीयलु जइ ठाणाउ चलइ धरणीयलु ।
 जइ णियमेण वसंति ण सायर जइ पडंति सिसिरंयर दिवायर ।
 जइ जिणु रापं दोसैं छिज्जइ तो पैइं सीय खगिंद रमिज्जइ । 5
 तं णिसुणिवि दहवयणें वुच्चइ अवसु वि वसि किज्जइ जं रुच्चइ ।
 कि विसभइयइ फणिमणि मुच्चइ अलसहु सिरि दूरेण पवच्चइ ।
 सुहिसयणत्तणु पुरिसपहुत्तणु गिरिर्मसिणत्तणु सइहि सइत्तणु ।
 दूरयरत्थु सुणंतहं चंगउं पासि असेसु वि दरिसियभंगउं ।
 हरमि सीय किं पउरपलावें ता सा पुणुं वि कहइ सन्भावें । 10
 दहमुह एउ अजुत्तु अकित्तणु इय वोळंति संति मंत्तित्तणु ।
 घत्ता—चंदणहि णिवारिवि असिवरु धारिवि सुरसंमरओहि असंक्रियउ ॥
 भरहद्धणरेसरु सुरकरिकरकरु रीवणु पुष्कयंति थियउ ॥ २१ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए
 महाकइपुष्कयंतविरइए महाकव्वे णारयआगमणं रीवणमणखोहणं
 णाम एकहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७१ ॥

६ A धुत्ते. ७ P गिविसे ८ AP °पगणइ.

21 १ A °दतहो छवि. २ A °पसरणजगवणपकय°, P °पसरणपर. ३ A इच्छइ पइ जइ
 सा, P इच्छइ पइं सा जइ. ४ A ससिरयर. ५ A पय. ६ AP गिरिहि महत्तणु. ७ AP कहइ पुणु वि.
 ८ P अखत्तणु. ९ A °समरेहिं अस° P समरउहे अस°. १० P रामणु. ११ AP रामणखोहण.

1१ गिवसे निमेपेण.

21 १ b °छ वि जसपसरणयर शुक्रयदाःप्रसरणकर. ३ a जइ सि हि सी यलु चेदग्नि.
 भीतः. तहि सीता त्वा वाञ्छति b ठाणाउ स्थानात्. 4 b सि सिरयर शिशिरकरश्चन्द्रः. 5 a छिज्जइ
 नीयते. 6 b अवसु अवगमपि वस्तु. 7 a °भइयइ °भयेन. 8 a सुहिसयणत्तणु सुहदा सुहत्त्व दूरस्य-
 भेत्त भ्रूते. b गिरिमसिणत्तणु गिर्मेसृणत्वं क्रौमलत्त्व रम्यत्वम्. 9 a दूरयरत्थु दूरतरस्थानाम्.
 11 b वो दत्ति संति वुवाणा मती. 12 नुरसमरओ हिं अमक्रियउ सुरसमरसमूहान् भीतः. 13 पुष्क-
 यंति पुष्कविमानमव्ये.

सहं मारीयण पद्म मुक्कदेसजइसंजमु ॥
पुष्पविमाणे थिउ गउ सीयहरणकयउज्जमु ॥ ध्रुवकं ॥

1

कामवाणोहविद्धेण मुद्धेण णो किं पि आलोइयं
ता विमाणं विमाणे णहे राइणा तेण संचोइयं । 5
तारयाऊरियायाससंकासवद्धुज्जलुल्लोवयं
हेमघंटाविसट्टंतटंकारसंतासियासागयं ।
चारुचंदकभाभारि माणिककंसमुक्कहुंबुक्कयं
वाउधुव्वंतकेऊलयालोलणाइण्णदिच्चकयं ।
तुंगसिगगणिभिण्णणीलब्भसच्छंभुधारोल्लियं
वोमपोमायरे हंसर्वत्तम्मि पोमं वं पप्फुल्लियं । 10
दिण्णध्रुवं रयक्खं गवक्खंतलंवर्तंभिगंचियं
पक्खिसेहीरंसारंगमायंगउक्किण्णरूवंकियं ।
वद्धसोहिल्लकप्पंधिर्बुद्धयपत्तावलीतोरणं
इंदणीलंसुकालं असीयंसुंसीयंसुणिव्वारणं ।
तेयवंतं णहुम्मिल्लकंतिल्लदिव्वत्थसोहावहं 15
भम्मपिंगं पलित्तं व सत्तच्चिणा रंजियासावहं ।
कित्तिवेल्लीइ फुल्लं व सेयं दसासालिणा माणियं
जायवेयं कुधीरेण वीरेणं वाणारसी आणियं ।

घत्ता—दिट्टु तेत्यु वणु अण्णेक्क वि सीयहि जोव्वणु ॥

रावणु चितवइ विहि समसंजोयवियक्खणु ॥ १ ॥ 20

1 १ P °विमाणे. २ P सीयाहरण°. ३ AP माणिककणिमुक्क°. ४ A हसवंतम्मि. ५ P च पुष्फुल्लियं. ६ AP गवक्खंतलगत°. ७ A °सीहीर°. ८ AP °धिबुद्धय°. ९ P omits सुसीयं. १० A धीरेण.

1 2 °कयउज्जमु कृतोद्यमः. 3 आ लो इ यं विचारितम्. 4 वि मा णे विगतमाने अनन्ते नभसि. 5 ता र ये त्या दि तारकापूरिताकाशसदृशबद्धोज्ज्वलचन्द्रोपकम् (°वितानम्) 6 °वि स ट्ट त ट का र- स ता सि या सा ग यं विसर्पन्तः टंकाराः तै सत्रासिता दिग्गजा येन. 7 °च द क्क भा भा रि मयूरपिच्छ सुवर्णे वा तस्य प्रभाधारि, °ध्रु बु क्क यं °स्तवकम्. 8 वा उ धु व्व त के ऊ ल या ° वा तान्दोलितध्वजलता. 9 °धा रो- ल्लियं धाराद्रम्. 10 वो म पो मा य रे गगनसरोवरे, ह स व त्त म्मि सूर्यवति. 11 र य क्खं रत्ताधमासके- न्द्रियम्, °भि ग चि य °भृङ्गसहितम्. 12 °ने ही र° सिंहः. 14 इं द णी लं सु का ल इन्द्रनीलकिरणकृष्णम्; अ सी य सु सी यं सु णि व्वा र ण सूर्यचन्द्रकिरणनिषेधकम्. 15 °दि व्व त्थं ° दिव्यास्त्राणि दिव्यप्रहरणानि. 16 स त्त च्चि णा अग्निना. 17 द सा सा लि णा दशास्थो रावण. स एव भ्रमरस्तेन. 18 जा य वे यं जात- वेगम्; कु धी रे ण कुबुद्धिदायकेन.

2

वणु दीसइ णच्चियणीलगलु
 वणु दीसइ णिम्मलभरियसरु
 वणु दीसइ संचरंतकमलु
 वणु दीसइ ललियलयाहरउं
 वणु दीसइ कालालिंगियउं
 वणु दीसइ अलयतिलयसहिउ
 वणु दीसइ फुल्लासोयतरु
 वणु दीसइ दुग्गउं कंचुइहिं
 वणु दीसइ तरुकीलंतकइ
 वणु दीसइ मूलणिइद्धरसु
 वणु दीसइ वड्ढिर्यधवलवलि
 हियउल्लउं कामसरहि भरिउं

सीयहि जोव्वणु मणमीणगलु ।
 सीयहि जोव्वणु णिरु महुरसरु ।
 सीयहि जोव्वणु वरमुहकमलु ।
 सीयहि जोव्वणु विंवाहरउं ।
 सीयहि जोव्वणु सालिंगियउं । 5
 सीयहि जोव्वणु विहलीसहिउ ।
 सीयहि जोव्वणु परसोययरु ।
 सीयहि जोव्वणु धरकंचुइहिं ।
 सीयहि जोव्वणु वण्णांति कइ ।
 सीयहि जोव्वणु कयमयणरसु । 10
 सीयहि हारावलि धवलवलि ।
 लंकालंकारे संभरिउं ।

घत्ता—इय एयहि तणउ णरु माणइ जो णउं जोव्वणु ॥

मंदिरु परिहरिवि रिसि होइवि सो पइसउ वणु ॥ २ ॥

3

अहो कयत्यो भुवणंतरे हली
 पलोयए लोयणएहि संमुहं

महेलिया जस्स घरम्मि मेहली ।
 मुहेण मल्लंति विउंवेए मुहं ।

2 १ A मणिणीलगलु. २ A पर. ३ P °णिवद्धरसु. ४ A वल्लियधवल°. ५ AP ण वि.

3 १ P लोयणेहिं. २ A विओवए, P विउवए.

2 1 a °णीलगलु मयूरः, b मणमीणगलु मनोमत्स्यस्य वन्वने गलो लोहकण्टकः.
 2 a °भरियसरु °भृतसनेवरम्; b महुरसरु मधुरशब्दयुक्तम्. 3 a संचरतकमलु प्रवहजलम्.
 4 a ललियलयाहरउ मनोहराणि लतागृहाणि यस्मिन्वने, b विंवा हरउं विम्बं पक्तुण्डीरकं तत्तुल्योऽध-
 रोष्ठो यत्र यौवने. 5 a कालालिंगियउ कालाश्च ते अलयश्च तेषामिङ्गितं चेष्टितं यत्र; b सालिंगियउ
 लय्या चिह्नितमालिङ्गित वा. 6 a अलयतिलयसहिउं अलमत्यर्थे तिलकवृक्षसहितम्; b विह-
 लीसहिउं विशेषेण हलीशस्य रामस्य हितं सुखदम्. 7 b परसोययरु परेषां शोककारकम्. 8 a कंचु-
 इहिं सर्पैः; b धरकंचुइहिं गृहमदल्लकैः. 9 a °कइ कपयः, b कइ कवयः. 10 a °रसु जल पृथ्वी
 या; b कयमयणरसु कृतकामरसम्. 11 a वड्ढिर्यधवलवलि वर्धिता धवाश्च लवलयश्चन्दनलताश्च
 यस्मिन्, b धवलवलि धवला कण्ठे वलिना च. 12 a कामसरहिं कामयागं, b लंकालंकारे लङ्काया
 अलंकारभूतेन रावणेन; संभरिउ चिन्तितम्.

3 1 b मेहली मैथिली सीता. 2 b मल्लंति हर्षमाणा; विउंवेए चुम्बति.

हरामि पयं कवडेण संपयं
 उयार मारीयय होहि तं मओ
 कुकम्मए मंतिवरो णिवेसिओ
 जसो ण जाओ भुवणंतमेरओ
 भणामि किं सिभजरे पयं पियं
 तओ विसाएण वियारियंगओ
 णिसणिया जत्थ धरासुया सई
 कुरंगओ वालतणंकुरासओ
 णियच्छिओ दिट्ठिमओ रवणणओ
 महीरुहाए भणियं हिया सयं
 णरिद हे राम पुलिंदकायरं
 अणेयमाणिकमयं मयं महं

करेइ मंती महिणाहसंपयं ।
 खुरेहि सिंगेहिं जवेण तम्मओ ।
 विचिंतए हा विहिणा णिवे सिओ । 5
 कहं परत्थीरंमणे तमे रओ ।
 दुलंघमेयं पडुणा पयंपियं ।
 खणेण होऊण मओ तहिं गओ ।
 पिए मणो जीइं समण्णिओ सइं ।
 सुयाहिरामंक्रियरामरासओ । 10
 विचित्तपिंछोहमऊरवणणओ ।
 इमं महं लोयणलोलणासयं ।
 रएणं गंतुं धरिऊण कायरं ।
 कुलीण दे देहि णिर्यच्छिमो महं ।

घत्ता—णिसुणिंवि प्रियवर्यणु सो रामे दीसइ केहउ ॥

15

सावउ चित्तलउ चलु मणु काउरिसहं जेहउ ॥ ३ ॥

4

पविरलपपहिं लंघंतु महि
 थोवंतरि मणहरु जाइ जवि
 पडु पाणि पसारइ किर धरइ
 दूरंतरि णियतणु दक्खवइ

लहु धावइ पावइ दासरहि ।
 कह कह व करंगुलि छित्तु ण वि ।
 मायामउ मउ अग्गइ सरइ ।
 खेलइ दरिसावइ मंदगइ ।

३ AP हरेमि. ४ A रमणतमेरउ. ५ A जाइ. ६ A लोयणलोयणासय. ७ A रएण तुग. ८ T णिय
 त्थियामह पश्याम्यहं, पश्यामि तेजः (उत्सवः ?). ९ AP पियवयणु.

3 a सपय संप्रति इदानीम्, महिणाहसपय महीनाथस्य सपदम्. 4 a उयार उदार, तं त्वम्, मओ मृगः,
 b तम्मओ तन्मयस्तदाकृतिः. 5 a कुकम्मए कुत्सितकर्मणि, b णिवे नृपे, सिओ सित श्वेतम्.
 6 a जसो ण जाओ यशः शुक्लं न जातम्; भुवणंतमेरओ त्रिभुवनान्तमर्याद (यश.), b तमे पापे;
 रओ रतः 7 a सिंभजरे पयं पिय श्लेष्मज्वरे पयः पीतम्, b पयंपिय, प्रजल्पित कथितम्. 8 a वि सा-
 एण वियारियगओ विपादेन खेदेन विकारिताङ्गः; b मओ मृग. 9 a धरासुया सीता, b जीइ यया,
 सइ सदा 10 a वालतणंकुरासओ वालतृणाङ्कुरमक्षकः; b सुयाहिरामंक्रियरामरासओ श्रुतौ कर्णे
 अभि समन्ताद्रामयाङ्कितरामस्य शब्दो येन मृगेण, अथवा, सुयाहिराम आकर्णनाभिराम यथा भवत्येव कृतो
 रामस्य रासः शब्दो येन मृगेण. 11 a दिट्ठिमओ दृष्टिमृदु, रवणणओ रमणीयः; b °मऊरवणणओ
 मयूरसदृशवर्णः. 12 a महीरुहाए सीतया, हिया हे हित, सय स्वयमेव, b लोयणलोलणासयं मम
 नेत्रयोः क्रीडाश्रय स्थानम्. 13 a पुलिंदकायर पुलिन्द्रकाणामादरो यत्र मृगे; b रएण गंतुं वेगेन
 गत्वा. 14 a महं मद्य मम; b मह उत्सवभूतम्. 16 सावउ श्वापदो मृग.

4 1 a °पएहिं पादैः. 2 a जवि वेगवान्. 5 a णवदूवा°नवदूर्वा.

णवदूवाकंदकर्वलु भरइ
कच्छंतरि सच्छसलिलु पियइ
सुयचंचुघायपरियलियफलि
खणि वेह्लिणिहेह्लणि पइसरइ
ओहच्छइ अइकोड्ढावणउ
इय चितिवि राहउ संचरइ
धरिओ वि करगहु णीसरइ
णिदइयहु किं करि चडइ णिहि

तरुवरकिसलयपल्लव चरइ । 5
वंकियगलु पच्छाउहुं णियइ ।
खणि दीसइ चंपयचूयतलि ।
अण्णणपएसहिं अवयरइ ।
लइ माणमि णयणसुहावणउ ।
पसु पुणु धरणास तासु करइ । 10
कहि वेसायणु कहिं णीसरइ ।
कहिं कवडहरिणु कहिं वंधविहि ।

घत्ता—गउ गयणुल्ललिउ मिगु णं कुवाइहत्थहु रसु ॥

थिउ दसरहतणउ समणीससंतु विंभियवसु ॥ ४ ॥

5

भयणभूमिआयासगामिणो
दवेदेव जयलच्छिसंगमो
ता ससकतेह्लोकरामणो
कासकुसुमसंकासदेहओ
कसणवाससोहियणियंओ
इ त्ति जणयतणयासमीवयं
वइरिमाणणिम्महणसत्तिणा
दूरयं पि मणपवणवेययं
आणियं मण हरिणपोययं
ता सईइ अवलोइओ मओ

मंतिणा वि कहियं ससामिणो ।
वंचिओ रहरायपुंगमो ।
राम एव रूवेण रावणो ।
चावधारि णं सरयमेहओ ।
हत्थणिहियमणिमयसिलिंओ । 5
आगओ कयाणंगभावयं ।
भासियं कुसीलेर्णं णं तिणा ।
पंचवणमाणिक्कतेययं ।
कुणसु देवि कीलाविणोययं ।
णं सुदूसहो दुक्खसंचओ । 10

4 १ AP °कमलु. २ AP तरुवरपल्लवकिसलय. ३ AP पच्छामुहं. ४ AP °परिगलियं.
५ P °चूयतलि. ६ P पवेसहिं. ७ P इहु अच्छइ. ८ A णिदइयहु कहिं करि P णिदइयहु करि कहिं.

5 १ A गयणभूमि°. T भयणभूमि°. २ A वणि वइइ रहुवंसपुंगमो; P वणि पइइ रहुवस-
पुंगमो. ३ A ससक°. ४ P तह्लोक्क°. ५ AP °रावणो. ६ A °सिलवओ. ७ A °तावयं. ८ A कुसी-
लेण मतिणा. ९ A दूरियं.

6 a कच्छंतरि वनमध्ये, b पच्छाउहु पश्चान्मुखम्. 7 a सुयेत्यादि शुक्रचञ्चुवातपरिगलितफले
आम्राये. 9 a ओहच्छइ एष निष्ठति. 10 b धरणास धारणाभ्यासम्. 11 b वेसायणु वेद्याजन,
णीसरइ नि. स्वप्ना दग्धिणां गति. क. 12 a णिदइयहु निर्भाग्यस्य. 13 रसु पारदः. 14 समं
भोगेण. विंभियवसु विंभिनन्तव विंभियस्य वजः.

5 1 a भयणभूमिआयासं नक्षत्रसमूहाविज्ञानमाकाशम्. 3 a °रामणो °आक्रन्दनः.
4 a °सराहदेहओ °उज्ज्वलान्तरः. 5 b °मिलिवओ मृगः. 6 b °भावयं अभिलाषणम्. 7 b तिणा
गरमेण. 9 a हनिणपोययं हरिणवालम्.

विष्फुरंततणुकिरणमालओ
विंभियावलायाणमाणिया

विरहसिहि व वित्थिण्णजालओ ।
रथणिगमणच्चिधेण भाणिंया ।

घत्ता—पिए जरदिवसयरु अत्थंगउ दीसइ रत्तउ ॥

जरजुण्णु वि तिजगि भणु अत्थहु को णासत्तउ ॥ ५ ॥

6

उज्झिऊण इंदियसमं
सव्वत्थ वि भंइं सियं
बुद्धं किं पि णवं च णं
तं धरणीयलरूढिया
उववणवासविणिग्गयं
दहवयणेण विलासिणा
तीए पुरओ दावियं
सा तुरियं लंकं णिया
सारसजुयमाणियवणि
माणवाहिरामं गओ
पयडीकयससरीरओ
इर भुवणयले विस्सुओ

सविमाणं सिवियासमं ।
तीए तेणं दंसियं ।
णे हु खलरइयं वंचणं ।
अमुणंती आरूढिया ।
अप्पाणं हरिवरगयं ।
रिउकित्तीयविलासिणा ।
वइयालियसद्दावियं ।
वम्महधणुगुणकाणिया ।
संणिहिया णंदणवणि ।
दूरमुक्करामंगओ ।
भूहरभेइसरीरओ ।
रक्खकेउ महिवइसुओ ।

5

10

घत्ता—कालउ दहवयणु णवमेहु व दुहयरु सीयइ ॥

पियविरहाउरइ दिट्ठउ कंठट्टियजीयइ ॥ ६ ॥

१० A भासिया.

6 १ A भद्दासिय. २ P तहु खल°. ३ AP पुरउं. ४ P वम्महु. ५ AP इह.

11 वि त्थि ण्ण जालओ विस्तीर्णज्वाल. 12 a विंभिया विस्मिता, अबला सीता, अयाणमाणिया मायापुरुषमजानती, b रथणिगमणच्चिधेण राक्षसध्वजेन रावणेन. 13 पिए हे प्रिये. 14 णासत्तउ न आसत्त..

6 1 a इदियसम इन्द्रियखेदं शरीरश्रमम्, b सिवियासम शिविकाकृति. 3 a-b बुद्धं किं पि णवं च ण नवं जन्म अपूर्वे विमान च ण एतत् णहु न खलु बुद्धम्; b वचण मृगलक्षण वञ्चनम्. 4 a धरणीयलरूढिया भूमण्डले प्रसिद्धा सीता. 5 b हरिवरगय अश्वारूढम्. 6 a विलासिणा विलासयुक्तेन, b रिउकित्तीयविलासिणा रिपुकीर्तिरेव अचिला मेढिका, गडुरिका इत्यर्थः, तस्या. असिना खड्गेन. 7 b वइयालियसद्दाविय वैतालिकशब्दवर्णितम्. 8 b °कणिया त्राणविशेषः. 9 a °वणि जले. 10 a माणवाहिरामगओ मनुष्यरमणीयता प्राप्त b °रामगओ रामशरीरवेय., भूहरभेइसरीरओ भूधरभेदिनी चासौ सरिच्च तद्वद्रयो वेगः शब्दो वा यस्य. 12 a इर किल प्रसिद्धौ; b रक्खकेउ राक्षसध्वज; महिवइसुओ पुलस्तिपुत्र.. 14 कंठट्टियजीयइ कण्ठस्थितर्जावितया सीतया.

7

चित्तं मउलंतं मउलियउं
 आपंडुरंतु गंडत्थलइ
 कढकढकढंति ससहरपहइं
 कां दिसि केणाणिय कं व कहि
 इय चित्तवंति मोहेण हय
 पइवय परपइवयभंगभय
 भत्तारविओयविसंठुलियं
 णं कामभल्लि महियलि पडिय
 सुहिसुंयरणंपसरियवेयणिय
 परिहाणु ण तो वि ताहि ढलइ

लोयणंजुयलंसुउ पयलियउं ।
 विलसिउ विलसिइ विरहाणलइ ।
 अंगइं लायणणवारिवहइं ।
 को पावइ एवहिं रामु जहिं ।
 परपुरिसु णिहालिवि मुच्छ गय । 5
 णं पवणं पाडिय ललिय लय ।
 विहिवस सिलसंकडि पक्खलिय ।
 णं वाउल्लिय कंचणग्रडिय ।
 सा जइ वि थक्क णिच्चेयणिय ।
 चल जारदिट्ठि कहिं परिघुलइ । 10

घत्ता—इदणिवसणु सइहि सुहडहु करासि ण वियट्ठइ ॥

मराणि समावडिइ परिरियविहि विहिं वि ण फिट्ठइ ॥ ७ ॥

8

परदारलुद्धु दुक्कंतु खलु
 रांचण किं आणिय परजुवइ
 वणु णाइं करइ साहुद्धरणु
 अलि कण्णासण्णउ रणुरुणइ
 इच्छइ दससिरु पररमणिसुहुं
 णं सो वि णिवहु उव्वेइयउ
 दुज्जसु महु महणिहु महहि जइ
 हंसावलि लवइ व लोयपिय
 मा मइलहि माणिवि ण्ह तिय
 अंचउ लोहियपह्लवललिउ

किं लज्जइ कहिं मि गामकमलु ।
 तरु चुयसिण्हंसुएहिं रुवइ ।
 हा पत्तउं णारिरयणमरणु ।
 पहु एउं अजुत्तु णाइं भणइ । 5
 कणइल्लउ वंकिवि जाइ मुहुं ।
 कोइल्लु विलवंतु व आइयउ ।
 वइदेहि भडारा रमहि तइ ।
 मइं जेही तेरीं कित्ति सिय ।
 मा णासहि लंकाउरिहि सिय ।
 णं णिवअण्णायसिहि जल्लिउ । 10

7 १ P १जुउ अंनुय. २ A आपंडुरंतु. ३ AP का दिस ४ A विसठुलिया. ५ A सुहि-
 नुअण्णं; P सुहिसुमरणं. 6 AP परियरविहि.

8 १ P रामण. २ \ न सो ३ A कोकिलु. ४ A तेही कित्ति.

7 1 a मउलियउ नेत्रमपि सुकुलितम्. 3 a कढकढकढंति अतिगयेन दहन्ति, ससहर-
 पइ चन्द्रग्रहप्रवृत्तानि अद्धानि 6 a पइवय पतिव्रता. 7 b सिलसकडि शिलासकटे प्रदेशे.
 8 b वाउल्लिय पुत्तलिना. 9 a १सुंयरणं १स्मरणम्, b णिच्चेयणिय अचेतना. 10 a परिहाणु
 वांग्मनं वन्म. 12 परियरि वि डि परिकन्वन्व..

8 1 b गामकमलु वा पुश्चल. कुट्टुः. 2 b चुयसिण्हंसुएहिं च्युतोष्णाशुभिः. 4 a कण्णा-
 सण्णउ कर्णसर्वापन्ध. 5 b रणइल्लउ शुकः. 6 a णिवहु नृपान्. 7 a महुमहणिहु मत्तेज-
 रदम, वृष्णमित्तयः महि वात्तसि. 10 a अंचउ आम्रवृक्षः; b १सि हि १अग्निना.

चंदणु पुणु विसहर दक्खवइ
रामाणीरमणकम्मतुरिउ

पडिवक्खंवाणमाणु व थवइ ।
खरिदिं मणु मडुइ धरिउ ।

घत्ता—परवस परमसइ जइ छिवमि करे थणु पेळ्ळिवि ॥
अंबरयारिणिय तो जाइ विज्ज मइं मेळ्ळिवि ॥ ८ ॥

9

इय णिज्झाइवि पंकयकरिहिं
जीवावहु भावहु कह वि तिह
ता तरलइ तारइ णाइणिइ
अंविउलइ अंवइ अंवालियइ
पियच्छंदइ णंदइ णंदिणिइ
कप्पूरपूरपरिमलजलइं
सीयहि अंगंगि रमंति किह
णियपत्थिवपेसणकारिणिहिं
दहमुहवहदाइणि कालणिह
उट्टिय परणराणिदुरहियय

आणसु दिणु विज्जाहरिहिं ।
मइं इच्छइ सुंदरि अज्जु जिह ।
चंपयमालइ मंदाइणिइ ।
मयमत्तइ मल्हणसीलियइ ।
रइरुंदइ चंदइ चंदिणिइ ।
पल्हत्थियाइं हिमसीयलइं ।
सीयइं रहुवइअंगाइं जिह ।
लहु विज्जिय चामरधारिणिहिं ।
संधुक्किय णं खयजलणासिह ।
संचितइ हा हउं कि ण मय ।

5

10

घत्ता—हा रहुवंसपहु हा लक्खण कहि पइं पेच्छमि ॥
दावहि तांव मुहुं जांवज्जु जि मरेवि ण गच्छमि ॥ ९ ॥

10

चउपासिहिं थियउ णियच्छियउ
भणु भणु संदेहु मज्जु हुयउ

पुणु खंयरपुरंधिउ पुच्छियउ ।
णिवु कालउ जमु कि वा मणुउ ।

५ पडिवक्खमाणमाणु व. ६ AP खरिदिं. ७ A मडइ. ८ P ता जाइ विज्जु.

9 १ A कह व. २ AP अवलोइय अंव वालियए. ३ AP रइरुंदइ. ४ AP कप्पूरपउरं.
५ A पइं कहिं पेच्छमि. ६ AP मरेवि.

10 १ AP खयरे°.

11 b थ व इ स्थापयति. 12 a रा मा णी° रामभार्या. 14 a अ व र या रि णि य आकाशगामिनी, वि ज्ज विद्या.

9 1 a प क य क रि हिं कमलसदृशकरयुक्तानाम्. 2 a जी वा व हु जीवापयत, भा व हु मा भाव-
यन्तु, ममोपरि रुचि कारयन्तु इत्यर्थः. 3 a तर ल इ तरलानाम्या. 6 b प ल्ह त्थि या इ आर्चितानि.
7 a अ ग गि शरीरावयवेषु, ८ सी य इ शीतलानि. 9 a °व ह दा इ णि व य दा त्री. 10 a उ ट्ठि य
सावधाना जाता.

10 2 a णि वु युष्मन्नपः

पुरि एह कवण कि जमणयरि
जसु तलवरु जसु किर भणइ जणु
जसु इंदु वि संगरि थरहरइ
जसु वासइ वइसाणरु धुवइ
जसु अगइ णडइ सरासइ वि
जसु पंगणि मेहहिं दिण्णु छडु
सो एयहि लंकहि एहु पइ
भत्तारु समिच्छहि माइ तुहुं

तावेक पजंपइ तहिं खयरि ।
जसु देइ णिच्च वइसवणु धणु ।
जसु मारुउ घरक्यारु हरइ । 5
दिक्करिउल्लु णामें मउ मुयइ ।
कुसुमंजलि थिवइ वणासइ वि ।
जसु को वि णत्थि पडिमल्लु भइ ।
रावणु णामें तिहुवणविजइ ।
अणुभुंजहि इच्छियंकामसुहुं । 10

घत्ता—सामिणि राणियहं णीसेसहं होइवि अच्छहि ॥

महएवित्तणयहु परमेसरि पट्टं पडिच्छहि ॥ १० ॥

11

किं किजइ हरिणु अधीरमइ
किं किजइ दीवउ तुच्छछवि
किं किजइ वाइसु जइ गरुल्लु
किं किजइ खरु जइ दुद्धरहु
किं किजइ पिप्पलु सलसल्लिउ
किं किजइ राहँउ मुद्धि तइ
ता सीयइ उत्तरु मणि थविउ
जहिं कंकु रायहंसु व गणिउ
जहिं गुणवंतु वि दोसिल्लसमु
ते विउस पसंसिय विउंसजणि

जइ लब्भइ सीहँकिसोरु पइ ।
जइ अंधयारु णिट्ठवइ रवि ।
सुपसण्णु होइ बहुवाहुवल्लु ।
पाविज्जइ कंधरु सिंधुरहु ।
जइ दीसइ सुररतरुवरु फालिउ । 5
रावणमहिलत्तणु होइ जइ ।
एयइ अण्णाणिइ किं लविउ ।
एरहु कप्परुक्खु व भणिउ ।
तहिं जे विरयंति वयणविरमु ।
णिक्खिवइ बुद्धि को मुक्खयणि । 10

घत्ता—पेयहु तणउं मुहुं वियसावइ को जगि चुंविवि ॥

इय चितिवि हियइ मोणव्वउ थिर्य अवलंविवि ॥ ११ ॥

२ A घर क्यार. ३ AP वर्यहं. ४ A omits this foot. ५ A इच्छिउ काम°. ६ A महएविहि तणउ, P महएवीण पट्टत्तणहु. ७ A पहु.

11 १ A सीहु किसोर. २ AP वायसु. ३ P गरु. ४ AP सुरवरतर. ५ AP रामें. ६ AP विउसजणि. ७ A मुक्खमणि. ८ A थिउ.

१० b घरक्यार एहकचवरपुडाः. ६ a वासइ वत्ताणि, b मउ मटम्. ७ b वणासइ वनसतिर्वन-
देयता. 12 महएवित्तणयहु महादेवीत्वस्य महादेवीपदस्य.

11 4 b सिंधुरहु नजस्य. ५ a सलसल्लिउ शब्दं कुर्वाण. कम्पमानो वा. ६ a राहँउ
गम. ८ a कंकु वरु. ९ b विरयंति वयणविरमु विरचयन्ति वचनविरामं मौनम्. 10 a विउस
विर्वाणः; b णिक्खिवइ प्रेरयति. 11 पेयहु प्रेतस्य मृतकस्य.

12

जयजसरामहु रामहु तणिय
 जइहुं पेसियलेहेण सहं
 णं तो पुणु जिणवरिंदु सरणु
 एत्तहि जक्खाहिर्वरक्खियउं
 पहरणपरिपाले रक्खियउं
 आउहसालहि खयरविसरिसु
 ता णिर्वह हियउं रोमंचियउं
 णिवमंतिहिं इय बोळ्ळिउ वयणु
 संभूयउं भवणि चक्करयणु
 जं तं कलत्तु रामहु तणउं
 उप्पाउ णयरि भीयरु हवइ
 उप्पणु चक्कु सीयागमणि

णिसुणेसवि वत्त सुहावणिय ।
 तइहुं आहारपवित्ति महं ।
 संपज्जउ सल्लेहणमरणु ।
 पहवंतु फुरंतु णिरिक्खियउं ।
 पणविवि दहगीवहु अक्खियउं । 5
 उप्पणउ चक्कु जणियहरिसु ।
 तं जाइवि कुसुमहिं अंचियउं ।
 एवंहि कहि चुक्कइ दहवयणु ।
 आणिउं अण्णेक्कु वि मिगणयणु ।
 अप्पिज्जउ घणचक्कलयणउं । 10
 तं णिसुणिवि णहयरिंदु लवइ ।
 किं तुम्हहुं अज्ज वि भंति मणि ।

धत्ता—छिंदिवि^{१२} अरिसिरइं असिकंपावियदेवासुरु ॥

भरहहु हउं जि पहु सिरिपुप्फयंतभाभासुरु ॥ १२ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे सीयाहरणं णाम
 दुसत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७२ ॥

12 १ AP जइयहुं लक्खणरामहु तणिय. २ AP जइयहु. ३ AP तइयहुं. ४ K records
 a p: आरक्खियउ इति पाठे औरैः क्षित प्राप्तं अराणां वा निवास. ५ AP खररवि°. ६ AP महिवइ-
 वउ. ७ A जोइवि. ८ AP सुदरु पडिवजइ दह°. ९ AP भवणि वि. १० P अप्पिज्जइ.
 ११ AP वहइ. १२ AP छिंदमि. १३ AP वहत्तरिमो.

12 1 a जयजसरामहु जयश्च यशश्च ताभ्यां रामस्य रमणीयस्य, b सुहावणिय क्षेमकुशला.
 4 b पहवंतु प्रभावत् चक्कम्. 6 a खयरविसरिसु प्रलयकालसूर्यसदृशम्. 10 b घणचक्कलयणउं
 घननिविडस्तनम्. 14 सिरिपुप्फयंतभाभासुरु चन्द्रसूर्यवत्तेजाः.

मायारुड किं माणिकमड जो रहुसीहहु णेंदुड ॥
महुं णावई भावई सो हरिणु चंदहु सरणु पइदुड ॥ धुवकं ॥

1

दुवई—एत्तहि रामसामि मृगपंच्छइ गड दूरंतरं वणे ॥

एत्तहि णीय सीय दहवयणें एत्तहि सोड परियणे ॥ छ ॥

एत्तहि दिणंति^३ अत्थइरिसाणु
णरतिरियणयणपसरणु हंरंतु
णं दिसइ लइउ रइरसणिहाउ
णं रइउ समुहें रयणसंगु
देउ वि वारुणिसंगेण पडइ
गच्छंतु अहोमुहु तिमिरमंथु
रामहु कलत्तु इह हित्तु जेण
गड अत्थवणहु कंदोदुजूर

संपत्तउ लहु अत्थमिउ भाणु । 5
चक्कउलहं तणुतावणु करंतु ।
णं णिण्णेंदुड रावेंणपयाउ ।
णं महिइ गिलिउ रईरहरहंगु ।
णं इय भणंतु पक्खिउल्लु रडइ ।
णं दावइ णरयहु तणउ पंथु । 10
जाएसइ सो भग्गेण एण ।
करसहसेण वि णउ धरिउ सूरु ।

घत्ता—णिवडंतु जंतु हेड्डामुहउ रवि किं एक्कु भणिज्जइ ॥

जगलच्छीमंदिरणिग्गयहिं मंदहिं को रक्खिज्जइ ॥ १ ॥

2

दुवई—माणवभवणभरहखेत्तोवरि वियरणगामियवासरो ॥

सीयारामलक्खणाणंदु व जामत्थमिओ दिणेसरु ॥ छ ॥

पच्छाइयसयलायासतीरु
णहसिरि परिहइ रंडिज्जमाण
सिसुससि भग्गंडु णं वलयखंडु

णं संझारयकोसुंभवीरु ।
दिणवइविओउं अइअसहमाण ।
मउलियउं कमलु णं ताहि तुंडु । 5

1 १ AP भावइ णावइ. २ AP भिग°. ३ A दियंति; K दिणंति, corrects it to दियंति but has a gloss दिनत्यान्ते. ४ AP णिदुड. ५ AP रामणभुय°. ६ A रविहइ°.

2 १ A P जामत्थमिउ णेसरु. २ A संझाराए. ३ A °विओवअइ°. ४ AP ण भगउ.

1 1 किं मा णिक्कमड कथं रत्नमयः सारमूतः, अपि तु नि.सारः. 5 a अत्थइरिसाणु अस्ताचलनटम्. 7 a रइरस गिहाउ रतिरससमूह. 8 b °रहरहंगु रथचक्रम्. 9 a वारुणि° पश्चिम-दिशा मय च. 10 a तिमिरमंथु सूर्यः. 12 a कंदोदु उत्तलम्. 14 जनेत्यादि जगलक्ष्मीमन्दिर-रुग्देव पद्यं तस्मान्निर्गतैः किर्णैः. अन्यत्र, जगति लोके लक्ष्मीवृहान्निर्गतैः पुर्यैः, मद हिं जडैः मन्दप्रतापैर्वा.

2 1 मा णवभवणभरहं नराणा गृहं भरतक्षेत्रम्. 3 a पच्छाइयसयलायासतीरु पच्छा-दिशतटक्खणागतत्तः. 4 a परिहइ परिधत्ते, रंडिज्जमाण वैधव्यं प्राप्ता. 5 a सिसुससि बालचन्द्रः मन्दरयगण्डमिव.

विक्रिण्णोऽ पत्तु दियंतपारु

गय णिसि उययायलकरिहि चडिउ

उग्गउ उण्णइं पहरेण पत्तु

दिणयरु विहडावियपउमसीउ

णं सीयाविरहहुयासचंडु

णं दिस्सकामिणिसिरि रत्तु फुल्लु

तारायणु णावइ तुट्टु हारु ।

तमवहरिणरिंदहु समरि भिडिउ ।

परिपालियखत्तु व रायउत्तु ।

सोहइ णावइ दहवयणु वीउ ।

णं तियसाणीकरघुसिणुपिहु । 10

णं खयररायतणुरुहिरतल्लु ।

घत्ता—हर्यसीयउं कयरणागमणु अहरत्तउ सउंर्हाइयउ ॥

दीहरपंहरीणें राहविण रवि परवारुं व जोइयउ ॥ २ ॥

3

दुवई—पुच्छिउ तेण तेत्थु णियपरियणु वालमरालगामिणी ॥

कहिं सा सीय भणसु भो लक्खण सइगुणरयणसामिणी ॥ छु ॥

तं णिसुणिवि भायरु कहइ एंव

जावहि हउं अच्छिउ सरैवरंति

विण्णवइ एंव भिच्चयणु सव्वु

एंवहिं जाणइ दीसइ जियंति

तं णिसुणिवि मुच्छिउ पडिउ रामु

सीयल्लु विसु विसु व ण संति जणइ

णालिणु वि सूरहु सयणत्तु वहइ

पियविरहुं जलइइ सिहि व जलइ

जावहिं तुहुं गउ मृगमग्गि देव ।

तावहि जि ण दिट्ठी उववणंति ।

कंदइ उब्भियकरु गालियगव्वु । 5

जइ तो तुहुं पुण्णाहिउ ण भंति ।

जलसिंचिउ उट्ठिउ खामखामु ।

हरियंदणु सिहिकुल्लु अंगु छणइ ।

सयणीयलि घित्तउ देहु डइइ ।

चमराणिल्लु तासु सहाउं घुलइ । 10

घत्ता—सरु गेयहु वहरिविमुक्कसरु कव्वु कायकव्वासउ ॥

विणु सीयइ भावइ राहवहु णाडउ णाडयपासउ ॥ ३ ॥

५ APT विक्रिण्णउ पत्तुदियतरालु. ६ A दिसिकामिणिकररत्तु फुल्लु. ७ AP हिय°. ८ A सविहायउ, P सउहाइउ. ९ P °पहरेण. १० AP परिवारु वि जोइउ.

3 १ A सयगुण°. २ AP गउ तुहुं भिग°. ३ A सरवणंति. ४ P तइ. ५ A विरइजलइइ. ६ A सहासु.

6 a विक्रिण्णउ विकीर्णो यत्र तत्र पतितः; दियतपारु दिगन्तपर्यन्त प्रातः. 8 a उण्णइ पत्तु उन्नतिं प्रातः. 9 a °पउम सीउ पञ्जाना शीतं येन, अन्यत्र, वियोग प्राप्ते रामसीते येन. 10 b तियसाणी° इन्द्राणी. 11 b °तल्लु तडागः. 12 °रण्णा° आदित्यभार्या. पक्षे अरण्यागमनम्, सउहाइयउ समुत्तं धावित. सूर्यः. 13 परवारु परदार रावण इव.

3 2 सहगुण° सतीगुणाः. 8 a विसु जलम्, विसुव विपणिव, b सिहिकुल्लु अंगु छणइ अग्निकुलं अङ्गं दहति चन्दनकाष्ठजातित्वात्. 10 a जलइइ जलाद्रवस्त्रेण, b सहाउ सहायः सप्ता. 11 कायकव्वासउ शरीरमासभक्षकम्. 12 णाडउ नाटकम्; णाडयपासउ नाटकवन्धनम्.

4

दुवई—जलि थलि गामि गामि पुरि घरि घरि गिरिकंदरणिवासण ॥
जोयैह कहिं मि घरिणि जइ जाणह बहुदुग्गमपवेसण ॥ छ ॥

अवियाणितं जगि को कहइ कासु
सइं काणणि रहुवइ हिडमाणु
रे हंस हंस सा हंसगमण
चंगउं चिम्मक्कहुं सिक्खिओ सि
रे कुंजर तुह कुंभत्थलाइं
सारिक्खउं लइयउं एउ काइं
सारंग कहहिं महु जणयधीय
अलि घरिणिकेसणिद्धत्तचोर
ण वियाणहि कंतहि तणिय वत्त
णच्चंति दिट्ठ भणु कहिं मि देवि
रे कीर ण लज्जहि जंपमाणु

पेसिय किंकर दससु वि दिसासु ।
पुच्छइ वणि मिगइं अयाणमाणु ।
पइं दिट्ठी कत्थेइ विउलरमण । 5
महुं अकहंतु जि खल किं गओ सि ।
णं महुं महिलाइ थणत्थलाइं ।
भणु कंतइ कहिं दिण्णइं पयाइं ।
णयणाहिं उवजीविय पइं मि सीय ।
णिसि सररुहदलकयबंधणार । 10
रे णीलगीव घणरामवत्त ।
इयरह कहिं णच्चहि भाउ लेवि ।
जइ दिट्ठउं पइं मुद्धहि पमाणु ।

घत्ता—णिरु विरहें झीणउ दासरहि देविहि अज्जु जि सुच्चहि ॥
णीसेसजीवसंतावहर मेह दूर्थउ तुहुं वच्चहि ॥ ४ ॥

15

5

दुवई—अइउकंठिण धरणीसें सज्जणादिण्णजीययं ॥
ता दिट्ठं मयच्छियणकुंकुमर्पिजरं उत्तरीययं ॥ छ ॥

दीसइ वंसग्गविलंबमाणु
णं दावइ कंतहि तणिय वट्ट
णं उन्मिय सीयइ सइवडाय

णं रिउं गयगयणंगणणिवाणु ।
इह दहमुहमारियइं पयट्ट ।
तं लेप्पिणु किंकर झ त्ति आय । 5

4 १ A जोवहु, २ A वणमिगइं, ३ A कत्थवि, ४ P चिमक्कहुं, ५ A णं महु महिलाहि
घणयणयलाइ, ६ A किं, ७ A घणरावमत्त, P घणरामपत्त; T घणरावमत्त अतिशयेन रमणीयपिच्छ.
८ AP दूड.

5 १ AP °पिंजरि, २ A णं रिउ गयणंगणि णिजमाणु, ३ AP °मारीयव.

4 6 a चिम्मक्कहु गन्तुम्, 9 a जणयधीय जनकपुत्री सीता, b उवजीविय सादस्य
प्राप्तिता, 10 a °निद्धत्त° निग्गक्कान्तिः, b °बंधणार वन्धनयुक्त, 11 b घणरामवत्त अतिशयेन-
रमणीयपिच्छ, 13 b पमाणु वचनम्, चिद्धम्.

5 3 b °निवाणु निदान कारणं चिद्धम्, 4 a वट्ट मार्ग, b पयट्ट प्रवृत्तौ गन्तुम्, 5 उन्मिय
ऊर्ध्वश्रिता; सइवडाय उन्मीत्यताका.

आलिङ्गितं रामे जीससेवि
जंपितं णिय सुंदरि खेयरोहिं
सहुं लक्खणेण संदेहि छुदु
तावायउ दूयउ दसरहासु
उच्चाइवि तं सहसा सिरेण
दसरहु जिणं चरणं भोयमसलु
मइं दिट्ठुं सिविणउं हयविलासु

पुणु वाहुल्लइं णयणइं पुसेवि ।
मायाविण्हिं रणदुद्धरेहिं ।
जामच्छइ पहु किं कज्जमूदु ।
तें घित्तु पत्तु आलिहिउ तासु ।
इय वाइउं देवे हलहरेण । 10
उवइसइ सुयहं णियदेहकुसलु ।
हिय राहुं रोहिणि ससहरासु ।

घत्ता—एकल्लउ ससि णहयलि भमइ अवलोइवि अवहारिउं ॥
वज्जरिउं पहाइ पुरोहियहु तेण वि मज्जु विरारिउं ॥ ५ ॥

6

दुवई—जो दिट्ठुउ विडप्पु सो रावणु जा णिसि पइं विलोइया ॥
रोहिणि तुहिणकिरणविच्छोइय सा तुह सुयविओइया ॥ छ ॥

परमत्थे जाणसु राय सीय
जा हिप्पइ सां पुणरवि णिरुत्तु
जे चक्कवट्ठि पालइ सजीव
ताहि सायरि लंकादीवु अत्थि
पुरि लंक राउ दहवयणु णाम
आयण्णिवि विसरिसविसम वत्त
हिंसंततुरय गज्जंतणाय
आवेप्पिणु तणयासोक्खहेउ
दुम्मणु जोइवि रिउमइणेण

अज्जु जि खयरिंदे घरहु णीय ।
ता किज्जइ णियदेहहु पयत्तु ।
भरहंतरालि छप्पण दीव । 5
अण्णु वि तिकूह गिरि मणिगभत्थि ।
णिय तेण सीय रामाहिराम ।
ते वे वि भरह सत्तुहण पत्त ।
सामंत सुहड दसदिसिहिं आय ।
ससुरेण णिहालिउ रामएउ । 10
गलगज्जिउ तेत्थु जणइणेण ।

घत्ता—रिउ जरकुरंगु महु आवडइ हउं हरि उद्धेयकेसरु ॥
जइ दुट्ठु दिट्ठिगोयरि पडइ तो मारमि लंकेसरु ॥ ६ ॥

४ P रणि दुद्धरेहिं. ५ AP जिणकमलभोय°. ६ A राहें. ७ AP विरारियउ.

6 १ A सो. २ A जो. ३ उद्धयकेसरु.

6 b वा हु ल्लइ वाष्पैराद्राणि. 8 a संदे हि छुदु सदेहे पतितः. 12 b राहु राहुणा; ससहरासु चन्द्रस्य. 13 अवहारिउं अवधारित चित्ते धृतम्.

6 1 विडप्पु राहु. 2 सुयवि ओइया सुतवियुक्ता सीना. 4 a जा यावत्, हिप्पइ आनी-यते. 5 a सजीव जीवसहिता., b छप्पण दीव रत्नद्वीपसुवर्गद्वीपलङ्काद्वीपप्रभृतर.. 6 b मणि-गभत्थि मणिकिरण. 7 b रामाहिराम त्रीणा मनोहरा. 9 a °णाय गजा.. 12 आवडइ आभाउने, हरि सिंहः.

7

दुवई—सीयागुणविसेससंभरणचुयंसुयसित्तवसुमई ॥

उम्मोहिउ विओयविसघारिउ कह व णिवेहिं मंहिवई ॥ छ ॥

पियंविप्पओयकहमणिमण्णु	जांवच्छइ सेज्जायलि णिसण्णु ।
तावाय वेण्णि खग विमलदेह	णं रामसासथिरकरणमेह ।
णं सीयामग्गपयासदीव	वेण्णि वि पणवेप्पिणु थिय समीव । 5
संमाणिय हरिणा संणिसण्ण	सुहिदंसणरुहरोमंचभिण्ण ।
वोलाविय वेण्णि वि दिव्वकाय	कहुं तुम्हई किं किर एत्थु आय ।
तं णिसुणिवि भासइ जेहु खयरु	खगदाहिणसेढिहि अत्थि णयरु ।
णामें किलिकिलु कलहंससहिय	जहि विविहवास चोरारिरहिय ।
तहिं मँहु वल्लिंदु माणियपियंगु	तहु धण पियंगंसुंदरि पियंगु । 10
सामल सलोण उहुणिहणहालि	तहि पढमपुत्तु णामेण वालि ।
हउं लहुयारउ सुग्गीउदेव	अणवरउ करमि णियपियरसेव ।

घत्ता—ता तेत्थु मरतें पुरि पिउणा वालि रज्जि वइसारिउ ॥

हउं जुवराणउ कउ मइ जर्णणि दाइएण णीसारिउ ॥ ७ ॥

8

दुवई—सुणि रायाहिराय हे हलहर मंणिमयसिहरमंदिरे ॥

तित्थु जि रययसिहरि खगसेढिहि खणरुइकंतपुरवरे ॥ छ ॥

विज्जाहरु णामें अत्थि पवणु	लीलाणिहि वेयविजित्तपवणु ।
तहु अंजण मणरंजणवियार	महपवि वूढसिंगारभार ।
इहु मेरउ सहयरु गयगईहि	तहि जायउ गत्थि महासईहि । 5
पांडेउ पहु भहु विज्जाणिकेउ	जगि बुच्चइ एहु जि मयरकेउ ।
एक्कहिं दिणि कोक्किवि खयरलक्ख	एपं दिण्णी विज्जापरिक्ख ।

7 १ A वसुपई. २ P has ता before पिय°. ३ P °णिसण्णु. ४ A पहु. ५ AP पियंगु-
नुदरि. ६ A जणेण.

8 १ A रमणिगणदित्तमदिरे, P रमणियसियमदिरे.

7 3 a °विप्पओय° वियोगः. 4 b °सास°सस्यं उच्छ्रासश्च; °मेह मेघो मेघा च. 6 b °दसण-
रुह° दर्शनोत्सन्नाः. 7 b कहु वेपाम्. 9 b °वास आवासाः गृहाणि. 10 a महु मम पिता; मा णिय-
पियंगु मुत्तप्रियादरि; b धण भार्या, पियंगु प्रियद्वारिव ध्यामा. 11 a उहुणिहणहालि नक्षत्र-
सदृशनरपक्ति. 14 मइजणणि मृते पितरि, दाइएण भ्रात्रा.

8 2 सणरुइकंत° विद्युत्कान्तम्. 3 b वेय° वेगः 5 a गयगईहि गजगाभिन्त्याः.

गिरिसिहरि णिवेसिउ एक्कु पाउ
दीहुड्डु पसारिउ गयउ ताम
पुणु रूवु धरिउ तसरेणुमेत्तु
पेक्खिवि सहायसाहसु अभेज्जु
काले जंते तं हित्तु पुणु वि
गय वेणिण वि जण माणिक्कचूड

अण्णेक्के दिण्णु उहंडवाउ ।
गयणंगणि ससि दिवसयरु जाम ।
अणुमेत्तु मिलिवि खयेरेहि वुत्तु । 10
वालें महु दिण्णुं जंउवरज्जु ।
आसंक्खिवि ते सहुं ण किउ रणु वि ।
संमेयजिणालउं सिद्धकूड ।

घत्ता—तसथावरजीवहं दय करिवि धम्मि थवेप्पिणु अप्पउ ॥

तहिं देहिदेहदुहणासयरु वंदिउ जिणु परमप्पउ ॥ ८ ॥

15

9

दुवई—जय देविंदचंदखयरिंदफणिंदणरिंदपुज्जिया ॥

जय णिट्ठवियदुट्ठकम्मट्टट्टारहदोसवज्जिया ॥ छ ॥

ण भोपसु कंखा

ण णिदा ण भुक्खा ।

ण तण्हा ण सोओ

ण राओ ण रोओ ।

ण चावं ण वेरी

ण तांणं ण मारी ।

5

ण कायं ण चेले

ण सीसं सिहालं ।

ण णिंदा ण थोत्तं

ण मुद्दापवित्तं ।

ण हिसाइ सग्गो

ण सोँडालमग्गो ।

ण गोभूमिदाणं

ण वेओ पमाणं ।

ण चर्ममुत्तरीयं

ण जण्णोववीयं ।

10

उरे णत्थि सप्पो

मणे णत्थि दप्पो ।

पसूणंतयालं

करे णत्थि सूलं ।

सिरे णत्थि गंगा

जडंगोवियंगा ।

भवाणी ण देहे

रई णो सैणेहे ।

पुरारी ण कामी

तुमं मज्ज सामी ।

15

२ P adds वि after अण्णेक्कु. ३ A जुउविरज्जु, P जुउवरज्जु.

9 १ AP °पुज्जिय. २ AP °वज्जिय. ३ AP पाओ. ४ AP ताव. ५ A ण काय सुचेले;
P ण काये सुचेले. ६ AP ण मुद्दा ण वित्त. ७ A ण सो जण्णमग्गो. ८ AP ण वेउप्पमाणं.
९ A वंसुत्तरीयं. १० P जडंगोवियंगा ११ AP सणाहे.

8 b उहंडवाउ उहण्डपातः. 11 b वालें वालिना, जउवरज्जु यौवराज्यम्.

9 4 b रोओ रोगः. 5 b ता ण हरवत्त्थिरक्षणम्. 6 a ण काय सिद्धत्वादर्शरीः; b सिहाल
जटायुक्तम्. 7 b मुद्दापवित्तं मुद्रिका पवित्रीदर्भादिका. 8 a सग्गो स्वर्ग; b सोँडालमग्गो कल्पमाल-
मार्गः. 12 a पसूणंतयाल पशूनामन्तकालम्. 13 b जडंगोवियंगा जटायो गोपितशरीरा.
14 a भवाणी पार्वती. 15 a पुरारी त्रिपुरशत्रुः.

जिणो मोक्खहेऊ भवंभोहिसेऊ ।

घत्ता—जय परमणिरंजण जणंसरण वीयराय जोईसर ॥

जलि पत्थरि पाणिइ धम्मु णउ तुहुं जि धम्मु परमेसर ॥ ९ ॥

10

दुवई—दिणयरु हरइ तिमिरु सलिलु वि तिस खगवइ विसवियंभियं ॥

जिण तुह दंसणेण खाणि णासइ गुरुदुरियं णिसुंभियं ॥ छ ॥

इय वंदिवि जिणवरु सेस लेवि

खणु एक्कु जाम तहिं थक्क वे वि ।

ता तेयवंतु णं विञ्जुदंहु

णं सुरवरसरिडिंडीरपिंहु ।

वियडजडजूहु विवरीयवाणि

मणिरयणैकमंडलु दंडपाणि । 5

खणखाणियमाणियणैणियक्खसुत्तु

कोवीणकणयकाडिसुत्तजुत्तु ।

ससहरु व विसाहारूढगत्तु

असुरसुरसमरसंणिहियचित्तु ।

सोत्तरियफुरियउववीयवंतु

ता दिट्ठउ णारउ गयणि पंतु ।

अरहंतु णवेप्पिणु सुहुं णिविट्ठु

अम्हहिं संभासणु करिवि दिट्ठु ।

तुहुं जाणहि णिसुयसुयंगरिद्धि

पुच्छिउ पावेसहुं किह सरिद्धि । 10

मुहुं वंकइ संकइ वालि कासु

को देसइ कुलरजावयासु ।

ता दाणवमाणवरणरण

विहँसेप्पिणु वोळ्ळिउं णाररण ।

घत्ता—भो खेयरपहु भूगोयरु वि धुउ तिजगुत्तमु भावहि ॥

सेवहि रामहु पयपंकयइं जइ तो कुलसिरि पावहि ॥ १० ॥

11

दुवई—अणु वि हरिणणयण णियपणइणि तासु दसासराइणा ॥

विरसियअमरडमरडिडिमरवरिउवहुतासदाइणा ॥ छ ॥

दुक्खेण ण याणइ दियहु रत्ति

जो दावइ कंतहि तणिय थत्ति ।

१२ P जगसरण.

10 १ AP विजदहु. २ AP मणिरइय°. ३ A °गलियक्ख°. ४ A सहु. ५ A विहसेविणु.

18 पाणि इ जले.

10 1 खगवइ गच्छः; वि स वि यं भि य विषविजृम्भितम्. 2 णि सुं भि यं चूर्णितं सत् नश्यति. 6 a गणि वक्खसुत्तु गणितजपमाल. 7 a विसाहारूढगत्तु विशाखानक्षत्रारूढश्चन्द्रः, पादुकारूढो नारद. 13 खेयरपहु विद्याधरप्रभो.

11 1 दसासराइणा दशास्येन रावणेन. 2 विरसियेत्यादि विशेषेण रसितः शब्दितः स चासी अमराणा इमरो भयानको डिण्डिमरवः, तेन रिपणां बहुत्रासदायिना.

सो जाणमि जिह भमरहु सुगंधु
 लब्भइ मणोज्जकज्जेण कज्जु
 तं णिसुणिवि आया एत्थु राय
 ते णहयर पुज्जिय राहवेण
 हणुमंतं मग्गियपेसणेण
 भो दसरहणंदण णंद णंद
 णियरामालोयणकयपयत्त

तिह रामहु होसइ परमवंधु ।
 सो देसइ तुंइ सुग्गीव रज्जु । 5
 जलयग्गिसिगसंणिहियपाय ।
 संभासिय तोसिय माहवेण ।
 जंपिउ णवजलहरणीसणेण ।
 मा झिज्जहि सज्जणकुमुयचंद ।
 हउं आणमि सीयहि तणिय वत्त । 10

घत्ता—सुग्गीवहु मुहुं पप्फुल्लियउं मित्तवयणु पडिवण्णउं ॥

अहिणाणु लेहु अंगुत्थलउं रामे हणुयहु दिण्णउं ॥ ११ ॥

12

दुवई—ता णविउं पयाइं हलहेइहि णवदलणालिणाणिहमुहो ॥

उल्ललिओ णहेण पवणो इव चलगइ पवणतणुरुहो ॥ छ ॥

तओ तेण जंतेण दिट्ठो समुहो
 जलुम्मग्गणिम्मग्गवोहित्थवंदो
 झसप्फोडफुट्टंतसिप्पीसमूहो
 दिसादुक्कणक्कुग्गयंतं करालो
 पवालंकुख्केरराहिल्लरूहो
 सुभीसो असोसो असेसंवुवासो
 सरीसंगतुंगत्तणालीढरिक्खो
 करिदो व्व गाढं गहीरं रसंतो
 णरिदो व्व धीरो समजायवंतो
 गिरिदो व्व रेहंतमाणिकमोहो

पधावंतकल्लोलमालारउहो ।
 अथाहंभपवभारसंकंतचंदो ।
 णहुक्खित्तमुत्ताहलो भाणुरोहो । 5
 चल्लुप्पिच्छपल्हत्थवेलाविसालो ।
 पगज्जंतमज्जंतमायंगजूहो ।
 विडिदु व्व पीयाहरो ढंक्रियासो ।
 अलंकारओ कूलकीलंतजक्खो ।
 अहिदो व्व पायालमूले विसंतो । 10
 रिसिदो व्व अंतोमलं णिग्गहंतो ।
 सुरिदो व्व देवासिओ दिण्णसोहो ।

11 १ A °कजाण कज्जु. २ P तुम्हं. ३ A पफुल्लियउ, P पफुल्लियउं.

12 १ P has गउ before उल्ललिओ. २ A झसुप्फाल°. ३ P चलप्पत्थ°. ४ A अत्तेनो.
 ५ AP °रिखो. ६ AP वीरो.

6 b जलयग्गिसिग° मेघमस्तके. 7 b माहवेण हरिणा.

12 1 हलहेइहि हलप्रहरणस्य रामस्य. 4 a °वोहित्थ° नौः, b सकतचंदो प्रतिविम्बित-
 चन्द्रः. 5 a झसप्फोड° मत्स्यानामास्फालन सघट्ट, °सिप्पी° शुक्तिका, b भाणुरोहो किरणरोध.
 6 a दिसादुक्कणक्कुग्गयत दिग्गासु दौकितनक्केरुक्कं भीष्मं अन्न मध्यवथा भवति तथा, b चल्लुप्पिच्छ-
 पल्हत्थवेलाविसालो ऊर्ध्वोच्छलितव्याघुटितवेलाविशाल. 7 a °गहिल्लरूहो शोभमानतटः.
 8 b पीयाहरो पीताधर, अन्यत्र पीता व्याता आसमन्ताद्दग धेन, टंक्रियासो प्रच्छागितमुस प्रच्छा-
 दितदिशश्च. 9 a सरीत्यादि नदीसङ्गतुङ्गत्वेन स्पृष्टनक्षत्रः, b अटंकारओ न विद्यते लङ्काया रदो चिनासो
 यस्मात्. 12 a °मोहो °मयूखः °किरण.

घत्ता—गंभीरु घोरु आवत्तहरु लीलाइ जि आसंधिउ ॥
संसारु व परमजिणेसरिण सायरु हणुपं लंघिउ ॥ १२ ॥

13

दुवई—खेरिचरणघुसिणमसिणारुणरयणसिलायलामलो ॥
दीसइ तहि तिकूहु गिरि दरितरुवियसियकुसुमपरिमलो ॥ छ ॥

लंवंतरत्तपत्तोहतंवु	गुरुसिहरालिंगियसूरविंवु ।	
वेलापत्रखलणाविसट्टकंवु	किणरसुंदरिसेवियणियंवु ।	
णाइणिणेउरवहिरियदियंतु	णच्चियजक्खिणिरसभाववंतु ।	5
करिमयकहमखुप्पंतहरिणु	गुमुगुमियभंमिरछच्चरणसरणु ।	
हिडंतकालणाहलकुडंवु	खेळंतसरहसरहससिलिंवु ।	
णउलउलफणिउलाढत्तसमरु	चमरीमयचालियचारुचमरु ।	
हरिकुंजरकलहकलालवंतु	चुयरत्तलित्तमोत्तियफुरंतु ।	
दुमणियरगलियमहुंवारियेभु	सवरीपरियंदणसुत्तडिंभु ।	10
हयमुहकिलिक्किंचियसहरम्मु	महियरदुग्गमु णहयरहं गम्मु ।	

घत्ता—णावइ णिउणइ महिकामिणिइ एइ सग्गपरिउदहु ॥
गिरिणियकरु उच्चिचि णिहिय तहि दाविय लंक सुरिंदहु ॥ १३ ॥

14

दुवई—परिहादारतोरणट्टालयधयजयलच्छिसंगमा ॥
लंकाणयरि दिट्ट हणुमत्ते मणिपायारदुग्गमा ॥ छ ॥

दीहत्ते वारह जोयणाइं	वित्थारें णव हियलोयणाइं ।	
वत्तीस विसालइं गोउराइं	मोत्तियमरगयवडियइं घराइं ।	
जहिं घुलइ रेणु कप्पूररेणु	सुरतरु तरु धेणु वि कामधेणु ।	5

७ AP आसंधियउ. ८ AP लंघियउ.

13 १ AP 'भमिय'. २ AP हिडतकोल°. ३ AP संछाइयतरुदलसूरविंवु. ४ A 'किलाल-
वतु. ५ AP 'महुपाणयिभु. ६ AP हयमुहि°. ७ पडिउदहु.

14 १ AP हणवत्ते.

13 ३ a 'पत्तोहनवु पत्रसमूहेन ताप्र.. 4 a 'विसट्टकवु 'भग्गखलः. 6 b 'ममिर' पर्य-
यन्तीला., 'सग्गु गम्. 7 a 'णाहल' भिद्धाः, b 'सिलिंवु' वालक.. 9 a 'कलहकलालवतु
'कलहकलालवतु मन् मनोज आलपन् वदन्, b चुयरत्त' च्युत्तं रुक्मिम्. 10 b 'परियंदण' आन्दोलनम्.
11 a 'किलिक्किंचिय' सुरतयद्.. 12 सग्गपरिउदहु स्वर्गत्य प्रतिविम्बं एति. 13 गिरिणियकरु
गिरिणिव निन्दस्.

वणु णहवणु वेह्लि वि णायवेह्लि
 जरु विरहजरु जि णउ अत्थि अणुणु
 घरु सिरिघरु चोरें वि चित्तचोर
 वउ णववउ रूवु वि णिरु सुरूवु
 रिणु तिलरिणु वंधणु पेम्मबंधु
 कामिणि खगकामिणि अलिवमालु
 दीव वि जलंति माणिक्कदीव
 गुणुं जिणगुणु धम्मु अहिसधम्मु
 किं वण्णामि भूमि वि भोयभूमि

रणु रहरणु भल्लि वि मयणभल्लि ।
 बहुवण्णंचित्तु णउ चाउवण्णु ।
 वज्झंति केस रोवंति मोर ।
 रिसि खीणदेहु वम्महु विरूवु ।
 जलु चंदकंतजलु दलु सुगंधु । 10
 धूमु वि कालागरुधूमु कालु ।
 जीव वि वसंति जहिं भव्वजीव ।
 फलु पुण्णफलु जि कम्मु वि सुकम्मु ।
 सामि वि दहमुहु खयरायसामि ।

घत्ता—एक्केकउ जो गुण संभरइ सो तहु अंतु ण पेक्खइ ॥ 15
 जंगसुंदरत्तु लंकाहि तणउं कवणु कईसरु अक्खइ ॥ १४ ॥

15

दुवई—कलरवु रुणुरुणंतमाणिणिमुहमंडणु जणमणिट्टओ ॥

छटयणरूवधारि ता पावणि रावणभवाणि पइट्टओ ॥ छ ॥

चक्केसरु वरलक्खणपसत्थु
 णं गिरिसिहरासिउ णीलमेहु
 चामीयरवीढि णिहित्तचरणु
 विज्जिज्जइ चलचमरीरुहेहिं
 गाइज्जइ सरगयभावपहि
 दीसइ णवकप्पहुमफलेहिं
 मउडग्गरयणमहियललिहेहिं
 चित्तइ मारुइ उव्विण्णचित्तु

दिट्टउ दहमुहु सीहासणत्थु ।
 पण्णारहचावपमाणदेहु ।
 वलवंतकालु वलहीणसरणु । 5
 वण्णिज्जइ वरवंदिणमुहेहिं ।
 सलहिज्जइ सुरणरसेवपहिं ।
 माणससरवररत्तुप्पलेहिं ।
 पणविज्जइ सुरवइसंणिहेहिं ।
 हा एण णिहित्तं परकलत्तु । 10

घत्ता—एसज्ज एउं एवहु कुलु तो वि कैयउं सकलंकणु ॥

हयविहि सुवण्णभिगारयहु खप्परु दिण्णउं ढंकणु ॥ १५ ॥

२ AP विरहजरु णउ. ३ A बहुवण्णु चित्तु गउ वाउवण्णु, P बहुवण्णु चित्तु णउ वाउवण्णु.
 ४ AP चोरु वि चित्तचोर. ५ A णिरुवु. ६ A गुण जिणगुण. ७ AP जगि सुंदरत्तु.

15 १ A ओविण्ण°. २ AP वि हित्तउ. ३ P कयं सकलंकणु.

14 6 a णहवणु नत्सवणम्, न तु कत्य शल्लघात. 9 a वउ वपुः वयो वा. 10 a तिल-
 रि णु स्नेहकणम्. 11 a अलिवमालु भ्रमरकोलाहलः.

15 1 जणमणि ट्टओ जनमनसि इट्टः. 2 छटयणं भ्रमर. 5 b वलवंतकालु चलवडा
 यमः. 11 एसज्ज एउ ऐश्वर्यमेतत्; सकलकणु सकलकृत्यम्, 12 ढंकणु आञ्जानदनम्.

16

दुवई—पुणु णिवसवणपूरकत्थूरियपरिमलगहणकुसलओ ॥

दहमुह देहि सीय मा णासहि णं गुमुगुमइ भसलओ ॥ छ ॥

सो सइं जि कामु णं कामवाणु

तरुणीविंवाहरि दुक्कमाणु ।

कोमलकरयलवारिज्जमाणु

चमराणिलेण पेरिज्जमाणु ।

थणजुयलि णाहिमंडलि युलंतु

पिंछहि क्वोलैपत्तइं दलंतु । ५

कुडिलालयपंतिउ दरमलंतु

मुहकमलवाससासहु चलंतु ।

थिउ दारि सहइ णं इंदणीलु

थिउ भालि गहियवरतिलयलीलु ।

थिउ उरि पियपहरकिणंकु णांइं

थिउ मणि सरसरपुंखु व सुहांइ ।

थिउ कण्णमूलि णं मम्मणांइं

वोल्लइ मणियांइं घणघणांइं ।

थिउ उरुयलि सहइ सुराहि

णं किंकिणि कामिणिमेहलाहि । 10

वत्ता—सो महुयरु वम्महु किं भणामि णारिहिं वयणंइं चुंवइ ॥

जाइवि खयरिंदहु रयणमइ कुंडलकमलि विलंवइ ॥ १६ ॥

17

दुवई—युज्झिवि णयणवयणतणुलिंगहिं सीयारइवसं गयं ॥

दहवयणं विमुक्कणीसासरुहाणलतावियंगयं ॥ छ ॥

गउ अलि पुरपच्छिमगोउरग्गु

आरूढउ जोर्यइ वणु समग्गु ।

दिट्ठी वणासिरि सहं खेयरीहिं

सीय वि परिवारिय खेयरीहिं ।

वणु देइ ससाहिहिं रामविरहु

सीयहि पुणु वट्टइ रामविरहु । ५

वाणि लोहियाउ पत्तावलीउ

सीयहि पुसियउ पत्तावलीउ ।

वाणि पमयइं फलसारं गयाइं

सीयहि झीणंइं सारंगयाइं ।

वाणि पत्ताहि तेत्ताहि वेल्लिवलय

सीयहि थिय पसिढिल वाहुवलय ।

वाणि खेहइ हरिसिज्जइ वि हंसु

सीयहि वट्टइ जीवियविहंसु ।

16 १ P भसलओ. २ A विवाहरं. ३ A क्वोलि. ४ AP °सासवासहु. ५ AP हारि.
६ A माइ. P जाइ. ७ AP विहाइ. ८ AP मणियांइं व वणं. ९ AP वत्तइं.

17 १ P जोइय. २ P झीणाइ.

16 २ मा णासहि विनाशं मा गच्छ ७ a कुडिलालयं कुडिलालकाः, b °सासहु
°श्रामस्य. 7 b भालि ललाटे 8 a पियपहरकिणंकु मर्तृकदत्तनखकणिका b सरसरपुंखु त्तराण-
पुंमत्. 10 a सुगणि सुगोभमानायाः.

17 २ °णांमानदणलं नि वासोत्वसोऽग्निः. 4 a खेयरीहिं पक्षिणीभिः. ५ a ससाहिहिं
स्वमागमभिः; रामविरहु गमाणा स्त्रीणा विधिष्टं गृहः प्रच्छादनमेकान्त वा. 6 b पुसियउ परामृष्टाः.
7 a पमयइ मर्त्या, b सारंगयाइ सारभूतगरीगाणि. 9 b जीवियविहंसु जीवितव्यविध्वंसः.

वणि दिसमुहि सोहइ लग्गु तिलउ
वणि तरुवंदइं रूढंजणाइं
वणि साहारु जि मारइ पियत्थि
भडसत्ति व वलविहडणविसण्ण
तं सीसवितलु खगभमरु आउ

सीयहि णिडौलु णिल्लुहियतिलउ । 10
सीयहि णयणइं विगयंजणाइं ।
सीयहि साहारु ण को वि अत्थि ।
जहिं अच्छइ परमेसरि णिसण्ण ।
णं वइदेहीजीवियहु आउ ।

घत्ता—पडिंविंविउ दहहि वि पयणहहि आसण्णउ परिघोलइ ॥ 15
सो छण्णउ सीयहि कमकमलु पसरियपत्तहिं लोलइ ॥ १७ ॥

18

दुवई—सीयासावभाउ णं भीसणु णं हुयवहु समिद्धओ ॥

असरिससुहडचक्कचूडामणि पावणि मणि विरुद्धओ ॥ छ ॥

सीयहि केरउ दुचरित्तरहिउं
णियहियवइ चितइ अंजणेउ
मैरु मारमि अज्जु जि रणि दसासु
पइवय णीरय पइवद्धपणय
णं णं हउं दूयउ राहवेण
किकरु पहुवयणुल्लंघणेण
अक्खमि भत्तारहु तणिय वत्त
इय चित्तिवि अवसरु मग्गमाणु
अत्थमिउ सूरु ता उइउ चंदु
आपंहु गंडमंडलि घुलंतु
अरुणच्छवि णं रामणहु कुद्ध
अहवा लइ ससहरु कि ण चारु

तणुच्चिंधु पलोइवि रामकहिउं ।
परणारिदेहसंतावहेउ ।
गलि लायमि कालेकियंतपासु । 5
वाणारसि पावमि जणयतणय ।
पट्टविउ मज्जु कि आहवेण ।
णिदिज्जइ हियकारि वि जणेण ।
मा मरउ महासइ चारुणेत्त ।
जा णिहुयंगउ थिउ कुसुमवाणु । 10
णं सीर्यहि दुहवल्लरिहि कंदु ।
तहु तेउ डहइ अग्गि व जलंतु ।
णहसरि णं सियसररुहु विउद्धु ।
णहसिरिकरदप्पणु अमयसारु ।

३ AP णिलाडि. ४ P तै.

18 १ AP °भाव. २ A दुचरित्तु. ३ AP °देहु सताव°. ४ P पर. ५ AP कालकयंत°. ६ A सीयादुह°.

10 a दिसमुहि दिशामुखे. 12 a साहारु आम्रवृक्ष., पियत्थि प्रियार्थिनः, b साहारु साधार. धीरत्वदाता. 13 a वलविहडणविसण्ण वलस्य चातुरङ्गस्य बलभद्रस्य वा विघटन वियोजन वा. 14 a सीसवितलु शिगपावृक्षतलम्. 16 °पत्तहिं पक्षैः.

18 1 °भावभाउ °शापभाव. २ असरित्त° अनुपमा., पावणि हनुमान्. b a पीनद निपापा; पइवद्धपणय पतिवद्धनेहा. 10 b णिहुयंगउ निभृताङ्गः. 11 b कहु कन्दो मेयो वा. 13 a अरुणच्छवि उदये सति रत्तवर्णो भवति; b णहसरि नभ.सरसि, विउद्धु विकसितम्.

मिगंमुहइ मुदिउं कंतिपिंहु
मेहलियहि णं संतोसकारि

पियलेहहु केरउ णं करंहु ।
खेयरणाहहु णं पाणहारि ।

15

घत्ता—जणलोयणणियरणिवासघरु सुहणिहि अमयकलालउ ॥

ससि सीयं वि रामणतणु डहइ णं खयसिहिसिहमेलउ ॥ १८ ॥

19

दुवई—णं सहइ हसइ रसइ परु पुच्छइ माणिणिविसयसंगहं ॥

ढंकइ दोसणिवहु गुण पयडइ अहणिसु करइ संकहं ॥ छु ॥

सिरु धुणइ कणइ णीसासु मुयइ
परिभमइ रमइ णउ कहिं मि ठाणि
णायणणइ गेउ मणोज्जवज्जु
णउ णहाइ ण परिहइ दिव्वु वत्थु
णउ वंधइ णियसिरि कुसुमदामु
ण विलेवणु सुरहिउ अंगि^१ देइ
णउ भूसइ तणु णउ महइ भोउ
जहिं जाइ तहिं जि सो सीय णियइ
अंधारप वि संमुहउं घडिउं
पाणिउं वि पियइ सो तहिं ससीउ
करदीवदिउ उववणाहि चलिउ

सयणयलि पडइ अलियउं जि सुयइ ।
पियमित्तभवणि उज्जाणि जाणि ।
ण पउंजइ कि पि वि रायकज्जु । 5
णउ ढोयइ विविहाहारि हत्थु ।
णउ मणणइ खगकामिणिहिं कामु ।
विरहाउरु णउ अप्पउं विवेइ ।
णउ रुच्चइ तहु एक्कु वि विणोउ ।
वारिज्जइ दुक्की केण णियइ । 10
सीयहि मुहुं पेक्खइ दिसहिं जडिउं ।
परवसु वट्टइ वीसद्धगीउ ।
पियविरहहुयासं णां जलिउ ।

घत्ता—जहि अच्छइ णियडपरिद्वियउ अंजणतणुरुहु वालउ ॥

तहिं दहमुहु रइसुहु कहिं लहइ वम्महु जहिं पडिकूलउ ॥ १९ ॥ 15

20

दुवई—अह अणुकूलु होउ मयरद्धउ सीयहि सीलदूसणं ॥

किज्जइ कहिं मि वण्य खज्जोणं किं रवियरविहसणं ॥ छु ॥

थिउ सीयहि पुरउ खगिदु केम

णियमरणभवित्तिहि जीउ जेम ।

७ A मृग°. ८ AP णं खेयणाहहु. ९ A सीउ P सीवल.

19 १ A तसइ ण हसइ सरइ पर. २ A दिव्ववत्थु. ३ AP देहि. ४ A णियडि परि°.

15 a मिगमुहइ हरिणलाञ्छनेन 16 a मेहलियहि मैथिल्याः. 18 सीय वि शीतोऽपि, खयसिहि-
सिहमेलउ प्रत्ययान्ताग्निशिवामेलायक.

19 1 ण सइ अन्वयं न सहेत. 2 स कहं तस्या. समीचीना कथाम्. 3 b सुयइ स्वपिति.
1 b जाणि वाटने. 4 b विवेइ वेत्ति जानाति. 12 a सनीउ शीतयुक्त सीतायुक्त च; b वीसद्धगीउ
दशमीयो चरण.

पभणइ सत्तमु दिणु जइ वि पत्तु
 वित्थिण्णु मयरहरु कवणु तरइ
 दुग्गमु तिकूहु गिरि कवणु चडइ
 पायालपरिह जणजणियसंक
 जइ चितहि कुलु तो तुहुं जि कासु
 जइ चितहि परिहउ तो सलग्घु
 जइ चितहि एवहिं रामपेम्मु
 जइ चितहि सिरि तो हउं जि राउ
 हलि वीणालाविणि मणविमहि

पिइ तो वि ण किं संवरहि चित्तु ।
 तिमिगिलत्तंगिलगिलियंगु मरइ । 5
 कक्करि सयसक्करु होवि पडइ ।
 भूगोयरु पइसइ कवणु लंक ।
 पोसिय जणपं जणवयपयासु ।
 हउं उत्तमु भुवणत्तइ महग्घु ।
 तो तहु दंसाणि तुहु अण्णु जम्मु । 10
 किं लग्गउ तुज्जु सइत्तवाउ ।
 महएवि महारी होहि भदि ।

घत्ता—हलि सीय महारइ खग्गजलि आहंडलु वि णिमज्जइ ॥

आलिगाहि मइं सुललियभुयहिं रामे कि किर किज्जइ ॥ २० ॥

21

दुवई—करिसिररत्तलित्तमोत्तियणियरंचियकेसरालओ ॥

संतइ सीहि सीय ससहरमुहि कि रम्मइ सियालओ ॥ छ ॥

अच्छउ स गामु लक्खणु हयासु
 किं किज्जइ चरणविहूसणत्तु
 किंकरमहिलाहि किं तणुंगुणेण
 महु दासि वि तुहुं महएवि होहि
 उरयलु मेरउं लालउ विसत्थु
 अणुवसहुं एहि महु पंजलीइ
 महु खग्गाघायलंछणहरेण
 मा वहउ विणेउरु चरणजुयलु
 थिय सइ णियपिययमलीणाचित्त

दसरहु वि महारउ ताम दासु ।
 जइ लब्भइ हलि चूडामणित्तु ।
 किं पाउयाहि मणिमंडणेण । 5
 लच्छिहि पंतिहि कोप्परु म देहि ।
 मा मुसलकिणकिउ होउ हत्थु ।
 मा सलिलु वहहि फणित्तुंभलीइ ।
 खंडे रहुवइसिरखप्परेण ।
 करमरि कालायसलोहणियलु । 10
 उत्तरु ण देति पहुणा पउत्त ।

घत्ता—पइं सीइ अज्जु तिलु तिलु करमि भूयहं देमि दिसावलि ॥

पर पच्छइ दूसह होइ महुं विरहजलणजालावलि ॥ २१ ॥

20 १ A °तगिल°. २ AP जणवए पयासु. ३ AP हलि अण्णु

21 १ AP किं किर गुणेण. २ P मुसलु किणकिउ.

20 4 a पिइ प्रिये मीने; सवरहि रामसोपरि सकोचय. 5 b तिमिगिलेत्तादि तिमि-
 मत्स्यविशेषः स गिल्यते येन स तिमिगिल.. सोऽपि गिल्यते येन स नद्विल., तेन गिल्लिनाद्.. 6 b कक्क रि
 गिरिदन्ते, सयसक्करु शतरम्भड.. 8 b जणवयपयासु लोकप्रसिद्धि. 11 b सरत्तवाउ मनीत्ववान.

21 2 सतइ सीहि तिहे विद्यमाने सति. 8 a अणुवसहुं एहि निवासं रुक्. 9 a °लंछण-
 हरेण चिह्नधरेण. 10 a विणेउरु विगतनूपुरम्, b करमरि हे दासि.

22

दुवई—ता मंदोयरीइ दिण्णुत्तरु जंपासि सुयणगरहियं ॥

किं तियसिदवंदकंदावण रावण जुत्तिविरहियं ॥ छ ॥

हा पुरिस हुंति सयल वि णिहीण
कामेण तइ वि ते खयहु जंति
कहि काइहि रत्तउ रायहंसु
कहिं भूगोयरि कहिं खेयरिदु
दीसइ विद्धंसियतिमिरवंदु
महिलंतरु णर ण मुणंति कि पि
ता णियवरु गउ लज्जिवि दसासु
अवलोइय सीयाएवि ताइ
णं विउसमईइ सुकईत्तलीलं
ओलक्खिय पयजुयलंछणेण
मंजूसइ सहुं कथइ वणंति

घरघरिणि जइ वि उव्वसिसमाण ।
परघरदासिहि लग्गिावि मरंति ।
कहि खरि कहिं सुरकरिहत्थफंसु । 5
हा मयणजोगपरिणाणि मंदु ।
जिहं गंगाहि तिह वाहलहि चंदु ।
कामुय करंति दुचरित्तु जं पि ।
मयसुय दुक्की जाणइहि पासु ।
णं जलहिवेल ससहरकलाइ । 10
णं स जि ताइ सुविसुद्धसीलं ।
जा चिरु घल्लिय णिंदिय जणेण ।
सरिसरसीयलसिंचियदियंति ।

घत्ता—हा अंघडिउं घडिउं विहायएण इंदीवरदलणयणहु ॥

आणिय सा मेरी एह सुय कालरत्ति दहवयणहु ॥ २२ ॥

15

23

दुवई—जणणसुयाहिलासणियवइखयचिंतामउलियच्छिया ॥

मेइणियलि दइ त्ति णिवडिय मंदोयरि दुस्सहदुक्खमुच्छिया ॥ छ ॥

पच्छाइय कामिणिकरयलेहिं
विज्जियं पडिचमरुक्खेवएहिं
कह कह व देवि सज्जीव जाय
मुहकुहरहु वियलिय महर वाय

सिंचिय सुयंधसीयलजलेहिं ।
आसासिय चंदणलेवएहिं ।
भणु कासु अवच्छल होइ माय । 5
हा सीय पुत्ति तुहुं महुं जि जाय ।

22 १ A परिवाणि, P परिमाणि. २ A तिमिरचदु. ३ P omits जिह. ४ P सुकइत्तणेण.
५ P adds after this: णं जिणवरघम्म अहिंसणेण. ६ P adds after this: णं सुरसरीइ मयर-
हरलील. ७ P अवडिउं.

23 १ A जणणि. २ A omits दुस्सह°. ३ AP विज्जिय. ४ A ण वच्छल.

22 5 a का इ हि काकमार्यायाम्, b सुक्करिहत्थफंसु ऐरावणकरस्वर्श. 6 b मयणजोग-
परिणाति कामयाल्लग्नरिजाने. 7 b वाहलहि नगरजलवाहिन्याम्. 9 b मयसुय मयराजः पुत्री मन्दो-
दरी. 10 a सीयाएवि नीतादेवी. 11 b स जि सा सीता एव. 14 विहायएण विधाना.

23 1 जणणसुयाहिलासं पितुः पुत्रीवाच्या.

हा विलसिउं किं विहिणा खलेण वोलीणुं जम्मु दुक्कियफलेण ।
 तुज्जुप्परि रत्तउ तायच्चित्तु हा दइवें विहुरंतरि णिहिच्चु ।
 इय सोयभावणिम्मोयणाइं वाहुल्लकणोल्लइं लोयणाइं ।
 पेच्छिवि सीयाइ सर्दुक्ख रुण्ण मंदोयरिथणणीसरिउ थण्ण । 10

घत्ता—आसण्णइ थिइ विहवत्तणइ पंतउं सीयइ जोइउं ॥

थण मेल्लिवि रामणगेहिणिहि हारु व खीरु पंधाइउं ॥ २३ ॥

24

दुवई—णिम्मलसीलसलिलभरवाहिणि णिच्छहं णियंयदेहए ॥

जाणइं तेण सीयदुद्धोहें जिणपडिमं व्व रेहए ॥ छ ॥

तं किं सीयल्लु रहुवइअसंगि णिवडंतु दुद्धु सिमिसिमइ अंगि ।
 खगवइकंतइ पुणरवि पवुत्तु मा इच्छहि पुत्ति पुलत्थिपुत्तु ।
 हउं जणणि तुहारउ जणणु एहु ता सीयहि रोमंचियउ देहु । 5
 वुत्तउं पइवयगुणादिण्णल्लाइ सच्चउं तुहुं मेरी माय माइ ।
 सच्चउं दहमुहु महु होइ वप्पु णासिवि तहु केरउ दुद्वियप्पु ।
 मइं पेत्तहि रामहु पासि ताम कुडि मेल्लिवि जाइ ण जीउ जाम ।
 जणणीइ पवोल्लिउ रामरामि कुरु भोयणु पुत्तिइ मज्जखामि ।
 आहारें अंगु अणंगघासु अंगं होंतें पुणु मिलइ रामु । 10
 इय भणिवि देवि गय णियणिवासु हियवउ हरिसिउं अंजणसुयासु ।
 महिवइभिच्चहं घल्लिवि रउइ चेषण चप्पंति महंत णिइ ।
 समरंगणि णिज्जियअरिवरेण लहुं धरिउ वाणरायारु तेण ।

घत्ता—अविहियण्णहाणि णिरु णिरत्तणहि मल्लिणहि महल्लियवत्थहि ॥

सो सीयहि रोमविओइयहि गंडयलासियहत्थहि ॥ २४ ॥ 15

५ AP विहिणा कि. ६ A वोलीणजम्मि, P वोली णुजम्मि. ७ AP वाहुल्लकणोल्लइं. ८ A तुदुक्खरुण्णु, P सद्दुक्खु रुण्णु. ९ AP थण्णु. १० P जोइयउं. ११ P पंधाविउ.

24 १ AP णिच्छह. २ A णियइ. ३ AP सित्त तेण दुद्धोहे. ३ A जिणपडिवि. ४ A तुहारी. ५ P रामविलइयहि.

9 a णिम्मो यणा इं निर्गतमोदानि र्परहितानि b वाहुल्लकणोल्लइं चाप्परुणाद्राणि. 10 b थण्णु दुग्गम. 11 विहवत्तणइ विधवात्ते.

24 1 णिच्छह नि.सुहा निज्जरीरेऽपि. २ जाणइं नीता, सीयदुद्धोहे अन्नदुग्गप्रसारेण. 3 a रहुवइअसंगि राघवस्यासंगमे सति. 4 a खगवइकंतइ मन्दोदर्या. 5 b कुटि शरीरम्. 9 a रामरामि हे रामभार्ये. 10 गंडयलासियं गण्डतलाश्रितः.

25

दुवई—लक्खणु पेक्खमाणु भारहियहि सणियं पयइं देंतओ ॥
हुक्कई कइवरिंदु तहि णियडइ कइगुण अणुसरंतओ ॥ छ ॥

पत्तलवट्टुलयरतंवकणु	णवक्खणयकंजकिजक्खणु ।
सिहिविप्फुल्लिगचलपिंगलच्छु	णीरोमभउहु लंवंतपुच्छु ।
ससिकंतियंततिक्खग्गदंतु	कयकरजुयलंजलि वुक्करंतु । 5
अवल्लोइउ देविइ पमउ एंतु	थिउ अग्गइ पयपंकय णमंतु ।
तेणंविहि दाविउ दइयणेहु	सहुं अंगुत्थलियइ धिचु लेहु ।
परमेसरि मइं रंजियमणासु	परियाणहि पुत्तु पहंजणासु ।
रामहु दूयउ हणुवंतणामु	विज्जाहरु वरु वीसमउ कामु ।
तुह विरहद्वीणु मायंगगामि	पइं सुमरइ अणुदिणु रामसामि । 10

वत्ता—णउ वोल्लइ ण परिग्गहि रमइ का वि णारि णालोयइ ॥

जोईसरु सासइ सिद्धि जिह तिह पइं पई णिज्जायइ ॥ २५ ॥

26

दुवई—दहमुहकुइयचित्तु अवलोयइ असिञ्जसपरुंसपहरणं ॥
लक्खणु खणु वि माइ णउ मेल्लइ तुह कमकमलसुंयरणं ॥ छ ॥

ता सीयइ चिंतिउ णियमणेण	णिल्लक्खण हउं किं लक्खणेण ।
महु हयरामहु कहि मिलइ रामु	कहि वाणरु कहिं भत्तारु णामु ।
कहिं वाणरु कहिं भिच्चत्तु पत्तु	आलिहियउं कहिं आपियउं पत्तु । 5
परिचित्तिवि महु भोयणउवाउ	रिउरइउ एहु मायासहाउ ।
जाणिवि वइदेहिहि अंतरंगु	पुणु भासइ सुइसुहयरु अणंगु ।
सुणि रामइउ हउं कह ण होमि	गूढइं अहिणाणवयाइं देमि ।

25 १ A सणियइ. २ A हुक्कउ. ३ P पुंदु. ४ AP ससिकंतकंति. ५ A तेण तहिं.
६ AP दाविय°. ७ A हणुमंतु; P हणवंतु. ८ P पइ पणइणि ब्रायइ.

26 १ AP परु°. २ A सुमरण. ३ AP भत्तार. ४ P परिचितइ. ५ P आपिवि.

25 1 भारहियहि भरतनामजनकृत्यावर्यं भागतिः तस्याः सीताया वाण्याश्च, सणियं शनैः.
2 कः व वि दु कविर्वाचनश्च, कइगुण कविगुणान् कपिगुणाश्च. 3 a वट्टुलयरं वर्तुलतरौ. 6 a पमउ
प्रमूगो वानरः. 7 b वीसमउ विद्यन्तितम. 12 पइ पतिः.

26 1 वट्टुलयरं लुपितम्. 2 सुंयरणं स्मरणम्. 4 a हयरामहु इतरमर्गायतायाः.
५ b आपिणाणवयाइ अभिमानरवानि.

एकहिं दिणि पइं किउ पणयकोउ
वलउल्लउ चँपिउं सहुं करेण

छिंकिउं राहवु अणुहुत्तभोउ ।
पइं णिद्धणाहणेहायरेण ।

10

घत्ता—हारावलि थणयलि संजमिय णयणइं वि सताविच्छइं ॥
पइं वियसियकुसुमइं सिरि कयइं पईजीवियणेवत्थइं ॥ २६ ॥

27

दुवई—णियंवइ चित्ति धैरिवि पसरियजसु कउं मिसु णिसुउ रहुमुओ ॥
मंदिरपंजरत्थु जयजीवरवेण पसाइओ सुओ ॥ छ ॥

अंभणंतिह रहुपहुजीयभहु
थिरु चियँउ ससवणि कणयवत्तु
णासाणालिहि परिमल्लु पियंतु
फलघणंथणाउ अंकुरणहाउ
पल्लवकराउ महुरत्तियाउ
तइयहं तुह मणं ईसांविहिण्णु
परिहिउ पणामवित्थारएण
परिपालियधम्मसउच्चसच्चु
करपल्लवेण पियलेहु गहिउ
मणु पसरइ कर पसरंति णेयँ
दूरत्थ वि गाढउं देवि खेमु
मणवासिणि दहरहरायँसुण्हि

पुणु रइउ तिलउ कुंकुमरसहु ।
जइयहुं थिउ पिउ उववणि रमंतु ।
दल्लवेल्लहलउ वेल्लिउ णियंतु । 5
फुल्लंधयलीलालयसुहाउ ।
णावइ वसंतरायहु तियाउ ।
णाइउउ कंचुउ दइयदिण्णु ।
फुट्टउं पुलं गँरुआरण ।
ता सीयइ वुज्झिउ रामभिच्चु । 10
मेलेपिण्णु वाइउ कवडरहिउ ।
को जाणइ दुज्जयकम्मभेय ।
णियकुसलवत्त हउं कहमि रामु ।
लइ सव्वु चारु सरयंदंजोण्हि ।

घत्ता—धीरी होज्जसु हलि जणयसुए भडरणरंगि भिडेपिणु ॥

होएवी तुहुं महुं वंधविण दससिरसीसु खुडेपिणु ॥ २७ ॥

15

६ A छकिउ P छिक्किउ. ७ A चंपिउ. ८ P पयजीवियं.

27 १ A णियपइ. २ P वरिवि. ३ AP पसाहिओ. ४ A अमणति परहु. ५ A थवियउ.
P थविय. ६ हल्लवेल्लिहलउ, P दल्लवेल्लहलउ. ७ AP घणघणाउ अंकुरणाउ. ८ AP फुल्लधयणीला
लयसुहाउ. ९ AP मणु. १० P ईसाविहिल्ल. ११ A परिहिउ. १२ P वित्थारएण. १३ A एण.
१४ A सुण्ह. १५ A पुण्ह.

11 सताविच्छइं सकजलानि कृतानि. 12 पइजीवियणेवत्थइ अविधवाभूणानि.

27 1 णियवइ निजपतिः राम कउ मिसु रामचन्द्रे मल्लशब्दोच्चारणव्याज. इत, णिसुउ
नृपु मध्ये श्रुतो विख्यात, पक्षे नि अतिशयेन सुअ हे सुत. 2 पसाइओ सुओ मभूयित्त शुभ. मीरः.
4 a वियउ स्थापितम्; ससवणि स्वकर्णे. 5 a णासाणालिहि नामा एव नादिता तथा,
b वेल्लहलउ कोमला. 6 b फुल्लधयलीलालयं भ्रमरमदया अलया. तै. सुत्ता. गृभा क.
7 b तियाउ स्त्रियः. 8 b णाइउउ न परिहितम्, दइयदिण्णु भर्तृदत्तम्. 11 मेलेपिणु उदराव्य.
13 a रोमु आलिङ्गनम्.

28

दुवई—अणुदिणु लच्छिणाहु पइं सुमरइ तसियकुरंगलोयणे ॥
 ज्ञायवि तिजगसामि णिवसिज्जसु कइवय दियह पर्यणे ॥ छ ॥
 तूसेप्पिणु सीयइ अहुईउ ता कउ अंगुलियहिं अंगुलीउ ।
 कइ पुच्छिउ लंघियविउलखयलु तेण वि अक्खिउ वित्तंतु सयलु ।
 विण्णविय देवि लइ भत्तु पाणु विणु तेण ण थक्कइ मणुयप्राणुं । 5
 तं तासु वयणु पडिवणु ताइ गउ पावणि सूरुगामि पहाइ ।
 सीयासुंदरिहिं खगोयरीइ उवयरिउं चारु मंदोयरीइ ।
 अइरावयलीलागामिणीहिं मज्जणउं भरिउं खगकामिणीहिं ।
 पल्लित्थियाइं तत्तइं जलाइं किं ताचियाइं जइ णिम्मलाइं ।
 णियकुलु वि उहइ णिग्घिणु हुयांसुं कइ खमइ विवक्खहिं जणियतासु ॥10
 तिलमुक्कं तेल्लं मुक्कं केस विणु तिलसंवंधं सुहिं वि वेसं ।
 किं पुणु धम्मिल्लय कुडिलभाव हरिणीलणील ह्यभमरगाव ।

यत्ता—सण्हइं चोक्खइं ससहरसियइं राहवजससंकासइं ॥
 दीहरइं सुविउलइं सुहयरइं देविहिं दिण्णइं वासइं ॥ २८ ॥

29

दुवई—थिय परिहिवि मयच्छि ण पसाहणु गेण्हइ पियविओइया ॥
 ताव रसोइ सव्व तहिं आणिय मंदोयरि पराइया ॥ छ ॥
 वंदिइं जिणि मणि समसुहपयट्टि आसीण भडारी रयणपट्टि ।
 कलहोयथालकच्चोल्पत्त णं धरणिवीदिं णक्खत्त पत्त ।
 उण्हण्हउं दिण्णउं पढमपेउ णं दाविउ दहंमुहिं विरहवेउ । 5
 णं तिक्खु मिट्ठु मलदोसणासु णं भासिउं परमजिणेसरासु ।
 पुणु दिण्णइं णाणासालणाइं णं दहमुहरइआसालणाइं ।
 थाणेप्पिणु वल्लिउ दीहु कूरु णं दहंमुहिं सीयाभाव कूरु ।
 होच्चयटं ससूवइं रसवहाइं णं दहंमुहिं सीयारइवहाइं ।
 उवणिय धियधार महासुयंधं दहंमुहिं सीयादिट्टि व सुअंधं । 10

28 १ A सुअण्हइ. २ A पयणे P परियणे. ३ P ल्मेप्पिणु. ४ AP मणुअपाणु. ५ AP add after this. आहारं अणु अणंगधामु, अंमं होतं पुणु मिलइ रामु. ६ A ह्यासु. ७ AP संस. ८ A दीहयट्ट.

29 १ A पारहावि. २ AP पयणिया. ३ AP वदिवि जिण मणि. ४ AP धित्त. ५ A दहमुहं.

28 1 त सियकुरंगलोयणे चक्खिहरिणलोचने. 2 पर्यणे परजनमध्ये. 3 a अहुईउ अद्वितीयम्. 6 b पहाइ प्रभाने. 10 a णियकुलु काण्डम्. 11 b वेस द्वेषः.

29 1 पसाहणु कुट्टुमकण्ठचन्दनादिमण्डनम्. 2 पराइया प्रेषिता. 3 a समसुहपयट्टि समतासुप्रवर्तने. 7 b रिउ आसाणाइं रत्त्याशावन्वनानि. 9 a समसुवइं शोभना दालिचिणेपारसयुक्ताः. 10 b सुअंध अन्विष्टान्या.

णिण्णेहवंतु णिरु मंडु तडु
उवणिउ माहिसु दहि थंहु गव्वु
उवणिउ वहुविहु वोरॉइपाणु
अइसरसइं भक्खइं चक्खियाइं
कइकव्वु व कयमत्तापवाणु
अच्चंविउं पुणु मुद्धहि विहाइ

णं दहंमुहि सीयामणवियकु ।
णं दहंमुहि सीयामाणगव्वु ।
णं दहमुहरमणहु कोसपाणु ।
णं दहंमुहि सर सइं भक्खियाइं ।
भोयणु भुत्तउं खीरावसाणु । 15
पाणिउं दिण्णउं दहमुहहु णाइ ।

यत्ता—पूयफलेण सच्चुण्णण पत्तगुणेण समग्गउ ॥

तंवलराउ रामु व सइहि छल्लइ अहरविलग्गउ ॥ २९ ॥

30

दुवई—इय भुंजेवि भोज्जु भूमीसुय सीलगुणंवुवाहिणी ॥

थिय णंदणवणांति सीसंवतलि सीरहरस्स गेहिणी ॥ छ ॥

एत्तहि हणुंमंतु वि पत्तु तित्थु
हा सीय सीय सकलुणु कणंतु
वोलाविउ मारुइ तें कयत्थु
भणु कि दिट्ठउं सिसुहरिणणेत्तु
किं मुच्छिउ णिवडइ जीवत्तु
तं णिसुणिवि हणुणं उत्तु एव
दिट्ठउ रावणु णं कलिकयंतु
दिट्ठी मंदोयरि पिउ चवंति
अवरु वि दिट्ठउं आरामहंतु

अच्छइ दुग्गंतरि रामु जेत्थु ।
णियकरयलेण उरु सिरु हणंतु ।
मउडग्गचडावियउं हयहत्थु । 5
कि णउ कुमार मेरउं कलत्तु ।
कि महं विरहें पंचत्तु पत्तु ।
दिट्ठी जाणइ जीवंति देव ।
सीयहि सकामवयणाइं देतु ।
देविहि हियउल्लउं संथवंति । 10
उप्पण्णउं चक्कु पहांफुरंतु ।

यत्ता—सिरिमंतु सरूवु वि दहवयणु सीयहि मणु णासंवइ ॥

भरहुप्परिगामिय तेयणिहि पुप्फयंतं को लंघइ ॥ ३० ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभवभरहाणुमणिण

महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे सुग्गीवहणुवंतकुमारागमणं

सीयादंसणं णाम तिसत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७३ ॥

६ A थहुगव्वु. ७ P कोराइपाणु. ८ A कइमत्तावपाणु, 1' कयमत्तापमाणु. ९ AP अत्तवियउ.

30 १ P सीसवलि. २ A हणवतु. ३ A स्यतु. ४ A उभयत्थु. ५ AP महाफुरंतु.
६ AP सरूवु. ७ P पुप्फयंतु. ८ A हणवतकुमारागमण णाम तिसत्तरिमो.

12 गव्वु गव्व्यम्. 13 a वी रा इ पा णु वदगम्भिकादिपानम्. 11 b सर कामानुवद्धवत्तनामेति स्मर-
सुखाति वा. 15 a मत्तापवाणु मात्राप्रमाणम्: b वी रा व सा णु दुग्गयानमवसाने कृतम्. 16 a अग्ग-
वियउ हस्तमुखप्रक्षालनम्. 17 पूयफलेण पूयफलेन पवित्रफलेन च.

30 2 सीरहरस्स हलधरस्य रामस्य. 5 a कयत्थु कृतार्थे. कृतप्रयोजन. 11 a आरामहंतु
आराभिर्महत् चरुम्. 12 णासंवइ न आश्रयति नाकलयति नागुजयति च. 13 पुप्फयन चत्तुवर्गे.

परहु ण देइ मणु अवसेँ मउलइ सकलंकहो ॥
फुलइ पउमिणिय करफसेँ कहिँ मि मियंकहो ॥ ध्रुवकं ।

1

हेला—सीयादेवि देव दीहुण्ह णीससंती ॥

सुंअरइ तुह पयाइं भत्तारभत्तिवंती ॥ छ ॥

सिरि व उविंदहु	सरि व समुंदहु ।	5
मेत्तिं व णेहहु	मेरि व मेहहु ।	
भमरि व पोमहु	संति व सोमहु ।	
करिणि व पीलुहि	करहि व पीलुहि ।	
विउसि व छेयहु	हरिणि व गेयहु ।	
णववणकंतहु	जेव वसंतहु ।	10
सुअरइ कोइल	धीरत्तेँ इल ।	
जिणंगुण जाणइ	तिह तुह जाणइ ।	
तुह सा राणी	खंतिसमाणी ।	
भव्वहं रुच्चइ	खणु वि ण मुच्चइ ।	
लक्खणचिंतइ	वहुजसवंतइ ।	15
वररुंविचित्ति व	धम्मपचित्ति व ।	
समसंपत्ति व	साहसथत्ति व ।	
कुलहरजुत्ति व	जिणवरभत्ति वं ।	
णिरु परलोइणि	तुह सुहदाइणि ।	
मा आणिज्जइ	रिउ मारिज्जइ ।	20

वत्ता—विरहहुयासहुउ पियवत्तइ सुइवहुदुक्कइ ॥

वियसिउ रामदुमु णं सित्तउ अमियंअलक्कइ ॥ १ ॥

1 १ A मयक्कहु २ P adds after this महि व णरिंदहु, सइ व सुरिंदहु. ३ A मित्तेव.
४ A मोमहु. ५ AP हरि व तुमीलहि. ६ AP णववहुकतहु. ७ AP read a as b and b as a.
८ A चिन्वत्तिइ. ९ AP कइ. १० AP add after this: सज्जगमेत्ति व. ११ AP अमयं.

1 1 परहु चन्द्रस्य गवणस्य च मउलइ संकुचति. 7 b संति शान्तिः. 8 b करहि व पीलुहि उद्धीय पीलुशब्दस्य. 9 a छेयहु छेकस्य चतुस्य. 10 a णववणकंतहु नवीनवनेन कान्तस्य गनीगस्य वगन्तस्य सौखिला यथा स्मरति. 11 b इल भूमि. 12 b जाणइ जानकी. 15 a लक्खणचिंतइ लक्ष्मणचिन्तया, पक्षे व्याग्गणचिन्तया. ११ विरहहुयासहुउ विरहाग्निना दग्धः सुइवहुदुक्कइ परमात्मे प्राप्तया. ११ अमियं अमृतधारया.

2

हेला—गाहालिगिऊण रामेण पवणपुत्तो ॥

सीयासंगमो व्व हरिसेणेव वुत्तो ॥ छ ॥

तुह समु कि भण्णइ अवरु णरु
तुहु मुहुं मणकमलहु दिवसयरु
जलु थलु णहयलु तुह गम्मु जहि
तहि अवसरि रूसिवि अतुलवलु
वलएवहु पायपोमु णवइ
मइं रवियरदारियतिमिरवलि
जइ सायरु सलिलु दुग्गु कमइ
तो कुंडलमंडियगंडयलु
तुह गेहिणि देमि समेइणिय

अंजणिसुय तुहुं सुहिविहुरहरु ।
विरहावडणिवडणधरणैतरु ।
वण्णेव्वउं सव्वु समत्तु तहि । 5
सिरिणाहे जोइउ भुयजुवलु ।
कोवारुणच्चु लक्खणु चवइ ।
हण्वंतु णेइ जइ गयणयलि ।
जइ लंकाणयरिणियडि थवइ ।
तोडेपिणु दहमुहासिरकमलु । 10
णच्चावमि विहूरु डाइणिय ।

घत्ता—दे आपसु महुं सर करउ गमणु साहेज्जउं ॥

कंताहरणरुहु फेडमि अज्जु जि वयणिज्जउं ॥ २ ॥

3

हेला—ता सीराउहेण उवसामिथो अणंतो ॥

णं केसरिकिसोरथो रोसविण्फुरंतो ॥ छ ॥

भडयणु णिहिलु वि ओसारियउ
सउंवाउ अवाउ सहाउ धणु
आरंभ कम्मफलसिद्धि किह
तं णिसुणिवि मंगलेण रुहिउ
दुग्गासिउ बलवंतु वि विजइ

पंचंगु मंतु अवयारियउ ।
संतिउ महुं किं वइरिहिं वल्लु कवणु ।
किह ददवु हवइ भणु मुणितं जिह । 5
णिय णिसुणि मंतु विगईरहिउ ।
खगराउ तिसंडधराहिवइ ।

2 १ AP हरिसेण एम वुत्तो. २ AP अजणसुय ३ A °रणि°. ४ A माहउ P माहदु.
५ P हणुवतु. ६ T डार भयानक संग्रामो वा, विहुर इति पाठेऽप्ययमेवार्थ. ७ AP सद.
८ AP कंताहरणु रहो.

3 १ A सउवायउ चाउ सहाउ वल्लु २ AP महुं वइरिहि कवणु वल्लु.

2 २ हरिसेणे व वुत्तो हणेण एवमुक्त.. 1 b विरहेत्यादि विग्गहपपतनपरणव्व.. 5 b नमसु
समाप्तम्. 6 b सिरिणा हे लक्ष्मणेन. 7 a वलएवहु वल्लभइत्य गमहा. 9 a कमइ उनागयति.
11 a समेइणिय मेदिनीचहिता, b विहुर भयानका. 12 सर हवने इत्थमान. 13 रुहु उवणम.

3 1 सीराउहेण हलायुवेन गणेण, अणतो लक्ष्मणः. 1 a सउवाउ अवाउ उवायमिथो-
पाय.. 6 a मंगलेण मङ्गलनामा मन्त्रिणा, b विगईराउ अन्वथात्तरात्त.

जइ सीय देइ राणि णविमडइ
तं विहसिवि सुग्गीवें भणिउं
हणुवंतु सहाउ हउं वि पवलु
विज्जउ पहरणइं वि चिंतियइं
हलहर तुहुं राणउ देव जहि
धुउं लक्खणहत्थें रिउ मरइ
भो मंगल मा कि पि वि भणहि

तो भल्लउं महु मणि आवडइ ।
पइं रावणजीविउं किं गणिउं ।
हरि पुण्णवंतु चालइ अचलु । 10
होहिंति मंतविहिमंतियइं ।
पडिवक्खु पसंसिउ काइं तहिं ।
णिहइवहु दुग्गु काइं करइ ।
तहु चक्कु कालचक्कु व गणहि ।

यत्ता—तेण जि तासुं सिरु छिदेव्वउं राणि गोविंदें ॥
दिणयरि उग्गमिइ किं पयडिज्जइ चंदें ॥ ३ ॥

15

4

हेला—उत्तं रामसामिणा जइं अहं महंतो ॥

लच्छीहरपसाहिओ पउरपुण्णवंतो ॥ ४ ॥

णियट्टउ तो वि तहु पट्टवमि
णिय सो कि देइ ण देइ बहु
भणु कवणु वओहरविहिकुसलु
सुग्गीउ कहइ रिउछिदणहु
गुणवंत अत्थि णर धरणियर
सुकुलीणु अदीणु दीणसरणु
एक्किंल्लउ भल्लउ सेल्लवहि
सूहउ सूरुउ गंभीरु थिरु
णिट्टुरहं वि उप्पाइयपणउ
किं वण्णमि सहयरु अप्पणउ
ता रामे संचियणेहरसु
सुग्गीउ वंधु बुद्धिइ गहिउ

उप्पिच्छु समत्थु व णिट्टवमि ।
पेक्खहुं किं वोल्लइ पुहइपहु ।
जिणवरचरणारविंदभसलु । 5
जेट्टहु दससंदणणंदणहु ।
ते जंति ण खे ण होंति खयर ।
अग्गि व सीहु व दूसहफुरणु ।
राणि सरजालंचियसदिसवहि ।
पडिवण्णसूरु तेयंसि णिरु । 10
हियमियमहुरक्खरजंपणउ ।
दूयत्तजोग्गु अंजणतणउ ।
पुरिसुण्णउ पोरिसकणयकसु ।
विज्जाहररायत्तणिं णिहिउं ।

यत्ता—वंधिवि पट्टु सिरि हणुवंतु कियउ सेणावइ ॥

15

जोत्तिउ दूयभरि पुणु सो जि धवल्लु णिहयावइ ॥ ४ ॥

३ AP ता. ४ P मत तिहि. ५ A धुवु. ६ P तासु जि सिरु.

4 १ AP जइ वि अहं. २ AP किं सो. ३ A णरवरणियर. ४ AP एकल्लउ. ५ AP विहिउ.

8 a णविमडइ बुद्ध न करोति. 11 b ° म ति य इ ° मन्त्रितानि आराधितानि. 15 तेण तेन चक्रेण.

4 3 a उप्पिच्छु संन्येन सह उच्छ्रित., णिट्टवमि मारयानि. 4 a वट्टु सीता. 5 a वओ हरं
पनोक्को दूत.. 9 a नेल्लवहि भल्लधारकं. 10 b पडिवण्णसूरु अद्दीकृतवस्तुनि सुभटः; तंयंसि
नेरखं. 13 b पुरिसुण्णउ पुग्गेषु मध्ये उन्नतो महान्; ° कणयकसु ° सुवर्णकपोपल. 16 जोत्तिउ
दुग्गु; णिरवावइ तिह्नापदः.

5

हेला—दिण्णा राहवेण हणुयस्स खयरंगया ॥

रविगयैविजयकुमुयपवणवेयया सहाया ॥ छ ॥

गरुयारइ मंतिकज्जि थचिउ	वल्लहद्वे मारुड सिक्खविउ ।	
जाएज्जसु भवणु विहीसणहु	परिपालियखत्तियसासणहु ।	
वोल्लेज्जसु मिट्ठउ कि पि तिह	अप्पावइ सीयाएवि जिह ।	5
जइ सामे देइ ण दहवयणु	तो पुणु भणु वहुं चंडवयणु ।	
अम्हहुं विवरोक्खइ आवाडिय	ललियंग भित्तवित्तिहि चडिय ।	
अण्णाणे रइहसेण णिय	भण्णइ अप्पिज्जउ रामपिय ।	
गोविदमुक्कगुणमग्गणहि	दारियसरीरु सहुं ससयणहि ।	
सोणियजलसित्तछत्तंसहिउ	मा होहि कयंतणयरपहिउ ॥	10

घत्ता—वोल्लिउ लक्खणिण सूर्ये सीय वसुंधरि ढोयवि ॥

जइ दहमुहु जियइ तो जीवउ किकरु होइवि ॥ ५ ॥

6

हेला—अहवा जइ ण देइ तो जाई किं जियंतो ॥

मइ कुद्धेण हणुय णउ हणइ कं कयंतो ॥ छ ॥

तेलोकक्कज्जुरावणहु	इय जाइवि साहहि रावणहु ।	
जइ तिणिण वि एयउ देइ णउ	तो तासु महु वि किर सधि कउ ।	
जइ जुज्झइ तो कालाणलहु	जइ णासइ तो पुणु काणणहु ।	5
पेसमि दहगीउ ण दूय जइ	रहुवइपयजुवल्लु ण णवमि तइ ।	
तो हेलि हरि जयकारिवि चलिउ	तणुभूसणमणियरसंवलिउ ।	
तारावलिहारावलिउरहि	उत्तुंगहि तुंगपयोहरहि ।	
पेविमलपसण्णदिसवयणियहि	चंदक्कमणोहरणयणियहि ।	
आहं डलधणुउप्परियणहि	रंजियविज्जाहरगणमणहि ।	10
णहलच्छिहि उवरि देतु पयइं	पडिसुहडैहं संजणंतु भयइं ।	

घत्ता—संखपंतिदसणु वडवाणलजालाकेसरु ॥

वेलापुंल्लवल्लु मणिगणणहु सीहु व भासुरु ॥ ६ ॥

5 १ AP सयरसाया. २ AP रविगइ°. ३ P कुमुयवल्लवेयया. ४ AP बलमद्वे. ५ A भुवणु.
६ AP चंडदंडवयणु. ७ A अम्हइ. ८ A ललियगि. ९ A सुहु मज्जणेहि. १० P omits छत्त.
११ A सिय, । सीय.

6 १ P कि जाइ. २ AP हरि हलि. ३ AP सुहडु ण जणंतु.

5 3 b मारुइ इत्तुमान्. 7 a विवरोक्खइ विपरोक्षे. 10 b पत्तिउ पथिरुः.

6 4 a तिणिण वि एयउ धीः, सीता, भूः; b कउ कुतः. 13 मणिगणणहु ग्लान्धेव

वा यस्य.

हेला—गंभीरो सरमेरउ गीढमयरमुद्दो ॥

मारुहणा तुरंतेणं लंघिओ समुद्दो ॥ छ ॥

भुवणंतरालि विक्खायएण
तिसिहरगिरिणालं उद्धरिउ
छुहधवलट्टालविउलदलु
देउलहंसावल्लिपरियरिउ
कामिणिमुहरसमयरंदरसु
रावणरवियरवियसात्रियउ
वित्थरियकोसु सुभुयंगपिउ
णहि जंतु जंतु मारुइभसलु

दीहें जलणिहिसरजायएण ।
पायोरकणियापरियरिउ ।
लच्छीमंजीररावमुहलु । 5
कणयालयकेसरपिंजरिउ ।
जसपरिमलपूरियगयणदिसु ।
देवाहं वि भल्लउं भावियउं ।
कह णिउणें विहिणा णिम्मविउ ।
संपत्तउ तं लंकाकमलु ॥ 10

घत्ता—जोयवि कुसुमसरु णारीयणु असेसु वि खुद्धउ ॥

कंपइ णीससइ हसइ व बहुणेहणिवद्धउ ॥ ७ ॥

हेला—कंदणं सुरुविणं णिएवि चित्तचोरं ॥

कां वि देइ सकंकणं चारुहारदोरं ॥ छ ॥

क वि जोयइ दिट्ठिइ मउलियइ
क वि चलियकडक्खहिं विवलियइ
काहि वि गय तुट्ठिवि मेहलिय

गुरुयाणि सलज्जदरमउलियइ ।
क वि वियसियाइ क वि विलुलियइ ।
क वि मुच्छिय धरणीयालि घुलिय । ७

7 १ AP सरमेरउ, K सरमेरउ but records a *p*: अथवा सरमेरउ समर्यादः, T सरमेरउ जलमर्यादः, अथवा सरमेरउ समर्यादः. २ AP गाढमयरसुद्दो. ३ A णिसियर°. ४ A पायाले. ५ AP °हसावल्लिपंडुरउ; K पंडुरिउ इत्यपि पाठः. ६ A कणयालयकेसरि°. ७ A वित्थारिय°.

8 १ AP का वि हु देइ. २ P चौरहार°. ३ A गुरुयण°. ४ P विवालियइ.

7 1 सरमेरउ जलमर्यादः, गाढमयरमुद्दो न्यस्तमकरमुद्द. 4 a तिसिहर° त्रिकूटः; ७ पायारकणिया° प्राकार एव कर्णिका. 5 b मंजीर° नूपुरम्. 6 b कणयालय° सुवर्णगहम्. 11 खुद्धउ क्षोभे प्राप्तः.

8 1 णिएवि दृष्टा. 3 a मउलियइ मुकुलितादिदृष्टीना लक्षणं यथा । हियवन्धन्तरणिन्मरपहरिस-परिपेडिन्ना य जा दिट्ठी । परिमउलियवित्थाग मउला णामेण सा दिट्ठी ॥ १ ॥ जारुहणिव्भरा वियसिऊण नियदेट्ठिवंचणवदट्ठा । नहसणे रुज्जा छुट्ठं मच्छो व्व सा लु लिय ॥ २ ॥ गुरुयणपुरओ लज्जकुत्सेण करिणि एव रुद्धसवाग । जा घोलइ पियहुत्तं कडक्खवलिय त्ति सा दिट्ठी ॥ ३ ॥ 5 a मेहलिय कटिनेखला.

काहि वि रइजलझलक झलियं
काइ वि थणजुयलउं पायडिउं
क वि भणइ एहु हलि दूउ जहिं
सइ सीय भडारी वज्जमिय
हलि एहु वि पेच्छिवि पुरिसवरु
पायगं जइ थणग्गु छिवइ
तो हउं सर्कय थी जगि जुवइ
अप्पाणु परु वि ण सच्चंवइ

क वि उरयल्लु पर्हणइ द्विंदुलिय ।
काहि वि परिहाणु व्रत्ति पडिउं ।
केहउ सो होही रामु तहिं ।
ण सदत्तणावित्ति अइकमिय ।
जइ कह व महारउं एइ घरु । 10
तंवल्लु वि जइ उप्परि धिवइ ।
क वि पेम्मपरव्वस मूढमइ ।
हा मुइय मुइय जणवउ चवइ ।

घत्ता—कामु हरंतु मणु पुरवरणारीसंघायहु ॥

वलइयउच्छुधणु गउ भवणु विहीसणरायहु ॥ ८ ॥

15

9

हेला—णियकुलकुमुयससहरो मुणियरायणाओ ॥

आओ तेण मण्णिओ अंजणंगजाओ ॥ छ ॥

रयणुज्जलु आसणु घल्लियउं
पाहुणयवित्ति णिस्सेसुं कय
कि किज्जइ किं किउ आगमणु
गुणवंतु भत्तिभाउंभवउ
पइं जेहउ माणुसु जासु घरि
लइ एत्थु विहीसण दोसु ण वि
पत्थहि पउलत्थि देउ तरुणि

मणहारि समंजसु बोल्लियउं ।
पुच्छिउ कहिं अच्छिय कहिं वि गय ।
तं णिसुणिवि पभणइ रइरमणु । 5
णयवंतु संतु महुरुल्लवउ ।
कि सो लग्गइ परघरिणिकरि ।
कालिदिसलिलणिहदेहल्लवि ।
पायालि म णिवउउ णिक्कराणे ।

घत्ता—गिरि गिरिययसरिसु गोप्पेउ जासु रयणायरु ॥

10

तें सहं कवणु रणु कि करइं गव्वु तुह भायरु ॥ ९ ॥

५ AP गलिय. ६ A पहरइ. ७ A हलि एहु. ८ AP सकियथी. ९ A संभरइ.
१० AP मुयइ मुयइ.

9 १ AP णीसेस. २ A भाउत्तमउ. ३ A पहलुच्छि देव. ४ P गोप्पउ व जासु. ५ A करइ
तुहारउ भायरु.

6 a ° झलक धारा; झलिय खुता; b द्विंदुलिय कामविहला. 7 a पायडिउ प्रकटितम्. 9 a वज्ज-
मिय वज्जघटिता. 10 a पुरिसवरु कामदेवरूपो हनूमान्.

9 1 रायणाओ राजनीति., १ b रइरमणु कामो हनूमान्. 8 b कालिदि° यमुना.
9 a पत्थहि त्वं प्रार्थय; पउलत्थि पौलस्त्यो रावणः; देउ तरुणि सीता ददातु. 10 गिरिवर्षं कन्दुकः.
गोप्पउ गोप्पदम्.

10

हेला—दिट्टादिट्टकट्ट पट्टवउ रामणारी ॥

णहयरणाहमउडि मा पडउ पलयमारी ॥ छ ॥

अज्ज वि णारूसइ दासरहि	अज्ज वि ण खुहुइ लक्खणउवहि ।	
चउरासीलक्खधरायरहं	कोडिउ पण्णास भयंकरहं ।	
आहुट्ट ताउ गयणेयरहं	वलवंतहं बहुपहरणकरहं ।	5
अज्ज वि खुब्भंति ण नृववलइं	दुल्लंघइं पडिवलघंघलइं ।	
अज्ज वि अप्पावहि सीय तुहुं	मा पडसउ वंधउ जमहु मुहुं ।	
मा डज्जउ लंक सतोरणिय	मा णिवडउ उयरवियारणिय ।	
सरधोराणे गोविंदहु तणिय	दुद्धरधणुगुणरवझणझणिय ।	
मा रिट्टु रिट्टुलोहिउं रसउ	मा कालकियंतु मासु गसउ ।	10
रायाणुपण ता भासियउं	पइं चारु चारु उवएसियउं ।	
मज्जन्यु महन्थु सच्चवयणु	पइं मेळ्ळिवि को सुपुरिसरयणु ।	
पइं मेळ्ळिवि को वि बुहाहिवइ	को जानइ एही कज्जगइ ।	

घत्ता—इय संसिवि सुयणु पोरिसकंपवियसुरिंदहु ॥

गांपि विहीसणेण दाविउ हणवंतु खगिंदहु ॥ १० ॥

15

11

हेला—णविऊणं दसासणं तरुणिहिययहारी ॥

आसीणो वरासणे कुसुमवाणधारी ॥ छ ॥

पभणइ पहु जडकोट्टावणिय	किं विहिय सेव रामहु तणिय ।	
हा कट्टु कट्टु कणएं जडिउ	माणिकु अमेज्जमज्झि पडिउ ।	
कहिं तुहुं कहिं सो तुह सामि हुउ	भणु को ण विहाणवसेण चुउ ।	5
अह एण वियारं काइं महुं	आओ सि काइं कहि कज्जु लहु ।	
तं णिसुणिवि पावणि पाडलवइ	विणंओणयसिरु पुणु पुणु भणइ ।	
भो पुष्पविमाणपुष्कभमर	भो सुरसुंदरिग्रहियचमर ।	

10 १ P गिववलइं. २ P कालकयंतु. ३ AP हणुवत.

11 १ AP ०कोटावणिय. २ A कज्ज. ३ A विणएं णयसिरु.

10 1 दिट्टादिट्टकट्ट दट्टमदृष्टमनुभूतं कष्ट यया. २ ०मउडि मुकुटे. ३ b लक्खणउवहि लम्पय एव समुट्ट ४ a आहुट्ट अर्थचतुर्थ्या., गयणेयरहं खेचगणाम्. 5 b ०घंघलइ विघ्नप्रायाणि. 10) a रिट्टु क्क, रिट्टु ० गिष्टो गवण. कृणवर्गत्वात्.

11 १) a जडकोट्टावणिय जटानां कौतुकोत्सादिनी राममेवा. ४ a कट्टु कट्टु कणए जडिउ निन्नें काइं सुवयेन जटित्तम्. 5 b विहाणवसेण विधिवयेन. 7 b विणओणयसिरु विनयनममस्तकः.

भो मंदेरसुंदरकयभैवण
भो देव दसास दसासगय-
लक्खणदामोयरणमियकमु
जसु णामे संकइ विसमु जउं
ते तुज्ज पांसि हउं संपहिउ

भो महिहरकंपावणपवण ।
जसंधवलियजग रयणियरधय । 10
अट्टमु हलहरु रणरसविसमु ।
किर कवणु गहणु तहु देव हउं ।
इय साहइ सो विणए सहिउ ।

घत्ता—आणिय सीय जइ तो णत्थि दोसु पुणु दिज्जइ ॥

हरिविकमहरिणा सहं तुरियं संधि रइज्जइ ॥ ११ ॥

15

12

हेला—आरूढो गयाहिवे मोरु कुल्लमगं ॥

को मगइ रयंधओ एलयाण दुगं ॥ छ ॥

सायरु किं मज्जायहि सरइ
जइ दीवउ अंधारउ करइ
जइ तुहुं जि कुकम्मइं आयरहि
तो कासु पासि जणु लहइ जउ
अणु वि णाणाविहदुक्खभरु
तं णिसुणिवि लकेसरु भणइ
महु किंकरु ताव पढमु जणउ
तहु दिण्णी हउं किं^१ किर खममि

महिवइ किं अण्णणारि हरइ ।
तो किं पाहाणखंडु फुरइ ।
मणु कुवहि वहंतउं णउ धरहि । 5
जहिं रक्खणु तहिं उप्पणु भउ ।
परहरु इहरत्तपरत्तहरु ।
को रंडकहाणियाउ सुणइ ।
पुणरधि दसरहु दसरहतणउ ।
घरलंजिय सीय किं^२ ण रममि । 10

घत्ता—पुव्व पउत्त महु पच्छइ रहुणाहहु दिण्णी ॥

सो छिदिवि मृगेणं मइं आणिय णयणरवण्णी ॥ १२ ॥

13

हेला—मइं चित्तेण छित्तिया कह अणुहवइ रामो ॥

हो हो मयरकेउणा पत्थुं णत्थि सामो ॥ छ ॥

४ A सुदरमदर^०. ५ P^०भमण. ६ AP जगधवलियजस. ७ AP पासु.

12 १ AT एडयाण. २ AP किर किं. ३ AP ण किं. ४ P मिणेण.

13 १ AP मयरकेउणो. २ A इत्थ णत्थि; P इत्थ अत्थि.

9 a मदरसुदरकयभवण मन्दरे सुन्दरा कृता आवासा येन. 10 a-b दसानेत्यादि दशनु दिक्षु गतेन यशसा धवलित जगद् येन 13 b विणए साम्ना. 15 हरिविकमहरिणा सिष्पतान्भेण गमेण.

12 1 गयाहिवे गजाधिपे. 2 को मगइ को मयूर मृगयते, रयंधओ पादान्वं कोपान्त्रो वा; एलयाण दुगं छालकाना विपमं गड्ढकाणा दुगो च मृगयते न गड्ढकै. कृत्वा त्वस्य ग्वा वाञ्छति.

3 a सरइ चलति. 7 b परहरु परकलत्रम्. 10 b घरलंजिय घरदामी. 12 छिदिवि छलदित्वा.

13 1 छित्तिया स्पृष्टा. 2 मयरकेउणा त्वया कामेन मर.

जं चंगउं तं^३ तं अवठवइ
मणिआरणि मुहि कवलउ अहि वि
सयडंगु वि मग्गइ एउ खलु
पुरि मग्गउ लग्गउ मज्जु रणि
तं णिसुणिवि सुंहु दुगुंछियउं
णउं हसिउं देव पइं मण्णियउं
सुयं सीय वसुंघरि देइ जइ
सो लिहियउं तुह रूवु वि पुसइ
हरि केव वि अम्हइ उवसमहुं

किंकरु सुद्धत्तणु दक्खवइ ।
जइ मग्गइ तो मग्गउ महि वि ।
सो संपहि वट्टइ वूढछलु ॥ 5
किं अच्छइ तहिं हिंउंतु वणि ।
दूण राउ णिम्भंछियउ ।
केसवजंपिउं णायणियउं ।
परमत्थे इच्छइ संधि तइ ।
णियभायहु उवरोहें सहइ । 10
लंकाउरि णेय अइक्कमहुं ।

यत्ता—मुइ मुइ एह तुयं सुहिणेहं कहइ कइद्धउ ॥

रावण वहइ पइं रणरणि जणहणु कुद्धउ ॥ १३ ॥

14

हेला—ताव णिकुंभ कुंभ खरदूसणा विरुद्धा ॥

हणुंहणुसहदारुणा मारणावलुद्धा ॥ छ ॥

कोवारुणणयण भणंति भड
मयरद्धय धुवु लज्जइ रहिउ
खज्जोए कि रवि ढंक्कियउ
किं भमरें गरुहु ब्रडप्पियउ
जेणेहउं वोहइहि मुक्ख तुहुं
तुहु प्पु सहाउ वीय पिसुणु
ते लक्खण राम दसाणणहु
तो हरिणा इव चुक्कंति कहिं
तहिं पत्तलु वलु पइं किं थविउं
तो रामहु तुम्हहं तं सरणु

गोवाल वाल दढमूढ जड ।
किं झंखहि णं जरेण गहिउ ।
किं सायरु गरुंलें पंक्कियउ । 5
किं दहमुहु अण्णे चंपियउ ।
फोडिज्जइ तेरउ दुट्ट मुहुं ।
सुग्गीउ वालिपावियवसणु ।
जइ कमि पडंति पंचाणणहु ।
वाएण जंति गिरिवर वि जहिं । 10
जइ पयजुयलउं देवहु णविउं ।
णं तो आयउं एवहिं मरणु ।

यत्ता—हणुणं वोह्लिउं रणु घरि वोह्लंतहं चंगउं ॥

भडकलयलकलाहि पइसंतहिं कंपइ अंगउं ॥ ४ ॥

३ A तं त अट्टवइ, P तं जि अवट्टवइ. ४ AP कहिं अच्छइ. ५ P सुद्धदुगुं. ६ A जणहसिउ.

७ AP तिय. ८ AP दुइउ. ९ A तियमइ. १० AP तिय. ११ सुहिणिहे.

14 १ हणहणसहं. २ AP गरुंलें. ३ AP चप्पियउ.

3 a अवट्टवइ अचन्यापयति गजो निमित्त धर्नीतर्य. 5 a सयउगु शकटाङ्गम् b वूढछलु धृतवलः
यत्तन वा. 12 इइद्धउ इन्मान.

14 5 a खज्जोए मणोनेन, 6 पंक्कियउ दूयित्तः.

हेला—धणुजुत्ता भडा वि गज्जंति जेम मेहा ॥

तेम ण ते भिडंति वरिसंति सवणदेहा ॥ छ ॥

चिरु रिक्खपंतिसंणिहणहहि
सरु ससरि तिविट्ठे समरि हउ
जिह सो तिह तुहुं वि अणंगवसु
दहवयण मरेसहि आहयणि
सीहा इव कुडिलचहुँलणहर
गज्जंतु एंतु तिणसमु गणिउ
दुक्कह सयलह सीसइं खुडमि
ता भासिउ मग्गपयासणेण
हम्मइ ण वृउ जंपउ विरसु
असिसंकडि धणुगुणरवमुहलि

रत्तउ हयगीउ सयंपहहि ।
मुउ सत्तमणरयहु णवर गउ ।
लक्खणसरकह्वियरुहिररसु । 5
रइ किं ण करहि मेरइ वयणि ।
ता उट्टिय खग हलमुसलकर ।
मारुइणा सुहडसत्थु भणिउ ।
तडिदंहु व पहुउप्परि पडमि ।
अतरि पइसेवि विहीसणेण । 10
जाणेसहुं पोरिसु कणयकसु ।
रिउहकारणमारणतुमुलि ।

घत्ता—राएं भासियउं मा मेरउ विहि विहरेज्जसु ॥

राहवलक्खणहं संदेसउ एम कहेज्जसु ॥ १५ ॥

हेला—सरणं सुरंवरस्स पइसरइ जइ वि कामं ॥

तो वि अहं हणांमि सहुं किंकरेहि रामं ॥ छ ॥

धुवु पावमि भुक्खिउ कालैकलि
लक्खणहु सुलक्खणु अवहरमि
णयरिउ मंदिरणिज्जियससिउ
भडरुहिरमहासमुदि तरमि
खलणीलहु णीलउं सिरु लुणमि
दसरहदसप्रांणइं णिट्ठवमि

तिलमेत्तइं खंडइं देमि^१ वलि ।
वंदिग्गहि पुहंइदेवि धरमि ।
गेण्हिवि कोसलवार्णारसिउ । 5
सुग्गावहु गीवभंगु करमि ।
कुमुयहु कुमुयप्पणसु वणमि ।
जणयहु जिउ जमपुरि पट्टवमि ।

15 १ °चवल°, P °चडुल°. २ AP वि रहेज्जसु.

16 १ AP सुरवइत्स. २ P हणेमि. ३ P कालु कलि. ४ AP देवि. ५ A छुहिवि वे वि.
६ AP वाराणसिउ. ७ A °पाण विणिट्ठवमि, P° पाण वि णिट्ठवमि.

15 १ सवण दे हा सवणदेहा. सज्जलदेहाश्च. ३ a रिक्खपति सं णि हण ह हि नक्षत्रपक्तिमदश-
नखायाम्, b सयपह हि स्वयप्रभावाम्. 6 a आ हयणि सग्गाने. 11 b जाणे स तु गारयाम्. 13 मा
मेरउ वि हि वि हरेज्जसु विधि कर्तव्य मा गोप्य कुरु.

16 1 काम अनिशनेन. 1 b पुरइ देवी पृथ्वीदेवी सीता. 7 a णीलउ डृप्पदेश-
युक्तम्; b कुमुअप्पणसु नाभिकमलप्रदेशम्. 8 b जिउ जीवः.

कुंदहु कुंदाहइं अट्टियइं	जाणेजसु एवहिं णिट्टियइं ।	
कडूमि जंघाणलवस णलहु	ढोईवि छुहियहु ढंढरउलहु ।	10
हणुमंत तुज्जु हणु गिद्ध जिह	भक्खंति हणमि संगामि तिह ।	
जजाहि मित्तं मोक्कल्लियउ	ता पावणि णहयलि चल्लियउ ।	
ता चित पइट्ट विहीसणहु	को चुक्कइ कम्महु भीसणहु ।	
परमेसरु अद्धधरत्तिवड	मारेव्वउ लक्खणेण णिवइ ।	
तहु दुम्मणु मुहुं अवलोइयउं	अप्पउं पहुणा पोमाइयउं ।	15

घत्ता—सभरह एंतु खल महु ते कुमुणियदप्पहु ॥

पुष्पयंत गयणे किं^{१३} संमुहुं थंति विडप्पहु ॥ १६ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे हणुमंतदूयगमणं
णाम चउहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७४ ॥

८ AP णेय वि. ९ A हणवंत. १० P मित्त तुहुं मोक्कलिउ. ११ A कम्मविहीसणहु. १२ AP कुमुणि
व कंदप्पहो, T कटप्पहो कामत्त्य. १३ A कह संमुह थति, P किं सम्मु थति. १४ AP दूयकजं.

10) a जंघाणलवस जंघानलिकाया वसाम्, b छु हियहु बुभुक्षितस्य; ढंढरकुलहु गक्षससमूहस्य.
11) सभरह भग्नेन लघुभ्रात्रा, एंतु आगच्छन्तु, कुमुणियदप्पहु कीं पृथिव्या मुनितो शातो दर्पो यस्य.
12) विडप्पहु राहो..

पवणंजयसुयहु समागमणि णं हरि हरिहि समावडिउ ॥
रहुवइआएसं कुइयमणु लक्खणु वालिहि अब्भिडिउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

हणुएण णवेष्पिणु भणिउ रामु
दहवयणु ण इच्छइ संधि देव
सामहु णामे जो वेउ सामु
तं णिसुणिवि रोमंचिउ उविंदु
रणि मारमि दससिरु कुंभयणु
असिधारइ दारमि कुंभिकुंभु
जीवावहाँहं खरदूसणाहं
पहरंति केम हत्यंप्पहत्य
मारीयउ मारिहि देमि गासु
विद्धंसंमि इंदईइंदजालु
पेच्छेसहं कइवयवासरेहिं

भो णिसुणि भडारा हित्तरामु ।
पर गज्जइ जिह वीहंति देव ।
सो णायण्णइ वण्णेण सामु । 5
गलगज्जइ हसियमुहारविंदु ।
वंणि लोहिउ दावमि कुंभयणु ।
दलवट्टमि झ त्ति णिकुंभु कुंभु ।
दारमि उरु रहुवइदूसणाहं ।
मइं मुक्कसरावल्लिण्णहत्य । 10
मउ णिम्मउ रणि कासु वि खगासु ।
अरिपुरु पलित्तु लग्गग्गिजालु ।
परवल्लु पच्छाइउ महु सरेहिं ।

घत्ता—मइं कुद्धे राहव सो जियइ जो तुह पयपंकय णवइ ॥

तुहु देव पयावंपसरतसिउ रवि वि णिरंतरु णंउ तवइ ॥ १ ॥ 15

2

तहि अवसरि आयउ वालिदूउ
ते वुत्तु देव अविलंघंधाम
खेयरचूडामणिघंडियपाउ

वइसारिउ कज्जालाव हंडु ।
सीयासइवल्लह णिसुणि राम ।
अट्टंगु णवइ तुह वालिराउ ।

1 १ A वणलोहिउ. २ AP जीवावहार. ३ A दावमि कयरहु°, T उरु महान्वक्षस्थलं वा.
४ AP हत्यावहत्य. ५ A विद्धंसिवि. ६ A इंदइ इंदजालु, P इंदहो इंदजालु. ७ A पयावहसरतसिउ.
८ AP णवि.

2 १ AP भूउ. २ A तो पुत्तु. ३ A अविलंघंधाम. ४ A °चूलामणि°. ५ AP °षिट्टपाउ.

1 1 हरि सिहः. 2 कुइयमणु कुपितमनाः. 3 b हित्तरामु एता रामा सीता येन च रावणः.
5 a सामहु इत्यादि सामस्य नाम्ना सामवेदस्यापि नाम नाकर्णयति. 6 a उ विंदु लक्ष्मणः. 7 b कुंभ-
यणु कुम्भैर्गणनीयम्. 9 b उरु महान् वक्षःस्थलं वा. 12 a इंदइ इंदजालु इन्द्रजितः इन्द्रजालम्;
b लग्गग्गिजालु लग्नाग्गिजालम्.

2 3 a घडियपाउ °आरोपितपादः.

अण्णु वि विण्णवइ पहुल्लवत्तु
तो णिद्धाडहि सुग्गीव हणुय
णिवडंतु कूवि तिणधरारि पडइ
गरुणं सहं जायइ विग्गहेण
तुह विरहखीण गुणवंत संत
दासरहि पजंपइ लंक जाव
मयगिल्लंगल्लु मित्तत्तहेउ
पच्छइ जं इच्छइ तं जि करमि

जइ इच्छहि मेरउं किंकरत्तु ।
रणभरु सहंति किं वालतणुय । 5
णंगोहविलंविउ उद्धु चडइ ।
विहडिज्जइ हीर्णपरिग्गहेण ।
मारेप्पिणु रामणु हरमि कंत ।
महुं समउ खगाहिउ एउ ताव ।
करिवरं महामेहक्खु देउ । 10
अहुणा तुहु सुक्किउ काइं सरमि ।

घत्ता—लई इच्छउं केर महुंतणिय कुंजरु ढोइवि गिरिसरिसु ॥
इय भासिवि रायं पेसियउ सहं तुहु दूयं णियपुरिसु ॥ २ ॥

3

किलिकिलिपुंरु पत्तउ दिहु वालि
मंतं पवुत्तु भो सच्छच्चित्त
तूसंति राय सुद्धं मणेण
जेणाहवखंधंइ भग्गएण
महुं भायं कंउ किकिधि वासु
कंहुयणि होइ पंहुरियं रेह
जुज्जेसइ सीरि सिलिम्मुहेहिं
मग्गणउ धम्मु गुणु मुइवि जाइ
इय चित्तिवि वोल्लिउ रायमंति
देसइ खयराहिउ असिपहारु

तेयाहिउ णं चंडंसुमालि ।
करि ढोइवि करि पहुसमउं जत्त ।
ता भणइ वालि संथुउ अणेण ।
कायरणरमग्गविलग्गएण ।
हा रामं पोसिउ पक्खु तासु । 5
मणंगूढहु केरिय वित्ति एह ।
अर्णउत्तु वि जाणिज्जइ वुहेहिं ।
सुग्गीवहु हणुयहु उवरि थाइ ।
भण्णइ ण देइ सो तुज्जु दंति ।
तोडेसइ पइं सुग्गीवहारु । 10

घत्ता—ता झ च्चि वओहरु णीसरिउ आँविवि कण्णविवरक्खरउ ॥
आहासइ वलणारायणहं रिउदुव्वयणपरंपरउ ॥ ३ ॥

६ A तणुवारि, P तणधारि. ७ P णगोहि. ८ A दीण°. ९ A °गिल्लगिल्लमित्तत्त°. १० AP करि-
वर वि महा°. ११ P पेच्छइ. १२ A लइ इच्छउ, P सहं इच्छउ.

3 १ P °पुरि. २ A खंधं. ३ A किउ. ४ P पंहुरिव. ५ A मणगूढहं केरी; P मणमूढहं
केरी. ६ A अणुउत्ति. ७ P आयण्णिवि कण्णविवरक्खरउ; T सुइविवर° श्रोत्रानिष्ट.

1 a पहुल्लवत्तु प्रहुल्लवदन°. 6 a णिवडंतु इत्यादि कूपे पतन् तृणधारी तृणावलम्बकः पुमान्वतत्येव;
षट्शुभावम्बक. पुनन्वयं चटति. 10 b देउ ददानु. 11 b सुक्किउ उपकारः; सरमि स्मरामि.

3 2 जत्त वाक्का गमनम्. 4 a आ ह व खंधंइ सत्रामधुरायाम्. 8 a मग्गणउ वाणो वाचकम्.
11 व ओ हर दूत; कण्णविवरक्खरउ श्रोत्रानिष्टाक्षराः दुवंचनपरपराः.

4

ता चिंताविउ मणि रामएउ
 एक्कु जि रवि अण्णु जि गिंभयालु
 एक्कु जि हरि अण्णु जि पक्खरालु
 एक्कु जि विसि^१ अण्णु जि सविसदिट्ठि
 एक्कु जि दहमुहु दुद्धरु विरुद्धु
 मित्तयणु खीणु वलवंत सत्तु
 विरइज्जइ एवहिं कवणु मंतु
 ता विहसिवि वोल्लइ वासुएउ
 केसरिकिसोरु किं मृगं छिवंति
 असमंजसु सज्जणपाणहारि
 सुहडत्ताणंदियसुरवॅरालि

एक्कुं जि सिहि अण्णु वि वायवेउ ।
 एक्कु जि तमु अण्णु जि मेहजालु ।
 एक्कु जि जमु अण्णु जि पुण्णकालु ।
 एक्कु जि सणि अण्णु जि तहिं मि विट्ठि ।
 अण्णेक्कु तहि जि वलिपुत्तु कुद्ध । 5
 पाणिट्ठु सुट्ठु हित्तउ कलत्तु ।
 णउ कुसलकारि एक्कु वि जियंतु ।
 किं दीव जिणंति दिणेसतेउ ।
 ते जगि जियंति जे पइं णवंति ।
 परमेसर पच्छा कोवकारि । 10
 अच्छउ रावणु ता हणमि वालि ।

घत्ता—मइं कुइइ रणंगणि ओत्थरिए भीरु महागिरिकंदरहु ॥
 मा चितहि राहव किं पि तुहुं सूर जंति जममंदिरहु ॥ ४ ॥

5

ता पहुणा पेसिउ तक्खणेण
 साहणु पहि^१ उप्पहि णहि ण माइ
 हरि खुरखयरयहयभाणुदित्ति
 चूरियभुयंग चैलविवालियंग
 थिउ सिविरु धरेप्पिणु दुग्गमग्गु
 आसोसियाइं सरिसरजलाइं
 सिरणालिणारोहियणियकरेण
 दुद्धरदीहरसुंडालसौंड
 पडिचलु गयणयलविलगतालि

सुग्गीउ चलिउ सहुं लम्बणेण ।
 गयघड मयवस मल्लंति जाइ ।
 रंहु चक्कधारदारियधरित्ति ।
 भयकंपिय दिसमायंग तुंग ।
 उन्वेइउ सससारंगवग्गु । 5
 णिल्लूरियाइं णवदुमदलाइं ।
 अक्खिउ वालिहि केण वि चरेण ।
 रामे तुम्हुप्परि पहिउ दंडु ।
 आवासिउ सहरवणंतरालि ।

4 १ P एक्कु वि. २ A विसु. ३ AP मिया. ४ A सुखमालि. ५ A कुद्धर, P कुद्धरण.
 5 १ P उप्पहि पहि. २ AP ण णहि विलग्ग साहणसुकित्ति. ३ AP चलवलियभग.
 ४ A उन्वेयउ. ५ AP दीहरदुद्धर°.

4 1 b सि हि अग्नि, वायवेउ वायुवेग.. 3 b पुण्णकालु पूर्णमासुः. 4 a वि सि संः.
 5 b वलिपुत्तु बलिपुत्रो वाली. 6 b पाणिट्ठु प्राणेष्टम्. 9 a छिव ति स्युगन्ति. 11 a सुरवगलि
 सुरवरश्रेणिः. 12 ओ त्य रि ए उच्छ्रिते सति, भीरु कातराः.

5 5 b स स सार ग व ग्गु शगमृगसमूहः. 7 a सिरेत्यादि मत्तकपणारोपितत्वहस्तेन. 8 b परिउ
 प्रपित.. 9 b सहरवणतरालि सदिरवनमध्ये.

घत्ता—सुग्गीवें सेविउ सीरधरु लद्धउ सहयरु चक्कवइ ॥ 10
तं णिसुणिवि रूसिवि सण्णहिवि णिग्गउ वालि खगाहिवइ ॥५॥

6

गंभीरतूरकोत्ताहलाइं
अच्चिभेइइं कयरणकलयलाइं
वणवियलियपिच्छिललोहियाइं
मोडियरहाइं फाडियधयाइं
लुयदढगुडाइं ह्यगयघडाइं
खयपेक्खराइं गयपक्खराइं
तुद्धच्छराइं बहुमच्छराइं
वंचियपराइं पहरणपराइं
ता तहिं रणंति पीणियकयंति
कंतीइ चंदु रिद्धीइ इंदु
तें भणितं भाइ रे रे अराइ
पहुमाणदहं खल दुव्वियहं

सुग्गीववालिखेयरवलाइं ।
सरपसरपिहियपिहुणहयलाइं ।
पयघुलियंतावलिरौहियाइं ।
आसियणहाइं तासियगहाइं ।
ताडियथडाइं पाडियभडाइं । 5
चुयहरिवराइं कंपियधगाइं ।
मरणिच्छराइं खणमुच्छराइं ।
मयणिभराइं हर्यभयभराइं ।
सामंतकंति वेयालवंति ।
किलिकिलिपुरिंदु धाइउ खगिंदु । 10
विज्जाहराइं मेल्लिवि सजाइ ।
वज्जियगुणहं सुग्गीव संढं ।

घत्ता—मेल्लेपिणुं सेव महंतणिय वंधुणिवंधंइ तिलरिणइं ॥
पइसरिवि सरणु भूगोयरहं जीवेसहि भणु कइ दिणइं ॥ ६ ॥

7

मा पावहि आहवि पाणणासु
तं वयणु सुणिवि सुग्गीउ चवइ
तो लक्खणु भूगोयरु णिरुत्तु
ते वे वि लग्ग विज्जावलेण
पुणु तरुवरेण पुणु मारुएण

जज्जाहि पाव किक्किंधवासु ।
पइं फेडिवि जइ मइ णाहिं थवइ ।
अह णं तो पइं णिप्फल्लु पउत्तु ।
पुणु हुयवहेण पुणु पुणु जलेण ।
पुणु फणिणा पुणु विणयासुएण । 5

६ AP सण्णहिवि.

6 १ A आमिद्धं. २ A° विहलिय°. ३ AP फाडियधयाइं मोडियरहाइं. ४ AP तासिय°. ५ A °पेक्खगाइं. ६ A हियमय°. ७ A °दहु. ८ A दुव्वियहु. ९ A गुणहु. १० A संढु. ११ मेल्लिवि सेवा. १२ AP वंधुणिवद्धं.

7 १ A णिरुत्तु. २ AP मारुएण.

11 सण्णहिवि सजाइ कृत्वा.

6 2 b °पिटु° तिस्तीणंम्. 3 a वणवियलिय° वणविगलितम्; °पिच्छिल° जडं सघनम्. 7 b मरणिच्छराइं मृत्युवाञ्छकानि. 11 b सजाइ स्वजातीन्. 13 तिलरिणइ स्नेहकृत्तानि. 11 कइ कति.

7 1 a आहवि रो. 5 b विणयासुएण गरुडेन.

जुञ्जिय वेणिं वि पुणु भणइ जेदु
ता भासइ तहिं राहवकणिदु
हउं विदु देउ दसरहकुमार
णउं दिण्ण हत्थि रे देहि घाय

मइं कुद्धइ रक्खइ कवणु इदु ।
तुहं ण मुणहि सिदु अणिदु विदु ।
हउं विदु सदुदुद्वियकुठारु ।
तुह एव्वहिं कुद्धा रामपाय ।

घत्ता—जइ जिणवरु सुमरिवि संतमणु चरहि सुदुद्धरु तवचरणु ॥ 10
तो चुक्कइ महु रणि वइरि तुहं जइ पइसहि रामहु सरणु ॥ ७ ॥

8

ता हसिउ पवलेण वलिरायपुत्तेण
भूयरणरिदस्स किं तस्स किर थामु
जइ अत्थि सामत्थु ता मेरुगिरितुंगु
अक्खिवसि किं मुक्ख पक्खिदवरपक्ख
रत्तोवलित्तेहि दरिसियपहारेहिं
मारणकइच्छेहिं दुज्जणसमाणेहिं
कोडीसरत्तेणं णिव्वूढगावाइं
अण्णाइ गहियाइं अण्णाइं मुक्काइं
धावंत वेवंत सरभिण्ण हिलिहिलिय
गयघायकडयडिय रह पडियजोत्तार
अब्भिट्ठ ते वालि लक्खण महावीर
तडिदंडसरलेहिं तरलेहिं खग्गेहिं
खणखणखणंतेहि उग्गयफुल्लिगेहि

संगामपारंभपम्भारजुत्तेण ।
तुहं गणिउ जगि केण अण्णेकु सो रामु।
मइं जिणिवि रणरंगि अवहरहि मायंगु।
कि कुणसि मइं कुइइ सुग्गीवि पारिरक्ख
गुणघम्ममुक्केहिं वम्मावहारेहिं । 5
ता वे वि उत्थरिय विप्फुरियवाणेहिं ।
छिण्णाइं चावाइं जमभउहभावाइं ।
चिंधाइं रइद्वयंदेहिं लुक्काइं ।
अंतावलीखलिय महिवाढि रुल्लुघुलिय
भड भीम थिय वे वि संगामरुक्कत्तार ॥10
थिरहत्थ सुसमत्थ सुरगिरिवंराधीर ।
संवरणपइसरणणीसरणमग्गेहिं ।
जिगिजिगियधारापरजियपयंगेहिं ।

घत्ता—रणसरवरि हयमुहफेणजलि सोणियधाराणालचलु ॥

असिचंचुइ लक्खणलक्खणिण तोडिउ वालिहि सिरकमलु ॥८॥ 15

३ AP दोणि. ४ AP णो दिण्णु.

8 १ वालेण. २ A अक्खवसि. ३ A परपक्खु; P परक्खु. ४ A कोडीसरत्तेहिं. ५ AP रद-
द्वयंदेहिं. ६ A मुक्काइ. ७ AP हय घुलिय. ८ AP ०कत्तार. 9 A ०धगाधीर. १० A संवरण०.
११ A पराजिय०. १२ AP असिधाराचंचुइ लक्खणेण.

7 a राहव कणिदु लक्ष्मणः; 7 b सिदु साया. लक्ष्म्या इष्टो वल्लभः, सा लक्ष्मीर्वा इष्टा यत्नः; अणिदु
अनिष्टस्तव शत्रुः, विदु विशेषेण इष्ट. सुग्गीवस्य अहम्. 8 a विदु वासुदेवः, b विदु वीनामिष्टो गरुडः;
० अ द्विय कु ठार अस्थिकुठारः.

8 4 a अक्खिवसि आक्षिपसि उत्पाटयसि; b परिरक्ख परिण्णाम्. 5 b वम्माव हारे हि
मर्मापहारकैः. 6 b उत्थरिय युद्धार्थमुत्थितौ. 8 b रइद्वयंदे हि सौद्रार्धचन्द्रवाणौ, लुक्काइं गुणाः.
10 a गयघायं गदाघातेन. 1१ a उग्गयफुल्लिगे हि उत्तन्नामिक्तौ, b ०परजियपयंगे हि पराजित-
पतङ्गैः पराजितसूर्यैः. 15 असिचंचुइ खड्गचञ्चुः; लक्खणलक्खणिण लक्ष्मण एव वारसत्तेन.

9

फोडिवि रणि वइरिहि सिरकरोडि
दिण्णी सुग्गीवखगाहिवासु
मेलेपिणुं लक्खणु लंछिधामु
गहियइं णियकुलचिंधइं वराइं
पुरवरि घरि मंडलि णिहिय भिच्च
आसुहिवि महाघणवारणिंदु
संपत्तु जणइणु पुण वि तेत्थु
तहु पायपणइ सीसैं करेवि

किलिकालिपुरेण सहं गामकोडि ।
एवहु फुरणु भणु भुवणि कासु ।
सुपसण्णु महाजसु जासु रामु ।
सीहासणछत्तइं चामराइं ।
वहुवुद्धिवंत णिब्भिच्च सच्च । 5
सहं सुग्गीवेण णरिंदचंदु ।
णिवसइ वणंति वलहहु जेत्यु ।
लक्खणु सुग्गीव चवंति वे वि ।

यत्ता—महिरूढउ वारियसूरकरु कामिणिवेल्लिविलासधरु ॥

तुहं देव पयावहुयासणिण हेलइ दहुउ वालितरु ॥ ९ ॥

10

10

ता पिसुणमरणसंतोसिएण
जित्ताहवेण सहं माहवेण
किक्किधपुरहु दिण्णउं पयाणु
महिणहयराहं रिउरोहिणीउ
मंडलिय मिलिय वियलियसंगव्व
णहु दीसइ णउ छायउं धरहिं
करताडिय गज्जइ गमणभेरि
उण्णिहिय रामणगिलणमारि
करिमयचिक्खिल्लद्वहिं णिमण्णु

मेल्लिवि तं उववणु ववसिएण ।
सुग्गीवें हणुवें राहवेण ।
संघट्टउं पहिं जाणेण जाणु ।
चलियउ चउदह अक्खोहिणीउ ।
दिस पत्तहिं छत्तहिं छइय सब्ब । 5
हरिचरणपहयधूलीरपहिं ।
भडहियवइ वहुइ वइरिखेरि ।
गोविद कडक्खइ लच्छिणारि ।
संदणंसंदाणिउ वइइ सेण्णु ।

यत्ता—हरिणीलें कुंदें परियारिउ खगसारंगविराइयउ ॥

10

किक्किधसिहरि णियवंसधरु रामें रामु व जोइयउ ॥ १० ॥

9 १ P किलिगिलि°. २ A मनेपिणु. ३ P लच्छिवासु. ४ A चडाइं, P चलाइं.
५ P महाघणुवारणिंदु.

10 १ AP संवट्टिउ. २ A पहु. ३ AP °सुगव्व. ४ AP °दहि. ५ A सदाणि संदाणिए;
P सदाणसदाणिए.

9 1 a °करोडि कपालम्. 5 b णिब्भिच्च अव्यभिचारिणः. 7 a जणइणु लक्ष्मणः
b वलहहु वलभद्रो गमः.

10 1 b ववसिएण कृतोद्यमेन. 5 a वियलियसंगव्व विगलिनस्वर्गाः. 7 b °खेरि
पैरजोयः. 3 a उण्णिहिय जानरिना; b कडक्खइ कटाक्षेण विलोकयति. 9 a °द्रहि हृदे; b संदण-
संदाणिउ अज्ञेयार्थे सह रयान वद्धा आकर्षण क्रियते. 10 हरिणीलें गिरिपक्षे इन्द्रनीलमणिना; °सारंग
पक्षे गान्धर्वनद्वे धनुकां. 11 °सिहरि गिरिः; रामु व स्वस्य आत्मा इव.

11

पइसंतहिं हलहरकेसवेहिं
जहिं णिवसइ सो सुग्गीउ खयर
तोरणदुवारि सुपसत्थियाउ
णरचित्तसारधर्णसामिणीउ
हँलि धवलउ कालउ कवणु रामु
किं एहुँ जि एहु ण एहु एहु
वररूवालुद्धइ जुंजियाइं
जणवयणयणइं कसणइं सियाइं
घरु आया कहिं लब्भंति इहु
सिरपणमण्णहाणविलेवणेहिं
अविचित्तियसाहसकित्तितण्ह
सुग्गीवें वेण्णि वि सामिसाल
तहिं दियह जंति किर कइ वि जांव

अवरेहिं मि बहुभूगोयरेहिं ।
अवलोइउ तं किक्किधणयरु ।
दहिअन्नखयमंगलहत्थियाउ ।
वोल्लंति परोप्परु कामिणीउ ।
विहिं रूवहिं किं थिउ देउ कामु । 5
दीसइ वण्णंतरभिण्णदेहु ।
अच्चंतपलोयणरंजियाइं ।
णं हरिवलतणुछायंकियाइं ।
णियमंदिरु पडिवत्तीइ दिहु ।
देवंगहि णिवसणभूसणेहिं । 10
भावें समाणिय रामकण्ह ।
खलवलगल्लयल्लणवाहुडाल ।
संपत्तउ वासारत्तु तांव ।

घत्ता—घणगयवरि तडिकच्छंकियइ चडिउ धरेप्पिणु इंदधणु ॥

वरिसंतु सरहिं पाउसणिवइ णं गिभें सहं करइ रणु ॥ ११ ॥ 15

12

कायउलइं तरुघरि संठियाइं
सरवर संजाया तुच्छणलिण
णच्चंति मोर मज्जंति कंक
चल चायय तण्हाहय लवंति
पवसियापियाउ दुहसल्लियाउ

हंसइं सरमुंयणुकंठियाइं ।
दिसंभाय वि णवकसणम्भमलिण ।
पंथिय वहंति मणि गमणसंक ।
पउरंदरीउ जललउ पियंति ।
महमहियउ जाइउ फुल्लियाउ । 5

11 १ AP केसवहलहरेहिं. २ A °धणमाणिणीउ. ३ A हरि. ४ A थिउ किउ देउ.
५ A एहु. ६ A °गल्लत्थण°.

12 १ A सरसुअणु°. २ A दिसभीय वि णं कसण°.

11 4 a णरचित्तसार° पुसा चित्तमेव सार धनम्. 5 a एलि रे सखि; b वि हिं रूव हिं
द्वाम्यां शुक्लकृष्णाभ्याम्. 7 a अच्चंतपलोयण° अत्यन्तप्रलोकनेन. 8 b °तणुछायंकियाइं शरीरशोभा-
मयानि. 8 b पडिवत्तीइ प्रतिपत्त्या गौरवेण. 12 b गल्लयल्लण° गल्लस्तदाने. 11 घणगयवरि
अभ्रपटलाजे; °कच्छ° वरत्रा.

12 1 a कायउलइं काककुलानि, b °मुचण° मोचने. 2 b णव कसणम्भमलिण नवीन-
कृष्णाभ्रेण मलिनाः. 4 a चायय चातकाः; b पउरंदरीय मेघसवन्वि. 5 b जाइउ जानीत्ताः.

दिसैपसरियकेयइकुसुमरेणु
वरिसंतं देवें भरिउ देसु
एक्कहिं मिलियाइं दिसाणणाइं
अवलोइवि रामु विसायगत्यु

चिक्खिल्लें तोसिय किडि करेणु ।
जलु थलु संजायउं णिव्विसेसु ।
पप्फुल्लकयंवइं काणणाइं ।
थिउ णियकओलि सांणिहियहत्थु ।

हत्ता—घणु गज्जउ विज्जु वि विष्फुरउ णडउ सिहंडि वि मूढमइ ॥ 10

विणु सीयइ पावसुं राहवहु भणु कि हियवइ करइ रइ ॥ १२ ॥

13

पुणु सरउ पवणु सचंदहासु
विमलासउ कुवलयभेयकारि
परिसंतावियपोमंतरंगु
णउ रुच्चइ रामहु वट्टमाणु
ता सुग्गीवें वुत्तउ पहाणु
मेल्लावहि सीयारामकामु
वसुसयसंखा वरं दुण्णिणरिक्ख
वरवीर कौतकरवालहत्थ
कयरयणकिरणपरिहवविसुज्ज
पडिविजावारणि पुज्जाणिज्ज
संमेयमहीहरि सिद्धखेत्ति
गुरुयणविहीइ आराहियाउ

वाणासणकयरिद्धीपयासु ।
वहुवंधुंजीवदोसावहारि ।
णं रावणु दावियदुक्खसंगु ।
पियविराहिउ किच्छें धरइ प्राणु ।
केसव णिज्झायहि मंतझाणु । 5
ता जाइवि सीयारामधामु ।
चउदिसहिं णिउंजिवि देहरक्ख ।
उच्चारिवि थुइमंगल पसत्थ ।
सिवधोसमहामुणिपडिमपुज्ज ।
कण्हें साहिय पण्णत्ति विज्ज । 10
सुग्गीवें हणुवेण वि पवित्ति ।
णाणाविहविज्जउ साहियाउ ।

यत्ता—अण्णेक्कहिं अण्णहिं गिरिसिंहरि भरहि भरेण पसिद्धियउ ॥

पणवंतिउ आयउ देवयउ पुष्कयंतरुइरिद्धियउ ॥ १३ ॥

इय महापुराणे तिसड्डिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए

महाकइपुष्कयंतविरइए महाकव्वे वालिणिहणणं

रामलक्ष्मणविज्ञासाहणं णाम पंचहत्तरिमो

परिच्छेओ समत्तो ॥ ७५ ॥

३ AP दिसि पसरिउ. ४ A चिक्खिल्लें. ५ AP °कलंवइं. ६ P पाउसु.

13 १ AP °जीववंधुं. २ AP पाणु. ३ AP धर. ४ AP परिहवियसुज्ज. ५ AP विजा.
६ A गिरिवरहे. ७ P वालिणिहणं.

6 b किडि सूळ . 9 a वि सा य ग त्यु विप्रादग्रत्तः. 10 सिहंडि मयूरः. 11 पावसु मेघः.

13 1 a सरउ शरत्काल, सचंदहासु चन्द्रभासा चन्द्रोप्या सह, b वाणासणं वाणा
असनाक्ष वृक्षविनेया., घनुश्च. 2 a विमलासउ निर्मलदिशः. विशिष्टमलचित्तश्च, b कुवलयभेयकारि
कुवलयभेयकारि विकाराकारो राजा चन्द्रश्च. 3 a °पोमंतरंगु पद्मस्य रामस्य चान्तरङ्गम्.
6 b सीयारामधामु नीतायां पृथिव्यां आरामस्थानं शीतं वा आरामस्थानम्. 9 a कयेत्यादि कृतो
रत्नस्मितैः परिभ्रमो विनेयेण सूत्रे यया प्रतिमया सा. 10 a पडिविजावारणि शत्रुविद्यानिषेधिका.
13 भरणि भगवलेत्रे.

राहवलक्खणाहि जयजयघोसेण जयाणउं ॥
उप्परि दहमुहहु आरूसिवि दिण्णु पयाणउं ॥ ध्रुवकं ॥

1

मलयमंजरी—उट्टिओ रउहो विविहतूरसदो भग्गवइरिधीरो ॥
चैलियसाहणाणं तुरयवाहणाणं कलयलो गहीरो ॥ छ ॥

संचल्लंति रामि महि कंपइ	धरभरणमिउ ण फणिवइ जंपइ । 5
गयपयकुडिय कुहिणि मयपकें	दुग्गम भावइ कयजणसकें ।
रहरहंगगइदारियविसहर	महिहर दलिय मलिय मय वणयर ।
पवणवसेण वलिर्य विलुलियधय	हयमुहफेणसलिलपसामियरय ।
वरभडथडचुणीकयमहिरुह	सेण्णाउण्ण सगयणासामुह ।
सोसिय सरि सर णिसुडिय जलयर	असिविप्फुरणगसिय ससिदिणयर ॥10
रसिय भपण णाइं रयणायर	थिय देविद विसंठुल कायर ।
देसु विलंधिवि रणरहसुव्भहु	खंधावारु धरिवि जलणिहितहु ।
आवासिउ संचारिमभवणाहि	कंताकंतहि रहरसरमणाहि ।
असियसियारुणपीयलहरियहि	सोहइ बहुदूसहिं वित्थरियहिं ।

घत्ता—सिमिहं सुहावणउं परतरुणीसोहाखंडणु ॥ 15
मेइणिकामिणिहि णं पंचवणुं तणुमंडणुं ॥ १ ॥

2

मलयमंजरी—रयणकंतिकंतं मयरकेउवंतं विजयलच्छिवासं ॥
सायरस्स णीरं णं विमुक्कमेरं रोहिउं दसासं ॥ छ ॥

1 १ AP मलयमंजरी णाम. २ AP °वररिवीरो. ३ P has कयपसाहणाण before चलिय, K gives कयपसाहणाण in margin and in second hand ४ A सचल्लनगमे. ५ AP °खुडिय°; K gives खुडिता वा as *p*. ६ AP चलिय. ७ AP मिविरु. ८ AP संडणउ. ९ A पचजणु. १० AP मडणउं.

2 १ A रोहिओ.

1 1 जयाणउं जयत्य आनयने जयनशीलमित्यर्थः. 6 *a* गयपयकुडिय गजपदै. दुभिता कम्पिता खुडिता वा आकुलिता विपमोन्नता इत्यर्थः, कुहिणि मार्गः, मयपकें मदजल्यदर्शनं. 7 *b* मय मृताः. 9 सगयणासामुह गगनेन सह दिशामुखानि आपूर्णानि. 10 संचारिमभवणरि गच्छदृष्टौ. दूष्यादिभिः; *b* कंताकतहिं स्त्रीकान्तेः.

2 2 विमुक्कमेर विमुक्कमर्षादम्; रोहिउ रूढ छादितम्.

गज्जिउ परवलु दुद्धरु दिद्धुं
 हणुमंतेण तरुणिकमणीपं
 रामु रामरमणीउ रमाहरु
 अच्छइ सायरतीरि णिसण्णउ
 सज्जणु अहिणवज्जलहरणीसणु
 विणविवंसु वरखयरपहुत्तणु
 फार लच्छि देव वि धरि किंकर
 एंतु ण एंतु हंतु वलदप्पिय
 णिहिल जंति तिमिरु व दिवसयरहु
 एक्कु जि दोसुं णवर परमेसर

चारएहिं दहवयणहु सिद्धुं ।
 सहं णियभायरेण सुग्गीवे ।
 खग्गपसाहियसयलवसुंधरु । 5
 अज्जु कल्लि दुक्कइ आसण्णउ ।
 तं णिसुणिवि विण्णवइ विहीसणु ।
 भुव्वेणभायणिम्मलजसकित्तणु ।
 कवणु गहणु तुह किर पायड णर ।
 संगरि तुह करवाल्लडप्पिय । 10
 पइं हंतुं कहिं दिहि रिउणियरहु ।
 जं पइं वाहिय परणारिहि कर ।

यत्ता—पूरइ तित्ति ण वि रइ पसरइ वंछइ संगहु ॥
 परवहुरत्तमणु परि वडइ दिणेहिं णियंगहु ॥ २ ॥

3

मलयमंजरी—मयणवणियचित्तो परपुरंधिरत्तो मरइ साणुअंधो ॥
 पडइ णरयरंधे सत्तमे तमंधे वद्धकम्मबंधो ॥ छ ॥

विसहरसुरणरविरइयसेवहु
 हरिवाहिणिविज्जारहवाहहु
 वजावत्तसरासणहत्थहु
 चक्कपम्इ ण चंगउं दावइ
 अण्णहु किंकिंथेसु ण रप्पइ
 अण्णहु मारुइ किं वरु आवइ
 अण्णहु पंचयणु किं वज्जइ
 अण्णे धरणिघेणु किह वज्जइ

धीरहु वसुसंखावलपवहु ।
 भीमगयाहलमुसलसणाहहु ।
 दिज्जैउ धरिणि देव काकुत्थहु । 5
 लक्खणु वासुएउ महं भावइ ।
 अण्णहु किं रणि वालि समप्पइ ।
 किं पण्णत्तिविज्ज परिधावइ ।
 अण्णु एव किं लच्छिइ छज्जइ ।
 गारुडविज्ज ण अण्णहु सिज्जइ । 10

२ A रमणीयरमाहरु. ३ AP विणमिवसुवर. ४ A भवणभाविणिम्मल°, P भुवणभाइ णिम्मलु.
 ५ A व किंकर. ६ A यतु. ७ AP णवर दोसु.

3 १ A णरहरवे. २ A °विजाहर°. ३ A दिज्जइ. ४ AP देव धरिणि. ५ A अण्णु वि.
 ६ A परिहावइ.

3 b चारएट्टि दृते. 5 a रामरमणीउ लीणा मनोहर, रमाहरु ललमणः. 8 b भुवणभाय° भुवन
 भागेपु. 9 b पाउटणर सामान्यनगः. 10 b अटप्पिय प्रहताः. 12 b वाहिय धिना अपहता इत्यर्थः.

3 1 °वणिव° मणित्तम्; साणुअंधो साणुअंधः पुष्कर्यतविरइयउः. 3 b वसुसंखावलपवहु
 अष्टमवल्गमन्त्र. 5 b काकुत्थहु रामस्य. 6 a चक्कपम्इ द्वितीयचक्रप्रवृत्तिः. 7 a रप्पइ रागं करोति.
 9 a पंचयणु पावकन्यः.

परवहु इह पर परिहवगारी
केवलिभासिउ देव ण चुक्कइ

अण्णु वि जाणइ धूर्यं तुहारी ।
देहि बलहु जा णियइ ण दुक्कइ ।

घत्ता—जंपइ दहवयणु भो जाहि जाहि जइ भीयउ ॥

पूरइ आहयणि भहु कुंभयण्णु महु वीयउ ॥ ३ ॥

4

मलयमंजरी—रे विहीसणुत्तं किं तए अजुत्तं मुयसु मंहिणिवासं ॥

हीणदीणवेसो चरणघुलियकेसो जाहि रामपासं ॥ छ ॥

हउं किं पुणु परिवौडि ण जाणमि

जो ण समिच्छइ सा णउ माणमि ।

एण मिसेण दंतपहविमलइं

खुडमि रामलक्खणसिरकमलइं ।

तणुंसीयइ दंतंहं मलु फिट्ठइ

विणु सीयइ महु कि ण पर्यट्ठइ । ७

ता पणवंतु थंतु हेट्ठामुहु

कसणाणणु णं गब्भिणिउररुहु ।

छेउ णिहालिउ वंधुसणेहहु

णिग्गउ वंधवु गउ णियगेहहु ।

मंतिमईहिं मंतु अवलोइउ

भायरेण मणु णिच्छइ दोइउ ।

एउं रहंगु खगिदणिसुंभउं

जायउं णाइ कुलीरहु डिंभउं ।

हा रावणु जियंतु णउ पेक्खमि

परहु जंति णियकुलसिरि रक्खमि । 10

बलवंतइ विवक्खि असहायहं

तंप्पएसु भल्लारउ रायहं ।

इय चिंतंतु णिसिहि णीसरियउ

दिट्ठु समुहु तेण जलभरियउ ।

घत्ता—झिज्जइ चंडु जइ तो सार्यरजलु ओहट्ठइ ॥

पडिवण्णउं गुरुहुं आवडकालि ण फिट्ठइ ॥ ४ ॥

5

मलयमंजरी—जइ वि णिच्चवंको देहए ससंको तो वि एस चंदो ॥

सायरस्स इट्ठो माणसे पइट्ठो कंतियाइ रुंदो ॥ छ ॥

हउं पुणु खलु चुक्कउ मजायहि

बंधुवइरि किं जायउ मायहि ।

इय जूरंतु जाम णहि वच्चइ

ता रामहु विसारि संसुच्चइ ।

७ P धीय. ८ A हो जाहि.

4 १ A मह णिवास. २ AP पुणु किं. ३ A पट्टिवाडि. ४ A जो. ५ A तणे सीयए.
६ AP दसणहं. ७ A पइट्ठइ. ८ A वधसणेहहु. ९ A एहु १० A जोयउ. ११ P तप्पवेसु.
१२ A सायरु जलु. १३ P adds वि after कालि.

11 a पर परभवे. 12 b बलहु रामस्य. 14 आहयणि संग्रामे.

4 1 म हि णि वा स भ्रासम्. 3 a परि वा टि अनुत्तमम्. 5 a तणु सी य इ वृत्तातीत्या (!)

11 b तप्पएसु तस्मिन् विपक्षे प्रवेश .

5 1 देहए शरीरे, ससंको शन. अङ्गरूपेण. 4 b विसारि वृत्तः

देव विहीसणु दंसणु मग्गइ	तुह चरणारविंदु ओलग्गइ ।	5
पेक्खु पेक्खु णहि आयउ वट्टइ	जिह पडिवण्णु णेहु णोहइइ ।	
तिह हरि ^१ करि तुहुं वेण्णि वि पत्थिय	तेण दसासवित्ति अवहत्थिय ।	
ता रामे सुग्गीवहु पेसणु	दिण्णउं आणहु तुरिउ विहीसणु ।	
गय ते तंहिं सो वि सुपरिक्खिउ	णिरु णिन्धिच्चु भिच्चु ओलक्खिउ ।	
आणेप्पिणु दाविउ हलधारिहि	पणविउ दाणविंदकुलवइरिहि ।	10
ते संमाणिउ रावणभायरु	किउ संभासणु सहरिसु सायरु ।	

यत्ता—चित्तु चित्ति मिलिउं जगि परु वि वंधु हियगारउ ॥
बंधु जि परु हवइ जो णिच्चु जि वड्ढियवइरउ ॥ ५ ॥

6

मलयमंजरी—पुरिससोक्खगाही अहियदेहवाही तिव्वदुक्खवल्लिं ॥		
कुणइ कैह वि आयं सुण्णरणजायं ओसहं सुहेल्लिं ॥ छ ॥		
रावणरज्जदाणु वित्थिण्णउं	रामे तांसु तिवायइ दिण्णउं ।	
गय कइवय वासर तंहिं जइयहुं	हेणुपं वुत्तु हलाउहु तइयहुं ।	
दे आणसु देव णउ थक्कमि	एवहि लंकहि संमुहु दुक्कमि ।	5
भीमे वाणररूवे वट्टमि	उहमि घरइं भड्डंभणु कट्टमि ।	
मंजमि वणइं लव्वलिदललवइं	फलणवियंगइं पल्लवतंवइं ।	
ता दसरहसुएण परवलहर	अरिकरिदंतंघट्टुदीहरकर ।	
कामरूवधर णावइ सुरवर	तासु सहाय दिण्ण विजाहर ।	
वाणरविज्जइ वाणर होइवि	सयल वि गय लंकाउरि जोइवि ।	10
गयणविलग्गदेह गिरिपहरण	वुक्करंत वग्गिय मग्गियरण ।	
पुंछवलयवलइयतरुवरसिल	चरणचारचालियधरणीयल ।	
छिच्चरणास दीहदंताणण	पिंगलणयण छोहभीसावण ।	
धाइय पत्त दसासहु पट्टणु	मारुइणा जोइउ गंदणवणु ।	

यत्ता—हरिकररूहवणिउं आलगसुरहिणवचंदणु ॥ 15
वणु महु आवडइ णं लच्छिहि केरउं जोव्वणु ॥ ६ ॥

5 १ AP करि हरि. २ AP तंहिं जि सो.

6 १ A देववाही. २ A दुक्खमल्ली. P दुक्खवेल्लि. ३ AP कंहिं वि. ४ A सुहेल्ली.
५ AP तासु वि वायद. ६ P देहाणसु. ७ P भड्डसणु. ८ A विल्लदललवइं; P लव्वलिदललवइ.
९ P 'हरिन्त'. १० AP छिच्चि^०.

7 a इति हे विणो.

6 1^० सोक्खगाही सुखोद्दालक; अहिय^० न हितः. 2 मुहेल्लि सुखम्. 3 b तिवायइ
नियग्यवत्तेन. 4 b भट्टभट्टणु कट्टमि सुभट्टग्रामसुत्पादयानि. 1,3 a छिच्चरणास पृथुनासिकाः
A 'सो' कोप. 15 हरिकर च एव निउं विणुनरत्नपितम्. 16 आवडइ भासते.

मलयमंजरी—रूढवालकंदं देवदारुमंदं सूरकिरणवारं ॥

दिण्णकुसुमवासं दिव्वमिहुणवासं जणियमयणसारं ॥ ७ ॥

इंदसरासणेण घणउलमिव णीलतमालणिद्धयं ।

वणमंजणसुएण लंगूलं चउहिं वि दिसहिं रुद्धयं ॥ १ ॥

सुरकरिसौंडं चंडभुयदंडवलेण चलेण पेल्लियं ।

5

मोडियमहिरुहोहसंघट्टणचुयचंदणरसोल्लियं ॥ २ ॥

करंमरकडहकुडयकडयंडरवउड्ढावियविहंगयं ।

भग्गणवल्लुफुल्लवल्लवदलगयगुमुगुमियभिगयं ॥ ३ ॥

णिविडं वडालिवंदणुम्मूलणविहडालियरसौयलं ।

णिग्गयसविसफरुसफुक्कारभयंकरसमणिफणिल्लं ॥ ४ ॥

10

चूरियचारचूयचं वचिंचिणिसमिलवलीलवंगयं ।

पायाहयपलोड्ढं चंपयचं यदलवट्ठियं कुंरंगयं ॥ ५ ॥

दलियलयाणिवासणिण्णासियसुरवरखयररइसुहं ।

सुकट्ठिणकरंतलप्पमुसुसूरियकीलागिरिगुहामुहं ॥ ६ ॥

पविमलमणिसिलायलुत्थल्लणदिग्गयजक्खकंतयं ।

15

सरवावीणिवद्धविद्धंसियकीलासलिलजंतयं ॥ ७ ॥

हयवित्थिण्णसाहिसाहाचुंयवहुमहुविट्ठुतं वयं ।

पडियकवित्थभग्गकिणरकरवीणालग्गतुं वयं ॥ ८ ॥

दूरुद्धरियविडविमूलुज्जियविवरणिलीणसावयं ।

पडिरवतसियं रसियविवियाणणवाणरविरइयावयं ॥ ९ ॥

20

खंडियतुंगमडुसिहं हंडियहंसविमुक्कसहयं ।

णिवडियणालिपरसालामलफलमालाविमहयं ॥ १० ॥

घल्लियसुक्करुक्खसंघट्टसमुग्गयजलणजालयं ।

दह्वपियंगुपिगउच्छलियफुलिगपलित्ततमालतालयं ॥ ११ ॥

मुक्कतिसूलसेल्लसरघोरणिसव्वलभिडिभौलयं ।

25

धाइयभिडिभंगभीसावणभिडिउज्जाणवालयं ॥ १२ ॥

7 १ AP °चंडसुडभुय°. २ A करमरकुडयकडय, P करमरकुडउकुडयकडय°. ३ AP °कडय-डसरउड्ढा°. ४ A णिवडियडालि°, P णिवडवडालि°. ५ AP °ग्गालय. ६ AP °चविचिचिचिचि°. ७ AP °चंपययदल°. ८ P वट्ठिय°. ९ A °सरतलप्प°. १० P omits वट्ठ. ११ AP रसियतसिय°. १२ A °सिहरुडिय°. १३ AP omit तमाल. १४ A °भिडमालय.

7 1 °मंदं प्रचुरम्. 3 घणउलमिव नेवपटलवत् : गिद्धय स्तिग्गणान्तिमत्. 7 °कडयडरव° फटकटाशब्दः. 9 °वडालि° वट्टुधुध्रेणि., °वदण° रक्तचन्दन.. १२ °चंपयचचं° चम्मकट्टुत्सुहः. 14 °करतलप्प° कप्रहारः. 20 °त्रिवियाणण° विकलित्तमुग्गा. 25 °भिडिनालय मोक्षी.

वत्ता—विजाणिम्मियहिं अइंभीमहिं मायारक्खहिं ॥
पावणि वेढियउ रावणणंदणवणरक्खहिं ॥ ७ ॥

8

मलयमंजरी—संगरम्मि कुद्धा पमयएहिं रुद्धा वृढवीरमाणा ॥
मारिया अणेया जित्तहरिणवेया रक्खसा पलाणा ॥ छ ॥

अवर वि आया मायाणिसियर	लउडिमुसुंडिकुंतकंपणकर ।
कुडिल वद्धमच्छर इच्छियकालि	जलियजलणजालाकेसावलि ।
गुंजापुंजरत्तणेत्तुम्भड	दाढाचंडतुंड पललंपड । 5
दीहदीहजीहादललालिर	परवलघोलिर हूलिर सूलिर ।
ताहं रणंगणि दावियरुंडहिं	लग्गा वलिमुह गिरिसिलखंडहिं ।
सरपुंखहिं भमरेहि व मंडिय	जिह वणि तरु तिह ते रणि खंडिय ।
जिह वेळिउ तिह अंतइं छिण्णइं	जिह पत्तइं तिह पत्तइं भिण्णइं ।
जिह ताडहलइं तिह रिउसीसइं	पाडियाइं धरणीयलि भीसइं । 10
जिह उजाणहु णट्टइं चक्कइं	तिह रिउरह्वरि भग्गइं चक्कइं ।
जिह सर तिह विद्धंसिय रिउसर	लंकाणयरि पइट्टा वाणर ।
वरि वरि चडिय जलंतहिं पुंछहिं	णीसारियउ जलणु पिंगच्छहिं ।
दहइं णायरभवणसहासइं	जालाहार व धाहामीसइं ।

वत्ता—लग्गउ वइरिपुरि हुयवहु हणुवेंते धित्तउ ॥ 15
राहवकोवसिहि णं दुण्णयतणेण पलित्तउ ॥ ८ ॥

9

मलयमंजरी—छइयकेउसोहो णयणचारुरोहो जणियलोयवसणो ॥
चडइ गयणि धूमो रावणस्स भीमो दुज्जसो व्व कसणो ॥ छ ॥
धूमंतरि जालोलिउ जलियउ. णं णवमेहमज्झि विज्जुलियउ ।

१५ AP अइभीमहिं.

8 १ A एम एहि रुद्धा. २ AP ०णेत्रत्तुम्भड. ३ AP जीहदीह°. ४ A भमरिहिं णं; P भमरिहिं णं. ५ AP पव्वड, K पत्तइं and gloss वाहनानि. ६ A रिउ रहे रहे; P रिउं रह्वरे.

9 १ P चारुगेहो.

8 १ पमयएहि वानरं; वृढवीरमाणा श्रुतवीराहकाराः. 2 जित्तहरिणवेया जित्तहरिण-
वेया. नृगजलश इत्यर्थ. 3 a दीहदीह° अतिदीर्घा. 7 b वलिमुह वानराः. 9 b पत्तइं वाहनानि.
10 दृष्णवतणेण सीतापहरणरूपान्वायवृत्तेन, पलित्तउ प्रदीत..

9 १ छइयकेउसोहो आच्छादितष्वजशोमः, अन्यत्र. तिग्गुत्तकेतुर्ग्रहविशेषः.

पुणु वि ताड सोहंति पईहउ
 संदाणियसीमंतिणिदेहउ
 घरसिरकलसु वलंतें छित्तउ
 सहयरु छंदगामि णउ मुणियउ
 उग्गु ण सज्जणपक्खु विहावइ
 गमणें जासु होइ काली गइ
 वरमंदिरजडियइं माणिक्कइं
 तेयँवंतु परतेउ ण इच्छइ
 डज्जंतहि चंदणकप्पूरहि
 रयर्ममरइं उक्कोइयमयणइं
 जिणवरवेसणिसेहं कयत्थइं

णं चामीयरतरुवरसाहउ ।
 सिहिणा पसरियाउ णं वाहउ । 5
 सरिउणिवासु व पउलिवि घित्तउ ।
 धउ परिघोलमाणु कि हुणियउ ।
 उह्मगामि किहँ परु संतावइ ।
 तहु किर कि लब्भइ सुद्धी मइ ।
 उहँइ अछेयपहापईरिक्कइं । 10
 सइं जि पहुत्तणु विहवहु वंछइ ।
 पउरसुरहिपरिमलवित्थारहिं ।
 वासियाइं सयलइं दिसवयणइं ।
 दह्मइं मउदेवंगइं वत्थइं ।

घत्ता—घरदुवारु जलइ वरपोमरायविष्फुरियउं ॥

15

जालापल्लवेहिं णं दीसइ तोरणु भरियँउं ॥ ९ ॥

10

मलयमंजरी—दहमुहस्स कम्मं मुक्कणायधम्मं जाणित्तं व कुद्धो ॥

उक्कवाणजालं मुयइ णं विसालं सिहि सिहासमिद्धो ॥ छ ॥

होमदव्वरासिउ संपत्तउ
 हुरुहुरंतु णं संति पघोसइ
 होउ संधि जीवउ महिमाणु
 एत्तहि अग्गिजाल पवियंभइ
 माय ण पुत्तहंइ संमंगइ
 भवणारोहणु करिवि अभग्गउ

तिलजवघयकप्पासहि तित्तंउ ।
 दिज्जंत रामहु सीय महासइ ।
 भुंजउ लच्छि अविग्घं दसाणणु । 5
 एत्तहि वाणरविट्टु णिसुंभइ ।
 जणु हल्लोहल्लिहुउ कहिं णिग्गइ ।
 णं वइसाणरु जौयहुं लग्गउ ।

२ A चंडंतें, P वलवतें, but K वलते ज्वलता. ३ A किपरु. ४ AP कहि. ५ A परवउ पेक्कित्ति
 णावइ थक्कइ. ६ P परिथक्कइ. ७ P तेयमतु. ८ A रइभवणइ. ९ A जिणवरभवणणिसेहं, P जिणवर-
 वेसणिवेसं. १० P सरियइ.

10 १ A सित्तउ. २ A दिज्जतो. ३ A होइ. ४ A अविट्टु. ५ AP सामग्गइ.

4 a पईहउ प्रदीर्घा. 5 a संदाणियं अग्निना वद्ध. 6 a वलते ज्वलता, b सरिउणिवासु स्वहा
 अग्ने. रिपुः शत्रुर्जल तस्य स्थान कलशो घटः तेन प्रज्वाल्य क्षिप्तः. 7 a सहयरु अभ्रेर्मित्र वातु. 9 a
 काली कृष्णा. 10 b अछेयपहापरिक्कइं अछेयप्रभाप्रतुराणि. 13 a रयर्ममरइ रता भ्रमरा वेतु,
 उक्कोइयमयणइ उत्पादितकामानि. 14 a जिणवरवेसणिसेहं कयत्थइ नमत्तन्निषेधकानि वग्गानि.
 16 भरियउं वद्धम्.

10 3 b तित्तउ वृत्त. 6 a पवियभइ प्रविवृभने. 7 a पुत्तइतु पुा एव भाण्टम्;
 समग्गइ सत्तुणोति.

केत्तिय लंकाउरि मइं दही
वाहिरपुरवरु एम डहेप्पिणु
चल्लिउ पडीवउ पावणि तेत्तहि

णं विडेण कामिणि दुवियही ।
कित्तिमणिसियरणियरु वहेप्पिणु ॥१०
णिवसइ सँसिविरु राहउ जेत्तहि ।

यत्ता—भरहँ लक्खणेण सहं सीरपाणि अवेलोइउ ॥
तेणंजणहि सुउ सियपुष्कयंतु पोमाइउ ॥ १० ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए
महाकइपुष्कयंतविरइए महाकव्वे णंदणवणमोडणं लंकाडाहं
णाम छहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७६ ॥

६ A वल्लिउ. ७ A सन्निवस P सन्निवह. ८ P omits लंकाडाहं.

१० कामिणिदुवियही अचतुन वेय्या. ११ a पडीवउ प्रतीपं पश्चात्. १३ पोमाइउ प्रशंसितः
स्त्वपिः.

वणु भंजिवि पुरवरु णिडुहिवि हणुंइ णियत्तइ जयसिरिकामे ॥
अज्ज वि कि णावइ खयरवइ पुच्छिउ एम विहीसणु रामे ॥ ध्रुवकं ॥

1

हेला—सो तेलोक्ककंठओ सहइ कि पराणं ॥
घणुगुणरववियंभियं विलसियं सराणं ॥ छ ॥

ता भणइ विहीसणु भयणिरीहु
तो करि कुरंग किं तँहिं चरंति
महिँवइ लंकहि जइ हँतु देव
तँ जँणिउं तुहुं वालिहि कयंतु
जसु भाइ अणंतु अणंतधामु
इय चितिवि होइवि सुइसरीरु
आइच्चपायमहिहरि दसासु
अच्छइ विज्जासँहणपयत्तु
तं णिसुणिवि आढत्ताहवेण
धाइय ते दुद्धर विग्घकारि

जइ गिरिवरकंदरि वसइ सीहु । 5
कायर तहु गंधेण जि मरंति ।
जीवंत पंति तो भिच्च कँव ।
रइवइसुग्गीवसहायवंतु ।
सो विज्जइ विणु कहि जिणमि रामु ।
इंदइ णियरंक्ख करेवि धीरु । 10
थिरु विरण्णिणु अट्टोववासु ।
णेरंतरु ज्ञाणारूढचित्तु ।
विज्जाहर पेसिय राहवेण ।
हलमुसलसंवालतिसूलधारि ।

घत्ता—णहि जाइवि दिणयरच्चरणगिरि मायावाणरेहि कयरवहिं ॥ 15
वेढिउ विंशु व जलहरहिं गज्जणसीलहिं दरिसियचावहिं ॥ १ ॥

2

हेला—घोरणीलवण्णया छण्णगयणभाया ॥
आहूया घणाघणा मुक्कधीरेणाया ॥ छ ॥

वाँओलिधूलिवहलंधयारु

गँडगडिय पडिय पाहाणफारु ।

1 १ P भुजिवि. २ A हणुवणियत्तइ. ३ A तिल्लोक्कं, P तद्लोक्कं. ४ A तँहिं किं चरति.
५ AP जइ महिवइ लंकहि हँतु. ६ P तो जाणितु. ७ AP णियरक्खणु करिवि. ८ P चारणि.
९ A सवाणतिसूलं.

2 १ AP वीरं. २ P वाउधूलियवहलं. ३ P गयवडियं.

1 1 हणुइ हनुमति, णियत्तइ निवृत्ते सति. 5 a णिरीहु नि सइ निर्भर.. 8 a तेरावणंत्तः
b रइवइ हनुमान्. 9 a अणत्तु लक्ष्मणः, अणत्तधामु प्रचुरत्तजा. 10 सुइसरीरु पवित्रशरीरः,
b इइइ इन्दजित्. 11 a आइच्चपायमहिहरि आदित्यपादगिरी. 11 a आढत्ताहवेण प्रच्छ
सगामेण. 11 b b संवालं करवालेन नवनेन सह. 15 दिणयरच्चरणगिरि आदिगतादनामा पदेन.

2 2 आहूया सजाताः, घणाघणा शब्दनिर्गन्तरा मेवा. 3 a वाँओलिं चण्णयो वात्त.

णिवडिय तडि फोडिय गिरिखयालु
जलुं धलु महियलु जलभरिउ सयलु
दरिसिउ मंदोवरिकेसगाहु
बंधवसिरकमलइं तोडियाइं
कुद्धउ दसासु आणाउ ढल्लिउ
इंदइणा कहिउं खगेसरासु
णीसेसु वियंभिउ एहु ताव
ता राणं विज्जादेवयाउ
आयाउ ताउ पंजलियराउ

वरिसाविउ तक्खणि मेहँजालु ।
पइ ढोइउ आयसवलयणियलु । 5
भइ कुंभयण्णु फणिवद्धवाहु ।
वच्छयलइं विउलइं फाडियाइं ।
कहिं चंदहासु पभणंतु चलिउ ।
परमेसर खगमायाविलासु ।
तुहुं णिययणियमपब्भट्टु जाव । 10
णिज्जाइयाउ णिहियावयाउ ।
पेसणु महंति पणमियसिराउ ।

यत्ता—भणु दसकंधर धरणिधर हरहुं जीउ अरिवरहु सणामहुं ॥

अम्हहं वलवंतहं हरिवलहं तर्सहुं णवर राणि लक्खणरामहुं ॥ २ ॥

3

हेला—ता भणियं महेसिणा जाह जाह तुम्हे ॥

णियभुयजुयसहायया संगरम्मि अम्हे ॥ छ ॥

सक्कहुं सीरिहि लच्छीहरासु
एत्तहि इंदइ अन्भिडिउ ताहं
आवट्टइ लोट्टइ जायमण्णु
दरमलइ थोट्टुंघोट्टुथट्टु
परिखलइ वलइ हणु भणइ हणइ
संभइ थंभइ तरवारिधार
सीसक्कइ फोडइ तडयडत्ति
असिवरइं खलंतइं खणखणंति
पइसरइ तरइ कीलालवारि
इंदइ णिरत्थ कयवूढगव्व

किं वसणि दीणु भण्णइ परासु ।
मायावियाहं साहामयाहं ।
संघट्टइ फुट्टइ वइरिसेणु । 5
सूडइ विसट्ट पडिभडमरट्ट ।
उल्ललिवि मिलइ रिउसिरइं लुणइ ।
णिहँणइ विहुणइ पवरासवार ।
मुसुमूरइ छत्तइं कसमसांति ।
कडियलकिंकिणिउं झुणुझुणंति । 10
पडिवक्खहु पाडइ पलयमारि ।
आयासयालि गय परमय सव्व ।

४ P मोहजालु. ५ A जलधलणहयल जलभरिय. ६ A वणदेवयाउ. ७ P आइयउ. ८ P तसहुं धरणे सहुं लक्खणं.

3 १ A °दुग्घट्टं. २ AP ताडइ. ३ AP पडिखलइ. ४ P णिहुणइ. ५ AP खलखलंति. ६ AP किंकिणियउ रगुणंति. ७ A पडयमारि. ८ A पवय.

1 a गिरिखयालु पवंतानां क्षयकालो मेघः. 5 b पइ पादे मन्दोदर्याः. 8 a ढलिउ च्युतः. 10 णिययणियमपब्भट्टु निजकनियमात्पभ्रष्टः. 12 b महंति श्लाघयन्ति. 13 सणामहुं प्रख्यातानाम्. 11 तसहुं भयं कुर्मः.

3 3 a सफहुं शक्तुमः. 4 b साहामयाहं वानराणाम्. 5 a जायमण्णु जातक्रोधः. 6 a थोट्टुं समर्थाः ; °दुग्घोट्टुं दुर्भगः ; b °मरट्टुं गर्वः. 12 b पमय वानरा.

घत्ता—विहुरि वि धीरु अविसंणमणु ण चलइ किं पि सुहडहंकारहु ॥
लंकेसरु लंकहि गंपि थिउ खंधु संमोडिवि गुरुरणभारहु ॥ ३ ॥

4

हेला—कयरिउविग्घविन्भमा कमियगर्गणभाया ॥

आया राममंदिरं विविहखयरराया ॥ छ ॥

ता इच्छियणियणाहसिवेणं	हणुमंतं सुग्गीवणिवेणं ।	
गिरिसंमेयसिहंरसिद्धाओ	अणिमाइहि रिद्धिहि रिद्धाओ ।	
विज्जाओ परसाहणियाओ	केसरिखगवइवाहिणियाओ ।	5
दिण्णाओ दुल्लंघवलाणं	वीराणं गोविंदवलाणं ।	
पण्णत्तीए रइयं जाणं	रयणमयं मणहारि विमाणं ।	
कूडकोडिसंघट्टियचंदं	दिव्वं कइवयजोयणरुंदं ।	
भित्तिणिरूवियचित्ति सुरूवं	वद्धसिणिद्धचिंधचंदोवं ।	
रणंझणंतमणिंकिंकिणिजालं	हेममयं तोरणसोहालं ।	10
णाणाविहदुवाररमणीयं	पारंभियसुरसुंदरिगीयं ।	
आयणियणरखयरासीसो	अक्खयदहिदोवंचियसीसो ।	
तत्थारूढो देवो रामो	हरि हरिसिल्लो अंजणसामो ।	
दरिसियहयमुसलंकुसपासं	भूगोयरसेणं णीसेसं ।	
चलियं गगणे खयराणीयं	सामिकज्जि परिछेइयजीयं ।	15
णाणाहरणविहसियदेहं	गयवरदंतवियारियमेहं ।	

घत्ता—संदाणिय णंहि ससिदिवसयर पेह्णोपेह्णि जाय खगरायहं ॥

धयछत्तचलंतहं चामरहं हरिकरिरहवरभडसंघायहं ॥ ४ ॥

९ AP ण विसण्णमणु. १० AP समोडिवि.

4 १ AP गयण°. २ AP °सिहरि सिद्धाओ. ३ AP धीगण. ४ A दिव्वा कइ°. ५ A भित्तिणिरूविय°. ६ AP चित्तसरूवं. ७ AP ण्णुणत°. ८ P omits हरि. ९ A °णहसवि°. १० AP पेह्णोपेह्णि. ११ P जाइ.

4 5 a परसाहणियाओ शत्रुसाधनीयाः, b केसरिसखगवइवाहिणिमाओ सिद्धगच्छ-
वाहिन्य. 7 a रइय जाण रचित विमानम्. 8 a कूड° शिखराणि. 9 a भित्तिणिरूवियचित्ति
भित्तिलिखितचित्रेणः b °चिंधचंदोवं ध्वजचन्द्रोपकम्. 12 b °दोवचियनीसो दूर्वाजिनमन्तर.
15 a खयराणीय नगसेन्यम्, b परिछेइय° संकल्पितम्. 17 तदाणिय घटा., पेह्णोपेह्णि
सघट्टः.

5

हेला—णवणित्तिससंणिहे णहयले चलंतं ॥

मंयगलमयजले वलं दीसए वहंतं ॥ छ ॥

करिछाहिहि जलकरिवर विलग्ग	जलणर णरवरपडिविंभग्ग ।	
धावंति मयर पलगिल्लणकाम	झस सुंसुमार गंभीरथाम ।	
सीमंतिणिपडिरुवइं णियंति	जलदेवयाउ सीसइं धुणंति ।	5
उज्जलमोत्तियभायणधरेहिं	पवणुद्ध्यचलवीईकरेहिं ।	
गज्जइ समुद्दु वाहरइ णाइ	मरुकंपियंगु भयवसु व थाइ ।	
सायर लंघिवि परिहरिवि संक	वेढिय विज्जाहरणिवहिं लंक ।	
किउ कलयलु रणपडहइं हयाइं	भीरुहं चित्तइं विहडिवि गयाइं ।	
सत्त वि पायालइं थरहरंति	उम्मगलगा सायर तरंति ।	10
विसहर भयरसवस विसु मुयंति	कुंचियकर दिसकरि कुक्कंरंति ।	
दित्तइं णक्खत्तइं ढलढलंति	झुलंतइं णहि एकहि मिलंति ।	

यत्ता—वाइत्तयसइसमुच्छलेण संखोहणु जायउ तेल्लोकहु ॥

किं जाणहुं णहि तडि तडयडिय पडिउ विंवु समियंकहु अकहु ॥५॥

6

हेला—ता भुवणुत्तुरडिणिवडणे किं हुओ णिघोसो ॥

आहासइ दसाणणो गाढजायरोसो ॥ छ ॥

भायर कि सुम्मइ घोरु णाउ	कि उडुइ धूलीरयणिहाउ ।	
दीसइ महिमंडलु महिहरेहिं	णहयलु संछण्णउं णहयरेहिं ।	
ता विहसिवि पभणइ कुंभयणु	अवयरिउं देव पडिवक्खसेणु ।	5
हा हरि आढत्तउ जंघुएहिं	वडवसु जीवहि जीवियचुएहिं ।	
सेरिहु मयमत्ततुरंगमेहिं	पक्खिवइ खलियउ उरजंगमेहिं ।	

5 १ मयरायले जले, P मयरायलजले. २ A °गल्लिण°. ३ AP रणतूरइं. ४ P भीरुहं.
५ A झुणंति, P कुक्कंरंति.

6 १ A °त्तकडिणिवडणे P °त्तुरडिणिवडणे. २ A महियलेहिं, P महियरेहिं. ३ A मयमत्तु.

5 1 ण व णि त्तिस सं णि हे नवीनखड्डसदृशकान्तिमति गगने. 3 a करि छा हि हिं गजप्रतिविम्बैः
मसुद्रज्जे गगने दृश्यमानैः. 4 a पल गिल्लण काम मासगिल्लने कामो वाञ्छा येषाम्. 7 a वाहरइ
वनाहरति आमन्त्रयतीत्यर्थः. 5 a सक भयम् 10 b उम्मगलगा उन्मार्गलगाः; तरंति वहन्ति.
11 b झुलंतइ दोन्ययमानानि. 14 समियकहु मृगाङ्गलहितस्य चन्द्रसहितस्य.

6 1 °उत्तुरडि उत्तरंठी इति भाषायाम्. 3 a भायर दे कुम्भकणं. 4 a महिहरेहिं
भूमेचं... 5 a आढत्तउ वेष्टित, जंघुएहिं शृगालैः. 7 a नेरिहु महिपः.

किं तुञ्जु वि उप्परि पंतिं सत्तु
लइ दुक्कउ दीसइ विहिविहाणु
तं णिसुणिवि भणितं दसाणणेण
अरिहरिण मिलेप्पिणु किं करंति
धंव पावउ भुक्खिय पलयमारि

किं तुहुं वि समिच्छहि परकलत्तु ।
भिहु एवहिं पीडिवि रणि क्खिवाणु ।
जीवेंतं मइं पंचाणणेण । 10
अस्सिणहूरुद्धडप्पिय धुउ मरंति ।
पहणाविय लहुं संणाहमेरि ।

घत्ता—विरसंतइं णरकरयलहयइं तूरइं णाइ कंहंति दसासहु ॥

राहवहु सीय णउ दिण्ण पइं कि उक्कंठिउ वइवसवासहु ॥ ६ ॥

7

हेला—कंचणकवयसोहिओ णवतमालवण्णो ॥

संझारायराइओ णं वणो रवण्णो ॥ छ ॥

संणज्झमाणु रिउतासणेण
असिविज्जुइ विमलइ विण्फुरंतु
भहु को वि णिहालइ वाणपत्तु
भहु को वि पलोवइ तोणजुम्मु
भहु को वि मुयइ संणाहभारु
कासु वि पइसरइ ण पुलइयंगि
किं धणुणा कयवहुसंकएण
भहु को वि भणइ हउं कौतवाहु
मायंगकुंभु णिहिकुंभुं जेव
भहु को वि भणइ मंहियत्तियाइं
अवरु वि करिरथणहं देमि हत्थु

भहु सोहइ दिव्वसरासणेण ।
जीविययरु जीवणु जणहु वित्तु ।
लइ एयहु एवहि रिउ जि पत्तु । 5
णं रणसिरिऊरुंजुयलु रम्मु ।
कि कासु वि रच्चइ लोहंसारु ।
सो फुट्टइ पिसुणु व सुथणसंगि ।
चरणेण वि आहववंकएण ।
कौतं वाहमि रिउरुहिरवाहु । 10
हउं फोडमि अज्जु गयाइ तेव ।
दक्खालमि थूलइं मोत्तियाइं ।
णियणिवरिणमेह्हावणसमत्थु ।

घत्ता—दहवयणहु णिच्च विरत्तियहि को वि भणइ हियवउं संतावमि ॥

अणरत्तियहि सीयहि तणिय तणु राहवरत्तकुमुंभइ रावमि ॥अ॥ 15

४ हुत्ति. ५ A इकइ. ६ AP °णहवर°. ७ A धुउ, P धउ, K धव and gloss वृत्तिम्.

7 १ P °उरुजुयरम्म. २ AP लोहभार. ३ A थारमि. ४ A °वाहु. ५ A कुभणिं. ६ P महियत्तियाइ.

9 a वि हि वि हा णु पूर्वार्जितम्. 11 b अस्सिणहर° गङ्गनत्वा.; °अउप्पिय प्रत्ता.. 12 a धव वृत्तिम्.

7 २ °राइओ राजित. शोभित.. 1 b जीवणु ग्रामवृत्ति जलं च 5 a वाणपत्तु वाणपुग्गम्. 6 a तोणजुम्मु तणीरयुगलम्. 8 a पुलइयमि पुलनित्तमरिं गात्रनाण न प्रविशन्ति. 9 a कयवहु-सकएण स्वकार्यक्षमत्वा कृता वधना वधना च गइत्ता येन. 10 कौतवाहु कुन्तवर.; ० °वाहु प्रयाण. 11 अणरत्तियहि अरत्तिकाया. अरत्ताया, रावमि रत्तवामि रत्ता करोमि.

8

हेला—आरूढा महासवारवाहिया तुरंगा ॥

कंचणसारिसज्जिया चोइया मयंगा ॥ छ ॥

पवणपहयं विलं वियधयवडं	विविहजाणजंपाणसंकडं ।	
सयडचक्कचिकरणपडिरवं	वद्धरोसभडभिउडिभइरवं ।	
विप्फुरंतकरवालधारयं	हणु भणंत दुक्कासवारयं ।	5
पणवतुणैवझल्लरिमहासरं	चित्तछत्तछणंवरंतरं ।	
चलियधूलिमइलियदिसामुहं	पलयकालकालग्गिसंणिहं ।	
इंदचंदणाइंदतासणं	णं कयंतरायस्स सांसणं ।	
णिग्गयं वलं वहलकलयलं	रहियणहयलं पिहियमहियलं ।	
दुमुदुमंतरणरहसमहलं	जाययं च पडिसुहडगोदलं ।	10
खग्गवायविच्छिण्णसीसयं	हुंकरंतभूभंगभीसयं ।	
कौतकौडिसंघट्टेपेल्लियं	वणगलंतकीलालरोल्लियं ।	
विचलियंतगुप्पंतचरणयं	हयगयासंणीदिण्णकरणयं ।	

वत्ता—पणवियराहवरामणपयइं सीयाकारणि अमरिसपुण्णइं ॥

अधिभट्टइं गिरितखवरकरइं मायावाणरणिसियरसेण्णइं ॥ ८ ॥ 15

9

हेला—असमुग्गरमुसंदिहिं णिहयणरवरंगं ॥

जायं दंडसंजुयं दूरमुक्कभंगं ॥ छ ॥

रहियहि रहिय तुरपहि तुरय	रणि रुद्ध पंतं दुरपहिं दुरय ।	
पायालहिं वरपायाल खलिय	कर्मसंचालेण धरित्ति दलिय ।	
हरियुरखणित्तखडं णं मरंतु	उट्टिउ धूलोरउ पय धरंतु ।	5

8 १ P ०सारसज्जिया. २ AP ०पहयपविलंविय०. ३ A पवणरणय०. ४ AP ० दणुइंदतासणं. ५ P गान्ण. ६ A ०मंदल. ७ P भीमय. ८ AP विचलियंत०. ९ P गयसिणी०.

9 १ A असमुग्गलमुसंदिहिं णिहिय०. २ A रहपहि. ३ AP यंत. ४ AP ०संचारेण. ५ A णं वड मरंतु.

8 2 ०साग्गि पर्याणम्. 6 a ०तुणव० कग्गटा वायविद्येपः. 9 b रहिय० छादिनम्. 12 a वणं मय, ०कीलालं चियम्. 13 a विचलियतं वुट्टिनम् अन्त्रम्, b हयेत्यादि अश्व-गजानोत्तदन्तस्सणम्. 15 गिरितखवरकरइं चानरकरे गिरयः राक्षसकरे वृक्षाः.

9 1 १ ०मुसंदि उण्टविद्येप. परिवायुय च. 2 दंडसंजुयं वल्लयोर्युद्धम्. 3 a रहियहिं रधिकं; b 1 न मयुग्गनासच्छन्तः, दुरपहि गत्रेः. 4 a पायालहिं पदानिभि. 5 a ०वणित्तखडं च्वनिर्ध. चन्ति. b पय धरंतु मग्गमयादिव पृथे पादे लम्.

आर्यासचडिउ णं पुहइप्रांणु
चवलेण सुद्धवंसहु कएण
दीसइ पंहुंरु कविलंगु केव
खुंप्पइ मयथिप्पिरि करिकवोलि
महुयरु पडिवक्खीहुयउ तासु
जंपाणि गवक्खहि पइसरंतु
रंतु भावइ महुं णं वीउ जारु
असिसलिलि णिलीणु णं पंकु होइ
मउडगिग पडंतु जि कुंडलासु
मइलइ मंडलियहं उरपएसु

संतविरे तं पिहिउ भाणु ।
णिवडंतु णिवारिउ णं धएण ।
छत्तारविदि मयरंतु जेव ।
भणु को णं विलग्गइ दाणसीलि ।
कि पिच्छं फेडइ चियदिसासु । 10
पररमणिथणत्थलि मंदं थंतु ।
तं छाइउ दहमुहवहुवियारु ।
चमराणिलेण उल्लिवि जाइ ।
धावइ मेहु व रविमंडलासु ।
ढंकइ सियहारावलि विलासु । 15

वृत्ता—रयमेलउ मइलिवि भुवणयलु कलिकालेण समाणउ ॥

करिगिरिर्वणणिज्जरवियलियहि सोणियजलवाहिणियहि लीणउ ॥९॥

10

हेला—जा कोट्टं पलोट्टियं कवडवाणरेहि ॥

ता रविकित्ति णिग्गथो सहुं सक्किरेहिं ॥ छु ॥

तओ तेण भूमीससेणाहिवेणं
रहत्थेण सामत्थधत्थाहिएणं
विहिज्जंतकंधच्छिरं छिण्णमुंडं
ललंतंतवेढंतथिप्पंतरत्तं
भिडंतं पडंतं रुसारत्तणेत्तं

पिसक्कासणुम्मुकुजीयारवेणं ।
तमोह व्व सारंगविक्किण्णं ।
रसालुद्धभेरुंडखज्जंतंरुंडं । 5
सदप्पं खुंरप्पोह्णच्छिज्जंतच्छत्तं ।
समुभूयपासेयधाराहि सित्तं ।

६ AP आयासि चडिउ. ७ AP पाणु. ८ A सताउ करु विणिहिउ भाणु, P सताव कग्गे पिहिउ भाणु. ९ P पडुर. १० P मा खुप्पइ. ११ P करिकवोलि. १२ A को वि ण लग्गइ. १३ A महु. १४ A णउ भावइ. १५ P ण महु. १६ A दहमुहमुहवियारु. १७ AP णउ. १८ 'गिरिवरणिज्जर'.

10 १ AP सह. २ A धम्माहिएण. ३ A सारगच्चिधकएण. ४ A 'रुण्णच्छिर'. ५ A तुउ. ६ A खुरुप्पेहिं, P खुरुप्पोहं.

6 b सता विर तापकारी, ते रजसा. 7 b धएण ध्वजेन. 9 a मयथिप्पिरि मदअग्गेण, करिकवो लि गजकपोले. 10 b चियदिसासु व्याप्तदिवदनम्. 12 रउ रज, b दहमुहवहुवियारु दहमुगयवू- विकार.. 14 b मेहु व रविमंडलासु मृत्युत्य छादनार्थे अभ्रपटलनिव धावति. 15 a उरपएसु उर- प्रदेशम्. 16 रयमेलउ रजःसमूहः. 17 करिगिरिवणणिज्जरवियलियहि गजा एव पर्यन्ता तेरा वणनिर्झरणविगलिताया नद्याम्.

10 1 कोट्ट दुर्ग, पलोट्टिय पातित. 2 रविकित्ति गवणत्य नेनापतिः. 3 b पिसक्कासणु वनुः. 4 a 'धत्थाहिएण ध्वस्तशत्रुणा b सारगच्चिधकएण चन्ट्रेण. 5 a 'च्छिरं विभेजमानम्. 6 a 'थिप्पंतरत्त क्षरुधिग्गम्. 7 b 'पानेव' स्वेदविन्दव..

गइंदुग्गदंतग्गभिज्जंतगतं
 गयाघट्टेणुदुग्गिजालापलित्तं
 समप्यंतइच्छं सरुत्तिमण्णवच्छं
 विरुज्जंतजुज्जंतपाइक्कचंडं
 वर्राहिंदमाणेहि वाणेहिं रुद्धं

दिसासुं विसंतं वसातुप्पलित्तं ।
 थिरत्तेण साहारियासारमित्तं ।
 महाघायमुच्छाविणिम्मीलियच्छं । 10
 सकोदंडकंडं कयं खंडखंडं ।
 रणे रामएवस्स सेण्णं णिरुद्धं ।

यत्ता—तहु परवलु किमिणुं व ओसरिउं मग्गणवंदु घुलंतउ पेक्खइ ॥

आवरणु करइ तणु संवरइ णवउ कलत्तु व अप्पउं रक्खइ ॥ १० ॥

11

हेला—ता विज्जाहराहिवो पउरकोवपुण्णो ॥

सण्णद्धो महाभडो अवि य कुंभयण्णो ॥ छ ॥

पहु कुंभु णिकुंभु अमेयसत्ति
 इंदीवरलोयणु इंदवम्मु
 महवंतु महामहु बुहमुहक्खु
 खरदूसणु मउ हत्थप्पहत्थु
 असिधेणु व केण वि द्ढाणिवद्ध
 रणट्टिक्खाहि थाइवि दिट्ठिरम्मु
 संधइ समाणसरकोडि केव
 केण वि च्चित्तिवि णियंनुवहु कुसलु
 केण वि असिवाणिइ णयण दिट्ठु
 केण वि वरिसाविउ अद्धयंदु

इंदइ इंदाउहु इंदकित्ति ।
 इयदेहु सूरु दुम्मुहु अगम्मु ।
 वलकेउ महावलु धूमचक्खु । 5
 सण्णज्झइ भडयणु रणसमत्थु ।
 परसासाहारहु किर पर्यद्ध ।
 केण वि धरियउ गुणवंतु धम्मु ।
 परलोउ महइ वायरणु जेव ।
 रिउकणकंडणु कट्ठियउं मुसलु । 10
 मीणा इव वेण्णिण रमंति इट्ठु ।
 थिउ धरिवि णाइं णहंभायच्छंदु ।

७ AP °धट्टणुत्थग्गि°. ८ A वर्राहिंदमाणेहिं. ९ A विरुद्ध. १० AP किविणु.

11 १ A पवर°. २ P इदधम्मु. ३ P अमम्मु. ४ P महवंतु. ५ A ददुग्गिक्खु. ६ AP पदुद्ध. ७ AP °णिवहु. ८ AP णहमाइ चंदु, K णहभायच्छंदु but gloss सादृश्यं; T णहभायच्छंदु नभोभागसादृश्यं.

9 b साहारियासारमित्तं मामीपितार्थारिनसारमित्तम्. 10 a समप्यंतइच्छं सग्रामपूर्णच्छम्.
 12 a वगहिंदमाणेहिं नर्धप्रमाणे. दीर्घे वाणेः. 13 किमिणु कृपणम्.

11 1 पउर° प्रतु. 3 b इदाउहु इन्द्रायुधनामा. 4 b इयदेहु इतदेहनामा. 5 a बुह-
 मुहत्तु बुहमुत्तारण.. 6 b मउ मयः. 7 b परसासाहारहु परधान्याहारं, परखासाहारे च, पयद्ध
 प्रयुनाः. 8 b गुणवंतु धम्मु यमो धनुश्च. 9 a समाणसरकोडि समानाः सजातीयाः सप्रमाणाश्च स्वरा
 वाणाश्च. b परलोउ नुभट्टवले पन्धोप, व्याकरणपक्षे समानः सवर्णे दीर्घो भवति परश्च लोपः.
 11 a असिवाणिइ सङ्गपानीये 12 णहभायच्छंदु नभोभागसादृश्यम्; नभोभागो हि अर्धचन्द्र
 मण्डलच्छन्द धर्मे तुभट्टः पुनर्ध्वञ्च वाणविशेषमिति.

संगामखेत्तकरणुज्जमेण
केण वि गंहियउ फणिपासु सारु

केण वि हलु गंहिउ सविक्रमेण ।
सोहद्व णं संगैरसिरिहि द्वार ।

घत्ता—मायंगतुरंगविमाणघयरहवरवाहणदूसंचारें ॥

15

सणद्ध कुद्ध जयलुद्ध भड उब्भड णिग्गय णयरदुवारें ॥ ११ ॥

12

हेला—अमरसमरभरुव्वहो थिरेकिणंकखंधो ॥

कुलधवलो धुरंधरो वद्धरिवाहुबंधो ॥ छ ॥

रयणणिम्मवियरयणियरधयभीयरो

विक्रमंक्रमियमहिवलयगिरिसायरो ।

पवणवइसवणजमवरुणवलभंजणो

5

असुरसुरखयरफणितरुणिमणरंजणो ।

गरलतमपडलकालिदिजलसामलो

सुरहिमयणाहिउच्छलियतणुपरिमलो ।

कोवगुरुजलणजालोलिजालियदिसो

सरलरत्तच्छिविच्छोहणिज्जियविसो ।

10

वीरैपरिहवपरो रइयरणपरियरो

मुक्कगुणरावधणुदंडमंडियकरो ।

णिहिलजगगिल्लेणकालो व्व दुक्को सयं

छत्तछण्णो महंतो जणंतो भयं ।

कढिणभुयफलहसयल्लिंदकंपावणो

15

कसणघणकरिवरारूढओ रावणो ।

असमपरविसमसाहसणिही णिग्गओ

विमलकमलाहिसेयस्स णं दिग्गओ ।

हरिकरिकमाहया हल्लिया मेइणी

रणरुहिरलंपडी णाधिया डारणी ।

20

कुलिसकुडिलंकुरारावलीराइयं

धगधगंतं पुरो चक्कमुद्धाइयं ।

९ P गंहिउ विक्रमेण. १० AP लइयउ. ११ A सगरि.

12 १ AP थिरु. २ P विक्रमाक्रमिय°. ३ AP धीर°. ४ A "गल्लिण".

13 ७ सविक्रमेण निजपराक्रमेण. 15 °दूसंचारें दुःसंचारें ण.

12 8 सुरहि मयणाहि° सुरभिरसूरिका. 10 °विच्छो ह° फ्रीध., °विच्छियच्छो निच्छि-
कृपम.. 15 सयल्लिंदकंपावणो ईलेन्द्रकगकरः. 18 विमलकमला° निर्मलदर्शनाः. 21 अंकुरारा-
वलीराइय अङ्कुरवदाराभेणिसोभितम्.

घत्ता—फेडियमुहवडधुयधयवडहं दावियदूसहगयघडघायहं ॥
दलवद्वियहरिवरभडथडहं मुसुमूरियसामंतणिहायहं ॥ १२ ॥

13

हेला—विज्जावलरउदहं जायगारवाणं ॥
वाहियरहविमदहं सहरउरवाणं ॥ छ ॥

जयकारियराहवरावणाहं
समुहागयाहं सपसाहणाहं
असिणिहसणसिहिजालउ जलंति
णीवंति ताइं वणरुहजलेण
परिमुक्कसंकु पिहुपिंछफारु
गंडयलि विलग्गउ वाणपुंखु
केण वि गयणंगणि देवि करणु
लोद्विवि आरोहु णिवद्धकोहु
अरिणरकरघल्लिय लउडिदंडं
मणिजडिय पडिय मंडलियमउड
केण वि कासु वि पविमुद्विहयउं
गउ वियलियासु कंकालसिद्धु
उद्वेपिणु वच्चइ गयणमग्गु
तहिं अवसरि वहुंतत्तिल्लएहिं

जयलच्छिरमणरंजियमणाहं ।
जुज्जंतहं दोहं मि साहणाहं ।
गुडपक्खरपल्लाणइं जलंति । 5
केण वि पइसिवि आहवि छलेण ।
लग्गउ णं गयवरगिरिहि मोरु ।
दीसइ णं छप्पउ दाणकंखु ।
करिकुंभवीढि थिरु थंवि वि चरणु ।
कंडिल्लुरियइ पहणिवि धित्तु जोहु 10
चूरिय संदण संगामंवंड ।
उच्छलिय रयणकरणियर पयड ।
सीसकें सहं सिरु चुण्णु कयउं ।
कासु वि लोहियरसु रसिवि गिद्धु ।
णं पोरिसु वण्णइ गंपि सग्गु । 15
जायवि कयजणमणसल्लएहिं ।

घत्ता—णिउ णिग्गउ भरहद्धाहिवइ चारहिं रामहु कहिउ वियारिवि ॥
थिउ ता रणदिक्खहि दासरहि पुष्पर्यंतु जिणवरु जयकारिवि ॥ १३ ॥

इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए
महाकइपुष्पर्यंतविरहए महाकव्वे राहवरावर्णवलसंगहणं
णाम सत्तहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७७ ॥

13 १ A चलंति. २ A पिच्छभारु. ३ A उगाउ. ४ A देवि. ५ A करि दुरियइ.
६ P °दटि. ७ P °वंडि. ८ A बहुमत्तिल्लएहि. ९ A उभयवलभिडणं; P उभयवलाभिडणं.

21 °णि शायहं समूहयो द्वयो सैन्ययोः.

13 1 °गाव्वाणं °गर्वाणाम्. २ b गुडं गुट. कुञ्जरसनाहः. 6 a वणरुहजलेण रुधिरेण.
7 a परिमुक्कसंकु परिमुक्कशङ्कुः, शङ्कु. नेल्लविणेप. 13 a पविमुद्विहयउ वज्रमुप्या हतम्.
14 a विदलियासु नशान., कंकालसिद्धु कापालिकः. 16 a °तत्तिल्लएहिं चिन्तायुक्तैः चरैः.
17 मरहद्धाहिवइ रावणः.

पडिभडकालाणलु जोइयभुयवलु विप्फुरंतु मच्छरि चडिड ॥
महिकरिणिकयग्गहु पसरियविग्गहु कणहु दसासहु अब्भिडिड ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—पहय गहीर भेरि सिरिरमणीमाणियदेहलक्खणा ॥
संणज्झंति हणुव सुग्गीव महंपहुरामलक्खणा ॥ छ ॥

माणिकंसुजालविण्णासइं	चंदकवयचंदियसंकासइं ।	5
आणियाइं कवयइं रहुरायहु	णउ विसंति रोमंचियफायहु ।	
वाहुजुयलु पुलएण विसट्टइ	रिउसरीरबंधणइं व तुट्टइ ।	
आहवरोलहरिसपडहच्छहु	उरि संणाहु दिण्णु सिरिवच्छहु ।	
माइ ण सीयहि मणि णं रावणु	फुँट्टिवि गउ सयदलु णं दुज्जणु ।	
सुग्गीवहु गीयहु रणभरधुर	णिहिय कंरंति काइं किर परणर । 10	
संणज्झंतु काइं सो सुच्चइ	हणुवंतु वि वम्महु जहिं बुच्चइ ।	
तहि जगु विधिवि मारिवि मेल्लइ	अंगउ अंगइं वडरिहिं सल्लइ ।	
दहियदोव्वसिद्धत्थयमीसिउ	सीमंतिणिकरघित्तउ सेसउ ।	
विरसिउ जुज्झडिडिमाडंवरु	वहिरिउ तेण विवरु दिसि अंवरु ।	
मत्ति विजयपव्वइ सइं माहउ	अंजणगिरिकरिवरि थिउ राहंउ । 15	
बलिपुत्तं तहु बलवित्थिण्णी	विज्ज पहरणावरंणि विइण्णी ।	
घत्ता—सइ का वि पजंपइ किं पि ण कंपइ पिययम परवलु णिट्ठवहि ॥		
हणु करिकुंभयलइं हिमकणधवलइं मोत्तियाइं महु पट्टवहि ॥ १ ॥		

2

दुवई—का वि पुरंधि भणइ किं बहुवें अणुदिणु हिययजूरणं ॥
णियसिरंपंकएण पिय फेडहि णरवइपियविसूरणं ॥ छ ॥

1 १ A महिघरिणिकयग्गहु. २ A महपहु. ३ P आहवि रोल्. ४ A फट्टिवि. ५ P णियति.
६ A जगु तहि. ७ A अंगउवगइ. ८ A राहउ. ९ A माहउ. १० A धरणि विदिण्णी.
2 १ A P °सिरकप्पिण्ण. २ A °रिणविसूरणं.

1 २ °कयग्गहु कृताग्रह. 3 a °विण्णामइ विन्नासानि, ग्वनायुत्तानि, b चंदकवयचंदियसकासइं मयूरपिच्छचन्द्रकाकाराणि. 6 b विसंति प्रविगन्ति. 7 a विसट्टइ स्फट्टनि, b °उरीरबंधणइ शरीरगवयवन्धनानि. 8 a °रोल् कोलाहल. °पउरच्छहु वृमत्त भृन्नय, b सिरिवच्छहु हरेः. 12 a अंगउ सुग्गीवपुत्रोऽङ्गद.. 16 a बलिपुत्तं सुग्गीवेण.

2 1 बहुवें बहुनोक्तेन. 2 सिरंपंकएण मत्तन्नमत्तेन, णरवइपियविसूरणं रामप्रियायाः सीतायाः खेदम्.

का वि भणइ एत्तडउं करेज्जसु
 गयपडियागयपयपरिठवणें
 का वि भणइ जं मइं थणमंडिउं
 किं वच्छयलु णाह णंदेसइ
 का वि भणइ रणि म करि णियत्तणु
 किं पुणु महिमंडलु त्रित्थिण्णउं
 देज्जसु पत्थिवच्चित्तिणिवारउं
 का वि भणइ पिययम पेयालइ
 हउं दीवउ वोहेसमि जइयहुं
 का वि भणइ पडिण वि पिडे
 कासु वि सिद्धहु आणइ थंभिवि
 पइं मुए वि हउं णडिय रइच्छइ

पउ पच्छामुहुं णाह म देज्जसु ।
 सहइ कइंदु ण भइ भयगमणें ।
 तं गयदंतहं संमुहुं उड्डिउं । 5
 पुणु आलिंगणंसुहुं महु देसइ ।
 सुयरिज्जइ पहुभूमिणियत्तणु ।
 इच्छियचायभोयसंपण्णउं ।
 खग्गसलिलु वइरिहिं तिसगारउं ।
 वसतुप्पें रिउसीसकवालइ । 10
 ओवाइउं महु पूरइ तइयहुं ।
 महिवि पिसल्लउ मासहु खंडें ।
 पासि धरिज्जंसु वायइ रंभिवि ।
 तं परिपुच्छिवि आवमि पच्छइ । 15

घत्ता—सुहवत्तहु वंछहि णाह ण पेच्छहि चंडहि वेयालालियहि ॥ 15
 कयतुट्टिपरिगहु परकंठगहु खग्गलट्टिपुण्णालियहि ॥ २ ॥

3

दुवई—तुह पयं सुवंसयं पिययम पणविणं विणीयं ॥

सज्जीयं सरासणं समरि हरउ वइरिजीयं ॥ छ ॥

णंदणवणु व णीलतालद्धउं

दीसइ णीसरंतु रइयाहउ

णरवेसें णं सइं मयरइउ ।

अंजणगिरिकरिवरि थिउ राहउ ।

३ A ण गव^०. ४ P आलिंगणु सहं. ५ A सुमरिज्जइ. ६ A उववायउ. ७ AP थविज्जसु. ८ A आइवि.

3 १ A पणविय.

3 b पउ पाद. 4 a गयेत्यादि आद्याक्षरादन्त्याक्षर यावत् अन्त्याक्षरादाद्याक्षर यावत् एका (ताट ?) दम एव वर्णरचनाविशेषोऽमिमुखपराड्मुखपददानं च गतप्रत्यागतपदप्रतिष्ठापन तेन; b सहइ कइंदु शोभते कवीन्द्रः, न तु सुमट. 6 a णदेसइ नन्दिष्यति वर्धिष्यते. 7 a णियत्तणु पश्चान्निवर्तनम्; b पहुभूमिणियत्तणु राजा पूर्वमुद्दालिता पश्चाद्घत्ता भूः. 8 b 'चाय^० त्याग.. 9 a पत्थिवच्चित्तिणिवारउं रामचिन्तानिवारकम्, b तिसगारउं तृपाकारकम्. 10 a पेयालइ प्रेतालये द्मशाने. 11 a वोहेसमि प्रज्वालयामि, b ओवाइउं उपयाचितकम्. 12 a पिडे शरीरेण; b महिवि पूजयित्वा. 13 a आणइ आज्ञया, कमपि व्यन्त त्व तव समीपे मरणावसरे रक्षेः, यस्मात्स तव वार्ता मम कथयतीति भावार्थ.. 14 a मुए वि मृतऽपि, णडिय कदर्शिता; रइच्छइ रतिवाञ्छया, b न निशाचम्; आवमि पच्छइ पश्चाद्दहमागच्छामि तव समीपम्. 15 सुहवत्तहु वंछहि हे नाथ त्व भुभगन् किं वाञ्छन्ति, चंडहि प्रचण्डायाः, वेयालालियहि वेगेन लालितायाः वाहिताया. यष्टेः. 16 नग्गलट्टिपुण्णालियहु पुश्वल्याः खड्गयष्टे. परकण्टप्रहण न पदयसि.

3 1 सुवंसयं सुवशोत्सन्न धनुः; पणविणं प्रणमनशीलम्; विणीयं विज्ञातम्. 2 सज्जीयं समस्यन्नम्. 3 a 'ताटट उ तालाट्टम्. 4 a रइयाहउ रचितसंग्राम..

णं णवजलहरसिहरि ससंकुड
 णं जसु तिजगसिहरिपंहरतणु
 कयसरसोहड णाइ मरालड
 सीयाकंखड विरहुण्है हडं
 एत्तहि लक्खणु रोसधियंभिड
 लच्छीललणालोलणलोहिड
 विजयमहीहरि कुंजरि चडियड
 मेहहु उवरि मेहु णं थक्कड

णं अहरावइ इंदु अंसंकड । 5
 धम्मालोयलीणु णं मुणिमणु ।
 सूरपहाहरु णाइ मरालड ।
 दाणाविलित्तपाणि णं दिग्गड ।
 णं रणसिरिणच्चणकरु उच्चिड ।
 पंचवण्णगरुडद्धयसोहिड । 10
 कालसलोणड जणि आवडियड ।
 रिउहुं णाइं जमडूयड हुक्कड ।

घत्ता — चोइयमायंगइं चलियतुरंगइं वाहियरहइं भयंकरइं ॥
 संणिहियविमांणइं जरजंपाणइं रोसुद्धाइयकिंकरइं ॥ ३ ॥

4

दुवई—लग्गइं रामरामणाणंदं वलइं रुसांविसालइं ॥

णरमुहकुहरमुक्कहुंकारुदीवियवाणजालइं ॥ छ ॥

मुक्कमुसलहलपट्टिससेल्लइं
 लुयकरसिरउरजण्हयजुत्तइं
 कलिकेलासवाससंतासइं
 मायाभावगाववित्थारइं
 किलिकिलिरवसोसियकीलालइं
 मिलियदलियपक्कलपाइक्कइं
 अंतमिलंतथंतकायडलइं
 तणुवियलंतसेयसित्तंगइं
 मयगल्लमलणमलियधयसंडइं
 सुरहरधिवणाधित्तखयरिंदइं

पसरियपाणिधरियधम्मेल्लइं ।
 मग्गणगणविच्छेइयल्लत्तइं ।
 वहरिविलासहासणिण्णासइं । 5
 हुयवहवरुणपवणसंचारइं ।
 दिसंविदिसुद्धउग्गवेयालइं ।
 वसकइमणिमण्णरहचक्कइं ।
 वालपूलणीलियधरणियलइं ।
 पक्खिपक्खमरुहयसमसंगइं । 10
 हित्तारोहजोहकोदंडइं ।
 खग्गकंपकंपावियचंदइं ।

२ AP मयकड. ३ AP आसकड. ४ A कयसरिसोहड ५ AP वियालड. ६ A °कखड ण उण्हालड,
 P °कखड विरहु उण्हाहड. ७ A adds after this. अण्णोसवु रामु ण णिग्गड, K also has
 this line but scores it off. ८ A दाणाविलित्त°. ९ AP °विवाणइ.

4 १ P रोसविसालइ. २ P दिसिविदिसुद्धियउग्ग°. ३ P °पक्कल°. ४ P °गलचल्लणमलिय°.

5 a ससकड चन्द्र.. 7 a °सर° वाणस्तटागं च, मगलड हस., b मगलड मरो मन्तः क्खत्त उदर
 आलयो मेघ.. 8 a विरहुण्है विरहोमणा, हड हन.. 10 a °लो ह्णु ड लोभिडु..

4 4 a °जण्हयजुत्तइं जानुयुक्कानि, b °विच्छेइय° चिन्तानि. 5 a पट्टि° वम; °केला म-
 वास° दाकरः. 8 a °पक्कल° समर्थः. 9 a °कायडलइं काकटलानि, b वालपूल° रेशनिचय.
 10 b °समसंगइं °श्रमसङ्गानि. 12 a सुरहर° विमानम्; °धिवण° पतनम्.

यत्ता—असिदंहु लएप्पिणु देहि भणेप्पिणु परवलि परिसक्कइ वियडु ॥
 फरपत्तविहत्थउ को वि समत्थउ जुज्झमिक्ख मग्गइ सुहडु ॥ ४ ॥

5

दुवई—को वि भंडु करेहिं णिहएहिं कमिहिं वि हुंकरंतइं ॥
 कोक्कइ मासगासरसियाइं पिसायइं गयणि जंतइं ॥ छ ॥

को वि सुहडु मुउ करिदंतंतरि	णावइ सुत्तउ णियजसपंजरि ।
को वि सुहडु अद्धिंदे मंडिउं	भूयहिं रुद्धे व णिविसु ण छंडिउ ।
को वि सुहडु सिरु पडिउ ण चिंतइ	असिवरु अरिवरंकेठहु घत्तइ । 5
को वि सुहडु रत्तदहि ण्हायउ	सत्तु सिरत्थु णिपप्पिणु आयउ ।
कायरदोसिण हउं ण विहिण्णउ	पहरणु दीवु धरिवि उत्तिण्णउ ।
को वि सुहडु परिवहियसाहउ	णं पारोहएहिं णग्गोहउ ।
रिउवाणहि उच्चाइउ वट्टइ	पंखुत्तिणरुहिरु सिव चट्टइ ।
कासु वि सुहडु गुज्जु ण रक्खइ	कण्णालगु गिद्धु णं अक्खइ । 10
पइं संमुहु पथिवरिणि दूढउ	लोहिउ णाइ कलंतरि वूढउ ।
देहमासु वायसहं विहित्तउ	उत्तमंपुरिसहं एउ जि जुत्तउ ।
कासु वि अंगि रहंगु पड्डुउ	अब्भगग्भि रविंविं व दिट्टुउ ।

यत्ता—संवहेणोसारिवि अवैर णिवारिवि जुज्झि वि मडु देहु छिवइ ॥

कासु वि सुरकामिणि लीलागामिणि माल सयंवरि सइं घिवइ ॥ ५ ॥ 15

५ AP करपत्त°. ६ P मग्गइ जुज्झमिक्खइ.

5 १ P सुभट्टु. २ A खंडिउ. ३ A रुद्धु व but gloss रुद्ध इव. ४ AP अरिवरणियरुद्धु.
 ५ A वण्णविहिण्णउ. ६ A सोहउ. ७ A पंखुत्तिणु; P पुंखुत्तिणु. ८ A समुहु. ९ AP कलंतर.
 १० AP उत्तिम°. ११ A सखहेण. १२ P अवरउ वारिवि.

13 परिसक्कइ विजृग्भते. 1. फरपत्तविहत्थउ खेटकभिन्नापात्रहस्तः.

5 1 करेहिं णिहएहिं हत्तैहेतेश्चिन्नै, कमिहिं पादै.. 4 a अद्धिंदे अर्धचन्द्रेण वाणेन.
 5 b घत्तइ क्षिपति. 6 a रत्तदहि रक्तदूटे, b सिरत्थु शिरस्यम्. 7 a विहिण्णउ विभक्तः.
 8 a साहउ शान्ता कराश्च. 9 a रिउवाणहिं इत्यादि कोऽपि सुभट्ट वाणैर्विद्ध. पतित सन् वट्ट-
 वृग्मद्वयो दृश्यन्ते, ये उपरि स्थिता वाणाः ते वट्टस्य शाखा इव दृश्यन्ते ये अधःस्थिता वाणास्तैर्जटाभि-
 रिवोपल्लित इव दृश्यन्ते, b निव शृगाली. 1 a समुहु त्वमस्तकम् पथिवरिणि दूढउ पार्थिव-
 कावियये क्षिप्तम्, b कलंतरि वूढउ व्याजे धृत रक्तम्. 1; अब्भगग्भि मेघमध्ये. 14 संवहेणो-
 सारिवि शरणेन अन्ता देवीरन्तायं निवार्य, जुज्झि वि मग्नममयेऽपि, मडु दृष्टात्, देहु शवम्,

6

दुवई—जायइ संगरम्मि वरखयरकवालचुए वसारसे ॥

णरकंकालमहुरवीणासरगाइयरामसाहसे ॥ छ ॥

णवर जयसिरिहरो

अरिहरिणहरिवरो ।

कुलकमलदिणयरो

अणयजणभययरो ।

रणियगुणधणुरवो

जणियखलपरिहवो ।

अमियअमरिसवसो

तिजगपसरियजसो ।

सयणुकसणियदिसो

फणि व विसरिसविसो ।

कुइयवइवसणिहो

सिहि व विलसियसिहो ।

थरहरियमहियलो

धयपिहियणहयलो ।

करकलियपहरणो

पवरवलजियरणो ।

दढकढिणथिरं करो

पडिसुहडमयहरो ।

5

10

घत्ता—तिहुयणजूरावणु रूसिवि रावणु धाइउ रामहु संमुहु किह ॥

णवमेहु व मेहहु सीहु व सीहुहु दिसहत्थिहि दिसहत्थि जिह ॥ ६ ॥

7

दुवई—ता करिकरसमाणकरकहियगुणधणुदंडमंडलो ॥

कणयपिसकपुंखंरुइरंजियमणिमयकणकुंडलो ॥ छ ॥

उक्खयदुक्खलक्खतरुंकरुंदहु

इंदइ इंदसरिसु गोविंदहु ।

विडविचिधु किक्किधणिवासहु

वालिकंठकंदलजमपासहु ।

णिद्धहु णियकुलभवणपईवहु

भिडियउ कुंभयणु सुग्गीवहु ।

महिमाहिहरचालणवलवंतहु

रणि रविकित्ति वीरहणुवंतहु ।

खरकिरणु व तमतिमिरणिहायहु

णालिणकेउ लग्गउ खररायहु ।

अंगयभइ आहंडलकेउहि

णावइ मुणिवरिंदु ससकेउहि ।

इंदवम्मु कुमुयहु दूसीलहु

कयवहुदूसणु दूसणु णीलहु ।

संदेणचलणवलणसफेडहि

लउडिघायज्जरियकिरीडहि ।

5

10

6 १ AP रणियधणुगुणरवो. २ A °थियकरो.

7 १ A °मडणो. २ P °पुलरुइ°. ३ A लीलहु. ४ A दंसणचलण°.

6 2 णरेत्था दि नररारोगस्थितउत्तडाट एव वीणाशब्द . 1 b अणयजणभययरो अनतानामनम्राणां भयकर.. 6 a अमिय° प्रचुरः. 7 a सयणु° न्वशरीरम्, b °वि सो विद द्वेषः. 8 a कुइयवइवसणिहो कुपितयमसदृगः, b °मि हो त्तिह. शिरा च. 11 b °मयहरो मरहः.

7 2 कणयपिसक° कनकवाणा°. 3 a उक्खय° उत्तमिता.. 4 a विडविचिधु वृक्षपत्रः कुम्भकर्णः. 7 a तमतिमिरणिहायहु महान्ववारसमूहस्य. 8 a आहंडलकेउहि इन्द्रपेठो. 10 a सदनचलण° रथचक्रम्, °सफेडहि° संस्फेटकैः.

दंतिदंतसंघट्टणघोरहिं
सञ्चलमुसलकुलिसझसकॉतहिं

सेलसिलायलघित्तपहारहि ।
भिंडिवालकरवांलफुरंतहिं ।

यत्ता—रयछइयदियंतहिं भडसामंतहिं जुंज्झंतिहिं खयरामरहिं ॥

संचूरियमउडहिं णिवडियसयडहिं महि मंडिय धयचामरहिं ॥७॥

8

दुवई—ता लंकाहिवेण हलहेइहि रिंछसुपिंछंसज्जिया ॥

एक दुवीस तीस पण्णास सरा सहसा विसज्जिया ॥ छं ॥

धरियलोह तेण जि ते गुणचुय
चित्तविचित्त तेण ते चलयर
धम्मविमुक्क तेण ते ह्यपर
तिक्ख तेण ते वम्मलूरण

उज्जुय तेण जि ते मोक्खुज्जुय ।
पेहुणवंत तेण ते णहयर ।
रोसवसिल्ल तेण ते दुद्धर । 5
सहल तेण ते आसापूरण ।

रयगय तेण जि ते पलचक्खिर
दीहायार णाय णं आया
पंत णहंतं महंत भयंकर
वाणहिं वाण हणिवि काकुत्थे

वहियजोह तेण जि जयकंखिर ।
पत्तदाणं जिह सयगुण जाया ।
जिगिजिगंत पडिवक्खस्सयंकर ।
रावणु विहसिवि भणिउ समत्थे । 10

यत्ता—णियघरिणिहि अग्गइ सयणसमग्गइ घरि वाणासणु गुणिउं जिह ॥

भडरुहिररसारुणि आहवि दारुणि को विंघइ दहवयण तिह ॥ ८ ॥

9

दुवई—हो हो जाहि जाहि तुहुं णासहि धणुसिक्खाविवज्जिओ ॥

मा णिवडहि करालि कालाणलि लक्खणसरि परज्जिओ ॥ छं ॥

कहिं दिट्ठि मुट्ठि

कहिं चावलट्ठि ।

कहिं वद्धु ठाणु

कहिं णिहिउ वाणु ।

धणुवेयणाणु

वुज्झंहि पहाणु । 5

गुरुगेहु गंपि

अण्णवउ किं पि ।

५ AP °करवाल सुयंतहिं. ६ A उज्झंतिहिं.

8 १ A हलएवहि. २ A °तुपुंछ°. ३ A दुतीसवीस. ४ A मोक्खजुय. ५ AP पत्तदाणु.

9 १ P निह. २ A वुज्झिउ. ३ A अण्णमउ; P अण्णविउ.

8 १ हलहेइ हि हलायुधस्य. ३ b मोक्खुज्जुय मोक्षोद्यता. ३ b सहल सफला. फल्युक्ताः.
7 a रयगय गजः पापं रतो वेगश्च तत्र तेन गताः; b व हिय जो ह इनयोधाः. 8 a णाय नागा. सर्पाः;
८ पत्तदाण सुपात्रदानफलवन्तः. 9 a णहंतं नभोमघ्येन. 11 सयणसमग्गइ स्वजनपरिपूर्णे.

9 ३ a धणुवेयणाणु धनुर्वेदज्ञानम्. 6 b अण्णवउ पुनरपि.

पुणु देहि जुञ्चु	महुं तुहुं सुसञ्चु ।	
सीयावहार	जजाहि जार ।	
तहिं रणवमालि	सुहडंतरालि ।	
खरकरपवद्दु	दद्वोद्दु रुद्दु ।	10
णिद्विवियदुद्दु	इंदइ पदद्दु ।	
ता कुद्धएण	धूमद्धएण ।	
णं जलियजाल	णं विञ्जुमाल ।	
चलजलहरेण	वरिसियसरेण ।	
कयआहवेण	तहु राहवेण ।	15
धगधगधगंति	उर्मुक्क सत्ति ।	
वच्छयलि खुत्त	रत्तावलित्त ।	
णं रत्त वेस	मुच्छाविसेस ।	
पसवणु कुणंति	हियवडं लुणंति ।	
घत्ता—जं इंदइ जित्तउ कोवपलित्तउ तं दहमुहुं णं खयजलणु ॥		20
ओत्थरिउ समत्थहिं णाणासत्थहि दुज्जयपडिवलपडिखलणु ॥ ९ ॥		

10

दुवई—पभणइ णत्थि एण इंदइणा तुह णिद्वएण रणंजओ ॥

भो भो राम राम मइं पहरहि संचोयहि महागओ ॥ छ ॥

हो हो एण सुद्दु लज्जिज्जइ	कुलसामिहि किह असि कद्विज्जइ ।
तुहुं वेहाविउ ताराकंते	अणु वि मुक्खएण हणुवंते ।
हउं देविदेणं वि णउ छिप्पामि	तुम्हहिं माणुसेहिं किं जिप्पामि । 5
जाहि जाहि जा वंधवगत्तइं	णउ णिर्वडंति खुरुप्पविहत्तइं ।
जाहि जाहि जा चक्कु ण मेल्लमि	तुह सिरकमलु ण लुंचिवि घल्लमि ।
दप्पुब्भडभडवंदविमहे	तं णिसुणेवि पवुत्तु वलहहे ।
पररमणीथणसिहरणिरिक्खण	मरु मरु खल अयाण दुवियक्खण ।
किं सीहेणं सरहु दारिज्जइ	पइं मि कांइ लन्खणु मारिज्जइ । 10

४ P reads this line as* जजाहि जार, सीयावहार, ५ P पवद्दु, ६ A पविमुक्क, ७ AP पघरणु.

10 १ AP रणजुओ, २ P मुक्कएण, ३ A देविदेणं णविउ छिप्पामि, ४ AP विद्वन्ति, ५ P °भडविदं, ६ A सिहेण, ७ AP पाव.

10 a °पवद्दु प्रसृष्टः, 11 b इदइ इन्द्रजित्, 18 a ण रत्त वेस रक्खेदयावत्, 19 a पसवणु प्रसवण क्षरणम्.

10 1 a तारा कंते सुग्रीवेण, 6 a यधधगत्तइं लक्ष्मणगात्रानि.

स्वविसेसपरिजियमेणइ
जामि जामि जइ सेव समिच्छहि

जामि जामि जइ अप्पहि जाणइ ।
महुं पयपंकय पणविवि अच्छहि ।

घत्ता—पइं रणउहि मारिवि भिच्च वियारिवि ढोइवि लंक विहीसणहु ॥
वोल्लिउं पालेसमि हउं जाएसमि सहुं सीयइ सणिहेलणहु ॥ १० ॥

11

दुवई—ता दसकंधरेण मणिकुंडलमंडियगंडएसयं ॥

ळिण्णं असिसुयाइ णवणिसियइ सीयाएविसीसयं ॥ छ ॥

रूसिवि रामहु अग्गइ धित्तउ
लइ लइ राहव ग्रिणि तुहारी
मय पिय पेच्छिवि मुच्छिउ रहुवइ
सित्तउ हिमसीयल्लजलधारहिं
कह व कह व संजाउ सचेयणु
ताव विहीसणेण विण्णत्तउं
खयारेदेण दिट्टुहघाएं
ता दहमुहेण भाइ दुव्वोल्लिउ
विणु अब्भासवसेण सरासइ
एउ ण त्रित्तु कुलविद्धंसण
परह मिलेवि काइं किर लद्धउं

पुणु सखारु खलखुहे वुत्तउ ।
एह ण होइ कया वि महारी ।
करपहरणु णिवडिउ ण विहावइ । 5
आसासिउ चमारिहसमीरहिं ।
कण्णांमुहणिहिर्त्तथिरलोयणु ।
सीयामरणु ण देवं णिरुत्तउं ।
इंदियालु दरिसाविउ भाएं ।
पइं णियंवंसुम्मूलिवि घल्लिउ । 10
गोत्तकलिइ लच्छि धुंवु णासइ ।
दुम्मुह दुट्ट कट्ट दुइंसण ।
पइं अप्पाणउं अप्पणु खद्धउं ।

घत्ता—आरुद्धइ करिवरि चलपसरियकरि जो आसंघइ बालतणु ॥

महिहरु मेल्लेप्पिणु महि लंघेप्पिणु मरइ मणुउ सो मूढमणु ॥११॥ 15

८ A परिजिय° ९ A रणमुहि. १० AP वोल्लिउ.

11 १ AP दहकंधरेण. २ AP असिसुयाइ मायामयसीयाएवि°. ३ P वित्तउ.
४ AP °सीयजल°. ५ AP कंतामुह°. ६ A °णिहत्त° ७ AP होइ. ८ AP इंदियालु. ९ A पइं
णियकूट्ट उम्मूलिवि. १० AP धुउ. ११ A adds after this: एवमेव अप्पउ संतासइ, K writes
the line but scores it off. १२ AP वइरिहिं. १३ A आरुद्धइ.

11 a °परजियमेणइ तिरस्कृता मेनका यया, b जाणइ जानकी सीता. 13 रणउहि रणमुखे.

11 1 °गंडएसयं गण्डप्रदेशम्. 2 असिसुयाइ असिषेनुकया; णवणिसियइ नवीन-
नीश्याया, सीयाएविसीसयं सीतादेवीमस्तकम्. 3 b णविहावइ न विभावयति, न जानातीत्यर्थः.
4 a दिट्टुहघाएं दृष्टत्वद्वातेनः दृष्टत्वन्मरणेन, b इंदियालु इन्द्रजालम्; भाएं मम भ्रात्रा.
11 a सरासइ गी.; b गोत्तकलिइ गोत्रकलहेन. 14 आरुद्धइ कृष्टे सति, बालतणु बालतृणम्.

12

दुवई—मइं कुद्धेण रामु किं रक्खइ भडहणहणरवालय ॥

भाइय आउ आउ जइ सक्कहि भिडु इह समरकालण ॥ छु ॥

तं गिसुणेप्पिणु	पहु पणवेप्पिणु ।	
णवघणणीसणु	भणइ विहीसणु ।	
जइ पिउ जंपहि	सीय समप्पहि ।	5
णिवणयजुत्तहु	दसरहपुत्तहु ।	
होसि सहोयरु	तो तुहुं भायरु ।	
सामि महारउ	सयणापियारउ ।	
णं तो लज्जमि	णंउ पडिवज्जमि ।	
तुज्जु सुहित्तणु	दुज्जसकित्तणु ।	10
होइ असारे	इद्धें जारे ।	
भमियकवंधइ	णिवडियच्चिधइ ।	
महिचुयलुयभुइ	ता तहिं संजुइ ।	
कयवीराहवि	मेइणिराहवि ।	
वहुदाराहवि	लग्गउ राहवि ।	15
भीसणु रावणु	परमारावणु ।	
रजियसुरसह	वे वि महारह ।	
रणभरधुरखम	वे वि सचिक्कम ।	
पडिहरि हलहर	धवलियकुलहर ।	
वे वि महाजस	णं आंसीविस ।	20
फणिकालाणण	णं पंचाणण ।	
हिमसैमतमतणु	आयहियधणु ।	

घत्ता—कंपावियजलथल छाइयणहयल रणि मेलावियअमरयण ॥

सहरिस गलगज्जिय खयभयवज्जिय णाइ दिसागय कुइयमण ॥ २२ ॥

12 १ A हउ. २ P आसाविस. ३ AP हिमतमसमतणु. ४ AP मेष्ठाविय^०.

12 2 भिडु सप्राम कुरु. 6 a णिवणयजुत्तहु राजनीतियुत्तस्य. 7 a महिचुयलुयभुइ महीपतितल्लभुजे. 4 a कयवीराहवि कृतो घोराणामाहय स्वर्धाद्यब्दो यत्र. b मेइणिराहवि मेदिन्या राधा शोभामवति रक्षतीति मेदिनीराधावस्तस्मिन्नीदने रात्रे. 15 a बहुदागहवि बहुभानौ दारार्थमाहवो यस्य, बहूना दारणं विदारणं यस्मिन्नाहवे यस्य वा. 16 b परमारावणु मनुष्यां मातुः. 17 b महारह सप्रामादनिवर्तकी महारथो. 19 a पडिहरि रावणः. 22 a हिमसमतमतणु हिमवर्णो रामः तमोवर्णो रावणः. 3 मेलावियअमरयण पुत्रोऽरुदेवगणो सुददर्शनार्थम्

13

दुवई—रावण राम वे वि जुज्झंति सुंरोसवसा महाभडा ॥

छुड छुड दुक्क मुक्क वाणावलि छुड छुड छिण्ण धयवडा ॥ छ ॥

छुड छुड णाणाजाणइं भिण्णइं
छुड णरहंडखंडमांडिय महि
छुड संदण मुसुमूरिवि थल्लिय
छुड छुड रामु थामु जा दावइ
जाव जुज्झि वावरइ सहोयरु
पभणइ णिसुंणि देव सीराउह
राम राम रामामणहारण
हउं किंकरु कठोरपिहुकरयलु
जीवमि जाम वइरिमारणविहि
ताव एउ पइं पहविच्छुरियउं

छुड छुड धवलइं छत्तइं छिण्णइं ।
छुड गय घट्टिय लोट्टिय सारहि ।
पडिमयंगल मायंगहिं पेल्लिय । 5
जाव खगिंदु रहंगु विहावइ ।
तावंतरि पइडु दामोयरु ।
वीर पउम चुंवियपउमामुह ।
सुवलासुय अरिविंदवियारण ।
भाइ तुज्झ पविरोलियपरवलु । 10
जगि रयणियरच्चिधणिवतरुसिहि ।
सइं करेण किं पहरणु धरियउं ।

घत्ता—रक्खियकुलगिरिदरि हउं तेरउ हरि मुइ मुइ मइं आलद्धजउ ॥

पविखरसरणहरहिं अविरलपहरहिं दारामि दहमुह मत्तगउ ॥ १३ ॥

14

दुवई—ता रामेण कण्हु मोक्कल्लिउ वोल्लिउ तेण दहमुहो ॥

रे अपवित्त धुत्त परणारीरत्त म थाहि संमुहो ॥ छ ॥

विहिदुच्चिलसिउं तुहं वि महीसरु
कुद्धइं तुह दहमुह णहईवइं
अज्जु तुज्जु परमाउसु पुण्णउं
मइं मुक्काइं दसास णियच्छहि
कयसमरेण गाहियरिउजीवें

ओसरु ओसरु मा संधहि सरु ।
राहवरायपायराईवइं ।
जिह तुरयरणु कुसील ण दिण्णउं । 5
तिह पवहिं पहरणइं पडिच्छहि ।
तं णिसुणेवि वुत्तुं दहगीवें ।

13 १ AP सरोस°. २ AP छुड छुड णर°. ३ A लंठिय°. ४ AP पडिमयंग. ५ A देव
णिमुणि. ६ AP कठोर°. ७ A पविरोलिय°. ८ A जणय°. ९ A जणय°.

14 १ A मोक्कल्लियउ. २ AP तियरणु. ३ AP वुत्तउ.

13 ४ b घट्टिय सवट्टिना.. ५ b पडिमयंगल अन्नगजाः. ७ a वावरइ व्यापार करोति,
b दामोयरु दारिणमणः. ८ b चुं वियपउमामुह चुम्बितलध्मीमुख ९ b सुवलासुय हे सुवलादेवीपुत्र.
१० b पविरोलिय° मथितम्. ११ b रयणियरच्चिध° राक्षसध्वजाः. १४ पविखरसरणहरहिं
वद्धत्तद्विनसम्म°.

14 १ a णहईवइ नखदीप्राणि, b °णयराईवइ पादकमलानि.

तल्लरजलि कइँलासु वि जलयरु
 खलसुग्गीवरामणलहणुयहं
 एयहं मज्झि तुहं मि भहु भण्णहि
 मुइ मुइ तेरउ आउहु केहउं
 भणइ विहीसणु जुज्झसमत्थइं
 चिंतहि तुहं पण्णत्ति जणइण
 घत्ता—तं तेम करेप्पिणु भुय विहुणेप्पिणु अम्भिदुउ दहमुदहु हरि ॥
 कइयणवयणुत्तिहि महणपवित्तिहि णाइ समुदहु सुरसिहरि ॥१५॥ 15

15

दुवई—वेण्णि वि पीयवास वेण्णि वि णीलंजणगरलसामया ॥
 दोहिं मि कुलिसंक्कसंकुसवस चोइय मत्तसामया ॥ छ ॥

वे वि कुद्ध वद्धठाण	मुक्क तेहि दिव्व वाण ।	
रामणेण मुक्कु णाउ	लक्खणेण पक्खिराउ ।	
रावणेण अंधयारु	लक्खणेण मुक्कु सुरु ।	5
रावणेण मेरु चंडु	लक्खणेण वज्जदंडु ।	
रावणेण आसु आसु	लक्खणेण सेरिहीसुं ।	
रावणेण वारिवाहु	लक्खणेण गंधवाहु ।	
रावणेण चिच्चिजाल	लक्खणेण मेहमाल ।	
रावणेण दंति दीहु	लक्खणेण मुक्क सीहु ।	10
रावणेण रक्खसिंदु	लक्खणेण खेउविंदु ।	
रावणेण रत्तिणाहु	लक्खणेण मुक्क राहु ।	
रावणेण मुक्कु रुक्खु	लक्खणेण दुण्णिणारिक्खु ।	
पज्जलंतु जायवेउ	दिग्गयग्गलग्गतेउ ।	

घत्ता—सुरसमरसमत्थं विज्जासत्थं जेण जेण रावणु हणइ ॥ 15
 पडिवक्खीहणं भासुररुवें तं तं लक्खणु णिल्लुणइ ॥ १५ ॥

४ A किकलासु, T किकलासु परेवरु (?) अथवा किकालसु कुसविल (?) ; K records a p; अथवा किकलासु कुसविलजीव न तु गजमत्स्यादय . ५ P मयगसमयतरु.

15 १ A कुलिसक्कसंकुस^०. २ A सेरिहासु, T नेरिहेसु.

8 a तल्लरजलि अल्पतडागे; कइलासु करकन्दुक. कर्मटः. 11 b मयगमगयतरु गजमत्स्यादयो-
 रिवान्तरम्. 12 b पहु रावणः. 14 विहुणेप्पिणु आस्तान्य 15 मरणपविनिहि मथनप्रशंसि-
 युक्तस्य जलधे. मेरुविव.

15 १ मत्तसामया कृष्णवर्णो गजो. ४ a णाउ रूपं. b पक्खिराउ गदड. 7 a आसु
 शीघ्रम्; आसु अश्वः, b नेरिहीसु प्रचण्डमहिषः. 8 b गंधवाहु वायु. 9 a चिच्चिजाल अग्निज्वलन्तः.
 11 b खेउविंदु क्षेमवृन्द. पूजारीमादिशान्ति. 14 a जायवेउ अग्निः.

16

दुवई—ता धगधगं धगंतु खयजलणु व खेयरलच्छिमाणणो ॥

खणि वहुरूविणीइ वहुरूवहिं उद्धाइउ दसाणणो ॥ छु ॥

गयवरि गयवरि हयवरि हयवरि
खेयरि अन्भिडंति पँवरामरि
चउहुं मि पासहि भइ भीसाचणु
वीसपाणिपरिभामियपहरणु
गुंजापुंजसरिसणयणारुणु
अग्गइ पच्छइ चंचलु धावइ
गयकुंभयलइं पायहि पेलइ
परिभमंतकरिवरकरं वंचइ
सारिउ कसमसंति मुसुमूरइ
विलुलियकण्णचमर अच्छोडइ
असिणा दारइ मारइ मयगल

रहवरि रहवरि णरवरि णरवरि ।
छत्ति विमाणि जाणि धइ चामरि ।
जलि थलि महियलि णहयलि रावणु ॥ 5
तिणयणगलतमालसंणिहतणु ।
हणु हणु हणु भणंतु रणदारुणु ।
मणहु वि पासिउ वेणं पाँवइ ।
झ त्ति दंत उम्मूलिवि घलइ ।
रिक्खइं गेजावलिय णिलुंचइ । 10
अंतरसेणासणिय वियारइ ।
कच्छोलंविद्य घंटियं तोडइ ।
धिवइ णहंगणि चलमुत्ताइल ।

घत्ता—भीमाहंवचंडहिं दढभुयदंडहि चप्पिवि हुंकरेवि धरइ ॥

करि रोहइ जोहइ करणहिं मोहइ दसणविहिण्णुं वि णीसरइ ॥१६॥ 15

17

दुवई—फोडिवि आसवारसीसक्कइं सिरइं सकवयगत्तइं ॥

छिंडिवि पक्खराउ हय मारिवि परियाणइं विहित्तइं ॥ छु ॥

गयणयांलि लग्गेवि कहकहरवं हसिवि
ता रक्खधयलक्खणा गुलुगुलंतेहिं
णवजलहरेहि व जललव मुयंतेहिं
झणझणियमणिकिकिणीसोहमाणेहिं

वहुरूविणो रामकेसवहं गय तसिवि ।
रिउदुज्जया लोहदढमँदियदंतेहि ।
चलकण्णतालेहिं सुरगिरिमहंतेहिं । 5
अणवरयकरडयलपरिगलियदाणेहिं ।

16 १ AP धगधगतु. २ AP ०ल्वणीए. ३ A पउरामरि, P पउरपवरामरि. ४ P भीसा-
मणु. ५ AP धावइ. ६ A ०करि वंचइ. ६ AP रिक्खे. ७ AP घंटउ. ८ A भीमाउह. ९ P ०विहित्तु.

17 १ AP तोडिवि. २ A विहत्तइ. ३ A तारखवयं, P तो रक्खवयं. ४ P ०गदियं.
५ AP णुण्णियं. ६ A अणवरयपरिगलियकरडयलदाणेहिं.

16 6 b तिणयणगलं रुद्रय कण्ठ. S b मणहु वि पासिउ वेणं पावइ मनसः पार्श्वं
मनस. सराशादपि वेगेनागच्छति. 10 b रिक्खइ ताक्का, गेजावलिय ग्रीवाक्षुद्रघण्टिका.
11 a मारिउ गजपराणानि, b अंतरसेणासणिय नेनाया अन्तर्मये ये आसनिन. गजाश्वारूढा.
15 करणहिं आवर्तनादिभिः.

17 १ परियाणइं पर्याणानि. 3 a कहकहरव इमिवि यथा भवत्येव हसित्वा.

सोवणसारीणिवद्भुच्चिंधेहि करणासियागहियगयणाहगंधेहि ।
 दंतंगभिण्णग्गखगरहतुरंगेहि भड वे वि थिय गयणि मायामयंगेहि ।
 ता मुक्क दहमुहिण पच्छइय णहभाय विसविसम गुरुविसहरायार णाराय ।
 तप्पंजरे छुंहु तेणारिविद्वणु अलिकसणु हयवसणु वीभंवणु सिरिरमणु
 पुणु पहरणावरणि मणि विज्ज संभरिवि सरणियरु ज्जरिवि हुंकरिवि णीसरिवि ।
 जा वीरु उत्थरिवि चप्परिवि पइसरइ स रहंगु तहिं ताम धरणीसरो सरइ ।
 घत्ता—णवचंदणचच्चिउ कुसुमहिं अंचिउ रयणाराकिरणोहदलु ॥
 णं रावणलच्छिहि कमलदलच्छिहि करयलाउ णिवडिउ कमलु ॥ १७ ॥

18

दुवई—रुसंतेण तेण महुमहणमहासुहडे णिओइयं ॥
 तं कुडिलयरचहुलतडिवलयणिहं गयणे पधाइयं ॥ छु ॥

ता दिट्ठु णहि एंतु	सहस त्ति णिवडंतु ।	
धाराकरालेहि	करवालसूलेहि ।	
झसमुसल्लेहेहि	वावल्लभल्लेहि ।	5
अरिणरकयंतेहिं	कंपणहिं कौतेहिं ।	
कयकण्हपक्खेण	गवणं गवक्खेण ।	
कुमुएण कुंदेण	चंदे मंहिदेण ।	
सत्तुहणभरहेण	णीलेण सरहेण ।	
सुग्गीवणामेण	हँणुवेण रामेण ।	10
पडिखलिउ णँउ वलिउ	अमरत्थु संचलिउ ।	
रणसिरिहि कुंडलु व	णवरविहि मंडलु व ।	
जसवल्लरीदलु व	भुयजुयलतरुफलु व ।	
माणिकगणजडिउ	लक्खणहु करि चडिउ ।	

घत्ता—जं चर्कसमिद्धउ कण्हें लद्धउं तं णारउ णहि णँच्चियउ ॥ 15
 आणंदरसोल्लिउ सिरिथणपोल्लिउ राउ रामु रोमंचियउं ॥ १८ ॥

७ A दतंगिणिच्चिण्णखगं ८ A दहवयणं. ९ P छु. १० A धीभवणु.

18 १ A करवालवालेहि. २ A मुसल्लेहेहि. ३ A मयंटेण. ४ A omits this foot.
 ५ A णहवडिउ. ६ AP चकु. ७ AA णच्चिउ. ८ A रामु राउ. ९ AP नेमच्चिउ

7 a °सारी° गजपर्याणकम्. 9 b °विसहरायार सर्पाकाराः; णाराय वाणा. 10 a तप्पंजरे नागन
 पजरे; b वी भवणु वीभत्सनः; भयानक इत्यर्थः. 12 b रहंगु चक्रम्.

18 1 णि ओ इय नियोजित मुक्तम्. 7 b गवणं गवयराशा. 11 अमरत्थु देवाभिहितं नाम्. 16 रोमचियउं दृष्टः, कृष्णेन लब्धत्वात्.

दुवई—णिवडिय कुसुमविट्टि कउ कलयलु हरिसिय उरयसुरणरा ॥		
भामिवि चक्कु भणिउ गोविंदे विसरिस णिसुणि दसासिरा ॥ छ ॥		
संदण तुरंग	मयमुइयभिग ।	
करि गलियगंड	मेइणि तिखंड ।	
असि चंदहासु	लंकाणिवासु ।	5
ससहरंसमाणु	पुष्पयविमाणु ।	
वइदेहि देहि	मा खयहु जाहि ।	
तूसवहि रामु	कैरि पयपणामु ।	
जीवहि अतेउ	कंतासमेउ ।	
दट्टाहरेण	असिवरकरेण ।	10
असमंजसेण	अमरिसवसेण ।	
ता भणिउं तेण	णिसियरधएण ।	
पाइकतणय	णिम्मुक्कविणय ।	
तुम्हहं वराय	किं मज्जु राय ।	
णियजीवधरणु	सुग्गीवसरणु ।	15
पइसरहु जइ वि	णुंवरहु तइ वि ।	
विगयावलेव	देव वि अदेव ।	
भडभिडणसंगि	महुं जुज्जरंगि ।	
कि गणिउ रामुं	तुहुं हीण्णथामु ।	
जज्जाहि रंक	मग्गंतु लक ।	20
लज्जाहि ण केव	हिय सीय जेव ।	
अवराउ तेव	परिचत्तसेव ।	
रामाणियाउ	रायाणियाउ ।	
लेसमि छलेण	णियभुयवलेण ।	
इय भणिवि भीमु	दुलंघधामु ।	25
आवर्द्धकोहु	मेल्लइ सरोहु ।	

19 १ AP मुइयसिंग. २ P ससहर. ३ A कयपव°. ४ A णउ उव्वरहु तइ वि; P णउ उव्वरहो तइ वि. ५ P adds after this: णिण्णट्टणामु, संगामकामु. ६ A तुहुं दिण्णधामु. ७ A परिचत्तसेव. ८ P आवद्द.

19 २ दसतिरा हे रावण. ३ b मयमुइयभिग मदेन मुदित्तभुङ्गाः. ४ b करि कुरु ० a अतेउ तिस्सिनाः सन्. 12 b णि ति यरधएण राक्षसव्वजेन रावणेन. 17 a विगयावलेव विगत गर्गाः. 22 A अवगउ अपराः (त्विय), b परिचत्तसेव हे त्यक्तसेव राम. 23 a रामाणियाउ रामनवन्धिन्यः; b रायाणियाउ राणी. 24 a लेसमि प्रहीष्यामि. 26 b सरोहु त्राणसमूहः.

आइहृचाउ	रायाहिराउ ।	
जां उग्गभाउ	वीसद्धगीउ ।	
ता तक्खणेण	तहिं लक्खणेण ।	
णं खयपयंगु	मुक्कउ रहंगु ।	30
आयउ तुरंतु	धाराफुरंतु ।	
अरितावणेण	तं रावणेण ।	
भुयखलिउ जइ वि	वेलि मट्ट तइ वि ।	
वच्छयलि लग्गु	को किर ण भग्गु ।	
णिवसिरिपमत्तु	परणारिरत्तु ।	35

घत्ता—दहवयणहु केरउ दुहइं जणेरउ तिकखइ धारइ सल्लियउं ॥
परघरिणीमंदिरु हियउ असुंदरु चक्कें फाडिवि घल्लियउं ॥ १९ ॥

20

दुवई—ता दहवयणि पडिइ पडियइं सुरकुसुमइं सिरि उविदहो ॥

हउ दुंदुहि गहीरु जउ घोसिउ पसरिय दिहि सुरिंदहो ॥ छ ॥

ता सुहडेहि दिट्ठु रणेमहियलु	वणवियलियलोहियजलजंजलु ।	
भग्ग रहंग रहहि सहुं रहियहिं	फट्ठयग्गहिं वंसविरहियहि ।	
चामर पडिय हंस णं मारिय	घुलिय जोह पडिजोहवियारिय ।	5
मोडियदंडइं छत्तइं धवलइं	दिट्ठइं णाइ अणालइं कमलइं ।	
छिण्णगुणइं महिलुलियइं चावइं	णं खलचित्तइं भंगुरभावइं ।	
धम्मगुणुज्झिय सुद्धिइ जुत्ता	वाण रिसि व्व मोक्खुं संपत्ता ।	
दाणवंत मत्थेयखणणुज्जय	णावइ पिसुणं सठं णिरु दुज्जय ।	
कुडिल लोहणिम्मिय पडिअंकुस	दिट्ठु तुरय जंत तोडियकुस ।	10
खलिणइं णिवडियाइं पल्लाणइं	दिट्ठइं विहंडियाइं जंपाणइं ।	
दिट्ठइं णिवक्कोलकंकालइं	मासगासु लंतइं वेयालइं ।	
कडयमउडकोडलंकडिसुत्तइं	दिट्ठइं दसदिसासु पविहत्तइं ।	

घत्ता—भडर्भालविणिहियइं विहिणा लिहियइं अचलइं भवियव्वक्खपरइं ॥

जांझावे गयचम्मइं संदणेरम्मइं कावालिउ वायइ वरइं ॥ २० ॥ 15

९ AP आइहृचाउ. १० AP जामुग°. ११ A वलवट्टु; P वलिवट्टु.

20 १ A रणि महियलु. २ AP मोक्खु ण पत्ता. ३ A °मयय°. ४ A वितुणवत्तु.
५ A विहलियाइं. ६ A °क्वाल°. ७ AP °कुंडल°. ८ P भउसाल° ९ A जोरवि. १० AP दंसणरम्मइं.

34 b व लि वलवत्, मट्टु यलात्कारेण. 37 °म दिरु °घटभत चित्तम्.

20 ३ b °लो हियजलजंजलु लोहितस्य स्तस्य नडाग. (i) b अणात्तइं नात्तरंत्तानि.
7 b भगुरभावइं वत्ताणि. 9 a दाणवतेत्यादि गजा दानवन्त. तेषा मन्तस्सपन्नोपता अज्जना.
b सठ कपटत्वेन. 10 b तो डियकुस त्रोटिततजंकाः. 15 वा यइ वानयति.

21

दुवई—पडिवारणविसाणजुयपेल्लियघल्लियमत्तवारणे ॥

होही रिउहुं मरणु हरिहंत्ये सीयाकारणे रणे ॥ छ ॥

तहिं हिंडंतहिं विहिविच्छोइय
काइ वि पिउ सरसयणि पसुत्तउ
काइ वि पिउ लुलियंतहिं रुद्धउ
खंडखंडु हुउ मुउ णोलक्खिउ
उज्जएण पडिएण महाहवि
का वि भणइ हलि जूरइ महु मणु
पायडियउं एवहिं किं किज्जइ
का वि भणइ णियणियइ ण याणिय
उज्जउ सीय सुविप्पियगारिणि
का वि भणइ उज्जसि पिउ मेल्लहि
कण्णावरु इहुं णाहु महारउ
कासु वि सिवपयगमणविसेसें

घरिणिहिं णियणियपिययम जोइय ।
दिट्टउ णं रणलच्छिहि रत्तउ ।
दिट्टउ णं जमसंकलवद्धउ । 5
काइ वि पिउ पयखंडे लक्खिउं ।
क वि अंगुलियउ भंजइ राहवि ।
लक्खणेण महु रंडालक्खणु ।
वर णियणाहें समउं मरिज्जइ ।
पहुणा गोत्तमारि कहिं आणिय । 10
खलदइवे संजोइय वइरिणि ।
रंभि तिलोत्तमि किं पि म वोल्लहि ।
अत्थंक्कइ किह होइ तुहारउ ।
समरदिक्ख दक्खालिय सीसें ।

यत्ता—ता तहिं मंदोयरि देवि किसोयरि थण असुयधारहिं धुवइ ॥ 15

णिवडिय गुणजलसरि खगपरमेसरि हा हा पिय भणंति इयइ ॥२१॥

22

दुवई—हा केलाससेलसंचालण हा दुज्जयपरक्कमा ॥

हा हा अमरसमरडिंडिमहर हा हरिणारिविक्कमा ॥ छ ॥

हा भत्तार हार मणरंजण
हा मुहसररुहरसरयमहुयर
हा स्रहव सुरहियसिरसेहर
हा थणकलसविहूसणपल्लव
हा करफंसजणियरोमंचुय

हा भालयलतिलय णयणंजण ।
हा रमणीयणणिलय मणोहर ।
हा रिउरमणीकरकंकणहर । 5
हा हा हिययहारि णिच्चं णव ।
आलिंगणकीलाभूसियभुय ।

21 १ A पेल्लिवि. २ P हरिअत्थे. ३ AP सरसयणइ सुत्तउ. ४ P खंडखंड. ५ P लक्खि-
यउ. ६ A उज्जएण. ७ A झइ. ८ A पहु. ९ A अच्छइ कह वि; P अथक्कए किह.

22 १ P जणरंजण. २ A मुहसररुह°. ३ AP रमणीमण°. ४ A हालिंगण°.

21 1 °वि साण° दन्ताः. 3 a °वि च्छो इय वियोगं प्रापिताः. 5 a लु लियंत हिं लुलितैरन्त्र-
नाले. 6 b पयखंडे पादखण्डेन. 7 a उज्जएण सरलेन. 13 b अत्थंक्कइ इदानीं एवमेव वा.
14 a सिवपयं शृगालीपद मोक्षयानं च.

22 2 हरिणारि विक्क मा हे सिंहपराक्रम. 3 a हार मनोज.

पेसलवर्येणविहियसंभासण	हा माणांसिणिमाणचिणासण ।	
हा पंचेदियविसयसुहावह	हा पिय पूरियसयणमणोरह ।	
हा लंकाहिव खेयरसामिय	देव गंधमायणगिरिगामिय ।	10
हा मंदरकंदरकयमंदिर	दिव्वपोमसरपोमिदिंदिर ।	
पइं विणु जगि दसास जं जिज्जइ	तं परदुक्खसमूहु सहिज्जइ ।	
हा पिययम भणंतु सोयाउरु	कंदइ गिरवसेसु अंतेउरु ।	
घत्ता—ता णियकुलभूसणु दुक्कु विहीसणु तहिं तक्खणि सुविसण्णमइ ।		
जगकाणणमाणु भडपंचाणु जहिं णिवडिउ लंकाहिवइ ॥२२॥		15

23

दुवई—अप्पउ रयणकिरणविप्फुरियइ छुरियइ हणइ जावहिं ॥

जीविउ विइवंतु कयसंतिहिं मंतिहि धरिउ तावहिं ॥ छ ॥

हा हा कयउं कम्मु मइं भीसणु	णियतणु पहणिवि हयइ विहीसणु ।	
अज्जु सरासइ सत्थु ण सुयरइ	अज्जु कित्ति दसदिसहिं ण वियरइ ।	
जयसिरि पत्तं अज्जु विहवत्तणु	गयउ अज्जु पहु सत्तिपवत्तणु ।	5
अज्जु इंदु भयवसहु म गच्छउ	अज्जु चंदु सहं कंतिइ अच्छउ ।	
अज्जु तिब्बु णहि तवउ दिणेसरु	अज्जु सुयउ णिच्चित्तु फणीसरु ।	
अज्जु जलणु जालैउ वित्थारउ	वइवसु अज्जु सहच्छइ मारउ ।	
णोरिउ अज्जु रिंछु आवाहउ	दिकारिउलु मा फासु वि वीइउ ।	
अज्जु वरुणु अप्पाणु पसंसउ	अज्जु घाउ उववणइं विहंसंउ ।	10
अज्जु कुवेरु कोसु मा ढोवउ	अज्जु कामु अप्पाणउं जोवउ ।	
भायर पइं गइ णारयंठाणहु	अज्जु णयरि णंदउ ईसाणहु ।	

घत्ता—पइं मुइ धरणीसर खगपरमेसर सुरवरं जयहुंदुहि रसउ ॥

तयै राहवचंदहु सूर्य गोविंदहु अज्जु णिरंकुंस उरि वसउ ॥ २३ ॥

५ AP विहियवयण°. ६ A °पोमदिंदिर.

23 १ A विच्छुरियइ. २ AP अज्जु पत्त. ३ A जालावित्थारउ. ४ A विइजउ.

५ A णारयगमणु. ६ A सुरवइ. ७ AP तिय. ८ AP सिय. ९ A गिरंकुमि.

8 a पेसलवयण° मनोहरवचनम्. 12 a जिज्जइ जीव्यते.

23 2 विइवंतु मारयन्, मन्. 13 पइं मुइ त्वयि मृते सति.

24

दुवई—अञ्जु मिलंतु मच्छ मंदाइणि वहड ससंकपंडुरा ॥

पइं मुइ खेयरिंद कैह होसइ सा णवघुसिणपिजरा ॥ छ ॥

णारउ णांड आउ णासणविहि
 रामु ण कुहु कुहु जगभक्खउ
 चक्कु ण सुक्कु मुक्कु जमसासणु
 वच्छु ण भिण्णु भिण्णु धरणीयलु
 तुहुं णउ पडिउ पडिउ कामिणिगणु
 चेह्ठु ण भग्ग भग्ग लंकाउरि
 हा भायर किं ण किउ णिवारिउ
 लक्खण राम काइं णउ मण्णिणय
 दुज्जसकारिणि णयंणुणवंतहं
 किह कुलिसु वि घुणेहि विच्छिण्णउं
 हा पइं विणु मइं काइं जियंतं

सीय णै हित्त हित्त परियणदिहि ।
 लक्खणु ण भिडिउ भिडिउ कुलक्खउ ।
 तं णउ लग्गउ लग्गु हुयासणु । 5
 राहिरु ण गालिउ गालिउ सज्जणवलु ।
 तुहुं ण मुओ सि मुउ विहलियजणु ।
 दिट्ठि ण सुण्ण सुण्ण मंदोयरि ।
 किं महु तणउं वयणु अवहोरिउ ।
 किं सुग्गीव हणुव अवगण्णिणय । 10
 किं ण दिण्ण पणइणि मग्गंतहं ।
 तुञ्जु वि मरणु केव संपण्णउं ।
 हा हउं कवलिउ किं ण कयंतं ।

अत्ता—कायर मन्मीसिवि अभउ पघोसिवि विजयसंखु पूरिवि लहु ॥

तामायउ लक्खणु राउं वियक्खणु सुग्गीउ वि हणुएण सहं ॥२४॥ 15

25

दुवई—भासिउ राहवेण दहमुहु तुहुं सोयहि किं विहीसणा ॥

जासु खणिंदवंदंवारय विरइयंपायपेसणा ॥ छ ॥

विलसियचंदसूरणक्खत्तइ
 पक्कु जि णवर दोसु दमियारिहि
 जैइ ण वि किउ जिणधम्मवएसणु
 रामाएसें जगकंपावणु
 होइ सुरिंदु वि गयणुणसारउ
 कंचणमइ विमाणि संणिहियउ

एयहु को समाणु भुयणत्तइ ।
 जं अहिलासु गयउ परणारिहि ।
 वारिवि कैरुण रुवंतु विहीसणु । 5
 चउहिं जणहिं उच्चाइउ रावणु ।
 परयारेण सव्वु लहुंयारउ ।
 पेयभूसणायारु वि विहियउ ।

24 १ A कहिं. २ A आउ णाइ. ३ A गिहित्त. ४ A णिव°. ५ AP केम मरणु. ६ P रामु.

25 १ A विरइयनिचपेसणा. २ A जेहिं ण किउ: P जइ णहिं किउ. ३ AP कडणु.
 ४ A हउआउ.

24 1 मंदाइणि गद्दा. 3 a णारउ णाउ नारदो नागतः, किं तु नाशविधिरागतः.
 4 a जगभक्खउ यमः. 7 b विहलियजणु अर्थिजन. 8 a चेह्ठु शरीरच्छेदा. 11 b पणइणि
 सीता. 14 मन्मीसि वि यूयं भय मा कुस्तेत्युक्त्वा.

25 7 b परयारेण पत्नीदोषेण. 8 b पेयभूसणा यान् मृतकशृङ्गाराचारः.

उब्भिय कयलखंभ सुहसुंभइ
धरियइं उप्परि वण्णविचित्तइं
पविलंविउ पडायउ दीहउ
पसरिय चंदोवथ णं खँलयण
वाहसलिलधारहिं वरसंति व

णं मसाणघरकरणारंभइ ।
दुक्खवेह्लिपत्ताइं व छत्तइं । 10
णावइ सोयमहातरुसाहउ ।
थिय वंधव काला णं णवघण ।
तूरइं दुहभिण्णाइं रसति व ।

घत्ता—हउं कट्टे घडियउ चम्मं महियउ परकरताडणु जं सहमि ॥

णं एउं सुजुत्तउं पडहें वुत्तउं तं दसासु महिवइ महमि ॥ २५ ॥ 15

26

दुवई—एमहिं तेण मुक्कु किं वज्जमि वज्जमि परणरिदहं ॥

लक्खणरामचंदसुग्गीवहं णीलमहिंदकुंदहं ॥ छ ॥

रत्तउ णं विरहग्गे तत्तउ
वहुयउ काहलाउ तुरुतुरियउ
भणइ व संखु अणाहु ण णीवमि
वंसु भणइ हउं काणणि पइसमि
डज्जउ महलु कूरं गज्जइ
कट्टहं मज्झि णिवेसिउ उत्तमु
दिण्णु हुयासु सिहालिउ वंकइ
णं पवणे कट्टिज्जइ लगगउ

णं रुयंति वित्थारियवत्तउ ।
सद्दु मुयंति जीउ णं तुरियउ ।
परसासाऊरिउ किं जीवमि । 5
छिद्वंतु मुइ सामि ण विरसमि ।
पहुमरणि वि भोयणि णउ लज्जइ ।
परकलत्तहरणे णासिउ कमु ।
दससिरदेइ छिवहुं णं संकइ ।
पहुउप्परि चडंतु णं भग्गउ । 10

घत्ता—जो सीयाँसावें णियमणकोवें दूसहविरहें जालियउ ॥

सो राउ हुयासें पेयपलासें जालकरग्गे लालियउ ॥ २६ ॥

27

दुवई—जाणिवि मुउ णरिंदचूडामणि सव्वंगहिं समुग्गओ ॥

तहु सत्तच्चि सत्तधाऊहरु अत्ति धगत्ति लग्गओ ॥ छ ॥

५ A दुज्जण. ६ A त एउ ण जुत्तउं.

26 १ P किह. २ P omits वज्जमि. ३ P °सासाऊरिय. ४ A सीयासोए, ५ AP तावि-
यउ. ६ AP °करग्गहिं जालियउ. T लालिउ सृष्टः.

27 १ AP समग्गओ. २ P °धाहुहरु.

9 a सुहसुभइ सुखविध्वसके. 11 b °माइउ शाखाः. 11 कट्टे काष्ठेन.

26 5 a अणाहु अनाथो रावणरहितः, b परसासाऊरिउ परशासपूरितः. S b णासिउ
कमु नाशितः कुलकमो नीनिर्वा. 9 a सिहालिउ वकइ ज्वालायुक्तो वक्र गच्छति. 11 नीयासावें
सीताशापेन. 12 पेयपलासे प्रेतपिशितभक्षणेण, जालकरग्गणि लालियउ पान्नाणव दागमाली. सृष्टः.

27 1 सव्वंगहिं सर्वस्मिन् शरीरे, समुग्गओ समुद्रतः. 2 सत्तच्चि अग्निः. धगत्ति प्रच्यवत्त-
मानः.

वइरिविहंडणु कालें लद्धउ
 तासु सरीरु तेण उवजीविउ
 जं जासु वि तं तासु जि छज्जइ
 ण्हाइवि सयणहिं दिण्णउं पाणिउं
 पत्थंतरि असोयवणि पइसिवि
 अंगंगयणलणीलविहीसहिं
 पणविवि जणयवसुंधरिधीयहि
 आणिय मिलिय देवि बलहइहु
 हेमसिद्धि णावइ रससिद्धहु
 दिव्ववाणि जाणियपरमत्थहु
 चित्तसुद्धि णं चारुमुणिंदहु
 णं वरमोक्खलच्छि अरहंतहु

ग्रत्ता—जं दिट्ठु समाहउ णियपइ राहउ तं सीयहि तणुकं चुइउ ॥

पुलणण विसट्टउ उट्टु जि फुट्टउ पिसुणु व सयखंडं गयउ ॥२७॥

तिहुयणकंटउ जलणें खद्धउ ॥
 तो^३ वि ण पोरिसेण जगु दीविउ।
 करहचरणि किं णेउरु जुज्जइ । 5
 दुत्थिउ बंधुविंदु समाणिउ ।
 रामाएसं देवि पसंसिवि ।
 अंजणेयकिक्किंधणरेसिहिं ।
 केसवविजउ समासिउ सीयहि ।
 अमरतरंगिणि णाइ समुद्धु । 10
 केवलणाणारिद्धि णं बुद्धहु ।
 वरकइमइ णं पंडियसत्थहु ।
 णं संपुण्णकंति छणयंदहु ।
 बहुगुणसंपय णं गुणवंतहु ।

15

28

दुवई—तोरणविविहदारपायारधरावलिसिहरसोहिए ॥

अरिचरपुरि पइट्टु हरिहलहर धयमालापसाहिए ॥ छु ॥

मंदोयरि रुयंति साहारिवि
 वंधव सयण सयल हक्कारिवि
 मंति महंतमंति संचारिवि
 पढमज्जिणाहिसेउ णिव्वत्तिवि
 सत्तु मित्तु मज्जत्थु वि चित्तिवि
 अवाणिदविणपुरलोहु विवज्जिवि
 पवरपुरिसपरिहास समीहिवि
 लोयदिण्णहियइच्छियकामें

इंदइ सोयविसंडुलु धीरिवि^१ ।
 णायरणरहं संक णीसारिवि ।
 विग्घकारि सयल वि णीसारिवि । 5
 होम विविहदाणाइं वत्तिवि ।
 समइ सव्वसामंत णियंतिवि ।
 गह वंभण णेमिच्चिय पुज्जिवि ।
 पालिवि धम्मु अधम्महु वीहिवि ।
 रामोरामें रापं रामें । 10

३ A तो उण. ४ A बंधुवगु. ५ AP किक्किंधपुरेसिहिं. ६ AP देवि मिलिय. ७ AP णं जगपरम^०.
 ८ A णं तिहोक्खलच्छि.

28 १ P भोयविसंडुलु. २ AP वारिवि. ३ AP विग्घकारि णीसेस णिवारिवि. ४ A अवणि
 दविणु पुरलोहु; P अवणिदविणपरलोहु. ५ A पुरि पइसेपिणु लक्खणरामे.

५ b करहचरणि उट्टुपादे. 15 समाहउ माधवसहित.. 16 विसट्टउ विकसितः.

28 3 a साहारिवि धीरयित्वा; b सोयविसंडुलु शोकेन शिथिलः. 7 b समइ स्वमते
 निजामे. 9 a पवरपुरिसपरिहास समीहिवि नर्महास्य चिन्तयित्वा, मम वचनमन्यथा मा भवतु,
 किं तु विभीषणस्य राज्यदाने सत्य वचो भवतीति भावः.

घत्ता—पविमलगलियंभहिं कंचणकुंभहिं ण्हाणिवि पट्टबंधु विहिउ ॥
रणि मारिवि रावणु भुवणभयावणु रज्जि विहीसणु संणिहिउ ॥ २८ ॥

29

दुवई—इय को करइ भिडेइ वि भडगोंदलि भुवणंगणमरावणं ॥
छज्जइ एम कासु णिन्वहइ वि सुहिपडिवण्णपालणं ॥ छ ॥

एह रूढि एहउं गरुयत्तणु	मेळ्ळिवि पउमु कासु सुयणत्तणु ।	
कोसु देसु सो तं पुरु परियणु	तं पणियंगणकुलु पीवरयणु ।	
ताइं आयवत्तइं वाइत्तइं	जाणइं जंपाणइं सुविचित्तइं ।	5
ताइं वणाइं अमरतरुगंधं	ताइं जि जाउहाणनृवच्चिंधं ।	
ते असिकर दुक्करकर किंकर	ते हयवर ते गयवर रहवर ।	
लंकादीउ तं जि सो जलणिहि	ते चामीयरभरिय महाणिहि ।	
णिहिलइं हियवइ तणु व वियप्पिवि	दहमुहाणुजायहु जि समप्पिवि ।	
मेइणिसाहणि तिजगजयाणउं	लक्खणरामहि दिण्णु पयाणउं ।	10

घत्ता—ते रामजणइण दणुयविमइण परिभमंति भुवणयलइ ॥
आवाहियचलरह णावइ सभरह पुप्फयंत गयणयलइ ॥ २९ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभन्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे रावणणिहणं विहीसण-
पट्टबंधो णाम अट्टहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७८ ॥

६ P ण्हाविवि.

29 १ AP भिडेवि भड°. २ AP°णिव°. ३ A °णिगहणं. ४ AP °पट्टबंधण.

29 1 अ रावणं रावणरहितम्. 2 सु हि प डिव ण्णं सुहृत्पतिपन्नम्. 3 a रूढि प्रसिद्धिः;
b मेळ्ळिवि पउमु रामं मुक्त्वा. 4 b पणियगण° वेद्याः. 6 b जाउहाणनृव° राक्षसनृपो रावणः.
9 b दहमुहाणुजायहु विभीषणस्य. 12 सभरह सनक्षत्ररथौ त्वेन नक्षत्रप्रच्छादकौ वा.

णिहणिवि भीसु रणि दुज्जउ रावणु मयमत्तउ ॥
महि हिंडंतु पहु पीढईरि रामु संपत्तउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

गिरि सोहइ हरिणा भउ जणंतु
गिरि सोहइ मत्तमऊरणाउ
गिरि सोहइ वरवणवारणेहिं
गिरि सोहइ उड्डियवाणरेहिं
गिरि सोहइ णववाणासणेहिं
तंहि पुव्वकोडिसिल दिट्ठ तेहिं
मंतिहिं पउत्तु भो धम्मरासि
एवहि जइ लक्खणु भुयहिं धरइ
तं णिसुणिवि पभणइ रामु एव
जांव वि रणि णिदलियउ दसासु
तांव वि तुम्हहं संदेहवुद्धि

पहु सोहइ हरिणा महि जिणंतु ।
पहु सोहइ णायमऊरणाउ ।
पहु सोहइ वारिणिवारणेहिं । 5
पहु सोहइ खगधयवाणरेहि ।
पहु सोहइ भउवाणासणेहिं ।
पुज्जिय वंदिय हंरिहलहरेहिं ।
उद्धरिय तिविट्ठं एह आसि ।
तो देव तिखंडधरत्ति हरइ । 10
अज्जु वि तुम्हहं मणि मंति केव ।
जांव वि सिरि दिण्ण विहीसणासु ।
लइ किज्जइ सव्वहं हिययसुद्धि ।

घत्ता—जो अतुलइं तुलइ वलवंत वि रिउ विणिवायइ ॥

सो हरि कुलधवलु सिल एह किं ण उच्चायइ ॥ १ ॥ 15

2

दढकढिणथोरदीहरकरासु
विहसिवि रामे लच्छीहरासु
ता भाइवयणतोसियमणेण

दहवयणवालिजीवियहरासु ।
आएसु दिण्णु णियवंधवासु ।
उच्चाइय सिल लहु लक्खणेण ।

1 P पीयलहरि. २ A उट्टिय°. ३ AP सिलकोडिपुव्व तहिं दिट्ठ तेहि. ४ P omits हरि°. ५ A ण धम्मरासि. ६ AP पुणरवि सिरि.

2 १ A गसु.

1 २ पीढइरि पीठगिरिं कोडिसिलाम्. 3 a हरिणा सिहेन, भउ भयम्; b हरिणा ल्खणेन. 4 a मत्तमऊरणाउ मत्ता मयूरा नागा सर्पाश्च यत्र, b णायमऊरणाउ ज्ञानो मयूनां त्तिनगणा उगेनादो दृश्यस्वनिर्धेन. 5 a a °वणवारणे हिं वनगजे; b वारिणिवारणे हिं जलनिवा-
नीश्री. 6 b खगधयवाणरेहिं विद्याधरध्वजलिखितवानं. 7 a णववाणासणे हिं नवैः वाणवृक्षैः
असनवृक्षैः; b वाणासणे हिं वनुभिः. 8 a पुव्वकोडिसिल पूर्वकोटिसिला इति नाम.

2 १ a लच्छीहरासु ल्खणत्व.

पविउलभुयचालिय णं धरिन्ति
 णं रामहु केरी विमल कित्ति
 दीसन्ति लोयणयणहं सुहाइ
 उप्परि सीरिहि कसणायवत्तु
 सोहइ सिलग्गु कण्हेण धरिउं
 उययम्मि अरुणकिरणोहतंबु
 वीरेहिं वि मुक्कउ सीहणाउ
 चक्किहि पय वंदिवि वइरितासि

यत्ता—लक्खणकयथुइहिं णरदेवहिं कण्हु पउत्तउ ॥
 सजलहेमघडहं अट्टत्तरसहसें सित्तउ ॥ २ ॥

णावइ तिखंडमहिरायवित्ति ।
 णं णिरु असज्झसाहणसंमिच्छि । 5
 भदियभुयदंडुद्धरिउ णाइ ।
 णं जयंजसवेल्लिहि तणउं पत्तु ।
 बहुपोमरायकरजालफुरिउं ।
 उययाचलभाणुहि णाइ विवु ।
 सउणंदउ णामे जक्खु आउ । 10
 ते दिण्णु तासु सउणंदयासि ।

3

संचलिउ राउ अरितिमिरभाणु
 कल्लोललुलियझससुंसुमारु
 हयगयंवरखंधाइण्णजोहु
 हरिणा रहु वाहिउ जलहिणीरि
 धणुगुणाविमुक्कु सरु सुद्धिवंतु
 ते देवहु दाणवमइणासु
 कुंडलजुयलउं मणिकिरणणीहु
 तहि हौतउ गउ अणुजलहितीरु
 केऊरमउडकंकणपवित्तु
 तहिं लहिवि विणिग्गउ गउ तुरंतु
 संताणमाल सेयायवत्तु
 पालेप्पिणु पुणु परियंलियगव्व

यत्ता—गउ वेयद्धिगिरि खगसेढिउ वे वि जिणेप्पिणु ॥
 हयमायंगवरखेयरकण्णाउ लपप्पिणु ॥ ३ ॥

अणुंगंग पुणु वि दिण्णउं पयाणु ।
 दियहेहिं पत्तु सुरसरिदुवारु ।
 थिउ काणैणि वल्लु दूसोहसोहु ।
 पायालमूलपूरणगहीरि ।
 संप्रायउ मागहु पय णवंतु । 5
 दिण्णउ अहिसेउ जणइणासु ।
 ससिंकंतु हारु मणहरु किरीहु ।
 साहिउ वरतणु पणवियसरीरु ।
 चूडामणिकंठाहरणजुत्तु ।
 सिंधुहि पइसरिवि पहासु जित्तु । 10
 मुत्ताहलदामु मलोहचत्तु ।
 साहिय वरुणासामेच्छ सव्व ।

३ P धरिन्ति. ३ AP सवित्ति. ४ A जसजय°. ५ AP जालजडिउ.

३ १ P रामु. २ AP अणुमगै. ३ P सुसुआरु. ४ AP गयरहखंधा°. ५ AP उववणि.
 ६ A बलदूसोह°. ७ AP संपाइउ. ८ AP पावेप्पिणु गउ. ९ A परिगालिय°.

5 b असज्झसाहणसमिच्छि असाध्यवस्तुन साधने समाप्ति परमोरकर्पः. 6 b भदियभुयदंडुद्धरिउ
 णाइ विण्णुभुजदण्डोद्धृत छत्रमिव. 7 a सीरिहि त्रलभद्रस्य. 8 b पोमरायं तत्र गिरौ पद्मरागमणयो
 वर्तन्ते. 11 a वइरितासि शत्रूणा भयानकः, b सउणदयासि सौनन्दकनामा असिर्दत्तः. 12 लक्खण-
 कयथुइहिं लक्ष्मणस्य कृतस्तुतिभिः. 12 सजलहेमघडहं जलभृतसुवर्णघटानाम्.

3 3 a खंधाइण्णं स्कन्धावतीर्णाः. 7 a णोहु गृहम्. 11 b मलोहचत्तु मलसमूहरहितः.
 12 a पालेप्पिणु कालक्षेपं कृत्वा.

4

पुणु वसिकिउ सुरदिसि मेच्छखंडु
 गय जइयहुं दोचालीस वरिस
 साहिवि तिखंडमेइणि दुगिज्झ
 हरिवीढि णिवेसिवि वरजलेहिं
 मंडलियाहिं णं मेहहिं गिरिंद
 जैहिं दिव्वइं सत्यइं संचरंति
 जहिं देव वि धरि पेसणु करंति
 को वण्णइ हरिवलएवरिद्धि
 जं विजयतिविट्ठहं तणउ पुण्णु
 हो पूरइ वण्णावि काइं एत्थु

महिमंडलि हिंडिवि रायदंडु ।
 तइयहुं हरि हलहर दिव्वपुरिस ।
 जयजयसदेण पइट्ट उज्झ ।
 हयतूरहिं गाइयमंगलेहिं ।
 अहिसित्त रामलक्षणाणरिंद । 5
 तहिं अवसें रणि अरिवर मरंति ।
 तहिं अवसें णर भयैथरहरंति ।
 वाएसिइ दिण्णी कासु सिद्धि ।
 तं एयंहं दोहिं मि समवइण्णु ।
 किं तुच्छवुद्धि जंपमि णिरत्थु । 10

घत्ता—सेविय गोमिणिइ रइलोहइ कीलणसीलइ ॥

रज्जु करंत थिय ते वे वि पुरंदरलीलइ ॥ ४ ॥

5

सुमणोहरणामि सयौवसंति
 सिरिसिरिहररामणराहिवेहिं
 चंदेप्पिणु पुच्छिउ परमघम्मु
 मिच्छत्तासंजम चउकसाय
 एयहिं ओहट्टइ णाणतेउ
 वंधेण कम्मु कम्मेण जम्मु
 इंदियसोक्खे पुणु पुणु विसालु
 मोहं मुज्जइ संसारि भमइ
 णारयतिरिक्खदेवत्तणेहिं
 संसरइ मरइ णउ लहइ वोहि

अण्णाहिं दिणि णंदणवणवणंति ।
 सिवगुत्तु जिणेसरु दिट्ठु तेहिं ।
 जिणु कहइ उयांरवियारगम्मु ।
 छंडंतहं सुहु रायाहिराय ।
 ए दुस्सहदुइमबंधहेउ । 5
 जम्मेण दुक्खु सोक्खु वि सुरम्मु ।
 संपज्जइ जीवहु मोहजालु ।
 अण्णण्णाहि देहहिं देहि रमइ ।
 बहुमेयंभिण्णमणुयत्तणेहिं ।
 ण कयाइ वि पावइ जिणसमाहि । 10

4 १ P रायचंडु. २ A reads *a* as *b* and *b* as *a* in this line. ३ A भउ थर°; P भउ थर° ४ P एवहं.

5 १ A सयवसंति. २ P ओयार°. ३ A बहुभोव°.

4 1 *b* गयटंडु राजसैन्यम्. 3 *a* दुगिज्झ दुर्गोद्या. 4 *a* हरि वी ढि सिंहासने. 6 *a* सत्यइं शत्रानि 8 *b* वा एसिइ वागीश्वर्या सरस्वत्या. 9 *a* विजयति विट्ठहं प्रयमवलकेशवयोः. 11 रइलोहइ रत्तिलोमिष्ठया.

5 2 *a* सिरिसिरिहररामणराहिवेहिं श्रीविष्णुश्रीरामाभ्याम्. 6 *b* सोक्खु वि सुरम्मु कदाचित्तुतं च ग्ग मयति विप्रयत्नं न त्वतीन्द्रियम्.

सम्मत्तु ण गेण्हइ मंदमूढु
आसंककंखविदिगिंछवंतु

लोइयवेइयसमएहिं छूँडु ।
जह मिच्छादिद्वि पसंस देतु ।

घत्ता—चंगउ परिहरइ जं णिंदणिज्जु तहिं भत्तउ ॥

राहव जीवगणु जगि पउरु विहुरु संपत्तउ ॥ ५ ॥

6

अणुदिणु परिणामहु जाइ लोउ
खाणि खाणि अण्णत्तहु जाइ केव
उप्पत्तिवित्तिपलएहि गत्थु
पज्जाउ जाइ दव्वु जि पयासु
जं रुच्चइ तं तहिं होउ वप्प
जो मणुयलोइ सो णत्थि सग्गि
जो घरि सो किं णीसेसणांमि
एवत्थिणत्थिणिव्वूढसच्चु
जइ जगि सव्वत्थ वि सव्वु अत्थि
जइ एक्कु जि सयल्लु जि जगु णियाणि
को खांडिउ को वरइत्तु थक्कु

खाणि आणांदिउ खाणि करइ सोउ ।
सिहिगहिउ तेल्लु सिहिभाउ जेव ।
पेच्छहि अप्पउ पोग्गलपयत्थु ।
घड मउंड सुवण्णहु णत्थि णासु ।
णिज्जीवणिरण्णइ कहिं वियप्प । 5
जो सग्गि ण सो पायालमग्गि ।
जो गामि ण सो आरामथामि ।
अरहंतें साहिउ परमतच्चु ।
तो किं गयणंगणि कुसुमु णत्थि ।
तो को णारउ को सुरविमाणि । 10
सामण्णु अमरु को कवणु सक्कु ।

घत्ता—जइ खाणि खाणि जि खउ सइंवुद्धें जीवहु दिट्ठउ ॥

ता चिरु महिणिहिउ वसुसंचउ केण गविट्ठउ ॥ ६ ॥

४ AP मूढु.

6 १ AP अण्णण्णहु. २ A मउडि. ३ AP °विणिण्णय. ४ AP णीसेसगामि.
५ AP आरामि. ६ AP एक्कु वि सयल्लु वि. ७ AP सो.

11 b लो इ य वे इ य स म ए हिं छूँडु लौकिकवैदिकमतै. क्षिप्तः.

6 2 a अण्णत्तहु अन्यत्वम्, b सि हि ग हि उ तेल्लु सि हि भा उ जेव अग्निना वर्तिसयोगेन
गृहीत तैल यथाग्निर्भवति तथा जीवपरिणामः अन्यत्व गच्छति. 3 a °वि त्ति° प्रौढ्यम्; गत्थु अस्तः,
a अप्पउ पुग्गलपयत्थु आत्मा पुद्गलपदार्थश्च. 4 a पज्जाउ जाइ पर्यायो विद्यते, पयासु प्रकाश
स्फुटम्. 5 a जं रुच्चइ त्यादि उत्पादादिरूपत्रयमध्ये जीवादिवस्तुनि यद्रूपं रोचते विवक्षितुमिष्यते,
b णि ज्जी व णि र ण्ण इ जीवनिश्चयरहिते अन्वयरहिते; वियप्प उत्पादादिविकल्पाः कुत्र जायन्ते. 7 a
णी से स णा मि सर्वपदार्थेषु, b आ रा म थामि आरामस्थाने. 8 a ए वे त्या दि एव द्रव्यक्षेत्रकालभावै-
रस्तिनास्तिताभ्या निर्व्यूढ प्रमाणोपपन्न सत्यं यस्य तत्त्वस्य. 10 a णि या णि अवसाने. 11 a ख डि उ मृत-
भार्यः, वरइत्तु वरः. 12 ख उ क्षयो विनाशः. 13 व सु सं च उ द्रव्यकुम्भः; ग वि ट्ठ उ दृष्टः.

7

जइ जाणइ सो किर वासणाइ
जइ इंदजालु तिहुयणु असेसु
सिविणोवमु जइ णीसिसु सुणु
जिणपिसुणहु णियवयणु जि कयंतु
सयलु वि संसारिउ गोरिकंतु
जो आहवि वइरिहिं मलइ माणु
पुरु विद्धउ जेण रइवि ठाणु
विणु वत्तारं सिद्धंतु केत्थु
अप्पउं अंवरिं संजोयमाणु
णिच्चेयणि सुसिरि सिवत्तु थवइ
परु मोहइ सइं तमणियरभरिउ
णिवडइ रउइ घणि घणि तमंधि

तो ताइ केम्ब खणधंसणाइ ।
तो किं किर चीवरधरणवेसु ।
तो गुरु ण सीसु णउ पाउ पुणु ।
सिवु णिकलुं णिप्परिणामवंतु ।
णच्चइ गायइ तो किं महंतु । 5
धणुगुणि संधिवि अग्गेयवाणु ।
किं तासु वयणु होसइ पमाणु ।
सिद्धंतं विणु किह मुणइ वत्थु ।
कउलु वि भावइ महु मुक्कणाणु ।
पसुमासु खाइ महु सीहुं पिवइ । 10
इंदियवसु णिंदियसाहुचरिउ ।
णारयहणहणरवि णरयरंधि ।

वत्ता—झायहि जिणधवलु अण्णेण ण दुक्किउ जिप्पइ ॥
करयलकंतिहरु पंकेण पंकु किं धुप्पइ ॥ ७ ॥

8

जइ काउ सरंतहं जाइ गरलु
जो सेवइ गुरु पाविट्टु दुट्टु
सो सइं जि पाव पावहुं जि सरणु
सो गुरु जो मित्तु व गणइ सत्तु
सो गुरु जो मुक्काहरणवत्थु
सो गुरु जो तिणु कंचणु समाणु

तइ पावेण जि जणु होइ विमलु ।
देउ वि णिट्ठुरु देट्ठोड्डु रुट्टु ।
पइसउ ण लहइ संसारतरणु ।
सो गुरु जो मायाभावचत्तु ।
सो गुरु जो महिमागुणमहत्थु । 5
सो गुरु जो णिरहुप्पणणाणु ।

7 १ A णो पाउ. २ A किं सो महंतु, P किं तो महंतु. ३ A अग्गेउ वाणु. ४ P पूणु
विद्धउ. ५ A अंतरि. ६ A मज्जु. ७ A वणघणरउइ णिवडइ तमधि. ८ AP किह धुप्पइ.

8 १ A गरलु. २ A दुट्टु. ३ A omits this foot. ४ AP गुणमहिमामहंतु.
५ A तणकंचणसमाणु.

7 1 b ताईत्यादि तथा वासनयापि किं क्षणविष्वसनशीलया. 2 b चीवरधरणवेसु बौद्धानां
रक्तवस्त्रप्रहणवेप. 3 a सि वि णोवमु स्वप्नोपमम्. 4 a जि णपिसुणहु णियवयणु जि कयंतु जिनदुर्ज-
नाना निजनिदान्तः बाधकं वा, स्ववचनेनैव ते बाधिता इत्यर्थः. 5 a सयलु सशरीरः; गोरिकंतु
पार्वतीभर्ता शिव. 6 b अग्गेय⁰ अग्नेयः. 9 a अप्पउं अंवरिं संजोयमाणु परमब्रह्मदर्शनवशादशेषभेद-
विशेषिनाशादिति वेदान्तवादिनः. b कउलु वेदान्ती. 10 a सुसिरि आकाशे; b सीहु मद्यम्.
14 करयलकंतिहरु करे स्थित. कउमः हस्तकान्तिस्फेटक., धुप्पइ प्रक्षाल्यते.

8 1 a काउ सरंतहं काकं स्मरताम्. 6 b णिरहुप्पणणाणु निःपापोत्पन्नानि.

णिच्चलखमदमसजमसमेण
दूरुज्झियदुज्जयरायरोसु
तहु धम्म अहिंसालक्खणिह्लु
अहवा सो भण्णइ सूणयारु

गुरुयणु भणित् एपं कमेण ।
अरहंतु देउ परिहरियदीसु ।
मयमारउ विप्पु वि होइ भिल्लु ।
जण्णे कहि लब्भइ सग्गदारु । 10

घत्ता—मेळिवि विसयविसु जिणभावे हियवउ भावह ॥
पालिवि जीवदय सग्गापवग्गसुहु पावह ॥ ८ ॥

9

तं गिसुणिवि परिरक्खियमयाइं
सम्मइंसणविप्फुरियएहि
लक्खणहियवउं दुणियाणसहिउं
दसरह्णि मुइ णिहिय णिरूढसयरि
गय भायर वारणारसि तुरंत
रामे सुउ जायउ विजयरामु
अहिमाणणाणविण्णाणजुत्त
गोविंदहु णंदणु पुहइचंदु
अण्ण वि णं मत्तमहागइद
गुणगणरंजियभुवणत्तएहि

धरियइं रामे सावयवयाइं ।
अवरेहिं मि भव्वपुंडरियएहिं ।
तेण जि वउं तेण ण कि पि गहिउं ।
सत्तुहण भरह साकेयणयरि ।
थिय रज्जु करंत हली अणंत । 5
सीयहि रूवे णं देउ कामु ।
अवर वि संजाया सत्त पुत्त ।
पुहइहि ह्ययउ पुहईसवंदु ।
सुय संभूया जियरिउणरिंद ।
परिवारिय पुत्तपउत्तएहिं । 10

घत्ता—थिय भुंजंत महे गर्ड कालु अकलियपरिवत्तउ ॥
एकहि णिसिसमइ हरि फणिसयणि पसुत्तउ ॥ ९ ॥

10

पेच्छइ सिविणंतरि पयहिं मलिउ
कवलेवि विडप्पे तिमिरजूरु

णग्गोहु दंतिदंतग्गदलिउ ।
कहिवि पायालि णिहिचु सूरु ।

9 १ P सरियइं, २ AP वउ. ३ A दसरहसुयविहिय^०. ४ AP वाराणसि ५ P अवर वि जाया तहु सत्त पुत्त. ६ P गयउ. ७ A अहियपरिचत्तउ. ८ A फणिसयणयलि, P मणिसयणि.

10 १ A कवलियउ.

9 b मयमारउ मृगमारकः. 10 b जण्णे यजेने.

9 1 a परिरक्खियमयाइं रक्षितमृगाणि श्वापदवधरहितानि. 3 a दुणियाणसहिउं दुर्निदानयुक्तम्. 4 a णिरूढसयरि नृषु मध्ये रूढः प्रसिद्धः सगरो यत्र. 11 अकलियपरिवत्तउ अकलिताः असंख्याता अनवधारिता वा परिवर्तो यस्य. 12 फणिसयणि शेषग्रयने.

10 2 a विडप्पे राहुणा; तिमिरजूरु चन्द्र .

पासायसिहरणिवंडणु णियंतु
अक्खिउ दुइंसणु भायरासु
जिह वडतरुवरु चूरिउ गएण
जं अक्खपिसाएं गिलिउ भाणु
तं संत्रियचिरुसुं कयावसाणु
जं णिवडिउं वरधवलहरसिंणु
माहउ पावेसइ देव मरणु
तवचरणु चरेव्वउं पइं रउहु
तं णिसुणिवि जयंभीमाहवेण
अहिसित्तइं जिणविंविइं जलेहिं
दहिणंहिं कुंभपल्लत्थिएहिं

उट्टिउ महिवइ अंगइं धुणंतु ।
ता भणइ पुरोहिउ दुक्कु णासु ।
तिह सिरिवइ भंजेव्वउ गएण । 5
चप्पिवि पाविउ महिविवरठाणु ।
परिपुण्णउं वट्टइ आउमाणु ।
तं ध्रुवुं पोमामुहपोमभिंणु ।
पइसेव्वउ जिणवरचरणसरणु ।
लंघेव्वउ भीसणु भवसमुहु ॥ 10
पुरि अभयघोसु किउ राहवेण ।
दुद्धेहिं धवलधारुज्जलेहिं ।
वरकामिणिकरणिम्मत्थिएहिं ।

घत्ता — ण्हवियइं पुज्जियइं जिणवरपडिविंविइं रामे ॥

भत्तिइ वंदियइं परिवट्ठियसुहपरिणामे ॥ १० ॥

15

11

पुरु घर परिहाणु हिरणु धणु
संति वि^३ विरयंतहं विहुरहम्मु
पुण्णक्खइ दुक्खु दुपेक्खु देतु
कइवयदिणेहिं सुहिदिणसोउ
उप्पाइयवंधवहिययसल्लि
काले कवल्लिउ महिअद्धराउ
णं णासिउ वंधवसोक्खहेउ
णं मोडिउ सुरतरुवरु फलंतु
रिउसीसणिविसियपायपंसु
जहिं रावणु तहिं सो दुहपयंसि

जो^१ जं मग्गइ तं तासु दिणु ।
दुक्कउं चिरसंचिउ घोरकम्मु ।
हयपरवल्लु भुयवल्लु णिक्खवंतु ।
लच्छीहरंगि संभूउ रोउ ।
माहम्मि मासि दिणि अंतिमिल्लि । 5
णं हित्तउ कामिणिरेइणिहाउ ।
अच्छोडिउ णं रहुवंसकेउ ।
उल्लविउ पयावाणल्लु जलंतु ।
उड्ढाविउ जगसररायहंसु ।
उप्पणु चउत्थइ णरयवासि । 10

२ P ^१गियडणु. ३ A यमेण, P मएण. ४ A ^२बुक्किया. ५ AP वुउ. ६ AP जिय. ७ A दहिण.

11 १ P परिहणु. २ AP जं जं मग्गिउ. ३ A संतिहि. ४ AP ^२रयणिहाउ. ५ A ^१पयासि.

५ b सिरिवइ लक्षणा; गएण गवेन रोगेण. 6 a अक्खपिसाएं राहुणा. 7 b आउमाणु आयुः-
प्रमाणम् S b पोमामुहपोमभिंणु लक्ष्मीमुखकमलभृङ्गो माधवः. 9 b पइनेव्वउ प्रवेशः कर्तव्यः.
11 a त्रयभीमाहवेण जगति गैद्रसंग्रामयुक्तेन.

11 1 a परिहाणु वक्त्रम्. 2 a संति वि विरयंतहं शान्तिमपि कुर्वताम्; विहुरहम्मु
दुःखदम्. 4 b रोउ नेगः. 5 b दिणि अंतिमिल्लि पूर्णिमादिने. 6 b रइणिहाउ रतिसमूहः.
8 b उड्ढविउ विष्णुमितः. 9 a ^१पायपंसु पादरेणु.

विहिणा सोसिर्द गुणणिहिगहीरु
सिंचिउ सलिलें माणवमहंतु

सोएण पमुच्छिउ रामु वीरु ।
उम्मुच्छिउ हा भायर भणंतु ।

घत्ता—हा दहमुहणिहण हा लक्खण हा लच्छीहर ॥

हा रयणाहिवइ हा वालिहरिणकंठीरव ॥ ११ ॥

12

धाहावइ सीय मणोहिरामु
हा हे देवर महु देहि वाय
पूएण्णिणु दहूउं हरिसरीरु
करहयसिरु हाहारउ मुयंतु
लक्खणभुउ णामें पुहइचंडु
सत्तहिं जणेहिं सीयासुएहिं
लहुयारउ ताहं पयग्गि णविउ
साकेयणयरि सिद्धत्थणामि
सीराउहेण मयमोहणासि

एक्कलउ छंडिउ काइं रामु ।
पइं विणु जीवंतहं कवण छाय ।
अवलंविउ सीरें हियइ धीरु ।
संबोहिउ अंतेउरु रयंतु ।
सइं अहिसिंचिवि किउ कुलि णरिदु । 5
ण समिच्छिय सिरि पीवरभुएहिं ।
अजियंजउ मिहिलाणयरि थविउ ।
वणि परिभमंतचलभसलसामि ।
तवचरणु लइउ सिंवगुत्तपासि ।

घत्ता—तहिं रामेण सहं सुग्गीउ वि सुद्धेविवेयउ ॥

10

हणुउ विहीसणु वि पावइयउ जायणिव्वेयउ ॥ १२ ॥

13

राएं जाएं इसिसीसएण
सीयापुहइहिं सुयवइहि पाय
भुवणुट्टिउ तिट्ठावज्जियाउ
पत्ता वेण्णि वि णिम्महियकाम
इयर वि संजाया रिद्धिवंत
आहुट्टुसयाइं गयाइं तासु
पंचहिं वरिसेहि विवज्जियाइं
रामें चउकम्मइं घाइयाइं

तणयहं तउ लइउ असीसएण ।
आसंघिय भावें चत्तराय ।
जायाउ ताउ तहिं अज्जियाउ ।
सुयकेवलित्तु हणुयंतु राम ।
मुणिवर णिट्टुरतवतावसंत । 5
संवच्छराहं पालियवयासु ।
जइयहुं तइयहुं भुवुं णिज्जियाइं ।
अमरहिं कुसुमाइं णिवेइयाइं ।

६ A सोहिउ.

12 १ P हा देवर महु दे देहि वाय. २ A जूरेण्णिणु. ३ AP सिवगोत्त'. ४ P अइसुविवेयउ.

13 १ AP मुक्कमाय. २ AP भवणुय तिट्ठाणिज्जियाउ. ३ AP धुउ.

14 °हरि णकंठीरव मृगस्य सिंह.

12 3 a पूए ण्णिणु पूजयित्वा; b धीरु धैर्यम्.

13 1 b असीसएण अशीत्यधिकशतेन. 2 a सुयवइहि श्रुतव्रतयुक्तायाः आर्यायाः

उप्पण्डं केवलु विमलणाणु
खणि सुरयणु संप्रायउ णवंतु

दिड्डुं तिहुयणु गयणु वि अमाणु ।
जय णंद वद्ध रहुवइ भणंतु । 10

यत्ता—एक्कु जि छत्तु तहु पोमासणु चमरइं चवैलइं ॥
देवहिं णिम्मियइं तारातारावइधवलइं ॥ १३ ॥

-14

मुसुमूरंतहु भववइरिवम्मु
छसयाइं सयद्धविमीसियाइं
संमेयसिहरि सो रामभिक्खु
अवर वि सुग्गीवविहीसणाइ
ते सयल भडारा वीयराय
सा सीय पुहइ सा विमलगत्तु
लच्छीइरु णरयहु णीसरेवि
भासंति एव परमत्थवाइ
हरिणा समाण नृवखयणिसीइ

जणवइ साहंतहु परंमघम्मु ।
महियलि विहरंतहु तहु गयाइं ।
हणुवंतं सहं संपत्तु मोक्खु ।
चारित्तवंत जे दिव्वं जोइ ।
अणुदिसणिवासि अहमिंद जाय । 5
पत्ताउ कप्पि कप्पामरत्तु ।
पावेसइ सिवपउ तउ चरेवि ।
संपय कासु वि णउ समउं जाइ ।
के के ण खद्ध महिरक्खसाइ ।

यत्ता—सुयरह गुरुवयणु मा लक्खणपंथं वच्चह ॥
भरहणरिंदथुउ सिरिपुष्कयंतु जिणु अंचह ॥ १४ ॥

10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिण
महाकइपुष्कयंतविरइए महाकव्वे मुणिसुव्वयतित्थसंभूयहूरिसेण-
चक्कवट्टिरामवलएवलक्खणवासुव्वेरावणपडिवासुदेव-
गुणकित्तणं णाम एकूणासीमो परिच्छेओ
समत्तो ॥ ७९ ॥
॥ मुणिसुव्वयचरियं समत्तं ॥

४ A उण्ड वि. ५ AP संप्राइउ. ६ A णमंतु. ७ AP धवलइं.

14 १ P पग्गमणु. २ AP दिड्डुजोइ. ३ AP 'णिव'. ४ A सुमहुर; P समरहु.
५ A omit = इग्गिगचक्कवट्टिं ६ AP omit 'लक्खण'. ७ AP omit 'रावणपडिवासुदेव'.

12 'तारावइधवलइ चन्द्रवत् धव्वानि.

14 1 a भववइरिवम्मु भववैरिणः त्रियतिहेतुन्वान्मम कर्मोच्यते. b जणवइ जनपदे देवे.
4 b जोइ योगिनः. 7 b सिवपउ मोक्षदत्त. 9 a नृवखयणिसीइ नृपक्षयनिशया कालरात्र्या.
11 अचह पूजयत.

वियसावियभुवणसरोरुहहो केवलणाणकिरणधरहो ॥
पणवेप्पिणु णमिजिणदिणयरहो जणमणतिमिरभारहरहो ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—जेण जिया रउह् चल पंच वि वम्महमुक्कसायया ॥
भवसंसरणकरणविसवेयसमा विसमा कसायया ॥ छ ॥

मुक्क मही णिवसंगया	समसिद्धंतवसंगया ।	5
उज्झियजीवसवासणा	विहिया जेण सवासणा ।	
जस्स सुधी पिसुणेहले	सरिसा सहले णेहले ।	
छिण्णं जेणुद्दामयं	आसारइयं दामयं ।	
णिच्चं वणयरकंदरे	जो णिवसइ गिरिकंदरे ।	
ण महइ धम्मे मंदयं	इच्छइ सासयमं दयं ।	10
जम्मि थिए सुइजाणए	जम्मजलाहिजलजाणए ।	
किं पढंति मयमारया	कामंधा सामारया ।	
सइ हंसम्मि सगारवं	कीस कुणंति वैगा रवं ।	
तं णमिऊण णमीसरं	तवसिहिहुयवम्मीसरं ।	

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:—

लोके दुर्जनसंकुले हतकुले वृष्णावशे नीरसे
सालंकारवचोविचारचतुरे लालित्यलीलाधरे ।
भद्रे देवि सरस्वति प्रियतमे काले कलौ साप्रत
क यास्यस्यभिमानरत्निलय श्रीपुष्पदन्त विना ॥ १ ॥

1 १ P वहइ. २ A वि गारवं.

1 ३ वम्महमुक्कसायया मन्मथमुक्कवाणाः. 4 ० विसवेयसमा विपवेगसदृशाः. 5 a णिवसंगया नृपसंगता, b समसिद्धतवसंगया उपगमसिद्धान्तयोर्वशगता विहिता येन. 6 a उज्झियजीवसवासणा उज्झितं त्यक्तं जीवैः मृतकभक्षणयया वासनया, b सवासणा निजस्वभावः. 7 a सुधी शोभना बुद्धिः, पिसुणेहले दुर्जने अहले फलरहिते, b सहले सफले, णेहले स्नेहले; यस्य शोभना बुद्धिः निःफले दुर्जने सफलेऽपि स्नेहले समाना वर्तते इति भावः. 8 a उद्दामय महत्, b आसारइय वाञ्छाकृतम्; दामय वन्धनम्. 9 a वणयरकंदरे वनचरा भिल्ला कंदरा कन्दमूलग्राहका यत्र, वनचराणा कन्ददायके वा. 10 मदय शिथिलताम्, b सासयम शाश्वती मा लक्ष्मीम्. 11 a जम्मियादि यस्मिन् नमितीर्थकरे, सुइजाणए श्रुताज्ञापके स्थिते सति मिथ्यादृष्टय कि पठन्तीति सन्नन्धः, b ० जाणए यानपात्रे तरण्डके. 12 a मयमारया मृगमारकाः, b सामारया अप्रसूता दयामा स्त्री तत्र रताः. 13 a सइ हसम्मि हसे सति वका राव शब्दं न कुर्वन्तीत्यर्थः.

घत्ता—पुणु तासु जि चरिउ किं पि कहमि सज्जणकोऊहलजणणु ॥ 15
कहिणण जेण दिहि वित्थरइ सुहु उप्पज्जइ णाणतणु ॥ १ ॥

2

दुवई—जंवूदीवि भरहि सुच्छायउ वच्छउ विसउं बहुधणा ॥
तहिं कोसंवि णयरि चउदारविलंबियरयणतोरणा ॥ छ ॥

घरगयमोरहंसआहरणाहि	कुंकुमपंकपसाहियचरणहि ।	
मणिविक्कयमुत्ताहलहारहि	दोसियदंसियचीरवियारहि ।	
लोहहट्टलोहेण णिवद्धहि	विक्रमाणणाणारसणिद्धहि ।	5
वलयाारावणपयडियवलयहि	णिच्चभुयंगसंगकयपुलयहि ।	
विविहधयवहुप्परियणचवलहि	महिलायणकमणेउरमुहलहि ।	
मंदिरकणयकलसथणवंतहि	पविमलपाणियछायाकंतहि ।	
वंदियधवलजिणालयसेसहि	उव्वणि णिवडियअलिउलकेसहि ।	
देउलदंतपंतिदावंतिहि	णयरीकामिणीहि णंदंतिहि ।	10
जणि जाणिउ इक्खाउ पहाणउ	पत्थिउ णामे णिवसइ राणउ ।	
सइ कलहंसवंसवीणाद्युणि	णामेण जि तहु सुंदरि पणइणि ।	
वासपवेसु व पुण्णपसत्थहं	सुउ सिद्धत्थु सव्वपुरिसत्थहं ।	

घत्ता—ता णरेण णरिंदहु विण्णविउं विद्धंसियजणदुच्चरिउ ॥
मणहरि णंदणवणि अवयरिउ मुणिवरु णामे आयरिउ ॥ २ ॥ 15

3

दुवई—ता सहं सुंदरीइ सहं तणएं सहं परिवाररिद्धिए ॥
गउ णरवइ वणंनु वंदिउ मुणि मणवयकायसुद्धिए ॥ छ ॥
राएं भुवणंभोरुहणेसरु पुच्छिउ तच्चु कहइ परमेसरु ।

2 १ AP देसु. २ A कुंकुमपंकहि सोहिय°, P कुंकुमपंकपसोहिय°. ३ A वलयारोवण°. ४ A उव्वणणिवडिय°. ५ A तहु णामे सुंदरि पहुपणइणि; P तहु णामे सुदरि पियपणइणि. ६ A वासु पवेहु. ७ A मणहर°. ८ P आइरिउ.

2 1 बहुधणा बहुधनयुक्ता. 3 a °आ हरण हि आभरणयुक्तायाम्, b °चरण हि °मार्गीयाम्. 5 b विक्रमाण° विक्रीयमागा°. 6 a वलयारावण° वलयकाराणे, b °भुयंगसंग° भोगिलोकः कामो च. 7 a °उप्परियण° उत्तरितन उत्तरीयं वत्तम्, b °कमणेउर° चरणनूपुराणि. 13 a वासपवेसु अभिनवाहप्रवेदाः, b सिद्धत्थु सिद्धार्थनामा. 14 णरेण केनचित्पुरुषेण.

3 1 परिवाररिद्धिए छत्रचामरादिभिः.

अप्पु एक्कु णाणदंसणतणु
 जोय तिण्णि गारव असुहिल्लइं
 तिण्णिं गुणव्वय चउ सिक्खावय
 चउ विण्णासवयइं चउ ज्ञाणइं
 पंच महव्वयाइं आयारइं
 समिदीउ पंच रइयगुणछायउ
 जे लोउत्तमणाहे सिट्ठा
 भासियाइं पंचासवदारइं
 जीवणिकायभेय छावासय
 तच्चइं सत्त सत्त णय संसिय
 कम्मइं अट्ट अट्ट मय कयमल
 णव पयत्थ णव वलणारायण
 एयारह सावयगुणठाणइं
 वारह तव तेरह चारित्तइं

णिज्जरु दुविहु दंलियदुक्कियमंणु ।
 जीवगईउ तिण्णि मणसल्लइं । 5
 चउ कसाय कयचउगइसंपय ।
 पंच सरीरइं पंचै वि णाणइं ।
 पंचाणुव्वयाइं जगसारइं ।
 भणियउ पंचवीस वयमायउ ।
 ते पंचत्थिकाय उवइट्ठा । 10
 पंचिंदियइं गहीरवियारइं ।
 छहव्वइं छव्विह लेसासय ।
 सत्त वि भय रिसिणा उवएसिय ।
 अट्ट महीउ अट्ट वित्तरकुल ।
 धम्मभेय दह पसमुप्पायण । 15
 वारह अंगइं सत्थणिहाणइं ।
 चोदह पुव्वइं मुणिणा वुत्तइं ।

घत्ता—पायाँलु सग्गु णरवरभुवणु भयवंतेण पयासियउं ॥

जं किं पि जिणागमि लक्खियउं तं णीसेसु वि भासियउं ॥ ३ ॥

4

दुवई—रापं रायपट्टु सिद्धत्थहु भालयले णिवेसिओ ॥

णिसुणिवि चारु धम्म अरहंतहु अप्पुणु तवु समासिओ ॥ छ ॥

लइय दिक्ख जिणवरु पणवेप्पिणु
 सिद्धत्थु वि धरवयअइसइयउ

पायपुज्जगुरुपाय णवेप्पिणु ।
 थियउ सम्मत्तरयणाचिचइयउ ।

3 १ P दुक्कियगणु. २ P तिण्णि वि गुणवय. ३ P पंच जि. ४ A लोयतत्तणाहे. ५ A पायाल.

4 १ A समत्तु रयणु.

4 a णाणदसणतणु ज्ञानदर्शनस्वरूप., b दुविहु देशसकलभेदात्. 5 a जोय तिण्णि औपक्रमिक-
 यथाकालनिर्जराभेदात्, मनोवाक्कायभेदाद्वा; b जीवगईउ पाणिमुक्तगोमूत्रिकालाङ्गलीभेदेन. 7 a विण्णास-
 वयइ नामस्थापनाद्रव्यभावभेदात्, b पंच सरीरइ औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणभेदात्.
 10 a लोउत्तमणाहे लोकोत्तमनाथेन जिनेन. 11 a पंचासवदारइं मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमाद-
 कषाययोगा बन्धहेतवः. 12 b लेसासय लेश्यापरिणाम.. 14 b अट्ट महीउ णारयभवणवासिय माणुस
 जोएण कप्पवासी य । गेवेय सव्वसिद्धी मोक्खमई अट्टमी पुढवी.

4 2 अप्पुणु तवु समासिओ आत्मना स्वयं तपः समाश्रितम्. 3 b पायपुज्जं मुनिनामेदम्.
 4 b °चिचइयउ शोभमानः.

जलणिहिजलवलइयजयसिरिसहि
 णिसुय वत्त जिह जणु जईसरु
 तणयहु विणयपणयवित्थिण्णहु
 वग्गुरवेहु गाहु मणहरिणहु
 तहि जि मणोहरवणि तणुताविउ
 सो अप्पउं जिणभावे रंजइ
 मँउणु करइ अह थोवउं जंपइ
 विकहउ ण कहइ ण सुयइ ण सुणइ
 जग्गइ इदियचोरहं एंतहं
 रत्तिदिवसु उच्चुम्भउ अच्चइ
 देहि णहु किं पि वि ण समारइ
 मलपविलित्तइं अट्टइं अंगइं
 धीरेँ सच्चु तच्चु णिज्जायउं
 सोलह थिर हियएण धरेप्पिणु

भुंजंतेण तेण सयल वि महि । 5
 मुउ संणासेँ णिण्णासियसरु ।
 दोइवि णियकुलसिरि सिरिदिण्णहु ।
 क्रिउ तवचैरणु हरणु जमकरणहु ।
 मुणिवरु गुरु सव्भावेँ सेविउ ।
 लद्धउं कालि सुणीरसु भुंजइ । 10
 वंधमोक्खु संसारु वियप्पइ ।
 धम्मज्ञाणु रिसि णिविस्सुँ वि ण मुयइ ।
 सीलदविणु वलि महुँ हरंतहं ।
 सच्चु वि मित्तु वि सरिसउ पेच्छइ ।
 पुच्चुभुत्तु मँणि ण सरइ मारइ । 15
 धरियइं तेण्यारह अंगइं ।
 खाइउ दंसणु खणि उप्पाइउं ।
 जिणजम्मणंकारणइं चरेप्पिणु ।

यत्ता—सो अणसणु करिवि पसण्णमइ मुणि पंडियमरणेण मुउ ॥

अवराइउ ससहरकरधवलि मणिविमाणि अहमिंदु हुउ ॥ ४ ॥ 20

5

दुवई—वरणीहारहारपंडुरयर रयणिपमाणियंगओ ॥

णिप्पडियारसारसुहरसणिहि गयरमणीपसंगओ ॥ छ ॥

जो णीसासवाउ कयसंखहिं
 माणियअमरालयसिरिहइइं
 तेत्तियवरिससहासहिं भोयणु
 सुक्कलेसु मज्झत्थु महाहिउ
 तइयहुं धरंसिरिसंठियखयरिहि
 इंदापसेँ धणयं रइयहु

मुयइ कहिं मि तेत्तीसहिं पक्खहिं ।
 आउ जासु तेत्तीससमुइइं ।
 जो अहिलसइ सोक्खसंपायणु । 5
 तहु छम्मासकालु जइयहुं थिउ ।
 वंगेसि वरमिहिलाणयरिहि ।
 विविहमहामाणिक्कहिं खइयहु ।

२ P जलइय°, ३ A तवयरणु, ४ AP तवताविउ, ५ AP मोणु, ६ A णिमिसु, ७ AP मंड,
 ८ P रणि, ९ P वीरे.

5 १ AP °रमणीयसगहो, २ P खगतिरि°, ३ AP °मिह्ला°.

१ a °जयसिरिसि जयभ्रिय, सक्ता, 6 b णिण्णासियसरु जिनसग 7 b सिरिदिण्णहु श्रीदत्तस्य,
 8 a वग्गुरवेहु वागुगवन्धः, b जमकरणहु रोगस्य, 15 b मारइ लक्ष्मीरतिः.

5 1 °णीहार डिम्मः °रयणिपमाणियंगओ दत्तप्रमाणगरीरः, 4 a °सिरिहइइं भद्राणि
 मङ्गलानि, 6 a मणहिउ महाधिरुः, 7 a धरमिरसंठियखयरिहि गृहशिक्षरसस्थितविद्याधर्याम्.

विविहहट्टेटारमणीयहि
विविहारामहि विविहणिवासहि

विविहमाणिणीयणसंगीयहि ।
विविहसिहरआलिहियायासहि । 10

घत्ता—तहिं विजयराउ णामें नृवैइ णिवसइ णवणिसियासिकरु ॥
छायायरु जणसंतावहरु णं वरिसंतउ अंबुहरु ॥ ५ ॥

6

दुवई—तहु घरि घरणि देवि परमेसरि वण्णिल चारुचारिणी ॥
हिरिसिरिकंतिकित्तिदिहिलच्छिहि सेविय हिययहारिणी ॥ छ ॥

सुहुं सुत्ताइ ताइ अलिमालिउ
करि करडयलगलियचुंयमयंजलु
हरि हरिकुलिसकाढिणहहयगिरि
पसरिय परिमलमहुयरसबलिय
कुवलयदलविलेंसियकरु ससहरु
झस भमिर रमिर रइववसिय
सरवरु सकमलु सरिवइ समयरु
विसहरभवणु सुमहु सयमंहघरु ।
रयणणियरु पहहयरवियरविहु

सिविणइ णिसिहि विरामि णिहालिउ ।
अणहुहु खरखुरजुयखयधरयलु ।
गयकरकलससलिलेंण्हावियसिरि । 5
सर कुसुममय मिलिय णहविलुलिय ।
मिहिरु गयणमहीदिसिगयतमहरु ।
घड जलभरिय हरियकिसलयचिय ।
मणिहरियासणु जियसुरमहिहरु ।

10

घत्ता—इय जोइवि सिविणय सोलह वि अक्खिउ मुंद्धइ णियंपइहि ॥
तेण वि देसावहिलोयणिण फलु विर्यंरिउ गयवरगइहि ॥ ६ ॥

हुयवहु कणयकविलदीहरसिहु ।

7

दुवई—सयलसुरिंदवंदु गुणगणणिहि णिरुवमु णिसुणि सुंदरी ॥
होही तुज्जु पुत्तु गुरुहुं मि गुरु कामंकरिंदकेसरी ॥ छ ॥

४ P णिवइ.

6 १ AP घरिणि. २ AP °चल°. ३ P °मयइलु. ४ A °सुण्हविसिरि, P °सुण्हविय.
५ P °वियसिययरु. ६ P सयमयघरु. ७ A सुद्धइ. ८ AP णियवइहि. ९ AP विवरिउ गरवर°.

7 १ P कालकरिंद°.

11 °णि सि या सि कर तीक्ष्णखङ्गहस्त.. 12 छा या यरु छायाकर, अबुहरु मेघ.

6 1 चारुचारिणी सुन्दरगमना शोभनानुष्ठाना वा. 3 a अलिमालिउ भ्रमरयुक्तः.
4 b अणहुहु अनइवान् वृषभः. 5 a हरि सिंह., हरि° इन्द्रः. 6 a °सबलिय शबलिना मिश्रा,
b सर माला, मिलिय युग्मभूता. 8 a रइववसिय रतिविपये उद्यतौ, b हरियपल्लवचिय हरित-
पल्लवजटितौ. 9 b मणि हरि या सणु रत्नसिहासनम्. 10 a सुमहु सुनेजः. 11 a पहहयरवियरविहु
प्रभया हता रविकरविभा तेजो येन सः.

हुउ अद्दु वरिसु	घरि रयणवरिसु ।	
सरयावयासि	भद्दवयमासि ।	
संसिधवलपक्खि	आसिणिसुरिक्खि ।	5
वीयहि जिणिदु	जगकुमुयचंदु ।	
थिउ गम्भवासि	संसारणासि ।	
आयामरोहिं	चलचामरोहिं ।	
झुल्लइ णहंतु	ढंकिउ दियंतु ।	
णहंणिवडमाणु	वसु अप्पमाणु ।	10
जोइउ णरोहिं	पणवियसिरोहिं ।	
णिवभवाणि तांव	णवमास जाव ।	
मुणिसुव्वयम्मि	पालियवयम्मि ।	
भवभावंचत्ति	णिन्वाणंपत्ति ।	
गय सँट्टि लक्ख	वरिसहं ससंख ।	15
तइयहुं अउण्ह-	आसाढकण्ह-	
पक्खंतरालि	कयअमररोलि ।	
आणंदपुणिण	दिम्महि पसणिण ।	
अइसुरहिवाइ	दुंदुहिणिणाइ ।	
चुयगंधसलिलि	सुरधित्तकमलि ।	20
कंतीइं कंति	दहमइ दिणंति ।	
सुहसंगमेण	जायउ कमेण ।	
तेलोक़णाहु	अहयंदराहु ।	
पयपणयधणउ	वंप्पिलहि तणउ ।	

वत्ता—णिउ देवहिं मंदरमहिहरहु पुज्जाविहि संमाणियउ ॥

25

पडुपडहभेरिमंगलरविण जयजयसद्धे ण्हाणियउ ॥ ७ ॥

२ A अद्दवरिसु. ३ AP अत्सणहु मानि. ४ AP ससिखाणपक्खि. ५ AP णहि णिवडमाणु.
६ A वत्ते. ७ AP णिन्वाणु. ८ AP गय लेसलक्ख. ९ P कतीसकति. 10 AP वप्पिल्लहि.

7 ४ a सरयावयासि जलदावकागे; b भद्दवयमासि भाद्रपदे गते सति. आश्विनवदि
द्वितीयागमित्यर्थः. ५ a ससिधवलपक्खि अधवलपक्खे कृष्णपक्खे, b आसिणिसुरिक्खि अश्विनीनक्षत्रे.
९ a आयामरोहिं प्रातः. देवै. 9 a झुल्लइ दोलायते नमः. 10 a अउण्हो ज्योत्स्नारहिते.
22 a सुहसंगमेण अश्विनीस्थितचन्द्रेण. 23 b अहयंदराहु पापमेव चन्द्र. तस्य राहुः. 24 a धणउ
धनद. कुप्पेः.

8

दुवई—पुञ्जिवि ण्हविवि भणिउ णमिजिणवरु गुणमणिहँइरवण्णओ ॥

णाणत्तयसमेउ परमेसरु उज्जलकणयवण्णओ ॥ छ ॥

आणिवि पुणु वि णिहिउ जणणहु धरि	वह्णुउ जिणु कुमारु हंसु व सरि ।	
वह्णुउ तँवसंताउ व कामहु	वह्णुउ दाहु व इंदियगामहु ।	
वह्णुउ मेहु व कोवहुयासहु	वह्णुउ मंतु व भवभयतासहु ।	5
वह्णुउ हेउ व पवरसुहेल्लिहि	वह्णुउ णवकंदु व दयवेल्लिहि ।	
वह्णुउ देवदेउ वररुवउ	पण्णारहधणुदेहु पहूयउ ।	
दससहास वरिसहं परमाउसु	अट्टाइज्ज ताइं कीलावसु ।	
थिउ कुमारु कुमरत्तणलीलइ	पट्टु णिवद्धउ वियलियकालइ ।	
वरिसहं पंचसहासइं खीर्णइं	रज्जु करंतहु तहु बोलीणइं ।	10

घत्ता—ता णववणसमइ पराइयइ सुरधणु जणकोड्ढावणउं ॥

सोहइ उवरिस्थु पयोहरहं णं णहसिरिउपरियणउं ॥ ८ ॥

9

दुवई—णाच्चियमत्तमोरगलकलरवि पसरियमेहजालए ॥

पवसियपियहि दीहणीसासरुहाणलधूमकालए ॥ छ ॥

तडिविप्फुरणफुरियपविउलणहि	वारिपूरपेल्लियदसदिसिवाहि ।	
छुडु जि छुडु जि वप्पीहँ घोसिउ	छुडु जि छुडु जि केयइवणु वियसिउ ।	
छुडु जि कैयंवगंधु उच्छलियउ	छुडु पप्फुल्लउ मालइकलियउ ।	5
छुडु पंथियपिययम उक्कंठिय	छुडु छुडु वायस वासपरिट्ठिय ।	
हरियँतिणंकुरोहादिण्णाउसि	वरिसमाणि छुडु पत्तइ पाउसि ।	
लीलाचरणचारचोइयगउ	वणकीलाविहारि पट्टु णिग्गउ ।	
कडयकिरीडहारकुंडलंधर	ता थिय सुरवर णहि मउलियकर ।	
विण्णवंति पणवंति कयायर	णिसुणि णिसुणि भो गुणरयणायर ।	10
इह दीवंतरि पुव्वविदेहइ	तहिं वच्छावइविजइ सुगेहइ ।	

8 १ AP रुइवण्णओ. २ A आणेप्पिणु णिहिउ. ३ तणुसताउ. ४ AP झीणइ.

9 १ AP पवसियमुक्कदीहं. २ AP केइयवणु. ३ P कमलगधु. ४ AP °तणकुरोह.
५ AP °कुडलहर.

8 1 °रुइर व ण्ण ओ °कान्त्या मनोहर.. 2 उज्जल° निर्मलम्. 4 a त व स ता उ त प स स ता पः.
11 पराइयइ प्राप्ते सति, जण को ड्ढा व ण उं जनाना कौतुकोत्पादकम्. 12 उ व रि स्थु प यो हर हं प यो-
धराणा मेघानामुपरिस्थितम्, ण ह सि रि उ प रि य ण उं न भो ल क्ष म्या उपरितनवत्त्रमिव.

9 2 प व सि य पि य हि प्रोषितस्त्रियाः. 4 a व प्पी हँ चातकेन. 5 a क य व ग धु क द म्भ पु ष्य ग न्धः.
6 a पं थि य पि य य म प्रोषितभर्तृकाः, b वा य स वा स प रि ट्ठि य का काः मालके स्थिताः.

द्विणणिवेइयकामुयकामहि
आयउ वम्महवाणकयंतउ

णयरिहि सुहलियसीमसुसीमहि ।
अवराइयहु विमाणहु होंतउ ।

यत्ता—णिज्जियमणु तवसिहितत्तणु कम्मबंधणिण्णासयरु ॥

अवराइउ णामे लोयगुरु तहिं उप्पणउ तित्थयरु ॥ ९ ॥ 15

10

दुवई—असरिसविसमचिरसविससंणिहदुक्कियजलणजलहरा ॥

आया तस चरणपणवणमण रंविससहरसुरासुरा ॥ छ ॥

अमराविलासिणिणञ्चणतंडवि
संपइ देहिदेहेहयमयजरु
केवलणाणसमुग्गयणयणे
वंगदेसि कुसुमरयसुकविलहि
उप्पणउ अचछइ जगसंकरु
पवरविमाणहु हिमयरधामहु
भावाभावइ चित्तइ जाणइ
धाइसंडि दीवि तंउ चिण्णउं
पढमि सग्गि सोहम्मि मणोहरि
तं णिसुणेप्पिणु मइमल धोयहुं
तं हियउल्लइ धरिवि णरेसरु
तहु जिणवरहु जम्मसबंधं

जंपिउ केण वि तहु सहमंडवि ।
जंवूदीवभरहि को जिणवरु ।
भणिउं जिणेण विणासियमयणे । 5
णववणणीलहि णयरिहि मिहिलहि ।
णमिणामंकु भावितित्यंकरु ।
अवइणउ अवराइयणामहु ।
देवविइणइ सुक्खइ माणइ ।
दोहिं मि देवत्तणु संपणउं । 10
रयणकिरणजालंचियसुरहरि ।
अम्हइ आया तुह पय जोयहुं ।
णयरि पइहु ललियगब्भेसरु ।
सुर्यरेप्पिणु णियभवइं सच्चिंधइं ।

यत्ता—चित्तइ वसुहाहिउ णियहियइ वुद्धु सवोहिइ वुद्धउ ॥ 15

जगि जीउ जहिं जि हुउ तहिं तहिं जि रमइ सकम्मणिवद्धउ ॥ १० ॥

11

दुवई—हिउइ भवसमुद्धि अण्णाणविलुंटियणाणलोयणो ॥

पुत्तकलत्तमित्तवित्तासापासणिरुद्धचेयणो ॥ छ ॥

६ A सुललिय°

10 १ AP णरविसहरसुरासुरा. २ AP देहि देउ. ३ AP चित्तइ. ४ AP वउ. ५ A तहि
दिय°. ६ P नुमरेधिणु.

11 १ A °चित्तासापास°.

12 b नुहत्ति पसी म नुसी म हि नुफलिता सीमा यत्थ. तस्या. सीमा अवविः.

10 1 तस्म अपगलित्तत्थ. 6 a °सुकविलहि पीतरक्तवर्णायाम्. 7 a जगसंकरु जगतां
सोमपल. 9 a चित्तइ विचित्राणि.

11 1 °विलुट्टिय° विनाशितम्.

इय ज्ञायंतु देउ उम्मोहिउ
तणयहु वरसरीरसुहकारिणि
सुप्पहणामहु पट्टु णिवंधिवि
अमरवराहिसेउ पावेप्पिणु
सुमहिउ सयमहेण महिरूढउ
गउ आसाढमासि घणसामलि
दसमइ दिवसि मुहुत्ति पहाणइ
लइय दिक्ख सिद्धाण णवंते
सुक्कवरइ विलुंचियकेसइ
लइयएण छट्ठेणुववासं
इंदचंदणोइंदणमंसिउ
वीरणयरि दत्तहु णरणाहहु
घरि पारणउं कयउं परमेसं

सारस्सयसुरवरहिं संवोहिउ ।
दिण्ण तेण सधराधर धारिणि ।
धम्मझाणु हियउल्लइ संधिवि । 5
धणु परियणु तणु जिह मिल्लेप्पिणु ।
उत्तरकुरुसिवियहि आरूढउ ।
अस्सिणिरिक्खि पक्खिससिउज्जलि ।
फलपणविइ चित्तवणुजाणइ ।
घरपुरवरमहिमोहु मुयंतं । 10
पहु आलिंगिउ दिक्खावेसइ ।
सहुं सुसीलखत्तियहं सहासं ।
मणपज्जवणाणेण विहूसिउ ।
वीरलच्छिसुपसाहियवाहहु ।
सुरकयपंचच्छरियविलासं । 15

घत्ता—णववरिसइं दुच्चरु तउ चरिवि तिण्णि वि सल्लइं वज्जियइं ॥
रसगंधफाससुइलोयणइं पंचिदियइं परज्जियइं ॥ ११ ॥

12

दुवई—वसुहं हिंडिऊण गउ पुणरवि तं दिक्खावणं घणं ॥

कुसुमियफालियललियतरुसाहाकीलियहंसवरहिणं ॥ छु ॥

तहिं रिसि तवसंतावें रीणउ
मग्गसिरइ सिंसिरइ संपत्तइ
तइयइ सासिणिदियहि वियालइ
उप्पण्णेण णवियगिच्चाणं
सुहुमइं अवरंतरियइं दूरइं
पोग्गलाइं पूरियगालियंगइं
मल्लयमुरयवज्जणिहु तिहुवणु
कालु वि लक्खिउ जायपवत्तणु

वउलमहीरुहतलि आसीणउ ।
पक्खि मियंककरावलिदित्तइ । 5
णिल्लूरियमहंततमजालइ ।
दिट्ठइं देवें केवलणाणं ।
पच्चक्खाइं सुभेयंगहीरइं ।
गंधवण्णपरिणामवसंगइं ।
ओग्गाहणलक्खणु गयणंगणु ।
अप्पउं सयणु अयणु चैयणगुणु । 10

२ AP सारस्सयसुरेहिं. ३ A सुक्कवरपविलुचिय°. ४ AP °णायद°. ५ AP.दुच्चरु चरिवि तउ.

12 १ P अवरतरियइ. २ A समेय°. ३ AP 'वण्णगंधपरि°.

3 a उम्मोहिउ त्यक्तमोहः. 4 b धारिणि भूमिः. 7 a सुमहिउ सुपूजितः. 8 b अससिउज्जलि
कृष्णपक्षे दशम्यामित्यर्थः. 11 a सुक्कवरइ सुक्कवस्त्रया दीक्षावेद्यया श्लिष्टः.

12 2 °वरहिण °मयूरम्. 4 a सिंसिरइ हिमकाले, b मियककरावलिदित्तइ चन्द्र-
किरणश्रेणिदीप्ते, शुक्लपक्षे. 5 a सासिणिदियहि अश्विनीनक्षत्रे, वियालइ सव्यायाम्. 7 a अवरत
रियइं अन्तरितानि. 8 a मल्लय° शरावः, °मुरय° मुरजः. 10 b सयणु सगरी. संसारी, अयणु
अतनुः सिद्धः.

धम्माधम्मु वे वि गइठाणइं
 ता दसदिसिवहेहिं आवंतहिं
 घत्ता—पूयप्पिणु वियसियसुरहियहिं कुसुमहि कुसुमसरत्तिहरु ॥
 चउदेवणिकायहिं णमिउ णमि पसमपरिग्गहु परमपरु ॥ १२ ॥

13

दुवई—रेहइ तुज्जु णाह भुवणत्तयसीहासणविलासओ ॥
 जस्साहोवयम्मि देविंदुं वि वइसइ णवियसीसओ ॥ छ ॥

दहंउ धणघरतिट्ठावाहिइ	जगु जीवइ तुह छत्तहं छाहिइ ।	
पइं दिट्ठइ पाविट्ठु वि सुज्जइ	तुह वायइ मृगुं मंदु वि बुज्जइ ।	
तुह धम्महु ण लील संपावइ	विज्जुज्जोएं अंगउ दावइ ।	5
णिग्गुणधम्मं केत्तिउं गज्जइ	घणु तुह दुंदुहिरवहु ण लज्जइ ।	
जिण तुह भामंडलवित्थारं	लोउ ण धिप्पइ मोहंधारं ।	
तुह चामरहिं चलंतहिं पेह्लिउ	कम्मरेणु उट्ठाविवि घह्लिउ ।	
रंजिय कुसुमविट्ठिरुईरं	महुयर मत्ता तुज्जु जि संगं ।	
तुज्जु असोउ सोयणिण्णासणु	णंदउ णाह तुहारउ सासणु ।	10

घत्ता—जय जय परमप्पय परमगुरु जम्मि जम्मि तुहुं महु सरणु ॥
 रिसिचरणमूलि सल्लेहणिण महुं देज्जसु समाहिमरणु ॥ १३ ॥

14

दुवई—इय संथुउ जिणिंदु देविंदहिं सेवियघोरकाणणो ॥
 ववगयकामकोहमयमोहमहातवलच्छिमाणणो ॥ छ ॥

देउ पक्कवीसमउ जिणेसरु	उग्गउ णं गयणंगणि णेसरु ।	
सच्चं सधम्मु अहम्मु वियारइ	भवसमुद्धि वुहुंतइं तारइ ।	
उवसंतइं पयपंकयणवियइं	पियवायइ संवोहियंभवियइं ।	5

४ A दसदिसिवहेण, P दसदिसिवहि णहि आवंतहिं. ५ P omits जय.

13 १ A देविंदु पइसई. २ A दह्वंघणघरं. ३ AP मिगु. ४ A विजाजोएं. ५ AP रइ-
 त्तो; K records a p' रय इति पाठे रजः. ६ P परमपरु.

14 १ P सच्चु सुतच्चु सुधम्म. २ P सवोहइ.

13 1 भुवणत्तयसीहासणविलासओ भुवनत्रयसिंहासनस्य विलासः. 2 अहोवयम्मि
 अय पादे, वइसइ उपविगति. 3 a तिट्ठावाहिइ °तृष्णाव्याधिना, b छत्तहं छाहिइ छत्रत्रयाणां
 छप्पया. 5 a धम्महु धर्मस्य धनुषश्च, विज्जुज्जोएं विद्युतः विद्यायाश्च तेजसा. 9 a रंजिय रञ्जिता
 अहण्णा ताता भ्रमराः; °रइरं रञ्जिराणेण. 10 a असोउ अशोकवृक्षः.

14 1 a गविट्ठइं गणितानि.

तहु उप्पण्णा पुण्णमणोरह
 पुव्वधरहं पण्णास समेयइं
 उडुसयाइं बारहसहसालइं
 पुणु छसयाइं बारहसहसालइं
 तेत्तिय केवलणाणपहायर
 पंचसयाइं एकसहसिल्लइं
 सहाहुं सहं सहसेण गविट्ठइं
 जिणव्वरमग्गि णिवेसियसीसहं
 मंगिणिपमुहहं हर्यमइमइयहं
 पक्खु लक्खु सावयहं समासिउ
 अमर असंख संख खग मृग जहिं

सुप्पहाइ सत्तारह गणहर ।
 चउसयाइं ससिदिणयरतेयइं ।
 सिक्खुयरिसिहिं समुज्जलसीलइं ।
 णाणत्तयवंतहुं सुणित्तइं ।
 मुणिवरिंद तणुविकिरियायर । 10
 मणपज्जवणाणिहिं णीसल्लइं ।
 दोसयाइं पण्णास जि दिट्ठइं ।
 एकु सहासु महावाइसहं ।
 पण्णालीससहस संजइयहं ।
 तिउणउ सो सावइहिं पयासिउ । 15
 अरुहरिद्धि वण्णिज्जइ किं तहि ।

घत्ता—दोसहसइं पंचसयाहियइं महि विहरिवि संवच्छरहं ॥

पसुसुरणरखेयरविसहरहं धम्म कहिंवि मउलियकरहं ॥ १४ ॥

15

दुवई—णमि संमेयसिहरिसिहरोवरि दूरुज्झियणियंगओ ॥

अच्छिउ मासमेत्तु णिरु णिच्चलु पडिमाजोयसंगओ ॥ छ ॥

किरियाछिंदणु झाणु रण्णिणु
 थियउ अजोइदेहु आसंधिवि
 रिसिहिं सहासैं सहं णिव्वाणहु
 महिमंडलि रविकिरणाहिं तत्तइ
 कसणचउहसिदिवसि समायइ
 णिक्कलु जायउ चंदफणिंदहिं
 पहयतूरवपूरिउं णहयलु
 उन्भिय धय रयणइं विच्छिण्णइं
 धरिय चारुचंदोवय चामर

तिण्णि वि अंगइं झ त्ति मुण्णिणु ।
 पंचमत्तकालंतरु लंघिवि ।
 गउ परमप्पउ अच्चुयटाणहु । 5
 तहिं वइसाहमासि संपत्तइ ।
 णिसिविरामि छुहु छुहु जि पहायइ ।
 पुज्जिउ देवदेउ देविंदहिं ।
 गयथोत्तञ्जुणि उट्ठिउ कलयलु ।
 दीणाणाहहं दाणइं दिण्णइं । 10
 णच्चिय धरणिरंगि विविहामर ।

३ AP गणहर सत्तारह. ४ P सीहुहुं. ५ AP जिणवयसगै. ६ AP गयमयमइयह. ७ A पंचसद्धि-
 सहसइं संजइयहं. ८ AP मिग.

15 १ P णियगओ. २ AP पंचमत्त°. ३ AP सहासहिं. ४ A कसिण°. ५ AP °पूरिय-
 णहयलु. ६ AP विक्खिण्णइं.

14 a हयमइमइयहं हतमतिमदिकानाम्.

15 3 a किरिया छिंदणु उपरतक्रियानिवर्ति, b तिण्णि विअगइ औदारिकतैजस-
 कार्मणानि, औदारिकमिश्रकार्मणानि इति गुणभद्रः. 7 b पहायइ प्रभाते. 10 a विच्छिण्णइं
 विकीर्णानि निक्षिप्तानि.

दरिसंतोहिं तेहिं तहिं णवरस
छत्तीस वि दिट्टिउ पयडंतहिं
णच्चिवि विविहणइरुवें वर
समउ सुराहिवेण गय णहयलि

णवचालीसभावपसरियजस ।
कर चउसट्टि तेत्थु दरिसंतोहिं ।
सिद्धखेतु पणवेप्पिणु सुरवर ।
अरुण वरुण वइसवण सुणिम्मलि । 15

ग्रत्ता—हरि सुरहं समासइ जंतु णहि णियचरिपं सुणिवच्छलिण ॥

उजोइउ भरहु जि णमिजिणिण पुष्कयंतकिरणुज्जलिण ॥ १५ ॥

16

दुवई—हुइ णिच्चाणगमणि णमिणाहहु सासयसिवणिवासहो ॥

अक्खमि चरिउ चक्किजयसेणहु सयलजणाहिरामहो ॥ छ ॥

जंवूदीवि एत्थु सुमहंतइं
अत्थि खेतु णामे अइरावउं
वुहमणोज्जु सिरिउरु तहिं पट्टणु
तहिं णामे भूवालु वंसुंधरु
पउमावइ णामे तहु गेहिणि
तहि विओयसोएं णिविण्णउ
मणहरि वणि धम्ममुणीसपासि
जिणकहिइ विहिइ संणासु करिवि
भासुरतणु पावियअवहिणाणु
अह वच्छाविसइ विलासडाणु
तहिं विजउ राउ अखलियपमाणु
पिय तासु पहंकरि सुहणिवास
वरकणयवण्ण विच्छिण्णकाय

मेरुहु उत्तरेण गुणवंतइं ।
जणघणकणगोसंपयअइरावउं ।
अमरणेयरसोहादलवट्टणु । 5
अतुलपरक्कमु पवरघणुद्धरु ।
रण व रविहि ससिहि णं रोहिणि ।
रज्जु सुविणयंधरि सुइ दिण्णउं ।
लइयउं तउ पावासवविणासि ।
महसुक्कसग्गि हुउ अमरु मरिवि । 10
सोलहसायरजीवियपमाणु ।
कोसंवीपुंवरु सुहणिहाणु ।
णियतेओहामियसरयभाणु ।
सूहवगुणपूरियदसदिसास ।
णं सग्गहु अच्छेर का वि आय । 15

७ AP read in place of this line and the three following as follows:—

चवचंदणलवंगविइयसल
णाहहु पयपणामु विरयंतहिं
दिण्णउ उरयलघोलिगहारहिं
भप्पीभावजायतणुठट्टिहि

कुसुमणिवह णहणिवडिय सभसल ।
जयजयजय अरहंत मणंतहिं ।
चूडामणिसिहि जलणकुमारहिं ।
वदिवि देहमप्पु परमेट्टिहि ।

(A वंदिवि देउ भवपरमेट्टिहि)

16 १ A हुयं. २ AP ०गोसपयसारउ. ३ बहुमणोज्जु. ४ P ०णवरं. ५ A णरेसर.
६ A अकर.

16 4 b अइरावउं अनिरमगीयम. 5 b ०दलवट्टणु ०चूर्णकरम. 6 a वसुंधरु वसुधर-
नामा. 7 b ०ण व न्नादेवीवत्. 13 a अखलियपमाणु अखलित्तानः. 15 a विच्छिण्ण काय
मणसाला.

घत्ता—सग्गाउ चवेप्पिणु सो अमरु ताहि गब्धि अवइण्णउ ॥
परिओसिउ सयलु वि वंधुयणु सत्तुवग्गु अइण्णउ ॥ १६ ॥

17

दुवई—सोहणादिणि सुरिक्खिणु णवमासहिं पवरोयरविणिग्गओ ॥
पुणु जयसेणु णामु तहु विहियउं णियगइविजियदिग्गओ ॥ छ ॥

णिच्छियतिणिणसंहसवरिसाउसु	सव्वपियारउ णं णवपाउसु ।
वरइक्खाउवंसणहससहर	वंदिणजणविहंगसुरतरुवर ।
कणयवणु करसट्ठि समुण्णउ	सयलकलाकलावसंपुण्णउ ।
रज्जि णिविदुहु चक्कुप्पण्णउं	रविविंदु व सेवइ अवइण्णउं ।
परिसाहिय छक्खंड वसुंधर	सेव कराविय सुर वि सुदुद्धर ।
एक्कहिं दिणि सउहयलि वसंतें	विज्जुवईणु गयणाउ णियंतें ।
कारणु तें वइरग्गहु पाविउ	सव्वु अणिञ्चु मणेण परिभाविउ ।
रज्जु पढमपुत्तहि ण वि मण्णिउं	जिह णिवेण तिह तें अवगण्णिउं ।
णिरवसेसु लहुसुयहु समप्पिवि	सत्तुमित्तु सममइ संकप्पिवि ।
केवलिवरयंतहु णिवणेसरु	जाउ समीवि साहु परमेसरु ।
संमेयइ कयसंणासुत्तमु	हुयउ जयंतदेउ लयंसत्तमु ।

घत्ता—संणासमराणि भरहेसरहु णरसुरवरहिं अणेयहिं ॥

पुज्जाविहाणु णिव्वत्तियउं पुप्फयंतसमतेयहिं ॥ १७ ॥

15


इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणय
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे णमितित्ययरजंयसेणचक्कहर-
कहंतरं णाम असीतिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ८० ॥

७ P चएप्पिणु. ८ AP आदण्णउ.

17 १ A वरिससहसाउसु. २ A समुगाउ. ३ AP उवइण्णउं. ४ AP विल्लुपडणु.
५ AP वरइत्तहु. ६ AP जयंति देउ. ७ A सयलत्तमु. ८ AP पुप्फदंत°. ९ AP णमिणाहणिव्वाण-
गमणं. 10 A omits जयसेणचक्कहरकहंतर. ११ P °चक्कवट्ठि°.

17 अ इण्णउ म्लानिं प्राप्तः.

17 2 णियगइविजियदिग्गओ निजगमनेन जितदिग्गजः. 4 b °विहंग° पक्षिण, सुर-
तरुवरु कल्पवृक्षः. 5 a करसट्ठि पञ्चदश धनूंषि. 12 a णिवणेसरु नृपमात्करः. 13 b लयसत्तमु
अहमिन्द्रः.



NOTES.

[The references in these Notes are to Samdhis in Roman figures and to Kadavahas and lines in Arabic figures. A brief summary of the contents of each Samdhi is given in the Introduction to enable the reader to follow the Text. These Notes supplement those in Sanskrit given at the foot of the page. T stands for the Tīppana of Prabhā-candra.]

XXXVIII

1. 12b भवइजसोहो, having the beauty of the rays born of भवइ, the lord of stars, or नक्षत्रः. 26 पयासवि, i. e., प्रकाशयामि, publish or manifest. Note v. l. पयासमि which is simpler to understand, but K sometimes shows preference to such forms; compare समासवि in the following line, as also इच्छवि and अच्छवि in 5. 10, 11; पडिच्छवि & ओहच्छवि in 3. 8 below.

2. 1b कइवयदियहइं कतिपयदिवसान्, for some days. 2a णिव्विण्णउ निर्विण्णः, dejected. णिव्विणोउ i. e., निर्विनोदः of K is an equally good reading and may mean काव्यकरणादिविनोदरहितः, but I have adopted णिव्विण्णउ in view of उव्वेउ जि वित्थरइ णिरारिउ in 4 9a below, and in view of the gloss 9-10 खलसकुलि कालि etc. भरत who lifted up सरस्वती, the goddess of learning, going down on an empty, very empty or dangerous path (सुण्णसुसुण्णवहि) or in the empty sky in these (bad) times, full of wicked people (खलसकुलि), and full of people of bad character (कुसीलमइ), by covering her (सवरिय संवृता कृत्वा) by means of his विनय, modesty.

3. 1a अइयणदेवियव्वतणुजाए, i. e., by भरत who was the son of अइयण or ऐयण and देवियव्वा. 2b दुत्थियमित्तै, by भरत who was the friend of दुत्थिय, persons in distress. 3a मइ उवयारभावु णिव्वहणै, by भरत who accomplished, i. e., showered, obligations on me, i. e., poet पुष्पदन्त. How भरत put पुष्पदन्त under his obligations can be seen from MP I. 3-10 and Introduction to Vol I. pp xxviii-xxxii. 10 तुह सिद्धहि etc, why don't you milch the milk of nine sentiments (णव रस) out of the cow, viz, your वाणी or poetic power which is सिद्ध or accomplished to you or is at your command.

4. 7a राउ राउ णं संझहि केरउ, the king is as (fickle as) the red glow of the evening, i. e., lasting for a short time. 8b एकु वि पउ वि रएवउ भारउ, to compose even one word is a heavy task. 10 जगु एउ etc., the world is always crooked (वकडं) with the virtuous (गुणेण सह) as the bow is when strung with its string (गुण).

5. 2b-3a According to the poet, भरत excelled even king सालवाहन, i. e., सातवाहन, in that he (भरत) was a constant friend of poets (अणवरयरइय-

कहमेत्तिइ). 4a-b. The poet here refers to an anecdote that king श्रीहर्ष carried the famous poet कालिदास on his shoulders. Historically this reference is on par with several others, e g., those mentioned in the भोजप्रबन्ध. The date of the accession to throne of king श्रीहर्ष, the patron of बाण, is 620 A. D., while कालिदास is certainly older than Aihole Inscription of 634 A. D., than बाण (620 A.D.) and above all than वत्सभट्टि's मन्दसोर प्रशस्ति of 473 A. D. 5a-b. Poet पुष्यदन्त who styled himself as कन्वपिसल्ल, was honoured by some and was despised by others saying that he was a dullard (यच्छु). 11 देवीसुय, a son of देवी or देवियन्वा of 3.1a above, i. e. भरत.

6. 3a-b. The poet here assures his patron भरत that his poetic genius manifests itself out of devotion for the feet of the Jinas, and not out of desire to earn his living (णड णियजीवियवित्तहि). 10 करहु कण्णि कहकोडल्ल, place on your ear this ear-ring (कोडल्ल), viz., the narrative (कह, कथा) of अजित.

7. The narrative of अजित, the second तीर्थंकर, begins with this कडवक. I have already referred to the monotonous way in which lives of great men in Jain works are described (Vide MP Vol. I. p 599). We first get some information of the previous birth of a Jina wherein he acquires the necessary qualifications of becoming a Jina in the subsequent birth. In the case of Ajita, he was विमलवाहन, a king ruling in the town of सुसीमा of the वत्सदेश, situated on the southern bank of the river सीता in the पूर्वविदेह of जम्बूद्वीप. There one day he acquires disgust for the worldly life, practises penance, cultivates the sixteen भावनाs such as दर्शनविशुद्धि, secures तीर्थंकर नाम and गोत्र, dies by observing fast, is born in the विजय अनुत्तरविमान, has a life of 23 सागरपम; there when only six months of this long life remain, सौधर्मेन्द्र comes to know that this अहमिन्द्र is to be born in अयोध्या in the भरतवर्ष as a son to king जितशत्रु and queen विजया, and orders कुवेर to bestow a shower of gold on this city. The six deities, श्री, ही, धृति, मति, कान्ति and कीर्ति, come to wait upon queen विजया. The queen then sees sixteen dreams, and on waking up describes them to king जितशत्रु who tells her that she would give birth to a जिन. When विमलवाहन completes his period of life as अहमिन्द्र he descends into the womb of विजया in the form of an elephant. Gods arrive on the scene and congratulate जितशत्रु. The Jina is born as शिहानिन्, i. e., possessed of मति, श्रुत and अवधिज्ञान, on the 10th day of the bright half of माघ. Gods headed by इन्द्र, arrive on the scene once more, go round the Jina three times, salute the parents, and handing over to the mother a नायावाळ, take the Jina to the मन्दर mountain, give him a bath,

name him as अजित, offer him prayers, and, bringing him back to अयोध्या, hand him over to his mother. When अजित attained youth, he was married to thousand princesses. He was also crowned as prince, and enjoyed the earth for 19 lacs of पूर्वs. One night prince अजित saw a meteor falling, and gathering from it that his fortune was as fickle as the meteor, resolved to renounce the worldly life. Gods arrive on the scene once more and praise him for his resolve. He then placed his son अजितसेन on the throne, gods gave him a bath, and on the afternoon of the ninth day of the bright half of माघ he performed the केशलोच and took the दीक्षा. The hair of the monk अजित were picked up by इन्द्र in a golden plate and thrown in the क्षीरसमुद्र. One thousand princes renounced the world with him. In a short time the fourth knowledge, viz., मन पर्यायज्ञान, was acquired by him. He took the vows with a fast of two days and a half (षडोपवास). He broke the fast the next day at अयोध्या at the house of king ब्रह्मा, who was graced by five wonders. अजित practised penance for twelve years, and on the 11th day of the bright half of पौष, he secured केवलज्ञान under सप्तच्छद tree. इन्द्र and other gods arrived on the scene, praised him and built a समवसरण. There the Jina sat on a सिंहासन, called सर्वभद्र, had with him all the eight प्रातिहार्यs, and then delivered a discourse. He had his गण or followers divided into 12 groups, viz, गणधर, पूर्वधारिन्, शिक्षक, अवधिज्ञानिन्, केवलिन्, विक्रिया-ऋद्धिमत्, मनःपर्यायज्ञानिन्, अनुत्तरवादिन्, आर्थिका, श्रावक, श्राविका and देव, देवी, तिर्यञ्च् etc. With such सघ, the Jina wandered on the earth for a period of 53 lacs of पूर्वs less by 12 years. He then went to the समेदशिखर, and having lived the life of 72 lacs of पूर्वs, practised the प्रतिमास for one month, and attained emancipation on the forenoon of the fifth day of the bright half of चैत्र. Gods worshipped him on this occasion, his body was burnt by अमिकुमार, the ashes were respectfully collected by Indra and thrown into क्षीरसमुद्र.

I have given all the details of the life of अजित here. The same will be repeated almost in the same form with the change of names, dates etc, in the case of all the तीर्थंकरs mentioned in this Vol. and therefore will not be described any more. I am giving these details in the tabular form to facilitate understanding.

7. 2a सीयहि दाहिणकूलि, we have a *v. l.* in K, उत्तर^०, but is corrected in the Ms. to दाहिण, perhaps on the strength of गुणभद्र's उत्तरपुराण, which reads .
सीतासरिदपाग्भागे वत्साख्यो विषयो महान् ।—उत्तरपुराण, 48. 3.

where अपाग्भाग means south. - 8b हल्लियहिं, by farmers

8. 8a-b जसु सोहगौ etc. God of love falls into background on account of the beauty of विमलवाहन, and therefore gave up his body and became अनङ्ग.

9. 2b पंचमहन्वयमायुः, the mothers of five great vows, viz. the 25 भावनाः, five for each vow. 8a दंसणसुद्धिविण्ड, the sixteen भावनाः beginning with दर्शनविशुद्धि. For details see तत्त्वार्थसूत्र VI. 24. These भावनाः enable a soul to secure तीर्थंकर नामगोत्र.

10. 9a सो अहममराहिड, that अहमिन्द्र, who, in the previous birth, was king विमलवाहन. 11b कणयमयणिलयण, (अयोच्या) having houses of gold.

11. 1b माणवमाणिवेसेँ, dressed as earthly ladies. 4a गग्भि ण यंतहु, even before the descent of the जिन, into the womb i. e., इन्द्र sent a shower of gold even before the जिन descended into the womb of queen विजया.

12. For sixteen dreams see my note in MP. Vol I, pp. 600-601.

13. 4a-b कुंजरवेसेँ etc. The अहमिन्द्र, on completion of his period of life at विजयविमान, entered into the mouth of the queen in the form of an elephant just as the sun enters into clouds. 9-10. These lines mention the interval between the निर्वाण of ऋषभ and the descent of अजित into the womb of queen विजया; it is fifty lacs of crores of सागरोपमः.

14. 4-5 दसणकमलसरणच्चियसुरवरि etc. इन्द्र ascended his elephant ऐरावण on whose lotus-pond-like tusks gods were dancing. 8b सरसरसिर, talking full of devotion.

15. 6b मंतु पणवसाहा संजोइवि, using the मन्त्र “ ॐ स्वाहा.”

18. 9a वसुवइवसुमइकंताकंतें, by अजित who was the lord of two wives, viz., wealth (वसुवइ) and the earth (वसुमइ).

19. 1b ईसमणीस समासमलीणी, the mind of lord अजित was completely engrossed in peace of mind (सम, उपशम, वैराग्य). 4b आउ वरिसवरिसेण जि खिजइ, man's life is lessened year by year.

20. 4a-b गइदुचरित्तकम्मसताणइ संताणइ, for the continuation of his race which meant a series of acts (कम्मसंताण) such as गइ (देवमनुष्यादिगति) and misdeeds (दुचरित्त). The act of continuing the race involves a series of birth and death and several other acts which are misdeeds.

21. 6a-b इडुमवरिडु etc. The five miraculous things are इडुमवर्ये, a shower of flowers from heaven, सुरपट्टनिनाद, beating of heavenly drums, यनुहाण shower of gold from heaven, चेडुक्खेव, erecting of flags, and अहोदानं, divine sound praising the nobility of gift. Compare विवागसुयं page 78.

- 23.** Description of समवसरण.
- 24.** Description of eight प्रातिहार्यs, viz, अशोकवृक्ष, दिव्य पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, सिंहासन, भामण्डल, देवदुन्दुभि and छत्र. 10-12 and the following कडवक mention the number of his गणs, for which see the Table
- 26.** 1 *a* सिंहरिहि i. e, on mount Meru. 5 *b* दंडकवाडुरुजगजगपूरणु describes the process by which the soul of a Jina proceeds to सिद्धसिला.

XXXIX

The samdhi gives the story of सगर, the second चक्रवर्तिन् of the Jainas.

1. 2 मगहाहिव, i. e., श्रेणिक, the king of the मगध country who asked गौतम इन्द्रभूति to tell him the lives of sixtythree great men 4 *a* For दाहिनयलि AK originally read उत्तरयलि but K corrects it to दाहिनयलि which agrees with गुणभद्र's उत्तरपुराण.—

द्वीपेऽत्र प्राग्विदेहस्य सीतापागभागभूषणे ।

विषये वत्सकावत्यां पृथिवीनगराधिप. ॥ 48. 58.

12 घरचूलाहयणहयल, the capital पृथ्वीपुर which struck or scratched the surface of the sky with the tops (चूला) of its houses.

2. 9 *b* सिंसुमोहणीउ मुणिहिं वि दुवारु, affection to children is irresistible even to monks. 10 जिणवरवयणु रसायणु, the councillors of the king gave him the elixir, viz; the teachings of the Jinas to overcome his grief.

4. 3*a* इयरु वि, i. e. महारुतमन्त्री. 5*b* किउ दोहिं मि पडिबोहणणिबंधु, god महावल (formerly king जयसेन) and god मणिकेतु (formerly महारुत मन्त्री) made an agreement that whoever was born as a human being first, should be reminded by the other who continued to be अमर or god, of this fact.

5. 9-10 The fourteen jewels of the sovereign ruler.

6. 3*a* जिंव भरहुहु तिंव सयरहु जि होइ, i. e., सगर got as much wealth as भरत, the first चक्रवर्तिन्.

7. 1*a* मयमउलवियणयण, elephants have their eyes closed on account of their मद, rut or rutting season 10*a* रयणकेउ, i. e., मणिकेतु.

8. 9*b* तरुणिहि कोक्किजइ हसिवि ताउ, young women laugh at him and call him papa, father (ताउ, तात).

10. 2*a* देवसाहु i. e., मणिकेतु, who, being a god, assumed the form of a monk.

12. Description of the descent of the गङ्गा.

14. 2a विहिं ऊणी सङ्घि, sixty thousand sons, minus two, viz., मीम and मङ्गेरिह or मगीरय who alone escaped death. 9b गड आवइ णड सरिसरतरंगु, waves of the river water, once gone, do not come back (आवइ णड).

16. 11a दढधम्महु पायंतिइ, at the feet of a sage named दढधम्म (दढधर्मन्).

17. 6b गड जेण महाजणु सो जि पंशु, Compare: महाजनो येन गतः स पन्थाः.

XL

1. चासयसंभवु, source of eternal bliss (शाश्वत+शं+भव). संभवणासणु, one that puts an end to संभव, birth, i. e., सचार. 5b पुसियवंभहरिहरणयं, one that refuted (पुसिय) the doctrines (णय) of ब्रह्मा, विष्णु, and शिव. 20b असिआउसं. For note on this expression see MP. Vol I, page. 653. 23 अमिउं, पियह कण्णजलिहिं, drink the nectar, i. e., my poem, with the अञ्जलि of your ears. Compare कर्णाञ्जलि-पुटपेयं विरचितवान् भारताख्यममृतं यः । तमहमरागमकृष्ण कृष्णद्वैपायनं वन्दे.

4. 10b सत्था i. e., स्वस्था, quiet, peaceful, happy.

5. 14a जित्तसत्तुए, son of जित्तसत्तु, i. e., अजित, the second तीर्थेकर. 18b जमारिणा, by इन्द्र.

6. 4a सईइ सई धारियउ, held or picked up by सची herself.

8. 12 किं जाणहं सोसिउ उवहि, what do you think? The ocean became dry as gods were carrying water for the bath of संभवजिन.

9. 13 पइ सुइवि, त्वां सुक्त्वा, वर्जयित्वा, except yourself.

11. 7a कत्तियसियपक्खि i. e. कार्तिक+असित+पक्षे, कार्तिक कृष्णपक्षे. Compare गुणभद्र 49. 41 जन्मखे कार्तिके कृष्णचतुर्थ्यामपराह्णः. 11 णाणे णेयपमाणे, his knowledge which was co-extensive with ज्ञेय, knowables, i. e., the कैवलज्ञान.

13. 5a जक्खिदमउडसिहद्धरिउ, coming out from the top of the crown of यसेन्द्र, i. e., कुबेर.

14. 10b दहगुणिय तिण्णि सहस, i. e., thirty thousand. गुणभद्र however mentions twenty thousand.

15. 1a भवियतिमिइ, ignorance of the भव्य persons. 14 सिंगारंगहु i. e., शृङ्गारंगह्य, i. e., शृङ्गारभूमिः.

XLI

1. 1 जिदिदियटं गिवाण्ट, one who wards off or controls the base, निन्द, sense-organs, i. e., a तीर्थेकर, here अभिनन्दन. 18 जीहासहसेण विणु, in the absence

of one thousand tongues. The फणीश्वर has one thousand tongues and hence capable of praising all aspects of a तीर्थकर, but पुष्पदन्त, the poet, has only one tongue and hence unable to do justice to the qualities of a तीर्थकर.

3. 1b सणियउं वियरह, walks gently so as to cause no injury to a living being. 5b तिण्णि तिउत्तरसय, the expression is elliptic, but clearly refers to 363 doctrines of heretics, as the *lection faciliore* of AP indicates.

5. 7b सव्हु सवारिउ, he accomplished it completely.

6. 12 आसणथणहरणि, by the shaking of his seat. इन्द्र learnt, on account of the shaking of his seat, that a जिन was born.

8. This कडवक gives the list of ten deities invoked at the time of the bathing of a जिन. These deities or लोकपालs are. इन्द्र, अग्नि, यम, नैर्ऋत, वरुण, वायु, कुबेर, रुद्र, चन्द्र and फणीश; they are described here with a specific mention of their vehicle (वाहन) weapon (प्रहरण), wife (प्रियरमणी) and a characteristic feature (चिह्न), as line 23 says.

12. 13 भयलज्जामाणमयवज्जियउ जिणवउं पेम्मसमाणउ, the vow of a जिन is like the vow of love or behaviour of love, in as much as it ignores or is destitute of fear, shame, pride and self-respect. Just as a man in love ignores the feelings of fear etc, so a जिन ignores these feelings.

17. 9a जीवपदिखवंदिग्गाहंपंजर, (the dead body मुक्कलेवर) was a cage to catch the bird, viz., the soul.

XLII

1. 18 समासह वइयर, the व्यतिकर, story or narrative is being abridged (समासह, समस्यते).

2. 4b पोमरयरासिपिंजरियकुंजरघडे (in the country) where the herds of elephants were reddened with the pollen of lotus flower. 5a दुक्खणिगमण etc. The region of पुष्कलावती was so charming that it bore the comparison with वनश्री from which the god of love, रहरमण, the lord of रति, would depart (only) with difficulty. 10b रमह वइसवणओ आवणे आवणे, the lord of wealth, वैश्रवण, i. e., कुबेर, took delight in every shop, as it had plenty of wealth. 15 उवसमवाणिण्ण, with the water (वाणिअ, पानीय) of tranquility of mind (उवसम, उपशम). 16 भोयतणेण, with the grass (तण, तृण) of enjoyments (भोय, भोग).

3. 17b हरिसुद्धदेहेण, with his body filled with horripilation (उद्ध, ऊर्ध्वरोम) due to joy.

4. 15a हूए हरिभणणे, when the orders of हरि, i. e., इन्द्र, were obeyed, i. e., when the town etc. was decorated at the command of Indra. 17 अणव-इण्णि अरहे, even before the arrival or birth of the अर्हत.

5. 21 झुळंतवडायहिं, with flags (वडाय, पताका) fluttering (झुळंत).

7. 6b जिन्विक्कामावहो, of the जिन who continually or uninterruptedly destroys the god of love or passions. 10b जडकसरदुग्गेण, hard to be practised by dullards and mischievous people कसर literally means a mischievous bull. गिरिककरि पडइ etc. A wretched camel throws itself or wanders over a rugged cliff (गिरिककर) for the sake of sweet (महुकारणि) herbs where they cannot be had.

9. 5b इणे पच्छिमले, when the sun turned towards the west, was about to set.

12. 15b घडिमालाहयहं, the पूर्व periods counted by the series of-घटिका that elapsed. Compare हयदियहपाडीहिं in 5. 14a.

XLIII

1. 5a गियायममगणियोइयसीसु, who directed his disciples (सीस, शिष्य) on the path prescribed by his holy texts (निज+आगम) or scriptures. 7b गळकदळ bulblike (tender) neck.

2. 6a °णीड, nests or houses. 10a भाविणि° (भामिनी), women. 13 होड पहुचइ, पूर्ण मवतु, be accomplished. पहुचइ normally means प्रमवति, but the gloss explains it as पूर्ण. 14 जं पुरड etc. If the town or capital is abandoned, then one can secure emancipation quickly. If the king leaves his kingdom he can secure release from संसार.

4. 1a-b गिहीगुगटाणवएहिं विमीस,...महोवहि वीस, the period of life of the अहमिन्द्र was twenty चागरोपम (महोवहि) mixed with or plus (विमीस, मिश्र) eleven which is the number of the प्रतिमास of a householder, in all thirtyone चागरोपम.

8. 10b दुमाणडु, wretched man.

10. 4b The line should be rather read: सवंधुसु वेरिसु णिच्चसमाणु, always equanimous towards his relatives and towards his enemies.

XLIV

3. 8a पग्मारिसरिसहणवजायड, born in the race (अणव अन्वय=वंस) of रिसह, the first तीर्थंकर who was परमारिस, परमर्षि, the great sage

6. 11 परिमाणु here stands for परमाणु, atoms. All atoms or as many atoms as exist in the universe, were used to make up the body of the lord सुपार्श्व.

7. 5a उडुपल्लट्टु, the falling of stars or meteors, which indicated the fickleness of संसार.

9. 5b जलहिमाणि किं आणिज्ज घडु. Can we use or bring an earthen jar to measure (the waters of) the ocean ?

XLV

1. 17b वयणणतुप्पलमालइ, by means of a wreath of fresh lotus flowers, namely, my poetic composition (वयण, वचन).

2. 16b कलहोयमइयाउ, made of gold (कलधौत).

3. 12a-b तूरवेँ दिस हम्मइ, the quarters (दिस, दिशा) were being beaten, i. e., filled, with the sound of trumpets (तूर, तूर्य); कण्णि वि पडिउ ण सुम्मई, even if a sound reaches our ears, it is not heard or understood owing to deep sound of trumpets.

6. 9b सरसेणा, army of सर (स्मर), god of love.

13. 13-14. The meaning of the lines is: पद्मप्रभ was born in the वैजयन्त heaven, and had a white complexion (सियगु) and very bright lustre. On seeing this lustre of पद्मप्रभ, the wife or wives of पुष्पदन्त, i. e., of चन्द्र and सूर्य, felt that their lustre was nothing before his lustre and thus became blackened.

XLVI

5. 9b सासेहिँ व चासपइण्णइहिँ, like crops (चास, सत्य) sown in series of plough share marks (चास) चास is a deśī word meaning a line drawn by the ploughshare (इलविदारित भूमिरेखा) and is still preserved in Marathi in the form of तास.

6. 12 जिणतणुहि कतिइ पयडु ण होंतउ, the milk which was used for bathing the जिन, could not be distinguished as its colour was identical with the complexion of the जिन; an instance of मीलितालंकार.

11. 5a बलदेवइ अगइ देहि तिण्णि, put the figure 3 after 9; बलदेव are nine. The whole passage gives the figure 93 which is the number of गणधर of चन्द्रप्रभ. 10-11. These lines mention the eight प्रातिहार्य such as

पिंडीट्टम, i. e., अशोकवृक्ष. The position of these प्रातिहार्यs in the middle of the list of the followers of चन्द्रप्रभ is unusual.

XLVII

4. 3a वच्छु जहिं रोसहुं, he avoids places where there is the tree (वच्छ, वृक्ष) of anger. The variant in P, 'वासु' is clearly an easier substitute for वच्छु.

6. 9a-b The child, looking at its mother and also at her reflected image, was comfounded and felt it had two mothers (दोमायउं द्वैमातृकम्) and so was unable to decide which was his real mother.

XLVIII

1 19 गुणभद्रगुणीहिं जो संथुड, he i. e., the tenth तीर्थेकर who is glorified by the revered sage गुणभद्र. We know that गुणभद्र is the pupil of जिनसेन the author of the Sanskrit आदिपुराण. जिनसेन's work was continued after his death by गुणभद्र, which is called the उत्तरपुराण. The expression गुणभद्रगुणीहिं may also be interpreted "by pious monks possessing auspicious qualities."

4 14 तं पट्टणु कचणु घडिउं, that city was made or built of gold. कंचणु stands for काञ्चनं, i. e., काञ्चनमयम्. AP read कंचणघडिउं as the copyists did not understand the meaning above of कंचणु.

9. 1 a-b तं सहं etc. The line means: Even though the water used for the bath of शीतलनाथ flowed in a downward direction, it led the pious people in the upward direction, i. e., to heaven.

10. 5b उत्ताणाणणु गन्वेण जाइ, a man, out of pride, goes or walks with his face or head up or erect. A proud man walks with his head stiff and erect.

13. 1b समरइ विरुद्ध जिनचरित्तु, the gods brought to their minds the (apparent) contradictions in the life of the जिन. In the following lines we get a reference to these contradictions. For instance, the जिन is called गोपाल (cowherd boy, lord of the earth) and is very terrific to his own enemies (पियारिचंडु).

7. 1a मेद्वोसु is another name of king विष्णु. 12-13. These lines give the interval between the निर्वाण of शीतल and the birth of भैयांस; it is

'16625999 सर्गरोपमस. Jainism was totally eclipsed for a पत्योपमार्ध. After this श्रेयांस was born.

18. 5a-b He who makes gifts of cows etc, goes to विष्णुलोक in golden विमानस, and enjoys (माण्ड) heavenly pleasures 11. सुज्ज्ञइ पिपलफसणिण, is purified by touching the पिपलवृक्ष.

20. 14 सइ विरइवि कब्बु, मुण्डसालायण himself composed some verses glorifying the gifts of cow etc. and brought them to the king. The king felt that these verses were as authentic as the Vedas.

II

1. 15 कित्ति वियंभउ महुं जगगेहि, may my fame spread over the house of the whole world. The poet is conscious of his poetic powers which, as he says, would bring him a world-wide name.

3. 3b गुणदेवइ भवदेवहं ईसर, the अनन्तजिन is said to be the lord of गणधरस and also of gods by birth such as इन्द्र etc.

5. 9 ता णजइ etc. Owing to the shower of gold in the city it was very difficult for people to distinguish the night from the day. The people therefore called that time to be the daytime when lotuses in ponds bloomed.

L.

This samdhi and the two following narrate the story of the first वासुदेव (त्रिपुष्ट), first बलदेव (विजय) and first प्रतिवासुदेव (अश्वग्रीव) of the Jain Mythology. In order that the reader should understand the background of the friendship between त्रिपुष्ट and विजय, and the enmity between त्रिपुष्ट and अश्वग्रीव, the poet gives us the narrative of the two previous lives of all these three.

1. 5a गोडलपयधाराघायपहिइ, where travellers were made to drink to their satisfaction (घाय) the streams of milk of cows. 11a जइणी i e., जैनी which is a proper name here 15 खलमित्तसणेहु, friendship with a wicked friend which lasts only for a short time.

2. 5a णिग्नेसह ण वाय, words will not come out. The root णिग्ग here and in 7b below corresponds to निघर्णे in Marathi and may be traced to निर्+गम् or गा.

3. 5b तरह swims. The root त्स् to swim is preserved in Marathi in this sense. There is another root त्स् in Prakrit which means to be able (शक्).

4. 1b वणुत्साहिलासं should have been वणत्साहिलासं, the desire to have the garden वणुत्स is found in all the Mss. and hence retained. Or, are we to take वण+उत्स (उत्सुक) + अहिलासं, keen desire for the garden? 12b तायाउ आराहणिजो, to be respected after (the death of) my father. You deserve the same respect as my father.

5. 13 दुग्गु भणेवि, saying or thinking that the stone pillar was like a fortress (दुग्ग). वहरिउ i. e. विशाखनन्दी.

8. 6a छइउ (छादितः) defeated.

9. 10 तुञ्चु हसियहु करमि समाणउं, I shall equalize, i. e., repay your laugh which ridicules me and insults me.

10. 8b अवर i. e., विशाखनन्दी.

LI.

1. 6a जायासीवणुत्तणु, They both (विजय and त्रिपुष्ट) grew to the height of 80 bows. 9b विहिं पक्खहिं ण पुण्णिमवासरु, like the day of the full moon which had on one side the bright half and on the other side the dark half, corresponding to विजय बलदेव who is white and त्रिपुष्ट वासुदेव who is dark in complexion.

2. 11a-b हलहरु, दामोयरु. Please note that बलदेव and वासुदेव will all be referred to by their various synonyms such as सीरि, हली, लंगलहर, सीराउह etc. for बलदेव, and दामोदर, माधव, श्रीवत्स, अनन्त, सिरिरमणीस, लच्छीवह, (लक्ष्मीपति) दानवारि, दानववैरिन्, विट्टरखव, वित्तलेण, etc. for वासुदेव; similarly अश्वप्रीव is mentioned under हयगोव, हयकठ, नुरगगल etc.

5. 4b पृयचयणहिं, note ऋ in पृय which has come in for प्रिय probably by extending the application of हेमचन्द्र's rule: अभूतोऽपि क्वचित्, iv. 399.

6. 13 उनु जनु, कस्य यदा: whose fame.

7. 8b मृगवइयहि जाएं, by the son of मृगावती, i. e., by त्रिष्टु. 9a संचालेवी, the potential passive participle. Compare also पालेवी जणेवी, परिणेवी etc. हेमचन्द्र under iv. 438 however gives एवा as substitute for तव्य in अपभ्रंश and does not mention एवी.

9. 13-14 गियजणणविइण्णु etc. The lines mean that अर्ककीर्ति understanding the signs of the brows from his father prostrated before king प्रजापति and thus saluted him.

10. 1a हरिबलेहिं, by हरि i. e., त्रिष्टु, and by वल i. e., विजय. ससुरउ (श्वशुरः) the (would-be) father-in-law of त्रिष्टु.

11. 12-13 पुणु मणिउ etc. They again said to अणंत (त्रिष्टु): “ Let us see; lift up the slab of stone, and show to us whether you would be the killer (कर्यंतु, कृतान्तः) of ह्यकंठ (अश्वग्रीव) or no.

15. 14 अह सो सामणु मणहुं ण जाइ, now he cannot be called an ordinary man (सामणु, सामान्य).

·LII.

1. 2 चिरभववइरवसु, under the influence of enmity of the previous birth, when both of them were विश्वनन्दि and विशाखनन्दि. 4 तिखंडखोणिपरमेसरु, the lord of the earth with three continents, i. e., an अर्धचक्रवर्ती. अश्वग्रीव was the अर्धचक्रवर्ती before त्रिष्टु.

5. 4b विजाहरभूयरभूमिणाहु, the lord of the विद्याधरभूमि and भूचरभूमि, i. e. the अर्धचक्रवर्ती, अश्वग्रीव.

7. 3a मा रसउ काउ चप्पिवि कवाडु, a crow sitting on the head of a person and crowing is considered to be an indication of approaching death.

8. 2 करगय etc, why do you require a mirror to see a golden bracelet which is put on your hand? A famous लोकोक्ति. 5a भरहुहु लग्गिवि, from the days of king भरत, the first चक्रवर्तिन्. 11 रणु बोळतहुं चंगउ, the talk of fight is pleasant. Compare युद्धस्य कथा रम्या.

9. किंकर णिहणतहं णत्थि छाय, there is no charm or pleasure in killing the servants अश्वग्रीव was glad to fight with त्रिष्टु as he thought that there was no pleasure in fighting with the inferior or low people. 15 सारगु is interpreted as बलवत् in T. but it appears that त्रिष्टु, being a वासुदेव, should have a bow made of a horn विष्णु is called शार्ङ्गधर in Hindu Mythology. The

other emblems of विष्णु in Hindu Mythology such as पाञ्चजन्य, कौस्तुभमणि, असि, कौमोदकी गदा, गरुडध्वज and लक्ष्मी, are also mentioned as emblems of वासुदेव in Jain Mythology and hence I think that चारंगु धनु should also mean शार्ङ्ग धनुः.

10. 4 a-b This line mentions the weapons of बलदेव; they are: लाङ्गल, a plough, मुसल, a pestle, and गदा called चन्द्रिमा.

11. 2 खगाहिवो i. e. गरुड, eagle, who is the emblem on the banner of वासुदेव or विष्णु. 8a णिच्चिच्चुं चें, thick and high. This expression, according to T seems to come from निस् and उच्च. It is likely that it can also come from नित्य, निच्च and उच्च+उच्च of which the second उच्च becomes उंच. The meaning would be "hair standing on end (रोमेच) which remain for ever high.

12. 8a-b भद्दु. etc. A warrior says: Even if my head falls, my trunk would kill the enemy and dance.

15. 2 कण्णाहरणकरणरणल्लगाइं, the armies that were engaged in a fight which was due to the giving away in marriage of the girl स्वयंप्रभा. 12-13 These two lines compare the two armies to loving couples, मिहुणइं, मिथुनानि, engaged in love-sport.

16. 2 सिरिहरिमस्तु, who is mentioned above in LI. 16. 9 b, as the minister of king प्रजापति. 25 माहववल्वइणा, i. e., by हरिमस्तु.

17. 14b णं अट्टमउ चंदु, the moon in the eight place in the horoscope indicates death. For a different view see मृच्छकटिक VI. 9:

कस्तदमो दिणअरो कस्त चउत्थो अ वट्टए चंदो ।

where the moon in the fourth place is said to indicate death.

19. 3b णीलंजणपहदेवीसुएण, i. e., by अश्वघ्रीव.

20. 21b मीमुहउज्झिउ, free from fear.

21. 14b सिवकामिणीइ, by beloved, viz., the female jackal (शिवा). 16 मोहवणु, price or return.

24. 15b कुलालचकु, the wheel of the potter. When the discus of अश्वघ्रीव did no harm to त्रिपुष्ट and remained on his hand, अश्वघ्रीव said that it was like a wheel of the potter, quite useless in warfare, although त्रिपुष्ट and his party valued it so much. अश्वघ्रीव abuses त्रिपुष्ट by saying that a begger may value a lump of oil-cake as a precious article of food, which would satisfy his hunger, but others do not think so.

25. 9 ममिगिकारणि कल्लममत्तो, engaged in fight or battle for the sake of a lady (रम्यप्रभा).

LIII

5. 5b कंजबंधवो सरस्मि दिण्णपोमिणीरई, the sun who is the friend of lotus flowers and gives delight to lotus-plants in the lake.

6. 8b तित्थणाहसंखम्मि रिक्खए, on a नक्षत्र which is twentyfourth, i. e. शतभिषा or शततारका.

8. 5a अण्णहु पासि ण सत्थविही कत्थइ सुणइ, he does not study the शास्त्रs with any teacher other than himself. The तीर्थेकर is self-enlightened and does not require a teacher.

13. 1a ससयमिसहइ, with the शतभिषानक्षत्र, i. e., शततारका नक्षत्र.

LIV

1. 14-15 The lines mean: If I (the poet) compare the face of गुणमञ्जरी to the moon, there will be no exhibition of my poetic powers, I would not be called a poet; for, the face of गुणमञ्जरी is not soiled or darkened by the deerspot as the disc of the moon is, nor is there reduction in size nor crookedness as it is in the moon.

3. 2 इहु कल्लोलणिवहु etc. The poet says that friendship between विन्ध्यशक्ति and सुषेण was so fast and intimate that it was impossible to draw any distinction between them; for who will be able to differentiate the ocean from a mass of waves? The तादात्म्य or identity between समुद्र and तरङ्ग is an accepted thing with philosophers.

8. 7b The birth of बलदेव and वासुदेव is heralded by the sun and the moon seen in dreams by their mothers.

8. 9b बीयउ उववादेविइ दढभुउ. The name of the mother of द्विपृष्ठावासुदेव is उववादेवी as given here गुणभद्र however gives it as उषा Compare:

तस्यैवासौ सुषेणारख्योऽप्युषायामात्मजोऽजनि ।
द्विपृष्ठाख्यस्तनुस्तस्य चापसप्ततिसमिता ॥ 58. 84.

9. 10b गल्लियसुयइ सुहइहि णयणइ, I shall kill अचल and make his mother सुभद्रा shed tears.

12. 10-12 रायत्तणु etc. There is a pun on राय which means राजन् as well as राग.

17. 8a रासहु होइवि etc तारक compares द्विपृष्ठ to an ass and himself to an elephant. 10a गोवालबाल, the son of a cowherd boy, is an epithet of

वासुदेव (कृष्ण), who, according to Hindu Mythology, lived and was brought up among the cowherds.

LV

3. 6b तद्गुण किं वण्डखंडकवि, how can खण्डकवि (पुष्पदन्त) describe his qualities ? खण्ड means broken, incomplete, which is one of the nick-names of पुष्पदन्त.

7. 8b णायमव, नाकभवा' i. e. gods. 16 गिंमे जित्तु सियाळु, the season of summer (गिंम, ग्रीष्म) defeated winter (सियाळ, शीतकाल). This was a निमित्त for विमलनाथ to realize the impermanence of the world.

LVI

1. 6a धणु सुरधणु जिह तिह थिर ण ठाइ, wealth, like the rainbow, does not remain perpetually with a person. 7a भायर णियभायहु अवयरंति, brothers misbehave (अवयरंति, अपचरन्ति) with their brother.

2. 8a-b चर etc. चर, गमण, छेज and कड्डण are different types of the play of dice which are a means of attacking the opponent and taking charge of his possessions. 9b एके उड्डिउ णियरज्जु ताम, one of them (सुकेतु) lost his kingdom. Note the use of उड्डिउ which word, in the form of उडवणे is preserved in modern Marathi.

6. 4a महुराउ मणहि महुरोट्ट काई, how can you call king मधु a mouthful of honey ? How can you speak of king मधु in such light terms ? 7a णीलणियासणेण, by धर्मवलदेव who wears blue clothes. वलदेव is a नीलाग्र. Compare नीलाग्रो रोहिणेयः कालाद्धो मुसली हली in अमरकोश.

7. 10a उविदुप्पणरोत्तु, उविदु+उप्पणरोत्तु, उपेन्द्र i. e. स्वयंभू (वासुदेव) got angry. 11a-b जइ लोहिउ etc. I swear by the feet of (my elder brother) धर्म, if I do not make the goblins drink the blood of king मधु. पायमि stand for पाययामि, make one drink, a causal form of पा to drink.

8. 1 वसुहानुउ, the son of वसुधा, i. e., स्वयंभू. The name of the mother of स्वयंभू is पृथिवी as we see from 4. 7b above, here the poet uses a synonym वसुधा for पृथिवी.

9. 4b, 6b सुंदरिहि तणुएण i. e. by मधु. 5a-b-6a विउसयगकयवयणविणुण्ण, by king मधु who was glorified in compositions or poems (वयण, वचन) composed by a body of learned men (विउसयण, विद्वज्जन). 36 महुमहनुके चके, by the discus

discharged by the enemy of मधु. मधुमह or मधुमथन is one of the names of विष्णु in Hindu Mythology.

LVII

This samdhi gives the narratives of three persons, सजयन्त, मेरु and मन्दर with their several past lives. Of these मेरु and मन्दर are the two prominent गणधर of विमल. The table given below records chronologically the different previous births of persons mentioned in the narratives:—

(a) सजयन्त—(१) सिंहसेन, (२) अशनिघोष हस्ती; (३) श्रीधरदेव, (४) रश्मिदेव, (५) अर्कप्रभ; (६) वज्रायुध, (७) सर्वार्थसिद्धि अहमिन्द्र, and (८) सजयन्त. It is in this birth that he attained emancipation.

(b) मेरु—(१) मधुरा; (२) रामदत्ता, (३) भास्करदेव, (४) श्रीधरा in देवलोक; (५) रत्नमाला in the अच्युतस्वर्ग; (६) वीतभय; (७) आदित्यप्रभ, and (८) मेरु who is the गणधर of विमल.

(c) मन्दर—(१) वारुणी, (२) पूर्णचन्द्र, (३) वैदूर्यदेव; (४) यशोधरा, (५) रुचकप्रभ in कापिष्ठस्वर्ग; (६) रत्नायुध, (७) विभीषण, (८) द्वितीय नारकी, (९) श्रीधामा; (१०) ब्रह्मस्वर्गस्थित देव; (११) जयन्तधरणेन्द्र, and (१२) मन्दर who is the गणधर of विमल.

There are two other prominent persons mentioned in the narrative; they are: (1) सत्यघोष or श्रीभूति, the minister of सिंहसेन who became अगन्धनसर्प, चमरमृग, कुक्कुटसर्प, तृतीय नारक, अजगर, चतुर्थनारक, त्रसादिभव, सप्तमनारक, सर्प, नारकी, मृगशृङ्ग and विद्युद्दष्ट; (2) भद्रमित्र the merchant who became सिंहचन्द्र, प्रीतिकर देव and चक्रायुध.

1. 5b चिञ्जह comes from चि to pluck, to collect, and then eat. The T gives भक्ष्यते which is only a secondary sense of the root.

6. 10 देवदिवायराहु, of god आदित्यप्रभ who in subsequent birth became मेरु.

9. 11a विष्णि वि एयइं, i e., यज्ञोपवीत as well as मुद्रिका.

14. 1a णावइ वारुणि, like wine.

15. 6a तूलिहि, on a mattress made of cotton (तूल).

18. 4b कम्मरउ, a labourer.

LVIII

9. 1a पुणु तहु कह etc. The line means ' Now for the sake of अनन्त (तहु कह, तस्य कृते) the royalty (राज्यश्री) suffered pangs of love; she fainted

(but was brought round (सञ्चयेण कथं) by fanning) by means of chowries.

11. 8b मिहिरमहाहिय, superior in lustre (मह, महस्) to the sun(मिहिर).

13. 12a अमवासाणिसियहि, on the night of अमावास्या. Both गुणभद्र and पुष्पदन्त do not mention the month which is चैत्र. Probably we are to borrow the name of the month from 11.1a.

16. 9b महसूयणु i. e. मधुसूदन the Mss use promiscuously महसूयणु and महसूयणु. In Hindu mythology मधुसूदन is the name of विष्णु. Are we to take मखसूदन to be the name, which is confounded with मधुसूदन ?

21. Note the दामयमक or शृङ्खलायमक throughout the कडवक.

22. 5b रहचरणु i. e. चक्र, the discus. 13a सरसलिलि रहंगसयाइं अत्थि, there are hundreds of रथाङ्गs, i. e., चक्रवाक birds in lakes but can they catch a maddened elephant ?

LIX

4. 7 सिविणय देतु सुहुं, giving delight to men who were modest or humble though rich Note that the word सिविणय has no case-ending of the Genitive. See हेमचन्द्र iv. 345.

6 3a पूसरिक्खि छणससिदिवसि, there is no mention of the name of the month here. Elsewhere, i. g. in गुणभद्र, the month of माघ is mentioned, but we cannot have पुष्यनक्षत्र on the full-moon day of माघ. The month therefore must be पौष. Is the confusion due to the difference in the method of naming the months in the northern and southern India ?

14. 1a सयडंगु (शकटाङ्ग), the wheel, i. e., discus, the weapon of a चक्रवर्तिन्.

19. 10 विसरिसजलझलझलं, the dripping of dirty rainwater.

LX

2. 5b जहि मणियरहि ण दिहु पयंगड, where the sun (पयंगड, पतङ्ग) could not be seen because of the rays of gems The gems were so numerous and vast that their rays even eclipsed the sun.

3. 5b कोटिसिलासंचालणववल्हु, the line refers to the exploit of विष्ट the first वासुदेव who lifted up the कोटिसिला. See LI. above.

4. 13b पाहुडगमणागमणपवाहे, by a series of gifts passing or exchanged between विजयभद्र and अमिततेजस्. 14 णिम्मिच्चिउ, नैमित्तिक; an astrologer.

5. 9b हुं पव्वइउ समउं हलीसहु, when हलीस, i. e., विजय बलदेव renounced the world, I (the Brahmin astrologer says) also became a monk with him.

6. 11a मामसमण्डिउ, given by my father-in-law (माम). Even in modern Marathi the father-in-law is called मामा.

8. 2a अमोहजीहु, the name of the astrologer. 7b जेणुव्वरसि by which you will survive the calamity.

11. 3b णिवद्धणाइं, the AP reading णिवधणाइ is easier. The meaning of the expression is ' binding tissues. 9b वारउ turn. The word वार, meaning a turn, is preserved in Marathi.

18. 5a हरिसुउ, i. e, श्रीविजय the son of त्रिपृष्ठवासुदेव.

29. 10b समयसमियकलि, समतया स्वमतेन वा शामितः कलिः येन, who, by his equanimity or preaching, settled the quarrels of people.

LXI

1. 9a-28b These lines give the list of विद्याs acquired by अमिततेजस्.

12. 6a दिळिदिलिए, हे बाले. दिळिदिलिअ is a deśi word meaning a boy & दिळिदिलिआ a girl. See देशीनाममाला V. 40.

15. 13 आउंचियारिपसरु, who stopped the progress of his enemies.

21. 11 धणवाहणहु, i. e., मेघरथस्य.

LXII

2. 2a गरुडेण वि जिप्पइ एहु ण वि, this cock cannot be defeated even by an eagle.

5. 10b जाउडयजडिलमंडियथणिहि, whose breasts were decked by a thick paste of saffron.

7. 9a to 10. 2b We have here a description of the whole earth with its continents as seen from the sky.

17. 12b पक्खे (पक्षिणा), by the bird. Are we to have the word as पक्खि which would be the form of the Instrumental sing ?

LXIII

2. 7a परादेविद्, elsewhere the name of the mother of शान्ति is given as अहरा as for instance in 1. 16 and 11. 2b.

5. 5-6 These lines give the list of 14 gems which, as a चक्रवर्तिन्, शान्तिनाथ possessed.

11. 1-7 These lines give the previous births of शान्तिनाथ and चक्रायुध. शान्ति had in all twelve, viz., श्रीषेण, कुरुनरदेव, विद्याधर, देव, बलदेव, देव, वज्रायुध-चक्रवर्तिन्, देव, मेघरथ, सर्वार्थसिद्धिदेव, शान्ति; चक्रायुध also had the following : अनिन्दिता, कुरुनर, विमलप्रभदेव, श्रीविजय, देव, अनन्तवीर्य वासुदेव, नारक, मेघनाद, प्रतीन्द्र, सहस्रायुध, अहमिन्द्र, दृढरथ (मेघरथभ्राता), सर्वार्थसिद्धिदेव, चक्रायुध.

LXIV

1. 7b जो ण करइ करि कत्तिय कवाल, (कुंयु or a तीर्थकर) who does not hold in his hand human skull (कपाल) and (tiger's) skin (कृत्ति) as god शिव does. The तीर्थकर is thus far superior to god शिव.

2. 8b वयविहिअजोगु दिण्णु वि ण लेइ, while begging alms he does not accept things which, for his vows (व्रतविधि) he cannot accept.

8. 1b णियजम्ममासपक्खतरालि, on the same day, month and fortnight on which he was born, i. e. on the first day of the bright half of वैशाख. 2b कित्तियणक्खत्तासिद्द ससकि, when the moon was in conjunction with the नक्षत्र mentioned (कीर्तित) or कृत्तिका.

LXV

3. 4b पट्टणु रयणकिरणअइसइयउ, the town that excelled in brightness or was extremely bright owing to the rays of gems.

4. 9b-10b वरिसकोडि सहसेण विहीणइ...पल्लचउरथमायपरिमाणइ, when after the निर्वाण of कुंयु one-fourth of the पल्लोपम minus one thousand crores of years passed.

5. 5b दइदइवणुत्तणु, with his body twenty शरासन in height. गुणभद्र however mentions thirty शरासन as the height of अर. Compare: त्रिशच्चापतनूत्तेभः धारुचामीकरच्छविः—65. 26. Which seems to be more probable.

9. 1-8 Note the play on the term अर् or अरु here.
11. 8a णिउ जिणवरिसि सोत्तिउ तावसु, the king became a Jain monk, while the Brahmin became a तापस ascetic, i. e., an ascetic following the teaching of the Vedic religion, particularly the teaching of devotion to god शिव.
12. 6-7 णच्चइ देउ etc. These lines give the characteristic behaviour of god शिव, who performs a ताण्डवचृत्य, sings, has a woman or women (पार्वती and गङ्गा), beats the डमरु, burns त्रिपुर, and kills demons. The Jain monk says that such a godhead will not save one from संसार.
13. 6b तावसमासुरवासि संसंति, the pair of sparrows, having formed their nest in the beard of the ascetic, used to warble.
16. 1-2 These lines give the origin of the name कण्णाकुब्जणयरु, the city of कान्यकुब्ज, because the girls in which, having refused to marry the sage, became dwarfish owing to his curse.
24. 1b खत्तिय सयल्लु वि जारु परत्तिवि, having burnt to ashes all the क्षत्रियस. परत्तिवि comes from परत्त a deśī root which is preserved in modern Marathi as परतणे.

LXVI

1. 9a विहवत्तणदुक्खोहरियञ्जाय, whose beauty or spirit was soiled by sufferings of widowhood (विहवत्तण, विधवात्व). 10b पर ताउ ण पिच्छमि, but I do not see or know my father (सहस्रबाहु).
5. 5b कोसल पुरं, i. e., साकेत which is the capital of the कोसल country.
6. 3a परमेसरु, i. e. सुभौम, who was destined to be a चक्रवर्तिन् later. 10b एउ जि, this very earthen plate filled with the teeth of his father (सहस्रबाहु), which turned into a discus (चक्र).
10. 10a सम्भंतरि (श्वभ्रान्तरे), in a ditch, i. e., in a hell.

LXVII

4. 6a हिरण्यगन्धो, i. e., a जिन. The term हिरण्यगर्भ is used to designate god ब्रह्मा in Hindu Mythology, but in Jain Mythology it is used to denote a तीर्थंकर.
9. 1a दिणि छेक्के विच्छिण्णए, six days after his दीक्षा, i. e., on पौष कृष्ण द्वितीया, मल्लि attained केवलज्ञान. गुणभद्र also gives this date exactly in the same form. Compare: दिने पट्ठे गते तस्य छाद्मस्ये प्राक्तने वने-66.51.

13. 11a पिसुणमहंतो, i e., the minister named पिसुण, who gave a wrong report about राम and विराम to their father वीर, was born as बलि the अर्धचक्रवर्तिन् and a प्रतिवासुदेव.

14. 4b वाणारासि, i. e., वाराणसी; the lengthening of the third syllable is due to metre.

LXVIII

2. 13 पयडइं जायइं कालहु चिधइं, the signs of (coming) death or fall from heaven became manifest.

9. 3b गंधियकुंगंधधणवहित्थि, (अनन्ततीर्थे or teaching of अनन्तजिन) which kept off or made ineffective the systems of heretic schools.

LXIX

1. 2 हरिहलहरगुणथोत्तु जं जायउं रामायण. The रामायण is the glorification of the virtues or qualities of हरि (वासुदेव) and हलधर (बलदेव). 4a णिन्वाहमि भरह्वभरिययउं, I (Poet) want to carry out the wishes of भरत, my patron. 6a सामग्गि ण एक्क वि अत्थि महुं, I possess no material or facilities for undertaking the task of composing a रामायण. 6b किर कवण लीह चिरकइहिं सहुं, how can I compete with older poets ? 7a कइराउ सयसु, the great poet स्वयंभू who wrote on the theme of रामायण had the help of a thousand friends. 8a चउमुहहु, the great poet चतुर्मुख स्वयंभू, as his name implies, had four mouths. 9a महु एक्क तं पि सुहुं खंडियउ, the poet पुष्पदन्त says that he has only one mouth as against four of चतुर्मुख, and that even this mouth is broken (खण्डित). Elsewhere पुष्पदन्त calls himself to be खण्ड or खण्डकवि, and mentions that his face or mouth was वक्र. 13 लुकइपयासियमग्गि, on the path brightened by great poets like स्वयंभू and चतुर्मुख; or on the path, i. e., सेतु, built or manifested by the good monkey, i. e. हनुमान्.

3. 3-10. These lines record some strange notions or superstitious beliefs about persons figuring in the रामायण. King श्रेणिक asks गौतम इन्द्रभूति to explain to him the truth about them. They are (1) रावण (दशमुख) has ten mouths or faces; (2) his son इन्द्रजित् was older in age than his father, or, in other words, इन्द्रजित्, though a son of रावण, was born before him; (3) रावण was a demon and not a human being; (4) he had twenty eyes and twenty hands and that he worshipped god शिव with his heads; (5) रावण

was killed by the arrows of राम; (6) the arms of श्रीराम, i. e., लक्ष्मण, were long and unbending (थिर), (7) सुग्रीव and others were monkeys and not human beings; (8) विभीषण is still living or is a चिरंजीविन्, (9) कुम्भकर्ण sleeps for six months and feels satiated only by eating one thousand buffalos. Those that are conversant with the Hindu version of the रामायण will see that except No. 2, all other beliefs have some sort of support in the various versions of Hindu रामायण. About No 2 I have not come across any support for it. But before we proceed further we have to note a basic difference in the conception of personalities of राम and लक्ष्मण with the Hindus and the Jainas. राम, according to Hindu version and the Jain version is the elder of the two sons, राम and लक्ष्मण, of दशरथ, but राम who is the eighth बलदेव of the Jainas, has white complexion as against the dark complexion according to Hindus. On the other hand, लक्ष्मण who is the eighth वासुदेव of the Jainas, has dark complexion as against white complexion according to Hindus. Besides लक्ष्मण, being a वासुदेव with the Jainas, kills रावण who is a प्रतिवासुदेव with them. Other differences in the two versions will be noted as we proceed. 11a-b All Jain versions known to us say, as here, that व्यास and वाल्मीकि are responsible for creating wrong notions about the personalities of रामायण. It is clear from this statement that Jain poets, one and all, who tried their hands on the story of रामायण, have been acquainted with the versions of व्यास and वाल्मीकि, and think that they gave an altogether new interpretation of the lives of राम and लक्ष्मण.

4. 2-13 These lines mention the तृतीयभव of राम and लक्ष्मण. In the city of रत्नपुर in the मलयदेश, there was a king named प्रजापति. His queen, कान्ता by name, gave birth to a son who was called चन्द्रचूल (who is destined to be लक्ष्मण subsequently). विजय, the son of the king's minister, was a friend of चन्द्रचूल.

5. 5b कलहस्स णं चारुकरिणीइ, like a young elephant (कलह, कलभ) born of a beautiful she-elephant. A merchant named गोत्तम had a son, श्रीदत्त by name, by his wife वैश्रवणा. This श्रीदत्त was married to कुबेरदत्ता, daughter of कुबेर. 10b ती संणिहा का कुबेराइदत्ताइ what lady (ती, स्त्री) is comparable (संणिहा, संनिमा) to कुबेरदत्ता in beauty? चन्द्रचूल carried off this कुबेरदत्ता by force.

8. 4a सिधु चवंति गहिरु, the two boys, चन्द्रचूल and विजय said in deep voice, i. e., full of repentance. These two were destined to be लक्ष्मण and राम in their third subsequent birth.

9. 9a अहरहसे, rashly, in haste.

10. 4b बालरिसि, the young monks चन्द्रचूल and विजय. Of these चन्द्रचूल formed a निदान on seeing सुप्रभवलदेव and पुरुषोत्तम वासुदेव to enjoy prowess similar to theirs. 9-10 विजय was born in the सनरकुमार heaven and was called सुवर्णचूल, and चन्द्रचूल was born in the कमलप्रम विमान and was named मणिचूल.

11. 11 कुवलयबंधु वि णाहु णउ दोसायर जायउ, although king दशरथ (णाहु) was a friend (बन्धु) to the whole earth, he was not a seat or soucre (आयर, आकर) of faults (दोस, दोष) like the moon who is a friend of night lotuses (कुवलय) and is the maker of night (दोषा).

12. Note that राम (in former births विजय and सुवर्णचूल) is the son of king दशरथ of वाराणसी (and not अयोध्या) by his queen सुबला (and not of कौसल्या) and that the day of his birth is फाल्गुनकृष्णत्रयोदशी, मघा नक्षत्र (and not चैत्र-शुक्ल नवमी); and that लक्ष्मण (in former birth चन्द्रचूल and मणिचूल) is the son of कैकेयी (and not of सुमित्रा) and is born on माघ शुक्ल प्रतिपद्, विशाखानक्षत्र. It is only subsequently that king दशरथ went over to अयोध्या as mentioned in 14. 6b below.

16. 1a जं जुंजिवि सगहु सयर गउ, king सगर went to heaven by performing a sacrifice. According to Jain version of the story of सगर there is no mention of this sacrifice. 5b सिउ i. e. राम.

20. 10 पिंगल, i. e., मधुपिङ्गल, the son of वृणपिङ्गल and अतिथीदेवी. In 22. 3b he is called पिंगदिट्ठि.

28. 10a णारउ अय जव तिवरिस चवह, नारद says that अज means the जव (यव) corn three years old. This is the famous explanation of अज (goat) according to Jainas.

33. 8-9 These lines mention गोस्पर्ग, पिप्पलस्पर्ग etc., as meritorious acts according to superstitious beliefs; but the poet says that if they secure merit, a bull who touches the body of the cow and the crow that sits on the पिप्पल tree would be gods.

LXX

1. 11a-b ए अहम, these two sons of yours are the eighth बलदेव and वासुदेव, as I heard in the पुराणस and will occupy a place among the शलाकापुरुषस.

2. This कटवक and the two following give the history of the past life of नवग. There was in the city of नागपुर a king called नरदेव. He renounced the world and practised penance. On seeing a विद्यावर he formed a

निदान that he should have the fortune similar to that विद्याधर. He was then born as a god in the सौधर्म heaven. King सहस्रग्रीव of the city of विद्याधर, got somehow displeased with his relatives, quarrelled with them and shifted to त्रिकूटगिरि. There he built the city of लङ्का. After him came शतग्रीव and पञ्चाशद्ग्रीव. His son was पुलस्ति whose wife मेघलक्ष्मी gave birth to दशग्रीव. He married मन्दोदरी, the daughter of मय.

6. 7a-b The line means that मणिवती got disturbed in her meditation on the बीजाक्षरमन्त्र, and thought that दशग्रीव, though a विद्याधर, had characteristics (चिध, चिह्न) of a demon. 8a-b मणिवती formed a निदान that he should be her father in her next birth, carry her off in the forest and die on her account. This मणिवती becomes सीता in her next birth.

8. 1b तैं होंतैं होसइ अवर धूय, if दशग्रीव is alive, you (मन्दोदरी) will have another daughter. मारीच asked मन्दोदरी to abandon सीता as she was destined to bring calamity on the family.

9. 11 रामणरामह णाहं कलि, a source of quarrel between रावण and राम.

12. 3a ससुरणयर, i. e., मिथिला, the city of राम's father-in-law.

13. 9a अवरउ सत्त कण्णाउ, Over and above सीता, राम was married to seven other girls. 10a लक्ष्मण was married to sixteen girls. Note that राम in the Jain mythology has eight wives and not one.

16. 6b जाणेवा (ज्ञातव्याः). For this form see हेमचन्द्र iv. 438.

LXXI

1. 1 कहिं तं भंडणु एम भणंतु जि सचरइ, नारद, wanders over the earth finding out places where there is, or has a chance of, a quarrel. This characteristic of नारद is well-known to Hindu Mythology. Here he is approaching रावण to start the quarrel.

2. 6b पर पइं जिणिवि एक्कु जसु ईहइ, but one, i. e., राम, desires to obtain fame by conquering you.

5. 6a सेलसिहरसंचालणचंडहिं, with my arms, terrific in shaking the mountain peaks. This is a reference to the belief that रावण shook the कैलास mountain with his arms.

6-10. These कडवकs refer to the description of the characteristics of ladies as mentioned in कामसूत्र of वात्स्यायन.

11. 7a चंदणहि (चन्द्रनखी), otherwise known as शूर्पणखा.

15. 2a वडुळ परिकखइ णियतणुगंधे, a lady compares the scent of बकुल flower to see if it is similar to the scent of her body. 11a संपहिं एह वि बोळण-सीली, now in this spring, this (cuckoo) also has become talkative.

18. 2a कंचुइ होएप्पिणु, assuming the form of a कंचुकिन् or rather कञ्चुकिनी an old lady.

20. 1a विह्वत्तणि पुणु सिरु मुंडेव्वउं. It appears that Jainism recommends the shaving of the head by widows.

LXXII

1. 1 मुक्कदेसजइसंजमु, abandoning the restraint which a householder (देसजइ, देशयति, गृहस्थ) should practise, namely स्वदारसंतोष. रावण now starts in his पुष्यकविमान to carry off सीता against the rules of a Jain householder, for सीता is not his wife. He is not still aware of the fact that सीता is his own daughter. 19 दिइउ तेखु etc. रावण saw there the forest and also one more thing, viz., the bloom of youth of सीता. The next कडवक compares these two in similar terms.

4. A fine description of the movements of an antilop.

5. 5a कसणवाससोहियणियंदओ, who wore a blue or dark garment. बलदेव is called नीलाम्बर in Hindu as well as in Jain Mythology.

8. 11-12 These lines mean: If I ((रावण) touch this lady who is now helpless but chaste, the lore which enables me to move through the air (अम्बरचारिणी विद्या) will go away from me. रावण was unwilling to dally with the unwilling सीता, as in that case he would lose all the prowess he had.

12. 1-6 These lines mention that रावण became an अर्धचक्रिन् about the time of the arrival of सीता at लङ्का.

LXXIII

1. 3 एच्छहि etc. Three things occurred simultaneously, viz, राम followed the deer in the forest, सीता was carried off, and the attendants of सीता were filled with grief on her account.

2. 3b-6b It appears that the Jain society recommends the wearing of re-coloured saris for widows, breaking of bracelets, and not wearing ornaments like a necklace.

5. 9a According to the Jain version, दशरथ is still living when सीता was carried off by रावण. He saw a dream just at that moment that रोहिणी, the consort of the moon, was carried off by राहु, which dream indicated that a similar calamity had befallen राम.

6. 11a जणदणेण, by लक्ष्मण.

7. 4a वेण्णि खग, i. e., सुग्रीव and हनूमत् who were विद्याधर and not monkeys.

8. 6b हनूमत् is in Jain Mythology the 20th कामदेव and hence he is mentioned as मयरकेउ (मकरकेतु) and by its synonyms. Compare 25. 9b below.

10. 3a सेस लेवि, having taken the शेषा, i. e., flowers etc, offered to the deity. When a devotee visits a temple, he takes home with him some portion of the निर्मात्य or ashes or some article dedicated to the deity.

15. 2 पावणि, i. e., हनुमान्. 12 सुवण्णभिगारयहु खय्यरु दिण्णउं ढंक्णु, broken earthen plate is placed as a cover to close the mouth of a golden vessel. भिगार is भृङ्गार, known as झारी in Marathi.

22. 12a ओलक्खिय पयजुयल्लणेण, मन्दोदरी recognised सीता as her daughter by signs or marks on her feet.

24. 13b चाणरायारु, हनूमत् who was a विद्याधर, assumed the form of a monkey and stood before सीता. This explains, according to Jain Mythology, the reason for the belief that हनूमत् was a monkey.

26. 8b गूढह अहिणाणवयाहं देमि, I shall mention certain very confidential happenings between you and राम so that you will recognise me to have come from him. This अभिज्ञान is supplied in the following lines of this कडवक and a few lines of the next कडवक.

28. 10a-b णियकुळ वि etc. When fire burns its own race, i. e. trees or wood from which it is born, how can it forgive its enemy, i. e., water? Water is heated by fire on this account.

29. 13b णं दहमुहरमणहु कोसपाणु, as if सीता swore that she would never dally with रावण. कोशपान is a शपथ or दिव्य, ordeal, which one solemnly undertakes. Compare गाथासप्तशती, 448, सप्तासमय जलपूरिअजलिं विहडिएक्वामअर, गोरीअ कोसपाणुजअं व पमहाहिवं णमह.

LXXIV

4. 16 जोत्तिउ दूयभरि पुणु सो जि धवल, हनूमत् was again asked to go to लङ्का as a दूत, and the poet humourously compares him to a bull (धवल) that is

yoked to a cart a second time. According to Hindu Mythology अङ्गद was the दूत of राम.

6. 4b तिष्णि वि एयउ, i. e., श्रीः, सीता and वसुंधरा (पृथ्वी) as mentioned in 5. 11 above, and 13. 9b below.

8. 15 वलह्यउच्छुधणु, God of love bears a bow made of sugar-cane.

15. 3b रत्तउ ह्यगीउ सयंपहहि, a reference to अश्वग्रीव the first प्रतिवासुदेव who made love to स्वयंप्रभा and was killed by त्रिपुष्ट the first वासुदेव of the Jain Mythology.

16. 7a नील, one of the friends of सुग्रीव; b कुमुय, another friend of सुग्रीव. 9 and 10 mention कुन्द and नल who are allies of सुग्रीव.

LXXV

1. 8b गिक्कुंसु कुंसु, names of रावण's followers.

2. 9b महु समउ खगाहिउ एउ ताव, Let first वालि (खगाहिउ) come with me to लङ्का. 10b करिवर महामेहक्कु देउ, Let him give me the excellent elephant called महामेघ.

3. 7b अणउत्तु वि, even though it is not expressly said.

4. 1b एक्कु जि सिहि अण्णु जि वायवेउ, there is already one calamity, viz., fire, and to add to it there comes the gust of wind. 12 मइं कुइइ, when I am angry.

6. 10b किलिकिलिपुरिं, the lord of the किलिकिलिपुर. i. e., वालि.

9. 2b एवडु फुरणु, such valour or activity.

LXXVI

2. 6b अत्तु कलिं डुक्कइ, will reach this place (लङ्का) today or tomorrow. 8a विणविंभु, रावण was born in the विद्याधर race founded by विनमि (विणवि) who was the brother of नमि. See MP. Vol I, pp 121-137.

3. 5a वज्जावत्तरासणइत्यडु, The name of the bow of राम is वज्जावर्त.. 9a पंचयणु, the conch पाञ्चजन्य of वासुदेव, here of लक्ष्मण. 14 कुंभयणु महु वीयउ; रावण says to विभीषण that if विभीषण leaves him, he (रावण) will have कुम्भकर्ण to help him.

4. 5a तणुमीइ, by a blade of grass one cleanses one's teeth. The form तणु for तृण is irregular.

6. 10a वाणरविजह वाणर होइवि, All विद्यार्थs assumed the form of monkeys and then visited लङ्का.

9. 9a गमणें जासु होइ काली गइ, fire, the movements of which leave a black passage or smoke. अग्नि is often called धूमध्वज.

LXXVII

2. 8b चंदहासु, the sword of रावण. 14 अग्दहं बलवतहं हरिचलहं तसहुं, we are afraid of हरि (लक्ष्मण) and बल (राम) who are very strong.

3. 13 विहुरि वि धीरु, रावण was full of courage (धीर) even in adversity (विहुरि, विधुरे सति, सकटकाले सति).

6. 1 भुवणुत्तुरडिणिवणे किं हुओ णिघोसो, Is there a noise of falling of worlds standing one upon the other ? There are several भुवनs which stand one upon the other and thus form an उत्तुरडि, उतरंड, as it is called in Marathi. 6b बइवसु, god of death (यम).

9. 5-17 A fine description of the dust raised by the fight.

13. 5a अशिणिहसणसिहिजालु, flames of fire produced from the clashing of swords. 13b सीसके सहुं सिरु, head along with the crown or cap (शिरस्त्राण).

LXXVIII

1. 2 कण्हु, कृष्ण, i. e., लक्ष्मण who has a dark complexion. 15a-b विजय-पर्वन् and अञ्जनगिरि are the names of elephants of लक्ष्मण and राम. See also 3. 4b and 3. 11a below.

5. 11a-b पइ समुडु etc. A warrior says to another warrior, " You have given your head (as capital) in paying the debt of your master, and are using your blood as interest on the capital."

8. 3a धरियलोह तेण जि ते गुणचुय, the arrows are धरियलोह, i. e., have an iron edge or have greed (लोह, लोभ) and therefore they are गुणचुय, discharged by bow-string (गुण) or are destitute of virtues (गुण).

9. 21 ओत्परिउ, arrived on the scene.

10. 14 बोळिउं पालेसमि, I shall keep my word.

11. 3b सखारु, jarring words, words mixed with salt as it were. Compare क्षते क्षारनिक्षेपणम्.

13. 8b वीर पद्म, राम who had a white complexion similar to that of a white lotus, is called पद्म (पद्म) and पुराण describing his story are called पद्मचरित, पद्मपुराण etc.

14. 8a-b तह्ररजलि etc. The line records two popular sayings that in a small lake a crab is called a जलचर although the term means मकर, while in a place where there are no trees, एरण्ड becomes a big tree. Compare: निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते.

15. 1 वेणि वि पीयवास, Both रावण and लक्ष्मण wore yellow garments. In Hindu mythology कृष्ण is called पीताम्बर.

16. 6a वीसपाणि, i. e., रावण, although रावण according to Jain Mythology had only two arms, still he is called वीसपाणि owing to the influence of Hindu Mythology.

18. 1 महुमहणमहाब्रह्मे, on the great warrior who killed मधु. Note there are two प्रतिवासुदेव, viz., मधु and मधुसूदन or महसूयण.

20. 14 भडभालविणिहयई...भवियव्वक्करई, writings about the future of warriors which were written on their forehead. 15 जाइवि (याचित्वा), having obtained by begging.

21. 7b अंगुलियड भंजइ राहवि, cracking of fingers on some one indicates disrespect for him. चोटें मोडणें is found in modern Marathi. 13a कणावर इहु णाहु महारड, this husband of mine has married me when I was quite young; so our love is unbroken. Compare : यः कौमारहरः स एव हि वरः.

23. 4a अजु सरासइ सत्यु ण सुयरइ, today the goddess of learning (सरस्वती) will not remember or recite the शास्त्र, owing to the death of रावण. रावण is known for his learning. In Hindu Mythology he is the son of a famous sage पुलस्त्य who is a Brahmin.

24. 3a णारड णाड आड णासणविहि, It was not नारद who arrived (and induced your mind to carry off सीता), but it was your destiny bringing death upon you that had come. Note that रावण made up his mind to carry off सीता on the mischievous advice of नारद. 12a कुल्लिडु वि बुणेहिं विच्छिण्णड, even hard adamant (वज्र) was bored by insects. Death of रावण from the hand of लक्ष्मण is as unexpected as the boring of वज्र by insects.

25. 1 दइसुहु तुहुं, राम says to विभीषण that he should now take the place of दइसुख (रावण). 6b-12b These lines describe the removal of the dead body of रावण, on a palanquin decked by columns of plantain trees, with umbrella held over it.

29. 3b मेहिवि पडु काहु नुयणत्तणु, who but राम is so noble ?

LXXIX

2. 11b सउणंदयासि, a sword called सौनन्दक because it was a gift from सौनन्दयक्ष. Of the seven gems which a वासुदेव- as अर्धचक्रिन् possesses, sword is one and it is called सौनन्दक as the गदा is called कौमोदकी. According to Jain Mythology वासुदेव and बलदेव have seven and four marks respectively. They are given in the following verses:

असिः शंखो धनुश्चक्रं शक्तिर्दण्डो गदामवत् ।

रत्नानि सप्त चक्रेशे रक्षितानि मरुद्गणैः ॥

रत्नमाला हलं भास्वद्रामस्य मुशल गदा ।

महारत्नानि चत्वारि बभूवुर्भाविनिर्द्वैते ॥

गुणमद्र—उत्तरपुराण—62.—148—149.

3. 8a तहिं होतउ गउ, he went from that place. Note the use of होतउ with तहिं rather than तहां. Compare हेमचन्द्र, iv. 355.

6. 10b को णारउ को सुरविमाणि, who will, in that case, be born in hell and who will be born in heaven? 12 जइ खणि खणि जि खउ etc. This is the famous doctrine of क्षणिकत्व of the Buddhists. सइंबुद्धे, by self-enlightened Buddha.

9. 6-9 These lines tell us that राम had eight sons विजयराम and others, and लक्ष्मण had several, पृथ्वीचन्द्र and others, from his wife पृथिवी.

11. 4b लच्छीहरणि, in the body of लक्ष्मीधर, i. e., लक्ष्मण.

LXXX.

3. 4a अप्पउ एक्कु etc. For detailed notes on this passage see Vol. I, pp. 628-632.

9. A fire description of the Rainy Season.

15. 12-13. For details of नवरस, छत्तीस दिट्टिउ and चउसहि कर see Vol. I, pp. 603 and 609.

16. 7b रण व रविहि, the name of the wife of the sun is रण or as. T says रनादेवी.

APPENDIX I

(Adapted from Mr. G H Khare's Mūrtivijñāna, pp. 202-5)

दिगम्बरजैनमतेन
तीर्थकरसूतिविज्ञानम् ।

१ क्रमाङ्कः	२ तीर्थकरनाम	३ वर्णः	४ लाञ्छनम्
१	ऋषभः	काञ्चनः	वृषभः
२	अजितः	काञ्चनः	हस्ती
३	संभवः	”	अश्वः
४	अभिनन्दनः	”	वानरः
५	सुमतिः	कुङ्कुमः	धर्मचक्रम्
६	पद्मप्रभः	”	कमलकलिका
७	सुपार्श्व	काञ्चनः	पद्मफणः सर्पः
८	चन्द्रप्रभः	श्वेतः	चन्द्रः
९	सुविधिः (पुष्पदन्त)	”	कर्कटः
१०	शीतलः	काञ्चनः	धर्मचक्रम् (श्रीवृक्षः)
११	श्रेयांसः	”	हरिणः
१२	वासुपूज्यः	रक्तः	वृषभः
१३	विमलः	काञ्चनः	वराहः
१४	धनन्तः	”	ऋश्वः
१५	धर्मः	”	वज्रम्
१६	शान्तिः	”	कच्छपः
१७	कुन्धु-	”	अजः
१८	अरः	”	हरिणः
१९	मह्लिः	नीलः	घटः ;
२०	मुनिसुप्रतः	कृष्णः	कच्छपः
२१	नभिः	काञ्चनः	अशोकवृक्षः
२२	नेमिः	कृष्णः	शंखः
२३	पार्श्वः	नीलः	सप्तफणः सर्पः
२४	महावीरः	काञ्चनः	सिंहः

APPENDIX I (Contd.)

(Adapted from Mr G. H. Khare's Mūrtivijñāna, pp. 202-5)

दिगम्बरजैनमतेन
तीर्थकरमूर्तिविज्ञानम् ।

५ यक्षः	६ वाहनम्	७ यक्षिणी	८ वाहनम्
गोमुखः	हस्ती	चक्रेश्वरी	गरुडः
महायक्षः	हस्ती	रोहिणी	गोधा
त्रिमुखः	मयूरः	प्रसक्तिः	हंसः
यक्षेश्वरः	हस्ती	वज्रशृङ्खला	हसः
तुम्बुरुः	गरुडः	पुरुषदत्ता	हस्ती
कुसुमः	वृषभः	मनोवेगा	अश्वः
वरनन्दी	सिंहः	काली	वृषभः
विजयः	हंसः	ज्वालामालिनी	मार्जारः
अजितः	कच्छपः	महाकाली (अजिता)	वृषभः
ब्रह्मेश्वरः	कमलकलिका	मानवी	पद्म
ईश्वरः	वृषभः	गौरी	वृषभो गोधा वा
कुमारः	मयूरः	गान्धारी	सर्पः
षण्मुखः	कुक्कुटः	वैरोटी	सर्पः
पातालः	नक्रः	अनन्तमतिः	हंसः
किंनरः	मत्स्यः	मानसी	सिंह हसो वा
किंपुरुषः	वृषभः	महामानसी	मयूरः सिंहो वा
गन्धर्वः	हरिणः	जया-विजया	मयूरः
केन्द्रः	मयूरः	अजिता	हंसः लोहपीठ वा
कुबेरः	हस्ती	अपराजिता	हंस
वरुणः	वृषभः	बहुरूपिणी	सर्पः
भृकुटी	वृषभः	चामुण्डा	नक्रः
सर्वाहः	देवालयः (अश्वः)	कूष्माण्डिनी	सिंहः
धरणेन्द्रः	कच्छपः	पद्मावती	हंसः
मातङ्गः	हस्ती	सिद्धायिनी	हंसः

APPENDIX II

तीर्थकरवर्णना

१	२	३	४	५
तीर्थकरनाम	तृतीयभवः, नगरं	द्वितीयभवः	पूर्वतीर्थान्तरालम्	जन्मस्थानम्
१ ऋषभः	वज्रनाम, पुंडरिंकिणी	सर्वार्थसिद्धिदेव	—	अयोध्या
२ अजितः	विमलवाहन, सुसीमा	अनुत्तरदेव	पञ्चाशल्लक्षकोटिसागरोपम	अयोध्या
३ संभवः	विमलवाहन, क्षेमपुर	त्रैवेयकदेव	त्रिंशल्लक्ष " "	श्रावस्ति
४ अभिनन्दनः	महाबल, रत्नसंचय	अनुत्तरदेव	दश " " "	साकेत
५ सुमतिः	रतिषेण, पुंडरिंकिणी	वैजयन्तदेव	नव " " "	"
६ पद्मप्रभः	अपराजित, सुसीमा	त्रैवेयकदेव	नवतिसहस्रकोटि " "	कौशाम्बी
७ सुपार्श्वः	नन्दिषेण, क्षेमा	मध्यमत्रैवेयकदेव	नवसहस्रकोटि " "	वाराणसी
८ चन्द्रप्रभः	श्रीवर्मादयः—	अच्युतदेव	नवशतकोटि " "	चन्द्रपुर
९ सुविधिः	महापद्म, पुंडरिंकिणी	प्राणतदेव	नवतिकोटि " "	काकन्दी
	पुष्पदन्तो वा			
१० शीतलः	पृथ्वीपाल, सुसीमा	आरणदेव	नवकोटि " "	राजभद्र भद्रिला वा
११ श्रेयांसः	नलिनप्रभ, क्षेमपुर	अच्युतेन्द्र	—	सिंहपुर
१२ वासुपूज्यः	पद्मोत्तर, रत्नपुर	महाशुक्रदेव	५४ सागरोपम	चम्पा
१३ विमलः	पद्मसेन, महानगर	सहस्रारदेव	३० " "	काम्पिल्य
१४ अनन्तः	पद्मरथ, अरिष्टनेमि	षोडशस्वर्गदेव	९ " "	साकेत
१५ धर्मः	दशरथ, सुसीमा	सर्वार्थसिद्धिदेव	४ " "	रत्नपुर
१६ शान्तिः	मेधरथ, पुंडरीकिणी	सर्वार्थसिद्धिदेव	३ " "	हस्तिनापुर
१७ कुन्धुः	सिंहरथ, सुसीमा	अनुत्तरदेव	१ " "	"
१८ अरः	धनपति, क्षेमा	जयन्तदेव	९९ लक्षकोटि	हस्तिनापुर
१९ महिः	वैश्रवण, चीतशोक	अपराजितदेव	१ सहस्रकोटि	मिथिला
२० सुव्रतः	हरिवर्मा, चम्पा	प्राणतेन्द्र	५४ लक्ष	राजगृह
२१ नमिः	पार्यिव, कौशाम्बी	अपराजितदेव	६० " "	मिथिला
२२ नेमिः	—	जयन्तदेव	५ " "	शौरिपुर
२३ पार्श्वः	आनन्द, अयोध्या	प्राणतदेव	८३७५० वर्ष	वाराणसी
२४ महावीरः	नन्द, छत्रपुर	षोडशस्वर्गदेव	२५० वर्ष	कुण्डग्राम

APPENDIX III (Contd.)

गणधरसंख्या

[The No. of gods and goddesses is infinite and that of lower animals finite for all Tirthankaras and hence not tabulated]

७	८	९	१०	११	१२
विक्रियर्षिवादिन	मनःपर्ययज्ञानिन	अनुत्तरवादिनः	आर्यिकाः प्रमुखा च	श्रावकाः	श्राविकाः
२०६००	१२६५०	१२६५०	३००००० ब्रह्मी-सुन्दरी	३५००००	५ लक्ष
२०४००	१२४५०	१२४००	३२०००० प्रकुञ्जा	३ लक्ष	५ लक्ष
२९८००	१२१५०	१२०००	३३०००० धर्मा	३ "	५ लक्ष
२९०००	११६५०	११०००	३३०६०० मेरुषेणा	३ "	५ "
१८४००	१०४००	१०४५०	३३०००० अनन्तमति	३ "	५ "
१६८००	१०३००	९६००	४२०००० रतिषेणा	३ "	५ "
१५३००	९१५०	८६००	३३०००० मीना	३ "	५ "
१४०००	८०००	७६००	३८०००० वरुणा	३ "	५ "
१३०००	७५००	६६००	३८०००० धोषा	२ "	५ "
१२०००	७५००	५७००	३८०००० धारणा	२ "	५ "
११०००	६०००	५०००	१२०००० धरणा	२ "	४ "
१००००	६०००	४२००	१०६००० सेना	२ "	४ "
९०००	५५००	३६००	१०३००० पद्मा	२ "	४ "
८०००	५०००	३२००	१६००० सर्वश्री	२ "	४ "
७०००	४५००	२८००	६२४०० —	२ "	४ "
६०००	४०००	२४००	६०३०० हरिषेणा	२ "	४ "
५१००	३३००	२०५०	६०३५० भाविता	२ "	३ "
४३००	२०५५	१६००	६०००० यक्षिला	१६० सहस्र	३ "
२९००	१७५०	१४००	५५००० बन्धुषेणा	१ लक्ष	३ "
२२००	१५००	१२००	५०००० पुण्यदत्ता	१ "	३ "
१५००	१२५०	१०००	४५००० मंगिनी	१ "	३ "
११००	९००	८००	४०००० यक्षी	१ "	३ "
१०००	७५०	६००	३६००० सुलोचना	१ "	३ "
९००	५००	४००	३६००० चन्दना	१ "	३ "

APPENDIX IV

चक्रवर्तिनः

१ नाम	२ तीर्थम्	३ पूर्वभवः	४ जन्मस्थानम्	५ मातापितरौ
१ मरतः	ऋषभः	सर्वार्थसिद्धिदेवः	अयोध्या	ऋषभः—यशोमति
२ सगरः	अजितः	अच्युतदेवः	साकेतम्	समुद्रविजयः—विजयादेवी
३ मघवान्	धर्मः	त्रैवेयकदेवः	साकेतम्	सुमित्रः—मद्रादेवी
४ सनत्कुमारः	धर्मः	अच्युतेन्द्रः	विनीतपुरम्	अनन्तवीर्यः—महादेवी
५ शान्तिः	शान्तिः	सर्वार्थसिद्धि- अहमिन्द्रः	हस्तिनापुरम्	विश्वसेनः—अह्रादेवी
६ कुन्धुः	कुन्धुः	अनुत्तरदेवः	”	शूरसेनः—श्रीकान्ता
७ अरः	अरः	जयन्तदेवः		सुदर्शनः—मित्रसेना
८ सुभौमः	अरः	—	साकेतम्	सहस्रबाहुः—विचित्रमतिः
९ पद्मः	मल्लिः	अच्युतदेवः	वाराणसी	पद्मनाभः—श्यामादेवी
१० हरिपेणः	मुनितुम्बत.	सनत्कुमारदेवः	भोगपुरम्	पद्मनाभः—अह्रादेवी
११ जयसेनः	नमिः	महाशुकदेवः	कौशाम्बी	विजयः—प्रभंकरि
१२ ब्रह्मदेवः	नेमिः	सौधर्मदेव.	काष्मिण्यम्	ब्रह्मराजः—चूलादेवी

APPENDIX IV (Contd)

चक्रवर्तिनः

६ देहमानम्	७ वर्णः	८ आयुःप्रमाणम्	९ निर्वेदकारणम्	१० गतिः
५०० शरासन	काञ्चनः	अशीतिलक्षपूर्वाणि	पलितदर्शनम्	मोक्षः
४५० ”	”	५४ लक्षपूर्वाणि	पुत्रनाशः	”
४२ $\frac{१}{२}$ ”	”	५ लक्ष	—	”
४२ $\frac{१}{२}$ ”	”	३ ”	देहच्छविनाशः	”
४० ”	”	१ ”	पलितदर्शनम्	”
३५ ”	”	—	मुनिदर्शनम्	”
३०(२०) ”	”	८४ सहस्र वर्षाणि	शरदभ्रविनाशः	”
—	—	६० ”	—	नरकः
२२ ”	काञ्चनः	३० ”	अभ्रविनाशः	मोक्षः
२० ”	”	१० ”	चन्द्रग्रहणम्	”
१५ ”	”	३ ”	विद्युत्पतनम्	”
७ ”	—	७ शतानि	—	नरकः

APPENDIX V

बलदेववासुदेवाः

(Only Eight of the Nine are Tabulated)

१	२ तीर्थम्	३ नाम	४ तृतीयभवः	५ वैरकारणम्
I { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	श्रेयांस ” ”	विजय त्रिपृष्ठ अश्वग्रीव	विशाखभूति विश्वनन्दि विशाखनन्दि	नन्दनवन — —
II { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	वासुपूज्य ” ”	अचल द्विपृष्ठ तारक	वायुरथ सुषेण विन्ध्यशक्ति	गुणमञ्जरीवेश्या — —
III { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	विमल ” ”	धर्म त्वयंभू मधु	नन्दिमित्र सुकेतु वलि	द्यूत — —
IV { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	अनन्त ” ”	सुप्रभ पुरुषोत्तम मधुसुदन	महाबल वसुषेण चण्डशासन	नन्दादेवीहरण — —
V { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	धर्म ” ”	सुदर्शन पुरुषसिंह मधुक्रीड	नरवृपम सुमित्र राजसिंह	पराजय — —
VI { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	अर ” ”	नन्दिप्रेण पुण्डरीक निशुम्भ	— — सुकेतु	— — —
VII { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	महि ” ”	नन्दिमित्र दत्त वलि	राम विराम पिशुनमन्त्री	यौवराज्यस्यालामः — —
VIII { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	मुनिसुमत ” ”	राम (पद्म) लक्ष्मण रावण	विजय चन्द्रचूल —	— — —

APPENDIX V (Contd)

बलदेववासुदेवाः

(Only Eight of the Nine are Tabulated)

६ द्वितीयभव.	७ मातापितरौ	८ देशः नगर	९ वैरकारणम्	१० देहप्रमाणम्	११ गतिः
महाशुक्रस्वर्ग —	प्रजापति-जयवती प्रजापति-मृगावति मयूरग्रीव-नीलाजनप्रभा	सुरम्यदेश-पोदनपुर — अलका	— स्वयंप्रभाविवाह —	८० शरासन — —	मोक्ष नरक नरक
प्राणतकल्प — कल्पामर	ब्रह्मा-सुभद्रा ब्रह्मा उववा or उषा. श्रीधर श्रीमती	भारतं-द्वारवती — भरत, भोगवर्धन	— गन्धहस्ती —	७० — —	मोक्ष नरक नरक
अनुत्तरविमान लान्तयस्वर्ग कल्पामर	रुद्र-सुभद्रा रुद्र पृथिवीदेवी समरकेशरी-सुन्दरी	द्वारवती — रत्नपुर	— कल्पदान —	६० — —	मोक्ष नरक नरक
सहस्रारदेव सहस्रारदेव —	सोमप्रभ जयवती सोमप्रभ-सीता विलास-गुणवती	द्वारवती — वाराणसी	— कल्पदान —	५० — —	मोक्ष नरक नरक
सहस्रारदेव माहेन्द्रसुर —	सिंहसेन-विजया सिंहसेन-आम्बिका —	खगपुर — हस्तिनापुर	— कल्पदान —	४५ — —	मोक्ष नरक —
सौधर्मस्वर्ग — —	वरसेन-वैजयन्ती वरसेन-लक्ष्मीमति —	चक्रपुर — —	— पद्मावतीविवाह —	२६ — —	मोक्ष नरक नरक
सौधर्मस्वर्ग — —	अग्निशिख-अपराजिता अग्निशिख केशवती —	वाराणसी — मन्दिरनगर	— क्षीरसागर हस्ती —	२० — —	मोक्ष नरक नरक
मणिचूलदेव सूर्वाचूल देव —	दशरथ सुबला दशरथ-कैकेयी पुलस्ति मेघलक्ष्मी	वाराणसी अयोध्या च लङ्काद्वीप	— सीताहरण —	१५ — —	मोक्ष नरक नरक

ADDENDA ET CORRIGENDA

पृष्ठम्	कडक्वम्	पंक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
३	१	१२	भवइ जसोहो	भवइजसोहो
४	१	१६	सण्णाणवह	सण्णाणमहं
२३	७	१	मय मउल ^०	मयमउल ^०
२६	१२	११	मंदिर ^०	मंदर ^०
३१	१८	२५	भइरहि	भईरहि
४१	१२	२५	अहगया	अहं गया
४३	१४	५	एकृणवीस	एकृणतीस
७३	७	१२	पणावेवि	पणवेवि
७४	१०	४	सुवंधु सुवेरे सुनिच्च ^०	सवधुसु वेरिसु निच्च ^०
७९	३	७	सुरपुरसाणहि	सुरपुरसंणिहि
८८	५	१	चूडामणि सरिस	चूडामणिसरिस
८९	५	१२	पक्खणेत्तहु	पक्खणेत्तहु
९२	१०	१	पक्खमेत्तइ	पक्खमेत्तए
१२२	८	१४	धोयंदति ^०	धोयदंति ^०
१३२	५	५	सुहंकरि	सुहंकरि
१५०	६	५	पर पराइय	परपराइय
१५१	७	१	पुरएवहु	पुरुएवहु
१५४	१२	१	कण्हहु	कण्हहु
१५८	१	१०	धणु लंगूलहु	धणुलंगूलहु
२४३	१४	९	वण्णानि	वण्णमि
२६२	१७	२	छहववलि	छुहववलि
३१३	३	२	छम्मा सताम	छम्मास ताम
३१७	९	५	जाय	जाया
३७०	४	१	मेणियराहु	मेणियरायहु
३७०	४	११	सिसु मंतिमित्तु	सिसुमति मित्तु
३७१	५	१२	धगणाह ^०	धगणाह ^०
३८१	२८	३	वेण्णि वे	वेण्णि वि
४१७	१	१	सिगग ^०	सिगग ^०
४२०	५	२	देवदेव	देवदेव
४६१	८	९	मट्ठिवाडि	मट्ठिवाडि
४७१	२	१४	अमट्ट	अमट्ट
४८६	५	१८	मट्ट देहु	मट्ट देहु
५३६	४	१५	देहि णहु	देहि णहु

Notes

5 6-37 Notes on चट्ठ 6 here are those of Samdhi II.

